



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]
No. 59]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2007/फाल्गुन 18, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2007/PHALGUNA 18, 1928

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2007

फा. सं. 10-7/2007-वी.सी.आई.—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् से भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर बनाए रखने की अपेक्षा की गई है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे जो मान्यताप्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता धारण करते हैं और जो उस राज्य/संघ की पशु चिकित्सा के पास तत्समय नामावलीगत है जिस पर अधिनियम का विस्तार है।

सचिव, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर, 2006 का अनुपूरक साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

भारतीय पशुचिकित्सक रजिस्टर अनुपूरक 2006

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1	ए. सतीशकुमार (एस. आरमुगम)	टीएनएसवीसी/8 67/05	56/24, टीघर्स कॉलोनी, डाक रासीपुरम, जिला नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	18-जन-77
2	ए.अफरोज आसफ (के. आसफ अली)	टीएनएसवीसी/3 279/05	3/42, पूरुमन्नालुर, तिरुपुर मेन रोड, कोयम्बतूर 641666, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	17-अक्टू-71
3	ए. आनंद (डी. अलॉयसियस)	टीएनएसवीसी/3 151/05	न्यू हाउस, रामापुरम डाक, कन्याकुमारी जिला 629303, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/95	29-मार्च-72
4	ए. अनिल (वी. अल्फोंस)	टीएनएसवीसी/4 71/05	134, सहाया इल्लम, कवियालूर, कट्टाथुरई डाक, के.के. जिला- 29158 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	09-अप्रैल-82
5	ए. अनीथा, पत्नी श्री सी. भास्कर बाबू	टीएनएसवीसी/1 599/05	6, अशोक नगर, तिरुपत्तूर, एल्लोर जिला 635601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	29-मई-76
6	ए. अर्धनारी (एम. अर्धनारी)	टीएनएसवीसी/1 699/05	नागापट्टी, धिन्ननकुप्पम डाक, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला-636903, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	21-जून-60
7	ए. अरीवुचेलवन (एम. अरीवलगन)	टीएनएसवीसी/2 307/05	239ए/1, गांधीपुरम, चेरनकुडिल, अथूर, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/95	23-जुला-72
8	ए. अरुल मेरी तोवीना (सी. अरुल स्वामी)	टीएनएसवीसी/6 20/05	103, मेलासुरंगुडी रोड, शारोन शेल्टर, नागरकोइल-4, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	24-सित-80
9	ए. अरुल राज (एस. अमल राज)	टीएनएसवीसी/1 945/05	56-ए, रायप्पा मुदाली स्ट्रीट, कृष्णागिरि-835001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	30-मई-66
10	ए. अरुलमोड़ी, (पत्नी श्री के. विनोद कुमार)	टीएनएसवीसी/3 143/05	19, मरप्पन स्ट्रीट, एस.पी. पुडूर, नमक्कल 637002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/97	11-जुला-73
11	ए. अरुणारंजिनी, पुत्र श्री एम. अर्धनारी	टीएनएसवीसी/3 492/06	136/83ई, इंदिरा नगर, लॉ कॉलेज रोड, काननकुनुली डाक, सलेम 636008	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	3-मार्च-83
12	ए. असोकन (वी. अरुलान्धम)	टीएनएसवीसी/2 159/05	18/8, देवश्याम स्ट्रीट, बीएसएन एल क्वा. के सामने, नागरकोइल 629001 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	16-फर-60
13	ए. बाबूजी (आर. अन्नामलई)	टीएनएसवीसी/8 95/05	के-धरमाथुपट्टी डाक, कन्नीवाडी (वाया), डिंडीगल जिला 624714, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	23-नव-55
14	ए. बालासुब्रमण्यन (एस. आर. अथिमूलम)	टीएनएसवीसी/3 155/05	अधियाइल्लम, ए29, न्यू कॉलोनी, सुब्बासाज नगर, बोडीनायकानूर, पिन 625513, थेनी जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	05-जुला-70
15	ए. बालासुब्रमण्यम (एम. अंदी)	टीएनएसवीसी/1 409/05	27, वैट्स नगर, नीलामंगलम क्रॉस रोड, कल्लाकुरिची 606202, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	15-जन-67
16	ए. बूबलान (एम. अधीमूलम)	टीएनएसवीसी/3 77/04	सोरियमपट्टी पुडूर, मोबिरीपट्टी डाक, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला - 636902, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	30-मई-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
17	ए. चंद्रसेखरन (एम. अधिसेशन)	टीएनएसवीसी/2 477/05	नं. 13ए, असानूर रोड, सांदा पेट्टई, थिरुकोइलूर 605757, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	13-अप्रैल-55
18	ए. चिन्नूसामी (अम्मासाई)	टीएनएसवीसी/2 513/05	1एफ, अयम्पानगर, हैड पोस्ट ऑफिस के निकट, गोबीचेट्टी पलायम 638452, इरोडे, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/85	20-मई-82
19	ए. दामोदरन (एम. अन्नामलाई)	टीएनएसवीसी/1 964/05	77ए, कृष्णन् स्ट्रीट, पिल्लायार पलायम, कांचीपुरम 631501, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/02	23-मई-79
20	ए. देवकी (एम.आर. अरुणाचलम)	टीएनएसवीसी/2 79/04	2/8, ईस्ट स्ट्रीट, कूनावेलम पट्टीपुडूर डाक, रासीपुरम ता., नमक्कल जिला पिन 637401	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	16-मई-79
21	ए. धनलक्ष्मी (के. अभिमन्यु)	टीएनएसवीसी/5 09/05	पोथानाइचम थोट्टम, थंडागुंडनूर, बेरुकुरिची डाक, नमक्कल जिला, 637402, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	10-मई-79
22	ए. डोमिनिक दिवियानाथन (ए. अरुलडॉस)	टीएनएसवीसी/2 971/05	48, बालाजीनगर, फेज III, पीएटी सी महल के निकट, सथुवाचरी, वेल््लोर-9, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/86	11-दिस-60
23	ए. दुराईसामी (के.आर. अधिरायप्पा गुंडेर)	टीएनएसवीसी/1 870/05	कोडियानूर, एलएन पट्टी डाक, संकरपुरम तालु, विलुपुरम जिला 606402, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	25-मई-67
24	ए. इलांगोवन (एन. अरुनाचलम)	टीएनएसवीसी/2 185/05	37, इवाईयारु ग्राम, पुडुवा कोट्टई डाक, अराधंग तालुक, पुडुकोट्टई जिला, 614616, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/78	31-दिस-55
25	ए. इलावारसी (जी. अरिवज़गन)	टीएनएसवीसी/2 302/05	85/ए11, कडियान स्ट्रीट, मडुकुर मेनरोड, पट्टुकोट्टई तालुक, तंजीर जिला 614601, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	20-अप्रैल-74
26	ए. इलुमलाई (ए. अरुमुगम)	टीएनएसवीसी/1 292/05	ओड्डयानाथन, ओड्डियाथुर डाक, विलुपुरम जिला, 605701, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	07-जन-77
27	ए. ईश्वरी (पी. आनंदन)	टीएनएसवीसी/1 501/05	मेट्टुपट्टी, चामराजपेट डाक, मेट्टूर तालुक, सालेम जिला 636451, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	01-मई-78
28	ए. गोपालकृष्णन (जी. अरुलप्रकासम)	टीएनएसवीसी/4 08/04	9/52 डी, पुलिस कॉलोनी, पौपरापट्टी डाक, धर्मपुरी जिला 636609, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	01-मई-78
29	ए. गोपीनाथन (पी. अलगप्पन)	टीएनएसवीसी/8 38/05	33/14, भरतीयार स्ट्रीट, एन.जी.जी.ओ.नगर, थिरुकोइलूर, विलुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/88	30-जुला-74
30	ए. गोविंदन (ए. अन्नामलाई)	टीएनएसवीसी/1 004/05	पनानगडु अंडीपट्टी डाक, सिवथापुरम, सालेम 636307, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	10-जून-73
31	ए. हबीबुर रहमान (एम. अब्दुल शुक्र)	टीएनएसवीसी/1 252/05	19, कायलार ओट्टराई, वडाई स्ट्रीट, वंडावासी-604408, थिरुवन्मलाई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/79	29-सित-66

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
32	ए. हेमावथी (एन. अरिवझागन)	टीएनएसवीसी/2 31/03	7/20, 20वीं स्ट्रीट, पांचवा एवेन्यू, अशोकनगर, चेन्नई-83, तमिलनाडु	बीवीएससी/एंडए एच/पीयू/00	07-जुला-71
33	ए. जलागंदीश्वरन (एम. वी. आरमुगम)	टीएनएसवीसी/2 465/05	एस-1, गैस्ट हाउस लाइन, साथनूर डैम, एवं डाक 606708, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	07-जून-68
34	ए. जनागराजन (ए. आरमुगम)	टीएनएसवीसी/1 162/05	15/31, पाची स्ट्रीट, डाक व तालुक, नमक्कल जिला पिन 637408, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	24-फरवरी-
35	ए. जवाहर (वी. अयारु)	टीएनएसवीसी/2 00/03	कोडाकुडडी, मुथारासपुरम डाक 610201, नागपट्टिनम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/73	17-जून-80
36	ए. जयकुमार (पी.एस. आदिशेशन)	टीएनएसवीसी/1 10/03	15/43/254, विवेकानंद स्ट्रीट, राजाजीपुरम-II, थिरुवलूर 602001, थिरुवलूर तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	26-जन-79
37	ए. जेहानमोहन (एन. आरमुगम)	टीएनएसवीसी/9 29/05	डोर न. 37, सलाईथोट्टम, पुडुचाटरम, 624629, ओडान चटरम वाया, डिडीगल जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	23-जून-61
38	ए. जिरोम (एस. अंडोनीसामी)	टीएनएसवीसी/6 36/05	न. 4/281, थिरु नगर, पट्टानूर वनूर, विल्लुपुरम 605111, तमिलनाडु	बीवीएससी/एंडए एच/पीयू/04	21-सित-82
39	ए. जॉन मलानी थिलागन (जे.एम. आर्थर)	टीएनएसवीसी/2 186/05	631, एम.एस. रोड, जे.वी.जॉन विला, एम.एस. रोड, नगरकोइल 629001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/69	12-जुला-44
40	ए. जोसेफ राज (एम. एण्टोनी जेवियर)	टीएनएसवीसी/1 219/05	2/245, पीएंडटी कॉलोनी, 11वीं स्ट्रीट, थूट्टकुडी, 628008, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	23-मई-69
41	ए. कलाई सेलवन (सी. अन्नदुरई)	टीएनएसवीसी/9 5/03	मुल्लुकुरिची, अथानाकुरिची डाक, सेंदुराई तालुक, पेरैम्बलूर जिला-62, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	17-जून-80
42	ए. कलाईकन्नन (एस. अथियप्पन)	टीएनएसवीसी/2 432/05	26, डी/1, कोनेरीपट्टी एक्स.न.1, रासीपुरम डाक, 637408, नमक्कल जिला-तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	12-मई-73
43	ए. कनागराजन (एस. अपावु पिल्लई)	टीएनएसवीसी/1 119/05	523, नॉर्थ 4 स्ट्रीट, पुडुकोट्टई 622001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	11-अप्रैल-48
44	ए. कंडासामी (के. अर्जुनन)	टीएनएसवीसी/2 503/05	8-6-200, पेरुमलचेट्टी स्ट्रीट, वाया: जलकांतापुरम, सलेम जिला, पिन 636501 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	01-मई-61
45	ए. कंडासामी (टी.एम. अप्पु)	टीएनएसवीसी/1 5/02	153, मेन रोड, थिम्माराजापेट डाक, अयानपेट (एस. ओ.), कांची पुरम जिला-31601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	10-जून-79
46	ए. कन्नन अलपदी (टी. टी. अलपदी)	टीएनएसवीसी/8 /02	कीलाराधार वीधी, मुडुकलाथूर 623704, रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	21-अप्रैल-79
47	ए. कार्थिक, पुत्र आरमुगम	टीएनएसवीसी/3 325/06	4/2, रोड, नट्टानिकोट्टई, डाक पेरारुसानी, जिला थंजावुर 614804, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	14-मई-62

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
48	ए. कविथा (के. अप्पूसामी)	टीएनएसवीसी/4 93/05	एलूर पुडुपट्टी, एलूर डाक, पुडुचाटरम (वाया), नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	12-सित-82
49	ए. कौसिगन (वी. अय्यमपरुमल)	टीएनएसवीसी/7 11/05	एल-63, हुडको कॉलोनी, पुराना मंदिर, होसुर पिन 635109, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	18-जन-76
50	ए. कृष्णासामी (एस.ए. आरमुगम)	टीएनएसवीसी/3 112/05	4/90, वेस्ट स्ट्रीट, सेदुंगा नल्लूर, थूथुकुडी जिला, पिन-628809, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	27-मार्च-68
51	ए. कुमार (एस.एन. आरमुगम)	टीएनएसवीसी/2 535/05	कट्टूर, पाचमपलायम डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/74	01-अक्टू-49
52	ए. कुमारसन (पी. अन्नामलाई)	टीएनएसवीसी/1 691/05	वायाक्कडु, सीरापल्ली डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	09-फर-70
53	ए. लक्ष्मणन (एस. अलगुमलाई)	टीएनएसवीसी/2 417/05	नदायानेरी, एरीचंथम डाक, शिवा कासी तालुक, विरुधु नगर, जिला- 626103, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	05-जून-77
54	ए. लक्ष्मीपथि (एम. अरुणागिरी)	टीएनएसवीसी/2 821/05	न. 231/194, बवासाकीपेट रोड, थिम्माराजमपेट डाक, कांचीपुरम तालुक व जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	23-मार्च-77
55	ए. लॉरेंस, पुत्र श्री ए. एंटोनी	टीएनएसवीसी/3 525/06	87, मेन रोड, पुनावसाल 614803, थंजावुर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	16-सित-72
56	ए. महालक्ष्मी (पी. अम्बरासन)	टीएनएसवीसी/5 91/05	न.1, मार्केट कमिटी स्ट्रीट, जायमकोंडन, पिन-621802, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	26-फर-81
57	ए. महेंद्रन (के. अरालियाप्पन)	टीएनएसवीसी/2 593/05	पप्पावलासू, चिनियमपलायम डाक, कुन्नाथूर 638103, इरोड जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	12-मई-60
58	ए. महेंद्रन (आर. अलगारसामी)	टीएनएसवीसी/7 36/05	7/63, एम. रेडियापट्टी डाक, अरुप्पुकोट्टई तालुक, विरुधु नगर जिला 626118, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	15-जुला-72
59	ए. महेश्वरन (एस.वी. अंगामुथु)	टीएनएसवीसी/1 111/05	105/275, कलारमपट्टी मेन रोड, देवी थिएटर के निकट, सलेम 636015, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	14-दिस-60
60	ए. मंगला गौरी, पुत्र श्री वी. पेरासिरियन	टीएनएसवीसी/3 388/06	प्लॉट न.173, एचआईजी, फेस II, नूलानेबूर, चौथा मेन रोड, मोगापेयर, वेस्ट गार्डन्स-37, तमिलनाडु,	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	01-जून-69
61	ए. मणिकंदन (एम. आरुमुगम)	टीएनएसवीसी/3 018/05	कंडासामीपुरम डाक, एस. कैलासपुरम, वाया:ट्यूटिकोरिन जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/95	27-मई-70
62	ए. मणिकंदन, (ओ. अददूसामीथावेर)	टीएनएसवीसी/1 084/05	न.10, प्रोनमारीनगर, अरुलआर्ट स्टूडियो के पीछे, उसीलम पट्टी रोड, चेक्कनुरानी, मदुरई जिला, 625514, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	06-मई-75
63	ए. मनिमरान, पुत्र श्री ए. अय्यासामी	टीएनएसवीसी/3 330/06	काचाकुडी ग्राम, इरंजी डाक, कल्लाकुरिची तालुक, विल्लुपुरम जिला, 608305 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	19-मई-83

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
64	ए. मनिवासगम (एस. अरुणाचलम)	टीएनएसवीसी/० 16/०5	277, छठा क्रॉस स्ट्रीट, पलानीअंदावर नगर, पलानी, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/६६	24-जुला-६५
65	ए. मरिया सुंदर (डी.के. एंथनी सामी)	टीएनएसवीसी/१ 947/०5	58/16एल, पहला क्रॉस, गोपालकृष्ण कॉलोनी, कृष्णागिरि - 635001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/८८	21-मई-६६
66	ए. मरुधई राजू (के. अंगामुथु)	टीएनएसवीसी/१ 730/०5	नं. 7, एसएमईएस कॉलोनी, चौथी स्ट्रीट, नॉर्थ एक्स., त्रिची 620021, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/८७	05-फर-६३
67	ए. मेरी निर्मला जोसेफीन (एस. अरोकियासामी)	टीएनएसवीसी/१ 272/०5	13/17, एम.एल. पिल्लई नगर, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली 627002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/००	15-मार्च-७५
68	ए. मीनाक्षी सुंदरम (पी. एस. अम्बालाथुजुवर)	टीएनएसवीसी/९ 51/०5	नं. 1, बंगलो III स्ट्रीट, कोविलपट्टी 628501, थुतुकुडी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/९१	07-अप्रैल-६६
69	ए. मौहम्मद सफीउल्लाह (ए. अब्दुल हमीद)	टीएनएसवीसी/२ 084/०5	184, पलानिअप्पन स्ट्रीट, पददूकोट्टई डाक, थंजावूर जिला 614801, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/६५	31-अक्टू-६०
70	ए. मुरुगन (अम्मासाईनावर)	टीएनएसवीसी/२ 561/०5	4, अम्बागई नगर, मिल रोड, गोबीचेदटीपलायम, इरोडे जिला 636476, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/८४	12-मई-६०
71	ए. नवीनकुमारवेल, पुत्र श्री टी. आर्धनारी	टीएनएसवीसी/३ 308/०६	377/ई, गनेश श्रीनिधि इल्लम, सक्थीनगर, पोन्नापेट, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/०५	12-मई-८२
72	ए. नेहरु कुमार (पी. अय्यानर)	टीएनएसवीसी/१ 115/०५	प्लॉट नं. 454, 14वीं स्ट्रीट, करपागम नगर, के. पुडुर, मदुरई, 625007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/९१	11-मई-८४
73	ए. पदमावथी (पत्नी श्री ए. कमला कन्मन)	टीएनएसवीसी/९ /०२	102, अरानी कूट रोड, चेर्यार - 604407, थिरुवन्नामलई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/०२	17-जून-७६
74	ए. पलानीवेलु (के. आरुमुगम)	टीएनएसवीसी/२ 050/०५	प्लॉट नं. 14, माराननगर, एञ्जिल इल्लम, वांडीगेट, लालपुरम डाक, चिदांबरम 808001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/८९	30-मई-६५
75	ए. परमेश्वरन (आर.एस. अलगारसामी)	टीएनएसवीसी/१ 455/०५	224/13सी, सुब्बन स्ट्रीट, थेनी 625531, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/८३	07-जून-५९
76	ए. परसुरामन (आर. अन्नमलई)	टीएनएसवीसी/२ 662/०५	33/७९, अरुणाचल नगर, रामानूर-पशुपथिपलायम, करूर जिला 639002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/७६	23-मई-४९
77	ए. पार्थसारथी, पुत्र श्री जी. अय्याकुट्टी	टीएनएसवीसी/३ 422/०६	8/220, करुमपलमंड डाक, नीलगिरि, तमिलनाडु 643102, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/८०	06-अक्टू-५६
78	ए. पेरियासामी, पुत्र श्री एल. अन्नामलई	टीएनएसवीसी/३ 565/०६	मुथागाँडानूर, उमयालपुरम डाक, अददूर तालुक, सलेम 636009, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/९३	10-जून-७०

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
79	ए. पूनकोडी, पत्नी श्री ई. मनीवन्नन	टीएनएसवीसी/1 056/05	37, चिन्नुसामी नगर, सीलनाईकेनपट्टी बाईपास, सलेम, 636201, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	11-जून-75
80	ए. प्रभाकरन, पुत्र श्री पी. आर. आरमुगम	टीएनएसवीसी/3 395/06	19 (पुराना न. 7), रंगानाथर स्ट्रीट, तिरुपट्टूर वेल्लोर जिला 635601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	27-मई-70
81	ए. प्रभु (एन. अम्माशी)	टीएनएसवीसी/1 912/05	चापर्थी डाक, कृष्णागिरि (तालुक एवं जिला) 635106, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	20-जुला-77
82	ए. प्रेमकुमार (सी. अरविंदन)	टीएनएसवीसी/1 724/05	316-2, राजीव नगर, मनप्पारई, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	26-मई-70
83	ए. राधा कृष्णनन (आर. एस. अलगारसामी)	टीएनएसवीसी/1 114/05	183 ए /8, थिरुमुक्कुरगन कॉलोनी, थिरु नगर, मदुरई 625006, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	17-मई-53
84	ए. राधामनि (वी. अय्याकन्नु)	टीएनएसवीसी/2 40/04	मेट्टुपट्टी (डाक), नमक्कल तालुक व जिला, पिन-637020, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	05-जून-77
85	ए. राघवन (एम.एस. अजागिरीसामी)	टीएनएसवीसी/2 759/05	27, न्यू कॉलोनी, पहली गली, थिरु नगर, कटपडी, वेल्लोर-6, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	16-जुला-73
86	ए. राजा (एल. अंगामुथु)	टीएनएसवीसी/2 603/05	27B, साथी रोड, वीरप्पन चटरम, इरोडे 638004, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	31-मई-67
87	ए. राजा गोपाल (वी. अंगामुथु)	टीएनएसवीसी/9 89/05	न. 35, मुथु नगर, राजा सर्बोजी कॉलेज डाक, थंजावर 613005, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	29-मार्च-54
88	ए. राजा (वी. अलंगू)	टीएनएसवीसी/1 082/05	प्लॉट न.3, बालाजीनगर, प्रथम स्ट्रीट, कलई नगर एक्सटेंशन पीएलटी नगर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	07-जून-67
89	ए. राजादुरई (आर. अरुमुगम)	टीएनएसवीसी/1 035/05	बी.न.25, कामची नगर, चिन्नन थिरुपति डाक, सलेम जिला, पिन-636008, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	20-जुला-60
90	ए. राजामनिक्कम (आर. अमृतलिंगम)	टीएनएसवीसी/1 720/05	1/259 ए, नागप्पा नगर, नाची कुरिची, सोमरसम पेट्टई डाक, त्रिची 620102, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	12-मार्च-59
91	ए. राजन (टी. आरुमुगम)	टीएनएसवीसी/2 930/05	313/51, वल्लालर नगर, टीएन एचबी ईस्ट, अयांथीरुमलिगई, सलेम 636008, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	30-जून-68
92	ए. राजापंडियन (सी. अयारथेवर)	टीएनएसवीसी/2 80/04	121-बी, चिन्नासामी पिल्लै स्ट्रीट, बेठानीयापुरम, मदुरई -16, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	13-मई-79
93	ए. राजासेखर (पी. अंडियाप्पन)	टीएनएसवीसी/5 61/05	थारकाकुडी ग्राम, अय्यापट्टी डाक, मेलूर जिला, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	28-फर-74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
94	ए. राजेश (आर. आध्यात्मनाथन)	टीएनएसवीसी/5 07/05	55/ए. 48, कॉलोनी थॉडी रोड, सिवगंगा, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	01-जुला-82
95	ए. राजकुमार (पी. अय्याकन्नु)	टीएनएसवीसी/1 51/03	मेलनरियाप्पनूर डाक, केलाकुरिची, तालुक, विलुपुरम जिला पिन 606, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	10-मार्च-80
96	ए. रामचंद्रन (आर. अजागप्पन)	टीएनएसवीसी/9 78/05	नॉर्थ स्ट्रीट, रामुदयानपट्टी, मिन्नाथूर डाक, पेरुंगलूर वाया, पुडुकोट्टई 622203, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	21-फर-69
97	ए. रामालिंगम (सी. अन्नामलई)	टीएनएसवीसी/2 722/05	सोबनापुरम डाक, थुरईयूर तालुक, त्रिची जिला, पिन 621018, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	15-फर-67
98	ए. रमन (डी. अन्नामलई)	टीएनएसवीसी/1 122/05	कुरुंगालिकुप्पम, कलावासल डाक 606903, पोलूर तालुक, थिरुवनमलई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	15-मई-69
99	ए. रामप्रबा (आर. अर्जुनन)	टीएनएसवीसी/2 780/05	82, कवाडईकारा स्ट्रीट, डिंडीगल, डिंडीगल जिला, पिन-624001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	17-नव-72
100	ए. रामासामी (एन. अलगप्पन)	टीएनएसवीसी/2 813/05	ए. कुडीकाडु, अन्नुकूर डाक, वेपानथट्टई तालुक, पेरम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	04-मई-67
101	ए. रामासामी (एस. अलगारसामी)	टीएनएसवीसी/9 24/05	पन्नई पट्टी, इरियोडी डाक, डिंडीगल अन्ना जिला, पिन-624702, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/81	15-जून-57
102	ए. रमेश कुमार (एम. अंबू कुमार)	टीएनएसवीसी/1 88/03	न. 503, टी.एन.एच.बी., अम्बूर, वेल्लोर जिला 635802, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	30-जन-79
103	ए. रविचंद्रन (ए.पी. अलालगप्पन)	टीएनएसवीसी/9 08/05	बोम्मीनाकेनपट्टी, पलामेदु डाक, मदरई जिला 625503, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/89	09-जून-84
104	ए. रविचंद्रन (अडियप्पन)	टीएनएसवीसी/1 184/05	178, अरानथंगी रोड, पेरदुरानी डाक, थंजावूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/89	03-जुला-65
105	ए. रुबा नांथिनी (ई. अन्ना कामु)	टीएनएसवीसी/1 35/03	91/79, प. अशोक नगर, अंगूनगर, डाक डिंडीगल 624001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	11-मई-80
106	ए. सबाशीश्वरन (आरुमुगम)	टीएनएसवीसी/1 60/03	13/36, आगराहरम स्ट्रीट, मुडुकुलाथूर, रामनाथुपरम, पिन-62370, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	16-मई-60
107	ए. सबीबुल्लाह (एम.वाई. अब्दुल रशीद)	टीएनएसवीसी/3 285/05	2/74, अलगप्पा नगर, तीसरा क्रॉस, अरियालूर, 621704, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	02-जून-66
108	ए. सदससिवम (के. अरुमुगम)	टीएनएसवीसी/2 557/05	16, राजेंद्र नगर, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, उदुमलई रोड, धारापुरम, इरोडे 638656, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	18-फर-60

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
109	ए. सदससिवम (एम.के. आरुमुगा मुदलियार)	टीएनएसवीसी/1 150/05	चेट्टीकडु, पलानथिमीपट्टी, पलानथिमीपट्टी डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/79	13-अप्रैल-54
110	ए. सम्बानाथन (के. अप्पासामी)	टीएनएसवीसी/2 725/05	206, नुगमबक्कम ग्राम व डाक, तिरुवल्लूर तालुक व जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	07-मई-52
111	ए. संगीथा (ई. आनंद भास्करन)	टीएनएसवीसी/6 35/05	पेरुमलकोइल स्ट्रीट, एल.आर. पलायम डाक, विल्लुपुरम तालुक, पिन 605107 तमिलनाडु	बीवीएससीएंड एएच/पीयू/05	01-जुला-81
112	ए. सांथी (आर. आनंदन)	टीएनएसवीसी/5 13/05	समथाकूपम, देवानूर डाक, जिंजी तालुक, विल्लुपुरम जिला, पिन:604208 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	01-जून-82
113	ए. सथ्या (एस. अरुणाचलम)	टीएनएसवीसी/9 0/03	न.4, पुराना न. 15, मनिमंडपम, महावीर गार्डन, चौथा जोन, 6 क्रॉस, कावंगराई, पुझिल ओ चेन-066, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	28-दिस-80
114	ए. सेड्थून (पी. जमाल हसन)	टीएनएसवीसी/2 128/05	4/35 ए, मदीना फ्लैट, एफ1, पहली मंजिल, अजिगिरिनगर मेन रोड, वडापलानी, चेन्नई-26	बीवीएससी/टी एनएयू/88	21-मई-65
115	ए. सेल्वा प्रवाहरन (एस. अन्नापडियान)	टीएनएसवीसी/1 857/05	234, कालंथापनाई डाक, पानागुडी (वाया), राधापुरम तालुक, तिरुनेलवेली-627109, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	10-मई-70
116	ए. सेल्वालथा (एम. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/1 156/05	11/109, पट्टनम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	02-नव-75
117	ए. सेंथिल (ए.टी. अरुलराज)	टीएनएसवीसी/3 102/05	37-सी, कामराज नगर, अलन कुलम, तिरुनेलवेली जिला, पिन 627851, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	02-अप्रैल-64
118	ए. सेंथिल कुमार (ए. अन्नामलई)	टीएनएसवीसी/1 355/05	2/66, संकरी मेन रोड, थारमंगलम डाक, सालेम जिला, पिन 636502, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	12-जुला-74
119	ए. सेंथिल कुमार (पी. अम्बिगपथी)	टीएनएसवीसी/2 489/05	44, टैंक स्ट्रीट, सककरापुरम, जिंजी, विल्लुपुरम जिला 604202, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	10-मार्च-67
120	ए. सेंथिल कुमार (पी. एम. अन्नामलई)	टीएनएसवीसी/1 15/03	347-ए, गनेसा कॉलोनी, पेराम्बलूर डाक एवं जिला, 62121, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	23-नव-79
121	ए. सेंथिल कुमार, पुत्र श्री एम. अरुमुगम	टीएनएसवीसी/3 546/06	377, रोड स्ट्रीट, नॉर्थमपुंडी डाक, तिरुवन्नामलई जिला 606802, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/06	16-मार्च-81
122	ए. सेंथु (एम. आरुमुगम)	टीएनएसवीसी/1 53/03	11बी, दूसरा क्रॉस, मोहन राव कॉलोनी, कृष्णागिरि, धरमपु जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	19-मार्च-79
123	ए. सेथुरमन (वी. आनंद पद्मनाभन)	टीएनएसवीसी/3 275/05	10, प. मडावल्लम स्ट्रीट, करूर 639001, करूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	08-अक्टू-49

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
124	ए. शा. अरुण, पुत्र श्री ए.स. शानमुगम	टीएनएसवीसी/3 616/06	"अरुणइक्लम", अरगलूर डाक, सलेम जिला, पिन 636101, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	07-जून-76
125	ए. शमीमा शाहीन, (पत्नी ए.स. मुजामिल रफीक)	टीएनएसवीसी/2 636/05	प्लॉट नं. 11, फर्स्ट स्ट्रीट, राम सहित नगर, धोरापडी, वेल्डोर 632002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	20-अप्रैल-59
126	ए. शानमुगम सुंदरम (सी. आरुमुगम)	टीएनएसवीसी/2 825/05	1/448, थडुवाथेलम, भारथी नगर, रामनाथपुरम, रामनाथ पुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	02-अप्रैल-65
127	ए. सिंगारावेल (वी.सी. अरुणाथलम)	टीएनएसवीसी/2 781/05	नं. 2, उदयम नगर, कावेरीपक्कम 632508, वेल्डोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	02-जुला-55
128	ए. सिवाकुमार (ए. अइय्यर)	टीएनएसवीसी/5 94/05	फायर स्टेशन के पीछे, सुंदर नगर, घोलोवदन, मदुरई जिला, पिन-625215 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/08	06-जून-81
129	ए. सिवाकुमार (के. अम्नमलई)	टीएनएसवीसी/9 99/05	पुराना नं. 23, नया नं. 47, अलप्प मुवाली स्ट्रीट, पेराम्बूर बैरक रोड, सेन्ई 800012	बीवीएससी/टी एनएयू/75	17-जन-49
130	ए. सिवनाथन, पुत्र श्री आयमुथाकडार	टीएनएसवीसी/3 493/06	नांवावल्ली मेन रोड, डाक धारमंगलम, सलेम जिला, पिन-636802, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	04-जन-53
131	ए. सिवराज कृष्णम, पुत्र श्री ए. अंगमा मुवलियार	टीएनएसवीसी/3 392/06	2/10-1, थिरुवेंकटम नगर, टीवीएस नगर रोड, काकुंडन पलायम डाक, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 72	05-जन-49
132	ए. सिवराजकृष्णम (ए.स. आरुमुगम)	टीएनएसवीसी/3 090/05	37, वडाककुवासेल्वी अम्मान कोइल स्ट्रीट, मुधुकुष्णपुरम, कडयानलूर, 627751, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	06-फर-61
133	ए. सोजा एम. ऑगरिस्टन)	टीएनएसवीसी/4 82/05	मारोडी हाउस, ए.स.-टी-मंगड, कनयाकुमारी 629172, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	25-मई-61
134	ए. सोबराजियान (ए.स. अम्पाय)	टीएनएसवीसी/9 98/05	प्लॉट नं. 37, प्रथमसीमापुरम, श्रीनिवासपुरम, थंजापुर 613009, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	09-जन-57
135	ए. श्रीधर (ए.डी)	टीएनएसवीसी/2 649/05	कुमारन कोविल स्ट्रीट, देवादानम, राजापलायम (थाया), विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	13-जून-62
136	ए. सुबुराज (टी.ए. अलगारसामी)	टीएनएसवीसी/1 547/05	137, V स्ट्रीट, जियोन नगर, थिरुमंगलम तालुक, मदुरई 625706, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	11-अग-68
137	ए. सुब्रमणियन, (आरुमुगम)	टीएनएसवीसी/1 158/05	17, गौस रोड, वाडीवलार इक्लम, थम्ममपट्टी डाक 638113, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	02-मई-53
138	ए. सुब्रामण्यन (वी. अय्यामुथु)	टीएनएसवीसी/1 943/05	अप्पू गौडेरथोटम, थंडा गौडानूर, बेल्लुकुरिधी डाक, नमक्कल जिला, 637402, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	07-अप्रैल-63

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
139	ए. सुब्रमण्यन (पी. अइयाकन्नु)	टीएनएसवीसी/3 16/04	कल्लई ग्राम, ओलाईपडी डाक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621717, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/04	19-अप्रैल-79
140	ए. सुगन्या (पत्नी श्री बी. सर्वनन)	टीएनएसवीसी/2 803/05	107, वल्लालर नगर, चौथी स्ट्रीट, मेडिकल कॉलेज रोड, थंजावूर, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/00	15-जुला-76
141	ए. सुकुमारन (ए. अलगमुथु)	टीएनएसवीसी/2 032/05	29-सी, वेल्लनाथन पट्टी, मेलूर जिला, पिन-625106, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/97	01-जून-71
142	ए. सुमथी (पत्नी श्री चक्रधर दास)	टीएनएसवीसी/3 209/05	368, जी.पी. नगर, पेरियाकुरिची, नेवेली-2 (डाक), कुडालोर जिला, 607802, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/88	13-अप्रैल-84
143	ए. सुमीथा (सी. एंटोनीसामी)	टीएनएसवीसी/1 873/05	18, छठा पूर्वी क्रॉस रोड, गांधी नगर, वेल्लोर 632008, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीबीएंड एएसयू/93	02-अप्रैल-70
144	ए. सुमित्रा राव, पुत्र श्री एम. आरमुगन	टीएनएसवीसी/3 341/08	न. ए4, "कथिर इल्सन" जी.एच. पेराम्बलूर मेन रोड, धुरईयूर 621010, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/08	19-दिस-82
145	ए. सुंदरम (एन. अधिनादर)	टीएनएसवीसी/3 187/05	2/7, केनेडी स्ट्रीट, किडारा कुल्लन डाक, 627854, तिरु नेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/92	12-मई-87
146	ए. सुवरेसन (एन. आरमुगन)	टीएनएसवीसी/2 815/05	प्लॉट न. 14, सुबध्याह नगर, नवानंभपुरमन्न, पोळर, चेन्नई 600118	बीबीएससी/टी एनएयू/88	21-जून-85
147	ए. सुसई मारी निक्कन (एन. अरोकियम)	टीएनएसवीसी/1 504/05	65, सुबर्नन स्ट्रीट, मंगुकुमवन, कुडालोर 607001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/00	13-अग-74
148	ए. थमिजासामन (बी. अइयानार)	टीएनएसवीसी/6 02/05	4/54, कृष्णम कोविल स्ट्रीट, जोसई केरी कृष्णापुरम डाक, राजापलायन ताडुक, जिला बिरुधुनगर-626301 तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/05	08-अक्टू-81
149	ए. थंगावेलु (पी. अर्धनारी)	टीएनएसवीसी/2 868/05	150ए, कालथोस्लालार, कुरई स्ट्रीट, नवाना, इरोडे जिला, पिन-638301, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/88	20-जून-83
150	ए. थवल थेंडराल (ओ. पी. आरमुगन)	टीएनएसवीसी/1 875/05	डी.न. 6/618, कोनाम्बल स्ट्रीट, कलैटरेट के सामने, धर्मपुरी 636705, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/01	25-जुला-77
151	ए. थवामथी (बी. अन्नामलाई)	टीएनएसवीसी/3 48/04	8ए/2, (नया न. 8), बुक्की मेन, पलावर रोड, चेन्नई- 600084, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/04	03-जून-80
152	ए. थाया सेखर (डी. अबेलराज)	टीएनएसवीसी/2 189/05	35, विक्टरा मेन, वेदुरमिन्नम, नगरकोइल 629003, कन्या कुमारी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/87	30-मार्च-84
153	ए. थिरुवालारसेल्वी (एन. अम्बानाथन)	टीएनएसवीसी/1 116/05	थिरु भुवन इल्सन, कीरमंगलन (ड.) व डाक, पुडुकोट्टई जिला, पिन-614624, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/88	20-जून-72

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
154	ए. ध्यागविजयन (पी. अर्थनारी)	टीएनएसवीसी/1 934/05	29/41, कुरुंगलपट्टी इट्टेरी रोड, सलेम-636006, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	04-दिस-52
155	ए. उमा महेश्वरी (एन.ए. अलगार)	टीएनएसवीसी/4 62/05	244, बाजार स्ट्रीट, सेंट थॉमस मार्गट, चेन्नई 600016, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	10-जून-81
156	ए. वाडीवेल (के. आरुमुगम)	टीएनएसवीसी/1 173/05	मनियाकरन पट्टी, कन्नीवाडी डाक, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	05-अप्रैल-69
157	ए. वनिथा (आर. अन्नामलई)	टीएनएसवीसी/1 83/03	25 बी, कोनेरीपट्टी एक्स. न. 1, रासीपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	11-फर-79
158	ए. वलैया गौडेन (आर. अर्थनारी)	टीएनएसवीसी/2 022/05	153/93, नाडु स्ट्रीट, वेलानडी वासु डाक 63105, इडापडी तालुक, सलेमजिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	30-जून-72
159	ए. वेंकट रामनन (बी. अनंथ कृष्णन)	टीएनएसवीसी/2 766/05	प्लॉट न. 15, वेधम्मल नगर, मिन्जूर 601203, थिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/67	25-जुला-64
160	ए. वेंकटेशन (पी. अरुणाचलम)	टीएनएसवीसी/3 47/04	सेंगडु डाक, येरकॉड तालुक, सलेम जिला, 636601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	05-जून-80
161	ए. वेनुगोपाल (आर. आरुमुगम)	टीएनएसवीसी/1 476/05	30, नाथमेडु स्ट्रीट, मावुरेडडी, परमाथी डाक, वेलूर तालुक, नमक्कल जिला 637207, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	05-जून-76
162	ए. वीरचाबाडोस (बी. अजिथाडोस)	टीएनएसवीसी/2 093/05	12-ए.क्रिस इल्लम, छठीस्ट्रीट, सेनकुंधार नगर, चिन्नासलेम 606201, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	11-जुला-87
163	ए. अब्दुनायग (पी. अबूबकेर)	टीएनएसवीसी/1 779/05	22, पुलिस लाइन वेस्ट, मेन रोड, सेक्कालई-कराईकुडी- 530002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/62	26-जून-55
164	ए. बालाकृष्णन (एम. आरुमुगम)	टीएनएसवीसी/2 405/05	चिथाम्बलम डाक, पल्लडम 641664, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	17-नव-76
165	ए. चंद्रसेखरन (अलागरसामी नायडु)	टीएनएसवीसी/2 274/05	79, 13वीं स्ट्रीट, पदमावती नगर एक्सटें., मदमबक्कम, सेलईयूर, ताम्बरम, चेन्नई	बीवीएससी/टी एनएयू/79	13-अप्रैल-55
166	ए.ई. गनपथि (इलुवंडी गौडेर)	टीएनएसवीसी/1 192/05	एम 3, अलगू नगर, हाउसिंग यूनिट, त्रिची रोड, नमकल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	01-अप्रैल-50
167	ए. इलांगोवन (अरुमुगम)	टीएनएसवीसी/2 360/05	4/208, प्लॉट न. 60, प्रियंका नगर, कट्टूर, त्रिची 620019, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	27-जन-86
168	ए. गोविंदराज (अन्नामलई)	टीएनएसवीसी/1 808/05	कावापट्टी, सेलमपट्टी डाक, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन 636903, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	25-जून-77
169	ए.के. मुरुगन (करुपन्ना)	टीएनएसवीसी/2 066/05	करियागौडेन पुडुर, श्री राम पुरम डाक, डिंडीगल तालुक, पिन-624622, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	11-जून-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
170	ए.के. मुरुगेशन (ए. कलियापन)	टीएनएसवीसी/3 091/05	ए/23, टी.एन.बी.एच. क्वा., रिजर्वर लाइन, सिवाकासी वेस्ट, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/82	16-मई-58
171	ए.के. कमलाकन्नन (के. ए. कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी/1 813/05	115/8, फाइव स्टार अपार्ट., पाडीकुप्पम सलाई, अन्नानगर पश्चिम, चेन्नई 600040	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	02-दिसं-74
172	ए.कंडासामी (एन. अवुदइयाप्पन)	टीएनएसवीसी/2 355/05	नया न.14, पुराना न.1, एनजी ओकोलो, IV स्ट्रीट एक्स., सीएस आई चर्च के निकट, मेलाग्राम 827818, तेनकासी तालुक, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/97	06-जुला-74
173	ए.एल.एस सेंथूर सेल्वम (ए.एल. समुथिरक्कन)	टीएनएसवीसी/1 279/05	299, चिन्नासुराकाईपट्टी स्ट्रीट, राजापलायम 628117, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	14-अप्रैल-71
174	ए.एम. नलिम (एल. कमलाकन्नन)	टीएनएसवीसी/9 65/05	नया न.9, भारथी नगर, मेन रोड, III क्रॉस स्ट्रीट, जामिन पल्लावरम, चेन्नई 600042	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	16-नव-66
175	ए. एम. मौहम्मद इकबाल (ए.एम. मौहम्मद हुसैन)	टीएनएसवीसी/2 296/05	114, मेन रोड, पुथाग्राम, इनान गुडी डाक, नागपट्टिनम तालुक व जिला, पिन-609701, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/87	10-जन-60
176	ए. मारीमुथु (के. आरुमुगम मुदलियार)	टीएनएसवीसी/3 083/05	एच-110, टीएनएचबी कॉलोनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/83	02-जून-59
177	ए.एन. शाहुल हमीद (ए.एम. नैनामौहम्मद)	टीएनएसवीसी/3 068/05	30 ब्यू, रहमनियापुरम स्ट्रीट, कडायानल्लूर डाक, 827751, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/87	15-मार्च-63
178	ए.पी. कुमार (ओ. परमासिवन)	टीएनएसवीसी/1 874/05	एस.आर.सी.अपार्टमेंट्स, III मंजिल, 5/28, करुप्पनासामी कोइल स्ट्रीट, इरोडे 638009, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/82	19-जन-60
179	ए.पी. सेन्थिल कुमार (पेरियासामी एम.)	टीएनएसवीसी/2 743/05	33, कल्लुपाथर कोइल स्ट्रीट, करुनकलपलायम डाक, इरोडे-3, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	01-मई-71
180	ए.आर. इलांगोवन (बी.ए. रामकृष्णन)	टीएनएसवीसी/7 28/05	न. 30, पेरुमल साउथ स्ट्रीट, नागपट्टिनम 811001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/74	16-अप्रैल-60
181	ए.आर. रवि कुमार (ए. पी. रंगासामी)	टीएनएसवीसी/2 747/05	5/66, अथप्पमपट्टी, कोलान गौडाई डाक, तिरुचें गोडई तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	26-मार्च-75
182	ए.आर. सिवकुमार (ए.के. रामचंद्रन)	टीएनएसवीसी/2 539/05	178, सीकेआर नगर, चिन्नकलियूर रोड, काल्तीपट्टी 636605, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/86	10-फर-69
183	ए.आर. जगत नारायणन, पुत्र श्री ए.पी. रंगाचारी	टीएनएसवीसी/3 560/06	प्लॉट न. 7-13/2, बुंगले नगर, कन्ननकुरिची, सलेम-836008, तमिलनाडु	बीबीएससी/एमयू/ 70	11-अक्टू-45
184	ए.आर.आर. बापूजी (ए. राजसेखर)	टीएनएसवीसी/8 04/05	87ए, थिरुनगर, तीसरी गली, अम्बाथुरई, गांधीग्राम-डाक, डिंडीगल 624302, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	04-जुला-69

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
185	ए.एस. पलानीसामी (एम. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/2 500/05	पेरुमलकोविल पुपुर, इविपलायम डाक, कोडुमुडी 638151, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/95	10-अप्रैल-59
186	ए. सेल्वा रमेश (ए. सुब्रमन्यन)	टीएनएसवीसी/3 67/04	147, वैगई कॉलोनी, अन्नागर, मदुरई 625020, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/04	01-जून-80
187	ए. संगीथा	पॉण्डीएसवीसी/ 259/05	129, मेन रोड, मदागडिपेट, पॉण्डीचेरी- 605107	बीबीएससीएंडए एच/पीयू/05	01-जुला-81
188	ए. श्रीनिवासन (एन. अरुणाचलम)	टीएनएसवीसी/1 774/05	10, चिन्कूलम नरियाम्मन कोइल स्ट्रीट, तिरुपट्टूर 636801, वेल्तोर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/00	29-मई-78
189	ए. सुकुमार (एम. चोकासिंगम)	टीएनएसवीसी/2 354/05	टी-58, टी.के.सी. नगर, तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/89	11-मई-67
190	ए.वी. अम्बालगन (ए. वेल्लाईघानी)	टीएनएसवीसी/9 27/05	प्लॉट नं. 314, एमआईजी, सेक्ट. 1, तमिलनाडु हाउ. बोर्ड, मेला अन्नुपमाडी, मदुरई 625009	बीबीएससी/टी एमएयू/61	09-फर-56
191	ए.वी. जेनसिस (एन. अन्नाहम विसेंट)	टीएनएसवीसी/2 24/03	3/40, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, गुरुवारैडुडीयूर, भवानी तालुक, इरोडे जिला 638504, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/03	29-मार्च-79
192	ए.वी. जोसेफ अय्यादुराई (ए. वियागुलम)	टीएनएसवीसी/1 072/05	9-1-53, डबल अग्रहणम, शोलावंदन 625214, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/92	31-जुला-69
193	ए.वी. पुरुषोत्तम (ए. वेंकटरमन)	टीएनएसवीसी/9 32/05	264, चेक्कुमेडु, पुलिस स्टेशन के पीछे, पेन्नाग्राम शहर, धर्मापुरी, जिला 638810, तमिलनाडु	बीबीएससी/एमयू/ 71	22-फर-48
194	ए.वी. कृष्णन (ए.एस. अवस्थामन)	टीएनएसवीसी/2 174/05	नया नं. 109/48, न्यू आवाडी रोड, किलपोक, चेन्नई, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एमएयू/82	18-अक्टू-58
195	ए. वेंकटचलम (एन. आर्मुगम)	टीएनएसवीसी/2 436/05	54, पप्पथी काडु, स्ट्रीट, म्युनिसिपल कॉलोनी रोड, इरोडे तमिलनाडु 638004	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/93	27-मई-70
196	आफताब अहमद, पुत्र श्री खुर्शीद अहमद	राजएसवीसी/32 03/08	इलाही मंजिल, ध्यापारियों का मीहल्ला, जोधपुर, राजस्थान	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/05	15-अग-75
197	आशीष कुमार, पुत्र श्री अबधेश कुमार	बिहारएसवीसी/2 464/04	ग्राम/मीहल्ला-काली स्थान, डाक: मधुबनी उपमंडल, पूर्णिया सहर जिला-पूर्णिया, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/एएयू/05	12-फर-77
198	आशीष मुकुंदन	केरल/3016/0 5	वैशाक, मुल्लूर लेन, कडगम पल्ली, अम्पायारा, त्रिवेंद्रम, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/06	11-अक्टू-80
199	अमय किशोर राजाक, पुत्र श्री रामदेव राजाक	बिहारएसवीसी/2 259/02	ग्राम-महसौरा, डाक महसौरा, थाना लखीसराय उपमंडल लखीसराय, जिला लखीसराय, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/02	15-जन-78
200	अनीता कुमारी, पुत्री श्री अजय कुमार भगत	बिहारएसवीसी/2 489/04	ग्राम/मुहल्ला- सबडिवी. जमशेदपुर जिला-जमशेदपुर, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/बीएयू/04	25-अक्टू-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
201	अभिषेक बैनर्जी, पुत्र श्री दिलीप कुमार बैनर्जी	डब्ल्यूबीएसवीसी /3151/05	कुंड कुंडार बाजार, डाक बिष्णुपुर, जिला बंकुरा—722122, पश्चिम बंगाल	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/05	11-दिसं-81
202	अभिषेक गांधी, पुत्र श्री देवी राम	एचपीएसवीसी/7 23/05	महाजन निवास, घुमारविन 174021, हिमाचल प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/सीएसकेके वीवी/05	20-अग-81
203	अभिषेक कुमार, पुत्र श्री देवी दयाल मंडल	बिहारएसवीसी/2 249/02	ग्राम-पटवार टोला, डाक बड़ी कोडार जन्ना, धाना-साहेब गंज, उप-मंडल साहेबगंजी, जिला साहेबगंज, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/99	15-जून-77
204	अभिषेक उरांव, पुत्र श्री सुखदेव उरांव	बिहारएसवीसी/2 603/05	ग्राम/मुहल्ला-सरायटांड, डाक हातना, रांची विश्वविद्यालय धाना, लालपुर-बिहार	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/05	30-दिसं-80
205	अबुल काशिम गाफ़ी, पुत्र श्री अब्दुल कादर	डब्ल्यूबीएसवी सी/3209/05	ग्राम व डाक-तारागुनिया, जिला- 24 परगना, जिला- 24 परगना, 743405, प.बंगाल	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/05	21-अग-82
206	अभित्य कुमार हाजरा, पुत्र श्री मूल्य कुमार हाजरा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3181/08	सिगुलपुर (उ.), डाक ठांकुर नगर, जिला 24 परगना(उ.), पश्चिमी बंगाल	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/05	03-फर-83
207	आदित्य कुमार पॉल, पुत्र श्री विलीप कुमार पॉल	डब्ल्यूबीएसवी सी/3170/05	मंगलपुर (सुभाष कॉर्नर) डाक बेलताला पार्क, जिला-डी/बीनाजपुर- 721182	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/05	10-नव-81
208	आदित्य मिश्रा, पुत्र डॉ. पी.सी. मिश्रा	एमपीएसवीसी/ 2278/05	33, प्रेम नगर, फोर्ट रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/आईजीकेबीबी /03-04	08-मार्च-77
209	अहीर संजय कुमार डी.	गुजएसवीसी/ 2653/06	दांतीबाड़ा कॉलोनी, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीबीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/06	02-मार्च-81
210	अहीर विराल बाबूसाई	गुजएसवीसी/ 2614/06	6, मैत्रीनगर सोसा., प्रगति नगर के निकट, नारनपुरा, अहमदाबाद-13, गुजरात	बीबीएससीएंडए एच/आनंद कृ. विवि/06	14-अग-82
211	ऐजाज अहमद देलवी, पुत्र श्री जी.एम. देलवी	कर्नाएसवीसी/ 3797	149, पांचवा क्रॉस, 7वां फ्लोर, जयनगर, बंगलौर, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/यूपएस बंगलौर/70	11-अप्रैल-48
212	अजय कुमार गुप्ता, पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता	बिहारएसवीसी/2 540/04	ग्राम/मुहल्ला अम्बा, डाक अम्बा, धाना कुटुम्बा, सबडिवी. औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/एनजीआरएयू /04	08-अग-77
213	अजय कुमार, पुत्र श्री नयकिशोर प्रसाद	बिहारएसवीसी/2 382/03	ग्राम बाबूबानक, डाक व धाना, झांझा, सबडिवी. जमुई जिला, जमुई बिहार	बीबीएससीएंडए एच/ओयूएटी/99	08-जन-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
214	अजय कुमार, पुत्र श्री राम प्रताप सिंह	बिहारएसवीसी/2 653/04	ग्राम/मुहल्ला-दरियापुर डाक - कछियावान, धाना नागा मौसा, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/04	01-मार्च-81
215	अजय कुरुविला	केरल/3083/0 5	अंचेरिल हाउस, आलमपल्ली जंक्शन, पाम्पडी डाक, कोट्टायम 686502, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	31-मई-82
216	अजीत प्रताप सिंह, पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह	यूवीसी/136/0 6	वैट. अधिकारी, वैट.हॉस्पिटल, धारचुला, पिथौरागढ़, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/आईजीकेवीवी /98	05-सित-74
217	अजीत कुमार, पुत्र श्री भगवत प्रसाद	बिहारएसवीसी/2 508/04	ग्राम/मुहल्ला-सोनवा, डाकराइसा, उपमंडल हिलसा जिला- नालंदा, बिहार	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/ 03	01-मार्च-78
218	अजीथेश कुमार, पुत्र श्री जीतेंद्र मिश्रा	बिहारएसवीसी/2 248/02	ग्राम-डागा(प), धाना:कलुआही, सबडिवी. मधुबनी जिला, मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/01	10-जन-78
219	आकाश दीप, पुत्र स्व. श्री रामचंद्र प्रसाद	बिहारएसवीसी/2 575/04	ग्राम/मुह. -मैदी, डाक-कहुआना धाना-कजरीसराय, सब. डिवी.-बिहारशरीफ, जि. नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/04	15-अग-79
220	अकबरी रजनीश कुमार ए.	गुजएसवीसी/ 2616/08	नवागाम, तालुक कलावाड, जिला- जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि. दि./06	26-अक्टू-82
221	अखिलेश कुमार, पुत्र श्री कामता प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/2 552/04	ग्राम/मुहल्ला-लखीबाग, डाक मौसौरी, धाना:मौसौरी, सबडिवी. मौसरुी, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफ एसयू/04	02-जन-80
222	अखिलेश कुमार, पुत्र श्री उषेंद्र प्रसाद	बिहारएसवीसी/2 472/04	ग्राम/मुहल्ला-काखरा, डाक- सोहसराई, धाना-नूरसराय, सबडिवी. बिहारशरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/यूएसधार वाड/02	01-मार्च-77
223	आलोक भार्गव, पुत्र श्री सुरेश चंद्र भार्गव	एमपीएसवीसी/ 2291/05	विष्णु मंदिर के पीछे, कोठी नं. 8 के निकट, शिवपुरी, मध्यप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेबीवी/ 05	01-जन-82
224	अमनदीप, पुत्र श्री सरदारी लाल	पीबीएसवीसी/ 2589/05	राजिन्दर नगर, पठानकोट, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	11-दिस-80
225	अमन गुप्ता, पुत्र श्री परवीन गुप्ता	पीबीएसवीसी/ 2590/05	1720, फेस-11, अर्बन एस्टेट, डुगरी रोड, लुधियाना, पंजाब,	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	12-जुला-83
226	अमनदीप कारु, पुत्री श्री करनैल सिंह	पीबीएसवीसी/ 2638/06	म.न.75-ए, संत एवेन्सू, लेन नं. 3, डाक सुल्तानविंद, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	22-अप्रैल-81
227	अमनदीप, पुत्र श्री भारत भूषण	पीबीएसवीसी /2614/05	म.न. 2862, खेताराम स्ट्रीट, मुक्तसर, पंजाब, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	12-दिस-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
228	अमनदीपसिंहचौहान, पुत्र श्री इंदरजीत सिंह चौहान	पीबीएसवीसी/26 34/06	मुनाक स्ट्रीट, ग्राम एवं डाक -उरमार, जिला- होशियारपुर -144204, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/03	21-फर-80
229	अमरेंदर रेड्डी एम., पुत्र श्री एम. गोपाल रेड्डी	एपीएसवीसी/43 79/05	मधु मेडिकल्स एंड डायगोनो स्टिक्स, एसटीडी टावर के निकट, हुजुराबाद, करीमनगर, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंड एच/एनजीआरए यू/05	22-अग-81
230	अमरजीत साहु, पुत्र श्री उच्छब नंदा	उड़ीसाएसवीसी/ 1985/05	एटी-पानिकोराडा, डाक- पंडालामा, वाया-कलपथारा, जिला- कटक	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी /05	04-मई-80
231	अमाठे विक्रम, पुत्र श्री अमाठे विष्णु राव	कर्नाएसवीसी/37 45/	बाजार रोड, मुनोली डाक, सवादत्ती तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	16-जून-81
232	अम्बिली नारायणन	केरल/3063/0 5	थजाट्ट हाउस, काइपुजाह डाक, कोट्टायम 686602, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	09-मई-81
233	अम्बिली आर.	केरल /3005/05	अरक्कल पुन्नोविकल हाउस, उराकम डाक, थिसूर 680562, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	17-दिसं-80
234	अम्बरीश कुमार गुप्ता, पुत्र श्री प्रेम चंद्र गुप्ता	यूवीसी/ /63/06	वेट. अधिकारी, गवर्न.वेट. हॉस्पि., घनसाली, जिला- टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/यूएसबंगलौर /00	05-फर-73
235	अम्बुज कुमार, पुत्र श्री उमेशजी शर्मा	बिहारएसवीसी/2 488/04	ग्राम/मुहल्ला-डेमी, डाक सुतिहार, थाना-डेमी, सब- डिबी./जिला-सारन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एनजीआरएयू /04	14-सित-76
236	अमीर कुमार समाल, पुत्र श्री रामाकृष्ण समाल	उड़ीसाएसवीसी/ 2037/05	एटी-भाडा, डाक ए लालपुर, थाना-जालेस्वर, जिला- बालासौर, 756032, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	07-जून-80
237	अमित भारद्वाज, पुत्र श्री आर. के. भरद्वाज	पीबीएसवीसी/25 97/05	1478-यू. टी-3 सेक्टर-3, तलवाड़ा, जिला- होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	03-सित-78
238	अमित ध्यानी, पुत्र श्री के.के. ध्यानी	यूवीसी/77/06	ग्राम-ध्यानी गांव, डाक- रानाकोट, जिला- पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडट /03	15-जुला-78
239	अमित डोगरा, पुत्र श्री प्रदीप डोगरा	एचपीएसवीसी/7 44/05	वैली व्यू बिल्डिंग, पुरानी पुलिस चौकी के निकट, संजोली-6, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेके वीवी/05	27-दिसं-81
240	अमित कुमार राय, पुत्र श्री धरम नाथ राय	यूवीसी/146/0 6	वेट. अधिकारी, गवर्न वेट. हाफस्पिटल, जौरा (गनाई), जिला- अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडट /00	08-अप्रैल-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
241	अमित कुमार, पुत्र श्री बुचकुन सिंह	बिहारएसवीसी/2 497/04	ग्राम/मुहल्ला-मुरादपुर, डाक- विष्णुपुर, थाना परवटा, सब-डिवी. गोगरी, जिला खगरिया, बिहार.	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /04	02-जन-78
242	अमित कुमार, पुत्र श्री डॉ. चंद्र भूषण प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/2 331/03	ग्राम:बारकी पायपुरा, डाक एवं थाना-पालीगंज, सब-डिवी./जिला-पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	01-फर-75
243	अमित कुमार, पुत्र श्री कपिल देव राय	बिहारएसवीसी/2 520/04	ग्राम/मुहल्ला-कोडारकट्टा (पुरानटोला),डाक-बारजी,थानामोटीपुर, सबडिवी.प. मुजफ्फर पुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/यूएस बंगलौर/04	11-फर-79
244	अमित कुमार, पुत्र श्री रवीन्द्र प्रसाद सिन्हा	बिहारएसवीसी/2 302/03	ग्राम/डाक-देघ,थाना:मजोरगंज सब-डिवी. सीतामढ़ी सदर, जिला सीतामढ़ी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/02	02-अक्तू-77
245	अमित कुमार, पुत्र श्री सुधांशु शेखर झा	बिहारएसवीसी/2 582/05	ग्राम/मुहल्ला-कल्यानपुर,डाक कल्यानपुर,थाना विभूतिपुर, सबडिवी. रोसरा, जिला- समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	11-दिस-80
246	अमित कुमार सरिन, पुत्र श्री बैद्यनाथ सरिन	डब्ल्यूबीएसवी सी/3202/05	ग्राम-सतबिंदा, डाक कियाबोनी, जिला मिदनापुर, प. बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूए एंडएफएस/05	18-दिस-82
247	अमृता सिंह, पुत्री श्री कांत प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/2 419/04	ग्राम-छपरा भैंसटोला, चिकनौटा, डाक छपरा बहस, थाना सुगौली, सब-डिवी./जिला पू चम्पारन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/03	09-सित-79
248	अनामिका, पुत्री श्री युगल किशोर ठाकुर	बिहारएसवीसी/2 571/04	ग्राम/मुहल्ला-शाशान, डाक शाशान,थानाहसनपुर,सबडिवीरोसेरा,जिला-समस्तीपुर,बिहार	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /04	12-दिस-80
249	आनंद अकेला, पुत्र श्री कृष्णानंद	बिहारएसवीसी/2 510/04	ग्राम/मुहल्ला-माधरा, डाक परवा -नवटोला, सब-डिवी. माधेपुरा,जिला-माधेपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/04	30-मई-77
250	आनंद गुरीकर, पुत्र श्री मलप्या	कर्नाएसवीसी/37 19	विनायकनगर, नालतवास डाक, मुद्देबिहाल तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	10-अक्तू-81
251	आनेद कुमार गिल, पुत्र श्री बचन सिंह	यूवीसी/ 28/06	मैनेजमेंट ट्रेनी, यूएसएनजी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., रुद्रपुर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीयूएंडए /95	01-जन-80
252	आनंद प्रकाश, पुत्र श्री प्रभु रजाक	बिहारएसवीसी/2 375/03	ग्राम:माधरा सराय, डाक: माधरा, थाना दीपनगर,सब-डिवी.बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	09-जून-77
253	आनंद जहान मोहन (पी. ई.एस. वाजर)	टीएनएसवीसी/1 863/05	4/7, वेलकम कॉलोनी, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई-600101	बीवीएससीएंडए एच/टी एनएयू/74	06 -अग-5

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
254	आनंदमय खट्टया, पुत्र श्री केसब च. खट्टया	डब्ल्यूबीएसवी सी/3171/05	ग्राम एवं डाक दुमदन, जिला प./मिदनापुर--721152, प. बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/05	21-नव-82
255	अनन्या भार, पुत्री श्री पूर्णचंद्र भार	डब्ल्यूबीएसवी सी/3160/05	सतमंदिरतला, डाक--सिंगरूर, जिला हुगली--712409, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/05	06-जन-83
256	अनीस सी.	केरल/3075/05	चेरकुन्थ थेनीपलम डाक, मलप्पुरम 673636, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	13-मार्च-81
257	अनीश ए.	केरल/3096/05	अयिनीपुल्ली हाउस, मन्नुथी डाक, थिसूर 680651, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	30-मई-82
258	अनीश कुमार, पुत्र श्री जयन्त कुमार	एचपीएसवीसी/721/05	बॉयसी कॉटेज, समर हिल, शिमला-5, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	06-जुला-80
259	अंगन रॉय, पुत्र श्री अमल काति रॉय	डब्ल्यूबीएसवी सी/3164/05	ब्लॉक IV, फ्लैट-2ए, आची ग्राम 31/1, जैसोर रोड, मध्यमग्राम, कोलकाता-129, प. बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/05	23-जन-82
260	अंशुमान नंदी, पुत्र श्री मनीन्द्र नाथ नंदी	डब्ल्यूबीएसवी सी/3173/05	दैनहाट डाक, जिला बर्दवान, पिन-713502, प. बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/05	31-दिस-81
261	एनी बेंसी जेकब	केरल/3076/05	चकालक्कल हाउस, कैनकारी पूर्व, डाक अलेप्पी, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	22-मई-81
262	अनिल दहिया, पुत्र श्री साहब सिंह	हरिएसवीसी/1857	म.न. 83-आर, मॉडल टाउन, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/96	11-जन-73
263	अनिल कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री हीरा लाल अग्रवाल	एमपीएसवीसी/2322/06	पुरानी सब्जी मंडी, मऊ, भिंड, मध्यप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/आईजीकेवीवी/05	03-सित-76
264	अनिल कुमार आनंद, पुत्र श्री सुदामा प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/2328/03	ग्राम ज्ञानवती तपूया, डाक बुध चौक, थाना पारीपौती, सब-डिवी. काहलमांव, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/99	02-दिस-72
265	अनिल कुमार रावत, पुत्र श्री भूपाल सिंह रावत	यूवीसी/10/06	ग्राम गावली, डाक स्यालदेई, जिला अल्मोडा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी/02	08-जुला-79
266	अनिल कुमार, पुत्र श्री मोती लाल	हरिएसवीसी/1859	307/8, मॉडल टाउन, नरवाना जिला जींद, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	08-दिस-79

क्र.सं.	नाम	पजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
267	अनिल कुमार, पुत्र श्री डी.एस. ठाकुर	एचपीएसबीसी/7 26/05	ग्राम— सैथाल, डाक सैथाल, जोगिन्दर नगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी /05	24-मई-82
268	अनिल कुमार, पुत्र श्री सीताराम महतो	बिहारएसवीसी/2 313/03	ग्राम एवं डाक—दरसूर, थाना वारिसनगर, सब-डिवी समस्ती पुर, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/01	05-जून-76
269	अनिंदय कुमार, पुत्र श्री बिनोद जेना	उड़ीसाएसवीसी/ 2025/05	डोला टैंक रोड, विकट्टी कॉलोनी, एटी/डाक—परालाखेमुंडी, जिला—गजपति, 761200, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/ 05	28-मई-81
270	अनिथा डोकल, पुत्री श्री जनकई नागडू	एपीएसवीसी/43 32/05	वेलमपेटा, समालम्मा मंदिर के निकट, सलूर, विजिया नगरम, जिला—आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	07-अग-82
271	अंजली अरोड़ा, पुत्री शांतिप्रकाश अरोड़ा	पीवीएसवीसी/ 2637/06	म.न. 123, प्रताप नगर, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	02-दिस-79
272	अंजनेया एस.एन., पुत्र श्री नागराजप्पा एस.जी.	कर्नाएसवीसी/ 3720	डाक कुम्बालूर, तालुक हरिहारा, जिला दावणगेरे, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	05-जुला-81
273	अंजनी कुमार मिश्रा, पुत्र श्री बदी प्रसाद मिश्रा	यूवीसी/163/0 6	वेट अधिकारी, गवर्नमेंट वेट. हॉस्पिटल, सिरैन, जिला— टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 02	07-जन-74
274	अंजनी कुमार, पुत्र श्री देवकी नंदा प्रसाद	बिहारएसवीसी/2 565/04	ग्राम/मुहल्ला—पकपार, डाक केओती, थाना बारबीघा, सब-डिवी.शेखपुरा, जिला शेखपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएएंडटी यू/04	15-फर-79
275	अंजू शर्मा, पुत्री श्री जैन नारायण शर्मा	एमपीएसवीसी/ 2319/06	पुष्पांजली कॉलोनी, मुख्तयार गंज, सतना, मध्यप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/आईजीकेवीवी /05	02-फर-81
276	अंजू प्रसाद मंडल, पुत्र श्री करमन प्रसाद मंडल	बिहारएसवीसी/2 329/03	ग्राम:ज्ञानवती तपूया, डाक: बुध चौक, थाना पारीपौती, सब-डिवी. काहलगांव, भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/99	03-दिस-71
277	अंजू एस.	केरल/3088/0 5	वथयदू हाउस, वरनाड डाक, चेरथला, अलेप्पी 688543, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	26-मई-81
278	ऐन मेरी जेम्स	केरल/3087/0 5	सूर्या-44, यमुना कॉलोनी, कुडप्पनाकुन्नु डाक, त्रिवेन्द्रम 695043, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	18-जन-80
279	ऐनी सुप्रिया आर., पुत्री श्री आर. डावी राजू	एपीएसवीसी/ 4304/05	19-9-2, चर्च स्ट्रीट, बैंकपेट, काकीनाडा—533001, पू.गो. जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/पॉडीविबि/04	02-अप्रैल-81
280	अंशज सिंह, पुत्र श्री देवनंदन प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/2 493/04	ग्राम/मुहल्ला—रतनपुरा, डाक दरियापुर, थाना इशलामपुर, सब-डिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	25-जन-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
281	अनु निसा	केरल/3039/05	उप्पुपुरम, सीएमसी-5, चेरथला डाक, अलेप्पी, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	31-मार्च-81
282	अनु सूसन चार्ल्स	केरल/3090/05	पल्लाथिल हाउस, अश्वथीपुरम कॉलोनी, मुट्टमबलम डाक, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	27-मार्च-81
283	अनुमोलू विजय कुमार, पुत्र श्री वैकटेश्वर राव	एपीएसवीसी/ 4375/05	द्वारा पी.शंकर रेड्डी, प्लॉट न.सी-7, फ्लैटन. 404, सिरिकोन एन्क., कमलानगर, ईसीआई एल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	19-फर-81
284	अनूप कुमार मोंडल, पुत्र श्री चंडी चरन मोंडल	डब्ल्यूबीएसवी सी/3203/05	ग्राम सोनाटीकारी, डाक कुस्तिया, जिला 24 परगना -743330, प. बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूए एंडएफएस/05	03-दिसं-82
285	अनुपम खान, पुत्र श्री भाग्य रतन खान	डब्ल्यूबीएसवी सी/3152/05	जलडोबरा (मास्टर कॉलोनी), डाक खटरा, जिला- बंकुरा-722140, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएएंड एफएस/05	31-दिसं-82
286	अनुपा, पुत्री श्री धरमपाल शर्मा	हरिएसवीसी/ 1873	ग्राम एवं डाक जलौली, जिला पंचकुला, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /05	16-अक्टू-82
287	अनुपमा कुमार, पुत्री श्री अलखदेव प्रसाद	बिहारएसवीसी/2 543/04	ग्राम/मुहल्ला-चंदौरा, डाक मेयर थाना, छबीलापुर (राज गिरि), जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/यूएसधारवाड /04	01-जन-81
288	अनुपमलाल कुसुमाकर, पुत्र श्री बी.पी. सिंह	बिहारएसवीसी/2 438/04	ग्राम-राम मूर्ति नगर, हिलसा डाक एवं थाना-हिलसा, सब-डिवी.-हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /03	02-फर-80
289	अनुराधा कुमारी, पुत्री श्री कृपा शंकर शर्मा	बिहारएसवीसी/2 236/02	ग्राम दूभा, डाक दूभा, थाना सकरा, सब-डिवी. -जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/02	29-जून-72
290	अनुराग सिंह सिकरवार, पुत्र श्री नवल	राजएसवीसी/ 3236/06	म.न. 401, महावीर नगर, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 05	07-सित-79
291	अनुरंजन कुमार रवि, पुत्र श्री सदानंद मंडल	बिहारएसवीसी/2 549/04	ग्राम/मुहल्ला-दीनदयालपुर, डाक कोडांडा, थाना शाहकुंड, सब-डिवी. भागलपुर, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/04	01-मार्च-80
292	अपर्णा बैनर्जी, पुत्री श्री गोबिंद बैनर्जी	डब्ल्यूबीएसवी सी/3197/05	नातुनचटी, बी.बी.डी. नगर डाक केंडुआडीही, जिला- बंकुरा, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	27-नव-81
293	अप्पाला नायडू अरुनुप्पु, पुत्र श्री ए. रामू	एपीएसवीसी/43 17/05	डी.न. 3-7, रावादा, भोगापुरम (एम.), चित्तिल्लासा डाक, विजियानगरम जिला- 531162, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	24-अग-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
294	अर्चना, पुत्री श्री बिदेश्वरी पासवान	बिहारएसवीसी/2 238/02	ग्राम: गंगजला वार्ड नं. 6, डाक सहरसा, थाना-सहरसा, सब-डिवी. सहरसा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/02	02-मई-77
295	अर्चना, पुत्री श्री प्रमोद कुमार सिन्हा	बिहारएसवीसी/2 242/02	ग्राम-माजिदपुर, डाक इतौरा, थाना मानपुर, सब-डिवी बिहार शरीफ, जिला-नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएटी/02	25-फर-77
296	अर्जुन कुमार लूखा, पुत्र श्री चूना राम	यूवीसी/15/06	वेट. अधिकारी, गवर्न.वेट. हॉस्पिटल, राजगढ़ी, उत्तरकाशी, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/01	01-जन-74
297	अरनव शर्मा, पुत्र श्री बृजेश कुमार	एचपीएसवीसी/7 43/05	बी-25, धवलधर कॉलोनी, ठिकली, बारोल, पोडारी थाना धरमशाला, कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी /05	6-दिस-81
298	अरुण कुमार, पुत्री श्री शिवलाल पासवान	बिहारएसवीसी/2 613/05	ग्राम/मुह.-अलाउद्दीनसराय, डाक.तिलकुरी, सब-डिवी.बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	12-नव-80
299	अरुण कुमार ठाकुर, पुत्र श्री चंद्रदेव ठाकुर	बिहारएसवीसी/2 371/03	ग्राम खाजेडीह, डाक लाजेडीह, थाना-लाघनिया उप-मंडल जयपुर, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	02-जन-78
300	अरुण एफ.एम., पुत्र श्री महालिंगप्पा	कर्नाएसवीसी/ 3756	हिरियरनजी डाक, बयागाडी तालुक, हावेरी जिला कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस	20-जून-78
301	अरुण बी.	केरल/3085/0 5	श्रीरंगम 30/2239, डाक चेवायूर, कोजीकोड 673017, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	22-सित-80
302	अरुणा एडिगा, पुत्री श्री नागा सेशना	एपीएसवीसी/ 4344/05	म.न. 15/9एम/16, हाजी नगर, नंदीकोटकूर, कुर्नूल जिला- 518401, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	01-जुला-79
303	अरुणजी जॉय टी.के.	केरल/3036/0 5	कलाथिकल हाउस, कुम्मालूर डाक, कैथाकुजी, कोल्लम - 691573, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	01-जून-82
304	अरविंद कुमार श्री राम देशपांडे, पुत्र श्री राम देशपांडे	एमपीएसवीसी/ 2314/06	70/सी, राजेंद्र नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 79	20-नव-53
305	अरविंद नागेश्वर, पुत्र श्री अम्मू लाल नागेश्वर	एमपीएसवीसी/ 2279/05	म.न. 12, नया आईटीआई रोड, बुरही बालाघाट, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/आईजीकेवीवी /03-04	21-दिस-77
306	असद अयूब, पुत्र श्री मौह. अयूब	बिहारएसवीसी/2 274/03	ग्राम:विदेश्वरीकम्पाउंड, डाक/जीपीओ पटना, थानाटाउन थाना, सब-डिवी मुशाहरी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/02	06-मई-75

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
307	आशा एंटोनी	केरल/3044/05	थट्टुंगल हाउस, कुथियाथोडे डाक, चेरथला, अलेप्पी 688533, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/05	21-अप्रैल-80
308	आशा के.	केरल/3047/05	कुथुकलिंगल हाउस, थिरुवल कुलम, कंडानाडू डाक, अर्नाकुलम 682305, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/05	09-दिसं-80
309	आशा पी.ए.	केरल/3048/05	पेरुपुल्लीकडन हाउस, अविट्टाथूर डाक, इरिजल कुडा थिसूर-680683, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/05	11-मई-81
310	आशा रानी, पुत्र श्री ओम प्रकाश	हरिएसवीसी/1870	744/10, इंजी. कॉलेज, तिलयार लेक के सामने, रोहतक, हरियाणा	बीबीएससीएंडए एच/सीसीएसएच एयू/05	04-दिसं-82
311	आशीष बहिया, पुत्र श्री मेहर चंद बहिया	पीबीएसवीसी/2609/05	म. न. बी-III-420, सिंगला स्ट्रीट, रामपुरा फुल, भटिंडा, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच/पीएयू/05	09-सित-81
312	आशीष ढींगरा, पुत्र श्री अशोक कुमार ढींगरा	पीबीएसवीसी/2594/05	स्ट्रीट डॉ विजय स्वामी, इस्त्री भवन के निकट, फाजिल्का, 152123, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच/पीएयू/05	22-दिसं-81
313	आशीष शर्मा, पुत्र श्री बी. डी. शर्मा	एचपीएसवीसी/736/05	म.न.-25 एवं 26, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बिलासपुर -174001, हिमाचल प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी /05	07-जन-81
314	आशीष सिंह, पुत्र श्री रतनेश्वर सिंह	राजएसवीसी/3209/06	हरि निवास, सिविल लाइंस, फैजाबाद, राजस्थान	बीबीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंड टी/99	21-जून-75
315	अशोक डांगी, पुत्र श्री सरदारसिंह डांग	राजएसवीसी/3223/06	8, गांधी कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/05	07-जुला-80
316	अशोक खासा, पुत्र श्री कुलदीप सिंह	हरिएसवीसी/1878	ग्राम एवं डाक हसनगढ़, जिला रोहतक, हरियाण	बीबीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /05	23-सित-80
317	अशोक कुमार, पुत्र श्री करतार सिंह	यूवीसी/179/06	वेट अधिकारी, गवर्न. भेड़ प्रजनन फार्म, कलियान, बंगार, रुद्रप्रयाग, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/03	09-अग-78
318	अशोक कुमार, पुत्र श्री राम नाथ सिंह	यूवीसी/161/06	V/1532, टीए कॉलोनी, पंतनगर, उधमसिंह नगर, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंड टी/04	01-जुला-80
319	अशोक कुमार स्वामी, पुत्र श्री पृथ्वी च	राजएसवीसी/3205/06	ग्राम/डाक रामगढ़, वाया गोगामेरी, तहसील नोहर हनुमानगढ़, राजस्थान	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/05	01-जुला-58
320	अश्विनी कुमार धीर, पुत्र श्री सतीश कुमार धीर	पीबीएसवीसी/2602/05	60-बी, डी.आर.एम. कार्यालय के सामने, फिरोजपुर कैंट, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच/पीएयू/05	18-अक्टू-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
321	अश्वनी कुमार सिंह, पुत्र श्री राजवीर सिंह	पीबीएसवीसी / 2584 / 05	7 / 1, पीएयू कैम्पस, लुधियाना 141004, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच / पीएयू / 01	30-मई-77
322	अश्विनी कुमार, पुत्र श्री योगेश कुमार	पीबीएसवीसी / 2638 / 06	कमरा नं. 2, होस्टल नं. 3, पीएयू, लुधियाना, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच / पीएयू / 05	10-जुला-82
323	असित जैन, पुत्र श्री राज कुमार जैन	एमपीएसवीसी / 2293 / 05	अहिंसा ट्रेडर्स, कोतवाली के निकट, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश	बीबीएससीएंडए एच / जेएमकेवीवी / 05	28-फर-79
324	अतिन दत्ता, पुत्र श्री अजित कुमार दत्ता	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3185 / 05	ग्राम कृष्ण नगर, डाक जंगीपारा, जिला- हुगली, 712404, पश्चिम बंगाल	बीबीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंड एफएस / 05	18-अग-81
325	अतुल कुमार, पुत्र श्री जे.के. गुप्ता	एचपीएसवीसी / 7 12 / 05	ग्राम एवं डाक महादेव, थाना सुंदरनगर, जिला- मंडी, हिमाचल प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच / सीएसकेकेवीवी / 05	19-जून-82
326	अवा मंजरी नायक, पुत्र श्री अमृत नायक	उड़ीसाएसवीसी / 1990 / 05	एटी- रंगोली, डाक-लायडा, जिला-सम्बलपुर, उड़ीसा	बीबीएससीएंडए एच / ओयूएंडटी / 05	25-मार्च-81
327	अविनाश कुमार, पुत्र स्व. श्री रामकृष्ण प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2 564 / 04	ग्राम / मुहल्ला-मुर्गीचाक, डाक इस्लामपुर, थाना इस्लामपुर, सब-डिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीबीएससीएंडए एच / सीएसएएंडटी यू / 04	01-अक्तू-82
328	अविनाश कुमार, पुत्र श्री श्यामनंदन शर्मा	बिहारएसवीसी / 2 502 / 04	ग्राम / मुहल्ला-भामा कॉलोनी, हनुमान नगर, डाक एवं थाना ककरबाग, सब.डिवी. पटना सदर, जिला पटना, बिहार,	बीबीएससीएंडए एच / टी एनवीएंडएएसयू / 03	20-फर-78
329	अवधेश कुमार, पुत्र श्री मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 2 426 / 04	ग्राम-पनसालवा, डाक / थाना बेलदौर, सब-डिवी. गौगरी, जिला-खगरिया, बिहार	बीबीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंड एफएस / 03	06-मार्च-79
330	अयाना राजीव	केरल / 307 / 05	करियाट्टु कुनियिल हाउस, नाराकोड, कीजारीयूर डाक, कोयिलांडी, कोजीकोड, केरल	बीबीएससीएंडए एच / केएयू / 05	30-सित-80
331	अयुब खन (वासिथ खान)	टीएनएसवीसी / 1 681 / 05	पुराना नं. 22 / 1, नया नं. 4, रिची स्ट्रीट, अन्ना रोड, एच.पी.ओ., नरसिंहपुरम, चेन्नई 600002	बीबीएससी / टी एनएयू / 85	25-मई-80
332	अजागेश्वरन (गुरुस्वामी)	टीएनएसवीसी / 2 934 / 05	4 / 244, वेस्ट स्ट्रीट, संकर लिंग पुरम डाक, विरुधुनगर जिला 626119, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	18-अप्रैल-72
333	बी. आनंद राज (बी. बालाकृष्णन)	टीएनएसवीसी / 1 365 / 05	5 / 65.1 / 3, अरुणनगर एनेक्सी, अलगापुरम पुडूर (डाक), सलेम 636016, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	25-जुला-68

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
334	बी. अनिथा (पी. बालासुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/2 99/04	3/41, थोटीपलायम, अगराहरम डाक, नमक्कल जिला 637403, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	14-मई-81
335	बी. बालागणेशन (एस. बालासुब्रमणियम)	टीएनएसवीसी/4 49/05	272 बी.सेनगुथेर स्ट्रीट, कुरुक्कु पेट्टई, इकानाम पेट्टई डाक, कांचीपुरम जिला एवं तालुक 631601	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	02-जून-81
336	बी. बालासुदम (एस. बालाकृष्णन)	टीएनएसवीसी/6 21/05	सुंदराकुडियिरंपू, मंगडू प., डाक वडाकाडु (वाया), पुडुकोट्टई जिला-622304, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	27-मई-81
337	बी. डोराईसामी राजू (ए. आर. भीमा राव)	टीएनएसवीसी/2 920/05	कुप्पाम्बट्टू ग्राम, वेपेनकृष्णम (डाक), ओडोकथूर वाया, वैल्लूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/77	05-मार्च-52
338	बी. गणेशा पंडियान (के. बेथू चेदिटयार)	टीएनएसवीसी/2 069/05	आर.आर.डी 134-ए, गांधीजी स्ट्रीट, थिरु नगर, मदुरई 625006, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	15-मई-89
339	बी. गीथा (पी. बालासुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/4 99/05	14, भारती नीलायम लेन, थोट्टियम, त्रिची (जिला), तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	02-जुला-82
340	बी. गौरी, पत्नी श्री के. गनपथिरमन	टीएनएसवीसी/8 82/05	प्लॉट न. 103, एलेक्स नगर, 'बी' कॉलोनी, माधवरम मिल्क कॉलोनी, चेन्नई 51, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	13-जून-72
341	बी.के. रमेश (ए. कृष्णामूर्ति)	टीएनएसवीसी/5 03/05	वी.पी.के. पोम्मन स्ट्रीट, बालासमुदम (डाक), त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	13-अक्टू-80
342	के. कलावथी, पुत्र श्री बलराज	टीएनएसवीसी/3 547/06	8/303, टीएनएचबी नीपानम कॉलोनी, वसंतपुरम डाक, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /06	09-मई-82
343	बी. कार्तिकेयन, पुत्र श्री एम. बालाकृष्णन	टीएनएसवीसी/3 487/06	430, ईश्वरन कोइल, बैक साइड, सेंदामंगलम, नमक्कल जिला 637409, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	03-जून-81
344	बी. कृष्णरी, पुत्र श्री एस. बालासुदम	टीएनएसवीसी/3 443/06	56, सौदाम्मान कोइल स्ट्रीट, अरुपुकोट्टई, विरुधुनगर जिला 626101, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	20-मई-87
345	बी. कोमागन (ए. बलिया)	टीएनएसवीसी/2 987/05	7, थिडाल मिडल स्ट्रीट, मुडुकुलरथूर, रामनाथपुरम जिला, 623704, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	14-जून-73
346	बी. कृष्णा कुमार (आर. बाला सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/2 855/05	9, पनई विलई स्ट्रीट, कोट्टार, नागरकोइल, 629002, कन्या कुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	20-जन-74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
347	बी. एम. सेन्थल कुमार (बी. मुरुगन)	टीएनएसवीसी/4 60/05	न.6, 8वी.स्ट्रीट, राजीव गांधी नगर एक्स., बिग अल्लापुरम, वेल््लोर 632002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	29-मार्च-80
348	बी. महेंद्रन (एस. बोसइयन)	टीएनएसवीसी/1 369/05	74/3,सावादी स्ट्रीट, सुरुलि पट्टी डाक, उथमपलायम तालुक,थेनी जिला,तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	20-मई-57
349	बी. माला, पत्नी श्री बी. बी. रविशंकरन	टीएनएसवीसी/8 20/05	47/41, पुलिचाकडू, डाक अरप्पक सिरकाली तालुक, भागाई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	03-मई-77
350	बी. मोहनसुंदरराज (जी. ए. बाला सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/1 312/05	24,केनेडी स्ट्रीट, एस.गनपथि पलायम पुडुकराय पुडुर डाक बीचेट्टी पलायम तालुक, इरोडे जिला 638313	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/ 02	27-मार्च-78
351	बी. मोनिका (डी. बोथीनाथन)	टीएनएसवीसी/7 0/03	प्लॉट न. 1321, अन्ना नगर, वेस्टर्न,एक्स. गोल्डनकॉलोनी, चेन्नई 600, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	10-जुला-78
352	बी. मुरुगधास (एस. भगवतीपेरुमल)	टीएनएसवीसी/2 187/05	115, ज्ञानम, 'बी' कॉलोनी, थमाकुथोनम, नागरकोइल-4, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	08-मार्च-66
353	बी. मुरुगन (के. बाबू)	टीएनएसवीसी/2 648/05	16/5डी.एलआईसी कॉलोनी, क्रॉस स्ट्रीट, संकरपलायम वेल््लोर 632001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	24-अग-76
354	बी. मुरुगनंदन, पुत्र श्री एस.टी. बालासुब्रमण्यम	टीएनएसवीसी/3 460/06	डब्ल्यू-4, 1/9, उरालपट्टी, डाक पन्नायकाडू, डिंडिगल जिला 624210, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	01-अग-56
355	बी. मुथुकुमारसामी (ए.के. बाला सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/1 713/05	117, कीराईकारा स्ट्रीट, करुर, पिन- 639001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	09-मई-75
356	बी. नागराजन (ए. बालासुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/2 919/05	बी-28,मनोहर अर्पा, ईश्वरन कोइल स्ट्रीट, प. मम्बलम, चेन्नई 636012, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /82	28-जून-60
357	बी. नवास खान (डी. बाबू)	टीएनएसवीसी/2 61/04	29-बी,मुस्लिम स्ट्रीट,वेल्लाला पट्टी डाक, वाया करुपपुर, सलेम 638012, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	11-अप्रैल-78
358	बी. पिचई (एम. बाबू)	टीएनएसवीसी/3 213/05	452/45 सी, कामराज़नगर, सांधापेट्टई, लालगुडी, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	15-मार्च-65
359	बी. पृथ्वीराजकुमार, पुत्र श्री बालागुरु	टीएनएसवीसी/3 450/06	प्लॉट न.63-ए, तीसरी स्ट्रीट, कलईनगर, अनाईयूर डाक, मदुरई 625017, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	28-मई-71
360	बी. राजप्पन (एस. बुजिगागोडैर)	टीएनएसवीसी/3 226/06	8/17, मंगलाकराई पूडुर डाक, करामेदेई (वाया), कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	15-अप्रैल-55

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
361	बी. राजसेखरन (एम. बंगारू रेड्डी)	टीएनएसवीसी/1 052/05	108, हॉस्पिटल स्ट्रीट, धम्मम पट्टी डाक, गंगावली तालुक, सलेम 636003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/79	13-मई-56
362	बी. रामाकृष्णन (जी.एन. बालासुब्रमन्यम)	टीएनएसवीसी/2 224/05	1/33बी 2, कृष्णनन् स्ट्रीट, जीएलआर लक्ष्मी नगर, गोबीचेट्टीपलायम 608452, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	19-अक्टू-74
363	बी. रामानाथन (बालाकृष्णन्)	टीएनएसवीसी/1 656/05	मायादेवापट्टी, मल्लीपुडुर डाक, श्रीविल्लीपुट्टूर (ता.) विरुधुनगर जिला 626141	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	25-मई-70
364	बी. रामास्वामी पिल्लई (के.एम. भगवती पेरुमल पिल्लै)	टीएनएसवीसी/2 184/05	सरस, 35, कॉलोनी ईस्ट, आर.वी. पुरम, नागरकोइल, केके जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू /73	22-अप्रैल-45
365	बी. रविराजा (एम. बालासुब्रमन्यम)	टीएनएसवीसी/2 899/05	266, रोजा स्ट्रीट, केवीआर नगर, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	28-जन-68
366	बी. सम्बासिवम, (एम. बालासुब्रमन्यम)	टीएनएसवीसी/7 47/05	न. 47, क्रुज़ पुरम, द्यूटीकोरिन, पिन- 628001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	05-फर-70
367	बी. सारथा बॉबी (पत्नी श्री एस. प्रभु)	टीएनएसवीसी/2 577/05	86ए, गांधीपुरम, सिरीवल्लूर रोड, कुंघापडी 638455, इरोडे जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	15-जून-74
368	बी. सथ्या (एम. बालासुब्रमन्यम)	टीएनएसवीसी/5 42/05	3/253, मनक्कुडु, कलईवल्ली डाक, कम्बिनल्लूर वाया, हरूर (ता.), धर्मपुरी जिला 635202	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	30-अक्टू-81
369	बी. सविथा, पुत्र श्री के. बालू	टीएनएसवीसी/3 309/06	5ए, पिल्लईयार स्ट्रीट, गनेश पुरम, नमकल, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	09-नव-82
370	बी. सेंगुट्टुवन (ए.बी.एम. बूबलान)	टीएनएसवीसी/1 134/05	52, साउथ कार स्ट्रीट, रामनाथपुरम 623501, रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /69	02-मार्च-67
371	बी. सेंथिल कन्नन (आर. बालाकृष्णन्)	टीएनएसवीसी/2 705/05	2/2072, सौराष्ट्रपुरम, चौथी स्ट्रीट, वडियूर, मदुरई 625020, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	27-जुला-78
372	बी. सुधा (एम. बोमइयन)	टीएनएसवीसी/2 008/05	डब्ल्यू-19, पेरियम्माथावर लेन, गुडलूर 625518, थेनी जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	11-जुला-79
373	बी. सुगुमारन (एस. बोजान)	टीएनएसवीसी/3 124/05	192, डी 7, रोज भाउंट, तमिलागम रोड, ऊटी, नीलगिरि, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	30-अप्रैल-62

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
374	बी. सुबुमारन (के. बालासुंदरम)	टीएनएसवीसी/2 684/05	21/32, बारथी नगर, मयिलादुतुराई 609003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/81	04-मई-57
375	बी. सुरेश सुब्रामोनियन (बी. बालासुब्रामोनियन)	टीएनएसवीसी/2 700/05	160/4 गोल्डन जुबिली फ्लैट्स, पाडीकुप्पम रोड, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई 600040	बीवीएससी/टी एनएयू/85	03-जुला-63
376	बी. तमिलजारसन (पी. बालासुब्रमन्यम)	टीएनएसवीसी/4 26/05	7/150, थिरुवलुवर, सलई, पोथानूर डाक, नमक्कल जिला, पिन 638181, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	06-जून-80
377	बी. थानाराज (ए. बालू)	टीएनएसवीसी/4 57/05	चेदिटयार स्ट्रीट, एल.एन. पुरम, अन्नावयाल डाक, पुडुकोट्टई जिला, अलनगुडी तालुक 622504	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	25-जुला-81
378	बी. थिरुकुमारन (टी. बालासुब्रमन्यम)	टीएनएसवीसी/1 651/05	2/87, बी.एस.के.डी. नगर, सतचितपुरम, सिवाक्यसी पश्चिम-626124, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	15-मई-65
379	बी. थिरुनावुकुरासु (के. बालासुब्रमन्यम)	टीएनएसवीसी/1 078/05	डाक कुम्बारियूर, तालुक कोडाईकनाल, पिन-624202, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	23-मार्च-60
380	बी. उमा देव (टी. बालाकृष्णन्)	टीएनएसवीसी/1 31/03	30, अन्नसलई, III क्रॉस, थदिट्टुपलायम, अधियूर धावानी तालुक 638501, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	26-जन-80
381	बी. वासन्धी (टी.बी. बालन)	टीएनएसवीसी/5 47/05	162, चौधरी नगर, 14बी. स्ट्रीट, बालासरवक्कम, चेन्नई 600087, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	29-अप्रैल-61
382	बी. वेंकटेश्वरलु (जी. बालाकृष्णन्)	टीएनएसवीसी/5 50/05	प्लॉट नं. 81 व 82, एस.एस. नगर, नाथम रोड, नागल नगर डाक, डिंडीगल 624003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	31-मई-79
383	बी. ए. नसीर (के. बी. अब्दुल सलाम)	टीएनएसवीसी/2 378/05	25/30, के.टी.एस. मनि स्ट्रीट, ममात्तन नगर, कांचीपुरम 631802, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /90	10-जुला-67
384	बी.ई. सेल्वाराज (बी.वी. एल्लषा नायडू)	टीएनएसवीसी/3 012/05	न.एजी -12, अन्ना नगर, चेन्नई 600040, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/79	02-दिसं-51
385	बी. गनेश बाबू (बी. बालाकृष्णन्)	टीएनएसवीसी/1 742/05	3/38, कलियम्मन कोली स्ट्रीट, कीलापलुवूर डाक, अरियालूर तालुक, पेराम्बलूर जिला, 621707	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	05-जून-73
386	बी. जयासुंदर (अ. रामानाथन्)	टीएनएसवीसी/2 291/05	5ए/1-मिन नगर, अरियालूर, पेराम्बलूर जिला पिन 621704, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /98	15-फर-74
387	बी. जोस चक्रवर्ती (एस. भक्तिनाथन्)	टीएनएसवीसी/2 284/05	अक्काराई कोडीवेरी व डाक, कासीपलायम(वाया), गोबीचेटी पलायम तालुक, इरोड जिला 638454	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	22-जून-73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
388	बी. कविथा	पॉण्डीएसवीसी / 273 / 05	5, 19-ए, एक्सटेंशन स्ट्रीट, अब्बई नगर, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी	बीवीएससीएंडए एच / पीयू / 05	01-अग-76
389	बी.एम. महेस्वरी (बी.एस. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी / 3 58 / 04	76बी, अन्नाई इल्लम, एम.के.एम. रोड, भवानी-2, इरोडे जिला 638302	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	02-नव-80
390	बी.एन. प्रवीण	पॉण्डीएसवीसी / 256 / 05	163, अम्बालाथडयार मदाम स्ट्रीट, पॉंडीचेरी -1	बीवीएससीएंडए एच / पीयू / 03	08-मई-80
391	बी. नटराजन (के. बीमन)	टीएनएसवीसी / 2 284 / 05	47, अम्बेडकर नगर, डाक किलपेनाथूर, तिरुवन्नामलई तालुक, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 88	23-जून-85
392	बी. राजाश्री)एम.आर. भक्तवत्सलम)	टीएनएसवीसी / 2 267 / 05	ए-13, मधुरम अपार्टमेंट., 147, मोहनराम नगर, मोगाम्पेर, चेन्नई 600038	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 89	01-जून-67
393	बी.एस. ज्ञानमूर्ति (आर. भारतराजा)	टीएनएसवीसी / 2 416 / 05	वायकल स्ट्रीट, कामया: गौडेनापैथी डाक, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 77	20-सित-50
394	बी. शांतल	पॉण्डीएसवीसी / 269 / 05	3, अन्नाई टेरेसा स्ट्रीट, शिवाजी नगर, गोरीमेदू, पॉंडीचेरी-6	बीवीएससीएंडए एच / पीयू / 05	17-जन-83
395	बच्चा सिंह, पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह	बिहारएसवीसी / 2 447 / 04	ग्राम/मुहल्ला- बहरमदार, डाक एम. कुयारी, थाना परमा, सबडिवी. छपरा सदर, जिला छपरा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 04	15-जून-76
396	बदाम किशोर कुमार रेड्डी, पुत्र श्री वेंकटेश्वर रेड्डी	एपीएसवीसी / 44 09 / 05	प्लॉट न.110, आदित्य टावर्स, एसबीओ के सामने, मैसूर, बालाजी कॉलोनी, तिरुपति, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	12-जून-79
397	बैकुंठ बिहारी साहू, पुत्र श्री बेनुघर साहू	उड़ीसाएसवीसी / 2007 / 05	एटी: सिंघोला, डाक- खतारदा, जिला-कटक., पिन- 753011, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच / ओयूएंडटी / 05	02-जुला-80
398	बक्था (एस. बालाकृष्णन)	टीएनएसवीसी / 2 249 / 05	न.1, वेंकटेश्वर नगर, वाला सर्वक्कम, चेन्नई 600087	बीवीएससी / एमयू / 84	12-जन-41
399	बकुल कुमार दत्ता, पुत्र श्री देबीप्रसाद दत्ता	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3194 / 05	ग्राम एवं डाक इस्लामपुर, जिला उत्तर दीनाजपुर, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंड एफएस / 05	11-अग-82
400	बालाजीदलांग नौधुम, पुत्र श्री डब्ल्यू नौधुम	मेघएसवीसी / 237 / 05	द्वारा डानी विला, लाबान (हरीसाबा), शिलौंग -4, मेघालय	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	26-जन-78
401	बालाकृष्ण पोद्टा बट्टला, पुत्र श्री अंजइयाह, पोद्टाभट्टला	एपीएसवीसी / 4388 / 05	द्वारा: ए. वेंकटइयाह, झाइवर, म.न.1-1-517 / 6, हिमानगर के सामने, हाइटेक बस स्टैंड के निकट, सूर्यापेट 508213, नालगोंडा, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	27-जून-61

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
402	बालामुरुगन एन. (के. नायनार)	टीएनएसवीसी/6 2/03	15, स्टेट बैंक कॉलोनी, चौथी स्ट्रीट, मेलाग्राम टंकासी तालुक, 62781, तमिलनाडु.	बीवीएससीएंडए एच/टीएनवीएंडएए सयू/03	23-जून-79
403	बानाजी गण्तायत, पुत्र श्री बिजय चंद्र गण्तायत	उड़ीसा एसवी सी/2020/05	द्वारा:आर.एम.पाणिग्रहीसास्त्री, लेन-2, उत्कल सिनेमा हॉल के निकट, बरहामपुर, जिला गंजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	30-सित-79
404	बापू दास, पुत्र श्री गोपाल चरन दास	उड़ीसाएसवीसी/ 2031/05	114, रसूलगढ़ (नुआसाही), भुवनेश्वर -751010, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	01-सित-79
405	बारोट जिन्नेश कुमार	गुजएसवीसी/ 2659/06	श्रेयस सोसायटी, एटी तालुक भाभर जिला, बनासकंठा, पिन- 385320, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/ 06	01-जून-82
406	बारपत्रा गोहेन(सुश्री) अरुणिमा, पुत्र श्री पूर्णानंद बारपत्रा	असमएसवीसी/ 2208/05	महेंद्र बोरगोहेन पथ, नाई, लिचुबारी, जोरहाट, असम	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/05	07-जून-79
407	वासना बर्मन, पुत्र श्री सुशील बर्मन	डब्ल्यूबीएसवी सी/3198/05	ग्राम कालागाच, डाक चोपड़ा, जिला उ/दीनाजपुर, प.बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	03-अप्रैल-83
408	बासवराज एम., पुत्र श्री मानिक राव	कर्नाएसवीसी/ 3730/	आर/ओ गांधीनगर कॉलेनी, म.न. 17-3-183, बिदर - 585401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	02-अग-82
409	बेनी प्रसाद गौड़, पुत्र श्री गोवर्धन लाल गौड़	यूवीसी/150/0 6	बेट. अधिकारी, गवर्न. बेट. हॉस्पिटल, बगवाली (पोखर) जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीबी/ 02	08-अग-76
410	बेनीसन पॉल	केरल/3084/0 5	मलक्करन हाउस, टीसी 12/ 799(1)पुथनकुलम रोड, इडा कुन्नी, थईक्कट्टुसेरी डाक उलूर त्रिसूर 680322, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	01-मई-81
411	भबानी संकर त्रिपाठी, पुत्र श्री हरि कृष्णा त्रिपाठी	उड़ीसाएसवीसी/ 2017/05	एटी/डाक: कृपासिंधुपुर, वाया निमाखंडी, गंजम- 761001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/ 05	05-जून-80
412	भदानिया ए.आर.	गुजएसवीसी/ 2617/08	टीओ जामवाली, तालुक जमजोधपुर, जिला जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि. वि./06	22-जन-83
413	भागीरथी देवुनूरी, पुत्र श्री चंद्रइयाह	एपीएसवीसी/ 4392/05	म.न. 8-188, रत्नगरवीधी, परकल, दारंगल जिला, असम प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजी आरएयू/05	01-जून-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
414	भगवान दास लारिया, पुत्र स्व. श्री एल.पी. लारिया	एमपीएसवीसी/ 2281/05	डॉ. अम्बेडकर वार्ड, बांदा सागर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 75-76	02-अप्रैल-49
415	भगवती प्रसाद भट्ट, पुत्र स्व. श्री ईश्वर दत्त भट्ट	यूवीसी/01/ 06	जी-1, रेस कोर्स, देहरादून, उत्तरांचल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/एयू/68	08-सित-46
416	भगवती प्रसाद यादव, पुत्र श्री मोती लाल यादव	एमपीएसवीसी/2 308/05	जी-7, ब्लॉक कॉलोनी, जनपद पंचायत, आवासीय कॉलोनी, शिवपुरी, मध्यप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 91	05-जून-63
417	भक्ताचरन, पुत्र श्री गोबिंद चंद्र सेठी	उड़ीसाएसवीसी/ 2033/05	एटी/डाक- नाचीपुर, वाया- खैरा, जिला- बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	06-अप्रैल-80
418	भरदाज निदीश, पुत्र श्री एम.एल. शर्मा	गुजएसवीसी/ 2631/06	म.न. 2/40, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाई माधोपुर 322021, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आनंदकृ.वि.वि. /06	05-जुला-81
419	भट्ट रघुवीर एच.	गुजएसवीसी /2616/06	500/1, सेक्टर 5/ए, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/ आनंद कृ.वि. वि./06	27-अप्रैल-83
420	भीम प्रसाद, पुत्र श्री लीलो महतो	बिहारएसवीसी/2 265/03	ग्राम- भलुआ, डाक सारंदा, थाना-मिरनी, सब-डिवी. गिरि डीह, जिला गिरिडीह, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/01	07-अप्रैल-75
421	भोई धीरेंद्र कुमार बी.	गुजएसवीसी/26 19/06	एटी व डाक वरधारी, तालुक लुनावडा, जिला-पंचमहल, पिन- 388270, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/ आनंद कृ.वि. वि./06	09मार्च-83
422	भूमइयाह एस., पुत्र श्री विट्टल	एपीएसवीसी/ 4425/06	सहा. निदेशक (पशुपालन), भोंगीर, नालगोंडा जिला, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एपीएयू/73	04-फर-50
423	भूपेंद्र कटारिया, पुत्र श्री नाथमल कट	राजएसवीसी/ 3214/06	मूनका कॉलोनी, वार्ड न. 4, चिरावा, झुंझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	25-फर-77
424	मइरू पद्मजा, पुत्र श्री प्रभाकर रेड्डी	एपीएसवीसी/44 13/05	म.न. 9-4-37, श्री नगर कॉलोनी, करीमनगर 505001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	03-अग-81
425	बीजू जॉन करियिल	केरल/3010/0 5	करियिल हाउस, के.के. रोड, चलाक्कुडी - 680307, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/ 05	27-अक्टू-80
426	बिधान चंद्र साहा, पुत्र श्री अमूल्य कुमार साहा	उत्तरांचलएसवी सी/3172/05	ग्राम महियाबथान, डाक ओमाहिशबथान, जिला कूच बिहार- 736179, प. बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/उत्तरांचलएसवी एफएस/ 05	01-जुला-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
427	बिष्णुराज साइन, पुत्र श्री भोबा बिसोई	उड़ीसाएसवीसी / 2018/05	एटी/डक-दिहापधालिया, वाया भांजानगर, जिला गंजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	28-मई-82
428	बिजय भारती, पुत्र स्व. श्री राम चंद्र साह	बिहारएसवीसी /2 409/04	ग्राम एवं डक-ओरलाहा, थाना-बी. कोठी, सबडिवी. ढांडा, जिला पूर्णिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/ 03	01-मार्च-77
429	बिजय कुमार सिंह, पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ सिंह	बिहारएसवीसी /2 566/04	ग्राम/मुहल्ला- रामजीघाक, लखपार, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	29-सित-77
430	बिमल कुमार चौधरी, पुत्र श्री बी.के. चौधरी	उड़ीसाएसवीसी / 2029/05	एटी/डक-कुकुडाखंडी, सोनापेठा स्ट्रीट, जिला- गंजम- 751003, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	02-मय-81
431	बिमल कुमार, पुत्र श्री बाल कृष्ण प्रसाद	बिहारएसवीसी /2 618/05	ग्राम/मुहल्ला-लंगर टोली, चिक लेन, डक बांकीपुर, थाना कदमकुआं, सबडिवी. पटना सदर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/ 05	23-अग-78
432	बिनय कुमार भारती, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद तूरी	बिहारएसवीसी /2 319/03	ग्राम राजपुर, डक लोशीधानी, थाना पिन बाजार, सबडिवी. लखीसराय, जिला मुंगेर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएंडएफएस यू/03	07-अक्तू-77
433	बिनय कुमार झा, पुत्र श्री कृपा नंद झा	बिहारएसवीसी /2 339/03	ग्राम व डक: शीलनाथ रुपौली, थाना जानकीनगर, सबडिवी. बनमानखी, जिला पूर्णिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/ 03	30-दिस-75
434	बिंदू बालाकृष्णन	केरल/3024/0 5	वलथ हाउस, मनालूर डक, त्रिसुर, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/ 05	27-अप्रैल-80
435	बिनिल बी. चंद्रन	केरल/3072/0 5	सदनाम हाउस, मुधुकुलम उत्तर, डक अल्लेपी 690560, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/ 05	08-मई-81
436	बिनोद कुमार रंजन, पुत्र श्री बिष्णु राय	बिहारएसवीसी /2 402/03	ग्राम: इश्मालपुर, डक-डोरी गंज, थाना: डोरीगंज, सबडिवी छपरा, जिला छपरा सारन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	04-फर-77
437	बिशन कुमार तोमर, पुत्र श्री प्रताप सिंह तोमर	यूवीसी /147/0 6	वेट.अधिकारी, वेट. हॉस्पिटल, दौलाघाट, जिला- अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेडपी वीवी/98	30-सित-72
438	बिष्णुप्रिया, पुत्र श्री राजकिशोर बिस्वाल	उड़ीसाएसवीसी / 1991/05	एटी-रीतारपुर, डक- जाजपुर, जिला- जाजपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	05-जून-78
439	बिस्नी पीटर	केरल/3006/0 8	कूडारापिल्लिल हाउस, वात्तायम थिरुवन्थूर डक, पेराम्बावूर -683558, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/ 05	07-सित-80
440	बिस्वजीत मुखर्जी, पुत्र श्री सहदेव चंद्र मुखर्जी	बिहारएसवीसी /2 494/04	ग्राम/मुह.-आबादपुर, डक आबादपुर, थाना आबादपुर, सबडिवी. बरसोई, जिला कटिहार, बिहार	बीवीएससी/टी एनबीएंडएएयू /03	31-दिस-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
441	बिस्वनाथ चौधरी, पुत्र स्व. श्री बामपदा चौधरी	डब्ल्यूबीएसवी सी/3150/05	ग्राम बगीचा, डाक कजाफुली, बीबीचाक जिला, पूर्वा मिदनापुर-721137, प.बंगाल	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूए एंडएफएस/05	13-सित-81
442	बिस्वोप्रकाश, पुत्र श्री शरत चंद्र बेहेरा	उडीसाएसवीसी/ 2005/05	एटी-कानपुर, डाक मलियंच, वाया म.कलपरा, जिला केंद्रपाडा 754224, उडीसा	बीबीएससीएंडए एच/ओयूएएंडटी/ 05	23-अप्रैल-80
443	बलेसा सैलो, पुत्री श्री लालहलुना सैलो	मिज़एसवीसीसी/ 155/05	डौरपुट- वेंगथार, डाक- आइजवाल, मिज़ोरम, मिज़ोरम	बीबीएससीएंडए एच/सीएयू/05	29-अप्रैल-83
444	बोल्लेडु रवि कुमार, पुत्र श्री बलइयाह	एपीएसवीसी/43 89/05	म.न. 5-11-148, शांति नगर, नाल डा 508001, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	18-दिसं-79
445	बोल्लू सुभाष चंद्र बोस, पुत्र श्री सिदइयाह	एपीएसवीसी/43 40/05	म.न. 7/83, रेड्डी नगर, पोर्तुगालिका- 516193त्र, कपाडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	10-अग-78
446	बोरगोहेन(सुश्री) अपरूपा, पुत्री स्व. श्री दिलीपकुमारबोरगोहेन	असमएसवीसी/2 218/05	द्वारा गीतांजलि बोरगोहेन, कदौसाई, शंकरदेव कॉलोनी, डिब्रूगढ़, असम	बीबीएससीएंडए एच/एएयू/05	28-नव-79
447	बोरगोहेन जयंता, पुत्र श्री दुलाई गोहेन	असमएसवीसी/2 206/05	द्वारा दुलाल गोहेन, डाक गोहेन गाँव, धोभाजी, जिला- धोभाजी, 787057, असम	बीबीएससीएंडए एच/एएयू/05	01-अग-78
448	बोरी एम.एम.	गुजएसवीसी/ 2652/06	सर्नी, दोरवाड, धालवास, पालनपुर, जिला बनारसकंडा गुजरात	बीबीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/ 06	21-जन-81
449	बोचा पद्मा प्रिया, पुत्री श्री दलपड्डु	एपीएसवीसी/ 4331/05	पुत्री बंगारम्मा च., टीचर, प्लॉट न.3, शिवरामनगर कॉलोनी, बादिलीपुरम, श्रीकाकुलम जिला, आ.प्र.	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	03-मार्च-80
450	ब्रह्माजी राव, पुत्र श्री नागेश्वर राव	एपीएसवीसी/ 4321/05	डी.न. 22-5-34, सरोजिनी नगर, पुलिस लाईस, कोठापेट, तेनाली, गुंटूर जिला, आंध्रप्रदेश	आएयू/05	08-फर-81
451	ब्रज मोहन गुप्ता, पुत्र श्री राम नारायण गुप्ता	यूवीसी/14/ 06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट. हॉस्पिटल, हनुमानचट्टी, उत्तरकाशी, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/सीएसएकेईपीव बी/99	07-मार्च-71
452	बृजेश कुमार यादव, पुत्र श्री घनश्याम सिंह यादव	एमपीएसवीसी/2 318/06	गरगज कॉलोनी, बहोदापुर, ए.बी.रोड, ग्वालियर, 474012, मध्य प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 05	01-मई-78
453	बृजेश रावत, पुत्र श्री बचन सिंह रावत	यूवीसी/83/ 06	ग्राम एवं डाक उखीमथ, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/एएयू/99	02-जुला-75
454	बृधिराम राउल, पुत्र श्री बृदाबन राउल	उडीसाएसवीसी/ 2015/05	एटी/डाक: कोचिया कोइली, वाया बहानामा, जिला- बालासौर, उडीसा	बीबीएससीएंडए एच/ओयूएएंडटी /05	28-जून-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
455	सी. आनंदा सतीश, पुत्र श्री एस. चिन्नामुथु	टीएनएसवीसी/3 480/06	एग्री थोटम, पप्पमबाडी डाक, पुधुपट्टी वाया, पप्पीरेडुडी पट्टी तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन-636905	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /06	08-अग-82
456	सी. अंबारसन (चिन्नाप्पन)	टीएनएसवीसी/3 035/05	सिवान कोविल स्ट्रीट, नयागनईपिरियल डाक, उदयारपलायम तालुक, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /05	04-मार्च-82
457	सी. अंबाजकान (जी. चंद्रसेखरन)	टीएनएसवीसी/2 474/05	नं. 16, धर्मराजा स्ट्रीट, ग्राम मारुथूर, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/66	20-अप्रैल-60
458	सी. अरुण कुमार (के. चिन्नाप्पन)	टीएनएसवीसी/2 933/05	4, गांधी स्कूल, वेस्ट साइड, गुरुंची नगर, मेनरोड, वासुदेव नल्लूर एवं शिवगिरि तालुक, तिरुनेलवेली जिला 627758	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /96	05-मई-69
459	सी. असोकन, पुत्र श्री एन. चोकाविंगम	टीएनएसवीसी/3 411/06	12, सूरी इल्लम, मावीकडनगर, इडयारपलायम, पिरिवुकुनिया मुथूर, कोयम्बतूर- 641008	बीवीएससी/टी एनएयू/78	01-मार्च-51
460	सी. बाबू (ए. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी/1 38/03	18, भारती नगर, स्वामी शिवानंद सलाई, रासीपुरम 637408, नमक्कल जिला	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /03	10-जुला-77
461	सी. चंद्रसेखर (जी. चोकाविंगम)	टीएनएसवीसी/6 27/05	वेपीलईपट्टी ग्राम, केथुरेडुडी पट्टी डाक, पप्पीरेडुडीपट्टी तालुक, धर्मपुरी जिला 635302	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /05	10-मई-81
462	सी. चिलामन (सी. चिन्नाइयाह)	टीएनएसवीसी/2 717/05	वल्लावारी डाक, अरान्थंगी तालुक, पुडुकोट्टई जिला 614801, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /00	10-मई-75
463	सी. दक्षिणा मूर्ति, पुत्र श्री वी.के. चक्रवर्ती	टीएनएसवीसी/3 519/08	पुराना नं. 11ए, नया नं. 23, अंडल सनाथी स्ट्रीट, अर्नी पलायम, अर्नी-632301, थिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	01-जन-51
464	सी. दीपा (आर. चंद्रसेखर)	टीएनएसवीसी/6 5/03	उमाशंकर लॉरी सर्विस, मुमु डिथलईवासल डाक, अट्टूर, तालुक, सलेम जिला, पिन 63, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /03	02-जुला-77
465	सी. देवराज (एन. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी/3 20/04	आलमपुराई ग्राम, नोचालूर डाक, वाया बालूरपेट, जिंजी तालुक, विल्लूरपुरम, जिला 604201, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /04	17-जून-79
466	सी. डोरथी पुष्पारानी, पुत्र श्री क्रिस्टोफर ओमेर	टीएनएसवीसी/3 464/06	नं.232, श्रीमहालक्ष्मी मंदिर, 39 जस्टिस रतीनावेल पंडियान रोड, 600107, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /94	25-जुला-71
467	सी. ईश्वरन (के. चिन्ना करुपिया)	टीएनएसवीसी/2 018/05	चिन्ना चिट्टुलोदुटी, जरियूसीलमपट्टी डाक, कल्लुपट्टी वाया, मदुरई जिला 625702, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /02	19-जून-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
468	सी. एडविन जॉर्ज (एस. क्रुज एण्टोनी)	टीएनएसवीसी/2 198/05	16, चर्च स्ट्रीट, वट्टाकारी, नागरकोइल 629004, कन्या कुमारी, जिला तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/83	05-मई-59
469	सी. गोपालकृष्णन (ए. चंद्रसेखरन)	टीएनएसवीसी/6 45/05	मारुथु पांडियार स्ट्रीट, कलई वानर नगर, अयंगानेलूर 625501 मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	25-जुला-79
470	सी. गोविंदराजू (एम. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी/3 128/05	सोबन्नापुरम डाक, वेस्ट स्ट्रीट, थुरईयूर (तालुक), त्रिची जिला, पिन 621018, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	24-मार्च-65
471	सी. इलांगो (पी.एस. चिन्ना इलांगन)	टीएनएसवीसी/2 787/05	48, अमान कोइल स्ट्रीट, अनायूर, अनाइयूर डाक, मदुरई -17, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	06-जून-68
472	सी. इलांगो (टी.के. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी/1 28/03	4/459, मेन रोड, ओटाकुठिराई, मेट्टुपलायम डाक, कवांडपडी वाया, गोबीचेट्टी पलायम, पिन-638455	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	16-जन-80
473	सी. जगदेश (आर. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी/1 194/05	ओए/1, थैलाम्बिगई नगर, स्ट्रीट, थिरुचेनगोडू, नमकल जिला 637211, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	04-जून-74
474	सी. जयन्ति (टी. चंद्रन)	टीएनएसवीसी/1 572/05	प्लॉट न. 393, फेस I, 44 वी. स्ट्रीट, भारती नगर, वेल्लोर 632009, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	29-अग-74
475	सी. जयशैल (जी. चिन्ना थम्बी)	टीएनएसवीसी/2 157/05	4/354, 'शालोम', भारत नगर, मेलापुथेरी, नागरकोइल-1, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/88	31-मई-62
476	सी. जेया कुमार (वी. चिदाम्बरा थनु)	टीएनएसवीसी/2 148/05	1354, सिंगारा थोप्पु, पार्वती पुरम, नागरकोइल 629003, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/85	01-जन-61
477	सी. कलाइवानी (पी. चंद्रसेखरन)	टीएनएसवीसी/3 22/04	न. 6, पुलिस क्वार्टर्स, स्टेट बैंक के निकट, एफ-ब्लॉक, धर्मपुरी, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	25-फर-79
478	सी. कनगराज (जी. चिन्नाचामी)	टीएनएसवीसी/6 68/05	20-7-10 (1), जी.सी.एस. भवन, टी. वीराचामी स्ट्रीट, अरुप्पुकोटई डाक, 626101, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	02-मई-70
479	सी. करुप्पन्नन (के. चिन्नन)	टीएनएसवीसी/7 2/03	275ए, थिरुनावुक्कारासु नगर, गांधीपुरम डाक, तात्तूर तालुक, सलेम जिला 636, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	16-मई-75
480	सी. कविथा (के. चिन्नाइयाह)	टीएनएसवीसी/2 402/05	इनाथीकरांबी, अवनम वाया, पेरावुरानी (तालुक), थंजावूर जिला 614623, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	19-मई-78
481	सी. कविथा (एस. वीरामलई)	टीएनएसवीसी/1 324/05	14/33, थिरुपचिस्वरर स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई 600023, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू	11-मार्च-76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
					/00
482	सी. लथा (टी.एम. नवनीथा कुमारी)	टीएनएसवीसी/1 911/05	1/298, स्टेट बैंक के पीछे, पोचमपल्ली (डाक व तालुक) कृष्णागिरि जिला, 635206, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	05-मार्च-72
483	सी. मनोहरन (बी. चंद्रसेकर)	टीएनएसवीसी/2 801/05	3/355, श्री दुर्गानिवास, कुम्बा कोनममेनरोड, कारुगुडी, रायम पेटई डाक, थियवायरु 613204	बीवीएससी/टी एनएयू/81	02-जन-57
484	सी. मधियालमन (के. चिन्नाइयाह)	टीएनएसवीसी/9 87/05	320, बैंक स्टाफ कॉलोनी, 9वां क्रॉस, मधकोट्टई रोड, थंजावूर 613005, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	04-दिसं-56
485	सी. मेघनाथन (टी. चोक्कालिंगम)	टीएनएसवीसी/1 160/05	वन्नाथार थोट्टम, अनईक्रेडिट पलायम, अंडागलूर गेट डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, पिन-637401	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	19-जुला-69
486	सी. मेहला, पुत्र श्री ए. चिन्नादुरई	टीएनएसवीसी/3 312/06	ए2/495, टाउनशिप, कैलास पुरम, त्रिची -14, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	04-नव-81
487	सी. मेरिल राज (एस. चंद्र सेखरन)	टीएनएसवीसी/2 06/03	प्लॉट न. 2, वेरमा मूनिवर स्ट्रीट, अलामेलू नगर, एस. अलंगुलम, मदुरई - 625017	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	03-फर-80
488	सी. मोहना सुंदरम (एन. चिन्नापा गौडेर)	टीएनएसवीसी/2 567/05	3, काम्बर स्ट्रीट, टीचर्स कॉलोनी, इरोडे-11, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	16-दिसं-54
489	सी. मुरुगन (चिन्नाइयाह)	टीएनएसवीसी/4 8/03	पंडीपथिरम डाक, अवुदायिर कोइल तालुक, पुडुकोट्टई जिला 6146, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	21-मई-77
490	सी. मुरुगन (एस. चोक्कालिंगम)	टीएनएसवीसी/9 10/05	37, कारुमपुली वीरप्पन स्ट्रीट, चोक्कालिंगपुरम, अरुपुकाट्टई, विरुधुनगर जिला-626101	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	03-मई-69
491	सी. मुरुगसन (ए. चिदांबरम)	टीएनएसवीसी/9 47/05	4/116, कवि कालीदौस स्ट्रीट, जयाराम नगर, कोलाथूर, चेन्नई-99	बीवीएससी/टी एनएयू/76	02-मार्च-52
492	सी. मुथुकुमारन, पुत्र श्री के. चेलप्पन	टीएनएसवीसी/3 332/06	प्रथम वार्ड, अरुणाचलम पुडूर, थरामंगलम(डा), ओमालूर(ता), सलेम(जि) 636502, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	20-मई-82
493	सी. मुथूसामी (पी. चिन्नाकरुप्पन)	टीएनएसवीसी/1 066/05	7/1016, लिविंगस्टन स्ट्रीट, मेलाकुइलकुडी रोड, नागमलई पुडुकोट्टई, मदुरई 19 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	03-मई-62
494	सी. नागेंद्रनाथ (जी.एस. चंद्रशेखरइया)	टीएनएसवीसी/1 994/05	22/1, जे.के. स्टोल्स के पीछे, समादरमापुरम, धेनी 625531, तमिलनाडु	बीवीएससी/यूएसब गलौर/86	20-मई-64
495	सी. नारायणन (एस. चेंगलवारायन)	टीएनएसवीसी/1 339/05	बधूर ग्राम डाक, वंदावासी तालुक, तिरुवनामलई जिला 604403, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	19-अग-64

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
496	सी. नटराजन (पी. चिन्मयन)	टीएनएसवीसी/2 591/05	3/1, नेहरू स्ट्रीट, सूरमपट्टी वालासू, इरोडे 638009, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/70	10-जुला-44
497	सी. नबाजग, पुत्र श्री के. चोकाळिंगम	टीएनएसवीसी/3 453/06	एच-12, टीएनएचबी कॉलोनी, एसटीसी रोड, पेरुमलपुरम, तमिलनाडु-7	बीवीएससी/टी एनएयू/79	23-अप्रैल-54
498	सी. निर्मला (पत्नी श्री आर. अरुण कुमार)	टीएनएसवीसी/2 098/05	21/3 डी. का. नामानडल रोड, वी.ओ.सी. नगर एक्सटें. कल्लाकुरिची, विल्लुपुरम जिला, 606202	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	08-जुला-74
499	सी. नोबल (एन. चेल्लान)	टीएनएसवीसी/2 160/05	अनईकुजी, चाथेन कोडे डाक, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /90	03-जून-64
500	सी. पंडियान (के. चिन्नागौरंडेर)	टीएनएसवीसी/1 675/05	एजी, अय्यमपलायम, नल्ली- पलायम डाक, नमक्कल जिला, 637003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	30-अप्रैल-61
501	सी. पर्नारसेल्वम (वी.पी. चिन्नापेरुमल)	टीएनएसवीसी/1 104/05	1/198-4, मीनाक्षी अम्मान नगर, सूर्या नगर के निकट, के. पुडूर, मदुरई 625007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	10-जुला-61
502	सी. पार्थीबन (वी. चेंगलवारयन)	टीएनएसवीसी/1 645/05	सी 21, अभिनव कैलाश, 19, वेलाचेरी रोड, सइदापेट, चेन्नई 600015	बीवीएससी/टी एनएयू/86	06-जुला-63
503	सी. प्रभाहर (सी. चिन्नापलानी)	टीएनएसवीसी/9 12/05	कुप्पापलानीपट्टी, नीलाक्कोट्टई तालुक, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	05-जून-65
504	सी. रघुपथि (के. चंद्रायन)	टीएनएसवीसी/1 019/05	थेंगलवराय, मेट्टूर डैम, आरएस सलेम- 636402, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	05-अप्रैल-68
505	सी. राजेंद्रन (एस.के. चोकाळिंगम)	टीएनएसवीसी/2 814/05	5/14, इलईक्कल स्ट्रीट, मदापुरम, तिरुवरुर, पिन- 610001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/76	21-अग-50
506	सी. राजेंद्रन (वी.के. चिदाम्बरम)	टीएनएसवीसी/1 566/05	अगूर, वेलिमेट्टुपेट्टई वाया, टिंडीवनम तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	20-मई-63
507	सी. रामासामी (के. पी. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी/9 39/05	के.सी.पट्टी डाक, पेरुम्पराई वाया, कोडाइकनाल तालुक, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/89	03-मार्च-65
508	सी. राधिनासामी (ओ. चिन्ना)	टीएनएसवीसी/1 906/05	एचआईजी 362, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, वेनमपट्टी रोड, विरुपाचीपुरम, धर्मपुरी	बीवीएससी/टी एनएयू/79	02-अप्रैल-54
509	सी. सबार्थी (के. चिन्नायसामी)	टीएनएसवीसी/1 446/05	16/5, नंद गोपाल कोविल स्ट्रीट, ओडाइपट्टी डाक, थेनी तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	11-मई-65
510	सी. संकरा नारायणन (के. चिदाम्बरम)	टीएनएसवीसी/2 829/05	पी.न.4, वनथी नगर, विजय लक्ष्मीनगर के निकट, कूठा पक्कम, कुडालोर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	29-जून-68

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
511	सी. सर्वन कुमार (के.एन. चंद्रसेखरन)	टीएनएसवीसी/2 001/05	15, प्रकाशक्ति स्ट्रीट, सुंदर नगर, थिरु नगर डाक, मदुरई 625006, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	14-मार्च-71
512	सी. सत्या (जी. तुलसी रमन)	टीएनएसवीसी/2 450/05	न. 105, कोइल स्ट्रीट, वी.के. थंगल ग्राम, पेरुकांची डाक, बलाजा तालुक, वेल््लोर जिला 631002	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	05-मई-76
513	सी. सेंथिल कुमार (वी. चिन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/1 169/05	नया न. 105, मरुरपट्टी, सेलापमपट्टी वाया, नमक्कल जिला, पिन 637019, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	02-मई-67
514	सी. सेंथिल कुमार (वी. चिन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/3 95/04	नया न. 136, 2/299, पोन्नगर, मेट्टुरडैम, 636401, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	10-मई-80
515	सी. सेंथिल कुमार (आई. चिन्ना कन्नन)	टीएनएसवीसी/2 09/03	5/116, अकीनयना पल्ली डाक, बारगूर विज़, कृष्णा गिरि तालुक, धर्मपुरी, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	16-मार्च-80
516	सी. सिगामनि (एन. चिन्नामुथु)	टीएनएसवीसी/2 497/05	7, बालाजी एवेन्यू, सक्ति नगर थिंडाल डाक, इरोडे-9, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	05-जून-61
517	सी. सिवानंदम (पी. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी/1 346/05	70, एचआईजी, फेस 1, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, तिरुपत्तूर, वेल््लोर जिला 635601, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/73	15-जुला-47
518	सी. सौंडइयान (बी. चेन्नइयाह)	टीएनएसवीसी/3 210/05	3/197, कट्टाबोमन स्ट्रीट, कामराज नगर, एम. के. पट्टी डाक, पोलाची 642003, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/74	09-नव-50
519	सी. श्रीकुमार (एम. सुंदरेश्वरन)	टीएनएसवीसी/3 064/05	1/ए, बृंदाबन पलैट्स, 45वीं स्ट्रीट, नांगानल्लूर, चेन्नई 600061	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	24-अप्रैल-67
520	सी. सुधाकर (के. चिन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/7 4/03	न.1, ईस्ट स्ट्रीट, नामागिरिपेट डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, पिन 637406	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	15-जुला-76
521	सी. सुगम (पी. चिन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/2 036/05	सीधेरी, अक्कारीकडु 636101, वाया अरागलूर, अट्टूर तालुक, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	20-जन-69
522	सी. सुंदरराजन (एम. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी/1 722/05	न. 1, राजाजी स्ट्रीट, के.के. नगर, त्रिची 620021, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	14-फर-57
523	सी. सुंदरराज (पी. चेल्लाकांनी)	टीएनएसवीसी/6 63/05	4/28, विनयकरं कोविल स्ट्रीट कृष्णापुरम 626143, राजापलायम, टी.के. विरुधु नगर जिला 626143	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	23-अप्रैल-77
524	सी. सुरेश (आर. चिन्नाथम्बी)	टीएनएसवीसी/3 073/05	कोंचीकुप्पम, कदमपुलियूर डाक, पानरुति तालुक, कुडालोर जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	07-जून-83

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
525	सी. सुरेश कुमार (के.के. चैनियप्पन)	टीएनएसवीसी/3 227/05	डॉ.एम.जी.आर. नगर, कनक्का पलायम डाक, कालीपट्टी वाया, गोबी तालुक 638505, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	10-जन-76
526	सी. सुधा (एल. चेंनीमलई)	टीएनएसवीसी/2 46/04	616, नेसावलार कॉलोनी, मर्केडायन नगर, मेलांमंगलम, पेरीयाकुलम तालुक, थेंनी जिला	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	20-अप्रैल-78
527	सी. थोमोनी (एन. चिन्ना पिल्लई)	टीएनएसवीसी/2 158/05	कुन्नन विल्लई वीडु, पाकोडे डाक, 629168, के.के. जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /90	11-मई-62
528	सी. थिरुमुरुगन (एस. चोकाळिगम)	टीएनएसवीसी/1 080/05	15/5(2), पोन्नग्राम स्ट्रीट, मेला चोकाळिगपुरम, अरुप्पुकोट्टई 626101, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	04-मई-71
529	सी. थ्यागराजन (के. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी/2 675/05	3/3ए, चंद्रमणि नगर, एस.आर.के.वी. डाक, कोयम्बतूर 641020, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	02-जून-71
530	सी. टाइटस कोइलपिल्लै (के. दुराईराज चेलइयाह)	टीएनएसवीसी/2 922/05	2864, 'वार्ड' ब्लॉक, तीसरी स्ट्रीट, 12वां मेन रोड, अन्ना नगर वस्त, चेन्नई 600040	बीबीएससी/टी एनएयू/79	06-सित-54
531	सी.वी. चंद्रसेखरन (सी. वी. वेलुसामी)	टीएनएसवीसी/1 34/03	29, सेलियादियामन कोइल स्ट्रीट, अन्नाई इल्लम, अधानी, पिन-638502, भवानी तालुक, इरोडे जिला	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	10-मई-79
532	सी.वी. शिवकुमार (सी. वेल्लापडियान)	टीएनएसवीसी/1 319/05	27-ए, बंगलो स्ट्रीट, कोविलपट्टी, ट्यूटीकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	29-सित-70
533	सी. वल्ली (पत्नी श्री आर. महादेवन)	टीएनएसवीसी/3 015/05	18/20, एलआईजी कॉलोनी, ए.ई. कॉइल स्ट्रीट, तीसरी लेन, चेन्नई 600081	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	24-नव-67
534	सी. वसंधी (जी. चंद्रसेखर)	टीएनएसवीसी/6 84/05	453, तीसरी लिंक स्ट्रीट, 5वां मेन रोड, एम.के.बी. नगर, चेन्नई 600039, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	03-दिस-75
535	सी. वीरा सुब्रमण्यन (सी. चोकाळिगम)	टीएनएसवीसी/2 590/05	3/41, अचमपथु, मदुरई, 625019, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	24-सित-67
536	सी. विद्यासागर (आर. चंद्रन)	टीएनएसवीसी/7 29/05	न. 43, बाजार स्ट्रीट, पौपारा पट्टी डाक, धर्मपुरी जिला, पिन- 636809, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	31-अग-78
537	सी. विजय कुमार (एम. चिन्ना थम्बी)	टीएनएसवीसी/1 93/03	अधियामन कोट्टई डाक, धर्मपुरी जिला 630807, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	12-जून-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
538	सी. विजयाविष्णु (के.आर. चेल्लापन)	टीएनएसवीसी/4 14/04	न. 14, इंद्रानी नगर, नरसोथिपट्टी, सलेम 636004, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	27-जुला-78
539	सी. विन्सन अनियल अब्राहम (एस. चेल्लयाह)	टीएनएसवीसी/1 11/03	2/66, चर्च स्ट्रीट, मुंदरायप्पू एवं पोटीरुनेलवेली 627 1, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	09-जन-79
540	सी.ए. सेल्वा जयाकुमार (के.के. अंगामुथु)	टीएनएसवीसी/1 536/05	5/6, गांधी नगर, अट्टूर 636102, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	01-मई-57
541	सी.ए. सेल्वारजू (सी. अप्पावु)	टीएनएसवीसी/2 650/05	7/3, संधई मेडु, के.वी.कुप्पम (डाक), कटपडी (तालुक), वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	28-जुला-60
542	सी.बी. राज (बी. बालासुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/2 693/05	न. 8, ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट न. 1, मुथुसामी कॉलोनी, कोयम्बतूर 641026, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	22-जन-58
543	सी.बी.वी. रत्नम (सी.एल. नरसिम्हा मूर्ति)	टीएनएसवीसी/2 028/05	टी-9, अक्स श्रुति अपार्ट. 63, कलिकुप्पम रोड, वेंकटपुरम, अम्बाट्टूर, चेन्नई -53	बीवीएससी/एमयू/ 69	10-सित-41
544	सी.डी धरनेश, पुत्र श्री सी.एम. ध्यावे गोडा	कर्नाएसवीसी/37 69/	बाइरावेश्वर नीलया, मल्लेश्वर नगर (बाई ओर), अरासीकेरे, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएएस यू/05	23-जुला-83
545	सी. इलानचेवन (जेजियान)	टीएनएसवीसी/1 844/05	87/35, वाडीवेलु मेन रोड, पेराम्बूर, चेन्नई 600011	बीवीएससी/टी एनएयू/84	14-जन-59
546	सी.जे. कुमार (सी.डी. जीवरथिनम)	टीएनएसवीसी/2 921/05	सी-37, वेंकटरमन सलाई, पेरियार नगर, चेन्नई 600082	बीवीएससी/टी एनएयू/84	15-नव-57
547	सी.के. कन्नागी (एम. कवारन)	टीएनएसवीसी/3 55/04	7/329, कन्नागी इल्लम, बाईपास रोड, हरूर डाक एवं तालुक, धर्मपुरी जिला 636903, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	15-जून-79
548	सी. करुप्पुचामी (एस. चिन्नाचामी)	टीएनएसवीसी/1 830/05	कण्डायमपट्टी डाक, वाया थानियियम वाडीपट्टी तालुक, मदुरई जिला 624221, त.ना.	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	29-जुला-69
549	सी.एस.एल रक्षा (पी. आनंद कुमार)	टीएनएसवीसी/2 317/05	25/4, लोगनाथन स्ट्रीट, चैय्यार 604407, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	14-मई-75
550	सी. मुमूर्थि (वी. चेल्लयाह)	टीएनएसवीसी/1 626/05	29, सातवीं स्ट्रीट, गांधी नगर, मन्नाचन्नलूर, 621005, त्रिची, जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	09-फर-67
551	सी.एन. चंद्रमोहन (सी. नतेसन)	टीएनएसवीसी/2 164/05	33/3, के.पी.के. कॉलोनी, देवाडॉस रोड, पेरारुवानी डाक, तुंजावूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/79	01-जन-53

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
552	सी.एन. चंद्रसेखरन (सी. एल. नन्नाबा)	टीएनएसवीसी/1 030/05	6/670, धुलसी निवास, गणेशपुरम, वैक्कलपट्टारई, अल्लीकुट्टाई(डाक) सलेम, 636003, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/88	14-मार्च-65
553	सी. पद्मनाभन (ओ.सी. पिल्लै)	टीएनएसवीसी/2 329/05	1-281ए, गणेश नगर, पूर्वी पुथेरी, नागरकोइल 629001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/88	21-जून-63
554	सी.आर. प्रसन्ना (ए. चक्रवर्ती)	टीएनएसवीसी/7 55/05	वडाकुरुम बूर, कुवाडु डाक, विल्लुपुरम जिला, 607201, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	04-जून-76
555	सी.आर. रामगोपाल (सी. आर. रामब्रह्मम)	टीएनएसवीसी/2 137/05	न. 45, बजानई कोइल स्ट्रीट, कडापेरी, मदुरथगम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/78	26-फर-54
556	सी.आर. सोलिन सेल्विन (सी.वी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/2 606/05	नॉर्थ चेयूर, चेयूर जिला डाक एवं तालुक, कांचीपुरम जिला 603302 तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	03-जून-67
557	सी.एस. आनंद लक्ष्मी (पत्नी श्री एम.रामामूर्ति)	टीएनएसवीसी/2 121/05	83, बिग स्ट्रीट, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई- 5	बीबीएससी/टी एनएयू/78	24-मई-56
558	सी.एस. अरुणाभन (एस. सी. सारंगपानी)	टीएनएसवीसी/7 24/05	डी-41, महात्मा गांधी रोड, ब्लॉक-25, नेवेली-3, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /85	03-दिसं-70
559	सी. सिवानंदन (एन. चिन्नाइया पिल्लै)	टीएनएसवीसी/2 658/05	सी-48, नवां क्रॉस, डब्ल्यू.ई. थिल्लई नगर, त्रिची, 620018, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/80	26-अप्रैल-56
560	सी. सिवासक्ति (आर. चिन्नापोन्नन)	टीएनएसवीसी/2 252/05	न. 8, रासी इल्लम, जोधी नगर, गोबीचेट्टीपलायम, इरोडे जिला, 638476, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	10-मई-75
561	सी. श्री निवासन (एस. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी/1 770/05	वेलियाथूर, आमराडक्की डाक, अवुदैयारकोइल तालुक, पुडुक्कोट्टई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/77	18-नव-52
562	सी. सुरूलिराज (एम. चेलइयाह)	टीएनएसवीसी/1 848/05	मंगलरेवे, डाक, पेराइयूर वाया एवं तालुक, मदुरई जिला, 625703, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	10-मई-75
563	सी.टी. जयाराम सी. (सी. थंकाराज)	टीएनएसवीसी/2 977/05	9/81 सी, राजमथी भवन, कारुकनकुडी, थिक्कनाम कोडे डाक, कन्याकुमारी जिला 629804, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	05-जून-69
564	सी.टी. सेल्वाकुमार, पुत्र श्री सी. ध्यागराजन	टीएनएसवीसी/3 517/06	के.सी.एस. मिल्स लि., मूंगिलथुराईपट्टू डाक, 605702, विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु	बीबीएससी/डब्ल्यूबी यूएंडएएस/03	22-अप्रैल-76
565	सेसलिया जोसेफ, पत्नी श्री ए. जोसेफ इलांगो	टीएनएसवीसी/7 50/05	नया न. 21 (पुराना न. 9), पांचवा स्ट्रीट, सौराष्ट्र नगर, चेन्नई 600094, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/85	02-अक्टू-62

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
566	च. सुरेश कुमार, पुत्र श्री च. मुरलीधर	एपीएसवीसी / 4382 / 05	म.न. 1-2-12 राकासीपेट, बोधान., निजामाबाद जिला 503185, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	21-नव-80
567	चंदन पासवान, पुत्र श्री सुमित लाल पासवान	बिहारएसवीसी / 2 297 / 03	ग्राम मदेशी, डाक तिलकपुर, थाना सुल्तानगंज, सबडिवी. भागलपुर, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / सीसीएसएचएयू / 02	17-सित-77
568	चंद्रकांत कुमार निराला, पुत्र स्व. श्री देवनंदन प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2 359 / 03	ग्राम नगवा, डाक दामोदरपुर (बल्धा) थाना नगरनौसा, सबडिवी. हिल्सा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / बीएयू / 03	01-मार्च-77
569	चंद्रकांत त्रिपाठी, पुत्र श्री लालजी त्रिपाठी	एमपीएसवीसी / 2 313 / 06	चांदमारी रोड न. 1, धावारी, मंगल भवन, धावारी केनिकट, सतना 485001, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / जेएनकेवीवी / 84	28-अग-59
570	चंद्रमणि साहू, पुत्र श्री गंधर्ब साहू	उड़ीसाएसवीसी / 2016 / 05	एटी / डाक: सिरलोनाबागराम, वाया रघुनाथपुर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच / ओयूएंडटी / 05	02-जून-80
571	चंद्रशेखर सिंह, पुत्र श्री रामपूजन सिंह	बिहारएसवीसी / 2 398 / 03	ग्राम पाटेराही जलाल, डाक मिर्जापुर, थाना मरहौरा, सबडिवी. मरहौरा, जिला छपरा (सारन), बिहार	बीवीएससीएंडए एच / एमएएड एफएसयू / 03	01-मार्च-77
572	चंद्रपाल सिंह सोलंकी, पुत्र श्री ध्यान सिंह सोलंकी	एमपीएसवीसी / 2 274 / 05	सोलंकी ट्रेडर्स, भवानी रोड, सानावड, खारगोन, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / जेएनकेवीवी / 03-04	27-जून-77
573	चंगमई कल्याण, पुत्र श्री सरुकन चंगमल	असमएसवीसी / 2 224 / 05	द्वारा: एस.के. चंगमल, गोहेन गांव, डाक तोपेसाजिया (उ.), लखीमपुर, असम	बीवीएससीएंडए एच / एएयू / 05	15-मई-79
574	चन्नाबासइया, पुत्र श्री गंगइया हीरेमठ	कर्नाएसवीसी / 37 17 /	इंडालगी, हिरुर डाक, हुंगुड तालुक, बगलकोट जिला- 587125, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच / केवीएंडएफएस यू / 05	23-जुला-83
575	चरन प्रीत सिं, पुत्र श्री अमरीक सिंह	पीबीएसवीसी / 2592 / 05	25-बी, मंड निवास, गुरु तेगबहादुर, डाक खालसा कॉलेज, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच / पीएयू / 05	15-अग-60
576	चरनजीव सिंह, पुत्र श्री अजीत सिंह	पीबीएसवीसी / 2601 / 05	ग्राम नवां झावर, डाक जीवन वाल बाबरी, जिला गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच / पीएयू / 05	27-जुला-80
577	चौधरी भंवरलाल	गुजएसवीसी / 2660 / 06	ग्राम / डाक नोख, तहसील बारेर, जिला बाड़मेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच / एसकेडीएयू / 06	25-अप्रैल-81
578	चौधरी नरेश कुमार एफ.	गुजएसवीसी / 2661 / 06	मोतीहीरवानी, तालुक खेरालू, जिला मेहसाना पिन 384325, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच / एसकेडीएयू / 06	01-जून-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
579	चौधरी रमेश कुमार के.	गुजएसवीसी / 2662 / 06	एटी रहोदा, डाक अलवादा, तालुक धानेरा, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच / एसकेडीएयू / 06	14-जून-82
580	चौहान फतेहसिंह	गुजएसवीसी / 2654 / 06	नारोली, तालुक थराड, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच / एसकेडीएयू / 06	01-जून-82
581	चौहान सतपाल सिंह टी.	गुजएसवीसी / 2620 / 06	ग्राम एवं डाक पीठ, तहसील सिमलवाडा, जिला डूंगरपुर, राज्य राजस्थान, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच / आनंद कृ.वि. वि. / 06	30-जून-83
582	चावा सतीश, पुत्र श्री च. वेंकटेश्वर राव	एपीएसवीसी / 44 00 / 05	म.न. 6-1-376, वीडो, खानापुरम, हवेली, खम्मम, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	03-अग-81
583	चेथन के.पी., पुत्र श्री पुट्टास्वामी एच.यू.	कर्नाएसवीसी / 37 84 /	कमरा न. 9, नई बिल्डिंग, आर.बी.डी.जी.टी.सी. होस्टल, सिटी रेलवे स्टेशन के निकट, बंगलौर-23, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच / केवीएंडएफएस यू / 05	25-सित-82
584	चेटिया उत्तम, पुत्र श्री बालुराम चेटिया	असमएसवीसी / 2 207 / 05	बोकोटा गारकुच, चेटिया गांव, डाक चेरुभंगा, जिला सिबसागर, असम	बीवीएससीएंडए एच / एएयू / 05	01-सित-78
585	चिदानंद कूर्थि एस.एन. पुत्र श्री ए. नागइयाह	कर्नाएसवीसी / 37 63 /	सांडेकोप्पा डाक, बंगलौर नॉर्थ, तालुक, बंगलौर-562130, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच / केवीएंडएफ एसयू / 05	27-फर-82
586	चिलुका हरिथा, पुत्र श्री पापीरेड्डी	एपीएसवीसी / 44 11 / 05	म.न. 7-164 / 1 / ए, कमलनगर, ईसीआईएल डाक, हैदराबाद 500062, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	03-अप्रैल-82
587	चिन्मयी दास, पुत्र श्री चिंतामणि दास	उड़ीसाएसवीसी / 1980 / 05	दुर्गाचरन दास, एटी रानीगोडा, डाक तुरंगा, जिला अनुगुल, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच / ओयूएंडटी / 05	10-जून-79
588	चिन्ना मुनिया नुटककी, पुत्र श्री नामेश्वर राव	एपीएसवीसी / 4324 / 05	गवर्न. बॉयज़ होस्टल, नज़रपेट, तेनाली, गुटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	01-अप्रैल-81
589	चित्रा आर. नायर	केरल / 3016 / 05	गौरीशंकरम, वीपी 1 / 1452, कमला गार्डन, एकेजी नगर रोड, पेरुरकाडा डाक, त्रिवेंद्रम-695005, केरल	बीवीएससीएंडए एच / केएयू / 05	08-दिसं-80
590	चित्तरंजन दास, पुत्र श्री श्रीधर प्रसाद दास	उड़ीसाएसवीसी / 2000 / 05	एटी. बिनायकपुर, डाक बोडक पटना, वाया रंदिवा, जिला भद्रक, पिन 756135, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच / ओयूएंडटी / 05	10-जन-76
591	चौधरी पूजा आर.	गुजएसवीसी / 26 36 / 06	बी-71, बिरला शुगर कॉलोनी, पोरबंदर, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच / आनंद कृ. विवि / 05	11-सित-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
592	मिथिया रैवेण्डे (जे.वी. थोमस)	टीएनएसवीसी/1 318/05	न. 23. टेलर्स एस्टेट, आईएसटी, कोंडम्बकम, चेन्नई 600024	बीबीएससी/टी एनएयू/86	03-अक्टू-61
593	डी. अरुण (जी. अरुणकासन)	टीएनएसवीसी/6 96/05	पेरियाकाडु, मूलईपल्लिपट्टी डाक, नामागिरीपेट वाया, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	10-मई-71
594	डी. अशुथा, एल. श्री एस. अरुणमणि चेलवान	टीएनएसवीसी/1 574/05	69, गांधी नगर, मरक्कनम रोड के निकट, टिंडीवानम, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	31-मई-75
595	डी. अरुण (जी. देवराज)	टीएनएसवीसी/2 482/05	चौथा कॉंस, मुरुगर कोइल स्ट्रीट, कंडाचिपुरम डाक, विल्लुपुरम जिला, 605701, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	15-जून-74
596	डी. बालासुब्रमण्यम (आई दुराईसामी)	टीएनएसवीसी/8 40/05	न.10/26, अन्ना नगर, सेदुराई डाक, पेराम्बलूर जिला, पिन- 621714, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	15-जून-73
597	डी. बालायुब्रमण्यम (ए. दक्षिणामूर्ति)	टीएनएसवीसी/3 028/05	बी-34, अलगेसा नगर, चेंगलपट्टूर, 603001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/90	20-जून-67
598	डी. बरानी लक्ष्मी, (एस. रविकुमार)	टीएनएसवीसी/1 589/05	बी-51, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड क्वा., कराई, रानीपेट, वेल््लोर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/89	21-अप्रैल-66
599	डी. भरानीधरन, (ए.सी. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी/1 041/05	5/187-सी, राजा गणपति नगर, मायाम्मल आश्रम के पीछे, चिन्नाकोलापट्टी, कन्नन कुरिची डाक, सेलम-8	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/97	04-जून-74
600	डी. कांवेरी (के. जयराजा)	टीएनएसवीसी/1 420/05	12, लिंगम राइस मिल स्ट्रीट, पुराना पल्लावरम, चेन्नई 600117, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/97	21-मई-73
601	डी. चंद्रसेखरन (के. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी/8 97/05	32/1, ईस्ट स्ट्रीट, पेरी चिपालयम डाक, पलानी तालुक, डिंडिगल जिला, पिन 624617, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/81	24-फर-57
602	डी. रामोदरन (सी. देवराज)	टीएनएसवीसी/2 436/05	पिल्लूर ग्राम एवं डाक, विल्लुपुरम डाक एवं जिला, तमिलनाडु 605103	बीबीएससी/टी एनएयू/ 80	09-जन-51
603	डी. दीपा (ए. कांवेरी)	टीएनएसवीसी/5 97/05	गोविंदसामीनगर, केलको डेंगलोर, वंदावासी 604403, थिरुवन्नामलाई जिला तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	17-मई-81
604	डी. दीपा (ए. डिकसन जयराज)	टीएनएसवीसी/1 15/03	14/48-ए.जेन्स डेन, काल्लू कट्टी, कुजीथुरई डाक, के.के. जिला, 629163, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	22-जुला-80
605	डी. वनमति (बी. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी/1 35/03	कक्काची कडु, मूलाईपल्ली पथि डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, 637406, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	07-अग-79
606	डी. धर्मेन्द्र, सुभा श्री के. धनशेखरन	टीएनएसवीसी/3 364/06	साउथ स्ट्रीट, इडायाकुरिची डाक, उदायारपलायम तालुक, पेराम्बलूर जिला, 621719, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	17-जून-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
607	डी. डोनाल्ड गनराज (जी.पी. धनराज)	टीएनएसवीसी/1 879/05	20, चौथी स्ट्रीट, गांधी नगर, तिरुवन्नामलई, तमिलनाडु	बीवीएससी/मद्रास वि.वि./71	24-जुला-46
608	डी. एडविन जेम्स जेबादास (सी. दुराईराज)	टीएनएसवीसी/3 194/05	एच-16, पोन्वित्तजा नगर, महाराजनगर डाक, तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/89	31-जुला-66
609	डी. गजेंद्रन (एम.एस. धयालान)	टीएनएसवीसी/5 2/03	कुटलाडमपट्टी वाडीपट्टी तालुक, मदुरई जिला, 625218, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	22-जन-78
610	डी. गनपथि (जी. घानाकोडी)	टीएनएसवीसी/1 039/05	51, सुंदरम चेट्टी स्ट्रीट, जलकांतापुरम डाक, सलेम जिला 636501, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	10-जून-60
611	डी. गांधी (आर. दुराईराज)	टीएनएसवीसी/3 168/05	2/1098, मानिकवासागर स्ट्रीट, वीओसी नगर, गोमथी पुरम, मदुरई 625020, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	03-अक्तू-54
612	डी. गांधीमठी (पत्नी श्री वी. कोठांडारमन)	टीएनएसवीसी/2 170/05	न.2, वैदीश्वरन नगर, आर.एस. रोड, गुडियाट्टम, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु 632602	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/90	19-मई-63
613	डी. गोपू (एम. दैवासिगामनि)	टीएनएसवीसी/2 953/05	22, महा शक्ति कॉलोनी, सेम्बककम, चेन्नई, 600073, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	08-अप्रैल-63
614	डी. जगनमोहन चारी, पुत्र श्री रंगाचारी	एपीएसवीसी/44 24/06	म.न. 1-6/1, कर्मनघाट, हैदराबाद 500079, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी/एपीएयू /81	01-जून-55
615	डी. जेन थानम, पत्नी श्री पी. सुरेश	टीएनएसवीसी/1 950/05	98ए-6, कलारमपट्टी मेन रोड, देवी थिएटर के निकट, किची पकयाम डाक, सलेम 638015	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	02-जुला-75
616	डी. जयन्थन (पी. दक्षिणामूर्ति)	टीएनएसवीसी/2 72/04	117-सी, साउथ रेलवे लाइन, कुमारासामी पेट, धर्मपुरी 636007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	03-जुला-77
617	डी. जोथिबास (एस.एन. दुराईराज)	टीएनएसवीसी/1 920/05	थोप्पू स्ट्रीट, चिन्नावलायम डाक, जयनकॉडम वाया, पेराम्बलूर जिला, 621180, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	10-मार्च-71
618	डा. कार्थिगेयन (वी.एस. घनासेखरन)	टीएनएसवीसी/4 81/05	पुराना न. 31/11, नया न. 12, सरदाम्बल स्ट्रीट, सइदापेट, चेन्नई- 600015, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	08-जुला-82
619	डी. कार्तिकेयन (आर. दक्षिणामूर्ति)	टीएनएसवीसी/1 39/03	58-ए, सन्यासी गुन्डू एक्सटें. किचीपलायम डाक, सलेम 636015, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	21-मई-80
620	डी. कार्तिकेयन (टी. धीनधयालन)	टीएनएसवीसी/2 426/05	प्लॉट न. 65, अलगप्पा नगर, गांधीपुरम, सुलीस्वरनपट्टी डाक, पोलाची 642001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	21-जुला-76
621	डी. करुणाकरन (एम. देवादौस)	टीएनएसवीसी/8 11/05	15, अधयामन साउथ, चौथी स्ट्रीट, पैरी नगर, कराईकुडी, शिवगंगा जिला, पिन 630004	बीवीएससी/टी एनएयू/84	24-मई-60
622	डी. काशीविश्वनाथन, पुत्र श्री के. धनुकोडी	टीएनएसवीसी/3 429/06	34, नॉर्थ स्ट्रीट, सिंधुपुंडुराई, तिरुनेलवेली 627001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	03-मई-73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
	अलगार				
623	डी. कविथा (वी. राजामनिक्कम)	टीएनएसवीसी/2 579/05	147, पुलियाकड्डु, थालकुनी वाया, कोलाप्पलूर डाक, गोबी तालुक, इरोडे जिला 638456, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	15-अक्तू-74
624	डी. किशोर कुमार (एस दिल्ली बच्चा नायडू)	टीएनएसवीसी/2 958/05	न. 14, दूसरा क्रॉस स्ट्रीट, नई कॉलोनी, क्रोमपेट, चेन्नई 600044	बीवीएससी/टी एनएयू/82	24-मार्च-56
625	डी. कृष्णमूर्ति (के.आर. धर्माणिगम)	टीएनएसवीसी/1 886/05	142, पचामथु उदयार कॉम्पले, पुथीरा गौडेन पलायम डाक, येथापुर वाया अट्टूर तालुक, सलेम जिला-636119	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	13-जून-72
626	डी. कुमारन (एम. डोराइसामी)	टीएनएसवीसी/2 889/05	18/49, थिरुवल्लुवर स्ट्रीट, इथीराज नगर, पश्चिम मम्बालम, चेन्नई 600033	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/95	22-जुला-72
627	डी. लाजर एजिल (एल.दयालदास)	दुराई टीएनएसवीसी/2 214/05	6/14, मेम रोड, पप्पमपट्टी, ओडीपुडुर वाया, कोयम्बतूर- 16, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/97	28-मई-73
626	डी. लिली अरुल पत्नी श्री एम राजशेखर पंडियान	कुमारी, टीएनएसवीसी/1 161/05	3/12, सेकर भवनम, परमकुटा पुरम, सुरंदई वाया, टेनकासी तालुक, 627857, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	30-सित-69
629	डी. माधीपंडियान (टी. दुराईपंडियान)	(टी. दुराईपंडियान) टीएनएसवीसी/3 114/05	27/12, पेरुमल नॉर्थ कारस्ट्रीट पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली 827002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	08-मई-55
630	डी. मनोहरन (आर. देवराजलु)	टीएनएसवीसी/2 659/05	73, केवीबी नगर, I क्रॉस, करूर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/ 81	15-मई-57
631	डी. मोहम्मद मुबारक (एम. दस्तगीर)	टीएनएसवीसी/9 43/05	ई-123, पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स, हंटर नगर, सइदापेट, चेन्नई 600015, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	06-मई-65
832	डी. मुरुगनंदम (के. दानावेलु)	टीएनएसवीसी/1 979/05	27ए/2, मागनाडु धर्मरायार स्ट्रीट, कांचीपुरम 631502, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	22-जून-77
633	डी. मुरुगनंदम (पी.पी. दुराईचामी)	टीएनएसवीसी/2 238/05	6/14, 18वीं स्ट्रीट, तान्सी नगर, वेलाचेरी, चेन्नई 600042, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/77	28-अग-48
634	डी. नंदगोपाल (एम. धरमार)	टीएनएसवीसी/1 220/05	1/364, 'बी' सिल्वरपुरम, मीला विट्टन रोड, द्यूटीकोरीन 828002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/ 85	06-मई-81
635	डी. नरेंद्रन (रामा धयानिधि)	टीएनएसवीसी/5 18/05	212/248, कामराज रोड, अरकांदनानूर 605752, तिरुक्कोलियूर तालुक, विल्लुपुरम जिला	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	27-दिसं-81
636	डी. नटराजन (एम. दुराईराज)	टीएनएसवीसी/3 240/05	107/39, मिलेरपुरम, द्यूटीकोरीन 628008, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	31-अक्तू-54

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
637	डी. पूमालई (पी. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी/2 016/05	कडानेरी डाक, पेरियूर तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	05-जून-74
638	डी. पोरचेलज़ियान (एस. दुराई)	टीएनएसवीसी/5 43/05	5/1397-सी, एल.आर. मनिक्कम स्ट्रीट, भारतीपुरम, धर्मपुरी जिला, पिन- 636805, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	29-जुला-81
639	डी. प्रदीपा (जी. धामोघरन)	टीएनएसवीसी/7 09/05	5/821-1, ट्रेजरी कॉलोनी, कलेक्टेरेट डाक, धर्मपुरी 636705, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	13-मार्च-77
640	डी. प्रकाश (जी. धर्मलिंगम)	टीएनएसवीसी/6 07/05	2/42 ए.कीजा थीरु, कुन्म डाक, सेरकाजी नगाई जिला- 609108, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	21-जुला-81
641	डी. प्रकाश (वी. देवराजू)	टीएनएसवीसी/1 67/03	सेंगुलाम स्ट्रीट, मेलपादूर ग्रा.चेगम तालुक, थिरुवन्नामलाई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	22-जून-60
642	डी. प्रिया (एम. धर्मलिंगम)	टीएनएसवीसी/6 4/03	215, उदयारपलायम थम्ममपट्टी डाक, सलेम जिला 636, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	13-मई-78
643	डी. पुरुषोत्तमन, पुत्र श्री आर. देवादीस	टीएनएसवीसी/3 515/06	19, गणेशपुरम, पिल्लइयार कोइल स्ट्रीट, नमक्कल- 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	08-अप्रैल-63
644	डी.आर. नटराजन (डी. रथिनम)	टीएनएसवीसी/1 96/03	113, गोल्लापट्टी रोड, गोविंद राज राइस मिल के निकट, धर्मपुरी 636702, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	10-दिस-77
645	डी. राघवन (पी.के. धर्मलिंगम)	टीएनएसवीसी/3 011/05	1/33, अन्ना स्ट्रीट, पेरिया पानीचेरी, गेरुगम्बकम डाक, मंगडु वाया, चेन्नई 602101	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	14-अप्रैल-48
646	डी. राजा (ए. धंदापानी)	टीएनएसवीसी/1 09/03	6, वैकटाकुप्पम, वडालूर डाक, कुडालोर तालुक व जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	03-जून-79
647	डी. राजासेखरन (एम. दुराईराज)	टीएनएसवीसी/1 592/05	34/5, नॉर्थ स्ट्रीट, मनथीथोपू डाक, कोविलपट्टी तालुक, थूथूकुडी जिला 626502	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /99	24-मई-75
648	डी. राजराजन (पी. डोराईसामी)	टीएनएसवीसी/8 05/05	25-डी, रामाकृष्णा रोड, एलआरएन शेड के सामने, सलेम 636007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /81	05-जुला-57
649	डी. राजाराम (आर. देवाराज)	टीएनएसवीसी/3 173/05	162, 7वां क्रॉस, भारती नगर, पुथुर, त्रिची -17, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	29-अप्रैल-60
650	डी. राजेंद्रन (आर. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी/2 915/05	बल्लाकुली, सेनबामगादेवी डाक, अटायमपट्टी वाया, नमक्कल जिला 637501, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू	10-जून-74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
				/97	
651	डी. रामालिंगम (के. दक्षिणामूर्ति)	टीएनएसवीसी/1 518/05	78, अट्टूर सलई, मन्नई रास्ता, इदार स्ट्रीट, थिरुथुरई पूडी तालुक, 614716	बीवीएससी/टी एनएयू/88	13-अप्रैल-65
652	डी. रामामूर्ति (एस. दामोदरन)	टीएनएसवीसी/2 042/05	57, नारायणन नगर, थिरुप्पापुलियूर, कुडालोर 607002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	14-अप्रैल-59
653	डी. रंजन सुंदरकुमार (वाई.दुराईराज)	टीएनएसवीसी/3 235/05	4/618-ए, 24वीं स्ट्रीट, शांति नगर, पलायमकोट्टई, तिरु नेलवेली 827002, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 68	10-अक्टू-45
654	डी. राथिनावेल (ए. दुराईराज)	टीएनएसवीसी/4 53/05	47-ई, रासीपुरम क्रॉस रोड, नरसिंगपुरम डाक, अथूर तालुक, सलेम जिला 636108, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	13-मार्च-80
655	डी. रीना (बी. देवराजन)	टीएनएसवीसी/1 701/05	1/37, कामराजार स्ट्रीट, वेन्मपट्टी रोड, धर्मपुरी 636705, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	29-मई-78
656	डी. सांति (आर. धनसेखर)	टीएनएसवीसी/2 431/05	न. 206, एस.आर.एस. कॉम्प्लेक्स, जी.एस.टी.रोड, क्रोमपेट, चेन्नई 600044	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /98	07-फर-74
657	डी. सर्वन कुमार (दामोदरन)	टीएनएसवीसी/2 69/04	पुराना न. 10, नया न. 17, 5वीं स्ट्रीट, कामराजनगर, अवाडी, चेन्नई-71, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	15-जून-80
658	डी. सेकर (आर. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी/2 6/02	पेरुम्बलीपट्टी, इलूर डाक, 637018, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	07-जून-78
659	डी. सेखर (देवा. सेनाथी पथि)	टीएनएसवीसी/2 470/05	145, कामाराजार स्ट्रीट, एन जीजीओ नगर, तिरुकोइलूर, विल्लुपुरम जिला 605757, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	25-जन-53
660	डी. सेल्वकुमार (एस. एस. दुराईराज)	टीएनएसवीसी/1 233/05	4/200, साउथ स्ट्रीट, पुथियूरपुथुर- 628402, थुथुकुडी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	06-मई-65
661	डी. सेल्वाराजन (एस. दोराईराज)	टीएनएसवीसी/7 23/05	5/252, पाचवीं स्ट्रीट, वेंकटेश्वर नगर, पोलीचलूर, चेन्नई 600074, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/63	10-जुला-41
662	डी. सेंथिल कुमार (एम. धनपाल)	टीएनएसवीसी/3 31/04	न. 2, पहला क्रॉस स्ट्रीट, साइनाथपुरम, वेल््लोर- 632001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	10-जून-80
663	डी. सेंथिल मुरुगन (आर. देवराजन)	टीएनएसवीसी/2 862/05	बी 71, छठी स्ट्रीट, पेरियार नगर, चेन्नई 600082, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/89	05-मार्च-66
664	डी. शानुमुगा कुमार, पुत्र श्री एस. दुराईराज	टीएनएसवीसी/3 475/06	6/4, पेरुमल कोइल, साउथ लेन, बोदीनायकनूर 626513, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू	15-मई-72

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
				/ 95	
665	डी. श्रीनिवासन (आर. देवाराजू)	टीएनएसवीसी/2 38/04	48, इलांगो नगर, कोलावा लेक, अम्मानमवक्कम नाथम (सब.पोस्ट) चेंगलपट्टू 603002, कांचीपुरम जिला	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	12-मई-80
666	डी. श्रीरंजानी (एम. दुराईराज)	टीएनएसवीसी/1 55/03	159, III स्ट्रीट, गणेशपुरम, तिरुचिरापल्ली-620014, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	24-मार्च-79
667	डी. सुबाश्री (एस. श्रवण कुमार)	टीएनएसवीसी/1 215/05	49/28, कामची अम्मान कोइल स्ट्रीट, द्यूटीकोरिन जिला-628002, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	28-मई-74
668	डी. सुब्रामनि (सी. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी/8 62/05	4/80जी.के.के. नगर, येरकॉड मेन रोड, चिन्ना गोलापट्टी, कन्नन कुरिची डाक, सलेम 636008	बीबीएससी/टी एनएयू/87	15-जुला-60
669	डी. सुधा (पी. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी/4 78/05	1/51, सेम्बारीपुधुर, नल्ली पलायम वाया, मुधलईपट्टी डाक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	20-जून-81
670	डी. सुधा, पत्नी (जे. मनिवन्मन)	टीएनएसवीसी/1 803/05	डी 122, एसपीबी कॉलोनी, इरोडे-10, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /99	04-अप्रैल-73
671	डी. सुकुमार (एम. धंदापानी)	टीएनएसवीसी/1 414/05	135/ए-1, वासावी तेल मिल स्ट्रीट, पूटई रोड, संकरपुरम डाक व तालुक, विल्लुपुरम जिला, पिन-606401	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	24-मई-68
672	डी. सुरेश (बी. धंदापानी)	टीएनएसवीसी/3 37/04	2, सरस्वती स्ट्रीट, भारती नगर, थरमनी, चेन्नई-600113, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	19-मई-80
673	डी. सुरेश क्रिस्टोफर (जी.आर. डॅस)	टीएनएसवीसी/1 715/05	17/2, थाथाचेरियान आर्कैड, मम्बाला सेलई, त्रिची 620005, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/89	24-मार्च-66
674	डी. सुरेश, पुत्र श्री एम. वीलत सिंह	टीएनएसवीसी/3 503/06	वेटरिनरी सर्जन, वेट हॉस्पिटल, जिंजी विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/84	02-फर-52
675	डी. सुधा, पत्नी (एम. कंडासामी)	टीएनएसवीसी/1 402/05	87, रमनचंद्रा नगर, इमापेर, कल्लाककुरिची, पिन-606202, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	02-जून-68
676	डी. स्वामीनाथन (बी. धनाबल)	टीएनएसवीसी/1 430/05	50, जलहदपुरम मेन रोड, सिलाम्बगम, थारामंगलम डाक सलेम जिला 636502, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	11-जून-71
677	डी. थनिगायवेलु (के.एम. देवराजा)	टीएनएसवीसी/2 642/05	18, वथियार स्ट्रीट, किलविशराम, मेलविशराम डाक 632509, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	24-जुला-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
678	डी. थिरुमैगनम (एम.एम. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी/2 20/03	पी. मेट्टूर डाक, मल्लूर वाया, सलेम 636203, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /03	27-जून-80
679	डी. थिरुनावुक्कारासू (आर. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी/1 338/05	हलाथमराथुकुडु, ओराम्बू ग्राम, टी.जी. पलायम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल 636202, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच/पीयू/00	23-मई-76
680	डी. उमा महेश्वरी (पत्नी श्री आर. दुराई सिंह)	टीएनएसवीसी/1 092/05	7-ए.टी एनएयू एवेन्यू राजा कम्बीराम, थिरुमोहावूर डाक, मदुरई - 625107, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /96	19-मई-72
681	डी. वंचीनाथन (जी. देशनामूर्ति)	टीएनएसवीसी/3 252/05	9, अच्युथा नारायण पिल्लई लेन, नागपट्टिनम 611001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /93	14-मार्च-58
682	डी. वसंथा कुमारी, पुत्र श्री बी. दयानिधि	टीएनएसवीसी/3 318/06	29/30, अन्नाई थेरैसा स्ट्रीट, वी.ओ.सी. नगर, वल्लूर कॉलोनी, मदुरई 17, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /05	22-फर-83
683	डी. वेलमुरुगन, पुत्र श्री दणिणामूर्ति	टीएनएसवीसी/3 535/06	ईस्ट स्ट्रीट, पडइवेट्टीकुडी कडु, चोलांकुडीकडु डाक, सेदुराई तालुक, पेराम्बलूर- 621709, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /06	27-मई-82
684	डी. वेणुगटेशन (एस. दयालन)	टीएनएसवीसी/1 48/03	11-7/42 बी 1, थिरुनगर, शिवगंगा रोड, थिरुपत्तूर 630211, शिवगंगा जिला	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /03	09-जून-80
685	डी. विजय (आर. दुराईराज)	टीएनएसवीसी/3 57/04	14, रामालिगा नगर, थोदिटयम, त्रिची जिला 521215, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /04	04-जुला-80
686	डी. विजया (के. दशरथन)	टीएनएसवीसी/1 571/05	452, कन्नियाम्नन कोइल स्ट्रीट, चेर्यार 604407, टीवीमलई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /00	20-मई-75
687	डी. वियजराज, पुत्र श्री जे. देवीसिंह	टीएनएसवीसी/3 349/06	104, पलानियप्पा नगर, थिरुकोकरनम पुडुक्कोट्टई 62202, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /05	01-जून-83
688	डी. विनिथा (वी. दुराईसामी)	टीएनएसवीसी/9 18/05	53/14, साउथ स्ट्रीट, थेवाराम डाक, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	23-मई-59
689	डी. विवेकानंदन (के.एस. दीनप्पन)	टीएनएसवीसी/2 839/05	5, बी.के.आर. नगर, साथी रोड, कोयम्बतूर 641012, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	02-जून-62
690	डी. विवेकानंदन (पी. दुराईराज)	टीएनएसवीसी/2 760/05	न. 10, मेरीन अर्पा, मासिलामणि स्ट्रीट, बालाजी नगर, रोयापेट्टाह, चेन्नई-14	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /96	14-जुला-68

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
691	डी. अरिवारामु (एस. जोराईसामी)	टीएनएसवीसी/3 64/04	13-सी न्यू स्ट्रीट, लाइन-2, 11वां वार्ड, वधियार थोट्टम, थारामंगलम 636502, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /04	15-मई-80
692	डी. चंद्रसेखरन (ए. दुरईसामी)	टीएनएसवीसी/1 822/05	2/229, पोन्न नगर, मेट्टूर डैम-1, सलेम जिला, पिन-636401, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /00	01-जून-73
693	डी. इनोच कनइयाह राजसिंह, पुत्र श्री जी. देवामनि	टीएनएसवीसी/3 505/06	किरवाइल्लम, प्लॉट न.116, डोर 5-4/80, कलई नगर, मदुरई 625017, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/73	21-जन-49
694	डी.के. एलिजाबेथ मंजू (आर. डेनियल कालीमुथु)	टीएनएसवीसी/3 040/05	न. 5, कलियम्मल कॉलोनी, थुडियालूर, कोयम्बतूर 641034, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /05	09-अग-83
695	डी.के. केशवकुमार (पी. कंडासामी)	टीएनएसवीसी/5 5/03	15ए/139, वसंथा इल्लम, नेताजी बाईपास रोड, धर्मपुरी 63601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /03	27-जुला-78
696	डी.एम. सांथि (पत्नी श्री के. मंगेदिरन)	टीएनएसवीसी/2 484/05	23, सुब्रमन्यम नगर एक्सटें., राघवनपेट्टई, पानमपेट्टू डाक, विल्लुपुरम, तमिलनाडु 605103	बीवीएससी/टी एनएयू/86	14-अप्रैल-63
697	डी. मेरी भल्लिका (पी. देवासिरवधम)	टीएनएसवीसी/1 620/05	न. 18, मूर्थि एवेन्यू, लक्ष्मी नगर, पोर्रु, चेन्नई 600116	बीवीएससी/टी एनएयू/83	28-अग-58
698	डी.आर. सुब्रमण्यन (डी. राजागोपालन)	टीएनएसवीसी/3 237/05	अंधाकुडी डाक, थप्पलम पुंलयूर वाया, नागपट्टिनकम जिला, पिन 610106, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 70	24-अग-45
699	डडवाल अबिदाली इस्माइल	गुजएसवीसी/ 2663/06	बदरपुरा, तालुक वादनगर, जिला मेहसाना, पिन-384355, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	29-मार्च-82
700	दलीप कुमार अरोड़ा, पुत्र श्री गुरबक्श लाल	पीबीएसवीसी/ 2620/05	म.न. 4025, मौहल्ला सैदान, नकोदर जिला, जालंधर पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	16-अग-80
701	दमन जयरथ, पुत्र श्री विजय कुमार	पीबीएसवीसी/26 13/05	28, ग्राउड फ्लोर सरस्वती विहार, कपूरथला रोड, जालंधर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	14-अक्टू-80
702	दर्शना एम.जी.	केरल/3026/0 5	सकालयम, टीसी 6/308 -8, पालम ग्रोव लेन, वट्टियूरकावू, त्रिवेंद्रम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	01-नव-80
703	दासइयाह सी.बी., पुत्र श्री बोरइयाह	कर्नाएसवीसी/ 3800/	डाक हीरेहल्ली, तालुक चल्लाकेरे, जिला चित्रदुर्ग, 577529, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी /05	04-अप्रैल-82
704	दशरथी नाग, पुत्र श्री हादी नाग	उडीसाएसवीसी/ 2032/05	द्वारा: हादी नाग, एटी. जयन्ति नगर, डाक एम रामपुर, जिला कालाहंडी, उडीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/	05-अग-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
				05	
705	देबालिना मित्रा, पू. डॉ. देबप्रसाद मित्रा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3199/05	6ए. देशबधु रोड, कमरपाड़ा, जादवपुर, कोलकाता- 700032, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूए एंडएफएस/05	16-दिसं-81
706	देबप्रसाद भायेन, पुत्र श्री शशांक सेखर भायेन	डब्ल्यूबीएसवीसी /3183/05	ग्राम व डाक भुबन्नानगर जिला 24 परगना, पी. एस. काकद्वीप, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए. एच/डब्ल्यूबीयूएएंड एफएस/05	15-मार्च-82
707	देबाशीष मोहापात्रा, पुत्र श्री अजीत कुमार मोहापा	उडीसाएसवीसी/ 2008/05	एटी. मानसिंह बाजार, मोतीगंज जिला, बालासौर, पिन- 756003 उडीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएएंडटी/ 05	24-जून-79
708	दीप मनि गुप्ता, पुत्र श्री रमेश चंद्र गुप्ता	यूवीसी/168/0 6	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट. हॉस्पिटल, जौलजीवी, जिला- पिर्यारागढ़	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेई पीवीवी/00	15-जन-74
709	दीपा शर्मा, पुत्र श्री भूषण लाल	एचपीएसवीसी/7 27/05	पूनम एण्टरप्राइजेस, धर्मशाला रोड, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी /05	22-सित-81
710	दीपा एस.	केरल/3032/0 5	कोट्टाकाकथु हाउस, उमया नेल्लोर, डाक कोल्लम -691589, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	16-मई-82
711	दीपाकुमार गोस्वामी, पुत्र श्री जय नारायण गोस्वामी	बिहारएसवीसी/ 2295/03	ग्राम सडवास, डाक व थाना कुरनी, सबडिवी. जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/03	11-सित-76
712	दीपक कुमार, पुत्र श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/2 407/03	ग्राम व डाक चौकी, थाना साहेबपुर कमल, सब. डिवी.-बलिया, जिला बेगुसराय	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएएंड एफएस/03	01-मार्च-78
713	दीपक कुमार, पुत्र श्री रमेश कुमार	एचएआरएस वीसी/187	236/7, रोहतक रोड, वॉटर वर्क्स न. 7 के निकट, जींद हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएस एचएयू/05	29-मई-81
714	दीपक कुमार, पुत्र श्री धीरत राम	पीबीएसवीसी/ 2629/05	पटवारियां मौहल्ला, वार्ड न. 11, टांडा जिला, होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	08-मार्च-79
715	दीपक कुमार सिंघल, पुत्र श्री नवल	राजएसवीसी/ 3207/06	क्लॉथ मर्चेंट, हाट बाजार, चिम्पबाराद, बारान, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	18-दिसं-79
716	दीपक, पुत्र श्री महावीर सिंह	एचएआरएसवीसी /1896	म.न. 177, सेक्टर-4, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएस एचएयू/05	20-जुला-80
717	दीपक शर्मा, पुत्र श्री बृज मोहन	एचपीएसवीसी /717/05	ग्राम एवं डाक-कारोआ, थाना- देहरा, जिला- कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेके वीवी/05	10-फर-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
718	दीपक गुणवंत, पुत्र श्री एस.सी. गुणवंत	यूवीसी / 13/06	आश्रय, ए/23, ट्रांजिट कैम्प, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर उ., उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयू एंडटी/05	24-सित-81
719	दीपाली मल्होत्रा, पुत्री श्री बी.पी. मल्होत्रा	एचपीएसवीसी/7 28/05	म.न.-19, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भूली जिला, मंडी, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेके वीवी/05	16-सित-82
720	दीपिका, पुत्री डॉ. आर. एस. वर्मा	यूवीसी/165/0 6	1324, टीए कॉलोनी, पंत नगर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /04	11-मई-80
721	दीपमाला श्रीवास्तव, पुत्री श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	बिहारएसवीसी / 2596/05	ग्राम/मुहल्ला-उत्तरी पटेल नगर, डाक कंसरीनगर, थाना पाटलीपुत्र, सबडिवी. पटना सदर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 05	01-अक्तू-80
722	दीप्ती पी.	केरल/3021/0 5	दीप्ती भवन, इदावत्तोम, वेलीमोन डाक, केरलापुरम, कोल्लम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/ केएयू/ 05	19-मई-81
723	दीप्ती दहिया, पुत्र श्री वी.एस. दहिया	एचएआरएसवीसी /1884	द्वारा सी.वी.एच. जुंडला, कमल, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /05	28-जुला-81
724	देवादौस गुणशीलन (एस. देवादौस)	टीएनएसवीसी/2 587/05	20, सी.एस.टी.नगर, धारापुरम, इरोडे जिला, 63865, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 70	19-अक्तू-46
725	देवेन्द्र पाठक, पुत्र श्री सीताराम पाठक	बिहारएसवीसी / 2557/04	ग्राम/मुहल्ला- छपरा, डाक अकारा, बिहार	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	26-फर-79
726	धर्मेन्द्र कुमार, पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2480/04	ग्राम/मुहल्ला-मौहम्मदपुर, डाक मौहम्मदपुर, थाना अस्थावा, सबडिवी. बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/जीएयू/03	15-दिस-76
727	धनंजय कुमार, पुत्र श्री जानेश्वर प्रसाद सिन्हा	बिहारएसवीसी / 2524/04	ग्राम/मुहल्ला-दरिधापुर, डाक बेलखाडा, थाना अरवाल, सबडिवी. अरवाल, जिला अरवाल, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/04	16-नव-77
728	धनराज नागर, पुत्र स्व. श्री मोहन लाल नागर	यूवीसी / 170/06	द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 01	03-जून-75
729	धान्या पुरुषोत्तम	केरल/3091/0 5	30/1707 ए, चरमकंडात हिल हाउस, वायटिला डाक कोचीन-682019, केरल	बीवीएससीएंडए एच/ केएयू/ 05	02-दिस-80
730	धर्नेश एम.जी., पुत्र श्री गंगइयाह	कर्नाएसवीसी / 3705/	महिमापुरा, कुलुवनहल्ली डाक, नेलामंगला तालुक, बंगलौर ग्रामीण जिला 562111, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/यूएस बंगलौर/04	21-जुला-80
731	धारावत भीक्या, पुत्र श्री देवला	एपीएसवीसी / 4390/05	मंगलबांदा थांडा, ककारवई, तिरुमलयपलेम (एम), खम्मम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू / 05	03-अग-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
732	धर्मवीर सेट्टी बी., पुत्र श्री एम.के. शेठ्ठी	कर्नाएसवीसी / 3755 /	न. 11, अनुग्रह, चक्रवर्ती लेआउट, बंगलौर-20, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच / केवीएंडएफएस यू / 05	12-अग-81
733	धर्मेन्द्र कुमार, पुत्र श्री ब्रह्म देव सिंह	बिहारएसवीसी / 2414 / 04	ग्राम एवं डाक बाबू ओमौना, थाना दौडनगर, सबडिवी. दौडनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार	बीबीएससीएंडए एच / केएयू / 03	22-नव-77
734	धर्मेन्द्र कुमार, पुत्र श्री सुरेश प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2428 / 04	ग्राम / डाक-अलीगंज, थाना चंद्रदीप, सबडिवी. अलीगंज, जिला जमुई, बिहार	बीबीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएस / 03	06-जुला-77
735	धर्मेन्द्र सिंह, पुत्र श्री शमशेर सिंह	एमपीएसवीसी / 2283 / 05	6 / 679, आनंद नगर, बोडा बाग, रीवा, मध्य प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच / जेएनकेवी वी / 03-04	30-नव-75
736	धर्मेन्द्र व्यास, पुत्र श्री शंकर व्यास	एमपीएसवीसी / 2298 / 05	तारकेश्वरी कॉलोनी, गुरुद्वारा रोड, पुरानी शिवपुरी, मध्य प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच / जेएनकेवी वी / 05	24-अग-80
737	धर्मेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री बृजेन्द्र	राजएसवीसी / 3202 / 06	मुदगल भवन, सरमथुरा, भोलपुर, राजस्थान	बीबीएससीएंडए एच / आरएयू / 05	05-अक्तू-77
738	धरमवीर सिंह, पुत्र श्री सुखदेव सिंह	एचएआरएसवीसी / 1890	ग्राम एवं डाक ओधान, तालुक डाबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा	बीबीएससीएंडए एच / सीसीएसएचएयू / 05	07-मई-80
739	धीरज कुमार गुप्ता, पुत्र श्री राम अवतार गुप्ता	यूवीसी / 106 / 0 6	6 / 664, तल्ला गोरखपुर, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच / जीबीपीयूएंडटी / 01	16-दिसं-79
740	धीरज कुमार, पुत्र श्री उपेंद्र प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2517 / 04	ग्राम / मुहल्ला-गौचारी, डाक गोपालपुर, थाना गोगरी, सब.डिवी.-खगरिया, जिला खगरिया बिहार	बीबीएससीएंडए एच / केएयू / 04	19-फर-79
741	धीरेंद्र कुमार, पुत्र श्री बुलाकी प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2291 / 03	ग्राम हबीबपुरा, डाक / थाना सोहासराय, सबडिवी. बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीबीएससीएंडए एच / यूएस बंगलौर / 02	01-जून-77
742	धरमवीर सिंह, पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह	बिहारएसवीसी / 24.12 / 04	ग्राम फूलबरिया, डाक बेंतपुर, थाना खुसरूपुर, सबडिवी. पटना सिटी, जिला पटना, बिहार	बीबीएससीएंडए एच / आरएयू / 03	12-जन-78
743	दिब्येन्दु बिकाश करमाकर, पुत्र श्री ब्योमकेश चंद्रा	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3189 / 05	ग्राम नारायणपुर, डाक बलूर घाट, जिला डी / दीनाजपुर- 733101, पश्चिमी बंगाल	बीबीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएस / 05	12-जून-81
744	दिग्विजय आदित्य मन्धोत्रा, पुत्र श्री शिविसिंह मन्धोत्रा	पीबीएसवीसी / 2615 / 05	ग्राम एवं डाक सालोह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, 176102, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच / पीएयू / 05	28-जन-80
745	दिलीप पी.के.	केरल / 3034 / 0 5	दीपम, पादिनजट्टामुरी सूरनाद नॉर्थ, डाक कोल्लम -690561, केरल	बीबीएससीएंडए एच / केएयू / 05	08-अप्रैल-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
746	दिलीप कुमार बैठा, पुत्र श्री शिव मंगल बैठा	बिहारएसवीसी / 2509 / 04	ग्राम / मुहल्ला—पकबलिया, डाक:पकबलिया,थाना दुरौधा, सबडिवी. महाराजगंज, जिला सीवन, बिहार	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 03	05—दिसं—75
747	दिलीप कुमार प्रसाद, पुत्र श्री नारायण प्रसाद	बिहारएसवीसी / 2258 / 02	ग्राम भलूका, डाक मलयपुर, थाना बरहाट, सबडिवी. जमुई, जिला जमुई, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूए एंडएफएस / 00	25—अक्टू—75
748	डिम्पी कुमारी, पुत्री श्री पवन कुमार	बिहारएसवीसी / 2422 / 04	ग्राम एवं डाक—बिलंदरपुर, थाना राजपकर, सबडिवी. महुआ, जिला वैशाली, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 03	12—दिसं—77
749	दिनंश कुमार शर्मा, पुत्र श्री रामहेत शर्मा	यूवीसी / 88 / 06	ग्राम लामगढ़ी, ग्राम सभा जोलीमोहर, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच / जेएनकेवीवी / 04	25—जुला—77
750	दीपकर सेठ, पुत्र श्री किनई सेठ	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3155 / 05	सेठ कॉलोनी, कालियागंज, उत्तर दीनाजपुर -733129, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएएंड एफएस / 05	26—मई—83
751	दीपिका भारती जोशी, पुत्री श्री संतोष कुमार	एचपीएसवीसी / 7 33 / 05	म.न. 127, हिल व्यू कॉर.सो.जालेहरा, पुलिस लाइन के निकट, उना, हिमाचलप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / सीएर-केकेवीवी / 05	07—मई—80
752	दिरूसाला तिरुमला रेड्डी, पुत्र श्री वेंकटेश्वरलू	एपीएसवीसी / 4350 / 05	मेरेला, मुंडलामूर (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	07—जून—80
753	दिव्या रानी, पुत्री श्री रणजीत कुमार सिन्हा	बिहारएसवीसी / 2609 / 05	ग्राम / मुहल्ला— पसराहा, डाक पसराहार, सबडिवी. गोगरी, जिला खगारिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	01—मार्च—81
754	दिव्या वी. नम्बियार	केरल / 3098 / 0 5	आनंद मेमुंडा डाक, वडाकरा कोजीकोड 673104, केरल	बीवीएससीएंडए एच / केएयू / 05	16—जन—81
755	डोले जुवार, पुत्र श्री डिम्बेश्वर डोले	असमएसवीसी / 2212 / 05	द्वारा: डिम्बेश्वर डोले, टंगना पारा, ब्लॉक न. 3, डाक एवं जिला:धीमाजी 787057 असम	बीवीएससीएंडए एच / एएयू / 85	18—दिसं—79
756	डॉ. एस. जोसेफ चंद्रन (एस. सूसई नादर)	टीएनएसवीसी / 1 301 / 05	194 / 31सी / 9ए, टी.बी.रोड, कामराज नगर, IV स्ट्रीट, वलियूर, पिन- 627117 तिरुमेलवेली जिला	बीवीएससी / टी एनएयू / 85	03—जुला—61
757	दुराई मॉस्कोमलार (पत्नी श्री आर.शास्त्री)	टीएनएसवीसी / 8 00 / 05	2 / 105, सुब्रमनियार कोइल स्ट्रीट कृष्णापुरम डाक(वाया) राजापलायम, विरुधुनगर जिला, 626143, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 95	17—जून—72
758	दुर्गा राम, पुत्र श्री अटवारु राम मौर्या	यूवीसी / 171 / 06	द्वारा: परियोजना प्रबंधक संघ, मिनी डेयरी, सिमली, चमोली, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच / सीएसएकेई पीवीवी / 01	20—जून—70
759	दुष्यंत शर्मा, पुत्र डॉ. आर.जे. शर्मा	यूवीसी / 09 / 06	वार्ड न. 1 / 107, फूल बाग, पंतनगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच / जीवीपीयूएंडटी / 05	01—मई—82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
760	दत्ता (कु.) परिगीता, पुत्री श्री क्षिरोड दत्त	असमएसवीसी/2222/05	द्वारा के. दत्ता, नकारी बाई न. 3, डाक उ लखीमपुर, जिला लखीमपुर, असम	बीवीएससी/एंडए एच/ एएयू/ 05	26-अक्टू-79
761	ई. अम्बेडकर (ए. इल्लान)	टीएनएसवीसी/2908/05	ए 20/78, टीएनएचबी क्वा., थिरुवल्लुर स्ट्रीट, मदुरैडाकम 603306, कांचीपुरम जिला	बीवीएससी/टी एनएयू/81	29-दिस-54
762	ई अन्नाकोडी (पत्नी श्री सदासिवम)	टीएनएसवीसी/17/02	पेरिया थोट्टमोथइयानूर डाक, संकरी पश्चिम, पिन-637303, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	22-दिस-77
763	ई. चंद्रसेखर (के. ईसाकी)	टीएनएसवीसी/3113/05	73, श्री सक्ति नगर, टेनकासी, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	16-दिस-60
764	ई. गीथा (के. इट्टीकेन)	टीएनएसवीसी/89/03	साउथ स्ट्रीट, मुथुगापट्टी डाक, नमक्कल, पिन-63745, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	07-जुला-80
765	ई. इन्बासेल्वी (के. ईकम्बरम)	टीएनएसवीसी/45/03	168, एक्स क्रॉस, पोन्नगर, त्रिची-620001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	31-मई-77
766	ई. जेयालक्ष्मी (एम. इलांगोवन)	टीएनएसवीसी/715/05	467/सी, रेसवे क्वार्टर्स, जोजारपेट्टई, वेल्लोर जिला, पिन-635851, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	05-मई-79
767	ई. मरियप्पन (आर. इलप्पा गौडेर)	टीएनएसवीसी/2499/05	पूलागाँडन पट्टी डाक, थूवर वाया, संकरी तालुक, सलेम जिला 637104, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/88	03-मार्च-65
768	ई. पन्नीर सेल्वम (एम. इल्लप्पन)	टीएनएसवीसी/2631/05	17, प्रथम मेन स्ट्रीट, कामराज नगर, थुरापडी, वेल्लोर-2	बीवीएससी/टी एनएयू/86	24-अप्रैल-61
769	ई. पेरियन्नन (इरिट्टया गौडेर)	टीएनएसवीसी/2452/05	पप्पीनाइकन डाक, सलेम रोड, नमक्कल 637003, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/73	05-फर-50
770	ई. पोरकोडी (कुजाण्डई ईकावरसन)	टीएनएसवीसी/302/04	थेनमोजी इल्लम, एम-85, फेस-111, अन्ना नगर, त्रिची 620026, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	23-मई-81
771	ई. रामया मनिकावल्ली, पत्नी (एम. मुरुगन)	टीएनएसवीसी/1697/05	10, इल्ला राजा मनिक्कम स्ट्रीट, पोलीचलूर, चेन्नई 600074	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	13-अक्टू-78
772	ई. रवि (ए. इलाशिरायन)	टीएनएसवीसी/2401/05	124-ए, पूट्टाई रोड(पुलिस स्टेशन के सामने) संकरपुरम डाक व तालुक, विल्लुपुरम जिला 606401, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	06-जुला-70
773	ई. साई रविद्रनाथ (ई. जी. श्रीनिवासुलु)	टीएनएसवीसी/374/04	न. 5, भारती स्ट्रीट, तिरुत्तानी 631209, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	05-जुला-79
774	ई. श्रवणन, पुत्र श्री के. इट्टिकन	टीएनएसवीसी/3357/06	साउथ स्ट्रीट, मुथुगापट्टी डाक, नमक्कल जिला, पिन 637405, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	03-जून-81
775	ई. श्रवणन (जी. इलइया पेरुमल)	टीएनएसवीसी/258/04	122 ए2, वेलायुथा नगर, जयनकोंडम, पेराम्बलूर जिला 621802, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	21-जून-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
776	ई. सरोजा (डी. शिवकुमार)	टीएनएसवीसी/7 03/05	4/45, कोइया थोट्टम, मिनक्कल डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	30-मई-73
777	ई. सेल्वा कुमार (आर. इकम्बरम पिल्लै)	टीएनएसवीसी/2 895/05	बी-4, जे.आर.आर. बिल्डिंग, 22, महादाना स्ट्रीट, मायीलादुथुरई 609001, नागाई जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	10-जून-55
778	ई. सेल्वेंद्रन (इरुसागौंडेर)	टीएनएसवीसी/5 12/05	थोप्पापलायम, पी.के. पुडूर डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला, 638504, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	07-मई-79
779	ई. सुब्बियान चेटियार (एस. इसाकीमुथु चेटियार)	टीएनएसवीसी/2 191/05	XI-12-48, साउथ स्ट्रीट, कोट्टारम, अगस्थीश्वरम तालुक, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	24-मार्च-61
780	ई. सुगुना (बी.आर. इथीराज)	टीएनएसवीसी/2 127/05	31/12, मल्लीश्वरर कोइल स्ट्रीट, माइलापोर, चेन्नई -4	बीवीएससी/टी एनएयू/87	15-अप्रैल-62
781	ई थंगापडियान (के. ईश्वरन)	टीएनएसवीसी/7 57/05	बी 10/31, मल्लीगई हाउसिंग बोर्ड, के.के. नगर, मदुरई 600020, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	08-मई-78
782	ई उदस कुमार (सी. इथीराज)	टीएनएसवीसी/3 053/05	न. 44/29, थुलुकानाथमन कोइल स्ट्रीट, अरकोनम 831 001, वेल््लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	09-नव-63
783	ई. विजय कुमार (इटिगौंडेर)	टीएनएसवीसी/1 381/05	1/37बी, कोमारीपलायम डाक, मोहानूर वाया, नमक्कल जिला, पिन 637015 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	15-जून-77
784	ई विजयराघवन (एम. ईश्वरन)	टीएनएसवीसी/3 99/04	60ए, गांधीपुरम लक्कमपट्टी, गोबीचेटिपलायम, इरोडे जिला, 638452, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	23-नव-80
785	ई भवनेंद्र बाबू (जी. इथीराज)	टीएनएसवीसी/2 115/05	22-ए, बाजार स्ट्रीट, कुरुम्बलूर डाक 621107, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	07-जुला-69
786	ई.जे. ज्ञानदुराई जयाचंदर (जी. एडविन देवादौस)	टीएनएसवीसी/9 00/05	78/1-5, एससीए कॉलोनी, विरुधुनगर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	24-जून-64
787	ई.के. सेल्वाराजू (एस. कारुप्पन्नन)	टीएनएसवीसी/2 846/05	इलुपरानियूर, सवारियार पलायम डाक, कोलाथूर 636303, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	01-मई-64
788	ई. महालक्ष्मी, पत्नी (पी. सुब्बुराम)	टीएनएसवीसी/1 823/05	7/67, पायनियर पोल्ट्री ग्रुप, पोंगालूर, 641667, तिरुपुर तालुक, कोयम्बतूर जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	25-मई-70
789	ई.पी. सेन्थिल कुमार (वी. पलानीयंडी)	टीएनएसवीसी/5 71/05	3/49, सिवियमपलायम डाक, नमक्कल जिला, पिन- 637405, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	25-जून-80
790	ई.एस. असान इब्राहिम (ई.एम. सिन्धामथार)	टीएनएसवीसी/3 119/05	206/76, परसुरामपुरम, साउथ स्ट्रीट, कडायानल्लूर 627751, तिरुनेलवेली जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	20-मई-64
791	ई. सैय्यद मुस्तफा (के. इब्राहिम)	टीएनएसवीसी/1 628/05	न. 42, त्रिची मेन रोड, थोट्टियाम 621215, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	30-अप्रैल-63

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
792	इबेबेनी, पुत्र श्री थेनुगिबमो	एनएसवीसी / 198 / 05	द्वारा: श्रीमती लिली मुरी, लैक्चरर मॉडर्न कॉलेज, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएंडए एच / एएयू / 05	30-अग-80
793	ईश्वरा रेड्डी वेरुवा, पुत्र श्री चंद्र सेखर रेड्डी	एपीएसवीसी / 43 53 / 05	द्वारा: के. श्रीनिवास रेड्डी, डी.न. 26-33-81, वेंकट रमन कॉलोनी, 5वीं लाइन, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	05-जुला-81
794	एफ. बाबू मनोहर (एस. सी. फर्गुस)	टीएनएसवीसी / 2 147 / 05	6, ली स्ट्रीट, नगरकोइल, पिन- 629001, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 64	18-अग-41
795	एफ.आई शार, पुत्र मौह. शाहाबुद्दीन	बिहारएसवीसी / 2246 / 02	ग्राम:सब्जीबाग, डाक:बांकीपुर, थाना:पीरबहोर, सब. डिवी.पटना सदर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 01	01-मार्च-74
796	एफ.एक्स. राजेश कुमार (एम.एफ. फ्रांसिस)	टीएनएसवीसी / 2 037 / 05	1 / 132, थंगाराज नगर, थिरुपापुलियूर, कुडालोर जिला, 607002, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	05-मई-68
797	फाल्गुनी मृधा, पुत्र श्री महानंद मृधा	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3161 / 05	6 / के.1ए / 1.ए.के. दत्ता लेन, डाक बल्ली, जिला हावडा-711201, प.बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएस / 05	14-फर-82
798	फेलसन पी. फ्रांसिस	केरल / 3049 / 0 5	पुथुरहाउस, मुलामकुन्नाथुकावु डाक, सेंट थॉमस घर के निकट, थिरूर, त्रिसूर, केरल	बीवीएससीएंडए एच / केएयू / 05	01-अप्रैल-80
799	फिंटन मिसिएर (एस.ए. मिसिएर)	टीएनएसवीसी / 2 070 / 05	54, सेंट पीटर कोइल स्ट्रीट, ट्यूटीकोरिन-1, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 82	21-अक्टू-59
800	फिरोज़ अहमद, पुत्र श्री टीपू सुल्तान अंसारी	बिहारएसवीसी / 2325 / 03	ग्राम:क्लब रोड, डाक व थाना औरंगाबाद, सब.डिवी. औरंगा बाद, जिला औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 03	01-मार्च-77
801	जी. अबसाल (ए. गौस बाशा)	टीएनएसवीसी / 1 539 / 05	10 / 59ए, ईगाम्बारा पिल्लै स्ट्रीट, टिंडीवनम 604001, चिच्चुपुरम जिला तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 82	20-मई-58
802	जी. अंधुवन (बी. गोपालकृष्णन)	टीएनएसवीसी / 2 645 / 05	मेला कोलाकुड्डी, डाक नेवेली-2(वाया) कुडालोर तालुक, पिन 607802, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 92	10-अग-66
803	जी. अन्नापूर्णी (गुरुपविक्रयम)	टीएनएसवीसी / 1 4 / 02	6, सेनगुदुवन स्ट्रीट, सेंथिल नगर, चेन्नई 600062, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 02	12-अप्रैल-79
804	जी. अरिवरसन (के. ज्ञान प्रकाशम)	टीएनएसवीसी / 2 52 / 04	डोर न.2, ब्लॉक 'ए' फायर सर्विस कर्मचारी क्वार्टर्स, मनाली, चेन्नई-68, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 04	05-जून-77
805	जी. अरुणप्रसाद (के. गोविंद राजन)	टीएनएसवीसी / 3 87 / 04	7, कामची अम्मानकोइल स्ट्रीट, गोबीचेट्टीपलायम, इरोडे जिला 638452, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 04	17-अप्रैल-80
806	जी. अजागसन (ए. गोविंदन)	टीएनएसवीसी / 1 344 / 05	न.14, पंगुलम ग्राम, अलांगयम वाया, वनियमबाडी तालुक, वेल््लोर जिला, पिन 635701	बीवीएससी / टी एनएयू / 86	30-मई-61

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
807	जी. बालागुरुनाथन (एस. गुरुस्वामी)	टीएनएसवीसी/1 489/05	एस.जी. स्ट्रीट, कालीगुडी, थिरमंगलम तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/97	18-मई-72
808	जी. बालासुब्रमण्यम (एस. एस. गुरुस्वामी)	टीएनएसवीसी/3 93/04	अन्नामुडुवु, वेत हॉस्पिटल के निकट, पाचमपलायम डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला, पिन 638314	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	07-जून-80
809	जी. चंद्र सेखर (पी. गोविंदन)	टीएनएसवीसी/1 101/05	10/4-बी, वी.ओ.सी. स्ट्रीट, अलगप्पन नगर, मदुरई 625003, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/91	02-मई-67
810	जी. क्रिस्टो पॉल रेड्डी (आर. ज्ञानइयाह)	टीएनएसवीसी/2 182/05	"स्काईलार्क", पॉल डेनियल स्ट्रीट, वॉटर टैंकरोड, नगरकोइल 629001, कन्याकुमारी जिला	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/94	02-मार्च-65
811	जी. दीपा लक्ष्मी एस. गोपालास्वामी)	टीएनएसवीसी/5 02/05	द्वारा पी.के. कुञ्जिथा पाठम, न.2, इराटई पिलयार कोइल स्ट्रीट, त्रिची, पलाकराई डाक	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	09-जून-81
812	जी. धनराज (आर. गोविंदराजन)	टीएनएसवीसी/1 1/02	151, वेलायुथम स्ट्रीट, थाविट्टुपलायम, अंथीयूर 638 501, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/02	31-जून-78
813	जी. दिनेशकुमारन (आर. गुगुसाामी)	टीएनएसवीसी/4 05/04	ए 87/2, मरुधुपडियार नगर, सिवागंगई 630561, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	02-मार्च-81
814	जी. इलांगो (टी. गोविंदसाामी)	टीएनएसवीसी/2 765/05	20, ईश्वरन कोइल स्ट्रीट, देवस्थानम ग्राम व डाक, वनियमबाडी 635751, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/83	25-सित-59
815	जी. गणेशन (एस.पी. गोविंदन)	टीएनएसवीसी/3 061/05	समानूर डाक, पलाकोड तालुक, धर्मपुरी जिला 636806, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	20-जुला-81
816	जी. इलांगोवन (बी. गोविंदराज)	टीएनएसवीसी/2 408/05	न. 9, फेस I, टीएनएसबी, साथुवाचेरी, वेल्लोर- 632009, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/79	01-जून-52
817	जी. जमुना, पुत्र श्री के. गंगारेड्डी	टीएनएसवीसी/3 301/06	न.2/16डी, मेट्टू स्ट्रीट, मुदूर डाक, अराकोनम तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	29-मई-82
818	जी. जयरमन (गौरप्पा चेट्टी)	टीएनएसवीसी/1 970/05	पेरियमपट्टी डाक, पलाकोड तालुक, धर्मपुरी 635205, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/93	02-फर-58
819	जी. जेबा सुजान दास (एल. ज्ञानदास)	टीएनएसवीसी/1 03/03	2/213, परनाटिवलई, कोलाबेल डाक, कन्याकुमारी जिला, पिन 629, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	23-सित-55

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
820	जी. जगदीसन टी.ए. गणेशन	पुत्र श्री टीएनएसवीसी/3 441/06	पल्लीवगई नगर, अंगासाई एस.ओ.लालगुडी तालुक त्रिची जिला 821303, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/85	05-अप्रैल-59
821	जी. जेयाचंद्रन (एन. गुरुस्वामी)	(एन. टीएनएसवीसी/3 05/04	84, विरूधुनगर रोड, तिरुमंगलम मदुरई जिला, 625708, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/04	02-जून-78
822	जी. जेयापॉल (गुरुसामी)	के. टीएनएसवीसी/6 63/05	12/17 के, पुलीथेवन स्ट्रीट, मारुथुपंडी नगर, मदुरई 825002, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एमयू/71	04-जन-49
823	जी. जॉन विजया सेल्वन (जे. गेन्नियल धर्मराज)	टीएनएसवीसी/9 97/05	ए44, न्यू हाउसिंग यूनिट, पोनावरायानिकोटई युक्कडई, पट्टुकोटई, थंजावूर जिला 614602	बीवीएससी/ टी एनएयू/ 87	20-मई-84
824	जी.के. सक्तिवेल (एन. एस. करुपडय्यार)	(एन. टीएनएसवीसी/4 35/05	गणपति पलायम, ओरुवांडूर डाक, नमक्कल तालुक जिला, पिन-637015, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू /04	14-मई-80
825	जी. कलईरासी (पत्नी श्री एम. मुरुगसन)	(पत्नी श्री टीएनएसवीसी/3 116/05	37ए, बलावा धिनयकर कोविल स्ट्रीट, पुलियांगुडी 627855, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/89	18-अप्रैल-87
826	जी. कलईसेल्वी (एन. गोविंदन)	(एन. टीएनएसवीसी/5 00/05	पूसारिपट्टी, नीरुमल्लीकुट्टई डाक, कोटाथुपट्टी वाया सलेम जिला 636139, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू /05	23-जुला-80
827	जी. कलईवानी (पत्नी श्री आर. वैक्कटेश)	(पत्नी श्री आर. वैक्कटेश) टीएनएसवीसी/2 176/05	पी-6, अदयार अपार्ट., कोट्टूर गार्डन, कोट्टूरपुरम, चेन्नई 600085	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू /00	20-जुला-75
828	जी. कमलनाथन (आर. टी. गोविंदन)	(आर. टी. गोविंदन) टीएनएसवीसी/7 00/05	ई 51, 15वीं स्ट्रीट, पेरियार नगर, चेन्नई 600082, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/82	13-जून-57
829	जी. कनगा सुब्रमन्यन (जी. गुरुसामी)	सुब्रमन्यन (जी. गुरुसामी) टीएनएसवीसी/2 82/04	154 डी, मुदंगियार रोड, राजापलायम 626117, विरूधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू /03	05-जून-80
830	जी. कन्नन (एस. ज्ञानसंबधम)	(एस. ज्ञानसंबधम) टीएनएसवीसी/2 437/05	45, कन्नाश लेन, मवादियान कोइल स्ट्रीट, करूर 639001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/85	07-जुला-62
831	जी. कार्थिक, पुत्र श्री एन. गुरुसामी	पुत्र श्री एन. गुरुसामी टीएनएसवीसी/3 329/06	पलायाचेन्नलकुलम, डाक रामचंद्रपुरम, राजापलायम तालुक 626127, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू /05	05-मई-83
832	जी. कार्थिकेयन एम. गुरुसामी	पुत्र श्री एम. गुरुसामी टीएनएसवीसी/3 390/06	172, विनयकर कोइल स्ट्रीट, करुणकलपालायम, इरोडे 638303, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू /05	19-मई-80
833	जी. करुणानिधि, पुत्र श्री पी. गनेशन	पुत्र श्री पी. गनेशन टीएनएसवीसी/3 562/06	गांधी स्ट्रीट, अरासमपट्टु डाक, संकरपुरम तालुक, विल्लुपुरम - 606401, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू /06	14-जून-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
834	जी. कोकिला, पुत्र श्री एम. अकिलराज	टीएनएसवीसी/3 466/06	सलेम मेन रोड, नल्लमपल्ली डाक, धर्मपुरी जिला, टीएन, पिन-636807, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	17-जुला-76
835	जी. कोकिलारानी (एल. गनेशन)	टीएनएसवीसी/3 23/04	150/2, गांधीनगर, अट्टूर 636102, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	13-सित-81
836	जी. कृष्णन (गोविंदन)	टीएनएसवीसी/5 9/03	पुत्र श्री सांतिकराकलियाम्मल नीलावूर, येलागिरि हिल्स वेल्लोर जिला 635853, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	15-मई-76
837	जी. कुमार (एस. गोविंदसामी)	टीएनएसवीसी/8 45/05	9/69, वडक्कुपुलियमपट्टी, वन्नीकॉडल ग्राम, मेलानारी कुडी डाक, संकरन कोविल तालुक, तिरुनेलवेली जिला	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	04-अप्रैल-75
838	जी. मलारकोडी (के. गोविंदसामी)	टीएनएसवीसी/1 89/03	टी.आर. नगर, इंडियन बैंक के पीछे, बरुगुर, कृष्णागिरि तालुक, धर्मपुरी जिला 635104, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	03-फर-80
839	जी. मालथी (आर. गणेशन)	टीएनएसवीसी/4 73/05	10/19, वैद्यनाथन स्ट्रीट, शेनॉय नगर, चेन्नई 600030, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	05-जून-81
840	जी. मंगम्मल (पी. गोविंदसामी)	टीएनएसवीसी/5 41/05	मधाहल्ली, पोपरापट्टी डाक, धर्मपुरी जिला, पिन-636809, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	06-जून-80
841	जी. मणि (सी. गोपालकृष्णन)	टीएनएसवीसी/3 214/05	बी-19, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, शास्त्री रोड, थिलई नगर, त्रिची 620018, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/82	16-जन-55
842	जी. मनिक्कम (के. गोविंदन)	टीएनएसवीसी/1 179/05	407/1, सक्ति नगर (संकर थिएटर के सामने), नरसो थिएटर, अलगापुरम डाक, सलेम-4, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	11-जून-83
843	जी. मनिक्कम (एस. गुरुसामी)	टीएनएसवीसी/1 227/05	9-2, भारतीयनगर, दूसरी मेट्टू स्ट्रीट, कोविलपट्टी, थूटकुडी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/88	27-नव-61
844	जी. मोहन कुमार (एल. गुरुसामी)	टीएनएसवीसी/2 770/05	129/61ए, राजाजी 7वीं स्ट्रीट, थिरुमंगलम, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	07-अप्रैल-67
845	जी. मोहनराज (वी. गोविंदसामी)	टीएनएसवीसी/3 19/04	पोयेरीपलायम, थलीगई डाक, वेलागौंडमपट्टी वाया, नमक्कल तालुक व जिला, पिन-637212	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	15-मई-79
846	जी. मोहनवेल (डी. ज्ञानवेल्लू)	टीएनएसवीसी/6 73/05	22/48, नॉर्थ मुथु स्ट्रीट, तिरुपट्टूर 635601, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू /01	29-मई-77

क्र.सं.	नाम	पंजी, सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
847	जी. मुरुगन (पी. गणपति)	टीएनएसवीसी/1 221/05	125, एनजीओ कॉलोनी, तिरुनेलवेली -627007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	20-अप्रैल-68
848	जी. मुरुगन (गणेशन)	टीएनएसवीसी/1 683/05	242-ए.साउथ स्ट्रीट, डाक सत्तानाथपुरम, सिरकाली तालुक, नागपट्टिनम जिला, 609109, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	15-जन-78
849	जी. नागभूसनी, पत्नी (पी. कुमार)	टीएनएसवीसी/1 261/05	न. 97, मनोहरन स्ट्रीट, चेंदूर पुरम, कट्टुपक्कम, चेन्नई 600056	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /93	20-जन-70
850	जी. नैनाप्पन (एम गोविंदसामी)	टीएनएसवीसी/2 550/05	डोर न.1, फर्स्ट स्ट्रीट, नटराज पुरम डाक, नमक्कल तालुक व जिला 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/76	15-अप्रैल-53
851	जी. नीलावन्नन (के. गणेशन)	टीएनएसवीसी/3 123/05	66 ई 3/3, इय्यानथोटम, बी. कोमारापलायम, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	16-मई-69
852	जी. पंडियान (एस. गोविंदराजुलु)	टीएनएसवीसी/2 395/05	16/30, कामराजनगर, वडुवूर रोड, मन्नारगुडी डाक, थिरुवरुर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/80	08-जून-54
853	जी. पार्थसारथी मलियाह(एम. गणेशन)	टीएनएसवीसी/1 682/05	3-1-बी, गांधीनगरम स्ट्रीट, चोकालिंगापुरम, अरुप्पुकोटई 7626101, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/84	09-मई-61
854	जी. पॉल फ्रेडरिक (जे. ज्ञानडिक्कम)	टीएनएसवीसी/2 130/05	5, मलार अपार्टमेंट्स, चक्रवर्ती रोड, मदुवनकराई, गुडडी, चेन्नई 32	बीवीएससी/ टी एनएयू/75	12-अक्टू-51
855	जी. पेरियासामी (यू. गोविंदन)	टीएनएसवीसी/1 415/05	15, वेदस नगर, नीलमंगलम एक्स रोड, कल्लाकुरिची 606202, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /90	15-अग-65
856	जी. प्रभु, पुत्र श्री पी. गणेशन	टीएनएसवीसी/3 314/06	27, श्री विश्वनाथार कोइल नॉर्थ स्ट्रीट, नगाई रोड, वेदरानयम 614810, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू /05	02-अप्रैल-82
857	जी. प्रसन्ना (वी.एस. गोविंदराजुलु)	टीएनएसवीसी/3 026/05	प्लॉट न. 42, अंडल करुणई अपार्टमेंट्स, प्रथम मेन रोड, अंडल नगर, अडम्बक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु 600088	बीवीएससी/ टी एनएयू/88	01-अक्टू-66
858	जी. प्रेमा (एल्फ्रेड पी. मोजिज़ सैम)	टीएनएसवीसी/2 142/05	11ए, उडयाडी विलई स्ट्रीट, वेस्ट कालुंगडी, वडासेरी, सीबीएच डाक, नागरकोइल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/85	01-जुला-61
859	जी. पृथ्वीराज (एम. गुरुमूर्ति)	टीएनएसवीसी/2 805/05	न. 24, राघवेंद्र नगर, चेक्कौकन्नी रोड, कुम्बाकोनम 612001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/79	15-जुला-55
860	जी. पुरुषोत्तमन (आर. गोथंडारमन)	टीएनएसवीसी/3 033/05	पिलायार कोइल स्ट्रीट, गुरुवम्मापेट, इंडीयूर डाक, टिंडीवनम तालुक, पिन-- 604002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	01-मई-70

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
861	जी. आर. सम्पत कुमार (जी. राजमनि)	टीएनएसवीसी/2 50/04	वल्ली इल्लम, करुप्पासामी कोइल स्ट्रीट, गुडालूर 625518, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	30-जुला-77
862	जी. राधा (पी.के. गोपालासामी)	टीएनएसवीसी/1 445/05	207, के.आर.आर. नगर, थेनी, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/78	15-फर-55
863	जी. राजा (एम. गणेशन)	टीएनएसवीसी/1 512/05	6/1 बी, पुरानी कटपडी रोड, वेल्लोर 632004, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	21-जन-71
864	जी. रामाकृष्णन (आर. गोविंदन)	टीएनएसवीसी/1 896/05	229-1, टी.वी.के. नगर, हरूर तालुक, 636903, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	20-मई-63
865	जी. रमेश (वी.टी. गोविंदन)	टीएनएसवीसी/3 249/05	9/1, सत्याप्पर पश्चिमी स्ट्रीट, नागपट्टिनम, 611001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/89	27-जन-66
866	जी. रथीश कन्नन (वी. गुरुसामी)	टीएनएसवीसी/3 320/05	म.न. 14/12, बालाजी गार्डन एक्स., राघवेंद्र एवेन्यू, एस.एम. पलायम, जी.एन. मिल्स डाक, कोयम्बतूर 641029, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	05-जुला-75
867	जी. रूबारानी (डी.जे. गुनाशेकरन)	टीएनएसवीसी/4 83/05	अन्ना वेलनकन्नी राइस मिल, प्वाईगईगुलम डाक, थिरुमंगलम तालुक, मदुरई, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	04-जन-80
868	जी. सक्रावर्ती (ए. गोविंदराज)	टीएनएसवीसी/3 8/02	न. 28/14सी, इय्यासामी मुदाली स्ट्रीट, टिंडीवनम, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु 604001	बीवीएससी/टी एच/पीयू/02	07-जून-78
869	जी. संकरनारायणन (एस. गोविंदस्वामी)	टीएनएसवीसी/2 768/05	9/69, वडक्कु पुलियम पट्टी, मेला नारीकुडी डाक, वन्नीकोनेण्डल वाया, संकरन कोइल तालुक, नेल्लई जिला	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	05-जून-72
870	जी. सत्यचंद्र (जी. जयराम)	टीएनएसवीसी/1 740/05	न. 22, गोदावरी स्ट्रीट, गोमथी नगर, सेलईयूर, चेन्नई 600073	बीवीएससी/ टी एनएयू/89	01-जन-64
871	जी. सधियाबामा (एस. गोपालासामी)	टीएनएसवीसी/6 81/05	2-45ए, पपयानईकर पट्टी, मल्ली डाक, श्रीविली पुट्टूर तालुक, विरुधुनगर जिला, पिन-626141	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	07-अप्रैल-78
872	जी. सेलामनि (एम. गोविंदराज)	टीएनएसवीसी/3 014/05	कलागम डाक, पेरावुरानी तालुक, थंजावूर जिला पिन 614804, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू /05	15-जुला-81
873	जी. सेल्वाकुमार (ई. गोविंदराज)	टीएनएसवीसी/1 479/05	अट्टूमेडु अलामरम, पोन्नाराम पट्टी डाक, वजापडी तालुक, सलेम जिला पिन 636115, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	10-जून-76
874	जी. सेल्वम (वी. गणपति)	टीएनएसवीसी/5 17/05	75/ए, थिरुववल्लुवर नगर, कटुकुडलूर रोड, वैधाचलम, कुडालूर जिला, पिन 606001	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	12-मई-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक, अर्हताएं	जन्मतिथि
875	जी. सेथिल कुमार (एम. गणपति)	टीएनएसवीसी/6 9/03	ऊरकिनारुथोट्टम, पेरिया गौडम पलायम, थिंडामंगलम डाक नमक्कल जिला 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	16-मई-76
876	जी. सेथिल बलावन (ए. गोविंदम)	टीएनएसवीसी/2 860/05	10/18, सीलोन कॉलोनी, अम्मूर डाक, बालजापेट तालुक, वेल््लोर जिला, तमिलनाडु (एस) 632501	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	05-अप्रैल-78
877	जी. सेथिलनाथन पुत्र श्री टी.एस. गणेशन	टीएनएसवीसी/3 377/06	न. 755, कीलपुडुपक्कम रोड, शिवाजी नगर, चेर्य्यार 604407, टी.वी.मलई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	05-फर-82
878	जी. शानमुगा सुंदरम (ए. एम.सी. गोविंदराजन)	टीएनएसवीसी/1 400/05	18/42, अन्नामलई नगर, सीलानाइक्कनपट्टी, सेलम 636201, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	30-सित-56
679	जी. शांति (वी. गणेशन)	टीएनएसवीसी/2 397/05	परईकडु, पल्लीपट्टी, बेलुकुरिची डाक, नमक्कल जिला 637402, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	05-जून-77
880	जी. सिवकुमार, पुत्र श्री गोविंदराजलु	टीएनएसवीसी/3 504/06	न.32, प्लॉट न.14, बलसर्वक्कम, अम्बातूर तालुक, थिरुवल्लूर जिला 600087 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	24-नव-50
861	जी. शिवकुमार, पुत्र श्री टी. गोविंदसामी	टीएनएसवीसी/3 306/06	तिरुपट्टूर टी.के. वेल््लोर जिला, पिन-635853, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	13-मई-83
882	जी. सियाम सुंदर (के. गणेशन)	टीएनएसवीसी/2 034/05	137, मदासामी कोइल मरावर, नॉर्थ स्ट्रीट, राजापलायम, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	01-जून-73
883	जी. श्रीलक्ष्मी (पत्नी श्री जी. रमेश कुमार)	टीएनएसवीसी/2 8/02	धुतुरेडिडियू, पोटेनेरी डाक, मेट्टूर तालुक, सलेम जिला 636453, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	25-जून-76
884	जी. श्रीनिवासन (के. गणेशन)	टीएनएसवीसी/2 068/05	न. 10, तीसरी मंजिल, 105, मेदावक्कम टैंक रोड, किलपौक, चेन्नई-10	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	21-जून-71
885	जी. श्रीनिवासन (के.वी. गोपाल)	टीएनएसवीसी/1 398/05	न. 1-एच, विजयरागवाचरियार स्ट्रीट, कोमारसामीपट्टी, सलेम जिला 838007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	07-अक्टू-49
686	जी. श्रीनिवासन (आर. गोविंदराज)	टीएनएसवीसी/1 980/05	44, अलगार नगर, पाचवां क्रॉस स्ट्रीट, के. पुडुर, मदुरै 625007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	18-मई-77
887	जी. सुबय्याह (ए. गणपति)	टीएनएसवीसी/1 070/05	प्लॉट न. 24, तीसरी स्ट्रीट, डाक एवं तार नगर, मदुरई 625017, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	04-मई-59
886	जी. सुब्बरायन (एम.एस. गोविंदसामी)	टीएनएसवीसी/1 655/05	प्लॉट न. 60 अन्ना स्ट्रीट, ईबी कॉलोनी, नायरकोट्टई रोड, तंजावूर 6013006, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	25-फर-58

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
889	जी. सुब्बा (जी. गणपति)	टीएनएसवीसी/2 379/05	60-बी, अमुदापडी स्ट्रीट, छोटा कांचीपुरम जिला 631503, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	02-मार्च-74
890	जी. सुजित्रा (एस. गुरुशिव)	टीएनएसवीसी/4 56/05	पुराना न. 12-डी, नया न. 53, बीबर्स कॉलोनी, धर्मपुरी 636701, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	16-अक्टू-81
891	जी. सुकुमार (के. एस. गोपाल)	टीएनएसवीसी/2 169/05	पुराना न. 10, नया न. 37, मुनिकुलम स्ट्रीट, तिरुपत्तूर, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु 635601	बीबीएससी/टी एनएयू/76	01-अक्टू-51
892	जी. सुमथी (सी.गणेशन)	टीएनएसवीसी/2 78/04	सवांदापुर डाक, गोबी तालुक, पिन 638502, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	25-जून-78
893	जी. सुंदर राज (सी. ज्ञानथंबी)	टीएनएसवीसी/2 195/05	संगीत भवन, मुथप्पन कोड, अरुमनई डाक, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/86	10-जून-63
894	जी. सुंदरमूर्ति (एस. गणपति)	टीएनएसवीसी/1 558/05	इदायापट्टी, अलगापुरी डाक, अलंगनल्लूर वाया, मदुरई जिला, 625501, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	11-जून-78
895	जी. सुरेश (पी. ज्ञानसुरियान)	टीएनएसवीसी/2 974/05	15/1, प्रथम स्ट्रीट, जॉन की कॉलोनी, गोपालपुरम, वेल्लोर-6, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /82	01-जून-68
896	जी. सुसीला (ए. गंगीरेड्डी)	टीएनएसवीसी/4 95/05	2/52, धिन्ना बेल्लूर डाक, पेन्नाग्राम तालुक, धर्मपुरी जिला, 636810, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	05-जून-81
897	जी. स्वप्ना, पुत्री श्री गुडा किष्टय्या	टीएनएसवीसी/4 403/05	म.न. 1/2/39, स्वप्न नीलायम, शांतिनगर, आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	26-जून-81
898	जी. थिरुनवुकुरासु (ए. टी. गोमथी नीलायम)	टीएनएसवीसी/3 117/05	25, मासी स्ट्रीट, अलवरथिरु नगरी डाक, 628612, ट्यूटीकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	06-अक्टू-67
899	जी.बी. वेलमुरुगन (जी. बी. विश्वनाथन)	टीएनएसवीसी/2 33/04	3/164, सी.पी. कोइल स्ट्रीट, वंगानूर डाक, पल्लीपेट तालुक, थिरुवल्लूर जिला 631304, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	04-जून-80
900	जी. वनंगमुडी (सी.एम. गोविंदराज)	टीएनएसवीसी/2 788/05	जोथी राइस मिल, सोमनदुरई डाक, पोलाची तालुक, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/81	14-अप्रैल-55
901	जी. वंदारकुजाली (गुनसेगरन)	टीएनएसवीसी/4 11/04	न. 32, सेनगुंडा पिलयर कोइल स्ट्रीट, कुरिंजीपडी, कुडालूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससीएंडए एच/पीयू/04	18-नव-81
902	जी. वसंतरानी (डी.जी. गुणशेखरन)	टीएनएसवीसी/3 29/04	अन्नाई वेलांकनी राइस मिल, पी. वगाइकुलम डाक, थिरुमंगलम तालुक, मदुरई जिला 625529	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	22-मई-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
903	जी. वासुदेवन (वी. गणपति)	टीएनएसवीसी/1 121/05	न. 23, चिन्ना पट्टु, नूलाकारा स्ट्रीट, कोसापलायम, अर्नी 632301, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /98	24-मई-74
904	जी. वेकटसामी (वी.वी. गोविंदारङ्गी)	टीएनएसवीसी/9 01/05	2/1/65, मेदुपेरुमल नगर, टी. वादीपट्टी, मदुरई जिला 625218, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	23-मई-71
905	जी. वेंकटेशन (डी. गनादरन)	टीएनएसवीसी/4 38/05	डोर न. 1/3, लालीगन (डाक), धर्मपुरी जिला 636804, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	20-मई-79
906	जी. वेंकटेशन (आर. गोविंदराजुलु)	टीएनएसवीसी/1 089/05	4-सी-3, नाइकर न्यू फर्स्ट स्ट्रीट, पूर्वी गोविंदपुरम, डिडिगल 624001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/80	30-मई-55
907	जी. वेंकटेश (पी. गोविंदराजुलु)	टीएनएसवीसी/1 254/05	2/48, मारी अम्मान कोइल स्ट्रीट, तलाईवासल-636112, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच/एमपीकेवी/94	06-मई-71
908	जी. वेंकटेश (ए.वी. गुणशेखरन)	टीएनएसवीसी/9 4/03	अचलवाडी डाक, हरुर, तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन 6369, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	01-मई-79
909	जी. वेनुगोबल, पुत्र श्री एम. गुहान	टीएनएसवीसी/3 313/06	140, कार स्ट्रीट, अंथीयूर -638501, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	25-अप्रैल-82
910	जी. विजय क्रांत, पुत्र श्री ए. गोविंदराजन	टीएनएसवीसी/3 296/05	डी/50, राजीव नगर, कलाजनगरम डाक, अरियालूर जिला 621701, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	01-अप्रैल-82
911	जी. विजय कुमार (पी. गणेशन)	टीएनएसवीसी/3 065/05	3/25, सयाक्कडु, कुथमपूडी डाक, थिरुचेगोडे तालुक, नमक्कल 637202, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	15-जुला-82
912	जी.ए. सांथि (एम. गणेशन)	टीएनएसवीसी/4 74/05	78/1, इलांगो स्ट्रीट, सिदगिरि 638109, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	28-सित-80
913	जी.बी. प्रभाकरन (जी.बी. बाला गुरुनाथन)	टीएनएसवीसी/2 079/05	न. 5, 25वीं स्ट्रीट, नांगानल्लूर, चेन्नई 600061	बीवीएससी/ टी एनएयू/78	27-अक्तू-48
914	जी. गौदमन	पॉण्डीएसवी सी/270/05	18, कनाल स्ट्रीट, पिचावीरनपेट, पॉंडीचेरी - 605010	बीवीएससीएंडए एच/पीयू/05	17-फर-80
915	जी. गोविंदसामी (के. गोविंदसामी)	टीएनएसवीसी/2 286/05	मुथानूर, इट्टियमपट्टी डाक, हरुर तालुक, धर्मपुरी जिला, 636903, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	20-जुला-74
916	जी. कलीलूर रहमान (एम.ए. घनी)	टीएनएसवीसी/1 216/05	4/65, न्यू स्ट्रीट, सेदुगानल्लूर डाक, थूदुकुडी जिला, 628809, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/81	18-दिस-56

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
917	जी. कृष्णराज (एस. गोविंदराज)	टीएनएसवीसी/2 687/05	9-ए, ई.वी.आर. रोड, पुथुर, त्रिची 620017, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/74	15-जून-49
918	जी. मुरुगन (गुरुसामी)	टीएनएसवीसी/1 834/05	काडानेरी(ग्राम व डाक), तालुक कालूपट्टी वाया, मदुरई जिला, पिन 625702, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	05-जून-64
919	जी.आर. पलानीसामी (के. रामासामी)	टीएनएसवीसी/2 453/05	कडाकरइयानूर, कन्कापट्टी डाक, नांगावल्ली तालुक, सलेम 636454, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /93	30-अप्रैल-70
920	जी. राल्स्टन सेवेस्टियन एडवर्ड (एस. जॉर्ज एडवर्ड)	टीएनएसवीसी/1 751/05	कनहप्पापुरम, अंजुग्रामम डाक, कन्याकुमारी जिला 629401, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	01-जुलै-69
921	जी.एस. अय्यासामी (जी. एम. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी/1 044/05	20.अन्नामलाई स्ट्रीट, अम्मापेट डाक, सलेम जिला 636006, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	22-सित-62
922	जी.एस. गणेशन (जी. सौंदराराजाचार्य)	टीएनएसवीसी/1 826/05	न.8.पम्प हाउस रोड, उन्नामलाई चेटी चावडी, कोडूर डाक, कुडालोर 607002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	31-मार्च-57
923	जी. सेल्वापेरुमल (आर. गोपालकृष्णन)	टीएनएसवीसी/2 289/05	15/3, कन्नियाम्नकोइल स्ट्रीट, चैयार डाक, तिरुवन्नामलाई जिला, 604407, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	02-फर-57
924	जी. सेल्वाप्रिया (डी. स्वामीनाथन)	टीएनएसवीसी/1 009/05	सिलमबागम, 13वां वार्ड, थारमंगलम डाक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	26-जून-70
925	जी. सोमसुंदरम (आर. गोविंदन)	टीएनएसवीसी/1 787/05	1/93-3, रोज नगर, सौमिया नारायणपुरम, देवावामपुर रोड, पुडुकटमपुर, थिरुपथूर, शिवांगई जिला	बीवीएससी/टी एनएयू/87	08-जुलै-65
926	जी. उगांडर रेड्डी, पुत्र श्री जी. हनुमंत रेड्डी	एपीएसवीसी/44 20/05	1-13-115/4, राजेंद्र नगर, महबूब नगर 509001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	17-सित-80
927	जी.वी. सुधाकर राव, पुत्र श्री जी. राजगोपाल राव	टीएनएसवीसी/3 506/06	2जी, रानी एन्कलेव अपार्टमेंट, 36, कुट्टियापन थिरु, केलीस- 600010, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/89	12-जून-64
928	जी. वेंकटेश्वरन (एस.ई. गजराजन)	टीएनएसवीसी/2 283/05	32-जी/8, वेट्टलम रोड, थिरुवन्नामलाई, पिन-606601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	18-मई-67
929	जी. विवेक (आर. गुरुसामी)	टीएनएसवीसी/1 358/05	29/ए, कोवलन स्ट्रीट, ई.बी. कॉलोनी(प), टीचर्स कॉलोनी, इरोडे 638011, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	25-मार्च-77
930	गब्बर सिंह बिष्ट, पुत्र श्री दयाल सिंह बिष्ट	यूवीसी/ 131/06	ग्राम मैराब खास पट्टी जखनोधर, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 99	01-जून-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
931	महारा अश्विद क. कुमार बी.	गुजएसवीसी/26 21/06	धारांडाडा, डाक सोयाल, वाया घरोल, तालुक व डाक जाम नगर, पिन-361210, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि. वि./06	23-जन-83
932	महदी संदीप कुमार जे.	गुजएसवीसी/26 64/06	एटी मोटेटा, डाक जलोत्रा, तालुक वाडगाम, जिला बनासकंटा, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	05-जुला-82
933	मगन गर्ग, पुत्र श्री विनोद पाल गर्ग	राजएसवीसी/32 26/06	वैटरिनरी हॉस्पिटल, बारप तहसील, भीम, राजसमंद, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /98	06-सित-75
934	गगनदीप कौर, पुत्री श्री इकबाल सिंह	पीबीएसवीसी/26 32/06	बी-IV, 397 सिम्बल चौक, जी.टी. रोड, बटाला, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	12-सित-81
935	गधुवीर प्रसाद मारुति राव	कर्नाएसवीसी/ 3728/	द्वारा श्री जगदम्बा कृपा, ब्रह्मपुर कॉलोनी, बी.वी. बी. रोड, बिदर-585403, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंड एफएसयू/05	02-अग-82
936	गणेश सिंह परिहार, पुत्र श्री बलवंत सिंह परिहार	यूवीसी/ 75/06	ग्राम सयूनी, डाक क्वेरेली, तह. एवं जिला बागेश्वर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /03	01-जून-80
937	गंगाधरइयाह बी.पी. पुत्र श्री परवतिया बी.के.	कर्नाएसवीसी/ 3752/	बालाबासवनाहल्ली, थरूर डाक, सिरा तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	11-जून-62
938	गंटालू एन. रामामुजम (आर. नम्मलवार)	टीएनएसवीसी/1 228/05	97, जोथी नगर, दूसरी स्ट्रीट, कोविलपट्टी 626501, थुदुकुडी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/ 78	02-मार्च-52
939	गाओखोरा नंदकुमार, पुत्र श्री गंगाधरराव	एपीएसवीसी/43 02/05	म.न. 301, बिदरेली, मुधोल (एम), आदिलाबाद जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/05	20-मार्च-81
940	गर्ग अरिंदम, पुत्र श्री मानिक चंद्र चटर्जी	असमएसवीसी/2 219/05	द्वारा मानिक च. भट्टाचार्य, एन.एन.बी. रोड, अमोलापट्टी, नागांव, जिला नागांव, असम	बीवीएससीएंडए एच/ एएयू/05	28-फर-80
941	गरिमा कटोच, पुत्री श्री दिलबाग कटोच	एचपीएसवीसी/7 31/05	होटल मोना-सीता, ग्राम एवं डाक चामुंडा मंदिर, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी /05	16-नव-79
942	हरिमा शर्मा, पुत्री श्री राकेश कुमार शर्मा	एचपीएसवीसी/2 315/06	द्वारा: हरिओम मेडिकल स्टोर, तिलक चौक, विदिशा 464001, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/आईजीकेवीवी /05	04-अप्रैल-80
943	गौरव सिंघल, पुत्र श्री राकेश कुमार	राजएसवीसी/33 20/06	एफ-87, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/05	10-जुला-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
944	गौरी शंकर बिष्ट, पुत्र स्व. श्री धर्मानंद बिष्ट	यूवीसी/ 60/06	ग्राम गुलोली, डाक अमयारी, रानीखेत, जिला अल्मोडा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /92	04-नव-57
945	गावीस्वामी एन., पुत्र श्री नाजप्पा वी.एस.	कर्नाएसवीसी/38 16/	वड्डागेरे, गुंडलुपेट तालुक, चामराजनगर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंड एफएसयू/05	16-फर-83
946	गेडिया किशोर भाई वी.	गुजएसवीसी/26 22/06	खोडियार कृपा, पी.पी.शेरी, स्टेशन रोड, एटी:चलाला, तालुक धारी, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि. वि./06	15-दिस-80
947	गीता शर्मा, पुत्र श्री आर. डी. शर्मा	यूवीसी/ 143/06	1751/11, टीए कॉलोनी, पंत नगर, जिला यूएस नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /97	26-जून-75
948	गीतांजलि दास, पुत्र श्री बासुदेव दास	उड़ीसाएसवीसी/ 2014/05	एटी-मणिनाथपुर, डाक सोलमपुर, वाया जाजपुर नगर, जिला भद्रक 755001, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/ 05	20-अक्टू-77
949	घनश्याम कुमार	गुजएसवीसी/ 2623/06	नितिन निकेतन, नया टोला, स्पीकर चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार 842001	बीवीएससीएंडए एच/ आनंद कृ.वि. वि./06	10-जन-83
950	घोडासार संजय एन.	गुजएसवीसी/ 2644/06	नानजीभाई आर. घोडासरा, सज्जनपुर नया, तालुक मोरबी जिला राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/ आनंद कृ.वि. वि./06	18-जून-82
951	गिरिराज गोयल, पुत्र श्री कल्याण चंद गोयल	एमपीएसवीसी/2 294/05	चंद्रा कॉलोनी, नवाबसाहिब रोड, वीरेंद्र शर्मा एडवोकेट के निकट, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/05	23-मार्च-82
952	गिरीश चंद्र माथुर, पुत्र श्री ध्यान पाल सिंह माथुर	उड़ीसाएसवीसी/ 2019/05	एटी/डाक-जे.एन.वी., बेलपाडा, बोलनगीर, पिन 767026, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/ 50	06-अग-80
953	गिरीश कुमार, पुत्र श्री तेजपाल सिंह	राजएसवीसी/ 3222/06	गुलाब बाग बाड़ी रोड, धौलपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/ आरएयू/ 05	21-सित-77
954	गोबिंदा अडक, पुत्र श्री बकिम अडक	डब्ल्यूबीएसवीसी /3193/05	ग्राम चिश्तीपुरवेरी, डाक बर्माक्षल, जिला मिदानापुर, 721434, प. बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	25-अप्रैल-83
955	गोगोई (कु.) स्वप्ना, पुत्री स्व. श्री एम.आर. गोगोई	असमएसवीसी/2 232/05	लिचूबाड़ी, सिकस माइल, म.न. 21, खानापाड़ा, गुवाहाटी-22, असम	बीवीएससीएंडए एच/ एएयू/ 00	10-जुला-75
956	गोगोई (कु.) जूमी, पुत्री श्री चितेंद्र कुमार गोगोई	असमएसवीसी/ 222.5/05	द्वारा श्री चितेंद्र कुमार गोगोई, लचित नगर, शिबसागर, असम	बीवीएससीएंडए एच/ एएयू/ 05	31-दिस-79
957	गोगोई (कु.) निनिता, पुत्री श्री सरत गोगोई	असमएसवीसी/ 2228/05	बंगला न. डी+135, ऑयल इंडिया लि., दुलियाजान, पिन-786602, असम	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/ 05	09-सित-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
958	गोगोई अमूल्य कुमार, पुत्र स्व. श्री नागेश्वर गोगोई	असमएसवीसी / 2233 / 05	सूरजनगर, खानापाड़ा, गुवाहाटी-22 (सेंट्रल स्कूल के निकट), असम	बीवीएससीएंडए एच / एएयू / 84	28-जुला-58
959	गोगोई कमल चंद्रा, पुत्र श्री भुगेश्वर गोगोई	असमएसवीसी / 2209 / 05	ग्राम होंडीक्विक मिलोन गांव, डाक चिमेन चपारी, जिला धीमाजी, असम	बीवीएससीएंडए एच / एएयू / 05	06-अक्टू-77
960	गोगोई रूपम कुमार, पुत्र स्व. श्री केशव च. गोगोई	असमएसवीसी / 2223 / 05	मिलान नगर, वार्ड न. 5, उत्तरी लखीमपुर, जिला लखीमपुर, 787001, असम	बीवीएससीएंडए एच / एएयू / 05	25-अप्रैल-80
961	गोपाल पात्रा, पुत्र श्री सुकदेव पात्रा	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3189 / 05	ग्राम दक्षिणी शिवपुर, डाक देहनीबस, जिला 24 परगना, पिन 743357, प. बंगाल	बीवीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंड एफएस / 05	10-दिस-81
962	गोस्वामी अमिता बेन ए.	गुजएसवीसी / 2665 / 06	14, भैरव नगर सोसायटी, पाटन, पिन-384265, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच / एसकेडीएयू / 0 6	05-अक्टू-82
963	गोविंद कुमार चौधरी, पुत्र श्री आर.के. चौधरी	बिहारएसवीसी / 2373 / 03	ग्राम: डुमरी, डाक: अफजल बलिया, थाना बिरौल, सबडिवी. बिरौल, जिला दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / बीएयू / 03	10-अग-76
964	गौरी तिरुपति, पत्नी (एन. तिरुपति)	टीएनएसवीसी / 1 776 / 05	ईरीकोडी, मदावलम डाक, तिरुपदूर तालुक, वेल्लोर जिला, पिन 635653, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 89	25-जून-67
965	गुरदीप सिंह, पुत्र श्री तरलोक सिंह	हरिएसवीसी / 18 75	ग्राम एवं डाक गुमथला कैरु, जिला, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच / सीसीएसएचएयू / 05	05-अप्रैल-80
966	गुरदकबाल सिंह नय्यर, पुत्र श्री एच. सिंह नय्यर	पीबीएसवीसी / 2639 / 06	45, सेक्टर 4, रणजीत एवेन्यु, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच / पीएयू / 05	17-अग-81
967	गुरु डी.वी. पंडियान (एस. गुरुस्वामी)	टीएनएसवीसी / 2 293 / 05	एच-81, कुट्टापल्ली कॉलोनी, तिरुचेंगोड 637214, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	25-जुला-77
968	गुरुदत्त जोशी, पुत्र श्री उदय नारायण जोशी	हरिएसवीसी / 1860	म.न. 1072, सेक्टर 13 डाक, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच / सीसीएसएचएयू / 05	17-जुला-81
969	गुरुनाथ गौडा पाटिल, पुत्र श्री नाग गौडा	कर्नाएसवीसी / 37 15 /	वन्नाहल्ली डाक, मुद्देबिहाल तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच / केवीएंडएफएस यू / 05	02-जून-82
970	गुरुवारेडडी अन्नपु रेडडी, पुत्र श्री वेंकटा रेडडी	एपीएसवीसी / 43 25 / 05	म.न. 13-1-247, 13वां वार्ड, मचेरला, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	15-अग-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
971	गूथीगोंडा धनलक्ष्मी, पत्नी श्री श्रीवास राव	एपीएसवीसी / 4307 / 05	एफ-16, संगीता अपार्ट., गायत्री नगर, विजयवाड़ा, 520008, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	27-सित-67
972	ज्ञान चंद्र कुमार आर्या, पुत्र श्री राम स्वस्त यादव	बिहारएसवीसी / 2484 / 04	ग्राम/मुहल्ला-सोइमा, डाक बहरानवा, थाना बद्ध, सबडिवी. बद्ध, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 04	14-मई-76
973	एच. अरुनमोजी दिवान (कै. हरकृष्णन)	टीएनएसवीसी / 1 935 / 05	3 / 592, रायप्पा मुदाली स्ट्रीट, कृशनगरी- 635001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 79	06-फर-56
974	एच. जाफरीन, पुत्र श्री जी. हयाथखान	टीएनएसवीसी / 3 302 / 06	42, नरसोजीराव स्ट्रीट, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	12-मई-82
975	एच. मस्तान (बी. हाजा मोहिदीन)	टीएनएसवीसी / 3 7 / 02	33, कुयावर स्ट्रीट, कोट्टाक्कुपम, वनूर तालुक, विल्लुपुर जिला- 605101	बीवीएससीएंडए एच / पीयू / 02	26-दिस-78
976	एच. मौहम्मद जुल्फारअली (कै. हबीबुर्रहमान)	टीएनएसवीसी / 1 952 / 05	716, कावेरी रोड, इरोडे- 638001, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 89	04-मई-63
977	एच. मोहन (पी. हरिदोस)	टीएनएसवीसी / 2 046 / 05	पीई. पोन्नेरी, पेन्नाडम, टिट्टागुडी तालुक, कुड्डलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 89	05-अक्तू-65
978	एच. प्रभावती (एम. हरिकृष्णन)	टीएनएसवीसी / 3 051 / 05	न. 35 / 38, एम.एस. नगर, II स्ट्रीट, चेटपेट, चन्नई 600031	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	04-अग-81
979	एच. श्रीधरन (ए. हरिकृष्णन)	टीएनएसवीसी / 2 800 / 05	113, कामराज सलई, कोराडाचेरी 613703, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 80	01-नव-52
980	एच. अरिहरा थिरु राजकुमार (पी. हरिराम)	टीएनएसवीसी / 2 279 / 05	20 / ए 4, कन्ड संस स्ट्रीट, इंदिरा नगर, पोलूर 606803	बीवीएससी / टी. एनवीएंडएएसयू / 00	30-जून-77
981	एच. जी. एस. जेबाराज (पी. हेनरी देवसहायम)	टीएनएसवीसी / 3 077 / 05	एच-58, कामराजार सेलई, पेरुमलपुरम, तिरुनेलवेली 627007, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 82	15-मई-58
982	एच. के. एम. रेखार, पुत्र श्री एच. के. मल्लिनाथ	कर्नाएसवीसी / 37 35 /	रंगनाथ हाई स्कूल, पंजीगन्ना हल्ली गाट, लक्ष्मीसागर डाक, सीरा तालुक, तुमकर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच / केवीएंडएफ एसयू / 05	25-मई-83
983	एच. एम. दयानंद, पुत्र श्री महादेवइयाह	कर्नाएसवीसी / 37 70 /	हेथनाहल्ली ग्राम, गुलूर डाक, तुमकुर तालुक व जिला 572118, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच / केवीएंडएफएस यू / 05	15-जुला-82
984	एच. आर. मुथुसेल्वी (पत्नी सी अंबारासु)	टीएनएसवीसी / 2 446 / 05	न.1, सोजिया मुदलियार स्ट्रीट, मोहनूर 637015, नमककल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	24-दिस-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
985	एच.एस. मधुसूदन, पुत्र श्री एन. सुब्बे गौडा	कर्नाएसवीसी/38 13/	होनेनाहल्ली डाक, बेतूर होबली, नागमंगला तालुक, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफ एसयू/05	02-जून-82
986	हनमंत नायमा गौडा, पुत्र श्री नागप्पा नायमा गौडा	कर्नाएसवीसी/37 21/	रोनीहाल डाक, बासवनाबागे वाडी तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफ एसयू/05	01-जून-79
987	हन्नाहजाने कॉर्बेट, पुत्र श्री रॉबर्ट एण्टोनी कॉर्बेट	कर्नाएसवीसी/38 06/	क्यूपा 257, प्रथम क्रॉस, एचएएल दूसरी स्टेज, इंदिरानगर, बंगलौर 560038, कर्नाटक	बी.वेट.मेड/ लंदन बि.बि./01	21-सित-77
988	हंस राज चौहान, पुत्र श्री सुंदर लाल	राजएसवीसी/32 18/06	डाक घर के निकट, पीलीबंगन हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	16-मई-80
989	हंसराज जांगिड, पुत्र श्री हरजी राम जंग	राजएसवीसी/ 3201/06	सुवाडिया का वास, डाक जयाल, नागौर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू//05	05-सित-78
990	हरेश चौबे, पुत्र श्री राजेशी चौबे	बिहारएसवीसी/2 296/03	ग्राम भाडी, डाक+थाना-कैतिया सबडिवी. हथुआ, जिला गोपालगंज, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेएचपी केवीवी/01	09-दिस-77
991	हरिहर धुरुआ, पुत्र श्री कबीन्द्र धुरुआ	उड़ीसाएसवीसी/ 1978/05	साहसपुर, वाया लाइकेरा, जिला झरसुगुडा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	09-जून-78
992	हरिनंदन कुमार, पुत्र श्री सत्य नारायण प्रसाद चौधरी	बिहारएसवीसी/ 2284/03	ग्राम भवनपुराटोला, डाक/थाना: चौसा, सबडिवी. उडा, किशनगंज, जिला माधेपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/99	16-नव-68
993	हरीस गिरीश (जी. गिरीश कुमार)	टीएनएसवीसी/1 991/05	न. 39/3, दूसरी स्ट्रीट, आईसीएफ, ईस्ट कॉलोनी, आईसीएफ, चेन्नई 600038	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	28-फर-77
994	हरीश गोयल, पुत्र श्री रमेश कुमार गोयल	पीबीएसवीसी/ 2622/05	कोल डिपो होल्डर, पीएचसी के सामने, शेरपुर थाना, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	13-सित-82
995	हरिवंशी सिंह परिहार, पुत्र श्री धवज सिंह परिहार	एमपीएसवीसी/ 2296/05	एफ113/60, शिवाजी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 80	06-मई-53
996	हरमनप्रीत सिंह धालीवाल, पुत्र श्री हरदेवसिंह धालीवाल	यूवीसी/ 81/06	वेट. अधिकारी, गवर्न.वेट. हॉस्पिटल, भानोली, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/01	27-जुला-75
997	हरसिमरन कौर, पुत्री श्री दियादर सिंह	पीबीएसवीसी/ 2631/05	टैगोर नगर, बाजवा पैट्रोल पम्प के सामने, होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	09-मार्च-81
998	हरसिमरन सिंह, पुत्र श्री जोगिंदर सिंह	पीबीएसवीसी/ 2599/05	113, स्ट्रीट नं. 2, मीठापुर कैन्ट रोड, जालंधर सिटी, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	18-मई-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
999	हरविदा सिंह, पुत्र श्री हरदीप सिंह	पीबीएसवीसी/ 2625/05	ग्राम एवं डाक-गोनेआना, तह. एवं जिला मुक्तसर- 152026, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच/पीएयू/ 05	21-जुला-82
1000	हजारिका अपूर्वा, पुत्र श्री जगनेश्वर हजारिका	असमएसवीसी/ 2210/05	बी.बी.एफ.सी., नामरूप, डाक पर्वतपुर, क्वा.न. 124/ए/ए, डिब्रूगढ़, असम	बीबीएससीएंडए एच/एएयू/05	04-अग-77
1001	हेमा, पुत्री श्री कल्याण सिंह बनौला	यूवीसी/ 154/06	माइचुन (बड़ाचाइना), अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /03	05-जुला-77
1002	हेमेन्द्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री लखन लाल शर्मा	यूवीसी/ 174/06	द्वारा: चिलिंग प्लांट, कामेरी, जिला बागेश्वर, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/ 99	10-नव-75
1003	हीरेमथ बासवराज, पुत्र श्री हीरेमथ गुरुबासया	कर्नाएसवीसी/37 14/	द्वारा:स्वामी टिम्बर मचैट, पानी की टंकी के निकट, इंदिरानगर, तालीकोट, मद्देबिहाल तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	22-जुला-82
1004	होवार्ड डेमोटे (एथोनी डेमोटे)	टीएनएसवीसी/7 80/05	1 सी, टी.बी.के. नगर, पुथुर -तिरुचिरापल्ली 620017, तमिलनाडु	बीबीएससी/ एमयू/73	27-सित-47
1005	आई. अमुथावल्ली, पुत्र श्री आई अइयाथुरई	टीएनएसवीसी/3 327/05	5-99, पल्लुविलई, परक्कई डाक, कन्याकमारी जिला पिन 829601, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	26-जुला-83
1006	आई. चिन्ना थुरई (सी. ईश्वरामूर्थि)	टीएनएसवीसी/1 108/05	2/442, परिजाथम स्ट्रीट, गोमथीपुरम, मेलामडई, मदुरई 625020, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/80	10-मई-56
1007	आई मौहम्मद इरसाद (एम.सी.एम. इरमाइल)	टीएनएसवीसी/5 24/05	3/2, डॉक्टर ल्यूकास स्ट्रीट, पुडुपेट, वृधाचलम, 606001, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/	21-नव-78
1008	आई पांडी (एम. इन्नासिमुथु)	टीएनएसवीसी/1 514/05	7/14, पारासक्तिनगर, मुंडनगियर रोड, राजपलायम, विरुधुनगर जिला 626117, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	06-अप्रैल-66
1009	आई. पोन्नू पंडयान (आई. इरुलाडिथेवर)	टीएनएसवीसी/1 211/05	95ई, रेडिडयापट्टी, इलायी रमपन्नई (डाक), विरुधुनगर जिला 626201, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	10-अप्रैल-74
1010	आई. प्रेमशीला (सी. इरुधयम)	टीएनएसवीसी/3 68/04	5/398, टाटा नगर, नल्लम पट्टी डाक, धर्मपुरी जिला, 636807, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	29-जुला-80
1011	आई राजमाताना गोपालन (बी. इरुलाप्पन)	टीएनएसवीसी/2 767/05	61, मुदलियर स्ट्रीट, थलवईपुरम डाक, राजापलायम वाया, विरुधु नगर जिला 626118 तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	02-फर-72
1012	आई. रामाचंद्रन (इय्यन पिल्लई)	टीएनएसवीसी/1 094/05	39/7-एच, वाल्मिगी स्ट्रीट, एस. एस. कॉलोनी, मदुरई - 625016, तमिलनाडु	बीबीएससी/ एमयू/71	15-नव-44

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1013	आई सेन्थिन कुमार (ए. इरुलांडी)	टीएनएसवीसी / 4 6 / 03	14 / 38, ब्रियन्त एनआर, दसवीं स्ट्रीट, साउथ पुलिस लाइन, थूडुकुडी 626, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 03	20-जुला-78
1014	आई सुरेश (एस. इव्यापिल्लड)	टीएनएसवीसी / 1 2 / 02	15 / 1, मुरुगा भवनम, प्रथम स्ट्रीट, कक्कन नगर, पलायम कोर्टई 827353, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 02	24-मई-78
1015	आई सैयद अली (ए. मौहम्मद इरमाइल)	टीएनएसवीसी / 9 90 / 05	173-ए, टी.बी.रोड, कामराज नगर, चौथी स्ट्रीट, वलियूर, तिरु नेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 89	04-फर-65
1016	आई थनबलान (ए. इरुलंडी)	टीएनएसवीसी / 2 904 / 05	ग्रेट गार्डन, लिटल फलावर कान्चेंट के पास, पवित्र मनिक्कम, थिरुवरूर, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 85	15-जुला-62
1017	आई विजयाराघवन (आर. इरुलम्पन)	टीएनएसवीसी / 9 92 / 05	390 ए.मुथुपेट्टई रोड, नावीमुथु नगर डाक, पट्टुकोटई 614602, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	01-जुला-76
1018	आई मुरुगेसन (वी. इरुलम्पन)	टीएनएसवीसी / 2 344 / 05	स्टेट बैंक के निकट, 8वां वार्ड, सपतूर डाक, 625705, पेरियूर तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 94	05-नव-70
1019	आई एस. जमा सिंह (आई इसइयह)	टीएनएसवीसी / 1 555 / 05	कंडलथोटम हाउस, मीनाकिल कलियक्काविला, कन्याकुमारी जिला 629153, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 79	08-अक्टू-55
1020	इमरान अली, पुत्र मोह. शाहाबुद्दीन	बिहारएसवीसी / 2306 / 03	ग्राम: बकारगंज बाजार, डाक बांकीपुर, थाना बीरभोहोर, सबडिवी. पटना सदर, जिला पटना, बिहार	बीबीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूए एंडएफएस / 02	09-अप्रैल-77
1021	इंद्रा प्रकाश शुक्ला, पुत्र श्री सत्या नाथ	राजएसवीसी / 3227 / 06	11 / 80, कायरथपारा, बजरिया रोड, धौलपुर, राजस्थान	बीबीएससीएंडए एच / केवीएंडएफएस यू / 05	10-जून-80
1022	इंदु त्रिपाठी, पुत्री श्री उस्स्यू.ओ.एस.एन. त्रिपाठी	कर्नाएसवीसी / 3 814 /	पीएमओ ऑफिस, मुख्यालय, ट्रेनिंग कमांड, जे.सी. नगर डाक, हेब्बल, बंगलौर 560008, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच / केवीएंडएफएस यू / 05	14-दिसं-81
1023	इरितयाक अहमद, पुत्र श्री सिकंदर अली	राजएसवीसी / 3234 / 06	ग्राम एवं डाक नुआ झुंझुनू, राजस्थान	बीबीएससीएंडए एच / आरएयू / 05	05-अप्रैल-77
1024	इस्लाम जोशीकुल, पुत्र श्री जोषेदुर रहमान	असमएसवीसी / 2214 / 05	मोफीजुद्दीन अहमद, डाक सारथेबारी, ग्राम सारथेबारी, पिन-781307, असम	बीबीएससीएंडए एच / एएयू / 05	21-सित-80
1025	जे. अमन शिव शर्मा, पुत्र श्री जोगिन्दर माल शर्मा	पीबीएसवीसी / 2 626 / 05	आनंद नगर, बी-1, बोह रोड, डाक बोह, अम्बाला कैंट, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच / पीएयू / 05	27-सित-82
1026	जे. अम्बालागन (वी.जया)	टीएनएसवीसी / 1444 / 05	130सी, अरासु नगर, दुराईयप्पा मिल के पीछे, पलानीचेट्टयापटी डाक, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 89	17-अप्रैल-65

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1027	जे. अंतो मनोहर (एस.एम. जोसेफ)	टीएनएसवीसी / 2058 / 05	20/5, अंतो कॉटेज, तालुक कल्लीकुलम, तिरुनेलवेली जिला 827113, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 93	04-जून-70
1028	जे. बेबी निर्मल (एम. जयपील)	टीएनएसवीसी / 1627 / 05	2/15ए, बजानई मदाम स्ट्रीट, पुलीवलम 621006, त्रिची जिला तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 89	10-अप्रैल-87
1029	जे. बालामुरुगन (के. जगनमोहन)	टीएनएसवीसी / 3132 / 05	13/1, सुगाडौा मोडी स्ट्रीट, बाबू राम रोड, त्रिची 600002, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 94	25-मई-70
1030	जे. क्रुज जयासीलन (एम. जोसेफ)	टीएनएसवीसी / 297 / 04	35, एमजीआर नगर, कुपुचि पलायम डाक, वंगल विज, करुर जिला 639006 तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 04	14-सित-79
1031	जे. डेविड सैम गुरुपथम (एस. जोएल)	टीएनएसवीसी / 2646 / 05	14, दूसरी स्ट्रीट, ई.बी. कॉलोनी, गांधी नगर, वेल्लोर 632006, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 79	19-मार्च-54
1032	जे. ईस्वरन (के. जयाबलान)	टीएनएसवीसी / 3171 / 05	29, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, ईवीएस नगर, तिरुवरुर 610002, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 90	07-अक्टू-85
1033	जे. गुलजार परवीन (एच. ए. जीमल अहमद)	टीएनएसवीसी / 181 / 03	68ए, टीएनएचबी, विरुपाचीपुरम, धर्मपुरी 638705, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 03	31-अक्टू-78
1034	जे. जगदेसन (एम. जयारमन)	टीएनएसवीसी / 488 / 05	50, एआईआईबी गांधी नगर, वेलांडीवलसई डाक, इडापडडी तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवी एंडए एसयू / 05	23-जुला-81
1035	जे. जयाकुमार (आर.पी. जयपाल)	टीएनएसवीसी / 1884 / 05	33, वेस्ट कॉलोनी स्ट्रीट, रासीपुरम डाक, नमक्कल जिला 637408, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 96	16-जुला-73
1036	जे. जेबाराणी (के. दुष्यंतन)	टीएनएसवीसी / 2923 / 05	20, अरुल नगर, प्रथम स्ट्रीट, एमएमसी डाक, चेन्नई 800051	बीवीएससी / टी एनएयू / 87	22-अप्रैल-62
1037	जे. जेयाबालन (जी. जेबामनी)	टीएनएसवीसी / 2318 / 05	इवईचिविलई डाक, औठान थरुवई वाया, द्यूटिकोरिन जिला 826658, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवी एंडए एसयू / 95	14-अप्रैल-71
1038	जे. जयासेखरन डेविड (डी. जॉन रोज)	टीएनएसवीसी / 2144 / 05	335, जोशुआ स्ट्रीट, नगरकोइल, के.के. जिला, तमिलनाडु 629001	बीवीएससी / टी एनएयू / 86	25-मार्च-61
1039	जे. जॉन सुरेश थासन (के. जेसुदासन)	टीएनएसवीसी / 1986 / 05	2 / 129, मुधु रामलिंगापुरम, कल्लुरानी डाक, अरुम्पुकोटई तालुक, विरुधु नगर, जिला पिन 626105	बीवीएससी / टीएनवी एंडए एसयू / 93	20-मई-70
1040	जे. जोसेफ डियसन (एस. जेम्स राज)	टीएनएसवीसी / 2650 / 05	सेंट माइकल स्ट्रीट, तालुक कल्लीकुल्लम 627113, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 83	01-जून-60
1041	जे. जस्टिन जेबा कुमार (एम. जॉन रोज)	टीएनएसवीसी / 208 / 03	न. 1 / 87, जे.टी. विला, मथार, चेकोडी डाक, कन्थाकुमारी जिला, पिन 629177, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 03	17 -अग-78
1042	जे. लीडिया (डी. जोथी सिंह डेविड)	टीएनएसवीसी / 523 / 05	151, दूसरी मेन स्ट्रीट, नेसामोनी नगर, नगरकोइल 629001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 05	03-नव-61

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1043	जे. महिन्दिरन (एन. जनार्थनम)	टीएनएसवीसी / 1914/05	पी. नदुपट्टी डाक, सिंगारापेटई वाया, उथानगरई तालुक, कृष्णागिरि जिला 635307, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	10-जून-68
1044	जे. मलिगा (के.एम. जगन्नाथन)	टीएनएसवीसी / 525/05	अवालनिकेनपट्टी डाक, सेलापमपट्टी वाया, नमक्कल जिला 837019, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	24-जून-81
1045	जे. मनोहर सुंदर राज (एस. जोएल)	टीएनएसवीसी / 2640/05	338, एम.जी.सी.नगर, अलामेलुमंगपुरम, वेल्लोर 632009, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	21-दिसं-56
1046	जे. नागेश्वर राव (आर. जयरमन)	टीएनएसवीसी / 3067/05	19, अलामेलु नगर, मदुरई -17, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	11-मई-57
1047	जे. नवनीता कृष्णन (एस. जयरमन)	टीएनएसवीसी / 1074/05	10, टी.बी. रोड, भारतीदासन सलई, मदुरई -10, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/89	31-मई-66
1048	जे. पंडियान (एम. जयरमन)	टीएनएसवीसी / 2975/05	न.1, चेरमैन मुनिस्वामी स्ट्रीट, अर्कोट, वेल्लोर जिला, पिन-632503, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	15-अक्टू-52
1049	जे. प्रसन्ना (पी.बी. जोशी)	टीएनएसवीसी / 1347/05	99-ए.पांचवा क्रॉस रोड, हयाथ नगर, तिरुपट्टूर, वेल्लोर जिला, पिन 635601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	25-मार्च-66
1050	जे. रघुल, पुत्र श्री डी. जयप्रकाश नारायण	टीएनएसवीसी / 3496/06	88, लक्ष्मी नगर, नेमिलीचेरी, थिरुन्निरावूर 602024, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/51	05-फर-77
1051	जे. राजगोपाल (आर. जगन्नाथन)	टीएनएसवीसी / 970/05	सी-96, "हरिनी निवास", बैल नगर, आर.ई.सी. डाक, तिरुचिरापल्ली 620015, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	09-जुला-61
1052	जे. राजारथिना मंडियान (पी. जनाह महाराजन)	टीएनएसवीसी / 1303/05	ए 7बी, पहली मंजिल, गांधीजी रोड, एनआरटी नगर, थेनी डाक, थेनी जिला, पिन: 625531, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	27-मई-69
1053	जे. राजेश कुमार (के. जगदीसन)	टीएनएसवीसी / 911/05	3 ए, एलजीबी कंपाउंड, डिंडीगल 624001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	15-मई-73
1054	जे. रमेश (एन. जयाबालन)	टीएनएसवीसी / 1274/05	ई 1, श्रीमती अपार्टमेंट्स, न. 7, जोनेहान लेन, संधोम, चेन्नई 800028	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	02-जून-75
1055	जे. रवि (के. जोशी)	टीएनएसवीसी / 3185/05	अन्नामलई नगर, मलुमाचम पट्टी, सिडको डाक, कोयम्बतूर 641021, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	26-जुला-70
1056	जे. रुबा (ए. जय प्रकाशम)	टीएनएसवीसी / 529/05	कामराज नगर, रामानायकन पलायम डाक, अट्टूर तालुक, सलेम जिला, पिन 636108, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	15-मई-81
1057	जे. रूथ सोफिला, पुत्र श्री सथ्या कुमार	टीएनएसवीसी / 3470/06	13 एफ/3, केलीस रोड, रानीपेट 832401, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	01-अक्टू-66
1058	जे. सेमुअल जेबाराज वेदामुथु (वी. जेसुदियन)	टीएनएसवीसी / 1438/05	12/25, इमानुएल इल्लम, वीओसी नगर, तीसरी स्ट्रीट, बोडीनायकरनूर 625513, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	14-मई-60

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1059	जे. सेथिल कुमार (जी. जगन्नाथन)	टीएनएस वीसी / 475 / 05	मेलपुडुर, चेन्नागुपम डाक, रोशा कैम्पस, वेल्तोर 632209, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 05	23-जून-82
1060	जे. सेथिल कुमार (आर. जगन्नाथन)	टीएनएस वीसी / 851 / 05	6/3, भारती नगर, कोट्टाथूर डाक, थुराइयूर तालुक, तिरुचिरा पल्ली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 00	14-मई-77
1061	जे. शानमुगम (जदायन)	टीएनएस वीसी / 288.6 / 05	294 / 2, एच.आई.जी. '6बी' टाइप, बेली कोर्ट, अन्ना नगर वेस्ट, चेन्नई 600040	बीवीएससी / टी एनएसयू / 75	05-जून-49
1062	जे. सुधाकर (एस. जयामनि)	टीएनएस वीसी / 384 / 04	मेन रोड, वरागूर डाक, नमक्कल जिला, पिन 637021, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 04	01-अप्रैल-81
1063	जे. तालबर्ट डॉसन (जेसु डॉसन)	टीएनएस वीसी / 3218 / 05	न. 38 / 703ए, 27वीं स्ट्रीट, शांति नगर, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली 627002, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू / 75	10-जून-51
1064	जे. उमा मगेश्वरी (एन. जयाकुमार)	टीएनएस वीसी / 106 / 03	न. 6, विनय नगर स्ट्रीट, टीचर्स कॉलोनी, लमापुरम, चेन्नई 600, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 03	16-जून-80
1065	जे. विजय आनंद, पुत्र श्री एस. जयाबल	टीएनएस वीसी / 3379 / 06	साउथ स्ट्रीट, अम्मापलायम डाक, पेराम्बलूर जिला 621101, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 05	15-अक्टू-79
1066	जे. विजय कुमार (जी. जेयाबलान)	टीएनएस वीसी / 1503 / 05	न. 23, पवाडी स्ट्रीट, कुमथी 623603, रामनद जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 01	31-मई-78
1067	जे. अमन शिव शर्मा, पुत्र श्री जोगिन्दर पाल शर्मा	हरिएस वीसी / 1 904	आनंद नगर, बी (I), बोह रोड, अम्बाला कैंट, हरियाणा	बीवीएससी एंड एच / पीएयू / 05	27-सित-82
1068	जे. कैरलाइल जगन्नाथन (जॉन ज्ञानप्रकासम)	टीएनएस वीसी / 1771 / 05	X-17, कोवई पुडुर, कुनियामुथुर, कोयम्बतूर 42, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 73	10-मार्च-48
1069	जे. धान्या जोसेफ	पॉण्डीएस वीसी / 272 / 05	28, 7वां क्रॉस, कुरिगी नगर, पॉंडीचेरी-8	बीवीएससी एंड एच / पीयू / 05	13-जून-82
1070	जे. गोविंदराजन (वी. जयरमन)	टीएनएस वीसी / 1929 / 05	एम-98, 11वां क्रॉस, गांधी नगर, न्यू एसटीसी हुडको, होसूर-835109, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 93	28-जुला-68
1071	जे. एच. डेनियल राजेंद्रन (एम. जोसेफ हेनरी)	टीएनएस वीसी / 2434 / 05	प्लॉट न. 38-39, अशोक नगर एक्स, पुडुकोट्टई 622001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू / 85	14-मार्च-59
1072	जे. जेसुदासन (एम. जॉन)	टीएनएस वीसी / 2886 / 05	सी 27, 11वां क्रॉस, थिलई नगर, त्रिचिरापल्ली 620018, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 70	05-अग-41
1073	जे. के. नाराजन (जे. कृष्णामूर्ति)	टीएनएस वीसी / 841 / 05	127 / 277, वेनकयामल स्ट्रीट, धुमिचमपट्टी, ऊडानचट्टरम 624619, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 01	19-अप्रैल-77
1074	जे. कमल हुसैन (जे. जब्बार)	टीएनएस वीसी / 1871 / 05	98, पाचवां मेन रोड, सी.आई.टी. नगर, नंदनम, चेन्नई 600035	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 94	15-जुला-71

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1075	जे. रवि चंद्रन (ए. जगदीसन)	टीएनएसवीसी/ 1786/05	न.11, श्री मुनियांडी नगर, मेन रोड, अलंगनल्लूर डाक, मदुरई जिला 625501, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/92	05-अक्टू-64
1076	जे. साई प्रसन्ना, पुत्री श्री नरसिम्हा रङ्गी	एपीएसवीसी/4 415/05	म.न. 4861, एम्आईजी, फेस II, भेल, रामचंद्रपुरा, हैदराबाद 502032, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	08-सित-82
1077	जे. वसंधन	पॉण्डीएसवी सी/264/05	5, II क्रॉस, मुलई नगर, ओरलियानपेट, पौडीचेरी-5	बीवीएससीएंडए एच/पीयू/05	28-सित-80
1078	जे. वीनू डेविड सैमुअल राजकुमार (डी. जेसुदास)	टीएनएसवीसी/ 1805/05	36/31, 9वीं स्ट्रीट, न्यू बेथलेहम, अम्बूर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/91	22-जुला-68
1079	जगदीश एस.के., पुत्र श्री कलीराजू एस.आर	कर्नाएसवीसी/3 758/	श्रीरंगपुरा डाक, पवागडा तालुक, तुमकूर जिला -572136, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफ एसयू/05	01-जून-82
1080	जगदीश कुमार बी. श्री वेंकड्याह	एपीएसवीसी/4 316/05	द्वारा: बी.पी. सारथी, पीसी न. 140, न. 9-239/12, पुलिस क्वा., टाडेपल्ली, गुंदूर जिला 522501, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	04-जून-82
1081	जगन्नाथ भार, पुत्र श्री नेपाल च. भार	डब्ल्यूबीएसवीसी /3162/05	ग्राम एवं डाक राजबलहाट जिला हुगली -712406, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूए एंडएफएस/05	28-मार्च-82
1082	जगदीश प्रसाद यादव, पुत्र श्री राधे श्याम यादव	एमपीएसवीसी/ 2289/05	जे.पर. कॉलोनी, अजनास रोड, खाटेगांव, देवास, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेपीवी/ 05	17-जुला-67
1083	जगमोहन सिंह, पुत्र श्री भागी राम	यूवीसी/08/0 6	ग्राम फारी, डाक गंगोत्री, जिला उत्तरकाशी, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /05	08-अप्रैल-68
1084	जयप्रकाश यादव, पुत्र श्री अलगू यादव	यूवीसी/98/0 8	ग्राम प्रतापुर, डाक सरसारिया, जिला उधम सिंह नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेई पीवीवी/04	30-जून-77
1085	जय राम, पुत्र श्री शोभी राम	एचपीएसवीसी/ 750/05	ग्राम रालबाग, पोडियोथी मजगांव, थाना राजगढ़, जिला सिरमौर 171226, हिमाचलप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेई पीवीवी/05	13-दिस-80
1088	जय सिंह राठौर, पुत्र श्री विक्रम सिंह	राजएसवीसी/3 217/08	म.न. 5/17, महावीर नगर, कोटा-5, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	07-नव-79
1087	जानकी राव मदासु, पुत्र श्री कोटेश्वर राव	एपीएसवीसी/4 320/05	अम्बेडकर कॉलोनी धरनीकोटा, अमरावती (एम) गुंदूर जिला 522020, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	01-जुला-80
1088	जसप्रीत कौर, पुत्री श्री हरसेम सिंह	पीबीएसवीसी/2 588/05	म.न. 2151-बी, सेक्टर 42-सी, चंडीगढ़, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	16-जुला-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1089	जसप्रीत कौर सोहल, पुत्री श्री बरजिंदर सिंह सोहल	पीबीएसवीसी/2 624/05	68, मनसाहिया कॉलोनी, पटियाला, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	28-जुला-81
1090	जसप्रीत सिंह अरोड़ा, पुत्र श्री जीतेंद्र सिंह अरोड़ा	एमपीएसवीसी/ 2282/05	58, प्रेम नगर, मदान महल, जबलपुर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 03-04	17-जुला-79
1091	जीतेंद्र पाल सिंह, पुत्र श्री जसवंत सिंह दौंड	पीबीएसवीसी/2 640/06	200-बी, बीआरएस नगर, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/83	22-जुला-55
1092	जय कुमार कन्नन बाबू (पत्नी श्री कन्नन बाबू)	बिहारएसवीसी/ 2351/03	ग्राम बंगारा, डाक नरहाया सुकाल, धाना कुचईकोट, सबडिवी. जिला गोपालगंज, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	10-फर-78
1093	जयंति कन्नन बाबू, (पत्नी श्रीकन्ननबाबू)	टीएनएसवीसी/ 2104/05	नया न. 15, 18वां एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई -63	बीवीएससी/टी एनएयू/78	09-अप्रैल-53
1094	जयप्रकाश सिंह, पुत्र श्री छेदी प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/ 2286/03	ग्राम: रानी दियारा, डाक रानी दियारा, धाना पीरपैती, सबडिवी. काहलगांव, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/00	08-दिसं-74
1095	जीतेंद्र नारायण मोहराना, पुत्र श्री एन.सी. मोहराना	उड़ीसाएसवीसी /1987/05	एटी/डाक कानपुर, वाया डी.जे.पुर, जिला-किओन्झर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएण्डटी/0 5	04-जुला-80
1096	जीतेंद्र शेखर नायक, पुत्र श्री तृबिकराम नायक	उड़ीसाएसवीसी /2035/05	एटी/डाक-धनुपाल (राजीब पत्नी), सम्बलपुर, 788100, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएण्डटी/0 5	30-जून-79
1097	जीवन कुमार सिंह, पुत्र श्री सतीश प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/ 2244/02	ग्राम-टंगोर, डाक टंगोर धाना आजमनगर, सब. डिवी.: बारसोये, जिला कटिहार, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/00	20-फर-76
1098	जैसी मैथ्यू	केरल/3042/ 05	पुलीमोटिल हाउस, एकेजी नगर, पेरूरकाडा, त्रिवेंद्रम 895005, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	23-मई-80
1099	जेस्टो जॉर्ज	केरल/3059/ 05	मानवालान हाउस, अलंगड डाक अलुआ, अर्नाकुलम 883511, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	13-जून-80
1100	जिव्या एम., पुत्र श्री सूबया एम.	एपीएसवीसी/4 394/05	वेट. असि. सर्जन, वेट. डिस्पेंसरी, गोपालपेट, महबूब नगर जिला, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	02-अप्रैल-79
1101	झाला नीलाम्बेन	गुजएसवीसी/2 624/06	बी.न. 1212, शक्ति कुंज, शिवम सोसायटी, सेक्टर 27, गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि. वि./06	10-जन-83
1102	झाला शिवराज सिंह	गुजएसवीसी/2 625/08	नया सी-8, खेतीवाडी कैम्पस, आनंद, पिनकोड 368110, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि. वि./06	25-फर-83

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1103	झांसी रानी तपस्वी, पुत्र श्री मन्मथ नाथ तपस्वी	उड़ीसाएसवीसी /2004/ 05	एटी.कंचनीबाग, बाया सुनहोट, जिला बालासौर, पिन- 756002, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	04-जन-74
1104	जिमसी जोसेफ	केरल/3011/ 05	इमब्राम पुरथ हाउस, कुंडुकड डाक, त्रिसूर -680028, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	06-मई-62
1105	जीनेश कुमार एन.एस.	केरल/3025/ 05	जे.जे. भवन, उझुवा, पट्टनकड डाक, चेरथला, अलेप्पी, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	31-अक्टू-80
1106	जिंजला घनश्याम भाई एन.	गुजएसवीसी/2 626/06	एटी कोटाडी पारा, तालुक राजुला, जिला अमरेली, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि. वि./06	01-मार्च-81
1107	जीनु मेरी जॉन	केरल/3020/ 05	चेरीयंकुनेल हाउस, डाक पडी जनट्टीन कारा, वाया कडापल ट्टम, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	31-मार्च-61
1108	जीतेंद्र कुमार भोला, पुत्र श्री राम अयोध्या सिंह	बिहारएसवीसी/ 2245/02	ग्राम:गोह(नया क्षेत्र) डाक गोह, थाना गोह, सबडिवी. दौंडनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 00	15-जून-78
1109	जीतेंद्र कुमार सिंह, पुत्र श्री दीनानाथ सिंह	बिहारएसवीसी/ 2341/03	ग्राम महेशुया, डाक कुरासन, थाना भभुआ, सबडिवी. भभुआ, जिला भभुआ, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	27-जुला-77
1110	जीतेंद्र सिंह गुसाई, पुत्र श्री मोहन सिंह गुसाई	यूवीसी/36/0 6	उप्पर काला बड़, कोट्टद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /96	05-अक्टू-70
1111	जीवन कुमार, पुत्र श्री चंद्रेश्वर राम	बिहारएसवीसी/ 2452/04	ग्राम/मुहल्ला-प्रानपुर, डाक सावना, थाना:बरहारिया, सब.डिव. सीवन, जिला सीवन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	30-नव-79
1112	जॉन बर्नबास सैम्पसन, पुत्र श्री जॉर्ज जोसेफ सैम्पसन	कर्नाएसवीसी/3 807/	सीयूपीए, पहला क्रॉस, एचएएल, दूसरी स्ट्रेज, इंदिरानगर, बंगलौर 560038, कर्नाटक	बी.वेट.मेड./लंदन वि.वि./95	30-जुला-72
1113	जोजी एल्बर्ट	केरल/3073/ 05	ओटापनविला हाउस, पलान थोट्टम के निकट, डाक थिरुपुरम, नयट्टिकारा, त्रिवेंद्रम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	03-फर-61
1114	जुलियस डेनियल (जे. एस. डेनियल)	टीएनएसवीसी/ 1602/05	20/103, सुपर गार्डन, वडावल्ली, पी.एन. पुडुर डाक, कोयम्बतूर - 641041, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 62	30-जुला-39
1115	ज्याथिलक्ष्मी, पुत्र श्री एच. ई. वेंकट रत्नइय्यह	कर्नाएसवीसी/3 764/	किरन स्टोर्स, सीरा, तुमकुर जिला, सीरा 572137, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफ एसयू/05	01-जून-82
1116	ज्योतिश संकर	केरल/3031/ 05	काजुगिल पाडिंजरेथिल, कुरुमला डाक, चेलक्कारा, त्रिसूर 680586, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	19-अक्टू-80
1117	ज्योति, पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	यूवीसी/132/ 06	ग्राम नागानी, डाक नागानी, चम्बा जिले के निकट, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी	30-दिस-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
				/04	
1118	ज्योतीन्द्र नारायण, पुत्र श्री परमानंद सिंह	बिहारएसवीसी / 2392/03	ग्राम आर.एम.एम. कॉलोनी, डाक लोहियानगर, धाना कंकरबाग, सबडिवी. पटना, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	02-जन-76
1119	के. अलगरासन (एन. कालीमुथु)	टीएनएसवीसी / 2551/05	11/ए1, अन्ना स्ट्रीट, साउथ उदयार पलायम, अददूर तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/81	22-नव-55
1120	के. अलगारसामी (ए. कुरुप्पासामी)	टीएनएसवीसी / 2232/05	सिलारपट्टी डाक, तालुक कालुपट्टी वाया, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	15-अप्रैल-51
1121	के. अलगुमुरुगन (के. कनवथि थेवर)	टीएनएसवीसी / 577/05	एस. सलुपापट्टी, कुडीसेरी डाक, सपतुर वाया, मदुरई जिला 625705, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	02-मई-82
1122	के. अम्बलावन्न (एस. कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी / 1336/05	238, वाइ ब्लॉक, छठा मेन रोड, अन्ना नगर, चेन्नई 600040, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/64	08-जून-41
1123	के. अम्बलागन (एस.आर. कुलप्पन)	टीएनएसवीसी / 1957/05	डी.न. 35, बाजार स्ट्रीट, हरूर डाक, धर्मपुरी 636903, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/76	15-जून-50
1124	के. अम्बलागन, पुत्र श्री एम. कंडादामी	टीएनएसवीसी / 3333/06	कराईकुरिचीपुडुर, कराईकुरिची डाक, नमक्कल जिला व तालुक, 637014, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	09-जून-82
1125	के. अंबरासन (आर. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 510/05	कुट्टा गौडमपट्टी डाक, गवर्न. इंजीनियरिंग कॉलेज (वाया), ओमलूर तालुक, सलेम जिला 636011	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	16-अप्रैल-61
1126	के. अंबुमलार (ए. कुन्नीमलई सामी)	टीएनएसवीसी / 2924/05	प्लॉट न. 12; कुमारन कुडी, धुरईपक्कम, चेन्नई 600096	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	12-मार्च-73
1127	के. अंदीचामी (ए. कामू)	टीएनएसवीसी / 2091/05	डाइट क्वार्टर्स, तह. कुट्टापट्टी, पेरियूर तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवी एंडएएसयू/01	12-जून-77
1128	के. अन्नादुरई (वी. कथान)	टीएनएसवीसी / 563/05	मनाथल डाक, एम.ओलईपट्टी, ओमालूर तालुक, सलेम जिला 636503, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवी एंडएएसयू/05	11-जून-81
1129	के. एंटन रोज़ेलीन (एस. जेसुपविकयम)	टीएनएसवीसी / 101/03	111/11/2बी, स्टेट बैंक कॉलोनी, ट्यूटिकोरिन -2, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	08-जून-79
1130	के. अप्पुस्वामी (करुपा मैस्त्री)	टीएनएसवीसी / 33/02	न. 80सी, ग्लेन रॉक, गिरियप्पा लेआउट, ऊटी नीलगिरि, 64300, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/77	19-अक्टू-48
1131	के. अरविंदन (ए. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 1361/05	बोम्बई कुट्टई मेडु, सेलायमपट्टी डाक, नमक्कल जिला 637018, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच/एमपीकेबीवी/93	25-जुला-70
1132	के. अरविंधन (टी. कासीराजन)	टीएनएसवीसी / 1320/05	30, मुथुसामी पिल्लई स्ट्रीट, प्रमुख डाकघर के निकट, राजा पलायम 626007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	03-मार्च-71

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1133	के. अश्विनाथ (जी. करुणाभिधि)	टीएनएसवीसी / 273/04	147/ए, अरियापुथिरा गौडार नगर, कुरुलागम चीना पुडुर, सलेम 636007, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/04	10-जून-80
1134	के. अरिवल्लगन (के. करुणासामी)	टीएनएसवीसी / 3239/05	12-ए, थेंडराल नगर, राजापलायम, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएसयू/88	15-फर-83
1135	के. अर्जुन एन.पी. कादिरवेल)	टीएनएसवीसी / 2578/05	नाडुपलायम, नेट्टुपलायम डाक, वेल्ता कोविल वाया, इरोडे आरएनएस 638111, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएसयू/83	10-अप्रैल-59
1136	के. अरुमुगा ऐरुमल (ए. कौलुसु पिल्लै)	टीएनएसवीसी / 2188/05	कुलासेकरा पुरम डाक, वाया माइलौडी, के.के. जिला, पिन- 629403, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएसयू/85	28-जुला-82
1137	के. अरुमुगम (पी. कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 1314/05	न. 88, सीयानगलम, देसूर डाक, बंदावासी तालुक, तिरुवन्नमलाई जिला, पिन-604501	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/02	03-जून-79
1138	के. अधिनाथिलानी पंडियान (के. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 936/05	29/7, टी.वी.ए. नगर, बंधालागुंडा रोड, वेगमबूर, विंडीगल 624001, तमिलनाडु	बीबीएससी/एनएसयू/73	08-जन-48
1139	के. अय्यपन (के. करीमुमु)	टीएनएसवीसी / 662/05	थामरनकोट्टई पश्चिम, पदुकोट्टई तालुक, थंजापुर जिला 614813, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/00	18-मई-77
1140	के. बालाजी (डी.के. केशवनायक)	टीएनएसवीसी / 590/05	नया न. 7/28, गणेश कॉलोनी, केलानगलम डाक, डेंगानी कोट्टई तालुक, कृष्णागिरि जिला 635113	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/05	12-जून-80
1141	के. बालाजी, पुत्र श्री एम. कृष्णामूर्ति	टीएनएसवीसी / 3307/08	सुब्रमनियार कोविल स्ट्रीट, काचीरायापलायम डाक, कल्ला कुरिची तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/05	01-जुला-83
1142	के. बालासुब्रमण्यम (एन. एम. करुप्पन)	टीएनएसवीसी / 2538/05	25, भगवती स्ट्रीट, धानीर पंडाल पुडुर, कुगालूर डाक, गोबीचेट्टीपलायम तालुक, इरोडे जिला 638313	बीबीएससी/टी एनएसयू/85	26-जुला-82
1143	के. भास्करन पुत्र श्री वी. वी. करुप्पन	टीएनएसवीसी / 3389/08	वेलम पलायम, सिंगानल्लूर डाक, काविंडापडी वाया, इरोडे जिला, 638455, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/05	15-मई-82
1144	के. भारती (के. निधियानंदन)	टीएनएसवीसी / 716/05	141, नुट्टमपल्ली रोड, जोलारपेट्टई, वेल्थोर जिला, पिन-635851, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/02	18-मई-78
1145	के. भूमिनाथन (कामची)	टीएनएसवीसी / 3247/05	19, पूलुर संकरलिंगम चेटियार स्ट्रीट, केकालिंगपुरम, अरुप्पु कोट्टई डाक, विरुधुनगर, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएसयू/76	11-दिस-84
1146	के. ब्रूपाल (पी. करुप्पना गौडर)	टीएनएसवीसी / 342/04	कोविलूर कट्टू कोट्टई, पुलिककुरई डाक, पलाकोड तालुक, धर्मपुरी जिला 636808, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/04	01-मई-80
1147	के. ब्रूपति (एन. कृष्णास्वामी नायडु)	टीएनएसवीसी / 1296/05	कटिनामचेवल धायिलपट्टी डाक, सिवाकासी वाया, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएसयू/74	05-जून-51

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	वैधानिक आईताएं	जन्मतिथि
1148	के. वृष्ठा, पत्नी (सी.एस. नारायणन)	टीएमएसबीसी/1495/05	2 ए. 'स्वागतन' सीताराम नगर, दुसरी स्ट्रीट, कोडुगुडूर, चेन्नई 600118	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू/98	29-मार्च-76
1149	के. वेल्सासानी (कुलसानी)	टीएमएसबीसी/1657/06	484, बैंकर्स कॉलोनी, थिरुवल्लुवर नगर मॉर्च, राजा पलायन 626117, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएसयू/82	03-मई-57
1150	के. चिन्नासानी (कंजानाकिरे)	टीएमएसबीसी/2521/06	21, पुनु मंजला नईकनूर, नागालूर डाक, अंधीयूर बाया, भवानी तालुक, इरोडे जिला 638601	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू/96	12-सित-72
1151	के. चिन्नासानी (एम. कावेरी)	टीएमएसबीसी/1901/06	म.2/602, नरियप्पन गौडेर स्ट्रीट, नेल्लीनगर, कुनारासानी पेदई डाक, धर्मपुरी	बीबीएससी/टी एनएसयू/88	03-मई-62
1152	के. चिन्नासानी (एम. कलियाप्पन)	टीएमएसबीसी/1177/06	3/36, मुथुगापट्टी, मुथुगापट्टी डाक, नमकल जिला, पिन 637406, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू/91	30-जुल-67
1153	के. देवकी, पत्नी (के. संधिल कुमार)	टीएमएसबीसी/1368/08	ई-4, प्रथम मेन रोड, ओटेरी एक्सटेंशन, वंडातूर, चेन्नई 600048, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू/97	07-अक्टू-72
1154	के. देवीप्रिया (पी.ए. करुनलईसानी)	टीएमएसबीसी/3060/05	पुथुपलायन कम्पाडीपलायन (डाक), भवानी तालुक, इरोडे जिला 638314, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू/06	06-मई-62
1155	के. धनसेखरम (इ.म. कंडासानी)	टीएमएसबीसी/1049/06	3/121, सरस्वती हिलम, बी.ओ.सी. नगर, अन्नापेट, सलेम 636014, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएसयू/78	12-अक्टू-51
1156	के. धनसेखरम (सी. कृष्ण)	टीएमएसबीसी/936/05	लक्ष्मी नगर, परिवार कॉलोनी, नीलकोट्टई तालुक, डिंडीगल जिला 624216, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू/90	05-मई-66
1157	के. धनमणि (एम. कौलासन)	टीएमएसबीसी/1102/06	प्लॉट नं. 3, मेलाइयप्पुरम, 7वीं स्ट्रीट, पंडियान नगर, थिरु नगर, मदुरै-6, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू/91	01-जून-66
1158	के. धिनकराया (ओ.ए. कनगलबाई)	टीएमएसबीसी/1426/06	13, III क्रॉस स्ट्रीट ईस्ट, सेमीर नगर, चेन्नई 600030	बीबीएससी/टी एनएसयू/78	24-जून-63
1159	के. इलानुक्रमन (के. कृष्णामूर्ति)	टीएमएसबीसी/290/04	कोडुगुडी डाक (एम.ए.ए.), अर्नाईकुडुम डाक, के. करुपुर बाया, उदयारपलायन तालुक, पेरंबलूर जिला 612902	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू/04	25-मई-60
1160	के. इलावरामन (पी. करुप्पन)	टीएमएसबीसी/1921/05	बी-24, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड क्वार्टर्स, थेरपेट, होसूर 636106, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू/89	09-मई-67
1161	के. ईश्वरी, पुत्र श्री आर. कोलांडा	टीएमएसबीसी/3315/06	51/2, रामकृष्ण स्ट्रीट, अडिननूर डाक, मटरनपल्ली बाया, वेल्कोर जिला-635652, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू/06	04-जून-62
1162	के. गणपतिरामन (एस. कंडासानी)	टीएमएसबीसी/1483/05	प्लॉट नं. 103, अलेक्स नगर, बी कॉलोनी, माधवरम मिल्क कॉलोनी, चेन्नई 600051	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू/93	01-मई-70

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1163	के. गणेश, पुत्र एम. कंडासामी	टीएनएसवीसी / 3472 / 06	6, म्युनिसिपल कॉलोनी, नेहरुजी नगर, डिंडीगल 624001, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 67	06-अप्रैल-41
1164	के. गणेश कुमार (एस. करुप्पासामी)	टीएनएसवीसी / 1423 / 05	पराक्किरामा रेड्डी डाक, पेटमंगरम वाया, श्रीवेंकुटम तालुक, द्यूटीकोरिन 629620, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	20-जन-73
1165	के. गीथा (एन. कलियापेरुमल)	टीएनएसवीसी / 369 / 04	63, अर्थनारी स्कूल स्ट्रीट, वलियम्मन कोइल सेंधापट्टी पुडुर डाक, नमक्कल जिला	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	23-जन-61
1166	के. गीथा, पुत्र श्री काठीरेसन	टीएनएसवीसी / 3538 / 06	5 / 9, कंडियान स्ट्रीट, पट्टुकोट्टई, तंजौर जिला, पिन-614601, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 06	26-जुला-61
1167	के. गिरिराज (एन. कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी / 2227 / 05	कालिधिकड्डु 87, गौंडम पलायम, कुमारमंगलम डाक, तिरुचेन्गोडे तालुक, नमक्कल जिला 637205	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 02	07-फर-78
1168	के. गोबी (आर. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 3129 / 05	20 / 65, दासा स्ट्रीट, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	15-जुला-76
1169	के. गोपाल (बी. कप्पुसामी)	टीएनएसवीसी / 294 / 04	अवालमपट्टी, दासिराहल्ली डाक, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला 635305, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	11-मई-79
1170	के. गोपी (सी. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 171 / 03	पराकाडु, वेलापट्टी डाक, ओमालूर तालुक, सलेम जिला, पिन-636012, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 03	06-अप्रैल-80
1171	के. गोविंदन (ए. करुप्पन)	टीएनएसवीसी / 3165 / 05	बी / 8-26, इलानथोपू, नेईकरापट्टी, सलेम -10, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनयू / 83	30-मई-60
1172	के. हरिलक्ष्मी (टी.के. कन्नन)	टीएनएसवीसी / 2244 / 05	डी-1, साई बाबा कॉलोनी, 1, कन्नगी स्ट्रीट, ताम्बरम पूर्व, चेन्नई 600059, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	16-अग-76
1173	के. हेमलता (एन. कुप्पुस्वामी)	टीएनएसवीसी / 1709 / 05	32 जी / 9, वेट्टावलम रोड, तिरुवन्नामलई 808602, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 02	30-मई-76
1174	के. इलामबरिथि (आर. कुंजीथवायम)	टीएनएसवीसी / 97 / 03	अयाकारनपुलम 3, वेदारानीयम तालुक, नगाई जिला 614, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 03	12-जुला-79
1175	के. जे. नत्तासामी (के. आर. जगदीसन)	टीएनएसवीसी / 401 / 04	2 / 28, नॉर्थ स्ट्रीट, कल्लुम पलायम डाक, गोबी तालुक, इरोडे जिला: 638476, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	29-नव-78
1176	के. जगदीसन (एन. कलियप्पन)	टीएनएसवीसी / 2731 / 05	चिंतामणिपट्टी डाक, कलुथलई तालुक, करूर जिला 621301, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 93	10-अप्रैल-70
1177	के. जैसे रानी (एस. सेत्याकुमार)	टीएनएसवीसी / 2892 / 05	न. 5, नीलामेगम स्ट्रीट, कामराज नगर, अवाडी, चेन्नई 600071	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	25-फर-68
1178	के. जवाहर (एस. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 708 / 05	6 / 6, न्यू कॉलोनी, अनायमपट्टी डाक, गंगावली तालुक, सलेम जिला, पिन-636105, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 02	13-जून-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1179	के. जयगोपाल (एम. कृष्णामूर्ति)	टीएनएसवीसी / 2973/05	302/11, 13वां क्रॉस, फेस I I, टीएनएसवी, साधुवाचारी, वेल्डोर जिला पिन 632009, तमिलनाडु	बीवीएससी/इंड एच / जेएनकेवीवी / 99	03-जून-54
1180	के. जयालक्ष्मी, पुत्र श्री कोनाप्पन	टीएनएसवीसी / 3415/08	सरवन थिएटर के निकट, माधेहल्ली, पीपरापट्टी डाक, धर्मपुरी- 636809, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	02-जून-82
1181	के. जयन्ति, पत्नी (ए. वियजावेलु)	टीएनएसवीसी / 1619/05	7, अलागिरिसामी सलाई, के.के. नगर, चेन्नई 600078, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 92	18-अग-68
1182	के. जयराजू (आर. कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी / 275/04	मनियंकडु चिन्नामनाली डाक, टी.गोडु तालुक, नमक्कल जिला, त्रिथंगोडु तालुक, 637410, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	20-जून-79
1183	के. जेवा गिलारी (ए. कनक राज)	टीएनएसवीसी / 348/04	15/15, जेबागाम, मल्लनविलाई, वेरकिजाम्बी डाक, कन्याकुमारी जिला 629186, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	12-अग-80
1184	के. जगदीशम (ए.आर. कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी / 935/05	3 ए. एल.जी.आर. कम्पाउंड, डिंडीगल-1, अन्ना जिला 824001, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 71	01-मई-46
1185	के. जगनाथम (के. कोनारासामी)	टीएनएसवीसी / 264/04	मारी अम्मान कोइल स्ट्रीट, केडाराई 638458, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	20-मई-79
1186	के. जयराज (बी. कृष्णाकरन)	टीएनएसवीसी / 1421/05	10/403, कट्टुपुरथूर मेन रोड, बालासमुद्रम डाक, थोदिटयम 621203, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	16-अक्टू-72
1187	के. काजा मोहिदीन (के. काथेर मोहिदीन)	टीएनएसवीसी / 1112/05	8-3-7, मूक्कारोथेर स्ट्रीट, गेंगुवरपट्टी डाक, पेरीयाकुलम तालुक, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 76	14-अक्टू-53
1188	के. कल्पना, पुत्र श्री एस. कन्नन	टीएनएसवीसी / 3375/08	बडाक्कलूर डाक, लम्बाईकुडी कडु वाया, कुन्नम तालुक, पेराम्बलूर जिला 621108, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 08	10-जून-82
1189	के. कमलेश धनप्पन (टी. कुलसेखर पेरुमल)	टीएनएसवीसी / 2129/05	"अनीश भवन" 70, भारतीयनगर, कीलारमन पुथूर, नगरकोइल 2, कन्याकुमारी जिला	बीवीएससी / टी एनएयू / 83	03-दिसं-59
1190	के. कन्नन (जी. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 2959/05	812, कोरियनपट्टी, इलाइयूर डाक, उदियारपलायम तालुक, पेराम्बलूर 821806, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	22-जुला-71
1191	के. कन्नन (एम.सी. कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 1695/05	ए. मेदूपलायम, अलायम पलायम डाक, इडेपडी वाया, सलेम जिला, 637101, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 97	10-मई-74
1192	के. कन्नन (आर. कानचीयप्पन)	टीएनएसवीसी / 1433/05	79/24, एन.के.पी. राजू स्ट्रीट, कुम्बन- 825516, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी. एनवीएंडएएसयू / 00	15-जून-77
1193	के. कार्तिकेयन प्रभु (एम. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 306/04	12, तिरिपुराई सुंदरी अम्मान कोइल सन्नाथी स्ट्रीट, पेट्टई, तिरुनेलवेली 627004, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	08-नव-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1194	के. कार्तिकेयन (के. कलियापेरुमल)	टीएमएसवीसी / 2211/08	1/231, कर्मनागुडी, डाक करुवेप्पिलम कुरिची, तालुक विरुवाचलम 606110, त.ना.	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू/00	30-मई-77
1195	के. कार्तिकेयन (टी. कनगराजन)	टीएमएसवीसी / 309/04	मेन रोड, उरानीपुरम डाक, उरार्थु तालुक, धंजावूर जिला 614631, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू/04	06-जून-80
1196	के. कार्तिकेयन (कम्पन सुवरराज)	टीएमएसवीसी / 166/03	1/636, भगत सिंह स्ट्रीट, भारती नगर, कलेक्टर के निकट, रामनाथपुरम जिला 623603, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू/03	03-मई-79
1197	के. करुणामिथि (एम. करुम्पारवानी)	टीएमएसवीसी / 214/03	न. 10, विवेकानंद स्ट्रीट, न्या सेंथिल नगर, चेन्नई 600082, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू/03	10-मई-80
1198	के. करुम्पडैयाह (ए.वी. करुम्पडैयाह)	टीएमएसवीसी / 3072/08	पी.सुब्बुलापुरम, डाक वन्नीवेलम पदटी, तह. कल्लुपदटी बाया, मडुरई -625702, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू/01	08-जून-78
1199	के. काथिरवेल (आर. कांडासामी)	टीएमएसवीसी / 260/04	केराईकोडी हल्ली डाक, करीमगलम बाया, पलाकोड तालुक, धर्मपुरी जिला 638111, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू/04	02-जुलाई-80
1200	के. किरुबानाथ (के. कनगराजन)	टीएमएसवीसी / 856/08	न. सी-2, तमिलनाडु गवर्न. स्टाफ क्वा., मारुथि नगर, ममक्कल 637001, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू/98	29-जुलाई-72
1201	के. कोन्धी (एस.टी.के. मणि)	टीएमएसवीसी / 332/04	6/388, मुगाव्येयर वेस्ट, चेन्नई 600088, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू/04	08-फरवरी-81
1202	के. कोथांडरमन (के. कृष्णास्वामी नायडु)	टीएमएसवीसी / 839/08	110, बाईपास रोड, अंबालोरपेट, जिजी तालुक, विल्लुपुरम जिला, पिन 604201, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएसयू/82	17-जून-88
1203	के. कृष्णामूर्ति (एस. करुपप्प)	टीएमएसवीसी / 35/02	एच 103, नलिगई नगर, अनाइयूर मडुरई 62601, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएसयू/78	18-जून-80
1204	के. कुथिन्धिरम (पी. कुप्पुसामी)	टीएमएसवीसी / 1410/08	19, वेदस नगर, नीलानगलम रोड, कल्लाकुरिची 606202, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएसयू/89	08-अप्रैल-83
1205	के. कुलनडई वेलू (पी.सी. कालीप्प)	टीएमएसवीसी / 274/04	विचायन पलायम, पोलाबक्कली पलायम डाक, गोबी तालुक, इरोडे जिला 636476, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू/04	10-जून-78
1206	के. कुलाडेवल (पी. कैलासम)	टीएमएसवीसी / 487/08	मारिकिल कडु, ओपायुडिबयान पलायम डाक, शचीपुरम तालुक, ममक्कल जिला 637406, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू/08	06-सित्त-80
1207	के. कुमारगुरुवरम (एम. कुप्पुस्वामी)	टीएमएसवीसी / 2773/08	28/10, मेदट्टे स्ट्रीट, मीर्थ चेयूर, चेयूर तालुक एवं डाक, पिन 603302, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू/01	12-जुलाई-71
1208	के. कुमारसम (आर.एम. कैलासम)	टीएमएसवीसी / 1833/08	3/88, पी.एस. कॉलोनी, माचीपलायम रोड, कोकुडई, तिरुपुर तालुक, सीवीई जिला पिन 641660, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू/86	22-जून-72

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	वैधानिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1209	के. लक्ष्मी (कुमारगुरु)	टीएनएसवीसी / 2952 / 05	25, कोइल स्ट्रीट, अम्मापेट, वंदावासी तालुक, जिला तिरुवन्नमलाई पिन 604408, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	03-जून-77
1210	के. सावण्या (स्व. ए. कैलासम)	टीएनएसवीसी / 7 / 02	अनाईपलायम डाक, अंडागलूर गेट वाया, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, 637401, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 02	21-जुला-78
1211	के. माधवन (एम. केशव रामानुजम)	टीएनएसवीसी / 2507 / 05	अनुधा प्रिया हॉलो ब्रिक्स के सामने, के. कुलम, इरोडे-4, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 92	10-फर-88
1212	के. मांगेन्दिरन (के. कृष्णम)	टीएनएसवीसी / 2487 / 05	23, सुब्रमण्यम नगर एक्सटेंशन, राधवनपेट्टई, पानमपट्टु डाक, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 86	01-जुला-59
1213	के. मनि (ए. कम्मपा उडयार)	टीएनएसवीसी / 2172 / 05	40, कोसा अन्न मलाई स्ट्रीट, गुडीयट्टम 632602, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 86	10-फर-89
1214	के. मनिक्ंदन, पुत्र श्री कृष्णम	टीएनएसवीसी / 3417 / 06	मेट्टु स्ट्रीट, अर्नतपुरम डाक, विल्लुपुरम जिला, पिन- 606201, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 06	12-मार्च-81
1215	के. मनिक्म्मन (के. कृष्णम)	टीएनएसवीसी / 2204 / 05	साई ऐश्वर्या नीलायम, डी 73, हाउसिंग युनिट, पोन्विजानगर, त्रिची रोड, नमक्कल पिन-637001	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 02	20-मई-77
1216	के. मनिक्म्मन (कुविधापथव)	टीएनएसवीसी / 3177 / 05	टी.वी. पुथुर, तिरुभाचलम, कुडालूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 75	15-सित-80
1217	के. मनिवेल, पुत्र श्री कंडासामी	टीएनएसवीसी / 3561 / 05	मलाईकडु, मेलकलपलायम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल 637403, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 06	26-जून-80
1218	के. मनोकरन (एम. कृष्णासामी)	टीएनएसवीसी / 1083 / 05	4 / 748, पूसाऐडुडीपट्टी स्ट्रीट, मेन बाजार, पंथालगुडी डाक, अरुप्पुकोट्टई तालुक, तिरुधुनगर जिला	बीबीएससी / टी एनएयू / 78	19-मई-85
1219	के. मरियम्मा (वी. कासीलिंगम)	टीएनएसवीसी / 2772 / 05	मरमडक्की डाक, अरानथंगी तालुक, सिलातूर वाया, पुडुक्कोट्टई जिला, पिन 614622, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 97	05-जुला-73
1220	के. मारीमुथु (कट्टिया गौंडेर)	टीएनएसवीसी / 1058 / 05	न. 58 / 29, सौंदेरवरी नगर, कोंडालमपट्टी बाईपास, सलेम 636010, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 84	16-मई-85
1221	के. मारीमुथु (पी. करुप्पानाथेवर)	टीएनएसवीसी / 3281 / 05	32ए, आरएमएस नगर, साउथ पोन्नाग्राम, राजापलायम, तिरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 77	05-मई-85
1222	के. माथी सेकर (वी. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 1027 / 05	151, मोराम्बुकडु, ओमालूर मेन रोड, कोंगनापुरम, इडपडी तालुक, सलेम जिला 637402	बीबीएससी / टी एनएयू / 88	23-जून-84
1223	के. मीमद गनी (कासी एलियास कासिम)	टीएनएसवीसी / 976 / 05	18, मस्जिद वाली गली, अम्मापेट 614401, थंजावूर, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 82	03-जून-59

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1224	के. मौहम्मद उधुमन (एम. कादर माहिदीन)	टीएनएसबीसी/ 2794/05	5/179, मेन रोड, पोर्टल पुडुर 627423, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/83	20-मार्च-61
1225	के. मोहन वर्धन (श्री. कुरुप्पन्)	टीएनएसबीसी/ 1024/05	10/403, वेल्सर डाक, मेददूर तालुक, सलेम जिला 636451, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/88	23-जुला-66
1226	के. मूर्ति (एम. कन्नइयन)	टीएनएसबीसी/ 2390/05	डोर न.151, कामराज कॉलोनी, पीछे की ओर, पेरामनूर, सलेम 636007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/82	10-जून-54
1227	के. मुलईनाथन (ए. कुप्पुसामी)	टीएनएसबीसी/ 982/05	20, ईस्ट कार स्ट्रीट, पेन्नाडम डाक 606105, कडालूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/76	12-जून-50
1228	के. मुलईसेलवन, पुत्र श्री यू.पी. कावेरी	टीएनएसबीसी/ 3410/05	7, चुबराया मुदलियार सेआउट, हासथेमपदटी, सलेम 636007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/83	19-जुला-60
1229	के. मुनियासामी (एस. कडारक्कारा)	टीएनएसबीसी/ 1849/05	18/3, नल्लाकुदट्टरालापुम स्ट्रीट, श्रीविलीपुदूर 626125, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/81	10-फर-67
1230	के. मुनियाडी (श्री. कावेरी)	टीएनएसबीसी/ 1452/05	ए-87, कंडासामी सलाई, 8वीं स्ट्रीट, पेरियार नगर, थेन्नाई 600082	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/02	31-मार्च-67
1231	के. मुरली सदानंदम (पी. कुप्पुसामी)	टीएनएसबीसी/ 2311/05	अंडीगौडानूर, पुडुपेट वाया, तिरुपसूर 635651, वेल्सोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/91	15-जुला-68
1232	के. मूर्ति (के. कुमारसामी)	टीएनएसबीसी/ 3230/06	185-क्यू 1, एम.एस.एम. गार्डन, उथानगरई डाक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/72	15-मार्च-48
1233	के. मुरुगनंदम (श्री. वंदासामी)	टीएनएसबीसी/ 2714/05	98 डी, सलेम मेन रोड, वेलांडी वलसाई डाक, इडापडी 637105, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/98	15-मई-69
1234	के. मुरुगेसन (एस.एस. कंडासामी)	टीएनएसबीसी/ 2459/05	5/545, सरोजिनी स्ट्रीट, एनजओ कॉलोनी, ईस्ट विरुधुनगर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/66	07-मई-62
1235	के. मुरुगु (एम. कथमुंधु)	टीएनएसबीसी/ 1869/05	95 एफ/1ए, वी.ओ.सी. नगर, कल्लाकुरिची 606202, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/94	15-जून-71
1236	के. मुरुगु सेल्वन (एम. काली गौडेर)	टीएनएसबीसी/ 1178/05	एच-19, टीएनएसबी कॉलोनी, पोन्नविजा नगर, त्रिची रोड, नमक्कल जिला 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/92	30-जुला-69
1237	के. मुथालगु (एम. कथालिंगम)	टीएनएसबीसी/ 1482/05	कुम्मानगुलम अलांगुडी डाक एवं तालुक, पंडुकोटई जिला 622301, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/01	08-अप्रैल-78
1238	के. मुथु कुमार (एम. करुपइयाह)	टीएनएसबीसी/ 293/04	सोमबियर स्ट्रीट, मंगडु मेन रोड, मंगडु डाक, अलनमुडी तालुक, पुडुकोटई जिला, पिन 622304	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/04	05-अप्रैल-60
1239	के. मुथुकुब्बान, पुत्र श्री एम. कुप्पुसामी	टीएनएसबीसी/ 3350/06	मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, वडुगापदटी डाक, संकरी तालुक, सलेम जिला, 637301, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/06	08-मई-62

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1240	के. मुथुकुमार (एस. कुनासेकरन)	टीएनएसवीसी/ 1040/05	मरुप्पमपलायम, इलुपिली (डाक) इलाचीपलायम(वाया) नमक्कल (जिला) 637202 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	15-अक्टू-64
1241	के. नंदगोपाल (एस. कृष्णासामी)	टीएनएसवीसी/ 1304/05	30/4, पेरुमल नायडु स्ट्रीट, कामयागौंडनपट्टी डाक, कुम्बम वाया, थेनी जिला, पिन:625521	बीवीएससी/टी एनएयू/92	15-मई-67
1242	के. नटराजन (एम. कोठंडम)	टीएनएसवीसी/ 120/03	धेकोलापक्कम ग्राम, 1यलम डाक, टिंडीवनम तालुक, विल्लुपुरम जिला, पिन 604, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	27-सित-79
1243	के. नवामनि (आर.एम. गणेशन)	टीएनएसवीसी/ 2177/05	169, कुचेरी रोड, माइलापुर, चेन्नई 600004	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	12-जून-66
1244	के. नवनीथन (जी. कृष्णन)	टीएनएसवीसी/ 1026/05	एम.चेट्टीपट्टी (डाक), ओमलूर (तालुक), सलेम जिला 636455, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	20-मार्च-77
1245	के. ओहरी (ए. कृष्णन)	टीएनएसवीसी/ 2057/05	76, बोर्डिंग पेट स्ट्रीट, शोलिंघूर 631102, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	03-जुला-71
1246	के. पलानी (एन. कांथइया गौडेर)	टीएनएसवीसी/ 2095/05	एच. डोडमपट्टी डाक, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला 636903, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	26-जुला-75
1247	के. पलानीचामी (के. करुप्पा गौडेर)	टीएनएसवीसी/ 2784/05	52, ए.पी.पी.नगर, ओट्टन चटरम पी.सी. 624619, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/71	15-जुला-44
1246	के. पलानीसामी (ए. कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी/ 2758/05	नासनकोट्टई, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला 636903, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	03-जून-77
1249	के. पलानीसामी (कंडासामी)	टीएनएसवीसी/ 276/04	थुसुर डाक, नमक्कल जिला 637002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	04-अग-75
1250	के. पलानीसामी (कलियप्पा गौडेर)	टीएनएसवीसी/ 2556/05	कुट्टायाकडु, नीचमपलायम डाक, थिंगालूर वाया, इरोडे जिला, तमिलनाडु 638055	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	05-जून-66
1251	के. पलानीयंडी (पी. करुप्पना थेवैर)	टीएनएसवीसी/ 1442/05	'एजीलागम' 4, मुथु नगर, पलानीचेट्टीपट्टी, थेनी 625531, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/81	24-मई-53
1252	के. पंडियान, पुत्र श्री पी. कनगसाबई	टीएनएसवीसी/ 3387/06	नेहरू नगर, वझाकोम्बई डाक, धम्ममपट्टी वाया, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	30-मई-83
1253	के. परिमलराज कुमार (पी. कन्नइयन)	टीएनएसवीसी/ 3261/05	डी.न.5, चौथा क्रॉस स्ट्रीट, जे. जी.नगर, कुमारनाथपुरम, तिरु पुर, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	27-अप्रैल-67
1254	के. पार्थसारथी (जी. कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी/ 1461/05	19/15, पेरियंडावरपुरम स्ट्रीट, बोडीनायकनूर, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/74	12-जून-49
1255	के. पारथीबन (के. करुणानाथन)	टीएनएसवीसी/ 3154/05	6, नॉर्थ करुप्पा पिल्लई लेन, नॉर्थ कार स्ट्रीट, तिरुप्परन कुंडरम, मदरई 625005, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	01-दिस-68

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1256	के. पवाडियन (पी. करुप्पासामी)	टीएनएसवीसी / 1660/05	1-1/82 ए. करुनइयान्ध नगर, ई.बी. कार्यालय के सामने, पेरीयूर डाक एवं तालुक मदुरई 625703	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/91	04-जून-68
1257	के. पेचीमुथु (के. कुमार असरियार)	टीएनएसवीसी / 230/03	सिलामरुधिपट्टी डाक, थेनी जिला, पिन: 625526, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 69	18-अक्टू-43
1258	के. पेरीयासामी (करुप्पुडयार)	टीएनएसवीसी / 1054/05	मनियार थोट्टम, आर. पट्टनम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 80	20-नव-53
1259	के. पेरीयासामी (करुप्पा गौंडेर)	टीएनएसवीसी / 2677/05	1/97, मेन रोड, मुदालईपट्टी एवं डाक,	बीवीएससी / टी एनएयू / 76	03-जन-51
1260	के. पेरीयासामी, पुत्र श्री पी. कन्नन	टीएनएसवीसी / 3549/06	वागुरामपट्टी, वसंतपुरम डाक, नमक्कल जिला 637002, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 06	19-अक्टू-79
1261	के. पोनवेलदुरई (वी. कादरकरई)	टीएनएसवीसी / 1535/05	12/44-ए, वल्लुवर स्ट्रीट, थिम्मारजपुरम डाक, पलायनकोट्टई तालुक, तिरुनेलवेली जिला	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	07-अप्रैल-75
1262	के. पोनविजय शिवकुमार (एस. कोम्बईराज)	टीएनएसवीसी / 1335/05	ए 2, एल 40, एल ब्लॉक, अन्ना नगर पूर्व, चेन्नई 600102, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	24-दिसं-74
1263	के. पूनगोडी (एन. सतीश कुमार)	टीएनएसवीसी / 1882/05	2/89, मेलाक्थरम स्ट्रीट, परमकुडी 623707, रामनद जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	13-अप्रैल-78
1264	के. पूविजी (एम. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 125/03	16/2, नेताजी स्ट्रीट, चेन्नीमलाई, इरोडे जिला, पिन 63805, तमिलनाडु 1	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 03	31-मार्च-78
1265	के. प्रभु (के.वी. करुणा मूर्ति)	टीएनएसवीसी / 3010/05	8/27, कोसानम रोड, कोन्नामंडल, नम्बियूर डाक, इरोडे जिला, पिन 638458, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	25-जून-82
1266	के. प्रकासम (के. कोमारसामी)	टीएनएसवीसी / 1038/05	चेट्टियार थोट्टम, कुप्पानूर डाक, संकरी तालुक, सलेम जिला-637301	बीवीएससी / टी एनएयू / 81	05-फर-57
1267	के. प्रकासन (के. करुमलाई गौंडेर)	टीएनएसवीसी / 494/05	सांति मलिनई स्टोर, नालरोड, पटलूर डाक, भवानी टी.के. इरोडे जिला: 638314, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	30-दिसं-76
1268	के. प्रकाश (पी. कलियामथु)	टीएनएसवीसी / 289/04	मुदाचिकडु डाक, पेरावुरानी तालुक, थंजावूर जिला 614804, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	01-मई-80
1269	के. पुगाजेंथी (टी. कलियप्पन)	टीएनएसवीसी / 2736/05	7, रेल सेंथिल नगर, पाचवी क्रॉस स्ट्रीट, उरापक्कम, चेंगलपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, पिन 603202	बीवीएससी / टी एनएयू / 88	10-जून-65
1270	के. पुरुषोत्थमन (ए.वी. कथामुथु)	टीएनएसवीसी / 993/05	2/23, ईस्ट स्ट्रीट, राधानरसिंह पुरम डाक, मन्नारगुडी तालुक, तिरुवरूर जिला 614020	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	25-मई-66
1271	के. पुष्पलथा (डी. कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 396/04	47 के. कुमारसामीपेट, पेन्नाग्राम मेन रोड, धर्मपुरी 636701, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	03-नव-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1272	के. आर. सरवनराजन (के.पी. रमन)	टीएनएसवीसी / 554 / 05	7 / 217, ए-जेट्टीहल्ली डाक, वाया नल्लमपल्ली, धर्मपुरी 636807, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	23-नव-78
1273	के. राधा, पुत्र श्री एस. कन्नन	टीएनएसवीसी / 3467 / 08	63, ऐश्वर्या नगर, पाघवी स्ट्रीट, गांधी नगर डाक, उडुमलपेट 642154, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 98	02-जून-74
1274	के. राधाकृष्णन (ए. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 1051 / 05	एम 7, टीएनएचबी कॉलोनी, फेस IV, कोलारपट्टी, अनिमूर डाक, थिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला, 637214	बीबीएससी / टी एनएयू / 86	31-मई-62
1275	के. रघु (एम. कौंडलसामी)	टीएनएसवीसी / 480 / 05	12 / डी, चौथा वार्ड, अलंगनल्लूर डाक, मदुरई 625501, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	10-मई-62
1276	के. राजा (ए. कुप्पा गौंडेर)	टीएनएसवीसी / 1163 / 05	कोट्टावाडी डाक, सलेम जिला, पिन-636115, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 86	05-अप्रैल-60
1277	के. राजा (एम. कुमारसामी)	टीएनएसवीसी / 2411 / 05	2 / 212, अन्ना नगर, नौर्थ माडेवी डाक, पेराम्बलूर तालुक व जिला, 621219, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 93	20-जून-70
1276	के. राजा (एस. कोलांडईवेलु)	टीएनएसवीसी / 1036 / 05	397 / 1ए, हाउसिंग यूनिट, इडापडी डाक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 80	25-मार्च-57
1279	के. राजागोपाल (सी. केथाया गौंडेर)	टीएनएसवीसी / 1986 / 05	पाघवा क्रॉस, एच-28, आर.एम. कॉलोनी, डिडिगल 624001, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 78	01-मई-52
1280	के. राजागोपालन (ए. कृष्णास्वामी)	टीएनएसवीसी / 86 / 03	न. 7, भारतीयदासन स्ट्रीट, सेंट्रल नगर, थिरुमुलईवोयल डाक, चेन्नई 6000, तमिलनाडु	बीबीएससी / एमयू / 54	05-मई-30
1281	के. राजन (आर. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 3201 / 06	सेंगादूर, अचमगुट्टापट्टी डाक, सुक्कमपट्टी वाया, सलेम तालुक व जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 67	12-नव-62
1282	के. राजाराजन (एस. कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी / 636 / 06	नया न. 61, पुराना न. 31-बी, मार्केट स्ट्रीट, थिरुकोइलूर 605757, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 98	18-फर-73
1283	के. राजासेकरन (डी कृष्णाइया)	टीएनएसवीसी / 1925 / 05	न. 10 ए, नेवेली मेन रोड, वडालूर, कुडालूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 83	03-मार्च-68
1284	के. राजासेकरन (पी. कुम्पुसामी)	टीएनएसवीसी / 2684 / 05	112-बी, बालन नगर, पीलामेदु, कोयम्बलूर 641004, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 95	20-जून-71
1265	के. राजासेकरन (ए. कोन्नाइयंडी)	टीएनएसवीसी / 1867 / 05	101, मदाथूपट्टी स्ट्रीट, श्रीनिल्लीपुरूर, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / एमयू / 89	09-मार्च-45
1286	के. राजासुंदर (के. करुथामलई)	टीएनएसवीसी / 1417 / 05	4-ए, अर.मुगम रोड साउथ, कामचीअम्पन कोविल स्ट्रीट, रेलवे फीडर रोड, तिरुनंगलम 625706, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 95	26-मई-72
1287	के. राजीवी (एस. किट्टु)	टीएनएसवीसी / 241 / 04	करुंगुलम, मंजावयाल डाक, 614613, थंजावूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	28-जुला-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1288	के. राजेंद्रन (बी. कालीमुथु)	टीएनएसवीसी / 2319/05	6/496, पारामथी रोड, ई.बी. कॉलोनी, नमक्कल जिला 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू/96	26-मार्च-73
1289	के. राजेश्वरी (श्री. कलियापन)	टीएनएसवीसी / 2570/05	वेस्ट स्ट्रीट, वीराचिमंगलम डाक, धारापुरम तालुक, इरोडे जिला, पिन 638656, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू/92	10-जून-69
1290	के. राजकुमार (एल. के. काथेरुकामम)	टीएनएसवीसी / 2430/05	1/5, नॉर्थ कार स्ट्रीट, कामया गौडन पट्टी, थेनी जिला, पिन 521, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू/96	17-जुला-72
1291	के. राज्याकोडी (करुथाकन्नन थेवर)	टीएनएसवीसी / 2798/05	अय्यानरकुलम डाक, उसीलमपट्टी तालुक, मदुरई जिला 626537, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू/89	07-मई-66
1292	के. रामचंद्रन (आर. कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 2361/05	27/15, कुमारनाथपुरम, सीवन थिएटर के सामने, तिरुपुर 641602, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू/84	20-मई-60
1293	के. रामाकृष्णन (के. करुपड्याह)	टीएनएसवीसी / 3223/05	टी.एस.न. 1849/5ए. अम्बाल पुरम पहली स्ट्रीट, पुडुकोट्टई 622001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू/81	01-जून-52
1294	के. रामालक्ष्मी (एन. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 315/04	20, नेहरू स्ट्रीट, जयहिंदपुरम, II मेन रोड, मदुरई-11, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू/04	29-जुला-80
1295	के. रामालिंगम (के. कुमारसामी)	टीएनएसवीसी / 2573/05	133-मुल्लई नगर, पुराना बस स्टैंड रोड, पेरुंदुराई 638052, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू/83	19-जून-58
1296	के. रामालिंगम (कूलु उर्फ सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी / 931/05	95/एच-70, आर.एम. कॉलोनी, सातवां क्रॉस, डिंडीगल-1, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू/82	14-मार्च-58
1297	के. रामासामी (ए. कन्नन)	टीएनएसवीसी / 1138/05	3/149-ए 2, शांति इल्लम, नेहरू नगर, पाचवीं स्ट्रीट, टी.नल्लोर डाक, परमकुड, रामनद जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू/78	21-जन-50
1298	के. रामास्वामी (करुपन्ना गौडेर)	टीएनएसवीसी / 2595/05	190, विजयमंगलम रोड, उथुकाली, पेरुंदुराई तालुक, इरोडे जिला 638751, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू/79	06-जून-53
1299	के. रमेश (बी. कार्तिकेयन)	टीएनएसवीसी / 328/04	पनवडालीचटरम डाक, संकर कोविल तालुक, तिरुनेलवेली जिला, 627956, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू/04	14-अप्रैल-80
1300	के. रमेश (एन. कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 2641/05	सातवीं स्ट्रीट, कुमारसापुरम, राजीव नगर, तिरुचेंगोडी तालुक, नमक्कल जिला 637211	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू/01	07-जून-78
1301	के. रमेशकुमार (एम. कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी / 1153/05	थोसाईकरर थोट्टम, बेलुकुरिची, नमक्कल 637402, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू/93	02-जून-70
1302	के. रामनारायण (आर. कृष्णामूर्ति)	टीएनएसवीसी / 2108/05	24/9, सुंदरेश्वरर कोइल स्ट्रीट, ताम्बरम पूर्व, चेन्नई 600059	बीवीएससी / टी एनएसयू/82	27-मई-54
1303	के. रामया, पुत्र कलईवन्न	श्री पी. टीएनएसवीसी / 3386/06	वेलई, बेशन कडु, वेप्पमपूडी डाक, गंगावल्ली तालुक, ससेम जिला, 636101, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू/05	01-जून-83

क्र.सं.	नाम	-पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1304	के. राधिनावेलु (के. कन्नुसामी)	टीएनएसवीसी / 2486/05	बलारमथी वेट.पोली क्लिनिक, मनिक्कुडु स्ट्रीट, कल्लाकुरिची 606202, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएसयू / 84	23-सित-80
1305	के. रवीन्द्रन (एस. कुपुसामी सेथुरायेर)	टीएनएसवीसी / 966/05	25, पी.ए.वाई. नगर, पुडुकोट्टई रोड, थंजावूर 613005, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएसयू / 83	06-मई-80
1306	के. रवि, पुत्र श्री एस. करुपइयाह	टीएनएसवीसी / 3397/06	2/130, जिन्ना हॉल रोड, डाक अलंगियम, धारापुरम तालुक, इरोडे जिला, 638651 तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 98	08-जुला-73
1307	के. रविचंद्रन (एस. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 1155/05	1, कनारा बैंक के सामने, देव स्थानम पुडुर, डाक नामगिरि पेदुई, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएसयू / 85	19-अप्रैल-82
1308	के. रवि कुमार (सी. कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 595/05	वडाकुपालयम, थिरुमंगलम डाक, विल्लुपुरम तालुक 605501, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 05	21-अप्रैल-80
1309	के. रेवथी, पुत्र श्री पी. कुमारवेल	टीएनएसवीसी / 3355/06	मेट्टुकट्टमपलायम मोंजानूर डाक, गुरुसामीपलायम वाया, थिरुचेंगोडु तालुक, नमक्कल जिला 637, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 05	02-जून-82
1310	के.एस. जगन मोहन संकर (के. सेधीवेल)	टीएनएसवीसी / 1977/05	1/289 एफ 2, नॉर्थ स्ट्रीट, देवीपदिटनम डाक, रामनाथ पुरम जिला पिन 623514, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 01	05-जून-78
1311	के.एस. विजयकुमार (के. जी. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी / 4/02	27, चेल्ला पेरुमल स्ट्रीट, शोलिंघूर 631102, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 02	01-जून-78
1312	के. सक्ति नागराजन (एल. कालीमुथु)	टीएनएसवीसी / 766/05	करपकाविनायक स्ट्रीट, पुनई नेमिली डाक, अराकोनम तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 01	09-जून-76
1313	के. सक्तिवेल (पी. करुथापिल्लसई)	टीएनएसवीसी / 1659/05	पगडापडी, वेलईयूर डाक, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला 63616, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 00	26-जून-74
1314	के. सक्तिवेल, पुत्र श्री के. कलियान्नन	टीएनएसवीसी / 3354/06	वेप्पनकडु, मेट्टुपलायम, डाक कोक्कलई, टी. गोडे तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 06	29-मई-82
1315	के. सम्यथ (के.आर. करुणाकरन)	टीएनएसवीसी / 5/02	220, मेट्टु स्ट्रीट, सम्यथ मेशन, नाथम डाक, चेंगलपट्टु 603001, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 02	28-सित-77
1316	के. सम्यथ कुमारम, पुत्र श्री एल.एस. कुमुसामी	टीएनएसवीसी / 3435/06	162, एन.जी.जी.ओ. कॉलोनी, गोरी मेडु, सलेम 78, तमिलनाडु	बीबीएससी / मद्रासावि वि / 64	02-सित-41
1317	के. संगीथा, पत्नी (सी. सिदाराजन)	टीएनएसवीसी / 1992/05	प्लॉट न. 34, सिक्स स्टार पैराडाइज, पलैट-ई, दूसरी मंजिल, साति नगर, चिदाम्बरम 608001	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 00	11-जून-77
1318	के. संकर भारती (एल. कलईमनि)	टीएनएसवीसी / 864/05	331, भारानी इल्लम, विनायगपुरम अददूर डाक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 01	07-जन-73
1319	के. संकररमन (के. करुपइयाह थेवर)	टीएनएसवीसी / 2842/05	न. 37, इंद्रा गार्डन, कामराजार रोड, उप्पिलिपलायम डाक, कोयम्बतूर 641015, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएसयू / 78	04-जुला-56

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1320	के. सांति, पुत्र श्री आर. मनिमारन	टीएनएसबीसी / 3520/08	1/233ए,थीपाथियम्मप कोइल स्ट्रीट, पोलीचल्लूर मेन, पोली चल्लूर, चेन्नई 600074	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	07-जुला-67
1321	के. सरवन कुमार (सी. कृष्णन)	टीएनएसबीसी / 1313/05	कुडीमिना हल्ली, अगारम डाक, पोचमपल्ली तालुक, कृष्णागिरि जिला 635204, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	15-जून-77
1322	के. सरवन कुमार (एस. पी. कन्नन)	टीएनएसबीसी / 782/05	5/636-ए, पेरियार स्ट्रीट, एन.जी.ओ. कॉलोनी ईस्ट, विरुधुनगर 626001, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	30-मई-77
1323	के. सर्वन्न (ए. कलियप्पन)	टीएनएसबीसी / 1032/05	कप्पाराथम पट्टी, डोरामंगलम डाक, जलाकंदपुरम वाया, सलेम जिला 636501 तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएसयू / 68	25-जुला-64
1324	के. सर्वन्न (एम. कंडागौंडेर)	टीएनएसबीसी / 1908/05	181, मुथुगौंडेर स्ट्रीट, पलाकोड डाक, धर्मपुरी जिला- 836808, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 97	19-जन-74
1325	के. सतीश कुमार, पुत्र श्री जी. कुमारसन	टीएनएसबीसी / 3449/08	107, जवागर स्ट्रीट, पेरियूर डाक, मदुरई जिला 625703, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 03	16-जून-83
1326	के. सीनिवासन (एन. कृष्णासामी)	टीएनएसबीसी / 1181/05	5/215, टीथर्स कॉलोनी वेस्ट, मोहनपुर रोड, नमक्कल, पिन 837001, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएसयू / 76	15-दिसं-53
1327	के. सेखर (एस. करुपइयाह)	टीएनएसबीसी / 2391/05	1/486, पलपट्टी 828130 डाक थिरुथंगल सिवाकासी तालुक, विरुधुनगर जिला तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएसयू / 86	31-मार्च-82
1328	के. सेत्वाकुमार (करुपुधेट्टी गौंडेर)	टीएनएसबीसी / 1416/05	धिन्ना थिरुपति, करुवल्ली डाक, ओमालूर तालुक, सलेम जिला, पिन 836305 तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	20-मई-68
1329	के. सेत्वम (एम. करुपइयाह)	टीएनएसबीसी / 1268/05	23 ए. आलमारम स्ट्रीट, कूलाथेवर इल्लम, कुम्बम 825518, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	04-जून-77
1330	के. सेत्वारजु (जी. कंडासामी)	टीएनएसबीसी / 1125/05	354, सी 5, कंडासामी नगर, नरसिंगपुरम डाक, अददूर 836108, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएसयू / 84	29-मई-58
1331	के. संधिल कुमार (जी. कुप्पुसामी)	टीएनएसबीसी / 1502/05	11, मिडल स्ट्रीट, कृष्णापनकुडी कुडु, तिलागुडी 608108, कुडालूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 98	23-अग-71
1332	के. संधिल कुमार (पी. कुप्पुसामी)	टीएनएसबीसी / 216/03	2, वेल्सावर कॉलोनी, राजागौंडम पलायम डाक, थिरुथेंगोडु तालुक, नमक्कल जिला तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 03	17-अग-79
1333	के. संधिल सेत्वम (ए. किददूसामी)	टीएनएसबीसी / 527/05	समारपलायम, थुथुपडी डाक, पेरुंडुरई तालुक, इरोडे जिला 638057, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	11-जुला-81
1334	के. संधिल कुमार (के.एस. कुप्पुसामी)	टीएनएसबीसी / 372/04	कालीपलायम, के.पुडुपलायम, डाक, नमक्कल जिला 637017, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	27-मई-81
1335	के. संधिल कुमार (एम. कादिरवेलु)	टीएनएसबीसी / 1367/05	ई 4/12, फर्स्ट मेन राड, ओदट्टेरी एक्सटेंशन, वडालूर, चेन्नई 600048, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 93	09-अप्रैल-70
1336	के. संधिल कुमार (एम.)	टीएनएसबीसी /	कददूर, मोरंगम डाक, थिरुधेनगोडु तालुक,	बीबीएससी / टी	30-जुला-60

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
	कृष्णामूर्ति)	356/04	नमक्कल जिला 637410, तमिलनाडु	एनवीएंडएएसयू/04	
1337	के. सैथिल कुमार (आर. कृष्णामूर्ति)	टीएनएसवीसी/2300/05	उनजनई व डाक तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला, पिन 637205, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	27-मई-69
1338	के. सैथिल नाथन (बी. कनक सबापति)	टीएनएसवीसी/2735/05	53, पी.ई. कोइल नॉर्थ मदा स्ट्रीट, आयनावरम, चेन्नई-33	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	04-मई-67
1339	के. सेरलाथन (कावेरी गौंडेर)	टीएनएसवीसी/210/03	44 एम. नेदुमरान नगर, धर्मपुरी, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/76	12-जून-50
1340	के. शंकर (एन. कचापलायम)	टीएनएसवीसी/959/05	75/24-ए, कामरान स्ट्रीट, चैय्यार 604407, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	15-जुला-75
1341	के. शनमुगा संदरम (बी. कंडावेल)	टीएनएसवीसी/2931/05	200, न्यू स्ट्रीट II, वेलांडीवलसई डाक, इडापडी सलेम 637105, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/66	15-मार्च-64
1342	के. शनमुगानाथन, पुत्र श्री एम. करुप्पुझयाह	टीएनएसवीसी/3543/08	पेरुमरुडु डाक, अबुदयार कोविल तालुक, पुडुकोट्टई जिला, पिन 614616, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/08	26-मई-77
1343	के. शानमुगा सुंदरम (के. करुप्पासामी)	टीएनएसवीसी/407/04	3/69, परायनगडु, इरागलूर डाक, विमंडमपलायम वाया, गोबीचेट्टुपलायम तालुक, इरोडे 638462	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	19-अक्टू-79
1344	के. शामुगवेल (कोलांडवेल)	टीएनएसवीसी/2537/05	10, गोपालन थोट्टम, बसस्टैंड के उत्तरी ओर, नम्बियूर डाक, गोबीचेट्टीपलायम ता., इरोडे जिला, तमिलनाडु 638458	बीवीएससी/टी एनएयू/83	03-जुला-59
1345	के. शांति (पत्नी श्री सी. कनगराज)	टीएनएसवीसी/2205/05	न. 15, बजनई कूडम स्ट्रीट, नया बाजार, अरुप्पुकोट्टई 626101, विरुधुनगर जिला	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	02-जन-73
1346	के. शोबा (पी.जी. कुलसेखरन)	टीएनएसवीसी/2874/05	40, नया थंडावरोया ग्रामनी स्ट्रीट, पुराना वाशरमैनपेट, चेन्नई 600021	बीवीएससी/टी एनएयू/88	03-जून-66
1347	के. शिवप्रकासम (के. कुमारवेलु)	टीएनएसवीसी/1165/05	38 ए. II क्रॉस स्ट्रीट, थिलईपुरम, नमक्कल जिला 837002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	30-मई-62
1348	के. शिवप्रिया, पत्नी (एन. सैथिल कुमार)	टीएनएसवीसी/1940/05	सी1, श्री प्रसाद अपार्ट, प्लॉट न.7, अना एवेन्यू, जसवंत नगर, मोगापेयर प., चेन्नई 600058	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	30-दिस-77
1349	के. सिवसंकरी (डी.के. कृष्णास्वामी)	टीएनएसवीसी/286/04	न. 35ए, वी.सी.पी. स्ट्रीट, बड़ा कांचीपुरम 631502, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	14-जन-79
1350	के. सोमा-सुंदरम (के. करुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी/2598/05	के.मेट्टुपलायम पट्टमपलायम डाक, नम्बियर वाया, गोबी तालुक, इरोडे जिला, पिन 638458	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	19-जन-67
1351	के. सूर्यामनि पत्नी (डी. जे. ए. किरुबाकरन)	टीएनएसवीसी/891/05	85, ए5, अरुणाचलम स्ट्रीट, एस.एस. कॉलोनी, मदुरई-10 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	14-जुला-67

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1352	के. श्रीधरन (आर. कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी / 1193/05	2, स्कूल स्ट्रीट, पेरिया कोलापट्टी, मल्ला समुद्रम डाक, 637503, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	10-सित-76
1353	के. सुचेनराव, पुत्र श्री कुंटा उषेंद्र राव	टीएनएसवीसी / 4293/05	ब्रिग. के.एस. राय, ब्रिग रेव्स, है.क्वा., नॉर्दन कमांड, द्वारा एपीओ, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एपीएयू / 68	02-सित-47
1354	के. सुधा (पत्नी श्री वी.कन्नन)	टीएनएसवीसी / 878/05	14-बी.स्काई हाउस, काबिलारमई रोड, परमाथी डाक, परमाथी वेल्लूर तालुक, 637207, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	16-मई-77
1355	के. सुधा, पत्नी के. अंबारासन	टीएनएसवीसी / 829/05	1/48, कुमारन कोइल नॉर्थ एक्सटेंशन, सेम्बानर कोविल, तरंगाबडी ता., 609309, त.ना.	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	20-जून-75
1356	के. सुगंधी (ए. कलियापन)	टीएनएसवीसी / 58/03	15-सी.अयासामी थोट्टम, मधा कोइल स्ट्री. नामगिरिपेटडाक, रासीपुरम, तालुक नमक्कल जिला, 637406, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 03	21-जुला-78
1357	के. सुगंधी (एस.आर. कलियान्नन)	टीएनएसवीसी / 2239/05	सेंगापल्ली, पलापट्टी डाक, पी.वेल्लूर तालुक, नमक्कल जिला, पिन 637017, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	13-मार्च-77
1358	के. सुगंधी प्रियदर्शिनी, पत्नी (एल. मुरुगसन)	टीएनएसवीसी / 1894/05	3/273-1, काथिर इल्लम, राथीनासामी रोड, एक्स-सर्विस मैन कॉलोनी, सलेम-4, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 98	10-अप्रैल-74
1359	के. सुगुना (ए. कलिया परुमल)	टीएनएसवीसी / 338/04	मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, थट्टोमपलायम डाक, पन्नुती तालुक, कुडालूर जिला 607205	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	15-मई-81
1360	के. सुकुमार (के. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 1266/05	चिन्नाथोट्टम, मुधुकालीपट्टी डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637401, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 02	02-जून-77
1361	के. सुकुमार (बी. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 735/05	3/24, कट्टुकोट्टई, थयारई, पंडियनकुप्पम. डाक, कल्ला कुरिची तालुक, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	05-फर-77
1382	के. सुकुमारन (टी. वी. कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 1021/05	सारथा हायर सेकंडरी स्कूल, नरसिंहपुरम डाक, अट्टूर तालुक, सलेम जिला	बीवीएससी / टी एनएयू / 80	05-फर-54
1363	के. सुमथी, पत्नी (वी. सुरेश कुमार)	टीएनएसवीसी / 1609/05	नया न. 2/1 (पुराना न. 2/3), पुंगमपट्टी डाक, अम्बासमुद्रम तालुक, तिरुनेलवेली जिला, पिन 627415	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	07-जून-77
1384	के. सुमथी, पुत्र श्री एस. बी. कलप्पन	टीएनएसवीसी / 3563/06	4/19 ए, II क्रॉस स्ट्रीट, कलई दानरनगर, गोरीमेदु, वानू तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	15-दिसं-73
1365	के. सुनील कुमार सेट्टी, पुत्र श्री के. सुब्रह्मण्यम	टीएनएसवीसी / 4358/05	द्वारा एस.एस.आर. मेडियल, वेलदुर्धी, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	15-मार्च-82
1366	के. सुरेश बाबू एम. कन्नन)	टीएनएसवीसी / 2219/05	128/2, पुराना पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, रानीपेट 632401, वेल्लूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 88	24-मार्च-64

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1367	के. सुरेश कुमार, पुत्र श्री एन. कृष्णन	टीएनएसवीसी/ 3402/06	न. 127, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, शोलिंघूर 631102, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/99	12-सित-73
1366	के. सुरेशकुमार (आर. कृष्णासामी गौडेर)	टीएनएसवीसी/ 764/05	नवीनाथन कट्टू थोट्टम, पेरुमुगईपुडुर डाक, गोबीचेट्टी पलायम 638505, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/02	15-मई-78
1369	के. सुरेशकुमार, पुत्र श्री वी. कृष्णामूर्ति	टीएनएसवीसी/ 3304/06	46, रामापुरम कुट्टई मेला स्ट्रीट, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	04-जन-82
1370	के. स्वामीनाथन (जी.डी. कल्याण सुंदरम)	टीएनएसवीसी/ 2054/05	नया न.26, पुराना न. 12, ईस्ट कार स्ट्रीट, चिदाम्बरम 608001, कुडालूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/63	31-दिस-59
1371	के. तामीजी सेल्वम (एस. कंदन)	टीएनएसवीसी/ 2882/05	वेट. असि. सर्जन, वेट. डिस्पेंसरी, पेराम्बूर 609406, नागाई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/88	04-सित-65
1372	के. थंगाराज (जी. कालीमुथु)	टीएनएसवीसी/ 1305/05	इलाथिरई कोडन, जामिन कोल्लनकोडन डाक, राजा पलायम वाया (तालुक), जिला विरुधुनगर, पिन 626142	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/69	06-मार्च-66
1373	के. थंगाराजु (कलियापेरुमल)	टीएनएसवीसी/ 3205/05	33, अन्नाई नगर, नया एम.जी. पुरम, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/63	18-जून-56
1374	के. थंगावेल (कंडासामी)	टीएनएसवीसी/ 218/03	के. कराट्टुपलायम कॉलोनी, इलुप्पु डाक, इलाचीपलायम वाया, थिरुचेंगरेडु तालुक, नमक्कल जिला 837202	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/03	10-नव-79
1375	के. थंगावेल, पुत्र श्री करुप्पना गौडेर	टीएनएसवीसी/ 3413/06	120, नई कलंजीपट्टी ओडानचटरम तालुक, डिंडीगल 624619, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	09-मई-83
1376	के. थंगावेलु (कलियन्नन)	टीएनएसवीसी/ 2495/05	33, विद्यानगर, मेलथिंडल, इरोडे 636009, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 72	26-सित-44
1377	के. थंगावेलु (पी. कलियन्नन)	टीएनएसवीसी/ 2531/05	10, नामाचिवायम स्ट्रीट, पूंडरई रोड, कोल्लमपलायम, इरोडे 636002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/68	15-अप्रैल-65
1376	के. थिलागम (पी. काथिरवेल)	टीएनएसवीसी/ 2582/05	4/136 एम, अन्ना नगर, पेड्डीपट्टी डाक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/00	26-जून-76
1379	के. थिरुचेंगोअड्य्यन (कलियन्ना गौडेर)	टीएनएसवीसी/ 2527/05	83/2, बोयार स्ट्रीट, पी. वेल्लला पलायम डाक, गोबी तालुक 638476, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/75	15-नव-47
1380	के. थिरुनावुकरासु (टी. एस. कमलकन्नन)	टीएनएसवीसी/ 2019/05	16, नाबेश नगर, वेल्लोर मेन रोड, आर्कोट, वेल्लोर जिला 632503, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/95	09-मई-72
1381	के. थिरुनावुकरासु (वी. एन. कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी/ 388/04	मूपन कोराई थोट्टम, वाडुगापलायम, गोबीचेट्टी पलायम, इरोडे जिला 636476	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/04	19-नव-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1382	के. थियागराजन (एम. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 689 / 05	न. 636, विक्री स्ट्रीट, शिवाजी नगर, चेंब्यार 604407, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	21-मार्च-78
1383	के. उदय सुरियन (के.एम. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 3270 / 05	मेट्टुकडु, पटानम डाक, रासी पुरम तालुक, नमक्कल जिला, पिन: 637416, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 79	03-दिस-55
1384	के. उधयकुमार (एस. करुणाम्मन)	टीएनएसवीसी / 837 / 05	थोपूकट्टूर, मुकासीपुडुर डाक, ओलागडम वाया, इरोडे जिला, पिन: 636314, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	13-जुला-61
1385	के. उमा, पुत्री श्री आर. करुणामूर्ति	टीएनएसवीसी / 3328 / 06	न. 7 / 155, इलूरपट्टी डाक, थोटियम तालुक, त्रिची जिला 621215, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	10-जून-62
1386	के. उमासंकर (बी.एस. कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 1197 / 05	88, सुबरावपुरम स्ट्रीट, अट्टयमपट्टी डाक, सलेम जिला 637501, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 94	29-जुला-71
1387	के. उपेंद्र कुमार, पुत्र श्री सूर्या जनार्दन राव	टीएनएसवीसी / 4322 / 05	इंडियन बैंक के ऊपर, पेपापडु 534437, प.गो. जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी/एंडए एच / एनजीआरएयू / 05	09-जुला-62
1388	के. वाडीवलागन (पी. कालीमुथु)	टीएनएसवीसी / 3489 / 06	पंचायत यूनिन क्वार्टर्स, थिरुमनूर, पेराम्बलूर जिला 621715, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	24-जुला-83
1389	के. वैरावसामी (के. करिप्पनाथेवर)	टीएनएसवीसी / 2491 / 05	नासरपुलियंकुलम, मुस्ताकुरिची डाक, पिन: 626106, करिया पट्टी वाया, कामराज जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 92	20-मई-65
1390	के. वानीश्वरी, पत्नी (आर. मनोहरन)	टीएनएसवीसी / 1296 / 05	3 / 54-सी, के.एस.वी. नगर, नरसुथिपट्टी, सलेम 636004, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 92	28-मई-69
1391	के. वनिथा (टी. रघुपति)	टीएनएसवीसी / 1642 / 05	5 / 126, डी-1, थिरुमगल इल्लम, टीचर्स कॉलोनी, धर्मपुरी, 636701, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	15-दिस-74
1392	के. वेदियप्पन (के. कन्नन)	टीएनएसवीसी / 1951 / 05	2 / 13, वी.एस.के. नगर, कावेरीपटनम, कृष्णानगर जिला, 635112, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 85	02-मई-62
1393	के. वेलायुधा पेरुमल पिल्लै (टी. कुमार पिल्लै)	टीएनएसवीसी / 2752 / 05	इलेंगम हाउस, वेस्ट स्ट्रीट, पदमनाम पुरम, थुकाले, कन्याकुमारी, 629175	बीवीएससी / टी एनएयू / 83	30-जून-60
1394	के. वेंकटचलम, पुत्र श्री पी. कृष्णन	टीएनएसवीसी / 3346 / 06	पी. मेट्टुपलायम, पिल्लनाथम डाक, कुमारमंगलम वाया, टी.कौड तालुक, नमक्कल जिला, पिन-637205	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	22-फर-83
1395	के. वेंकटेश (टी. कन्नन)	टीएनएसवीसी / 3190 / 05	265 / 1, भारती नगर एक्सटेंशन, बालाजी थिएटर के सामने, कटपडी, वेल्लोर-7, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 76	20-मई-60
1396	के. वेंकटेश (के. कनगराजन)	टीएनएसवीसी / 1366 / 05	न.100, तीसरी चेक्काडी स्ट्रीट, कोविलपट्टी-628501, द्यूटिकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	07-जून-67
1397	के. वेंकटराघवन, एम. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 1182 / 05	9 / 12 / 7 जी, आर्ट कॉलेज के सामने, विघ्नेश्वर स्ट्रीट, चेंब्यार 604407	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	02-जून-76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1398	के. विजयभास्कर (एम. कंदीपन)	टीएनएसवीसी / 2012/05	1-2-4, कंडीपन इल्लम, थाथमपट्टी, डाक व तालुक वाडीपट्टी 625218, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 83	05-जून-69
1399	के. विजय कुमार (सी. कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 808/05	7, कुमारन स्ट्रीट, कोल्लम पलायम, इरोडे 638002, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 05	25-जन-80
1400	के. विलवम (कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 869/05	नम्बीपट्टी, एच. डोडमपट्टी डाक, प्पीवेडिपट्टी तालुक, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 86	09-जून-62
1401	के. विनोदिनी (एन. कृष्णासामी)	टीएनएसवीसी / 2240/05	147/5, गीतांजलि कॉलोनी, 7वां एवेन्यू, अन्ना नगर वेस्ट, चेन्नई 600040	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 01	09-मई-78
1402	के. पिनाथ कुमार (पी. कन्नइयन)	टीएनएसवीसी / 2791/05	15, साउथ फोर्थ स्ट्रीट, पुडुपेट रोड, तिरुपत्तूर (वेल्लोर जिला) 835801, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 98	24-जुला-73
1403	के. विस्वनाथ (के. कनगराज)	टीएनएसवीसी / 2757/05	मुम्मूडी, थलईवासल डाक, अट्टेर तालुक, सलेम जिला, पिन 636112, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 97	29-जुला-74
1404	के. यमुना (वी. कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 654/05	53/5-फयू, पांचवां क्रॉस, जकप्पा नगर, कृष्णागिरि 635001, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 01	23-जून-77
1405	के. अश्विरानी, पत्नी (आर. बालाजी)	टीएनएसवीसी / 1814/05	73, करीकली अन्नाम कोहल स्ट्रीट, पोलाची, पिन 642001, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 00	02-जून-77
1406	के. अन्नासंकर (पी. कोंडुसामी)	टीएनएसवीसी / 2278/05	ब्लॉक II, जी- II, 4/834, प्रथम फ्लॉड स्ट्रीट, स्वाधीनतानगर, कोडीवक्कल, चेन्नई 600041	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 95	30-जुला-70
1407	के. आनंदन (कनिअप्पन)	टीएनएसवीसी / 1668/05	3/3ए, थिरुवन्कुर रोड, काक्काय नगर, थिरुवन्कुर 629001, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 89	17-नव-65
1408	के. एंजेला (पी. कोइलविल्ली)	टीएनएसवीसी / 1788/05	4/2, गांधी नगर, I स्ट्रीट, मेडुर, मद्रुरई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 88	13-जन-65
1409	के. अभिधा, पुत्री श्री नारायण रेड्डी	एनएसवीसी / 4 484/05	न.न. 8-2-75/1, अंतरा कॉलोनी, नालगोंडा 508001, आंध्र प्रदेश	बीबीएससी एंड एच / एनजीआरएयू / 05	05-जन-81
1410	के. अम्माकन्नु (एन. कलिअप्पन)	टीएनएसवीसी / 1818/05	करिना गोकनपल्लाम, डाक कोडुवर्तई, कथिप्पावर्तई वाडा, तिरुवेगोई ब्राह्मण, मन्वक्कल जिला 627610, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 91	24-अप्रैल-65
1411	के. भास्कर सेथुपथि (पी. कंधन)	टीएनएसवीसी / 1884/05	ए-9, टीएनएसवी कॉलोनी, सिंगानल्लूर, कोयम्बतूर 641005, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 94	30-जून-71
1412	के.सी. गोविंदन (पी. चिन्नप्पन)	टीएनएसवीसी / 1841/05	124, मुथोदुव, म्युनिसिपल ऑफिस के सामने, कृष्णागिरि - 635001, तमिलनाडु	बीबीएससी / एनयू / 61	14-अप्रैल-37
1413	के.सी.एस. अरुणा भारती (के.सी. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी / 1471/05	13, कट्टाबोमन स्ट्रीट, सूरमापट्टी, इरोडे 638009, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 01	23-दिस-76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1414	के.सी. शिवगणपति (के चिन्नुसामी)	टीएनएसवीसी / 1807 / 05	44-ए. को-ऑपरेटिव कॉलोनी, मोहानूर रोड, नमक्कल-637001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	18-नव-75
1415	के. चंद्रा राघवेश्वरी, पुत्र श्री ए. काथिरवेल	टीएनएसवीसी / 3498 / 06	92, कारुवेलंगुडु स्ट्रीट, थिरुनेलवेली नगर, नेल्लई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 97	18-जून-74
1416	के. ईश्वरन (पी. कालीमुथु)	टीएनएसवीसी / 1781 / 05	प्लॉट नं.11, गौधम नगर, परसुरामपट्टी, मंडुमवाडी, के. पुडुर, मदुरई-7, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 90	03-जून-65
1417	के. गोविंदसामी (जी. कलिअन्नन)	टीएनएसवीसी / 1812 / 05	ओसाईपट्टी वी. वेलाल पलायम डाक, इरोडे जिला 638315, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	04-जून-77
1418	के. गौरीशंकर (एस. कैलासम)	टीएनएसवीसी / 2688 / 06	10 सी, पिलइयार कोइल स्ट्रीट, कुम्बाकोनम, तंजौर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 89	12-मई-44
1419	के. गौधमन (के. कैलासपति)	टीएनएसवीसी / 343 / 04	भारती नगर, नरथमपट्टी डाक, धर्मपुरी जिला, 638804, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	31-जुला-81
1420	के. गुरुराज	पॉण्डीएसवी सी / 275 / 05	25, स्कूल स्ट्रीट, पेथुचेट्टीपेट, पॉंडीचेरी -6,	बीवीएससीएंडए एच / ih,w / 03	30-अक्टू-79
1421	के.के. विश्वनाथ कुमार (एन.करुप्पन)	टीएनएसवीसी / 2549 / 05	अट्टवामपट्टी, कोडईकनाल, पिन 824101, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 88	02-अक्टू-62
1422	के.के. गीथा (के. करुपइयाह)	टीएनएसवीसी / 1350 / 05	आरमुगम कम्पाउंड, देवीपट्टनम, रामनाथपुरम जिला, पिन-623514, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 92	14-अप्रैल-68
1423	के. करुप्पन (कामची)	टीएनएसवीसी / 2589 / 05	137, श्री कामची इल्लम, थिरु नगर, पलानी 624601, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 74	01-जून-48
1424	के. केसवन (टी.के. कलियप्पा चेट्टियार)	टीएनएसवीसी / 2349 / 05	7 / 370 ए, शानमुगम प्रिया इल्लम, सुत्थानपेट, कोयम्बतूर जिला, पिन 641669, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 75	10-मई-50
1425	के. कृष्णामूर्ति (एन. कोथंडरम)	टीएनएसवीसी / 2324 / 05	41, सावित्री गार्डन, त्रिची रोड, चिन्तामणिपुडुर, इरुगुर (वाया) कोयम्बतूर 641103	बीवीएससी / टी एनएयू / 84	14-मई-59
1426	के. कुमार (के. कालीमथु)	टीएनएसवीसी / 2602 / 05	पेरुमरुडुर डाक, अबुडियार कोइल तालुक, पुडुकोट्टई जिला, पिन 614618, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	20-अप्रैल-77
1427	के. कुमारसन (एम. कुलादेवल)	टीएनएसवीसी / 443 / 05	गवर्न. प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सिरुवचूर (डाक), थलईवासल वाया, अथूर तालुक, सलेम जिला 636112	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	10-जून-79
1428	के. कुंथावई (के. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 432 / 05	5/2, थंगा सेलई स्ट्रीट, कुमारसामी पेट्टई, धर्मपुरी 636706, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	20-जुला-80
1429	के.एम. चंद्र सेकर (के. मुरुगोसन)	टीएनएसवीसी / 2833 / 05	160, डॉक्टर्स क्वार्टर्स, वेटरिनरी हॉस्पिटल कैम्पस, कोयम्बतूर 641001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 80	28-सित-55

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1430	के.एम. सत्यमूर्ति (के.पी. मरुप्पा गौडेर)	टीएनएसवीसी / 2413 / 05	एम '8', पेरियार नगर, इरोडे 638009, तमिलनाडु	बीबीएससी / एमयू / 73	02-मार्च-49
1431	के.एम. सिदप्रकाशम (के. एम. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी / 1773 / 05	3 / 292, कृष्ण नगर, थिरुप्पलई, मदुरई 625014, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 80	04-अप्रैल-57
1432	के. माधव राव, पुत्र श्री मलकौंडइयाह	एपीएसवीसी / 4 364 / 05	वसाकुतापडु, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससी/एंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	25-अग-79
1433	के. मुरुगन (ए. कालीमुथु)	टीएनएसवीसी / 1782 / 05	वेस्ट स्ट्रीट, मंगलम डाक, सिवगंगा तालुक, सिवगंगा जिला, पिन 630554, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 97	15-फर-73
1434	के. मैथिली, पत्नी (एस. सेलवन)	टीएनएसवीसी / 1378 / 05	ए 8, प्लॉट न. 109, IV वेस्ट स्ट्रीट, वीरापंडियान नगर, चूलईमेडु, चेन्नई 600094	बीबीएससी / टी एनएयू / 88	25-नव-64
1435	के.एन. आरमुगम (आर. नवीमुथु)	टीएनएसवीसी / 3144 / 05	3 / 829, श्री विघ्नेश्वर नगर, VI स्ट्रीट, पल्लडम रोड, वीरापंडी डाक, तिरुपुर 841605, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 84	19-दिस-60
1436	के. एन. राजा (के.एम. नक्षिअप्पन)	टीएनएसवीसी / 784 / 05	कोलांदनूर, अट्टयमपट्टी वाया, शेंधगमादेवी डाक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	16-मई-74
1437	के.एन. सेल्वाकुमार (के. आर. नल्लासामी)	टीएनएसवीसी / 741 / 05	2 / 2, थर्ड स्ट्रीट, जय नगर, अरुम्बककम, चेन्नई 600106, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 85	15-मई-62
1438	के. नागराजन, (एम. कुमारेसन)	टीएनएसवीसी / 692 / 05	न.448, प्रकाश नगर, III क्रॉस स्ट्रीट, तिरुन्निरावूर, 802024, तिरुवत्तूर जिला तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	08-जुला-77
1439	के. नागराजन (एन.डी. काथिरेसन)	टीएनएसवीसी / 1624 / 05	2530, ब्लॉक XVI, एमआरआर नगर, II क्रॉस, बिशांदर कोइल डाक, त्रिची जिला 621216	बीबीएससी / टी एनएयू / 83	30-मई-58
1440	के. नागराजू, पुत्र श्री के. दत्तात्री	एपीएसवीसी / 4 399 / 05	एमआरओ का कार्यालय, बेल्लमपल्ली डाक, आदिसाबाद जिला 504251, आंध्र प्रदेश	बीबीएससी/एंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	22-अग-81
1441	के. पी. जॉन सुभास (के. पोन्मुथु)	टीएनएसवीसी / 3280 / 05	576 ए, मेन रोड, अलंगुलन 627851, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 89	31-जुला-64
1442	के.पी. सर्वन्न (जी. पान्नेरसेल्वम)	टीएनएसवीसी / 410 / 04	4 / 300, साउथ स्ट्रीट, कोप्पम पट्टी डाक, थुरईपूर तालुक, पिन 621012, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	15-जुला-81
1443	के.पी. हरिवीस (जी. पेरारेड्डी)	टीएनएसवीसी / 2259 / 05	ब.न.9, रेड्डी स्ट्रीट, थेलार डाक 604406, तिरुवन्मामलई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / एमयू / 73	21-जून-47
1444	के. पद्मनाथ (सी. कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 693 / 05	न. 14, ओट्टाईवडाई स्ट्रीट, अचारपक्कम डाक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु 603301	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	01-अक्टू-76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1445	के. पलानीसामी (एम. करुप्पन)	टीएनएसवीसी / 1847 / 05	पुल्लागाँडमपट्टी डाक, तिरुवेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला 837202, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 99	15-मई-74
1446	के. पान्नेरसेल्वम (कन्नन)	टीएनएसवीसी / 2290 / 05	20-ए, डाइवर्जन रोड, इन्द्रा नगर, पोलूर नगर, कन्दासम स्ट्रीट, तिरुवन्नामलई जिला, पिन 606803	बीबीएससी / टी एनएयू / 87	15-अप्रैल-80
1447	के. पोन्नुसामी (के. कुमारसामी)	टीएनएसवीसी / 1842 / 05	1/99, नॉर्थ स्ट्रीट, नादयानूर डाक, करूर जिला पिन 639117, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 95	25-जुला-72
1448	के.आर. टी.रामास्वामी)	टीएनएसवीसी / 3188 / 05	न. 90, मेन रोड, पोस्ट ऑफिस के सामने, शेनकोट्टई, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 92	15-मई-69
1449	के.आर. राजगोपालन (के. आर. राजगोपाल)	टीएनएसवीसी / 2909 / 05	प्लॉट न. 41, डोर न. 21, नेताजी स्ट्रीट, गणेश नगर, सेलइयूर डाक, चेन्नई 600073	बीबीएससी / टी एनएयू / 73	30-दिसं-47
1450	के.आर. सेंथल कुमार (के. आर. राजगोपाल कांडेर)	टीएनएसवीसी / 1005 / 05	5/630, एल 3, वल्लियम्मई स्ट्रीट, सुब्रामण्या नगर, जागिर अम्मा पलायम डाक, सलेम 5, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 89	31-मार्च-88
1451	के.आर. श्रीहरि (के.सी. राजागोपाल)	टीएनएसवीसी / 2630 / 05	32, गोपालापुरम एकसटेशन, कटपडी, वेल््लोर-6, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 87	10-मार्च-84
1452	के.आर. बालासुंदरम (के. रामासामी)	टीएनएसवीसी / 2271 / 05	के.आर.थोट्टम, डाक कट्टना चम्पट्टी, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 81	19-जून-54
1453	के.आर. कुलंडेइवेल (के. राथिनावेलु)	टीएनएसवीसी / 2831 / 05	21, कुलंडेइवेल स्ट्रीट, मनप्परई 621306, तिरुचिरा पल्ली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	05-अक्तू-71
1454	के.एस. गोपी, पुत्र श्री आर. सेंगन	टीएनएसवीसी / 3381 / 06	28, कुलाथुमेदु स्ट्रीट, डाक काचीराया पलायम, तालुक कल्लाकुरिथी, विल्लुपुरम 606207, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	20-अप्रैल-83
1455	के.एस. जयरज (के. सीनिअप्पन)	टीएनएसवीसी / 1685 / 05	वेस्ट स्ट्रीट, सुदरराजापुरम डाक, राजापलायम तालुक, तिरुथुनगर जिला 626142, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 93	01-जन-86
1456	के.एस. लथा (पत्नी टी. रामासामी)	टीएनएसवीसी / 2542 / 05	48/2, कामराजार कॉलोनी, भवानी रोड, अप्पुकुडल 638 315, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	04-मई-71
1457	के.एस. मनिअम्पन (एम. सुंदरराज)	टीएनएसवीसी / 2376 / 05	20, जी. नैनमपट्टी, इडापडी 637105, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 94	15-जुला-70
1458	के.एस. सुंदरराजन (एस. के. शिवज्ञानर)	टीएनएसवीसी / 1006 / 05	6/15, मरिअम्पन कोइल स्ट्रीट, डाडगापट्टी डाक, सलेम 636006, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 84	20-मार्च-81
1459	के.एस. वेंकटरमन (के. सुब्रामण्याम)	टीएनएसवीसी / 1371 / 05	पुराना न. 2, नया न. 7, III क्रॉस स्ट्रीट, वेंकटेश्वरपुरम कॉलोनी, अयानावरम, चेन्नई 600023	बीबीएससी / टी एनएयू / 74	29-सित-51

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1460	के. सदागोपन (एस. काति)	टीएनएसवीसी / 2343/05	15ए/3, जयलक्ष्मी भवनम्, इनामनियाची, कोविलपट्टी 628502, ट्यूटिकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	22-मार्च-70
1461	के. संध्या (एस. केसवन)	टीएनएसवीसी / 2281/05	न. 3/31 (पुराना न.8), चेलप्पा स्ट्रीट, संतोषपुरम्, विशालकी नगर, गौरीवक्कम डाक, चेन्नई 601302	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	12-अप्रैल-88
1462	के. सेत्वाकुमार (एस. कलियन्मन)	टीएनएसवीसी / 2936/05	चक्किली थोट्टम, मरुरपट्टी डाक, नमक्कल जिला 637019, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	03-अक्टू-76
1463	के. सौंदराराजन (आर. कृथापेरुमल)	टीएनएसवीसी / 1456/05	2-4-ए2-कॉलोनी, नॉर्थ स्ट्रीट बिल्डिंग सोसायटी, चिन्नामनूर, धेनी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/87	21-जून-64
1464	के. श्रीनिवास, पुत्र श्री मंजप्पइयाह	कर्नाएसवीसी / 3704/	मुक्ताहरिहरपुरा, अरगा डाक, थिरथाहल्ली तालुक, शिमोगा जिला 577414, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/यूएसबंगलौर /65	26-जन-57
1465	के. सुब्रमण्यन (एस. करुप्पन)	टीएनएसवीसी / 1218/05	एच-38, एच.बी. कॉलोनी, थिरुनगर, थिरुनेलवेली- 627007, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/79	05-मई-55
1466	के. सुब्रमण्यन (बी. कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 1752/05	20/11, चेलइयाह स्ट्रीट, मेलूर सेनगोट्टई 627809, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	25-जुला-69
1467	के. सुंदरवाडीवेल (एस. करुपइयाह)	टीएनएसवीसी / 1759/05	ग्राम मंगम्मलपट्टी, करईकेनी डाक, पेरियुर तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/97	27-मई-71
1468	के. सुसिधा	पॉण्डीएसवी सी/278/05	चरुथा, पंडक्कल, माहे- 673310, पॉंडीचेरी	बीबीएससीएंडए एच/पीयू/06	28-सित-82
1469	के.टी. कविथा (एस. रवि)	टीएनएसवीसी / 1250/05	दासमपट्टी, मिट्टाहल्ली डाक, कावेरीपट्टिनम वाया, कृष्णागिरि जिला 635112, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	01-जून-77
1470	के. धंगारासू (एन. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 1190/05	46/54, थिलईपुरम्, प्रथम स्ट्रीट, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीए एनयूवरएस/97	05-मई-74
1471	के. थिरुमलेश्वर रेड्डी, पुत्र श्री के. मनोहर रेड्डी	एपीएसवीसी / 4397/05	कोम्पनावारीपल्ली, पुल्लमपेट (एम), कडपा जिला 516107, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	12-अप्रैल-81
1472	के. थिरुमुरुगन (एम. कलियन्मन)	टीएनएसवीसी / 1621/05	अक्कारईपट्टी डाक, मल्ल समुद्रानी वाया, रासीपुरम् तालुक, नमक्कल जिला 637503, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	22-मई-88
1473	के.वी. सेकर (के. वेलायुथा नादर)	टीएनएसवीसी / 2375/08	190, बेयरमैन, पी.के.एस.ए. आरमुगा नादर रोड, सिवाकासी पूई 626189, विरुधुनगर जिला	बीबीएससी/टी एनएयू/85	05-अप्रैल-62
1474	के.वी. वेंकटेशन (के. वीराराघवन)	टीएनएसवीसी / 1413/05	12बी/11, इंडेन गैस गोदाम स्ट्रीट, अल्लानगर, कल्लाकुम्भी, विल्लुपुरम् जिला 606202	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	10-अप्रैल-69

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1475	के.वी. भुवनेश्वरी (के. वेंकटपरुमल)	टीएनएसवीसी / 2320 / 05	5 / 363, मलाईकरार थोट्टम, नईकेनपलायम डाक, कोयम्बतूर 641020, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 86	20-मार्च-63
1476	के.वी. चंद्रसेकर (के. कृष्णामूर्ति)	टीएनएसवीसी / 2167 / 05	118 / 5, एआई ब्लॉक, शांति अपार्टमेंट्स, 6वां मेन रोड (शांति कॉलोनी के सामने) अन्ना नगर, चेन्नई-40	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	01-दिसं-76
1477	के.वी. सांताकुमार (एन. करीवलावन)	टीएनएसवीसी / 3006 / 05	मेट्टुपट्टी डाक, ओमालूर तालुक, सलेम जिला, पिन-636455, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 93	25-जून-70
1478	के. वैथीश्वरन (एस. कुलादइवेल)	टीएनएसवीसी / 1768 / 05	31ए.तीसरी स्ट्रीट, श्रीनिवासगा नगर, थिरुनगर, मदुरई 625006, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	07-मई-66
1479	के. वामशी कृष्णा रेड्डी, पुत्र श्री मल्ला रेड्डी	एपीएसवीसी / 4 407 / 05	म.न. 9-4-103, श्रीनगर कॉलोनी, करीमनगर, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	15-अग-81
1480	के. वेंकटवलम (आर. करुप्पना गौडेर)	टीएनएसवीसी / 2695 / 05	3 / 33, कृष्णपुरम, विजयमंगलम, इरोडे 638056, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 87	03-मार्च-63
1481	काका मोह. शोएब (काका मोह. अयूब)	टीएनएसवीसी / 3202 / 05	9, बम्बू मंडी स्ट्रीट, अम्बूर 635802, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	01-जून-62
1482	कलारिया विनय कुमार ए.	गुजएसवीसी / 2 627 / 06	जामवाली, तालुक जमजोधपुर वाया बलवा, गांधी चौक के निकट, जामनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच / आनंद कृ.वि. वि. / 06	09-अप्रैल-81
1483	कलीसेट्टी शिल्पा, पुत्र श्री के. श्रीनिवास राव	एपीएसवीसी / 4 364 / 05	म.न.2-2-120, विजयपुरी कॉलोनी, उप्पल, हैदराबाद 500039, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	18-अग-62
1484	कलिता करुणा, पुत्र श्री जगत कलिता	असमएसवीसी / 2227 / 05	उदयनगर, खानापाड़ा, गुवाहाटी-22, असम	बीवीएससीएंडए एच / एएयू / 05	05-फर-78
1485	कमल किशोर, पुत्र श्री रामचंद्र सिंह	राजएसवीसी / 3 228 / 06	चुंदा भवन, खेमका एस. वार्ड न. 24, चुरु, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 05	26-अक्तू-79
1486	कमल लोचन दास, पुत्र श्री दुर्गा चरन दास	उड़ीसाएसवीसी / 1984 / 05	एटी-रानीगोडा, डाक तुरुंगा, जिला अनुगुल, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच / ओयूएंडटी / 05	08-जुला-80
1487	कमलदीप शर्मा, पुत्र श्री मनोहर लाल शर्मा	पीवीएसवीसी / 2 591 / 05	गली न. 5, प्रेम बस्ती, संगरूर, 148001, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच / पीएयू / 05	04-फर-82
1488	कमलेश मोंडल, पुत्र श्री शिवपदा मोंडल	उड्यूसीएसवीसी / 3196 / 05	ग्राम एवं डाक: दुलहली माथाकाडी, जिला 24 परगना 743439, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच / उड्यूसीयूए एंडएफएस / 05	01-फर-83

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1489	कमलजीत सिंह, पुत्र श्री रूप सिंह	पीबीएसवीसी/2 585/05	म.न. 1757/29-ए, गली न. 9ए, हीरा बाग, जगरांव, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	19-नव-77
1490	कमन मनोज कुमार, पुत्र श्री बलिन च. कमन	असमएसवीसी/ 2221/05	द्वारा बलिन च. कमन, वार्ड न.3, टंगनापाड़ा, डाक एवं जिला धीमाजी, असम	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/05	01-जन-81
1491	कामीसेट्टी नागेन्द्र राव, पुत्र श्री के. सीथारामुलु	एपीएसवीसी/4 427/06	2-133, शिवालय स्ट्रीट, हुजूर नगर, नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	15-जून-80
1492	कमलेश कुमार दहेरिया, पुत्र श्री रामाधर दहेरिया	एमपीएसवी सी/2292/05	सुनील आटा चक्की के निकट, सिविल लाइन के निकट, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 05	05-फर-81
1493	कंचरला रामा राव, पुत्र श्री नागभूषणम	एपीएसवीसी/4 386/05	म.न. 2-132/3, मेन रोड, पेट्रोल बंक के निकट, एनकूर, खम्मम, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	01-जुला-80
1494	कंचारले शिलेंद्र रेड्डी भूम रेड्डी, पुत्र श्री भूम रेड्डी	एपीएसवीसी/4 295/05	द्वारा अरला साया रेड्डी, गली न. 8-101-8, मोसरा, वर्नी (एम), निजामाबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/बीएसकेके वी/01	12-दिस-76
1495	कन्हैया लाल डामर, पुत्र श्री मांगीलाल डामर	एमपीएसवी सी/2286/05	ग्राम एवं डाक कल्याणपुरा, झबुआ, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/05	14-जन-70
1496	कान्हु चरन साहू, पुत्र श्री सोम नाथ साहू	उड़ीसाएसवीसी /2027/05	द्वारा भार्कर चंद्र साहू, मोसालिक कांति स्ट्रीट, बरहाम पुर जिला, गंजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	01-जुला-80
1497	कनिका कौशल, पुत्र श्री अनिल कुमार कौशल	एचएआरएस वीसी/1868	म.न. 1478, जर्नल स्टेट-2, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /05	01-जन-81
1498	कनसारा जिगर डी.	गुजएसवीसी/2 628/06	माहीवाडो, हरिहरलालजी मंदिर के निकट, विसनगर, जिला मेहसाना 384315, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि. वि./06	07-अप्रैल-83
1499	कांताराजू एम.के., पुत्र श्री कालेगौडा	कर्नाएसवीसी/3 757	मेलकोट डाक एवं ग्राम, डोडाबल्लापुर तालुक, बंगलौर ग्रामीण, जिला कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	15-जुला-82
1500	करन सहगल, पुत्र श्री आर.सी. सहगल	एचपीएसवी सी/716/05	सहगल अपार्टमेंट्स, कसुमपटी, शिमला-9, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी /05	07-फर-82
1501	करनबीर सिंह, पुत्र श्री हरजिंदर सिंह	पीबीएसवीसी/2 600/05	ग्राम एवं डाक सरहली कलां, तहसील तरन तारन, जिला अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	24-सित-82
1502	करनबीर सिंह, पुत्र श्री मोनिंदर सिंह	पीबीएसवीसी/2 635/06	ग्राम-कोटला बाथुनगढ़, डाक जाबोवाल, तह. बाबा बकाला, जिला अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/06	09-मई-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1503	कार्तिकेय कुमार राय, पुत्र श्री राम जी राय	यूवीसी / 159 / 06	जे 258, शिवालिक नगर, रानीपुर, हरिद्वार, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच / यूएसबंगलीर / 04	09-जन-79
1504	कथीरिया गोर्धन वजु	गुजएसवीसी / 2 686 / 06	आनंद बाग सोसायटी, गणेश चौकडी के पीछे, आनंद 388001, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच / एसकेडीएयू / 06	01-जून-71
1505	कौशल किशोर रजाक, पुत्र श्री दिनेश्वर रजाक	बिहारएसवीसी / 2320 / 03	ग्राम मिश्रावालिया, डाक चंदन पट्टी, थाना साकरा, सबडिवी. मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएस / 01	10-दिसं-75
1506	कौशल कुमार, पुत्र श्री भोला शरन सिंह	बिहारएसवीसी / 2396 / 03	ग्राम-हसनपुर, डाक दिहरू अकौनी, थाना गोह, सबडिवी. बिरील, जिला दौंडनगर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / एमएंडएफ एसयू / 03	15-अक्टू-77
1507	कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, पुत्र श्री यदुनंदन सिन्हा	बिहारएसवीसी / 2380 / 03	ग्राम-सरायपार, डाक पैठना, थाना इस्लामपुर, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससी / बीएयू / 03	01-मार्च-77
1508	कौशलेंद्र कुमार, पुत्र श्री राम लखन चौधरी	बिहारएसवीसी / 2559 / 04	ग्राम / मुहल्ला-दूधीचाक, अमरौरा, डाक, धरथरी थाना, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएस / 04	01-मार्च-80
1509	कविता धीमन, पुत्री श्री राम नाथ सिंह	यूवीसी / 160 / 06	बी / 1532, टीए कॉलोनी, पंतनगर, उधम सिंह नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच / जीबीपीयूएंडटी / 04	27-जून-82
1510	कविथा कंडीमल्ला, पुत्र श्री वेंकट रेड्डी	एपीएसवीसी / 4405 / 05	वेमुलापल्ली, नालगोंडा जिला -508217, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एमजीआरएयू / 05	04-जून-81
1511	केदारनाथ खासरी, पुत्र श्री क्षेत्र मोहन खासरी	उड़ीसाएसवीसी / 1997 / 05	एटी / डाक.संकेंद्रु गुडा, वाया परला, जिला: कालाहंडी, पिन- 766108, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच / ओयूएंडटी / 05	08-मार्च-80
1512	केहर सिंह, पुत्र श्री केराव सिंह	एचपीएसवी सी / 741 / 05	इंचार्ज, वी.ओ.वी.डी. फगवाड़ा, बंजार जिला, कुल्लु, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / सीएसकेकेवीवी / 05	13-मई-62
1513	करनैल सिंह रीसम, पुत्र श्री धीरज सिंह रीसम	एचपीएसवी सी / 749 / 05	प्रमुख, उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रीय केंद्र, (सीएसडब्ल्यूआर आई), गरसा, कुल्लु, हिमा.प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / उदयपुर वि.वि. / 81	04-अप्रैल-58
1514	केजाविटो वुपक, पुत्र श्री धेपफुहाली	एनएसवीसी / 209 / 06	मेडजीफीमा टाउन, नागालैंड	बीवीएससीएंडए एच / एएयू / 05	15-जून-71
1515	चोकन घोराई, पुत्र श्री सुकुकर घोराई	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3210 / 05	ग्राम: हरेकृष्णपुरम, डाक एस.एस. पटना, जिला मिदनापुर 721169, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएस / 05	10-अग-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1516	किजानारो आयर, पुत्र श्री जेड तुशी आयर	एनएसवीसी/202/05	द्वारा म्साओमेनल आयर, नागागलैंड पब्लिक सर्विस कमीशन, नागागलैंड	बीबीएससीएंडए एच/एएयू/05	04-जून-79
1517	किंकर कुमार, पुत्र श्री विष्णु देव यादव	बिहारएसवीसी/2305/03	ग्राम-बिशारिया, डाक आनंद पुर, थाना अदाकिशनगंज, सबडिवी. अदा किशनगंज, जिला माधेपुरा, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/इन्स्यूबीयूएंडए फएस/02	02-जन-79
1518	किरन भारती, पुत्री श्री हंस राज	पीबीएसवीसी/2598/05	न.न. 102, विकास पुरी,टांडा रोड, जालंधर सिटी, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच/पीएयू/05	10-फर-81
1519	किरनदीप कौर, पुत्री श्री एच. रणवीर सिंह	पीबीएसवीसी/2595/05	जुझुर सिंह नगर, गली न. 3, मटिंडा 151001, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच/पीएयू/05	13-जुला-81
1520	किरनदीप सिंह, पुत्र श्री हरमेल सिंह	पीबीएसवीसी/2598/05	ग्राम एवं डाक राजीनाना, तहसील बागपुराना, जिला मोगा, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच/पीएयू/05	18-10-80
1521	किरनदीप सिंह, पुत्र श्री रविन्दर सिंह	पीबीएसवीसी/2618/05	विरवकर्मा धरमशाला के निकट, मोगा रोड, कोटकपुरा, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच/पीएयू/05	09-मार्च-81
1522	किशोर के.	केरल/3002/05	दीपती, मुलक्कारा, मन्गुथी डाक, त्रिस्सूर- 680851, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/05	18-12-80
1523	किशोर कुमार के.जे.	केरल/3102/05	कलापुरकल हाउस, कडानड डाक, कावुमकंदन, कोट्टायम, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/05	09-जन-79
1524	किशोर एस.	केरल/3065/05	कोआसेरिल हाउस, रेलवे क्रॉसिंग के निकट, मूलेडम, कोट्टायम, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/05	20-जन-81
1525	क्लेयोफा प्रथिपति, पुत्र श्री दयारत्नम	एपीएसवीसी/4326/05	प्रथीपडु, गुंटूर जिला 522019, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	17-अग-82
1526	कोडगंटी श्रीधर बाबू (के. रघुवुलु चेट्टी)	टीएनएसवीसी/1531/05	5, मेन स्ट्रीट, पल्लीपत, 631207, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/ 86	06-जून-83
1527	कोकिलाप्रभाकरन, पत्नी (बी. प्रभाकरन)	टीएनएसवीसी/1593/05	प्लॉट न. 15, भारती नगर, रानीपेट, वेळोर जिला 632403, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/ 87	06-फर-84
1528	कोमुरु डिल संदीप, पुत्र श्री सत्यनारायण	एपीएसवीसी/4374/05	न.न. 5-3-298, शांति नगर, खम्मम 507003, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	04-मार्च-82
1529	कोनेटी हेमा कुमार, पुत्र श्री के. सुब्रह्मण्य राजू	एपीएसवीसी/4369/05	न.न. 1-80, एसबीआर पुरा, धिस्सूर जिला- 517571, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	19-मई-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1530	कोप्पारापु सुरेखा, पुत्री श्री के. सूर्यनारायण	एपीएसवीसी/43 36/05	3/1245, कोऑपरेटिव कॉलोनी, कडपा-516001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/ 05	12-जून-82
1531	कोराडा आशा किरन, पुत्री श्री वैकुण्ठेश्वर राव	एपीएसवीसी/44 14/05	6-1-53, पलाकौंडा रोड, श्रीकसकुलम 532001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/ 05	21-नव-81
1532	कोरसापति सक्ष्मी, पुत्री श्री जयामइयाह	एपीएसवीसी/44 19/05	म.न. 3485, फेस।।, भेल, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद 502032, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/ 05	18-जुला-82
1533	कोरुथ जोहानसी (एम. कोरुथ)	टीएनएसवीसी/1 596/05	बी-48, टीएनएचबी क्वार्टर्स, कराई, रानीपेट, वेल्लोर जिला 832404, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	22-दिस-83
1534	कुमारी जयंत, पत्नी (एम. जय प्रकाश)	टीएनएसवीसी/1 608/05	25, इथिराज स्ट्रीट, राजाजी नगर, पल्लावरम, चेन्नई 600043, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	27-अप्रैल-77
1535	कृष्ण कुमार सिंह, पुत्री श्री रंग बहादुर सिंह	बिहारएसवीसी/2 578/08	ग्राम/मुहल्ला-अहिनौरा, डाक हरिनाथपुर, थाना-मोहनिया, सबडिवी. मोहनिया, जिला- कैमूर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/04	21-अप्रैल-74
1536	कृष्ण कुमार शर्मा, पुत्र श्री शिव चरन शर्मा	यूवीसी/89/08	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट. हाफस्पिटल, जैजित, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/आईजीकेवी वी/00	21-मई-78
1537	कृष्ण प्रसाद मुरुगोडला, पुत्र श्री वैकुण्ठेश्वर	एपीएसवीसी/43 68/05	प्लॉट न. 54 के सामने, रामकृष्ण नगर, नवाबपेट, नेल्लोर-2, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/ 05	19-दिस-80
1538	कृष्णा राव सिगिलेपल्ली, पुत्र श्री नारायण राव	एपीएसवीसी/43 13/05	टेलीफोन एक्सचेंज, कोटाबोमाली 532195, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/ 05	05-जून-83
1539	कृष्णा टी., पुत्र श्री लिंगइयाह	एपीएसवीसी/43 06/05	प्लॉट न. 111, गायत्री टावर्स, तरनाका, सिकंदराबाद 500017, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी/एपीएयू/0 5	15-जून-48
1540	कृष्णाकांत सिंह, पुत्र श्री सिगेश्वर प्रसाद सिंह	गुजएसवीसी/26 29/06	ग्राम हरबा, डाक जगदीशपुर, जिला भागलपुर, बिहार 813105	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/ 05	05-सित-81
1541	कु. अर्चना शर्मा, पुत्री श्री पी.एन. शर्मा	एमपीएसवीसी/2 302/05	पेन्च न. 2, देवनगर कॉलोनी, मिंड, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/05	30-दिस-79
1542	कु. ज्योति मार्को, पुत्री श्री रामकृष्ण मार्को	एमपीएसवीसी/2 300/05	एमआईजी-6, म.न. 1605, चांदनी एन्कलेव, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर, मध्यप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/05	02-जून-80
1543	कु. मनीषा शर्मा, पुत्री श्री डी.के. शर्मा	एमपीएसवीसी/2	क्वा.न. एच/8, इरिशेशन कॉलोनी, छतरपुर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/05	28-जून-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
		295/05			
1544	के. राखी सोनेल, पुत्री श्री एच.एस. सोनेल	एमपीएसवीसी/2 309/05	313, वैश्रव कॉलोनी, सुरेंद्र पैलेस, भोपाल, मध्य प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/05	10-जुला-77
1545	कु. सरिता मुद्गल, पुत्री श्री महेश चंद मंगल	एमपीएसवीसी/2 310/05	टाउन हॉल के पीछे, जीवाजी गंज, मोरेना, मोरेना, मध्य प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/05	01-जुला-80
1546	कु. शिवा नीमा, पुत्री श्री रद कुमार नीमा	एमपीएसवीसी/2 301/05	1986/1, रामनिवास, एकता विहार कॉलोनी, रतन नगर रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/05	05-जुला-81
1547	कृ. स्मिता पटेल, पुत्री श्री एस.के. पटेल	एमपीएसवीसी/2 290/05	जी-9/9, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/05	17-अग-79
1548	कुलदीप सिंह, पुत्र श्री सुखवीर सिंह	एचएआरएस वीसी/1868	145/3, आजाद नगर, पुराने एचबीसी के निकट, रोहतक, हरियाणा	बीबीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/ 05	30-दिसं-81.
1549	कुमार अमन, पुत्र श्री महादेव यादव	बिहारएसवीसी/2 548/04	ग्राम/मुहल्ला-बाड़ीखंजरपुर, डाक-बाड़ीखंजरपुर, थाना बरारी, सबडिवी. भागलपुर, जिला भागलपुर, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/एमएंडएफ एसयू/04	02-जन-81
1550	कुमार अनंत सागर, पुत्र श्री अरविंद कुमार	बिहारएसवीसी/2 492/04	ग्राम/मुहल्ला-उशमानपुर, डाक टीना, थाना नगरनौसा, सबडिवी. नगरनौसा, जिला नालंदा, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/आईजीकेवी वी/04	01-मार्च-78
1551	कुमार प्रफुल चंद्र, पुत्र श्री बी.पी. महतो	बिहारएसवीसी/2 278/03	ग्राम जादूपरान, डाक जगदीश परान, थाना चकमेहासी, सबडिवी. समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/02	04-जन-79
1552	कुमार प्रशांत, पुत्र श्री समरेंद्र मिश्रा	कर्नाएसवीसी/38 03/	द्वारा दिवाकर कुमार सिंह, बी.जे. कृष्णप्पा बिल्डिंग, अब्बीगेरे मेन रोड, जलाहल्ली वेस्ट, बंगलौर, 560015 कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू /05	12-मार्च-78
1553	कुमार संजीव, पुत्र श्री मंगल चंद्र शाह	बिहारएसवीसी/2 505/04	ग्राम/मुहल्ला-शास्त्री चौक, माथेरघाट, डाक केसवा, सबडिवी. पूर्णिया, जिला पूर्णिया, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/यूएसबंगलौर/0 4	04-दिसं-78
1554	कुमार शंशाक शेखर, पुत्र श्री रामजी पासवान	बिहारएसवीसी/2 361/03	ग्राम अमंडा, डाक लहरिया सराय, थाना लहरियासराय, जिला लहरियासराय, जिलर दरभंगा	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/03	14-मई-77
1555	कुमारी अंजना, पुत्री श्री धरमदेव पोद्दार	बिहारएसवीसी/2 501/04	ग्राम/मुहल्ला-पंजाबी कॉलोनी, गली न.1, डाक समस्तीपुर, थाना समस्तीपुर, सबडिवी. समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/आईजीकेवी वी/03	08-फर-78
1556	कुंज बिहारी शर्मा, पुत्र श्री परशु राम शर्मा	यूवीसी/16/06	वेट अधिकारी, गवर्न. वेट. हाफस्पिटल कैम्पस, गौघर, चमौली, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/01	04-फर-74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1557	कुसुम माला राजशेखर (ई. राजशेखर)	टीएनएसवीसी/1 590/05	न. 66, डिफेंस ऑफिसर्स कॉलोनी, इक्काडुथंगल, चेन्नई 600032, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/84	04-मई-57
1558	कुजेनयी विडियो, पुत्र श्री जाउनयी विडियो	टीएनएसवीसी/1 99/05	द्वारा रुयोसुयी विडियो, नागालैंड असेम्बली सचिवालय, कोमा, नागालैंड	बीबीएससीएंडए एच/एएयू/05	06-अग-80
1559	एल. आनंद पदनाभन (आर. लोगनाथ राज)	टीएनएसवीसी/2 173/05	नया न. 15, पुराना न. 6/2, II स्ट्रीट, डॉ. सुबुरायन नगर, कोडाम्बक्कम, चेन्नई 600024	बीबीएससी/टी एनएयू/74	27-फर-58
1560	एल. आरेश एम. लक्ष्मीकन)	टीएनएसवीसी/1 581/05	2/89 जे, वल्लावर स्ट्रीट, गोविंदराज नगर, बगायम, वेल्लोर 632002, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	22-मार्च-73
1561	एल. एरियल बेनहूर, पुत्र श्री लॉयड जेम्स	टीएनएसवीसी/3 476/06	न्यूट्रीकोन पशु स्वास्थ्य केंद्र, बी4/24, इंडस्ट्रियल एस्टेट, मरईमलई नगर डाक चेंगलपेट, तालुक	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	02-जुला-72
1562	एल. अरुण पी. लोगनाथन)	टीएनएसवीसी/6 39/05	त्रिवी रोड, विरागनूर डाक, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला, पिन 636116, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	27-जून-82
1563	एल. अरुण कुमार (टी. जी. लक्ष्मीपति)	टीएनएसवीसी/6 42/05	देवकी इल्लम, अद्यानूर, वैद्य नाथन(पेट्टई)डाक, थिरुवड्यरु वाया, थंजावूर 613203	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	20-फर-72
1564	एल. अरुणा रानी, पुत्री श्री लोगनाथन	टीएनएसवीसी/3 510/06	आईबी, येरकॉड मेन रोड, सेंट्रल जेल के सामने, थिरु नगर, हस्थमपट्टी सलेम 636007, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	25-अप्रैल-74
1565	एल. डारविन (सी. लॉरेंस)	टीएनएसवीसी/1 804/05	प्लॉट न.11/16, एम.एल. पिल्लई नगर, पलायमकोट्टई, तिरुनेल वेली 627002, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	04-मई-77
1566	एल. दुराईमुक्कन (पी. लक्ष्मनन)	टीएनएसवीसी/4 45/06	सेपेटाई ग्राम, डाक 604152, जिजी तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	03-जून-82
1567	एल. गणेश लक्ष्मनराजन, पुत्र श्री लक्ष्मनन	टीएनएसवीसी/3 457/06	931/19, 8वीं स्ट्रीट, अशोक नगर, द्यूटिकोरिन 629006, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/84	04-फर-60
1568	एल. गिगि केंद्रलिन (डी. ए. लक्ष्मन)	टीएनएसवीसी/1 16/03	एमआईजी-16, नोलाम्बूर स्कीम, दूसरा मेन रोड, छटा क्रॉस स्ट्रीट, मोगापेर प., चेन्नई 50, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	14-अप्रैल-80
1569	एल. गुणासेकरन (के. लक्ष्मनन)	टीएनएसवीसी/1 960/06	2, नेहरू नगर, उत्तरी उदयार पलायम, अददूर डाक व तालुक, पिन 636102, सलेम जिला तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/81	27-फर-58
1570	एल. जॉन प्रभाहर (ए. ल्यूकास)	टीएनएसवीसी/1 099/05	5, पुराना कोयावर पलायम, III स्ट्रीट, मदुरई 625009, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/87	11-मई-62

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1571	एल. लोगनाथन (के. लिंगीचेट्टी)	टीएनएसवीसी/1 902/05	4/662, टीचर्स कॉलोनी, धर्मपुरी 636701, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/76	01-फर-53
1572	एल. मनिवन्नन (के.आर. लक्ष्मनन)	टीएनएसवीसी/1 148/05	थोट्टिया पट्टी, सी.एस. पुरम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल पिन-637401, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	25-जुला-83
1573	एल. नागराजन (जे. लिंगन)	टीएनएसवीसी/2 827/05	3/2, कांवीबिककई ग्राम, कुंडाह-त्रिज डाक, नीलगिरि 643219, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/81	01-जुला-58
1574	एल. पलानीवेल (एस. लक्ष्मना गौडेर)	टीएनएसवीसी/2 657/05	एचआईजी-बी-75, टीएनएचबी कॉलोनी, गांधीग्रामम, करूर, पिन 639004, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	02-मार्च-59
1575	एल. राजेंद्रन (पी.एम. लक्ष्मनन)	टीएनएसवीसी/1 973/05	2/233-बी, थांडे कुप्पम, एसकेएम फीड गोडाउन बिल्डिंग, चेन्नई बाईपास रोड, कृष्णागिरि पिन 835001	बीवीएससी/टी एनएयू/67	13-मई-84
1576	एल. रामालिंगम (टी.पी. लक्ष्मनन)	टीएनएसवीसी/2 809/05	थालीकोट्टई डाक, वडासेरी एसओ, मन्नारगुडी तालुक, थिरुवरूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/7 3	15-मार्च-49
1577	एल. रंगासामी (पी. लक्षसुमनन)	टीएनएसवीसी/2 859/05	इदिरा नगर, कासीपलायम डाक, गोबी तालुक, इरोडे जिला 638454, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	03-मई-66
1578	एल. सक्तिवेल (पी.एम. लक्ष्मनन)	टीएनएसवीसी/2 502/05	पलक्करई डाक, थूडुप्पथी वाया, पेरंडुराई तालुक, इरोडे जिला, 638057, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	25-मार्च-74
1579	एल. स्टीफन (आर. लॉरेंस)	टीएनएसवीसी/2 23/03	कुजन्नादिल, चेपोनविलई, कन्याकुमारी जिला 629177, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	15-मार्च-80
1580	एल. सुचिन्दर (टी.ए. लक्ष्मनासामी)	टीएनएसवीसी/2 748/05	बी-2, थिलाकेश अपार्टमेंट्स, न.1, रंगनाथन स्ट्रीट, राधा नगर, क्रोमपेट, चेन्नई 600044	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	23-मई-78
1581	एल. चंदिरा राजू (एम. लिंगप्पा गौडेर)	टीएनएसवीसी/1 757/05	कोलाक्कडु थाथइयंगारपट्टी डाक, कराईकुची वाया, नमक्कल-637014, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	20-जून-51
1582	एल.जी. मनिवन्नन (एल. एस. गणेशन)	टीएनएसवीसी/1 322/05	2/4, बाजार स्ट्रीट, लालीगाम डाक, धर्मपुरी जिला, पिन: 63680, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	27-जून-72
1583	एल. हेमा, पुत्र श्री एम. लोगनाथन	टीएनएसवीसी/3 373/06	पूसारीपट्टी डाक, पन्नापट्टी वाया, ओमालूर तालुक, सलेम जिला 636305, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	26-अक्टू-80
1584	एल.आर. राधाकृष्णन (एल.ई. रामासामी)	टीएनएसवीसी/2 183/05	2, कृष्णन कोइल साउथ स्ट्रीट, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली 627002, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/69	19-जुला-48
1585	एल.एस. मोहिदीम पिल्लई (एल.के. शेकुदुमन)	टीएनएसवीसी/3 081/05	101/2/16, कलंदर मस्तान स्ट्रीट, कडायानल्लूर 627751, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/65	07-फर-62

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1586	लक्ष्मी प्रवीणा यरू, पुत्री श्री राजगोपाला राव	एपीएसवीसी/43 98/05	डोर न. 7-4-20, भवनम वारी स्ट्रीट, गंगानमपेट, तेनाली 522201, गुंटूर जिला, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एनजीआरएयू/0 5	11-दिसं-80
1587	लक्ष्मीकांत, पुत्र प्रसाद	बिहारएसवीसी/2 397/03	ग्राम-किवई, डाक जैथपुर, थाना चंडी, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/जेएनएयू/ 03	01-मार्च-77
1588	ललन कुमार वैद्य, श्री बालेश्वर वैद्य	बिहारएसवीसी/2 427/04	ग्राम एवं डाक- शिवकत, थाना बरारी, जिलर कटिहार, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडए फएस/03	15-नव-75
1589	ललित कुमार, पुत्र श्री बालेश्वर नारायण यादव	बिहारएसवीसी/2 275/03	ग्राम:पदमा, डाक पदमा, थाना लाडियान, सबडिवी. जयनगर, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/00	12-मार्च-78
1590	लललिता कुमारी, पुत्री श्री श्याम सुंदर साह	बिहारएसवीसी/2 526/04	ग्राम/मुहल्ला- कसबा, डाक कसबा, थाना कसबा, सबडिवी. पूर्णिया, जिला पूर्णिया, बिहार	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	14-मार्च-80
1591	लालजी सिंह यादव, पुत्र श्री बाली किरन सिंह यादव	यूवीसी/59/08	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट. हाफस्पिटल, रायमेर, बारेट, जिला उत्तरकाशी, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेई पीवीवी/98	10-जुला-70
1592	लालनुथंगा रॉयटे, पुत्र श्री आर. छुआखमा	त्रिपुरावीसी /16 2/05	वांघमुन, जमुई हिल्स, नॉर्थ त्रिपुरा, पिन 799269, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडए एच/सीएयू/ 05	11-जून-80
1593	लांसी मामन (के.पी. मामन)	टीएनएसवीसी/1 597/05	बी-48, टीएनएचबी क्वार्टर्स, करई, रानीपेट, वेल्लोर जिला 632404, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	07-दिसं-63
1594	लवकुश कुमार, पुत्र श्री सच्चिदानंद सिन्हा	बिहारएसवीसी / 2573/04	ग्राम/मुहल्ला- डेकपारा, डाक मोरे तलाब, थाना रहुई, सबडिवी. बिहारशरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 04	04-जुला-75
1595	लक्ष्मण सिंह, पुत्र स्व. श्री मुत्कराज सिंह	बिहारएसवीसी / 2451/04	ग्राम/मुहल्ला-नारायणपुर, डाक-सहियार, थाना सिमरी, सबडिवी. दुमरांव, जिला बक्सर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 04	25-दिसं-72
1596	लक्ष्मी नारायण संखला, पुत्र श्री दीप	राजएसवीसी /3 213/06	नाथुसार का. बास, मालियों का. मौहल्ला, बीकानेर राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 05	16-जुला-79
1597	लुब्रेटा निरखा, पुत्र ले. पुरुसा निरखा	एनएसवीसी // 207/06	द्वारा. एन. कौला एलडीए, पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) चीफइंजीनियर, नागालैंड	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/06	13-मई-80
1598	लीजु बी.जे.	केरल /3038/ 05	लिजु निवास, गवर्न.हॉस्पिटल, थिदूर डाक, पलक्कड 678101, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	10-दिसं-80
1599	लरेहित कुमार वी., पुत्र श्री थिप्पेसामी	कर्नाएसवीसी /3 773/	पानी की टंकी के निकट, वेदावथीनगर, हिरियूर तालुक, थिन्नदुर्गा 572444, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	02-जन-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1600	लोकेश एल.वी., पुत्र वेंकटप्पा	कर्नाएसवीसी/3 701/	लक्ष्मीपुरा, बिसालेहल्ली डाक, कडुर तालुक, चिक्कमंगलौर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/यूएसबंगलौर /04	06-मई-80
1601	लॉगेर ओनेन आओ, पुत्र ले. तेमसुटोबा	एनएसवीसी/20 3/05	द्वारा:ए. यिनला इमसांग ट्रेसर (पीडब्ल्यू) हाउसिंग न.11, सबडिवी. डीएमपी, नागालैंड	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/05	02-फर-74
1602	लव प्रीत सिंह, पुत्र श्री फकीर सिंह	पीबीएसवीसी/2 611/05	आर.न. 17, म.न. 3, गुरु अंगद देव वेट. वि. श्वविद्यालय, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	05-अप्रैल-81
1603	लोजोहोल रिटसो, पुत्र श्री विपवेल रिटसो	एनएसवीसी/20 1/05	किक्करोपाल, जॉन आईओसी पेट्रोल पम्प, एनएच 39, मोहोन खोला, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/05	15-फर-75
1604	ले.कर्म. अश्विन गोयल, पुत्र श्री प्रेम प्रकाश	एसएआरएस वीसी/1897	1, हरियाणा, आर एंड वी स्वै. एनसीसी, सीसीएस, एचएयू, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएस एचएयू/92	05-जून-68
1605	एम.ए. रविचंद्रन (एम. अन्नामलई)	टीएनएसवीसी/ 371/04	न. 14, शंकर नगर, शोलिंगूर, वालजा तालुक, वेल्लोर जिला, पिन 631102, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/04	01-जुला-61
1606	एम. अब्बास (वी. मौहम्मद इस्माइल)	टीएनएसवीसी/ 88/03	175-एफ/748, महमूदनगर, मेला, कंडायनल्लूर डाक, तिरुनेल वेली जिला 6277, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/03	13-मार्च-80
1807	एम. अब्दुल रहमान (एम. मौहम्मद मुस्तफा)	टीएनएसवीसी/ 1460/05	5, सरोजिनी स्ट्रीट, तहसीलदार नगर, धमाराईकुलम, पेरिया कुलम, धेनी जिला, पिन 625602	बीवीएससी/ टी एनएयू/88	10-मार्च-66
1608	एम. अकिलास, पुत्र (के. एम. मुनुसामी)	टीएनएसवीसी/ 3414/06	1/310, अकिला नीलायम, कुल्लानूर, कलेक्टेर डाक, धर्मपुरी 636705, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/05	17-जुला-63
1609	एम. अकिलराज, पुत्र श्री एम. मूवेदंन	टीएनएसवीसी/ 3452/06	अलामेलपुरम डाक, पाप्पेरुडडी पेट्टी तालुक, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/01	25-मई-77
1610	एम0 अलगुमुथु, पुत्र श्री एम. मुंडन	टीएनएसवीसी/ 3454/06	मपीलईयुरानी वेटरीनरी डिपेंसरी, मपिलईमनि, थूथुकुडी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/86	07-जन-62
1611	एम. अलामेलु, पुत्र श्री आर. थंगाराज	टीएनएसवीसी/ 3462/06	155, गांधी स्ट्रीट, ओलापलायम, नागदेवनपलायम डाक, गोबी तालुक, इरोडे जिला 638476, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/92	29-मई-69
1612	एम. अलेक्जेंडर (ए. मनोहरन)	टीएनएसवीसी/ 776/05	5/73, अम्बेडकर नगर, रेड्डीपेट्टी, सलेम 636302, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/92	23-जून-69
1613	एम. आनंद चित्रा, पत्नी श्री एन. सुब्बइयन)	टीएनएसवीसी/ 948/05	226, अन्ना ग्रामम, नेवेली इंदिरा नगर के सामने, गांधी नगर, वडाकुथु वाया 607308, कुडालूर जिला	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/97	14-अप्रैल-74
1614	एम. आनंदी (ए. मैलाप्पन)	टीएनएसवीसी/ 43/03	न. 5-1/75, न्यू कॉलोनी, सिंगमपुरारी 630502 सिवगर्गई जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/03	02-जून-77

क्र.सं.	नाम	बंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1615	एम. अम्बलामन (पी.के. मरिमुथु)	टीएनएसवीसी / 1028/05.	48,10वां वार्ड, वेस्ट कार स्ट्रीट, धारमंगलम डाक, सलेम जिला, ओमालूर तालुक 636502	बीवीएससी / टी एनएयू / 89	01-मई-64
1616	एम. अम्बारासु, पुत्र श्री एम. मुथु	टीएनएसवीसी / 3336/06	के.के. नगर, ऊनाथूर डाक, अददूर तालुक, सलेम जिला- 636112, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	09-जुला-82
1617	एम. अम्बूराजा (वी. महासिंगम)	टीएनएसवीसी / 417/04	पंडुवाक्कोट्टई ग्राम, मारुथन कोने विद्युति डाक, गंदर्वकोट्टई तालुक, पुडुकोट्टई जिला, पिन 622302	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	16-अप्रैल-81
1618	एम. अनवरदीन (एम. मीरा हुसैन)	टीएनएसवीसी / 2569/05	58, नेताजी स्ट्रीट, संकर मिल लेन, धर्मापुरम, 638656, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 87	01-मई-64
1619	एम. अरासु शारवन्न (एम. मरुप्पन)	टीएनएसवीसी / 158/03	13, महेंद्रपुरी, सलेम 636008, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 03	10-अग-76
1620	एम. अरविथन, पुत्र श्री टी. मारीमुथु	टीएनएसवीसी / 3442/06	596, माथीइल्लम, पेरियार नगर, सचूर 626203, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	15-जून-73
1621	एम. अरुलमनि (एन. मूकन)	टीएनएसवीसी / 3208/05	पेरुमथूर ग्राम एवं डाक, वेप्पूर वाया, कुनम तालुक, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 79	13-अप्रैल-54
1622	एम. अरुणा पंडा, पत्नी (मनोज मुरली)	टीएनएसवीसी / 251/04	63-बी, वेलाचेरी रोड, चेन्नई 600032, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	23-जुला-72
1623	एम. अरुण बोस एस. मरियादास)	टीएनएसवीसी / 774/05	न. 58, वी.वी. कोइल स्ट्रीट, वल्लाजबाद 631605, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	30-जून-76
1624	एम. असाईथम्बी (टी. मुथुगांडेर)	टीएनएसवीसी / 2596/05	27ए, पल्लार स्ट्रीट, इडापडडी डाक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 86	03-मई-54
1625	एम. अशोक कुमार एस. मरिमुथु)	टीएनएसवीसी / 2992/05	मनिविलुंडन साउथ पुडुर, मनिविलुंडन डाक, अददूर तालुक, सलेम जिला 636121, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	07-अक्टू-82
1626	एम. असोकन (एन. मथुकरप्पन)	टीएनएसवीसी / 1136/05	13, 11 ब्लॉक, काची नगर, देवाकोट्टई रस्ता, कराईकुडी 630005, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 80	08-अप्रैल-55
1627	एम. अय्याडोरई (एस. मसानम करयालूर)	टीएनएसवीसी / 2110/05	प्लॉट न. 182, एम.जी. नगर, पार्ट II व III, उरपक्कम वेस्ट, कांचीपुरम 603202, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 95	10-मई-56
1628	एम. बाबू (आर. मरुधुकासी)	टीएनएसवीसी / 579/05	कोट्टियाल डाक, टी. पलूर वाया, उडयारपलायम तालुक, पेराम्बलूर जिला 612904, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	08-जुला-81
1629	एम. बागथ (मथियालगान)	टीएनएसवीसी / 23/02	थलई नगर, थालुथलई डाक, पेराम्बलूर जिला 621103, तमिलनाडु	बीवीएससी/एंड एच / पीयू / 02	27-मार्च-80
1630	एम. बालाचंद्रिन (मुथना मूर्ति)	टीएनएसवीसी / 87/03	न. 9, (पुराना न. 49जी2), 5वीं स्ट्रीट, सुब्रमनिया राजा नगर, मदुरई रोड, सिवांगई, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 87	01-जून-60

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1631	एम. बालाजी (एम. मुरुगेशन)	टीएनएसवीसी/ 842/05	34, उत्तरी मोहमदियार स्ट्रीट, सेंदामंगलम 637409, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/98	19-जून-74
1632	एम. बालामुरुगन (पी. माथेशन)	टीएनएसवीसी/ 1431/05	पेरियाकदमपल्ली डाक, थारमंगलम वाया, ओमालूर तालुक, सलेम जिला 636502, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/97	10-जून-74
1633	एम. बालामुरुगमण्यन (एस. मारुथनायगम)	टीएनएसवीसी/ 2374/05	पलापट्टी, पोन्नमबालमपट्टी डाक, वैयमपट्टी वाया, मनपरई तालुक, त्रिची जिला 621315, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/92	18-फर-89
1634	एम. बालू महेंदिरन (पी. मनोहरन)	टीएनएसवीसी/ 127/03	करानूर कुथाराईचंडल डाक, कल्लाकुरिची तालुक, विल्लुपुरा 606202, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/03	03-जून-80
1635	एम. भारती (बी. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी/ 3079/05	एच50, एचआईजी, फेस VI, टीएनएचबी, पोन्विजा नगर, डाक महाराजनगर तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/85	24-अग-89
1636	एम. चंद्र सेखर (के. मरियप्पन)	टीएनएसवीसी/ 631/05	106/1, मरिअम्मन कोइल स्ट्रीट, पीवीआर थिएटर ईस्ट, नम्बियूर, इरोडे जिला, पिन 638458, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/05	12-नव-81
1637	एम. चंद्रसेखरन (के. मुथुसिगम)	टीएनएसवीसी/ 1409/05	216, विरुनायुक्कपाडु नगर, अददूर डाक व तालुक, सलेम जिला, पिन-636102, तमिलनाडु	बीबीएससी/ एमयू/ 73	05-जन-48
1638	एम. चंद्रम (एस. मनिक्कम)	डीएनएसवीसी/ 1097/05	5/32, अरुमुगा नगर, अलगपुरम, सलेम 639016, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/74	01-जुला-82
1639	एम. चंद्रसेकर (पी. मुनिस्वामी)	डीएनएसवीसी/ 2848/05	फॉक न. 13, राजम नगर, इजमन्नकम, चेन्नई 600041, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/93	04-जून-70
1640	एम. चंद्रसेखरन (एम. मारुथनायगम)	टीएनएसवीसी/ 1681/05	17, बंडराल स्ट्रीट, पार्वतीपुरम, मुत्तुरी, त्रिची जिला, 621211, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/78	31-दिस-89
1641	एम. चंद्रसेखरन, पुत्र श्री के. मरय्यन	डीएनएसवीसी/ 2284/05	धनगलिपुल्लायम, अर्नापुरम डाक, नमक्कल तालुक एवं जिला, पिन 627003, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/05	05-जून-89
1642	एम. चिन्नापुरई मणिधाम (एम. मन्नाजी)	डीएनएसवीसी/ 3047/05	न.3, III नेन रोड, आईआईटी कॉलोनी, पञ्चकनई, चेन्नई 601302	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/94	09-मई-87
1643	एम. डेविड (पी.ए. मरियाजी)	टीएनएसवीसी/ 3149/05	47, III क्रॉस, पारितुथम नगर, अंजावूर 613007, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/81	05-जन-88
1644	एम. देवेन्द्रिन (जी. मुथुसामी)	डीएनएसवीसी/ 1087/05	न.12, के.के. नगर, तमिलनाडु नार्थटाइल बैंक के सामने, गे.सीके, ब्रैकवॉक नेन रोड, सलेम 636008	बीबीएससी/ टी एनएयू/88	08-अप्रैल-81
1645	एम. धयानिधि (एम. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी/ 1927/05	एफ.एम. क्वार्टर्स, जी-5, मेट्टूर डैम 636401, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/80	16-अप्रैल-85

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1646	एम. दुराईपंडियान (एन. मारीमुथु)	टीएनएसवीसी / 2154 / 05	4 / 412-3, कलईवानी इल्लम, एम.जी.आर. नगर, कुल्लानडकन पलायम डाक, इरोडे 638006, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 93	03-जून-70
1647	एम. दुराईसामी (ए. मुरुगन)	टीएनएसवीसी / 1726 / 05	65, कृष्णामूर्ति नगर, सिमको मीटर्स लि. के सामने, के.के. नगर, त्रिची 21, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 86	01-जून-59
1648	एम. इलैयाभारती (जी. मनिवेल)	टीएनएसवीसी / 3337 / 06	धम्मनमपट्टी, लालीगाम डाक, धर्मपुरी जिला एवं तालुक 636804, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	05-मार्च-83
1649	एम. इलइयाराजा (एन. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी / 1993 / 05	7 / 51ए, कृष्णा नगर मेन, अम्मापेट, सलेम-3, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	19-जून-77
1650	एम. इलांचेलियन, पुत्र श्री एस. मरुधामुथु	टीएनएसवीसी / 3406 / 06	अन्नाई इल्लम, 6, पूंगा नगर, वी.आर. पुरम, कोयम्बतूर 641015, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 78	05-मार्च-54
1651	एम. इलांगोवन (एन. मारीमुथु)	टीएनएसवीसी / 2544 / 05	डोर न.4/412-3, कलईवानी इल्लम, एम.जी.आर. नगर, कुल्ला नकीकेन पलायम डाक, इरोडे 838008	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 90	17-मई-57
1652	एम. इलांगोवन (पी. मनिक्का मुदलियार)	टीएनएसवीसी / 2080 / 05	58, अंधनगरई स्ट्रीट, नेमिली 631051, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 76	07-मार्च-63
1653	एम. इलवाराडु (पी. मारी)	टीएनएसवीसी / 2466 / 05	सम्बरमपट्टु पूटई डाक, संकरापुरम तालुक, विल्लुपुरम जिला, 606401, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	15-जून-72
1654	एम. इसाकी राजन (पी. मूकंडी)	टीएनएसवीसी / 257 / 04	42, उल्लइयड, नजारथ 628617, ट्यूटिकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	19-सित-79
1655	एम. इथिराजन, पुत्र श्री जी. मुरुगन	टीएनएसवीसी / 3484 / 06	कोडीपथी वाया, कौंडानूर डाक, पोचमपल्ली तालुक, कृष्णागिरि, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	20-मई-82
1656	एम. गणपति राज (आर. मुरुगेशन)	टीएनएसवीसी / 10 / 02	122, मेन रोड, ओलागडम 638314, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 02	06-मई-76
1657	एम. गनेसन (ए. मइयप्पन)	टीएनएसवीसी / 3152 / 05	15ए, कट्टूर, अलाचेमपलायम डाक, इडापडडी तालुक, सलेम जिला, पिन-637101, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 94	20-जुला-70
1658	एम. गनेसन (आई. मुरुगइय्यन)	टीएनएसवीसी / 3254 / 05	2/39, मारुदुर नोर्थ डाक, वडरा नियम तालुक, नागपट्टिनम जिला, पिन 614714, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	15-मार्च-68
1659	एम. गनेसन (एस. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 2729 / 05	कोलाथुपलायम, एम.पिडारीयूर डाक, चेन्नीमलई 638051, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	03-जून-73
1660	एम. गोबी (डी. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी / 2618 / 05	न. 34, पप्पनकुलम, पुराना जिंजर रोड, विल्लुपुरम 605602, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 86	12-जून-61
1661	एम. गोविंदसामी (पी. मन्नार गौडेर)	टीएनएसवीसी / 1895 / 05	मारीगौडेर सीलूर, पन्नेश्वरमदम डाक, कावेरीपटनम, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 80	06-अप्रैल-57

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1662	एम. गोविंदासामी (ए.के. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी/ 2592/05	53, अथानी रोड, सध्यामंगलम 638401, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 66	10-जून-40
1663	एम. गौधमन (एल. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी/ 239/04	डोर न. 3, अन्ना नगर, कडाचनाल्लूर डाक, इरोडे 638008, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/04	04-जन-80
1664	एम. गुणासेकरन (पी. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी/ 1306/05	अम्मापलायम पुडुर, अग्रहरम डाक, गुरुसामीपलायम वाया नमक्कल 637403, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/95	23-अप्रैल-71
1665	एम.हाजी मोइनुद्दीन सिद्दिकी (एम.के. मस्तान)	टीएनएसवीसी/ 133/03	26, पोलाची रोड, अन्नामलाई 642104, पोलाची तालुक, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/03	05-जून-79
1666	एम. हरिहरन (ए. मदेश्वरन)	टीएनएसवीसी/ 383/04	बी-6, टीएनएचबी, नरसिंगपुरम डाक, अट्टूर तालुक, सलेम जिला 636108, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/04	20-जन-80
1667	एम. जय आनंद (एस. मरियाडॉस)	टीएनएसवीसी/ 199/03	न. 56, वी.बी.कोइल स्ट्रीट, वलाजबाद 631605, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/03	09-सित-78
1668	एम. जयाचंद्रन (पी. मरियप्पन)	टीएनएसवीसी/ 232/04	10 बी.सांगिली पाडयाची लेन, थुरईयूर 621010, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/61	15-मई-56
1669	एम. जयाचंद्रन (पी. मरियप्पन)	टीएनएसवीसी/ 1629/05	10 बी.सांगिली पाडयाची लेन, थुरईयूर 621010, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/61	15-मई-56
1670	एम. जयकुमार (पी. मरियप्पन)	टीएनएसवीसी/ 295/04	थोट्टा कडु, इरायमपट्टी, बोम्पापट्टी डाक, टी. गोडु तालुक, नमक्कल जिला 637212, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/04	30-जुला-81
1671	एम. जयंति, पुत्र श्री पी. मुरुगेशन	टीएनएसवीसी/ 3359/08	थूथीकुलम डाक, के.एन. पट्टी वाया, नमक्कल जिला पिन 637404, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/05	05-जून-82
1672	एम. जय प्रकाश (जी.ई. मूर्ति)	टीएनएसवीसी/ 1693/05	डोर न.4/3/29 बी.पूचनकोट्टई लेन, कृष्णन कोइल स्ट्रीट, सलेम 636001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/02	14-मई-77
1673	एम. जयावेल (आर. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी/ 285/04	कन्नमपिलथोट्टम, इसापरियूर, नागलूर डाक, अधियूर वाया, इरोडे जिला पिन 638501	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/04	12-जून-79
1674	एम. जयाकुमारी (पत्नी श्री एम. करुपड्याह)	टीएनएसवीसी/ 3176/05	न. 36ए, भारती नगर, मेट्टु स्ट्रीट, मेन रोड, कोविलपट्टी 628501, थोट्टुकुडी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/98	25-मई-75
1675	एम. जय प्रकाश (एम. मनि)	टीएनएसवीसी/ 1510/05	न. 25, इथीराज स्ट्रीट, राजाजी नगर, पल्लावरम, चेन्नई 600043	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/01	29-मई-75
1676	एम. जयारमन (के. मनिमुथु)	टीएनएसवीसी/ 1096/05	करिसलपट्टी, करुमथुर डाक, उसीलनपट्टी, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/92	30-मई-86
1677	एम. जोथी लक्ष्मी (ए. मनि)	टीएनएसवीसी/ 136/03	7/41, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, सेंदुरई तालुक, पेराम्बलूर जिला 62171, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/03	24-मार्च-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1678	एम. के. सूरनम (एम.पी. कंडासामी)	टीएनएसवीसी / 452/05	क्लॉथ मर्चेट, ओटांकुथिरई मेन रोड, इरोडे 638455, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	09-दिसं-80
1679	एम. कलीराज (टी. मुरुगन)	टीएनएसवीसी / 612/05	सम्पत मैच वर्क्स, दुर्गा नगर, कुरुविकुलम, संकरन कोविल तालुक, तिरुनेलवेली पिन 627754	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	02-मई-79
1680	एम. कमलकन्नन (सी. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 1887/05	वीचारी करई, अन्नईपलायम डाक, रासीपुरम तालुक, जिला नमक्कल 637401, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	09-जून-73
1881	एम. कंडासामी (एन. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 1401/05	87, रामचंद्रनगर, इम्पायर, कलईकुरिची, पिन-606202, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	10-मई-67
1882	एम. कनियप्पन (एस. मदासामी)	टीएनएसवीसी / 1129/05	अरासरबी, भगवतीपुरम रोड, पुलयारई डाक, शेनकोटाह तालुक, नेल्लई जिला 627813, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 84	12-मार्च-80
1683	एम. करीकम चोलान (एस. मरियप्पन)	टीएनएसवीसी / 991/05	150/बी1, नदियम्बल पुरम, मुथुपेट्टई रोड, पददुकोटई 614802, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 84	08-जुला-60
1684	एम. कार्तिकेय राजा (वी. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 1022/05	5/74, थाना मूर्थियूर, वीरप्पन पलायम डाक इडापडडी, सलेम जिला, 637105, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	17-जुला-73
1685	एम. कार्तिकेयन (ए. मोहन)	टीएनएसवीसी / 298/04	सिंगीपुरम डाक, वलापडडी वाया, सलेम जिला, 636115, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	06-जून-80
1688	एम. कविशंकर (एम. मनिक्कासुंदरम)	टीएनएसवीसी / 344/04	करीवालसु, वजईथोट्टम, सिवागिरि, इरोडे 638109, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	24-फर-80
1687	एम. कृष्णामूर्ति (मुनियन)	टीएनएसवीसी / 1575/05	ए.डी. स्ट्रीट, अक्कमपेट, डाक, अक्कमपेट, संकरी तालुक, सलेम जिला 637301, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	12-मई-64
1688	एम. कुलसेखरन (मुनिसामी गौडेर)	टीएनएसवीसी / 3158/05	240/1/1336, उदयारपलायम, उस्सूर, पिन 632105, वेल््लोर तालुक व जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 73	01-जुला-47
1889	एम. कुमार (ए. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 2552/05	262, बाई-पास रोड, वीरप्पन पलायम, थिंडल डाक, इरोडे 638009, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 84	15-सित-59
1690	एम. कुमार (एम. मारी कौडेर)	टीएनएसवीसी / 3288/05	न. 4/11, सन्नथी स्ट्रीट, महलम 604304, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 95	11-फर-70
1691	एम. कुमारस्वामी (एस. मुनि)	टीएनएसवीसी / 2907/05	13, लक्ष्मी कॉलोनी, बाजन मदान स्ट्रीट, कोदटार, नगरकोइल 629002, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 76	05-सित-52
1692	एम. लुकमान अली (एम. मौहम्मद हबीब)	टीएनएसवीसी / 360/04	51-ए/13, 40/13, पुलावर स्ट्रीट, कुम्बम 625516, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	05-अप्रैल-80
1693	एम. लोडुसामी (एस. मरिया एंटोनी)	टीएनएसवीसी / 975/05	न. 335, एचआईजी, हाउसिंग यूनिट, तमिल विश्वविद्यालय कैम्पस, मेडिकल कॉलेज रोड, थंजापुर-5	बीवीएससी / टी एनएयू / 84	12-फर-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1694	एम. मदन गोपाल (के. मुरुगेसन)	टीएनएसवीसी / 85/03	4/3, पुराना हाउसिंग यूनिट, तंजौर 613007, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू/87	06-फर-62
1695	एम. मागेश्वरी (टी. मुनियप्पन)	टीएनएसवीसी / 3088/05	73, श्री सक्ति नगर, तेनकासी 627811, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/91	14-जून-67
1696	एम. महेंद्रन (सी. महालिंगम)	टीएनएसवीसी / 476/05	थेंकाची डाक, जयमकोंडम तालुक, पेराम्बलूर जिला, 612904, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/05	10-मई-81
1697	एम. मलारमथी (एस. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 492/05	6/972, ईबी कॉलोनी, परमाथी रोड, नमक्कल-637001, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/05	10-जून-81
1698	एम. मनिगंडन (टी.पी. मुथुरथिनम)	टीएनएसवीसी / 2672/05	12, अपस्टेयर्स, पेर्वा गौरीपुरम, करूर 839002, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/97	22-जून-72
1699	एम. मनीमारन (जी. मासिलमनि)	टीएनएसवीसी / 202/03	सर्विलागम ग्राम, कदमपुर डाक, जिंजी तालुक, विल्लुपुरम जिला, 604206, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/03	10-सित-79
1700	एम. मनिमारन (एन. मानवलन)	टीएनएसवीसी / 424/05	8 बी, राजापुत्रा स्ट्रीट, कल्लाकुरिची 606202, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/04	10-जुला-80
1701	एम. मंजुला, पत्नी (ए. प्रेमकुमार)	टीएनएसवीसी / 1725/05	318-2, राजीव नगरमनापरई, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/98	30-जून-73
1702	एम. मनोहरन (वी.के. मुरुगेसन)	टीएनएसवीसी / 2776/05	10, थलियट्टम, थिरुमगल नगर, पीलामेडु, कोयम्बतूर 641004, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/76	01-जून-51
1703	एम. मनु (वी.के. मुरुगेसन)	टीएनएसवीसी / 3170/05	26, 12वां क्रॉस, थिरुमाल नगर, पीलामेडु, कोयम्बतूर 641004, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/99	07-अप्रैल-73
1704	एम. माधेश्वरन (ए. मारीमुथु)	टीएनएसवीसी / 1201/05	8/266, गांधी नगर, बी. कोमारपलायम, नमक्कल 638183, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू/83	15-मई-59
1705	एम. मौहम्मद अजी (डॉ. मौहम्मद गौस)	टीएनएसवीसी / 150/03	229, अम्मन कोइल स्ट्रीट, चेन्नई 600001, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/03	09-अप्रैल-80
1706	एम. मौहम्मद इस्माइल (एम. मौहम्मद शरीफ)	टीएनएसवीसी / 2197/05	3/75, जमाजम नगर, साउथ कन्ननकुल्लम, परक्कई 829 601, कन्याकुमारी जिला, त.ना.	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/89	09-मई-67
1707	एम. मौहम्मद खालिद (एम.पी. मौहम्मद)	टीएनएसवीसी / 2200/05	रिदम, सेवंध डे एडवेंटिस्ट चर्च के सामने, वाटर टैंक रोड, नगरकोइल, 629001, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू/89	05-जुला-64
1708	एम. मोहन (टी. मन्नगट्टी)	टीएनएसवीसी / 30/02	4/4, थोट्टी स्ट्रीट, पी.एस. पलायम डाक, पत्तीपैलियन्नूर वाया, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीबीएससी/एंडए एच/पीयू/02	09-जुला-80
1709	एम. मोहन सुंदरम, पुत्र श्री टी.एस. मरप्पा गौंडेर	टीएनएसवीसी / 3319/06	थोट्टीपलायम, थोरानवानी डाक, पेरुन्दुराई तहसील, इरोडे 638110, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/05	02-अप्रैल-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1710	एम. मोहनराज (के. मुथुसामी)	टीएनएसबीसी/ 1175/05	1/68, के.के. वलासु पी. मेट्टूर डाक, मल्लूर वाया, पिन 636203, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला	बीवीएससी/ टी एनएयू/85	12-अप्रैल-62
1711	एम. मुरुगन (टी. मुथुइयाह)	टीएनएसबीसी/ 1896/05	10, इल्ला राजा, मनिक्कम स्ट्रीट, पोलीचलूर, चेन्नई- 600074	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/96	24-फर-73
1712	एम. मुरुगन (वी. मुथुसामी)	टीएनएसबीसी/ 1020/05	ओडीकोडई, ईरवर मूर्ति पलायम डाक, मंगलापुरम वाया, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 636202	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/92	30-जून-68
1713	एम. मुरुगन, पुत्र मनिक्कम श्री पी.	टीएनएसबीसी/ 3458/06	मीनमपल्ली देवेंद्र स्ट्रीट, वयप्पा मल्ली डाक, थिरुचेनगोडु तालुक, नमक्कल 637410, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/05	03-जन-63
1714	एम. मुरुगनथम (एल. मुन्नुसामी)	टीएनएसबीसी/ 511/05	न्यू स्ट्रीट, डाक देवामंगलम, तालुक उदियारपलायम, जिला पेराम्बलूर 612902, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/05	30-जुला-81
1715	एम. मुयगावेल (ए. मुमथुकुमारन)	टीएनएसबीसी/ 1013/05	मुम्मुडी थलईवासल, अददूर तालुक, सलेम जिला, 636112, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/92	25-जुला-69
1716	एम. मुरुगेसन (के. मनि)	टीएनएसबीसी/ 1707/05	1141, मेला इरुथिगौडेनपट्टी, पोइकईपट्टी डाक, मनाप्परई तालुक, त्रिची जिला 621306	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/01	25-अप्रैल-74
1717	एम. मुरुगेसन (के. ममुथु)	टीएनएसबीसी/ 785/05	नॉर्थ थिल्सई नगर, नरसिंग पुरम डाक, अददूर तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/96	18-अप्रैल-69
1718	एम. मुरुगेसन (के. मुथुसामी)	टीएनएसबीसी/ 1171/05	1 ए-5, बाई पास रोड, गौडम पलायम, पी. वेल्लूर डाक, नमक्कल जिला, 636182, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/93	20-अप्रैल-70
1719	एम. मुरुगेसन (एस. मेइक्कम पेरुमल)	टीएनएसबीसी/ 2166/05	3/40, रामनाथपुरम पुडुर डाक, सेंदामंगलम वाया, नमक्कल जिला, 637409, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/00	03-जून-75
1720	एम. मुरुगेसा (के. मेइयालागन)	टीएनएसबीसी/ 578/05	न.9/1, एमएमएम रेड्डी स्ट्रीट जोलारपेट्टई 635851, ल्लौर जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/05	30-दिसं-79
1721	एम. मुरताक अहमद (के. मुनीर अहमद)	टीएनएसबीसी/ 2362/05	2/1, नेशनल नगर, कारुमंडपम, तिरुथिरापल्ली 620001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/ 67	21-दिसं-39
1722	एम. मुथामिल सेल्वन (एन. मथइय्यन)	टीएनएसबीसी/ 312/04	मूंगमपट्टी ग्राम, कुल्लमपट्टी डाक, पोचमपल्ली तालुक, कृष्णा गिरि जिला, 635203, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/04	17-मई-80
1723	एम. मुथुकुमारन (एन. मुरुगाडीस)	टीएनएसबीसी/ 561/05	कीराम्बर, सीथाईमूर डाक, पिन 610203, थिरुकुव्वई तालुक, नागपट्टिनम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/05	09-जुला-82
1724	एम. मुथुकुमारसामी (पी. मुरुगइयन)	टीएनएसबीसी/ 2881/05	22-ए, नॉर्थ मेट्टूर स्ट्रीट, डाक कुरुक्काटनवेरी, थरंगमबाडी तालुक, नागपट्टिनम जिला	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/92	01-मई-66

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1725	एम. मुथुलक्ष्मी (सी. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 589 / 05	मलयालापट्टी, मुल्लुकुरिची डाक, तालुक रासीपुरम, जिला नमक्कल 636142, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 05	25-जून-80
1726	एम. मुथुमीनल (एम. मुथुइयाह)	टीएनएसवीसी / 1699 / 05	कस्तूरी मेटल मार्ट, बस स्टैंड के सामने, सिंगमपुनारी 630502, सिवागंगई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 01	02-जून-76
1727	एम. मुथुरामलिंगम (एस. महालिंगम)	टीएनएसवीसी / 167 / 03	33, नागुनगर, समीकन्नु स्ट्रीट, पेंथानियापुरम, मदुरई 6250, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 03	04-मई-76
1728	एम. मुथुरमन (आर. मलईयंडी)	टीएनएसवीसी / 568 / 05	4, कलियम्मन कोविल स्ट्रीट, अनाइयूर डाक, मदुरई 625017, मदुरई उत्तरी तालुक	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 05	05-मई-77
1729	एम. नचियप्पन (एम. मुथुम्मन)	टीएनएसवीसी / 2976 / 05	कडामुथानपट्टी ग्राम, अलगम नगरी डाक, शवागंगई तालुक व जिला, 623553, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 91	02-जून-68
1730	एम. नागराजन (आर. मुरुगेशन)	टीएनएसवीसी / 164 / 03	डी.न.32, डब्ल्यू / 12, थोटिटयार स्ट्रीट, गुडालूर डाक, 625518, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 03	23-जून-79
1731	एम. नंदकुमार (एम. मुरुगन)	टीएनएसवीसी / 1881 / 05	17-7 / 48, टीचर्स कॉलोनी, थारमंगलम डाक, सलेम जिला, 636502, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 01	01-जून-76
1732	एम. नटराजन (पी. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 1189 / 05	एम 1 / 22, मुलई नगर, टीएन एचबी कॉलोनी, मोहनूर रोड, नमक्कल 63701, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 87	12-जून-64
1733	एम. नजीर (के. मोहिदीन पिल्लै)	टीएनएसवीसी / 2139 / 05	3 / 74, एन.जे. कॉंटेज, जमजम नगर, पराक्कई रोड, कन्याकुमारी जिला 629601, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 82	07-अप्रैल-60
1734	एम. निस्थार, पुत्र श्री के. ए.ई. मोहम्मद हनीफा	टीएनएसवीसी / 3473 / 06	17-ए, साउथ स्ट्रीट, तिरुपलई कुडी डाक, रामनद जिला, 623535, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 73	08-मई-46
1735	एम. मोम्मुरुगन (एम. मूकागौंडेर)	टीएनएसवीसी / 1964 / 05	न. 19, लोगनाथन स्ट्रीट, ताम्बरम पश्चिम, चेन्नई 600045	बीवीएससी / टी एनएयू / 85	02-जन-62
1736	एम.पी. नारायणसामी (एम. पेरुमल गौंडेर)	टीएनएसवीसी / 79 / 03	33, कैनेडी स्ट्रीट, सक्तिनगर, रोडे, जिला रोडे-638, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 76	09-मई-45
1737	एम. पदमा (पत्नी श्री ए. लक्ष्मनन)	टीएनएसवीसी / 2418 / 05	5 / 928, सेंथिल नगर, धर्मपुरी 636705, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 01	21-जुला-77
1738	एम. पदमिनी (पी. श्रवन पडियान)	टीएनएसवीसी / 1093 / 05	बी-33, डीन का कम्पाउंड, नया नामि रोड, मदुरई 2, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 91	10-मई-67
1739	एम. पलानीअप्पन (वी.एम. मुथुलिंगम)	टीएनएसवीसी / 2817 / 05	3 / 215-1, थियागराज नगर, विलामल, अमइयप्पन डाक, थिरुवरूर 613701, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 77	10-जुला-54
1740	एम. पलानीवेलराजन, पुत्र श्री एस. मुथुसामी	टीएनएसवीसी / 3529 / 06	पी.के पुडुर डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला 638504, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 06	21-मार्च-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1741	एम. पनीरसेल्वम (आर. मरप्पन)	टीएनएसवीसी/ 267/04	111, नांगावल्ली मेनन रोड, धारमंगलम डाक, पिन- 636 502, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/77	02-जून-53
1742	एम. पान्नेर सेल्वम (ए. मनि)	टीएनएसवीसी/ 54/03	डोर न. 1/141, पावर हाउस के निकट, सलेम मेन, इडापडी कुरुम्बापट्टी डाक, सलेम जिला 637, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/03	15-अप्रैल-77
1743	एम. पनीरसेल्वम (आर. मरप्पन)	टीएनएसवीसी/ 1130/05	111, नांगावल्ली मेनन रोड, धारमंगलम डाक, पिन- 636502, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/77	02-जून-53
1744	एम. परमसिवम (एस. मुरुगानन)	टीएनएसवीसी/ 2526/05	189, पोयेरीकट्टूर, बुंजालूर डाक, इरोडे जिला 636152, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/69	29-मई-67
1745	एम. प्रतिभान (मनोहरन)	टीएनएसवीसी/ 2150/05	डब्ल्यू-644/बी2, पंडियान अपार्टमेंटस, अनना नगर, पश्चिमी एक्सटेंशन, चेन्नई 600101	बीवीएससी/ टी एनएयू/88	29-जुला-66
1746	एम. प्रभाकरन (आर. मूति)	टीएनएसवीसी/ 2124/05	नया न. 644, पुराना न. 6, नई बंगारू कॉलोनी, पश्चिमी के.के. नगर, चेन्नई 78	बीवीएससी/ टी एनएयू/78	10-मार्च-54
1747	एम. प्रभावती (एम. मुरुगोसन)	टीएनएसवीसी/ 2925/05	एम 209, टीएनएचबी फेस II, कृष्णागिरि 635001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/01	07-सित-76
1746	एम. प्रभावती, पुत्र श्री सी. मनिवन्नन	टीएनएसवीसी/ 3299/05	स्पुडुपलायम, वेलूर तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/05	24-जून-83
1749	एम. प्रभु (के. मुरुगन)	टीएनएसवीसी/ 743/05	सी 12/5, गवर्न. क्वाटर्स, अन्ना नगर, पश्चिमी एक्सटेंशन, चेन्नई- 101	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/94	23-मई-71
1750	एम. प्रीति, पुत्र श्री आर. मुनियंडी	टीएनएसवीसी/ 3421/08	न. 7, इन्द्रा साउथ स्ट्रीट, रायागिरि तालुक, तिरुनेलवेली जिला, 627764, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/05	11-मार्च-83
1751	पी. पुष्पलता (आर. मुथुकन्नु)	टीएनएसवीसी/ 205/03	एफ.सी.आई. पुधुर रोड, ओराथनाड तालुक, थंजावुर जिला, 614525, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/03	21-जून-78
1752	एम. राधाकृष्णन (एन. मथियालगार)	टीएनएसवीसी/ 3228/05	डी 74, 7वां क्रॉस, थिल्लई नगर, त्रिची- 620018, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/84	25-मई-59
1753	एम. रहमतुल्लाह (के. मौहम्मद अमी)	टीएनएसवीसी/ 1261/05	279, एन.जी.ओ. कॉलोनी, संकरनकोइल डाक, 627758 तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/89	05-मई-67
1754	एम. राजा मौहम्मद (एस. मदासामी)	टीएनएसवीसी/ 1528/05	425, मेन बाजार, कडयानल्लूर डाक, तिरुनेलवेली जिला 627751, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/98	09-मई-63
1755	एम. राजगम (एस. मूकडियाह)	टीएनएसवीसी/ 2832/05	15-7-19 बी, भारती नगर, चोक्कालिगापुरम, अरुप्पुकोट्टई, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/89	20-मई-66
1756	एम. राजेन्द्रन (एम. मन्नारसामी)	टीएनएसवीसी/ 1341/05	न. 8, कावेरी स्ट्रीट, इलप्पा नगर, चेर्य्यार, पिन 604407, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/81	09-मार्च-55

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1757	एम. राजेंद्रन (सी. मुथुकुट्टी)	टीएनएसवीसी / 2163/05	93-बी, गांधीजी रोड, कीरामंगलम डाक, पुडुकोटई जिला, पिन 614624, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू/76	11-मई-53
1758	एम. राजेंद्रन (जी. मुथइयाह पिल्लै)	टीएनएसवीसी / 3127/05	प्लॉट न. 22, अबिरामी नगर, नागनकुडी, सोजासकरानल्लूर डाक, मयिलाधुथुरई 609118, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/93	01-जून-58
1759	एम. राजेंद्रन (एम.सी. मुनुसामी)	टीएनएसवीसी / 653/05	न. 3/1676, न्यू कॉलोनी, धर्मपुरी 636701, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू/82	08-जुला-51
1760	एम. राजेंद्रन (एम. मुरुगेसन)	टीएनएसवीसी / 2666/05	81-ए, चेटी स्ट्रीट, गनेशपुरम वेस्ट, पुलियूर डाक, करूर जिला, 639114, तमिलनाडु	बीबीएससी / 86 टी एनएयू/	13-अप्रैल-63
1761	एम. राजेश फ्रांसिस जयासेत्वन (ए. मरिया एंटोनी)	टीएनएसवीसी / 946/05	147 ए, राजी लॉज, तीरसैयन विल्लै, तिरुनेलवेली जिला, 627657, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/98	29-अग-74
1762	एम. रामाम मूर्ति (एम. गंगाधरन)	टीएनएसवीसी / 2122/05	63/40, बिग स्ट्रीट, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई-5	बीबीएससी / टी एनएयू/81	01-जून-54
1763	एम. रमन (सी. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 3037/05	1-एफ, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, तेनक्रासी 627611, जिला तिरुनेलवेली तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू/83	11-अप्रैल-60
1764	एम. रामानाथन (के. मीनाक्षी सुंदरम)	टीएनएसवीसी / 3111/05	फेस VI, हाउसिंग यूनिट, पोन्विजानगर, तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू/83	28-अग-58
1765	एम. रामासामी (एम. मेन)	टीएनएसवीसी / 881/05	डोर न. 4, बार्ड न. 15, चर्च के पीछे, करुपुर डाक, ओमालूर तालुक, सलेम जिला, पिन 636012	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/96	21-जून-71
1766	एम. रामचंद्रन (जी. मुनिअप्पा नायडु)	टीएनएसवीसी / 625/05	2/170, चटरम मेल स्ट्रीट, धर्मपुरी, 636701, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/04	20-जन-81
1767	एम. रमेश (एस. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी / 465/05	देवराप्पनपट्टी डाक, अय्यमपलायम बाया, डिंडीगल जिला, 624204, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/05	16-जून-81
1768	एम. रमेश, पुत्र श्री पी. मुथुसामी	टीएनएसवीसी / 3409/06	5-117, बीटीआर नगर, मसिनायकनपथी डाक, 636103 अयोधियापट्टनम, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/97	07-मई-71
1769	एम. रामकुमार (ए. मुरुगेसन)	टीएनएसवीसी / 2708/05	2/336, श्रीनिवास नगर, कुरालकुट्टी डाक, उडुमलपेट तालुक, कोयम्बतूर जिला, पिन 642154, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/95	20-अक्टू-70
1770	एम. रामू (आर. मयालगु)	टीएनएसवीसी / 701/05	12/400 ई, थिरुवल्लुवर नगर, परमगुडी 623707, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/98	08-जून-59

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1771	एम. रंगा रेड्डी, पुत्र श्री राम रेड्डी	एपीएसवीसी/4 421/05	309/2आरटी, पी.एस.नागा, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद, 500057, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी/एंडए एच/ओएसएमयू /60	19-मार्च-33
1772	एम. रंजीथ कुमार (के. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी/ 615/05	पला कुट्टई, जी.एस. कॉलोनी डाक, अथियूर वाया, इरोडे जिला 638501, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/05	30-जुला-81
1773	एम. रवि शंकर (एम.जी. मुथु)	टीएनएसवीसी/ 2778/05	प्लॉट न. 12, डी.न. 38, एम.जी.नगर, पार्ट 1ए, गुडुवनचेरी, कांचीपुरम जिला 603202	बीवीएससी/ टी एनएयू/82	01-अक्तू-55
1774	एम. रविचंद्रन (सी. मुनियंडी)	टीएनएसवीसी/ 341/04	नॉर्थ कॉलोमी, आलमपट्टी डाक, थिरुमंगलम तालुक, मद्रुरई जिला, 625706, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/04	13-मई-80
1775	एम. रवि कुमार, पुत्र श्री एस. मुरुथई वीरन	टीएनएसवीसी/ 3345/06	3/151, आर-26-ए, वीओसी नगर, एन. कोसावमपट्टी डाक, नमक्कल जिला-637002, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/05	11-जुला-82
1776	एम.एस. प्रीथि (के. ससीधरन नायर)	टीएनएसवीसी/ 226/03	दामोदर भवन, पेरुमपुजी, उनामलक्कडई डाक, कन्याकुमारी जिला 629179, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/02	04-दिसं-77
1777	एम. सबसपथि (एस. मुथुचामी)	टीएनएसवीसी/ 34/02	ईस्ट स्ट्रीट, अरानमनि, पुडुर, थेनी जिला 625531, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/02	17-जन-79
1778	एम. सुसीकुमार (पी. मरप्पन)	टीएनएसवीसी/ 665/05	6/1024, करुकट्टुथोटम, सुरप्पमपलायम, एल.एम. पलप्पलायम, डाक कवांडापडी वाया इरोडे जिला 638455	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/02	24-मई-78
1779	एम. सवित्तवेल, पुत्र श्री वी. मनिक्कम	टीएनएसवीसी/ 3365/06	केथुरेड्डीपट्टी डाक, पपीरेड्डीपट्टी तालुक, धर्मपुरी जिला 835302, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/05	11-मार्च-82
1780	एम. सलीम बाशा (महमूद बाशा)	टीएनएसवीसी/ 3109/05	न. 13/34, कृष्णादौस तीसरी लेन, पेराम्बूर, चेन्नई 600012	बीवीएससी/एमयू/ 71	08-नव-44
1781	एम. सलीम (टी.एम. मौहम्मद हनीफ)	टीएनएसवीसी/ 2180/05	न. 22-66, "पुंचिरी" मेट्टुकडी, थुकाले, कन्याकुमारी जिला 629175, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/86	2-दिसं-61
1782	एम. सम्पथ (एम. मरिमुथु)	टीएनएसवीसी/ 974/05	3/32 बी, थिरु नगर, सिंगापेरुमल कुलम जिला, थंजावूर, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/87	25-दिसं-64
1783	एम. समुंदिश्वरी (ए. कुरुगन)	टीएनएसवीसी/ 185/03	ई1, आईसीएल कॉलोनी, संकरी वेस्ट, सलेम जिला, पिन 637303, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/03	12-जून-80
1784	एम. संध्या, उर्फ हाजरा बेगम (एम. चिन्नाथुरई पंडियान)	टीएनएसवीसी/ 3046/05	न.2, III मेन रोड, आई.आई.टी. कॉलोनी, पल्लीकरानई, चेन्नई 601302	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/97	14-दिसं-72

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1785	एम. संकर (एम. मुरुगइयन)	टीएनएसवीसी / 16 / 02	2 / 104, मेन रोड, उरानीपुरम डाक,ओराधनडु तालुक, तंजौर जिला 614631, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 02	22-मई-77
1786	एम. संकर (बी. मुथु)	टीएनएसवीसी / 956 / 05	मनाम गाथन,अंथीकुलम डाक, कयाथार वाया, ट्टथूटिकोरिन जिला 627952, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	13-जन-74
1787	एम. संकरनारायणन, पुत्र श्री मुथुसामी	टीएनएसवीसी / 3399 / 06	पप्पुनायकनपट्टी डाक, कुन्नाथूर वाया, पेरायूर तालुक, मदुरई जिला 625706, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 92	20-सित-66
1788	एम. सांथनम (एस. मुथूरथिनमाचारी)	टीएनएसवीसी / 2786 / 05	75, चेट्टियार बाजार, कामुथी डाक व तालुक, पिन 623603, रामनद जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 97	14-जून-59
1789	एम. सरस्वथी (एस. मदास्वामी)	टीएनएसवीसी / 13 / 02	न. 17 व 19, चौथी स्ट्रीट, गोविंदस्वामी नगर, कंडनचावडी,मद्रास 600098, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 02	19-अग-77
1790	एम. श्रवण जयम (पी. मयिल वगानम)	टीएनएसवीसी / 954 / 05	इजुथुककल परई, थुसुर डाक, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	21-जून-77
1791	एम. श्रवन कुमारी (बी. रामकुमार)	टीएनएसवीसी / 1564 / 05	बी 41, टीएनएचबी क्वार्टर्स, करई, रानीपेट 632404, वेल्लोर, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 92	14-अक्तू-68
1792	एम. श्रवनन (के. मरियप्पन)	टीएनएसवीसी / 2515 / 05	589 / 244-बी, जी.डी. रोड, कोलापल्लूर डाक, 638456, गोबी तालुक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	23-मई-76
1793	एम. श्रवनन (के. मुरुगन)	टीएनएसवीसी / 440 / 05	सेम्बूथम पलायम, सक्ति मेन रोड, पेरियापुलियूर डाक, कम्बंडपडी वाया इरोडे जिला, 638455, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	04-मई-80
1794	एम. श्रवनन (पी. मोहन)	टीएनएसवीसी / 197 / 03	3 / 331, टी.एन.पट्टी कॉलोनी, वाडुगम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637407, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 03	27-मई-80
1795	एम. श्रवनन (पी. मुथालगु)	टीएनएसवीसी / 841 / 05	हॉस्पिटल प्रथम स्ट्रीट, मुडुकुलाथूर, रामनद जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 93	14-जून-70
1796	एम. श्रवनन, पुत्र श्री एम. मनि	टीएनएसवीसी / 3335 / 06	थलाथला मेडु, सथ्या नगर, कोट्आपलायम डाक, टी.गोडे तालुक, नमक्कल जिला 637503, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	24-मई-62
1797	एम. ससिकला, पुत्र श्री एम. मनिक्कम	टीएनएसवीसी / 3383 / 06	अंथिकडु, मुंजानूर डाक, थिरुचेनगोडु तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	03-सित-82
1798	एम. ससि कुमार (बी. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 157 / 03	25, चेक्कारा स्ट्रीट, मोहनूर डाक, नमक्कल जिला, पिन 6370, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 03	05-जून-79
1799	एम. सथीस (आर. मनोकरन)	टीएनएसवीसी / 2712 / 05	यू 354 / 216, कम्बर क्रॉस स्ट्रीट, विनायक नगर, पसुमलई डाक, मदुरई-4, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 98	11-मई-74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1800	एम. सथीश कुमार, पुत्र श्री जी. मुरुगइयन	टीएनएसवीसी / 3530/06	अन्नीमंगलम, अरानमनईकुरिची डाक, अरियलूर तालुक, पेराबलूर जिला, 621851, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/06	20-जून-83
1801	एम. सेकर (टी.एच. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी / 3000/05	5/30 ए, नया न. 5/288, राजाजी नगर, मोहनूर रोड, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/01	07-जून-77
1802	एम. सेल्लाप्यन (के. मुथु)	टीएनएसवीसी / 2387/05	पुथुपट्टी नगर, चोक्कनाथपुरम डाक, अददूर तालुक, सलेम जिला 638108, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/00	10-अप्रैल-75
1803	एम. सेल्वा महेश्वरी (मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 604/05	989, बालाजी नगर, कोमला वल्लीपेट, सक्कोटई डाक, कुम्बकोनम 612401, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/05	12-जून-82
1804	एम. सेल्वाकुमार (मुनुसामी गौडेर)	टीएनएसवीसी / 75/03	सेन्नी कडु, निचम पलायम डाक, थिंगालूर विज, इरोडे जिला, पिन 63, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/03	09-मई-76
1805	एम. सेल्वाकुमार (आर. मुनुसामी)	टीएनएसवीसी / 1042/05	ए 26, टीएनएसबी, एजिल नगर, प्रकासम जिला, III एवेन्यू, इयान थिरुमलिंगई, सलेम 636008	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/91	12-मई-88
1806	एम. सेल्वम (एस.के. मुथु)	टीएनएसवीसी / 1203/05	47बी, सनारपलायम रोड, सूरियमपलायम डाक, तिरुचेंगोडे तालुक, नमक्कल जिला 637209	बीवीएससी / टी एनएयू/79	08-मई-55
1807	एम. सेल्वी, पुत्र श्री ए. मरियप्पन	टीएनएसवीसी / 3528/06	139/12ए, लेनिन नगर, मनथीथोप्पु रोड, कोविलपट्टी 628501, द्यूटिकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/08	20-जून-82
1808	एम. सेम्भारन (एम. मुथुरामलिंगम)	टीएनएसवीसी / 235/04	2/39ए, अयाकरनपुरम, 4पन्नाल डाक, वेदरानियम तालुक, नाग पट्टिनम, तमिलनाडु 814707	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/04	01-जून-79
1809	एम. सेनगोट्टियन (एम. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 1141/04	नया न. 38, मरप्पन स्ट्रीट, एस.पी.पुडुर, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू/83	12-मार्च-80
1810	एम. सेनरायन (सी. मरप्पागौडेर)	टीएनएसवीसी / 2822/05	थलकुलम, इशीक्करई, वरधा नल्लूर 638302, भवानी तालुक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/01	12-जून-76
1811	एम. सेंथामरई (के. मरुथामुथु)	टीएनएसवीसी / 588/05	ईस्ट स्ट्रीट, मलाथनकुलम अरियालूर तालुक, पेराबलूर जिला, पिन 627707, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/05	19-अप्रैल-80
1812	एम. सेंथिल कुमार (के. मरियप्पन)	टीएनएसवीसी / 177/03	15, साउथ कर स्ट्रीट, साथनुकलम, पिन 628704, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/03	21-मार्च-80
1813	एम. सेंथिल कुमार (आर. मरीमुथु)	टीएनएसवीसी / 77/03	5/202, अंदागलूर डाक, कासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 63740 तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/03	26-जुला-75
1814	एम. सेंथिल कुमार (आर. मरिमुथु)	टीएनएसवीसी / 2821/05	1, असोकार स्ट्रीट, नेहरु बाजार, सिवगंगई, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/00	01-जून-75
1815	एम. सेंथिल कुमार (एस. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 2020/05	नवाकुरिची डाक, अददूर तालुक, सलेम जिला, 636112, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/00	15-अप्रैल-73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1816	एम. शानमुगम वाडीवु (सी. मुथुकृष्णन)	टीएनएसवीसी/ 694/05	एस-2, विनोदवेस्ता अपार्टमेंट, 15, जैनानगर, प्रथम स्ट्रीट, अरुम्बक्कम, चेन्नई 600106	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/00	06-अप्रैल-76
1817	एम. शर्मिला (पी. मुथुकन्नन)	टीएनएसवीसी/ 330/04	बी-13/6, टीएनएचबी क्वा., थिरईमंगलम डाक, पेराम्बलूर, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/04	15-मार्च-80
1818	एम. शिजु (ए. सिमोन)	टीएनएसवीसी/ 504/05	शिनु कॉटेज, वेल्लाचिपरई डाक, के.के. जिला 829152, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/05	02-जून-81
1819	एम. सिंधिया पर्ल (सी. मुथइयन)	टीएनएसवीसी/ 44/03	95, केनेडी स्ट्रीट, नगरकोइल 629001, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/03	23-जन-77
1820	एम. सिवाचंद्रन (एस. महालिंगम)	टीएनएसवीसी/ 3338/06	9, मुदलियार स्ट्रीट, जयाकॉडम 621802, पुराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/05	05-अक्टू-81
1821	एम. सिवागामा सुंदरी (डी. मुरुगेशन)	टीएनएसवीसी/ 2789/05	54, जोथी टाकीज़, वेस्ट स्ट्रीट, अम्मापेट, सलेम 636003, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/00	27-मई-72
1822	एम. सिवागम सुंदरी (वी. महालिंगम)	टीएनएसवीसी/ 610/05	मेरप्पनईकडु रोड, कीरामंगलम डाक, अलंगुडी तालुक, पुडुकोट्टई जिला 614624, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/05	28-जून-80
1823	एम. सिवासुब्रमण्यन (ए. मुनिस्वामी)	टीएनएसवीसी/ 1437/05	9/5, थियागी अय्यमपेरुमल स्ट्रीट, वार्ड नं. 7, चिन्नामनूर, थेनी जिला 625515, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/95	10-जून-72
1824	एम. सोमासुंदरम (वी. मरिमुथु गौडेर)	टीएनएसवीसी/ 1932/05	अधिककट्टानूर, कोनगापट्टी डाक, थारमंगलम वाया, सलेम जिला 636502, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/79	23-मई-57
1825	एम. श्रीनिवासन (मारीमुथु)	टीएनएसवीसी/ 1406/05	51, सलेम मेन रोड, चिन्नासलेम, कल्लाकुरिची, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/82	09-अप्रैल-56
1826	एम. श्रीनिवासन (आर. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी/ 1548/05	407-8, टाउन प्लानिंग नगर, नरजोथी पट्टी, सलेम जिला, पिन 636004, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/83	15-जून-60
1827	एम. सुरेश बाबू, पुत्र श्री एम. कसइयाह	टीएनएसवीसी/ 4370/05	म.न. 1/129ए, चित्तलूर वीधी, नंदयाल, कुर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 05	30-दिसं-72
1828	एम. सुब्बइयन (एम. मुरुगेशन)	टीएनएसवीसी/ 3253/05	5/1, मन्नापइयनकट्टलाई, नेवीलक्कु डाक, पिन 614808, वेदारनियम तालुक, नाग पट्टिनम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/88	21-मार्च-65
1829	एम. सुब्रामनी (आर. मुनुस्वामी)	टीएनएसवीसी/ 2078/05	नं. 36, एडीएल नगर, थेइवनई अम्मल वुमैन्थ कॉलेज, विल्लुपुरम 605401, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/91	05-जून-67
1830	एम. सुब्रमण्यन (वी. मेय्यन)	टीएनएसवीसी/ 2864/05	थिरूनलूर साउथ डाक, अरानथंगी तालुक, पुडुकोट्टई जिला 6146024, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएसयू/01	13-मार्च-77
1831	एम. सुमरन (वी. माधवन)	टीएनएसवीसी/ 3283/05	17/18, टी.आर. बाजार डाक, नीलगिरि जिला, तमिलनाडु पिन 643224, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/84	01-जून-60

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1832	एम. सुमथी (एल. सी. एन. विस्वनाथन)	टीएनएसवीसी / 2674/05	1/50, आर.एन. पलायम पुथुर, अर्नापुरम डाक, नल्लीपलायम वाया, नमक्कल 637003, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/00	20-फर-73
1833	एम. सुंदरलिंगम पुत्र श्री टी. मार्दन नादर	टीएनएसवीसी / 3461/06	इडायेन विलई, चंथाडी डाक, कन्याकुमारी 629703, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/92	25-मई-63
1834	एम. सुंदरमूर्ति (एल. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 1132/05	125-1-सेल्वियम्मन कोविल स्ट्रीट, मुडुकुलाथूर 623704, रामनद जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/96	10-जून-73
1835	एम. सुंदरवाडीवेलु (आर. के. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 1187/05	मोनजानूर डाक, थीनेलई वाया, करूर जिला, तमिलनाडु 639206, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/93	25-जून-69
1836	एम. सुरेश कुमार (एच. मुरुगेसन)	टीएनएसवीसी / 1732/05	6/16वां क्रॉस, कुमारन नगर, वयालूर रोड, त्रिची, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू/87	27-जुला-59
1837	एम. सुरिलीचामी (के. मलिंगम चेट्टियार)	टीएनएसवीसी / 1458/05	5-2-58, IV स्ट्रीट, पी.टी.आर. कॉलोनी, उथमपलायम, थेनी जिला 625533, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू/71	05-अप्रैल-43
1838	एम. स्वामीनाथन (एस. मुथु कृष्णन)	टीएनएसवीसी / 2845/05	3/13, अय्यासामी गार्डन एवेन्यू, पेरूर चेट्टीपलायम, कोयम्बतूर 641010, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू/81	15-जून-55
1839	एम. तमिल अरारसु (के. मनि)	टीएनएसवीसी / 2881/05	न.48, अन्ना स्ट्रीट, नरीपल्लम, वेल्लूर रोड, तिरुचेंगोडे 837211, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/97	04-जून-70
1840	एम. तमिलारासी (के. मरियप्पन)	टीएनएसवीसी / 1702/05	24 सी, कंडासामी वधियार स्ट्रीट, धर्मपुरी 636701, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/02	02-मई-78
1841	एम. थमीजारासु (एम. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी / 1412/05	17-जे/9, सिराली नगर, कल्लाकुरिची डाक व तालुक, विल्लुपुरम जिला, पिन 606202, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/90	14-अप्रैल-66
1842	एम. थंगारासु (बी. मूर्ति)	टीएनएसवीसी / 2501/05	नागमनिककम पलायम, अबुडियर परई डाक, कोडुमुडी 638151, इरोडे जिला तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू/81	23-अक्टू-56
1843	एम. थेनीमोजी पी. मोहनकुमार)	टीएनएसवीसी / 1302/05	न.15, मेट्टारी स्ट्रीट, राजेंद्र सोलागन डाक, कट्टुमनार कोइल तालुक, कुडालूर जिला, पिन-608301	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/94	02-मई-71
1844	एम. थिरुकुमार (आर. मरप्पन)	टीएनएसवीसी / 1923/05	थोट्टीवलासु डाक, अधानूर वाया, नमक्कल जिला 636301, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/97	05-मई-72
1845	एम. थिरुमल (ए. मार्चंदन)	टीएनएसवीसी / 93/03	32, पिलियर कोइल स्ट्रीट, मोरांडाहल्ली डाक, धर्मपुरी, पिन 630 तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/03	03-फर-80
1846	एम. थिरुनावुकरासु (ए. नागराजन)	टीएनएसवीसी / 263/04	2, उन्नापल्लू थोटम, आर.एम. पुडुर डाक, इरोडे 638005, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू/04	09-जून-80
1847	एम. थिरुनावुकरासु (के. मारीमुथु)	टीएनएसवीसी / 732/05	एफ2, हैपी होम्स, 18, कामराजार स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई 600023, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू/86	22-अप्रैल-63

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1848	एम. थियागीश्वरन (जी. मुथुरमन)	टीएनएसवीसी/ 398/04	218, प्रकासम जिला, सेंडिलनगर, थिरुमुल्लइवोयल, चेन्नई 600062, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एंड एच/ पीयू/ 04	18-जन-82
1849	एम. उथीराकोट्टी (एम. मुनियन)	टीएनएसवीसी/ 1403/05	न.103, नलायन कुडिलकोट्टई मेडु, कल्लाकुरिची, विल्लुपुरम जिला पिन 606202, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/ 79	10-दिसं-53
1850	एम. वीरासेल्वम (वी. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी/ 601/05	मट्टंगल डाक, गंडर्वकोट्टई जिला, पुडुकसेट्टई जिला, 613301, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/ 05	03-मार्च-82
1851	एम. वेलमुरुगन (के. मारी)	टीएनएसवीसी/ 592/05	एडी स्ट्रीट, पोचमपल्ली डाक एवं तालुक, कृष्णागिरि जिला, पिन 635206, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/ 05	08-अप्रैल-81
1852	एम. वेकटेशन (सी. मन्नारसामी)	टीएनएसवीसी/ 521/05	वेलुगंडनडल डाक, टी.वी. मलई जिला 606802, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/ 05	05-मई-79
1853	एम. वेंकटेश (ए.एन. मनि)	टीएनएसवीसी/ 2398/05	अथियूर कॉलोनी, माइकल पलायम डाक, अथियूर वाया, इरोडे जिला, पिन 638501, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/ 02	17-जुला-77
1854	एम. वेंकटेश्वरन (के. मुनियप्पन)	टीएनएसवीसी/ 2600/05	3/251, विगानगट्टूर, थिरुचेनगोडु तालुक, इरोडे, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/ 93	28-मई-70
1855	एम. विद्या (ए. महालिंगा नायनार)	टीएनएसवीसी/ 113/03	10/14, सन्नादी स्ट्रीट, थिरुवटीश्वरन पेट ट्रिप्लिकेन, चेन्नई, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/ 03	15-मई-80
1856	एम. विद्याकुमार (टी. मुथुकुमारसामी)	टीएनएसवीसी/ 3251/05	वेट. असि.सर्जन, वेट. डिस्पेंसरी, इनानगुडी, नगाई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/ 89	15-सित-67
1857	एम. विजय (टी.सी. मुनुस्वामी)	टीएनएसवीसी/ 186/03	थेलूर, वाया उसूर, ग्राम एवं डाक वेल्लोर, 632105, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/ 03	31-मार्च-79
1858	एम. विजय कुमार (एस. पी. मुनुसामी)	टीएनएसवीसी/ 2221/05	न. 17, एल.एफ. रोड, बर्मा कॉलोनी, करई, रानीपेट 632404, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/ 98	28-जून-61
1859	एम. विजय कुमार (पी. मुथुसामी गौडेर)	टीएनएसवीसी/ 2509/05	6-थिंगालूर रोड, नसियानूर डाक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/ 85	01-अप्रैल-81
1860	एम. विजय कुमार, पुत्र श्री एम. मनि	टीएनएसवीसी/ 3545/06	2/107, पलपट्टी ग्राम, अलंगाटेम डाक, नमक्कल जिला, 637013, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/ 06	03-जुला-79
1861	एम. विश्वनाथन (वी. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी/ 1123/05	4/75, सी 2, रामासामी नगर, नरसोथिपट्टी, सलेम 636004, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/ 79	02-जून-53
1862	एम. विद्याशंकर (पी. मूथी)	टीएनएसवीसी/ 2226/05	18, नादर स्ट्रीट, कुरिजीपडी डाक, कुडालूर 807302, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/ 02	26-दिसं-77
1863	एम.ए. हमशा मोहिदीन (एम. अबुलगानी)	टीएनएसवीसी/ 3080/05	9, नॉर्थ अयापुरम स्ट्रीट, कडायानल्लूर- 627751, तेनकासी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/ 84	26-मई-56

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1864	एम.ए. विलसन चार्ल्स (बी.जे.माइकल अजरियाह)	टीएनएसवीसी / 2983 / 05	103, एनएच कॉलोनी, पेरुमलपुरम, तिरुनेलवेली 627007, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 86	19-मई-62
1865	एम.ए. शानमुगन (ए. अन्नामलई)	टीएनएसवीसी / 1017 / 05	12 / 18, मलयमपलायम, जलकांतपुरम 638501, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 87	15-सित-61
1866	एम.ए. चिन्नादुरई (एस. अन्नामलई)	टीएनएसवीसी / 2669 / 05	वेस्ट स्ट्रीट, मन्ननकाडु, पट्टुकोटई तालुक, तंजौर जिला, पिन 614613, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 95	19-अप्रैल-72
1867	एम. आर्मुगम (ए. मानिकवालगम)	टीएनएसवीसी / 2331 / 05	12ए, के.के. नगर, नन्नीलम, तिरुवरूर 610105, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 97	03-जून-74
1868	एम. बालाचंद्रन (एम. मुथानममूर्ती)	टीएनएसवीसी / 1785 / 05	न.9, (पुराना न. 49 जी2) पांचवी स्ट्रीट, सुब्रमण्या राजा नगर, मदुरई रोड, सिवागंगई डाक, 630561, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 83	01-जून-60
1869	एम. भुवना	पॉण्डीएसवी सी / 258 / 05	27, कामराज सलई, थट्टनचावडी, पॉण्डीचेरी-9	बीवीएससीएंडए एच / पीयू / 05	12-मई-83
1870	एम. दीन दयालन (एस. मुनुसामी)	टीएनएसवीसी / 446 / 05	परायम पट्टु ग्राम डाक, बनपुरम वाया, तिरुवन्नमलई डाक व तालुक, 606753	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	05-जून-82
1871	एम.ई. कृष्णकुमार (एम.के. ई. थिराज)	टीएनएसवीसी / 1800 / 05	16 / 18, नेताजी स्ट्रीट, सइदापेट, चेन्नई 600015	बीवीएससी / एमयू / 69	15-जून-46
1872	एम.जी. धर्मीजवालयन (एम.वी. मंगाथरान)	टीएनएसवीसी / 2286 / 05	ए-13, मधुरम अपार्टमेंट्स, 147, मोहनराम नगर, मोगापैर, चेन्नई 600023	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 89	01-जून-87
1873	एम.जी.एस. रंजिनी देवी, पुत्र श्री रवि कुमार	टीएनएसवीसी / 3552 / 06	4 / 33, कचाकारानूर, पल्लीपट्टी डाक, मेट्टूर डैम, 638458, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 06	06-फर-82
1874	एम.जी. सुधा (एम.के. गुरजानाथन)	टीएनएसवीसी / 641 / 05	10, मुनियप्पन कोइल स्ट्रीट, सी.के.आर. नगर, सूलई, ग्राम चट्टरम, इरोडे 638004, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	09-जून-80
1875	एम. ज्ञान नरसेगरन	पॉण्डीएसवी सी / 267 / 05	113, कावुंदन पलायम, वजनुडावर रोड, पॉण्डीचेरी- 9	बीवीएससीएंडए एच / पीयू / 05	09-अक्टू-62
1876	एम. गोविंदसामी (मुथुकर्णमा पिल्लै)	टीएनएसवीसी / 2469 / 05	प्लॉअ न. 1428, 13वां मेन रोड, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई 600040	बीवीएससी / एमयू / 64	07-मई-39
1877	एम. जे. मुथइयाह (एस. एम. मुलाला थेवर)	टीएनएसवीसी / 1068 / 06	124 / 8, गांधीजी पांचवां क्रॉस स्ट्रीट, थिरुनगर, मदुरई 625006, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 80	10-सित-57
1878	एम.के. मोहन कुमार (एम. कासीराजन)	टीएनएसवीसी / 2038 / 05	41, 'मोहन विला', नीला कंदन कोइल स्ट्रीट, पासुम डोननगर, मदुरई 625003, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	05-दिस-66
1879	एम.के. सीथात्मनी (एम. कुप्पामुथु)	टीएनएसवीसी / 1318 / 08	97-ए, यादव स्ट्रीट, वेलीपट्टनम, रामनाथपुरम, रामनद जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 02	10-मई-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1880	एम.के. शानमुगा सुदरम (एम. कन्नपन)	टीएनएसवीसी / 2790 / 05	87 / 180, गांधी रोड (मेथु स्ट्रीट) चेंगल पट्टू, 603002, तमिलनाडु	बीबीएससी / एमयू / 73	18-अक्टू-46
1881	एम.के.वेंकटेश हेडगे, पुत्र स्व. श्री एम.के. कृष्णप्पा हेगडे	कर्नाएसवीसी / 3 805 /	न. 32, लक्ष्मण मुदलियार स्ट्रीट, कोटोनमेंट, बंगलौर- 56001, कर्नाटक	बीबीएससी/एंडए एच/यूएसबंगलौर / 88	18-फर-42
1882	एम. कन्नन (एम. के. मनिककम)	टीएनएसवीसी / 2326 / 05	34, इंद्रा गांधी नगर, व्यासरपडी, चेन्नई 600039	बीबीएससी / टी एनबीएंडएएसयू / 00	14-अक्टू-75
1883	एम. कार्थिक (सी. मनिककम)	टीएनएसवीसी / 428 / 05	540, पार्कथीनगर, कुल्लमपलायम डाक, गोबी तालुक, इरोडे जिला, 638476, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएएसयू / 04	05-दिसं-79
1884	एम. कीलाराज कुलारमन (आर. मरियप्पन)	टीएनएसवीसी / 2065 / 05	7 / 21, नॉर्थ स्ट्रीट, पांडियापुरम, सेंदमरम डाक, संकरनकोविल तालुक, तिरुनेलवेली जिला, पिन 627857	बीबीएससी / टी एनबीएंडएएसयू / 93	21-जुला-70
1885	एम. कृपासंकर (गि. मलियप्पन)	टीएनएसवीसी / 382 / 04	इंदिरा नगर, विलापडडी डाक, सलेम जिला, पिन 636115, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएएसयू / 04	21-जून-80
1886	एम. कुमारसामी (आर. मुनियन)	टीएनएसवीसी / 1851 / 05	सुरानम, सलाईग्राम वाया, इलाइयनकुडी तालुक, सिवागंगई जिला, पिन 623713, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएएसयू / 98	18-मई-73
1887	एम. कुमारस्वामी (एम. नारायण राजू)	टीएनएसवीसी / 1360 / 05	एम.के.एस.निवास, न. 23, नागधम्मन कोविल एक्स., 12वां एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई 600083	बीबीएससी / टी एनएयू / 73	20-सित-54
1888	एम. लोगनाथन (मूर्ति)	टीएनएसवीसी / 392 / 04	14 / 1, सेनगुंधर न्यू स्ट्रीट, शोलिंधूर 631102, वेल्सोर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएएसयू / 04	09-जुला-80
1889	एम. मनोहरन (सी. मनिककम)	टीएनएसवीसी / 2347 / 05	24 / 12-डी, थिन्ना वडियार स्ट्रीट, धर्मपुरी 636701, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएएसयू / 98	04-फर-74
1890	एम. मनोहरन (एम. महालिंगम)	टीएनएसवीसी / 2341 / 05	1एफ / 1, एम.जी.पुरम, पेराम्बलूर डाक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621212, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 86	14-मार्च-62
1891	एम. मारीमुथु (एस. मारुथामुथु)	टीएनएसवीसी / 2340 / 05	कुल्लम डाक, कुल्लम तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621708, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 86	30-अप्रैल-61
1892	एम. मोहन	पॉण्डीएसवी सी / 262 / 06	14-ए. मेन रोड, पी.एस. पलायन एवं डाक, पॉण्डीचेरी	बीबीएससी / टी एनबीएंडएएसयू / 04	09-जुला-80
1893	एम. मुथुकुमार (एम.ए. मुथुपलानी)	टीएनएसवीसी / 1809 / 05	246, असीरियार नगर, कुल्लमपलायम, गोबी, इरोडे, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएएसयू / 98	15-मई-73
1894	एम. मुथुरामा कृष्णन	टीएनएसवीसी / 1748 / 05	6-2, मुथुस्वामी वायडु स्ट्रीट, मेन रोड, टी. कल्लुपट्टी डाक, मदुरई जिला 625702, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएएसयू / 92	10-मार्च-88
1895	एम.एन. श्रवणन सेल्वन (एम. नागेश्वर राव)	टीएनएसवीसी / 2083 / 05	3 / 686-3, 5वां क्रॉस, कलियप्पा चेदटी कॉलोनी, पिदमानेरी, धर्मपुरी 636703, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएएसयू / 00	10-अग-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1896	एन. निवेदिता, पुत्र श्री सुदञ्जन रेड्डी	एपीएसवीसी/4 401/05	म.न. 9-4-447, सप्तगिरि कॉलोनी, करीमनगर 505002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	14-अप्रैल-81
1897	एम. नूर मौहम्मद (एम. मौहम्मद अली)	टीएनएसवीसी/ 1794/05	36/119, मौहम्मदशाह पुरम, II स्ट्रीट, थिरुमंगलम 625706, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/00	27-मई-76
1698	एम.पी. विश्वनाथन (आर. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/ 1060/05	प्लॉट न. 19, पेरियासामी नगर, सारदा कॉलेज के पीछे, सलेम 636016, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/78	16-जून-47
1899	एम.आर. बालाकृष्णन (एम.वी.रामास्वामी)	टीएनएसवीसी/ 3139/05	5/3, गांधी अदिगल सलई, कुम्बाकोनम, पिन 612001, थंजावूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/ 67	21-जून-44
1900	एम.आर.धयालीश्वरन (एम.आर. राजा गोपालन)	टीएनएसवीसी/ 3234/05	88/192, थ्यांगराया नई स्ट्रीट न.11, कोयम्बतूर 641001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ एमयू/ 73	03-अप्रैल-51
1901	एम.आर. गोपीनाथन (एम. रामास्वामी)	टीएनएसवीसी/ 1297/05	15, मूवेंदर नगर ईस्ट, पुराना नाथेन रोड, विश्वनाथपुरम, मदुरई -14, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/76	03-दिसं-52
1902	एम.आर. माधवन (एम. रंगाराज)	टीएनएसवीसी/ 359/04	नया न. 498 (पुराना न.339,ए) छठी स्ट्रीट, वी.वी. कॉलोनी, व्यासारपदी, चेन्नई 600039	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/04	31-जन-80
1903	एम.आर. नागराजन (एम. आर. कृष्णास्वामी पति)	टीएनएसवीसी/ 3158/05	55/3, 1 क्रॉस, जक्कपन नगर, कृष्णागिरि 635001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/83	23-अग-53
1904	एम.आर. नटराजन (एम. रेथिनाप्पथार)	टीएनएसवीसी/ 1327/05	22, सक्ति नगर, अलांगुडी रोड, थिरुकट्टलई डाक, पुडुकोट्टई, पिन 622303, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/83	25-जन-59
1905	एम.आर. रामकृष्णन (एम. रमन)	टीएनएसवीसी/ 1576/05	न. 2, 8वीं स्ट्रीट, अइयर लेआउट, सिंगानल्लूर, कोयम्बतूर-5, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/00	11-मई-77
1906	एम.आर. रंगास्वामी रामास्वामी गौडेर)	टीएनएसवीसी/ 2524/05	21, बालासुब्रमण्यन स्ट्रीट, पुंजई पुलियमपट्टी 638459, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/76	13-अग-46
1907	एम.आर. राजागण पति (एम.के. रामामूर्ति)	टीएनएसवीसी/ 2035/05	1/88, नाडु स्ट्रीट, मल्लुपट्टी डाक, पलाकोड तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन 636805, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/94	30-जुला-70
1908	एम. रवीन्द्रन (वी. मरीमुथु)	टीएनएसवीसी/ 1760/05	इरुक्कनगुडी डाक, सतूर तालुक, विरुधुनगर जिला, पिन 628202, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/96	18-फर-72
1909	एम.एस. कन्नादासन (एम. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/ 1523/05	1/71ए, अंडियार 635307, उथानगरई तालुक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/02	02-मई-79
1910	एम.एस. मीनाक्षी सुंदरम (एम. सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/ 2628/05	नया न. 6, दसवां ईस्ट क्रॉस रोड, गांधी नगर, वेल्लोर 632006, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/76	04-अक्टू-49
1911	एम.एस. मुरुगेशन (के. एम. सेनगोदुवेल)	टीएनएसवीसी/ 2692/05	324/206ए, अलगुविनायगर स्ट्रीट, पी एंड टी कॉलोनी (पश्चिम) अलगपुरम डाक, सलेम 636016, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनएयू/87	25-अक्टू-63

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1912	एम.एस. सक्तिवेल (बी. एम. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/ 2043/05	वडक्कु मेलूर ग्राम, वडक्कुथु डाक, वाया वडालूर 607303, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/82	10-सित्त-56
1913	एम.एस. श्रयनन (एम.एस. मनि)	टीएनएसवीसी/ 1077/05	4465, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, विल्लुपुरम, मदुरई 625011, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/90	28-मार्च-68
1914'	एम.एस. सेल्वाकुमार (एम. वी. सोक्कानाथन)	टीएनएसवीसी/ 1975/05	4/184, भारती नगर, कावेरी पट्टिनम 635112, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ एमयू/ 72	01-जन-48
1915	एम.एस. थिरुमूर्ति, पुत्र श्री एम. सांतालिंगम	टीएनएसवीसी/ 3533/06	न. 3, 25वां क्रॉस स्ट्रीट, बसंत नगर, चेन्नई 600090, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/76	23-जुला-54
1916	एम.एस. मोहम्मद नज़र सैत (मौ. सैयद अली जमाल)	टीएनएसवीसी/ 1783/05	19/1, विरुथाचलम स्ट्रीट, नटराज नगर, मदुरई -16, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/84	07-मार्च-61
1917	एम.एस. मुरलीधरन (एम. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी/ 2254/05	न.109, ईस्ट अग्राहरम, अंगारई डाक, लालगुडी तालुक, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/86	10-मई-61
1918	एम.एस. राजा, पुत्र श्री मनिक्कम	टीएनएसवीसी/ 3490/06	सीरापल्ली डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/88	16-जून-65
1919	एम.एस.एस. पुगालैथी (एम. सुंदरमूर्ति)	टीएनएसवीसी/ 2668/05	2/13 बी.न्यू कॉलोनी, कक्कावेरी डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, पिन 637415, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/88	13-जुला-65
1920	एम. सक्ति प्रिया (टी.आर.)	टीएनएसवीसी/ 497/05	4, बालाजी कॉम्प्लेक्स, रामलिंगा नगर, पिल्लनल्लूर, वांडीपट, गुरुसामी पलायम, रासीपुरम तालुक, पिन 605601, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/05	27-दिसं-81
1921	एम. सेल्वराज (सी. मायावन)	टीएनएसवीसी/ 1841/05	पम्पनापट्टु ग्राम, पनायापुरम डाक, विल्लुपुरम तालुक, पिन 605601, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/81	15-जन-68
1922	एम. शानमुगम (ए. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी/ 1810/05	अयान कडु, पेरिया सतपदी डाक, चामराजपेट वाया, मेट्टुट तालुक, सलेम जिला, 636451, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/02	30-मई-78
1923	एम. सिवेजिलान (आर. मेगानाथन)	टीएनएसवीसी/ 2280/05	5/30-1ए, जस्टिस विजय राजन स्ट्रीट, सड्डापेट, अर्नी, तिरुवन्नमलई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/88	29-मई-66
1924	एम. सिधाकुमार (सी. मासिलामनि)	टीएनएसवीसी/ 1849/05	108, बापसु नगर, अरप्यकम वाया पुट्टुथक्कु, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/82	07-मार्च-51
1925	एम. स्टालिन	पॉण्डीएसवी सी/ 266/05	18, पिलियारथोपु स्ट्रीट, थोडामनाथम डाक, पॉंडीचेरी 605502	बीबीएससीएंडए एच/ पीयू/ 05	23-सित्त-81
1926	एम. सुब्रमण्यन (पी.एम. मारुधण्यागम)	टीएनएसवीसी/ 2288/05	एमआईजी 246/811, तमाराई नगर, 25वां क्रॉस स्ट्रीट, तिरुवन्नमलई 606601, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टी एनएयू/83	25-अग-53

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1927	एम. सुरेश (ए.के. मुथुराज)	टीएनएसवीसी / 1829 / 05	नॉर्थ स्ट्रीट, वयलपट्टी, वीरपंडी डाक, धर्मा जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	29-अप्रैल-76
1928	एम.टी एडवर्ड थॉमस (एम. थॉमस)	टीएनएसवीसी / 2151 / 05	10-90 ए. रत्नाविल, हिलवर्ड, कुजीथुरई डाक, पिन:629163, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	27-अप्रैल-68
1929	एम. ताखेलम्बम सोबितादेवी (डब्ल्यू. मीतेई)	टीएनएसवीसी / 519 / 05	41, प्लॉट न.13, सीरील प्लैट, II स्ट्रीट, मुरुमप्पा नगर, पुजुडिवक्कम, चेन्नई 600091	बीवीएससीएंडए एच / बीएयू / 99	01-जन-72
1930	एम. थिनेश कुमार (के. मनिक्कम)	टीएनएसवीसी / 421 / 05	एल.एन.पुरम, अनाय्याल डाक, अलांगुडी तालुक, पुडुकोट्टई जिला, 622304, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	18-जून-79
1931	एम. थिरुमारन (के. महालिंगम)	टीएनएसवीसी / 1835 / 05	न. 58, अन्ना नगर, टीवीएस शोरूम के निकट, मदुरई रोड, श्रीविल्लीपुथुर, विरुधुनगर जिला, पिन 626125	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 91	05-मई-68
1932	एम. उमापथि (पी. सोहन)	टीएनएसवीसी / 1824 / 05	18, मेलकयारोगना सामी सन्नथी, नागपट्टिनम 611001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 99	10-जुला-75
1933	एम.बी. राममोहन (बी.के. वेंकटपथि)	टीएनएसवीसी / 3207 / 05	127, कामराज नगर, के.आर. पुरम, कोयम्बतूर 641006, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 75	09-मार्च-50
1934	मदन गोपाल, पुत्र श्री कृष्ण कुमार	एचपीएसवीसी / 745 / 05	म.न. 296, डिफेंस, कोछटवाल डाक जंडवाल, तह. पटानकोट 145001, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच / सीएसकेकेवीवी / 05	08-अप्रैल-80
1935	मदेश एस., पुत्र श्री सन्नाइयाह	कर्नाएसवीसी / 3 760 /	मददूर, येलांडुर तालुक, चामराजनगर जिला, पिन 571441, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच / केवीएंडएएसयू / 05	05-जुला-82
1936	माधवी नेमिल्ला, पुत्र श्री राधा कृष्ण	एपीएसवीसी / 4 378 / 05	म.न. 11-23-1195, टेलीकॉम कॉलोनी, एल.बी नगर, वारंगल 506002, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	31-जुला-79
1937	माधवी विदियला, पुत्र श्री सथ्यनारायण	एपीएसवीसी / 4 398 / 05	म.न. 8-240, शाबु नगर, मिरियलगुडा, नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	13-जून-61
1938	माधवीलथा सुडिनी, पुत्री श्री एस. लक्ष्मी रेड्डी	एपीएसवीसी / 4 418 / 05	म.न. 6-103/1, गांधी नगर, कलवाकुर्थी, महबूब नगर जिला, 509324, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	10-अग-81
1939	मधु सूदन मोंडल, पुत्र श्री कालीपदा मोंडल	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3207 / 05	ग्राम मधुबती, डाक श्रीपुर, जिला हुगली - 712612, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंड एफएस / 05	12-अग-82
1940	मधु ए.एन., पुत्र श्री नागराजु	कर्नाएसवीसी / 3 763 /	आवेराहल्ली, कोपरा होबली, मददूर तालुक, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच / केवीएंडएएसयू / 05	05-मार्च-83

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1941	मधु बी.पी., पुत्र श्री पुट्टास्वामी बी.आर.	कर्नाएसवीसी/3 775 /	1397, भद्रेश्वर नीलया, शंकरपुरम, हसन- 673201, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	12-जन-83
1942	मधुकर लोहानी, पुत्र श्री एन. बी. लोहारी	यूवीसी/08/0 6	ग्राम-लोहना, डाक पुआऊ, तहसील जैती, अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/जीबीपीयू एंडटी/05	22-मार्च-81
1943	मधुकर, पुत्र श्री शिवाजी राव	कर्नाएसवीसी/3 706 /	मधुकर एस. धामा, राजेश्वर डाक, बासवकल्याण तालुक, बिदर जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/यूपएसधारवाड /04	19-जुलाई-82
1944	मधुलाल वी., पुत्र श्री येशसुब्रम वी.	राजएसवीसी/3 215/06	दुर्गापुरा, जयपुर, राजस्थान	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /02	09-मार्च-77
1945	मधुसूदन मुन्दा, पुत्री श्री नीरफदा मुन्दा	राजएसवीसी/3 230/06	टाइप V/2, सीएसडब्ल्यूआर आई, अविकानगर, टोंक, राजस्थान	बीबीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/05	20-दिसं-80
1946	मधुसूदनम सी.एस.	केरल/3081/ 05	अनयम कोलाथेरी रोड, पूनीथुरा डाक, अर्नाकुलम 682038, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/05	09-सित्त-80
1947	मधुसूदनम एम.के.	केरल/3074/ 05	अयाच्या पठईकस डाक, पेरीथलमन्ना, मलप्पुरम, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/05	06-अक्टू-80
1948	मधुसूदन (एच.ए. जयसिंग)	टीएनएसवीसी/ 3200/05	923, डी.के. कॉम्प्लेक्स, टीवीएस एवेन्यू, मेन रोड, अन्ना नगर (प.) एक्स, चेन्नई 600101, तमिलनाडु	बीबीएससी/ एमयू/ 09	10-फर-42
1949	मधुसूदन (एच.ए. जयसिंग) पुत्र श्री जयसिंग	कर्नाएसवीसी/3 821 /	मरालभवी, मलनूर डाक, सुरपुर तालुक, गुलबर्गा जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/यूपएसधारवाड /04	09-दिसं-80
1950	महादेवप्प कौजालगी, पुत्र श्री नुरुनाथ	कर्नाएसवीसी/3 718 /	सी.जे.एस. नं. 1885, चारनाथीमठ, सोमवारपेट, गोकोक 591307, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	13-मार्च-82
1951	महर्षि एम.टी., पुत्र थिप्पेरुसामी एम.आर.	कर्नाएसवीसी/3 778 /	यासदंगाथिहल्ली, कोलकुटे डाक, दावणगेरे तालुक व जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	01-जन-81
1952	महावीर प्रसाद राठीड, पुत्र श्री मान	राजएसवीसी/3 238/06	ग्राम एवं डाक कनवास, कघेडा, राजस्थान	बीबीएससीएंडए एच/जेएनकेबी वी/05	02-मार्च-81
1953	महेंद्र प्रसाद द्विवेदी, पुत्र श्री महाराम द्विवेदी	एमपीएसवीसी/ 2312/06	ग्राम एवं डाक पद्मरथा, सीवा, मध्य प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/जेएनकेबी बी/70	02-मार्च-81
1954	महेंद्र कुमार, पुत्र श्री राम दयाल मौर्या	यूवीसी/64/0 6	वेट अधिकारी, गवर्न. वेट. हॉस्पिटल, चाका, जिला टिहरी मकवास, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/जेएनकेबी /04	25-मार्च-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1955	महेश्वरप्पा जी., पुत्र श्री ओंकारप्पा	कर्नाएसवीसी/3 801/	काथिगे डाक, होन्नाली तालुक, दावणगेरे जिला, 577223, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	30-अग-81
1956	महिपाल सिंह ठाकुर, पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर	कर्नाएसवीसी/3 820/	हलबर्गा - 585413, भात्की तालुक, बिदर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	01-सित-77
1957	मकरानी सैयद हुसैन ए.	गुजएसवीसी/2 646/06	कसबा, क्रवंत रोड, तालुक डाक छोटोउदयपुर, जिला बड़ौदा, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच /आनंदकृ.वि.वि. /06	14-अप्रैल-81
1958	मकवाना विनोद कुमार एन.	गुजएसवीसी/2 655/06	ब्लॉक न. एफ-33, एसडीएयू एस.के. नगर, दांतीवाड़ा 385506, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंदकृ.वि. वि./06	08-अप्रैल-81
1959	मुलारविजी आर., (पत्नी पी. सेल्वराज)	टीएनएसवीसी/ 63/03	161/52, कोडीवेरु रोड, डीजी पुडुर- 638503, गोबी तालुक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/03	16-मई-76
1960	मालिनी के.	केरल/3027/ 05	मुकालुविला वीडु, चेपरा डाक, कोटआराकारा, कोल्लम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	21-मई-82
1961	मल्लिकार्जुन जी., पुत्र श्री नागी रेड्डी जी.	कर्नाएसवीसी/3 723/	चन्नाबासवा नीलया, सवाशिवनगर, सिरुगुप्पा तालुक, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	02-जन-83
1962	ममथ नायर ए.के., पुत्री श्री माधव नायर	एपीएसवीसी/4 338/05	डा.न. 39-6-73/2, मुरली नगर, विशाखापटनम-7, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	01-जून-79
1963	मानस कुमार मिश्रा, पुत्र श्री एस.सी. मिश्रा	उड़ीसा एसवीसी/1963 /05	प्लॉट न. 161/809, अनंत विहार, पोखरीपुट, बीबीएसआर-20, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	01-जुला-82
1964	मांडवे कुमारी, पुत्री श्री कमलनय सिंह	बिहारएसवीसी/ 2579/05	ग्राम/मुहल्ला-शेरपुर, डाक- मलपुर, सबडिदी. बड़, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/03	10-अप्रैल-78
1965	मंदीप मिनी, पुत्री श्री जसवंत सिंह	पीबीएसवीसी/2 817/05	म.न. 35, सुंदर बिल्डिंग, शौक फरीद, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	03-अग-82
1966	मानिक लाल हेमब्राम, पुत्र श्री रामचंद हेमब्राम	उत्तरप्रदेशएसवीसी /3206/05	ग्राम पिशागरिया, डाक रानीबंघ, जिला बंकुरा, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/उत्तरप्रदेशएसवीसी एफएस/05	06-दिस-80
1967	मनीश दूबे, पुत्र श्री विष्णु कुमार दूबे	एमपीएसवीसी/ 2321/06	जारी पटका-1, फलका बाजार ग्वालियर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/05	14-जन-81
1968	मनीश कुमार, पुत्र श्री चंद्र भूषण प्रसाद	बिहारएसवीसी/ 2415/04	ग्राम एवं डाक-माकर, थाना माकर, सबडिदी. व जिला- सारन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/03	20-फर-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतथि
1969	मनीश पटेल, पुत्र श्री बी. एस. गौड़	यूवीसी/139/06	वेट, अधिकारी, गवर्न. वेट. हॉस्पिटल, बछुवाबन, चमोली, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेईपीव ीवी/02	06-जुला-77
1970	मनीश, पुत्र श्री राजकुमार	यूवीसी/140/06	सी-11, नई धीरवाली ज्वालापुर, जिला, हरिद्वार, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेईपीव ीवी/02	03-जुला-73
1971	मनीश डोगरा, पुत्र श्री लेख राम	एचपीएसवीसी/742/05	मलहट नगर, नई रेलवे लाइन, तह. एवं जिला उना 174303, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी /05	24-जुला-82
1972	मंजप्पा आर. पुत्र श्री रामप्पा एम.	कर्नाएसवीसी/3742/	बी. दुर्गा डाक, होलाकरे तालुक, चित्रदुर्गा जिला 577518, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	30-अक्टू-77
1973	मंजु सिन्हा, पुत्री श्री राम नरेश प्रसाद	बिहारएसवीसी/2323/03	ग्राम एवं डाक-चोरसूया, थाना गिरियाक, सबडिवी. राजगीर, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/03	01-मार्च-78
1974	मंजुनाथ के.एम., पुत्र श्री मुनियप्पा एस.	कर्नाएसवीसी/3750/	खाजीहोसाहल्ली, कटिटगना हल्ली डाक, जाडीगेनाहल्ली ग्राम, होसाकोट तालुक, बंगलौर 562004, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/यूएसबंगलौर /05	04-दिस-79
1975	मंजुनाथ बी.एन., पुत्र श्री नारायणप्पा	कर्नाएसवीसी/3727/	बेलागानाहल्ली, हुथुर डाक, कोलार तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	15-जुला-81
1976	मंजुनाथ बी.एस., पुत्र श्री बी.वी. सुब्बारायप्पा	कर्नाएसवीसी/3771/	बालाहल्ली डाक, चिंतामनि तालुक, कोलार जिला, 563123, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	18-जून-80
1977	मंजुनाथ जे., पुत्र स्व. श्री आई. जूलप्पा	कर्नाएसवीसी/3766/	# 60, संजयनगर डाक, भूपसांद्रा, बंगलौर-560094, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	19-सित-82
1978	मनमोहन सिंह दरदी, पुत्र श्री राम प्रकाश	एचपीएसवीसी/709/05	पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय, सीएसकेएचपीकेवीपालमपुर, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/00	01-मई-75
1979	मन्ने वेंकट रंगा लहरी, पुत्री श्री एम. सत्यनारायण	एपीएसवीसी/4333/05	म.न. 66-101/1ए, इंदिरा गांधी स्ट्रीट, नरसन्ना एनआर, काकीनाडा-3, पू.गो. जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एनजीआरएयू /05	31-दिस-80
1980	मनोहर वांगरू, पुत्र श्री वी. यादगिरि	एपीएसवीसी/4299/05	प्लॉअ न. 200, माधव नगर कॉलोनी, करमनघाट, बैरामलगुडा, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एनजीआरएयू /05	05-जन-80
1981	मनोज कुमार, पुत्र श्री फकीर चंद भन्बु	एचएआरएसवीसी/1865	ग्राम एवं डाक कलिरावान, तालुक मंडी, आदमपुर, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /05	25-नव-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1982	मनोज कुमार भारती, पुत्र श्री नारायण झा	बिहारएसवीसी/ 2330/03	ग्राम शरनपुर, डाक डावरा, थाना तराबाड़ी, सबडिवी. अरारिया, जिला अरारिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 03	08-फर-74
1983	मनोज कुमार भारती, पुत्र श्री राम बबन राम	बिहारएसवीसी/ 2457/04	ग्राम/मुहल्ला- भगवाबाड़ी, वार्ड न. 4, सबडिवी. कथार, जिला कटिहार, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/04	30-मई-79
1984	मनोज कुमार भारती, पुत्र श्री राम देव रजाक	बिहारएसवीसी/ 2333/03	ग्राम व डाक-खारा, थाना उडा किशनगंज, सब. डिवी. उडाकिशन गंज, जिला माधेपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	06-जन-77
1985	मनोज कुमार गोस्वामी, पुत्र श्री सुधीर च. गोस्वामी	डब्ल्यूबीएसवीसी /3176/05	टाटा रोड, दुलमी, नादिया, पुरुलिया 723102, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	15-नव-82
1986	मनोज कुमार, पुत्र स्व. श्री सीता राम सिंह	बिहारएसवीसी/ 2285/03	ग्राम-बलिया, डाक भवानीपुर, थाना गोपालपुर, सबडिवी. नौगधिया, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	06-जन-75
1987	मनोज कुमार, पुत्र श्री दया नंद	एचपीएसवीसी/ 747/05	ग्राम एवं तह. निर्माण, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी /05	29-सित-79
1988	मनोज कुमार, पुत्र श्री राम नरेश प्रसाद चौधरी	बिहारएसवीसी/ 2309/03	ग्राम जमुनी चौक, डाक बड़ (आर.एस.)थाना बड़, सबडिवी. बड़, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 03	01-मार्च-74
1989	मनोज कुमार, पुत्र श्री रतन राम	बिहारएसवीसी/ 2597/05	ग्राम/मुहल्ला-विष्णुपुरा, डाक सोनहुला, थाना गोपालपुर, सबडिवी. गोपालगंज, जिला गोपालगंज, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 05	25-दिस-76
1990	मनोज कुमार, पुत्र श्री सत्य नारायण लाल देव	बिहारएसवीसी/ 2271/03	ग्राम जाफरा, डाक सोनवी, थाना दरभंगा, सबडिवी. दरभंगा, जिला दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 02	19-अक्तू-78
1991	मनोज कुमार साहू, पुत्र श्री रामचंद्र साहू	उड़ीसाएसवीसी /1992/05	एटी.तमाबाखुरी, डाक-एमडी.नगर, जिला मयूरभंज, 756030, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	09-मई-80
1992	मनाज कुमार सिंह, पुत्र श्री कुलदीप चौधरी	बिहारएसवीसी/ 2308/03	ग्राम नया क्षेत्र, डाक सासाराम, थाना सासाराम, सबडिवी. व जिला रोहतास, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/02	01-मार्च-77
1993	मनोज कुमार सिन्हा, पुत्र श्री सत्य नारायण प्रसाद	बिहारएसवीसी/ 2300/03	ग्राम चाकज मेरी, डाक चंदन पट्टी, थाना साकरा, सबडिवी. पूर्वी मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/02	06-जून-76
1994	मनोज कुमार तिवारी, पुत्र श्री माता बादल तिवारी	यूवीसी/145/ 06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट. हॉस्पिटल, पारोगी, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/99	01-जुला-75
1995	मनोज कुमार टोनी, पुत्र डॉ. छोटे लाल पासवान	बिहारएसवीसी/ 2448/04	ग्राम/मुहल्ला-दिलावरपुर, डाक मिल्कीचाक, थाना बहादुरपुर, सबडिवी. दरभंगा सदर, जिला दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 04	05-जन-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1996	मनोज सरकार, पुत्र स्व. श्री मधु सूदन सरकार	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3174/05	ग्राम शरतपोली, डाक बरहामपुर, जिला मुर्शिदाबाद- 742101, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/05	28-फर-82
1997	मनप्रीत कौर, पुत्री श्री अवतार सिंह	पीबीएसवीसी/2 630/05	म.न. 477, फेस-3बी-1, मोहाली, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	07-सित-81
1998	मारजोरी राज (पत्नी श्री बी. अशोक कुमार)	टीएनएसवीसी/ 2990/05	472/5,वेस्ट वुड अपार्ट. आर -7-ए,नॉर्थ मेनरोड, अन्ना नगर, पश्चिमी एक्स., चेन्नई 600101	बीवीएससी/ टी एनएयू/86	03-फर-83
1999	मेरी प्रिया (के. आर. उम्मन)	टीएनएसवीसी/ 797/05	1/266, सिंगाराथोट्टम, वंडालूर, चेन्नई 600048, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टी एनवीएंडएएसयू/96	21-मई-72
2000	मथाकिया रफीउद्दीन ए.	गुजएसवीसी/2 630/06	रसिकगढ़, तालुक वांकांनेर, जिला राजकोट, पिन 363621, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंदकृ.वि.वि./06	03-नव-82
2001	मौर्या (कु.) पदमा, पुत्री श्री आर.एस. मौर्या	असमएसवीसी/ 2215/05	प्रशिक्षण केंद्र, सिक्स माइल, डाक खानापाड़ा, गुवाहाटी- 22, असम	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/05	15-जुला-81
2002	मेयेकल सोरेन, पुत्र श्री बर्नार्ड बरका सोरेन	बिहारएसवीसी22 34/02	ग्राम पोबाल, डाक अपरोल, थाना बोरियो, सबडिवी. साहेबगंज, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/02	11-मई-76
2003	मौह. इमरान, पुत्र श्री मौह. अजाकल आलिम	बिहारएसवीसी/ 2489/04	ग्राम/मुहल्ला-मोहनपुर, डाक बरसोईघाट, थाना बरसोई, सबडिवी. बरसोई, जिला कटिहार, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएन.बी.आरएयू/04	21-जून-77
2004	मौह. जयूल होडा, पुत्र मौह. अमीरुद्दीन अन्सारी	बिहारएसवीसी/ 2584/05	ग्राम/मुहल्ला- दमदमा, डाक लहरियासराय, थाना लहरिया सराय, सबडिवी. दरभंगा सदर, जिला दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	01-मार्च-79
2005	मौह. परवेज अख्तर, पुत्र श्री अब्दुल मजीद	बिहारएसवीसी/ 2806/05	ग्राम/मुहल्ला-पुरंदरपुर, डाक बांकीपुर, थाना पीरबहोर, सबडिवी. पटना, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	28-फर-79
2006	मौह. शहाबजुल हक, पुत्र मौह. इसराकल हक	बिहारएसवीसी/ 2535/04	ग्राम/मुहल्ला- जलकौड़ा, डाक जलकौड़ा, थाना खगरिया, सबडिवी. खगरिया जिला खगरिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएंडएफएस यू/04	01-मार्च-80
2007	मौह. शिबली नोमानी, पुत्र मौह. सफीरुद्दीन	बिहारएसवीसी/ 2296/03	ग्राम-मिरजापुर दियारी, डाक मिर्जापुर, थाना बौसी बसैरी, सबडिवी. अरारिया, जिला अरारिया बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/00	02-अप्रैल-76
2008	मेहर सिंह, पुत्र श्री जगदीश सिंह	एमपीएसवीसी/ 2305/05	108, गरगज कॉलोनी, बहोदापुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/03	14-मई-76
2009	मिली प्रसाद, पुत्री श्री रामराज प्रसाद	बिहारएसवीसी/24 42/04	ग्राम गोलघर, डाक जीपीओ, थाना कोतवाली, सबडिवी. पटना, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	20-जुला-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2010	मीताली सेनापति, पुत्री श्री आर. सेनापति	मेघएसवीसी/ 236/05	पैट बायेटिक्स, सामविला, लाबान मेन रोड, शिलौंग-4, मेघालय	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/00	01-अक्टू-74
2011	मिथिलेश कुमार राय, पुत्र श्री अजीत कुमार राय	बिहारएसवीसी/ 24 96/04	ग्राम/मुहल्ला-रामापुर डाक रतनपुर, थाना मुफसिल, सबडिवी. आराह, जिला भोजपुर बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /04	05-जन-76
2012	मिथिलेश कुमार, पुत्र श्री तेज नारायण यादव	बिहारएसवीसी/ 25 81/05	ग्राम/मुहल्ला-बैदी, डाक भौदूक, थाना सिमरीबख्तियारपुर, सबडिवी. सिमरी बख्तियारपुर, जिला सहरसा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 05	01-जन-60
2013	मिथिलेश कुमार, पुत्र श्री जवाहर प्रसाद	बिहारएसवीसी/ 24 61/04	ग्राम/मुहल्ला-सलखुया, डाक सलखुया बाजार, थाना सलखुया बाजार, सबडिवी. सिमरी, जिला सहरसा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 04	01-जुला-76
2014	मितु सेठ, पुत्री श्री सिद्धी नाथ सेठ	बिहारएसवीसी/ 24 43/04	ग्राम कोंटेज कम्पाउंड, डाक भागलपुर, थाना कोतवाली, सबडिवी. भागलपुर, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 04	05-मार्च-76
2015	मौहम्मद अब्दुल्ला के. एच., पुत्र श्री हन्नुर साब एच.	कर्नाएसवीसी/ 361 9/	नेविलेहाल डाक, चन्नागिरि तालुक, दावणगेरे जिला 577544, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/यूएसबंगलौर /04	20-जुला-77
2016	मौहम्मद फरमान एफ., पुत्र श्री एसजी. मौहम्मद फैज एसजी	कर्नाएसवीसी/ 377 2/	अनियन मचेंट, लॉर्ड पुरा, सिरा, तुमकुर जिला 572137, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	14-फर-81
2017	मौहम्मद गौस (शोक हैदर साहेब)	टीएनएसवीसी/ 16 25/05	228, अम्मान कोइल स्ट्रीट, ब्रॉडवे, चेन्नई 600001, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 72	28-जन-47
2018	मौहम्मद शफीउज्जमा (शाहील अब्दुल हमीद)	टीएनएसवीसी/ 27 74/05	न. 10, स्टाफ क्वार्टर्स (मद्रास वेटरिनरी कॉलेज), चेन्नई 600007	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /93	24-अक्टू-68
2019	मौहम्मद हसीब, पुत्र श्री मौहम्मद कासिम	बिहारएसवीसी/ 24 65/04	ग्राम/मुहल्ला-अरथेली, डाक नंदलालपुर, सबडिवी. वैशाली, जिला वैशाली, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/04	13-अप्रैल-76
2020	मौहम्मद निसार पी.यू.	केरल/ 3085/ 05	पोक्कालथ हाउस, पजुविल डाक, त्रिसूर 680564, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	07-दिस-80
2021	मौहम्मद आसिफ खान, पुत्र श्री इकरम अली	राजएसवीसी/ 323 7/06	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, झुंझनू, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /05	12-दिस-76
2022	मौहम्मद नवाजिश, पुत्र श्री अब्दुल मन्नान	यूवीसी/ 70/06	म.न.-IV/112/एफ, आ कॉलोनी, पंत नगर, जिला यूएस.नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /00	27-दिस-76
2023	मौहम्मद रफी जी.एच. पुत्र श्री जी.टी. हुसैन पीर	कर्नाएसवीसी/ 381 0/	गोलारहल्ली, उप्परागनाहल्ली डाक, होलेलकेरे तालुक, चित्रदुर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	20-जुला-76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2024	मौहम्मद अब्बास, पुत्र श्री करीम अब्बास	कर्नाएसवीसी / 379 4 /	न. 15, दूसरा मेन रोड, गंगानगर एक्सटेंशन, बंगलौर -32, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	03-अप्रैल-80
2025	मोहन लाल शर्मा, पुत्र श्री परमा नंद शर्मा	यूवीसी / 126 / 06	31-गढ़ी कैंट, निम्बुवाला रोड, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच / पीएयू/67	23-नव-43
2026	मोहन ए.वी., पुत्र श्री वेंकटप्पा एच.एस.	कर्नाएसवीसी / 376 1 /	वाई. होसाकोट ग्राम व डाक, श्रीनिवासपुरा तालुक, कोलार जिला, 563125, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	10-मई-62
2027	मोहन के., पुत्र श्री ए. कृष्णप्पा	कर्नाएसवीसी / 376 6 /	कोडीगलाहल्ली, हुनासिमारन हल्ली, बंगलौर-57, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	09-नव-61
2028	मोनिका तेहलान, पुत्र श्री धरमवीर तेहलान	हरिएसवीसी / 187 4	857 / 30, श्री नगर कॉलोनी, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /05	04-अक्टू-81
2029	मोरापका रविंदर, पुत्र श्री वीरइयाह	एपीएसवीसी / 4412 / 05	अलेयर, नेलीकुंडेर (एम), वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	10-अप्रैल-81
2030	मृत्युंजय कुमार, पुत्र श्री राम प्रवेश प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 25 56 / 04	ग्राम/मुहल्ला- गुलनौ, डाक भोकिलापट, थाना हिलसा, सबडिवी. हिलसा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/04	01-मार्च-79
2031	मृत्युंजय कुमार, पुत्र श्री उमाचरन प्रसाद	बिहारएसवीसी / 23 85 / 03	ग्राम-होरीलानीडा, डाक योगी पुर, थाना हिलसा, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	02-मई-78
2032	मृत्युंजय कुमार सिंह, पुत्र श्री सीता राम सिंह	बिहारएसवीसी / 23 32 / 03	ग्राम दयालपुर, डाक संगीता बैठा, थाना काहलगांव, सबडिवी. काहलगांव, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	16-फर-79
2033	मृत्युंजय प्रसाद सिंह, पुत्र श्री महेश प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 23 63 / 03	ग्राम-लगमा, डाक अमरथ, थाना जमुई, सबडिवी. जमुई, जिला जमुई, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	20-अक्टू-72
2034	मृत्युंजय मंडल, पुत्र स्व. श्री रामकृष्ण मंडल	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3154 / 05	ग्राम एवं डाक गोविंदपुर, थाना श्यामपुर, जिला हावड़ा, 711314, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूए एंडएफएस/05	25-जुला-82
2035	मु. धनशेखरन (एम.ए. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी/31 61 / 05	न. 45, राजीव गांधी नगर, वेस्ट सर्कल स्ट्रीट, II फेस, सोवरीपुरम, कोयम्बतूर 641028, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/81	09-जून-57
2036	मुकेश चंद्र, पुत्र श्री गणेश दत्त पांडे	यूवीसी / 07 / 06	ग्राम बैरती, तह. चोकाथिया, अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /05	20-दिस-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2037	मुकेश गुर्जर, पुत्र श्री धरम सिंह	राजएसवीसी/321 6/06	शिव कॉलोनी, जी.के. रोड, बांदीकुई दौसा, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 05	07-नव-80
2038	मुंडुर वेंकटेश्वरु, पुत्र श्री रामकृष्णइयाह	एपीएसवीसी/ 4300/05	गोगुलापट्टु, रोमपीचेरला (एम), गुंदूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /01	04-अप्रैल-74
2039	मुरलीधर एच.टी., पुत्र स्व. श्री थिम्मागजू के.	कर्नाएसवीसी/375 4/	दुर्गम्बा मंदिर के निकट, कालाहल्ली ग्राम हल्ली मैसूर हुबली होलेनरसीपुरा तालुक, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	26-मार्च-83
2040	मुरलीकृष्ण रेड्डी कोंडा, पुत्र श्री के. शिवा रेड्डी	एपीएसवीसी/ 4328/05	6-1, इंदूर (सी.पी.ओ), गुंदूर जिला- 522341, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	03-अग-82
2041	एन. अगिलान (के. नाचाली)	टीएनएसवीसी/27 37/05	पुराना न. 133, नया न. 46, कथान स्ट्रीट, पेरिया नाथम, चेंगलपट्टु 603002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	13-मई-72
2042	एन. आनंदन (आर. नागराजन)	टीएनएसवीसी/13 30/05	3-एफ, सेथू राड, मिमिसाल डाक, पुडुकोट्टई जिला, पिन-614621, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	15-मार्च-69
2043	एन. आनंदराज (वी. नामपेरुमल)	टीएनएसवीसी/31 50/05	कृषि सहकारी बैंक के निकट, लक्ष्मीपुरम डाक, पेरियाकुलम तालुक, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	10-मई-71
2044	एन. अंबलागन (सी. नटराज गुंडेर)	टीएनएसवीसी/31 04/05	नीलमपूडी ग्राम, कडाली डाक, जिंजी तालुक, 804210, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	13-जुला-57
2045	एन. अंबलागन (एम. नारायणन)	टीएनएसवीसी/22 57/05	न.89, न्यू फोर्ट स्ट्रीट, वंदावासी, तिरुवन्नामलई जिला, पिन 604408, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/79	10-जुला-48
2046	एन. अनिथा (एम. नागथेवन)	टीएनएसवीसी/32 1/04	कुमारागाम, अन्ननजी डाक, थेनी जिला, 625531, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	05-मई-81
2047	एन. अप्पावु (नचीमुथु)	टीएनएसवीसी/18 68/05	इरामनइकनपट्टी डाक, पलानी तालुक, डिंडीगल जिला 624613, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 69	07-फर-42
2048	एन. आर्किमिडीज (पी. नचीमुथु)	टीएनएसवीसी/19 69/05	2/46-एफ, डॉक्टर्स कॉलोनी, जागीर रेड्डीपट्टी, सलेम-5, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	04-जुला-82
2049	एन. अरुलानाथम (नेवन)	टीएनएसवीसी/24 7/04	4/283, साइक्लोन कॉलोनी, मेलूर डाक, मदुरई जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	02-अप्रैल-75
2050	एन. अरुणाचलम (पी. नाचीमुथु गुंडेर)	टीएनएसवीसी/25 83/05	307, साथी मेन रोड, कार्विंडापडी डाक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 73	01-दिस-48

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2051	एन. बाबू प्रसाथ (आर. नटराजन)	टीएनएसवीसी/30 57/05	वडा करीगलीपडी, सोराकुलाथूर डाक, तिरुन्नामलाई तालुक व जिला, 606802, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	30-मई-83
2052	एन. बाबू (ए. नटेसन)	टीएनएसवीसी/25 47/05	1366, III स्ट्रीट, के.के. नगर, वासवी कॉलेज डाक, इरोडे 638316, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	08-अक्टू-70
2053	एन. बालन (एन. नागलिंगम)	टीएनएसवीसी/19 05/05	2/706, गोविंद वर्मा स्ट्रीट, पिदामानेरी, धर्मपुरी 636703, तमिलनाडु	बीवीएससी/मद्रासवि. वि./71	28-अप्रैल-48
2054	एन. बालासुब्रमध्यन (नमाशिवयम)	टीएनएसवीसी/82 3/05	27, दीवान नारायणस्वामी वेस्ट स्ट्रीट, रामनाथपुरम 823501, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	17-अप्रैल-45
2055	एन. भारती (के. नरसिम्हन)	टीएनएसवीसी/10 01/05	न.7, एक्सटेंशन, पिलायर कोइल स्ट्रीट, तिरुपथूर 635601, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	19-मई-65
2058	एन. भारती (आर. नल्लाथम्बी)	टीएनएसवीसी/29 95/05	53/6, गणपति नगर, कलेक्शरेंट डाक, इरोडे-11, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	03-जून-82
2057	एन. चंद्रसेखरन (एस. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/96 7/05	कोराटूर, कलानीवासल, पेरारुवानी तालुक, थंजावुर 814804, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	15-अप्रैल-58
2058	एन. चंद्रसेखरन (आर. नल्लासामी)	टीएनएसवीसी/25 65/05	4/359, नन्जप्पा नगर, कल्लम पलायम डाक, गोबी तालुक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/89	03-मई-58
2059	एन. चिन्नामय (नल्लामुथु)	टीएनएसवीसी/57 3/05	पिनिमी साई डाक, राजाजी नगर वाया, कुन्म तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621713, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	13-जून-79
2060	एन. चिथिराई थिरुमल (वी.ए. मारथंडम)	टीएनएसवीसी/23 89/05	1/251, साउथ स्ट्रीट, इट्टीमोजी डाक, तिरुनेलवेली जिला 628652, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	06-मई-53
2061	एन. गनेशन (एम. नटराजन)	टीएनएसवीसी/96 /03	अरासनपट्टी डाक, धर्मपुरी जिला, पोचमपल्ली तालुक, पिन 6352, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	29-मई-80
2062	एन. गनेश (के. नायनर)	टीएनएसवीसी/12 70/05	15, स्टेट बैंक कॉलोनी, चौथी स्ट्रीट, मेलाग्राम, तेनकासी तालुक 827818, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	12-जून-77
2063	एन. गोपी कृष्णा, पुत्र श्री एन. रामचंद्र राजू	टीएनएसवीसी/34 45/05	इडुवरपलायम ग्राम व डाक, गोमिदीपूडी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	20-मई-66
2064	एन. जगन्नाथन (एन. नचप्पन)	टीएनएसवीसी/19 55/05	200, न्यू स्ट्रीट, वेलांडीबलासु डाक, इडापडडी तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	14-दिसं-57

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2065	एन. जयसंध्या, पुत्र श्री वी.सी. नटेशन	टीएनएसवीसी/33 10/06	पल्लईथानूर, सी.पी. वलासई डाक, बलूर वाया, सलेम जिला, 836104, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	07-मई-82
2066	न. जीवानंदम (के.एम. नटराजन)	टीएनएसवीसी/29 93/05	कलारमपट्टी डाक, मल्लिकरई वाया, अट्टूर तालुक, सलेम जिला, पिन 636107, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	20-जून-81
2067	एन. जयराम (आर. नारायण रादर)	टीएनएसवीसी/21 81/05	"अशीजे" 724, नेसामोनी नगर, नगरकोइल-1, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	13-अप्रैल-58
2068	एन. कलईवनन (पी. नल्लुसामी)	टीएनएसवीसी/18 58/05	कवारपनई डाक, वीरागनूर (एसओ), गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला 636118, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	15-जुला-77
2069	एन. कलियामूर्ति (एन. नटेशन)	टीएनएसवीसी/14 4/03	वेल्लमपुथुर वाया, वडागरई थंजानूर डाक, थिरुकोविलूर तालुक, पिन 605752 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	20-जन-80
2070	एन. काथिकेयन (पी. नचीमुथु)	टीएनएसवीसी/28 80/05	12, लोहिया स्ट्रीट, कट्टुपलायम, स्वामीनाथपुरम डाक, मोदाकुरिची वाया, इरोडे जिला, तमिलनाडु पिन 638104	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	03-फर-74
2071	एन. कथीशवन (वी. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/22 29/05	40-एफ, गांधीनगर, वेलांडी वलासु डाक, इडापडी तालुक, सलेम जिला, पिन 637105, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	19-मई-69
2072	एन. कविशा, पुत्र श्री जी. नटराजन	टीएनएसवीसी/33 03/06	न. 4, अम्बेडकर स्ट्रीट, ओटानथंगल कंडीपेडु, कटपडी, वेल्लोर-6, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	11-नव-81
2073	एन. कृष्ण कुमार (पी. नीलामगन)	टीएनएसवीसी/21 1/03	2/407, गांधी स्ट्रीट, जवाहर नगर, रैडहिल्स, चेन्नई-600052, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	14-जुला-79
2074	एन. कृष्णसामी (एन. वी. नरसिमायु)	टीएनएसवीसी/25 30/05	18ई-6बी, वी.वी.गिरि कॉलोनी, पंचायत ऑफिस रोड, संकरी 637301, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	07-मई-49
2075	एन. कुलाडासामी (ए. नल्लासामी)	टीएनएसवीसी/25 71/05	विलायनगुडी, सिलुवमपालयम, वजई थोट्टम डाक, सिवागिरि वाया, इरोडे जिला 638109, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	20-मई-62
2076	एन. कुमार (वी. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/20 31/05	43-बी1, पावीरुसुन कुलम, वेलांडीवलसई डाक, 637105, इडापडी तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	26-अप्रैल-89
2077	एन. कुमार रथिनम (नटरायासामी)	टीएनएसवीसी/25 82/05	कोलाथुरपलायम डाक, धर्मापुरम तालुक, इरोडे जिला, 638661, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	03-फर-64
2078	एन. लक्ष्मी नारायणन (नागमनिकम)	टीएनएसवीसी/25 25/05	181, बाजार स्ट्रीट, सध्यामंगलम डाक, इरोडे जिला, 638401, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 73	13-जुला-47

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2079	एन. ललिथा (एस.पी. नटराजन)	टीएनएसवीसी/12 3/03	संकरपलायम-पोय्येरी, कोमारीपलायम डाक, मोहनूर बाया, नमक्कल जिला, तमिलनाडु 637	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	14-अग-79
2080	एन. लथा (के. नटेशन)	टीएनएसवीसी/18 93/05	12/3, फॉरेस्ट रोड, बोम्मिडी, धर्मपुरी जिला, 635301, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	16-जून-73
2081	एन. मानिकंदन (बी. एन. नारायणन)	टीएनएसवीसी/22 8/03	38, कामराज स्ट्रीट, थिरुवल्लुवर नगर, अयानावरम, चेन्नई 600023, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	04-दिस-79
2082	एन. मंजुला (पत्नी श्री एन. चंद्रसेखरन)	टीएनएसवीसी/25 63/05	105, बाबू फर्टिलाइजर्स, अम्मापेटई, मेट्टूर मेन रोड, भवानी तालुक, इरोडे जिला, 638311, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	20-मई-74
2083	एन. मनोहरन (नटेशन)	टीएनएसवीसी/17 18/05	अम्मानकुडी, कालाकुडी, मुसिरी तालुक, त्रिची जिला, पिन 621208, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	30-मई-61
2084	एन. मनोहरन (एस. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/21 62/05	पेरुमगलूर व डाक, लेनिन नगर, पेरपुरानी तालुक, थंजावुर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	15-अक्टू-51
2085	एन. मेगनाथन (वी. नागरथिनम)	टीएनएसवीसी/74 2/05	21 ई, कनकराया मलईप्पन स्ट्रीट, मंडावेलीपक्कम, चेन्नई 800028, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	07-दिस-51
2086	एन. मौहम्मद फारुक (पी.के.एम. मौहम्मद)	टीएनएसवीसी/19 90/05	प्लॉट न. 9, ए बी, सेवुगन चेट्टियार कॉलोनी, प्रथम स्ट्रीट, रिजर्व लाइन डाक, मदुरई 824014	बीवीएससी/एमयू/ 85	07-अक्टू-40
2087	एन. मोहनराज (नटराजन)	टीएनएसवीसी/20 74/05	139-10, पान्नेर सेल्वम स्ट्रीट, कावेरीनटनम डाक, कृष्णागिरि जिला, 632112 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/74	09-अक्टू-48
2088	एम. मुगंधन (पी. नटराजन)	टीएनएसवीसी/13 2/03	91, रायापलायम पुडुर, चिथोडे 638102, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	23-जुला-79
2089	एन. मुनियप्पन (एम. नटरासन)	टीएनएसवीसी/23 6/04	अरासमपट्टी (विज एवं डाक) पोचमपल्ली तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन 635201, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	07-दिस-78
2090	एन. मुरुगन (ए. नटराजन)	टीएनएसवीसी/10 75/05	21/4, महात्मा गांधी स्ट्रीट, बालाजी नगर, थिरुपराकुटरम डाक, मदुरई 625005, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	21-मई-61
2091	एन. मुरुगन (के. नलप्पन)	टीएनएसवीसी/10 59/05	2/188, पालीकडु, ए.सी. कौंडालमपट्टी, कौंडालमपट्टी डाक, सलेम 636010, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/77	04-अप्रैल-54
2092	एन. मुरुगाराजन (एस. नटराजन)	टीएनएसवीसी/13 93/05	1/371, नेहरू नगर, कलेक्टरेट (डाक), रामनाथपुरम 623503, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /98	04-फर-73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2093	एन. मुथुकुमार (आर. नटेशन)	टीएनएसवीसी/11 76/05	6/367 ए, थिरुवल्लुवर नगर, बोधुपट्टी रोड, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /88	17-नव-74
2094	एन. नागनाथन (के. नागेश्वरन)	टीएनएसवीसी/11 31/05	"सास्था-सौधारा निवास", डोर न.3/99, कासी नगर, "आविन" के सामने, नल्लूर डाक, परमाकुडी 823707, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	16-अग-63
2095	एन. नटेशन (के. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/20 40/05	न.9, गणेश नगर, अन्ना नगर पूर्व, कुडालूर 607001, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 77	15-अग-52
2096	एन. निर्मल कुमार (ए. नटेशन)	टीएनएसवीसी/26 2/04	प्लॉट न. 32, एनजीजीओ कॉलोनी, रानी अन्ना नगर, चंदिरन गार्डन, कथन्नाथिरुपति, सलेम 636008	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	30-मई-79
2097	एन. पहलवान (ए. नटेशन)	टीएनएसवीसी/18 91/05	1/209, पलायाकोट्टई, नाथक्काडाइयूर डाक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /86	25-जुला-73
2098	एन. पलानी, पुत्र श्री एम. नटराजन	टीएनएसवीसी/34 55/06	60, कुथुक्कल, सेडुनल्लूर डाक, पलायमकोट्टी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /82	24-अप्रैल-69
2099	एन. परमासिवन (एस. आर. नागालिंगम)	टीएनएसवीसी/10 91/05	469, बाई पास रोड, सपूर, तिरुधुनगर जिला, 626203, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	07-अक्टू-51
2100	एन. पारथीबन (एन. नवालन)	टीएनएसवीसी/32 69/05	17/4, प्लॉट सी3, सूर्या अपार्टमेंट, करपागावीनायगर कोविल स्ट्रीट, पूर्वी धाम्बरन, चेन्नई, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	17-नव-76
2101	एन. पारथीबन (बी. नारायणसामी पदयाची)	टीएनएसवीसी/39 /03	9, सेंगामेट्टु स्ट्रीट, मयिलाडुथुरई 609001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/76	25-मई-47
2102	एन. पानराज, पुत्र श्री एस. नवनीता कृष्णन	टीएनएसवीसी/34 16/06	सेथिलाथीपुरम, कृसालपट्टी डाक, इलायीरमपन्नई वाया, सपूर तालुक, तिरुधुनगर 626201, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	20-मई-82
2103	एन. प्रवीपा (के. नटराजन)	टीएनएसवीसी/35 2/04	मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, इडुथावैनाथम डाक, कलाकुरिची तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	24-सित-79
2104	एन. प्रकाश (बी.पी. नल्लासामी)	टीएनएसवीसी/23 66/05	वेल्लनकोविल डाक, गोबी चेट्टिपलायम तालुक, इरोडे जिला, 638059, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/67	12-मार्च-81
2105	एन. प्रेमा (ए. नटराजन)	टीएनएसवीसी/12 44/05	जीएमके नगर, त्रिची रोड, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	10-सित-72
2106	एन. प्रेमलथा (जी. नैनप्पा)	टीएनएसवीसी/54 6/05	डोर न. 1, नटराजपुरम, फर्स्ट स्ट्रीट, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	26-फर-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2107	एन. प्रेमलथा (आर. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/30 55/05	पुराना न. 21/2, नया न. 18/1, बडी बेगम स्ट्रीट, थाउजैंड लाइट्स, चेन्नई 600086	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	03-मई-69
2106	एन. प्रेम कुमार (नागराजन)	टीएनएसवीसी/18 64/05	न. 11, यमुना स्ट्रीट, भारती नगर, अडम्कम, चेन्नई 600086	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	31-मई-68
2109	एन. राधाकृष्णन (पी. नटेशन)	टीएनएसवीसी/31 41/05	64, राजागुंडम पलायम, सूरेयम पलायम डाक, तिरुचेनगोडु तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/75	01-जून-48
2110	एन. राधाकृष्णन, पुत्र श्री के. नारायणसामी	टीएनएसवीसी/34 95/06	4/1197डी, अमुधम कॉलोनी, इंदिरा नगर, वेनमपट्टी रेल रोड के निकट, धर्मपुरी 636701	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	11-मार्च-77
2111	एन. राजेंद्रन (टी. नटराजन)	टीएनएसवीसी/16 72/05	न. 4, मासीनाइकनपट्टी, अयाधियापट्टनम डाक, सलेम जिला 636103, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/75	01-मार्च-53
2112	एन. राजेंद्रन (बी.पी. नारायणन)	टीएनएसवीसी/81 /03	वेस्ट स्ट्रीट, वेंगराई डाक, वेलूर तालुक, नमक्कल जिला, पिन 637208	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	07-जून-77
2113	एन. राजकुमार, पुत्र श्री एस. नटराजन	टीएनएसवीसी/35 59/06	न. 204, अजहर मेसन, 142, बिग स्ट्रीट, ट्रिप्लिकेन, चेन्नई 600005, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	29-मई-71
2114	एन. रामापति (टी. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/14 67/05	प्लॉट न. 71/72, (डोर न. 2) चौथा क्रॉस स्ट्रीट, ओम शक्ति नगर, मनगडु, चेन्नई 602101	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /98	11-फर-48
2115	एन. रामासामी (आर. नटराजन)	टीएनएसवीसी/20 83/05	10/987, मेन रोड, पायूर चटरम, तिरुनेलवेली जिला, पिन 627608, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/84	25-जुला-60
2116	एन. रमेश (जी. नटराजन)	टीएनएसवीसी/28 83/05	184, मेन रोड, गांधी पुरम, सेंदमंगलग डाक, नमक्कल जिला, 837409, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /98	07-जून-73
2117	एन. रामाकुमार (पी. नटराजन)	टीएनएसवीसी/61 7/05	इरुमियमपट्टी, कोक्कापट्टी डाक, पपीरेडुडीपट्टी तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन 638906	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	06-जुला-76
2116	एन. राज्ञी (के. नटराजन)	टीएनएसवीसी/30 22/05	कीलाधेनकुलम, धेनकुलम डाक, संकर नगर (वाया), तिरुनेलवेली जिला 627357, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	
2119	एन. राशिया बानू (के. नागराजन)	टीएनएसवीसी/41 8/04	मर्सी कॉटेज, के-3/471, मुथइया नगर, कुम्भकरेनम 812001, तमिलनाडु	बीबीएससीएंडए एच/पीयू/04	03-जन-82
2120	एन. रवि सुंदरेसन (एस. नागालिंगम)	टीएनएसवीसी/12 84/05	औदूर वाया, श्रीवैकुंठ तालुक, उमारीकडु 828151, द्यूटिकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	05-मई-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2121	एन.एस. जयालक्ष्मी (के. सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/29 2/04	नल्लमपट्टी, मरवाडी डाक, धर्मपुरी 635205, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	11-जन-79
2122	एन.एस. गणेश बाबू (एन.एस. सथ्या मूर्ति)	टीएनएसवीसी/32 7/04	बाबा जॉन इल्लम, अंगामुथु मुदइयार स्ट्रीट, मरांडाहल्ली 636806, धर्मपुरी जिला	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	03-सित-79
2123	एन. सदासिवन (टी.पी. नारायणन)	टीएनएसवीसी/20 49/05	27 ए. टाइप III-क्वार्टर्स, ब्लॉक 25, केरल सेलई, नेवेली 607803, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	15-अक्टू-59
2124	एन. सांति. पत्नी (के. सुरेश)	टीएनएसवीसी/17 0/05	थेरक्कु थोटम, मारुरपट्टी, नमक्कल जिला 637019, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	25-मई-71
2125	एन. श्रवणन (टी. नागराज)	टीएनएसवीसी/42 7/05	सोवुलु पट्टी विज, सोगाथूर डाक, धर्मपुरी जिला, पिन 636703, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	19-मई-78
2126	एन. सथ्यामूर्ति (पी. नारायणन)	टीएनएसवीसी/25 94/05	न.30, रेलवे स्टेशन के सामने, नॉर्थ स्ट्रीट, कोडुमुडी डाक, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	06-मई-63
2127	एन. सेल्वा राजू पुत्र श्री ए. नटेशन	टीएनएसवीसी/34 01/06	पिलयार कोइल स्ट्रीट, गोला मंगलम डाक, पल्लिकोडा वाया, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	07-अक्टू-54
2128	एन. सेल्वा कुमार (के. नटेशन)	टीएनएसवीसी/46 6/05	68/12, वल्लुवर नगर, प्रथम स्ट्रीट, अन्नाधानपट्टी, सलेम 636002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	23-मई-79
2129	एन. सेल्वा राजू (ए. नागप्पन)	टीएनएसवीसी/10 64/05	3-21ए स्टाफ क्वार्टर्स, सातवें स्टॉप के निकट, थिरु नगर, मदुरई 625006, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	25-जुला-61
2130	एन. सेल्वाद्रन (सी. नागरथिनम)	टीएनएसवीसी/88 1/05	डी/26, मीना इल्लम, वैद्यनाथ पुरम, वडागरई, पेरियाकुलम 625601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	25-मई-78
2131	एन. सेम्बियन (एम.के. डी. नटराजन)	टीएनएसवीसी/16 50/05	10, नई स्ट्रीट लेन, ईस्ट अंडर स्ट्रीट, त्रिची-2, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 71	15-जुला-47
2132	एन. सेंथिल (सी. नल्लाथम्बी)	टीएनएसवीसी/29 97/05	13/87ए, सुब्रइया नायडु कम्पाउंड, बेलार स्ट्रीट, शोला वंदन, मदुरई 625214, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	04-जुला-83
2133	एन. सेंथिल कुमार (पी. नटराजन)	टीएनएसवीसी/10 18/05	117-ई, कंडासामी नगर, चामराजपेट डाक, मेकई मेट्टुर तालुक, सलेम जिला, 636451, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	27-मई-88
2134	एन. शैलजा (के. नटराजन)	टीएनएसवीसी/41 6/04	न.18, पीएसके नगर, डीएसपी के सामने, कल्याण मंडाबम, सेविलीमेडु डाक, कांचीपुरम जिला 631501	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	07-जुला-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2135	एन. शानमुगा प्रिया (एस. नटराजन)	टीएनएसवीसी/14 7/03	135, 7वीं स्ट्रीट, पुम्पुगर नगर, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	16-नव-79
2136	एन. शिवानंदम (सी. नल्ला कुट्टलम पिल्लै)	टीएनएसवीसी/21 49/05	9/5, साउथ स्ट्रीट, परक्कई, के.के. जिला, 629601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/76	07-मई-53
2137	एन. सुंदरराजुलु (के. नारायणन)	टीएनएसवीसी/20 52/05	12/36, पोन्नमबाला नगर, विदाम्बरम 608001, कुडालूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 60	16-जन-34
2138	एन. श्रीकुमार (एम. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/14 29/05	अरियनकुप्पम, वेलियानूर डाक, टिंडीवनम तालुक, विल्लुपुरम जिला, पिन 604303, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /93	13-मई-70
2139	एन. सुगायनम (सी. नारायणन)	टीएनएसवीसी/43 6/05	69 बी, पुराना पिल्ली स्ट्रीट, वेलांडी वलासई डाक, इडापडी तालुक, 637105, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	09-दिस-77
2140	एन. सुमथी (पत्नी के. कालीमुथु)	टीएनएसवीसी/19 54/05	1/128 ए, गांधी नगर, ईसा योगा नीलायम, मोहनूर, मेन रोड, नमक्कल-1, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	16-मार्च-74
2141	एन. सुंदरावेलु (के.एन. नान्जप्पा चेट्टी)	टीएनएसवीसी/10 48/05	3/167, जी. कामराज कॉलोनी, होली क्रॉस स्कूल, आईओबी के पीछे, सलेम 636014, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/79	05-जून-50
2142	एन. सुरेश कुमार (एम. नागमुथु)	टीएनएसवीसी/25 5/04	3/129, बुद्धार न्यू स्ट्रीट, इलियूर डाक, पेराम्बलूर जिला, 621806, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	13-4-79
2143	एन. सुरेश कुमार, पुत्र, श्री के.नारायणन	टीएनएसवीसी/35 37/06	7/16, ईस्ट स्ट्रीट, मेट्टू अथूर, अथूर रोड, उलुंडुरपेट तालुक, विल्लुपुरम 606102, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /06	25-मई-83
2144	एन. धिरुनावुक्कारासु (ए. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/25 33/05	एम-234, अनयागाम, मनिक्कम पलायम हाउसिंग यूनिट, इरोडे 636011, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/63	27-मार्च-55
2145	एन. थियागराजन (के. नरसिम्हन)	टीएनएसवीसी/14 64/05	बी-342, टीएनएचबी, फेस II, आर्कट 632503, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	17-सित-77
2146	एन. वाडीवेलन (ए. नटैसन)	टीएनएसवीसी/49 6/05	चर्च के निकट, पुडुपलायम (डाक), रासीपुरम (तालुक), नमक्कल जिला 637406, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	13-जुला-81
2147	एन. वाडीमुकरासी (ए. पी. नटैसन)	टीएनएसवीसी/12 45/05	प्लॉट न. 2, ई.बी. इंजीनियर्स कॉलोनी II, अलगापुरम कट्टूर, सलेम 636016, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	23-मई-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2148	एन. वेंकटेशन (टी. नटराजन)	टीएनएसवीसी / 25 6 / 04	4 / 168 डी, मेन रोड, जया राइस मिल, पेरियमपट्टी डाक, धर्मपुरी, जिला, पिन 635205, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू / 04	12-जून-79
2149	एन. वेणुगोपाला रेड्डी, पुत्र श्री वेंकट सुब्बा रेड्डी	एपीएसवीसी / 4360 / 05	नंदीमंडलम, पेंडलीमारी (एम), कडप्पा जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	01-जुला-79
2150	एन. विजयासुंदरम (एस. नलईयन)	टीएनएसवीसी / 16 08 / 05	161, मदरसा कॉलोनी, कंडार नगर, वेलूर (तालुक व डाक), नमक्कल जिला 636182, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू / 00	20-अप्रैल-76
2151	एन. अनुचेजियान (एस.पी. नादराजा)	टीएनएसवीसी / 29 50 / 05	30ए, कॉलेज रोड, अगस्थीश्वरम, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू / 97	16-अग-69
2152	एन. बालागुरु (पी. नटराजन)	टीएनएसवीसी / 17 64 / 05	13-ए, मैस्त्री संकराया स्ट्रीट, अरुप्पुकोट्टई 626101, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 88	16-अप्रैल-65
2153	एन. भास्कर (बी. नलईयह)	टीएनएसवीसी / 26 53 / 05	76, बंगलो नगर, थिन्ना मुनियप्पन कोइल, कन्नाकुुरिची, सलेम 636006, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू / 98	02-सित-75
2154	एन.सी. मीनाक्षी (एन. के. चोकरालिंगम)	टीएनएसवीसी / 10 43 / 05	1 / 24-ए, सुक्कमपट्टी डाक, सलेम जिला, 636122, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू / 91	05-जून-67
2155	एन.सी. सेखर (आर. नागराजन)	टीएनएसवीसी / 13 37 / 05	डी-38, धंगामनि स्ट्रीट, थिरु नगर, मदुरई 825006, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू / 93	29-जून-67
2156	एन. ध्यालन (बी. नमासिवायम)	टीएनएसवीसी / 10 08 / 05	न.6, गांधी नगर, पनामाराथुपट्टी डाक, सलेम 636204, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनबीएंडएसयू / 93	27-जुला-70
2157	एन.ई. दीनदयालन (एन.जी. इथीराजुलु नायडु)	टीएनएसवीसी / 20 72 / 05	43बी, अरुमपेरुमसेल्वी स्ट्रीट, बड़ा कांचीपुरम, 631502, तमिलनाडु	बीबीएससी / एमयू / 73	20-जून-49
2158	एन. जयरमन (एम. नारायणस्वामी)	टीएनएसवीसी / 22 92 / 05	53 / 1, सौंदर्य कॉलोनी, अन्ना नगर, वेस्टर्न एक्सटेंशन, चेन्नई 600112	बीबीएससी / टी एनएयू / 78	08-जून-56
2159	एन.के. बुद्धन (के. नटराज कुप्पुसामी)	टीएनएसवीसी / 32 55 / 05	3 / 63, नेहरू नगर, गवर्न.आर्ट कॉलेज के सामने, कलेक्टरेट डाक, धर्मपुरी 636705, तमिलनाडु	बीबीएससी / टी एनएयू / 81	15-जुला-56
2160	एन.के. संदीप कुमार (एन.बी. कुमारन)	टीएनएसवीसी / 17 41 / 05	न.111, तीसरा मेन रोड, राम नगर, चेन्नई 600082	बीबीएससी / टी एनएयू / 88	11-जन-66

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2161	एन. कंडासामी (के. आर. नटराजन)	टीएनएसवीसी/27 07/05	न. 22, अर्कूरवरर कॉलोनी, 5वीं स्ट्रीट, नागलकेनी, क्रोमपेट, चेन्नई 600044	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /98	13-अप्रैल-75
2162	एन. नाकाजोथी (एन. नटराजन)	टीएनएसवीसी/17 78/05	एमआई-35, आर.एम. नगर, डिंडीगल-1, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	05-जून-77
2163	एन.पी. गीथा, पुत्र श्री के.एस. पलानीसामी	टीएनएसवीसी/33 60/06	7, पिल्लइयार कोविल स्ट्रीट, फोर्ट, नमक्कल जिला 63701, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	08-मई-82
2164	एन. पन्नीरसेल्वम (नटेशन)	टीएनएसवीसी/13 99/05	न. 5, भारती नगर, थिन्नाथिरुपथी डाक, सलेम-8, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	10-जून-58
2165	एन. पेरियासामी (नटेश पिल्लै)	टीएनएसवीसी/30 74/05	वेंकटाचलापुरम, धुरइयूर तालुक, त्रिथिरापल्ली जिला, 82102, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	04-जून-80
2166	एन.आर. श्रवमन (एस. एन. रामनाथन)	टीएनएसवीसी/10 97/05	22/19, फंड आफिस कॉलोनी, अलगपपन नगर, मदुरई -3, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /69	05-जून-67
2167	एन.आर. श्रीकांतन (एन.एस. राजन)	टीएनएसवीसी/24 19/05	न. 21, 14वीं स्ट्रीट, विनोबाजी नगर, अस्थानापुरम, थिताला पक्कम डाक, चेन्नई 600084	बीवीएससी/टी एनएयू/79	12-सित-55
2168	एन. रघुनाथन नायर	केरल/3104 /08	टी.सी. 29/1050 (बी), अपरा 52 ए, पलक्कुलंगारा थिरुवनंतपुरम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/जेएनएयू/85	01-जून-40
2169	एन. राजासेखरन (एस. वी. नवीनचंद्रन)	टीएनएसवीसी/23 28/05	16, 5वीं क्रॉस स्ट्रीट, सी.आई.टी. कॉलोनी, माइलापुर, चेन्नई 600004, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	02-जून-61
2170	एन. रामचंद्रन (नटेशन)	टीएनएसवीसी/23 52/05	किलुमथूर डाक, कुन्म तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 821717, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /93	01-जन-54
2171	एन.एस. लक्ष्मनन (एन. बी. सेवना गुडेर)	टीएनएसवीसी/28 51/05	310, विवेकानंद नगर, हिल बंक के निकट, उधगमंडलम 643001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/81	23-मई-58
2172	एन.एस. मनोहरन (आर.एन. सदयाप्पन)	टीएनएसवीसी/28 43/05	प्लॉट न. 37, सिवराम नगर, सोनगम बाईपास, रामनाथपुरम, कोयम्बतूर 641045	बीवीएससी/टी एनएयू/85	03-अक्टू-61
2173	एन.एस. पलानीसामी (एस.एन. सबापथि)	टीएनएसवीसी/24 94/05	55, शक्ति नगर, थिंडाल, इरोडे 838009, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 73	08-अप्रैल-49
2174	एन.एस. सभ्राट अशोकन (एन. सत्यशीलन)	टीएनएसवीसी/21 35/05	401, पलानियप्पा मुदलियार स्ट्रीट, पानप्पा नादर नगर, नगरकोइल 629004, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/79	15-मई-54

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2175	एन.एस. सेल्वन (आर. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी/11 83/05	डी.न. 10/486, पी.डब्ल्यू.डी. क्वार्टर्स, वर्णतीर्थम हरुर डाक व तालुक, धर्मपुरी जिला 636903	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /98	31-जुला-70
2176	एन. श्रीनिवासन (नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/19 46/05	2/25, मेसाग्रहरम ग्राम, वरतनापल्ली डाक, कृष्णागिरि (तालुक व डाक) 635120, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	12-मार्च-60
2177	एन. सुमथी डु मुधुसेल्वी (ए. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/16 33/05	56वी/डी, स्केविंग क्लब रोड, पेरुमलपुरम, तिरुनेलवेली 627007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	10-मई-74
2178	एन. सुरेश (नटेशन)	टीएनएसवीसी/53 1/05	सेम्बराई पुडुर, मुधालई पट्टी डाक, इनालीपलायम वाया, नमक्कल 637003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	25-जून-81
2179	एन. धिरुपति (एम. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/17 75/05	ईरीकोडी, मडावलम डाक, तिरुपत्तूर तालुक, वेल्लोर जिला, पिन 635653, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	01-जून-62
2180	एन.वी. राजेश (पी. नकुल पेरुमली)	टीएनएसवीसी/48 4/05	पालीचेल पुथेन वीडुकराविली, विल्लुकुरु डाक, कन्याकुमारी जिला 629180, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	30-अक्टू-81
2181	एन. वीरामनि कंदन (के. नल्लामुथु)	टीएनएसवीसी/36 3/04	2/7बी, मेलाथिरुमनिककम डाक, इलुमलई वाया, पेरियूर तालुक, मदुरई जिला 625535, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	04-जून-80
2182	नबीन कुमार दारा, पुत्र श्री कृतार्थ दारा	उड़ीसाएसवीसी/2 021/05	एटी/डाक- गोडभगा, जिला बारगढ़, पिन-788111, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	05-जुला-80
2183	नाग प्रसाद मुप्पाला, पुत्र श्री नाग भूषणम	एपीएसवीसी/430 1/05	वेट.इंडिया फार्मेस्युटिकल्स(प्रा) लि. 1-7-18/डी-16, कमला नगर, ईसीआईएल 'एक्स' रोड, हैदराबाद 500062, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/05	05-अग-63
2184	नागलीलावर्थ एस.पी. पुत्र श्री एम. पापारेड्डी	कर्नाएसवीसी/378 0/	सोमपुरा ग्राम, सरजापुरा डाक, अनेकल तालुक, बंगलौर-25, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	23-मार्च-83
2185	नागराज एम. पुत्र श्री मुनिरत्नइयाह सेट्टी	कर्नाएसवीसी/377 9/	डी.न. 3826, ब्राह्मण स्ट्रीट, नेलमंगला, बंगलौर ग्रामीण, जिला- 562123, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	22-जुला-81
2186	नगेश एच. पुत्र श्री हनुमंतइयाह बी.सी.	कर्नाएसवीसी/380 2/	बेलारे डाक, सी.एन. हल्ली तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	03-जन-81
2187	नहील सी.एम.	केरल/3030/05	चक्कीतायिल हाउस, पुन्नायूरकुलम डाक, त्रिसूर 679561, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	18-सित-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2188	नमिता कुमारी, पुत्री श्री रवीन्द्र प्रसाद	बिहारएसवीसी/25 34/04	ग्राम/मुहल्ला-महदीपुर, डाक तेलहारा, थाना तेलहारा, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/04	14-मार्च-80
2189	नमिता शर्मा, पुत्री श्री मदन लाल	एचपीएसवीसी/73 2/05	टाइप-4, सैट न. 19, ब्लॉक न-2, अपर कैथु जिला, शिमला, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेवीवी /05	22-दिसं-81
2190	नम्रता शुक्ला, पुत्र श्री सी.के. शुक्ला	यूवीसी/172/06	वेट. अधिकारी (यूएलडीबी) डीएफएस लैब, पशुलोक, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/00	04-नव-76
2191	नंद किशोर प्रसाद, पुत्र श्री विष्णु देव प्रसाद	बिहारएसवीसी/25 15/04	ग्राम/मुहल्ला-बेलबनवा, डाक मोतीहारी, थाना मोतीहारी, सबडिवी. मोतीहारी सदर, जिला पूर्वी चम्पारन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/04	01-मार्च-76
2192	ननतु सरदार, पुत्र श्री बुडु सरदार	डब्ल्यूबीएसवीसी/ 3215/06	ग्राम एवं डाक-मलंचा, जिला- 24 परगना (उ.), पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	18 9.61
2193	नारायण बनकरा, पुत्र श्री नीलम्पा बी.	कर्नाएसवीसी/375 9/	लिंगनायकनहल्ली थांडा, कुरुवट्टी डाक, हुविना हडागली तालुक, बेलारी जिला 583217, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	01-जून-81
2194	नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद	बिहारएसवीसी/24 87/04	ग्राम/मुहल्ला-चकवई, डाक चकवई, थाना वारीसलीगंज, सब.डिवी.-नवादा, जिला नवादा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/04	01-मई-77
2195	नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री सीता राम गर्ग	यूवीसी/20/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट. हॉस्पिटल, कमलपुर, परुई, गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 99	08-दिसं-75
2196	नरेंद्र तिवारी, पुत्र श्री महेश्वर तिवारी	बिहारएसवीसी/24 61/04	ग्राम/मुहल्ला- मखार, डाक- भौरगढ़, थाना नानपुर, सबडिवी. पुपरी, जिला-सीतामढ़ी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/04	04-जन-77
2197	नरेश कुमार, पुत्र श्री बनवारी लाल	एचपीएसवीसी/70 8/05	पशुपालन विभाग, जैवरसायन वि., कोवास, सीएसकेएचपीकेवी, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/79	14-जून-57
2196	नर्मदा शंकर अग्रवाल, पुत्र स्व. श्री राम कृष्ण अग्रवाल	एमपीएसवीसी/22 78/05	संत नगर कॉलोनी, 613, जगमोहन दास वार्ड, कटनी, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/64	01-जुला-38
2199	नारुगोपाल दास, पुत्र श्री कनिलाल दास	डब्ल्यूबीएसवीसी/ 3165/05	ग्राम एवं डाक चंदनपुर, जिला मिदनापुर पूर्व, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	02-जन-82
2200	नसीरा ए.पी.	केरल/3028/05	अम्बट्टपुरम, बिल हाउस, थाजेकोड डाक, पेरीनाथलमन्ना वाया, मल्लपुरम 679352, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	03-जुला-80
2201	नवीन कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/22 69/05	ग्राम बारूमतार, डाक सलीमपुर,	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 02	27-मार्च-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2202	नवीन निश्चल, पुत्र श्री विष्णु देव प्रसाद	बिहारएसवीसी/25 74/04	ग्राम/मुहल्ला-मिर्जापुर, डाक मिर्जापुर, थाना लानियान, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	01-मार्च-77
2203	नवीन पी.एन.	केरल/3009/05	पेरुमंगटमना, मारनचेरी डाक मलप्पुरम- 679581, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	20-मई-81
2204	नवप्रीत कौर, पुत्री श्री गोबिंदर सिंह	पीबीएसवीसी/261 2/05	म.न. 6/76, माता रानी स्ट्रीट, धुरी गेट, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	19-सित-83
2205	नाजिर हुसैन (एम.एम. हुसैन)	टीएनएसवीसी/31 10/05	नया न. 60, पुराना न. 42, नारायण नाइकन स्ट्रीट, पुडुपेट, चेन्नई 600002	बीवीएससी/एमयू/ 72	17-जुला-48
2206	न्दांगकी न्दांग, पुत्र श्री अटुम्बे	एनएसवीसी/204 /05	द्वारा पगाई अवांग असेम्बली सेक्रेटेरिएट, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/05	12-नव-76
2207	नील कपल नीलू, पुत्र श्री सिकंदर प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/23 80/03	ग्राम एवं डाक: रामनगर, थाना बेलदूर, सबडिवी. गोगरी, जिला खगरिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	30-मार्च-78
2208	नील कपल, पुत्र श्री नवल किशोर प्रसाद	बिहारएसवीसी/24 35/04	ग्राम एवं डाक-कदमकुआं, थाना-कदमकुआं, सबडिवी. पटना, सदर जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएंडएफएस यू/03	10-जन-76
2209	नीलम्मा आर., पुत्र श्री रामन्ना	कर्नाएसवीसी/371 1/	तलमाडगी डाक, हुडुगी ग्राम, हुमनाबाद तालुक, बिदर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	20-जून-82
2210	नीलेश सिंधु, पुत्र श्री राजिंदर सिंह सिंधु	हरिएसवीसी/186 4	100/14, किरपाल नगर, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /05	26-नव-62
2211	नीलूर हरि कृष्णा, पुत्र श्री केसावुलु	एपीएसवीसी/436 6/05	म.न.6-405, राघवेंद्र कॉलोनी, बग्गा रोड, यादिकी डाक, अनंत पुर जिला 515408, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	01-मई-79
2212	नीरज अग्रवाल, पुत्र श्री जे.एन. अग्रवाल	यूवीसी/61/06	वार्ड न. 2, डाक टनकपुर, जिला चम्पावत, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /05	01-जुला-81
2213	नीरज भार्गव, पुत्र श्री नरेंद्र कुमार	एमपीएसवीसी/23 11/06	द्वारा श्री आर.पी. दूबे, चोटी बाजार, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 94	23-अग-71
2214	नीरज कटोच, पुत्र श्री के.आर. कटोच	एचपीएसवीसी/73 4/05	म.न. 37, वार्ड न. 1, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी /05	02-नव-83
2215	नीरज कुमार पचौरी, पुत्र श्री दाऊदयाल पचौरी	यूवीसी/166/06	वेत अधिकारी, गवर्न. वेत. हॉस्पिटल, तेजम, जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेई पीवीवी/95	01-जुला-68

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2216	नीरज कुमार रंजन, पुत्र श्री शम्भु प्रसाद	बिहारएसवीसी/26 14/05	ग्राम/मुहल्ला:पुस्तकालय रोड, डाक फरबीसगंज, सबडिवी फरबीसगंज, जिला अरेरिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	01-फर-82
2217	नरतर जैन, पुत्री श्री नेमराज जैन	एमपीएसवीसी/23 04/05	जैन, सुनार गली, कोर्ट रोड, शिवपुरी, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 05	26-जुला-80
2218	निसार अहमद, पुत्र मौह. अशारारुल हक	बिहारएसवीसी/22 82/03	ग्राम बसौली, डाक व थाना सिंधिया, सबडिवी. रोसेरा, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/02	07-जन-74
2219	निहार रंजन सामंतरे, पुत्र श्री बिस्वनाथ सामंतरे	उड़ीसाएसवीसी/2 011/05	एटी: बडाबारी, प्लॉट न. 2880/1, डाक खंडागिरि, भुबनेश्वर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	24-जून-81
2220	निककी कुमारी, पुत्री श्री सोमारी बैठा	बिहारएसवीसी/22 50/05	ग्राम चकरी, डाक नंदपुर आमवाड़ी, थाना आंदार, सबडिवी. जिला सीवन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/02	02-जन-78
2221	नीलई प्रसाद, पुत्र श्री लालेश्वर प्रसाद	बिहारएसवीसी/24 34/04	ग्राम दामूचक, डाक बिहार वि.वि., थाना काजी मौहम्मदपुर, सबडिवी. तिरहुत, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	27-मई-75
2222	निमिषा के.एन.	केरल/3023/05	कृष्णा कृपा, निर्मला कॉलेज के निकट, चलाकुड्डी, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	09-अप्रैल-81
2223	निम्मी ए. जॉर्ज	केरल/3003/05	असारी पराम्बिल हाउस, कोजा डाक, कुरुविलंगड, कोट्टायम 686640, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	01-नव-80
2224	निंजप्पा हकारी, पुत्र श्री होनप्पा हकारी	कर्नाएसवीसी/379 5/	द्वारा करियप्पा हकारी, मेडलेरी डाक, रानेबेन्नूर तालुक, हावेरी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	01-अग-79
2225	निपुम खुगेर, पुत्र श्री चंदर मोहन खुगेर	पीबीएसवीसी/262 8/05	म.न. 1513, खुगेर स्ट्रीट, फाजिल्का- 152123, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	14-अक्तू-82
2226	निराकार जेना, पुत्र श्री घटेश्वर जेना	उड़ीसाएसवीसी/1 995/05	एटी: डोलापडी, डाक ओडांग, जिला भद्रक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	02-फर-80
2227	निरंजन कुमार, पुत्र श्री मोला प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/24 44/04	ग्राम बेला, डाक बेला, एम.आई.सी., थाना बेला, सब डिवी.- मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	26-जन-79
2228	निर्मल डेविड बारा, पुत्र श्री निकोलस बारा	बिहारएसवीसी/24 63/04	ग्राम/मुहल्ला-बेनडोरा, किरतो टोली, डाक बेनडोरा, सबडिवी.- गुमला सदर, जिला गुमला, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	08-अप्रैल-79
2229	निशा, पुत्री श्री राम कुमार गुप्ता	गुजएसवीसी/263 2/06	प्रधान भवन, मोहल्ला भीकपुरा, सिकंदरपुर, जिला बलिया, उ.प्र.	बीवीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि. वि./06	02-दिसं-83

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2230	निशा वालसन	केरल/3061/05	डलिया, कल्लुविला, नेयट्टिकांरा डाक, त्रिवेंद्रम 695121, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	25-मई-81
2231	निशांत, पुत्र प्रसाद सिंह	श्री महेंद्र बिहारएसवीसी/24 74/04	ग्राम/मुहल्ला-ढोरुआन, डाक ढोरुआन, थाना मसौरी, सबडिवी. मसौरी, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/जेएनएयू/04	31-दिसं-76
2232	निशांत शर्मा, आँकार शर्मा	पुत्र श्री एचपीएसवीसी/74 8/05	ग्राम बुसाल, डाक ओही, तह. बरोह, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी /05	25-मार्च-82
2233	निशांत पी.	केरल/3008/05	प्रसंथी, टीसी 48/30, पीएनओ -30, अश्वथी गार्डंस, अम्बला धारा, त्रिवेंद्रम, 695026, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	08-नव-80
2234	नीमिका शर्मा, वाई.पी. शर्मा	पुत्री श्री एचपीएसवीसी/71 5/05	ग्राम बनुती, डाक राउरी, तह. एवं जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/05	22-अप्रैल-80
2235	नोनीगोपाल शिट, श्री गोविंद प्रसाद शिट	पुत्र डब्ल्यूबीएसवीसी/ 3212/06	ग्राम बारबगिया, डाक हाटबैनचा, जिला प. /मिदनापुर, 721422, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	04-मार्च-82
2236	नुलाका नार्गाजुन रेड्डी, पुत्र श्री रेड्डी	हनीमी एपीएसवीसी/438 7/05	द्वारा राजइयाह सागर रोड, हलिया अनुमला (एम), नालगोंडा 508202, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	13-मार्च-82
2237	नूतन चंद जैन, श्री मोतीलाल	पुत्र एमपीएसवीसी/23 07/05	मधुवन कॉलोनी, उखारी रोड, बालदेव बाग, जबलपुर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 75	23-अक्टू-49
2238	ओ.एम. शेख उदुमन (ओ.एम. मसूद)	उदुमन टीएनएसवीसी/29 65/05	86/106, अट्टाकुलम स्ट्रीट, कडया नल्लूर 627751, थिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	25-मार्च-60
2239	ओम प्रकाश सिंह, श्री लड्डु लाल सिंह	पुत्र बिहारएसवीसी/25 91/05	ग्राम/मुहल्ला-पहाड़पुर, डाक आलमपुर, थाना बिभूतीपुर, सबडिवी. रोसरा, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	06-मार्च-78
2240	ओम प्रकाश सिंह, श्री मदन मोहन सिंह	पुत्र बिहारएसवीसी/24 39/05	ग्राम एवं डाक-सहियार, थाना सिमरी, सबडिवी. दुमरांव, जिला बक्सर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	08-अक्टू-76
2241	ओनेन आओ सोंगेर, पुत्र स्व. श्री टोमसुटोबा	पुत्र स्व. श्री असमएसवीसी/22 03/05	सिग्गल अंगामी, ब्लॉक II, दीमापुर, नागालैंड, असम	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/05	02-जन-74
2242	पी. अलगुराजन (ए. पानइयाह)	ए. टीएनएसवीसी/20 14/05	पुराना न.14/16, श्री रामनगर, तालुक कल्लुपट्टी, मदुरई जिला 625702, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	12-जून-76
2243	पी. अलामारलन (पिधान)	पी. टीएनएसवीसी/64 4/05	वरागुर डाक, थलईवासल वाया, अट्टूर तालुक, सलेम जिला, पिन 636112, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	15-अप्रैल-79
2244	पी. एल्बर्ट अरु किया राज (एस. पारिसुथम)	टीएनएसवीसी/30 38/05	38, ई.बी. कॉलोनी, पानमपुट्टु, विल्लुपुरम, 605602, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	12-जुला-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2245	पी. आनंद सेबेस्टियन (एम. पानीमाया मेरीराज)	टीएनएसवीसी/15 21/05	7, गांधी नगर, कुम्भकोनम 612001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	10-जन-79
2246	पी. आनंदकुमार (सी. पुन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/14 69/05	74/ए-8, अलगप्पा नगर, III क्रॉस, अरियालूर 621704, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	25-जुला-75
2247	पी. अबलागन (एस. पलानीचामी)	टीएनएसवीसी/31 67/05	पी. वेलूर, पारुथियुर डाक, ऊडानचटरम तालुक, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	10-जन-69
2248	पी. अंबारासी (ए. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/14 1/03	3/44, वेस्ट स्ट्रीट, मारुवथुर डाक, सेनदुरई तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	06-मई-78
2249	पी. अनिता (एम. पोण्डियन)	टीएनएसवीसी/83 4/05	सी-64, महाराजा नगर, IV मेन रोड, तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	03-मई-76
2250	पी. अन्नालक्ष्मी (बी. पट्टाभिरमन)	टीएनएसवीसी/71 /03	31, पुंजुपेट, वलाजापेट, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु.	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	11-फर-79
2251	पी. अनुराधा (एस. पुरुषोत्तमन)	टीएनएसवीसी/31 /02	मेट्टु स्ट्रीट, पी.एस. पलायम डाक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु 605, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/02	24-अग-79
2252	पी. अनुराधा, पुत्र श्री ए. परमासिवन	टीएनएसवीसी/33 16/06	5/607, रेलवे स्टेशन रोड, तिरुचुली 626129, तिरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	16-जून-83
2253	पी. आविंदन (बी. पोन्नप्पन)	टीएनएसवीसी/38 0/04	153/251सी, थिरुनावुकुरासु नगर, चेल्ला पिल्लै कुट्टई डाक, ओमालूर तालुक, सलेम जिला 636304	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	01-जून-79
2254	पी. अर्धनारीश्वरन (के. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/30 3/04	57/1, बी.एस. कॉलोनी, अन्ना नगर, सूर्यमपलायम डाक, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल 637211, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	29-जून-80
2255	पी. अरुलमुरुगन (टी. एम. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/58 6/05	26, नेताजी स्ट्रीट, थाविट्टु पलायम, अंधियूर 638501, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	07-जून-78
2256	पी. आर्मुगम (के. पेचियप्पन)	टीएनएसवीसी/14 90/05	देवविनायक कोइल स्ट्रीट, वासुदेवनल्लूर डाक, 627758, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/95	31-मई-69
2257	पी. असाईथम्बी (एम. पी. पलानी)	टीएनएसवीसी/22 09/05	मक्कानूर डाक, इंदूर वाया, धर्मपुरी जिला, पिन 636803, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	15-जुला-76
2258	पी. अजाहिया नम्बी (एस. पलावेसम)	टीएनएसवीसी/13 11/05	अम्बलावन पुरम, अवारईकुलम डाक, कवलकिनारु वाया, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु 627105	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	07-मई-77
2259	पी. बालाकुमार (एम. पुलियप्पा गुंडेर)	टीएनएसवीसी/18 83/05	पेरियाकडु, नवलूर डाक, अट्टूर तालुक, सलेम जिला, 636116, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/95	21-मई-70

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2260	पी. बालामुरुगन (पी. पूवालिंगम)	टीएनएसवीसी/31 35/05	4/18ए, एस.आर. नटराज नगर, कलंगल रोड, सुलूर, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	25-जुला-72
2261	पी. बालामुरुगन (टी. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/58 0/05	थुथुर डाक, अम्पापुर वाया, अरियालूर तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621701, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	29-मई-81
2262	पी. बालासुब्रमण्यम (पलानीयंडी)	टीएनएसवीसी/92 5/05	पेरुमल मलई आदिवरम, सूरथूर डाक, थुरईयूर तालुक, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	20-अक्टू-52
2263	पी. बालासुब्रमण्यम (एन. पोन्नुसामी मुदलियर)	टीएनएसवीसी/25 16/05	311, चौथी स्ट्रीट, कामधेनु नगर, वासवी कॉलेज डाक, इरोडे 636316, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/79	06-फर-52
2264	पी. भारत (एन. पलानी सामी)	टीएनएसवीसी/24 54/05	29-ई, एल.एस. पुरम, दूसरी स्ट्रीट, मेट्टुपलायम, 641301, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	27-अप्रैल-76
2265	पी. भूपति (के. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/26 27/05	नाथा कडु, ओडुवनकुरिची डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, 637406, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	27-मई-74
2266	पी. चंद्रन (एस. पेरियासामी नादर)	टीएनएसवीसी/20 64/05	15-3-69, वलान स्ट्रीट, सम्बावर, वडाकरई डाक, तेनकासी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, 627856, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	13-अप्रैल-67
2267	पी. चेलादुरिया (वी. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/28 08/05	22, ए चोलन नगर, पूमपुकर सेलई, कुम्बाकोनम (होटल के निकट), तमिलनाडु 612002	बीवीएससी/टी एनएयू/88	01-जून-64
2268	पी. चिन्नदुरई (ए. पेरियडिया)	टीएनएसवीसी/13 25/05	836, पेरियार नगर, राजा गोपालपुरम, पुडुकोट्टई, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	09-अप्रैल-58
2269	पी. चोकालिंगम (एस. पूथाथन)	टीएनएसवीसी/32 42/05	17, पिलड्यर कोविल स्ट्रीट, नन्नाग्राम, मेलाग्राम डाक, तेनकासी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, 627818, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	03-मई-69
2270	पी. दयालान (पट्टाभीरमन)	टीएनएसवीसी/20 81/05	एपी 10, एल ब्लॉक, 12वां मेन रोड, अन्ना नगर, चेन्नई- 40	बीवीएससी/टी एनएयू/79	27-जन-55
2271	पी. दीपा, पत्नी (आर. बालाकृष्णन)	टीएनएसवीसी/19 22/05	कुप्पीचिपलायम, मरप्पारई (डाक), तिरुचेनगोडे (तालुक), नमक्कल (जिला), तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/97	18-जुला-73
2272	पी. देवेन्द्रन (आर. पलानी गोडु गुडेर)	टीएनएसवीसी/14 73/05	डोर न.3/137, प्लॉट न.सी 3, नायनरकुप्पम रोड, सुघानंद पुरम, उथांडी, चेन्नई 600119	बीवीएससी/टी एनएयू/81	05-मई-55
2273	पी. देवादीस (जी. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/11 17/05	मेट्टांगल डाक, गंदर्वकोट्टई तालुक, पुडुकोट्टई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	04-मई-61
2274	पी. देवेन्द्रन (आर. पलानीयप्पन)	टीएनएसवीसी/80 6/05	प्लॉट न.21, डोर न.57, पलानी यप्पा नगर, सुरमंगलम डाक, सलेम 636005, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/95	01-जून-72

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2275	पी. धनलक्ष्मी (टी. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/68 3/05	एल II 42, अलगु नगर, टीएनएचबी, त्रिची रोड, नमक्कल -1, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	21-मई-74
2276	पी. धनावेल (पी. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/11 98/05	3/131, मदकासामपट्टी, के. पुडुपलायम डाक, पी. वेलूर तालुक, नमक्कल जिला 637017, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	04-मई-77
2277	पी. धुनशिया, पुत्र श्री पी. येसुनासन	टीएनएसवीसी/34 65/06	इचेन विल्लई, अट्टूर, अट्टूर डाक, तिरुवट्टूर वाया, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	08-अक्टू-78
2278	पी. दुरई अरासन (आर. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/32 80/05	10 ए. भारतीदासन नगर, थनथोनीमलई, IV स्ट्रीट, करूर 639005, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	11-मई-67
2279	पी. दुरई राजन (एल. पवादई)	टीएनएसवीसी/20 10/05	न. 5, वेट्स नगर, नीलमंगलम डाक, कल्लाकुरिची 606202, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	20-मई-53
2280	पी. दुरईसामी (के. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/14 6/03	वेदुवकट्टु थोट्टम, कोमईवलासु, कोविलपलायम डाक, कांजी कोविल वाया, इरोडे जिला, पिन 638116	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	20-जून-80
2281	पी. इलांगो (ए. पलानीयंडी)	टीएनएसवीसी/13 57/05	11/9, चौथी मेन स्ट्रीट, रंगा नगर, के.के. नगर डाक, त्रिची 21, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	11-जून-77
2282	पी. इलांगो (ए. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/26 69/05	26, थिरु नगर, मोहनूर रोड, नमक्कल जिला, पिन 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	02-जून-68
2283	पी. इलांधलिर (पत्नी श्री सी. विजय विष्णु)	टीएनएसवीसी/30 1/04	न. 14, इंदानी नगर, नरसोथिपट्टी, सलेम-4, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	01-दिसं-79
2284	पी.इलयाराजा, पुत्र श्री ए. पचमथु	टीएनएसवीसी/33 05/06	60-ए. मिडल स्ट्रीट, राचमपुरम डाक, अरियालूर तालुक, पेशाम्पलूर जिला 621718, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	15-अक्टू-82
2285	पी. एज़िल प्रवीना, पुत्र श्री पी.वी. सिंह	टीएनएसवीसी/33 44/06	166, देवदासन स्ट्रीट, नगरकोइल, 629001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/99	20-फर-75
2286	पी. गनपति (जी. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/59 3/05	जी.एस.कॉलोनी डाक, अंथीयूर वाया, भवानी तालुक, इरोडे जिला 638501, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	08-मई-81
2287	पी. गनेसन (आर. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/29 32/05	ईश्वरन कोइल स्ट्रीट, मेचेरी डाक, मेट्टूर तालुक, सलेम जिला, 638453, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/76	10-जून-52
2288	पी. गीथा, पुत्र श्री आर. पलानी	टीएनएसवीसी/35 39/06	एमएसएम थोट्टम, पंचायत कार्यालय के सामने, उथानगिरि, कृष्णागिरि जिला 635207, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/06	01-जून-80
2289	पी. गीथा (पी. पिचांडी)	टीएनएसवीसी/48 5/05	न. 205-बी, अंबु स्ट्रीट, एनजीजीओ कॉलोनी, पीछे की ओर, कटपडी रोड, गुडियाथम 635602	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	04-सित-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2290	पी. गिरिधरन (एन. पलानी)	टीएनएसवीसी/95 7/05	68, राधाकृष्णन स्ट्रीट, आर्कोट, 632503, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	05-जन-75
2291	पी. ज्ञान प्रकाशम (एस.डी. पलानीमलई)	टीएनएसवीसी/21 46/05	47/20, कॉर्पोरेशन कॉलोनी, आर्कोट रोड, कोडमबक्कम, चेन्नई-24	बीवीएससी/एमयू/ 72	30-दिसं-46
2292	पी. गोविंदराज (एन. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/25 12/05	अप्पाची थोट्टम, नेरिगीपेट्टई डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला, पिन 638311, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	18-मई-65
2293	पी.-गोविंदसामी, पुत्र श्री ए. पलानीसामी	टीएनएसवीसी/33 53/06	इदिरानगर मेन रोड, पी. मेदु पलायम डाक, सक्ति नगर वाया, गोबी तालुक, इरोडे जिला, 638315, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	25-जुला-80
2294	पी. गुनासेखरन (पलानीवेलु)	टीएनएसवीसी/11 95/05	151, सीएचबी कॉलोनी वेस्ट, तिरुचेंगोडे 637211, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/73	18-अक्टू-48
2295	पी. गुनासेखरन (पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/19 1/03	ईस्ट स्ट्रीट, सेनगुनम ग्राम, पेरम्बलूर, तालुक व जिला, 621220, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	04-अग-53
2296	पी. गुरुसामी (पी. पॉलपंडी)	टीएनएसवीसी/33 6/04	नलियाथेवनापट्टी, सेलईपट्टी डाक, पेरियूर तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	07-जून-79
2297	पी. गुरुसामी (वी.एन. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/25 72/05	168, के.पी.सी. नगर, वेल्लाकोविल, 638111, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/76	31-दिसं-51
2298	पी. इनबासेखरन (वी. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/24 57/05	1601, गांधी नगर, मल्लन रोड, विरुधुनगर 628001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	15-मई-53
2299	पी. इयासामी (एम. पट्टाया गूंडेर)	टीएनएसवीसी/25 17/05	1-1, पुराना मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, अम्मापेट्टई, भवानी तालुक, इरोडे जिला, पिन 638311, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	27-जुला-67
2300	पी. जनार्थनन (पी. परसुरमन)	टीएनएसवीसी/12 80/05	स्टेट बैंक कॉलोनी, मेलाग्राम डाक, तेनकासी तालुक, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/74	15-अक्टू-51
2301	पी. जयाबलान, (एम. पोंडुस्वामी)	टीएनएसवीसी/24 78/05	9/20, पेरियार नगर, कीलपेरुम्बक्कम, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/89	30-अक्टू-66
2302	पी. जयजन्मथन (एस. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/30 8/04	थीठनविदुथी ग्राम, करम्बकुडी डाक, पुडुकोट्टई जिला, 622302, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	02-जुला-81
2303	पी. जयामनि पत्नी श्री पी. मुथुकुमार	टीएनएसवीसी/40 2/04	186-ए. मेन रोड, आर.पी. पुडुर डङ्क, नमक्कल जिला, पिन 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	10-जुला-75
2304	पी. जयन्ति (पशुपति)	टीएनएसवीसी/21 25/05	एच-5, जैन एफिल गार्डस, 90, आर्कोट रोड, वडापलानी, चेन्नई 600026	बीवीएससी/टी एनएयू/89	25-जुला-66
2305	पी. जयरमन (आर. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/19 36/05	4/497, अधियामन नगर (मेलसोमारपेट), वेंकटपुरम, कृष्णागिरि तालुक, नया बस स्टैंड,	बीवीएससी/टी एनएयू/80	02-फर-57

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2306	पी. जयश्री. (एस. मोहनदास)	टीएनएसवीसी/26 39/05	म.न.3, 9वां क्रॉस रोड, भारती नगर एक्सटेंशन, कटपडी, वेल्लोर-7, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	26-मई-68
2307	पी. जीवराधिनम (आर. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/27 92/05	20, आर्यापुरम, पपनासाम तालुक, तंजावुर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/77	28-मार्च-51
2308	पी. जगदीशन (एस. पोनरामु)	टीएनएसवीसी/14 47/05	7/9, वेस्ट असारीमर स्ट्रीट, कुमबम 625518, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	10-मई-60
2309	पी. जंगनाथन (एस. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/20 30/05	धेवनकुरिची, टी. कल्लुपट्टी डाक, पेरियार तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	03-मई-75
2310	पी. जेनिकर (एस. परिसुथम)	टीएनएसवीसी/14 0/03	38, ई.बी. कॉलोनी, पानमपट्टू डाक, विल्लुपुरम 605602, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	04-अक्टू-79
2311	पी. जयकृष्णन (वी. पेरुमलसामी)	टीएनएसवीसी/44 8/05	वीपीएस इल्लम, नचियारपट्टी डाक, श्रीविल्लुपुट्टूर तालुक, विरुधुनगर जिला, 626125, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	29-जुला-82
2312	पी. जॉनसन पोनराजा (एस. पॉल राज)	टीएनएसवीसी/32 73/05	61 ई/2, पोल पेट्टई, ट्यूटीकोरिन-2, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/77	17-अप्रैल-53
2313	पी. कलई सेल्वन (आर. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/16 92/05	5/20, इरुकट्टु वलासु, मुल्लमपट्टी डाक, नासियानूर 638107, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	25-जुला-78
2314	पी. कलईसेल्वी (के. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/39 4/04	सनारथुट्टम, नाडु धोलूर, धोलूर डाक, नमक्कल तालुक व जिला, 637017, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	14-मार्च-81
2315	पी. कलियन्मन (के. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/16 64/05	करुप्पनार कोविल थोट्टम, तथयंगरपट्टी डाक व जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	11-मई-66
2316	पी. कमलनाथन (टी. जी. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/1 /02	इराथंगल मोट्टूर, वेल्लोर शुगर्स, वेल्लोर जिला, 632519, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	10-नव-76
2317	पी. कामराजन (एम. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/14 62/05	11, सेल्लंडियम्मन कोइल, कुम्बम डाक, थेनी जिला, पिन 626516, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/74	15-जुला-50
2318	पी. कनगराज (एम. पेरियाथम्बी)	टीएनएसवीसी/20 03/05	कल्लापलायम, वेलारवेली डाक, इडापडी बाया, सलेम जिला, तमिलनाडु 637101	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	10-जून-74
2319	पी. कनगराजू (एस. पजानीयंडी पिल्लै) (स्व.)	टीएनएसवीसी/94 5/05	2/19, मरियम्मन कोविल स्ट्रीट, वलयापट्टी डाक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु 637020	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/95	26-जून-72
2320	पी. कनगराजू (पी. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/56 2/05	अधानुर डाक, पगालावाडी बाया, थुरईयूर तालुक, त्रिची जिला, पिन 621014, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	01-जून-82
2321	पी. कनकसाबाई (पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/18 97/05	416-5, वी.टी. एक्सटेंशन, काचेरी मेडु, हरूर डाक व तालुक, धर्मपुरी जिला, 636903, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	09-जून-71

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2322	पी. कन्नन (आर. पत्नीसामी)	टीएनएसवीसी / 30 01 / 05	पुधुपट्टीयांकडु अरासम पलायम, मोरंगम डाक, थिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल 637410, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 05	17-अप्रैल-82
2323	पी. कन्नन (एस. पत्नीसामी)	टीएनएसवीसी / 99 4 / 05	मरावनवयाल, रेंडमपुलीक्कडु डाक, पट्टुकोटई तालुक, थंजावुर जिला, 614723, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 95	20-मई-72
2324	पी. कार्थिक(एम. पत्नीराजन)	टीएनएसवीसी / 24 60 / 05	8 / 173, मिडल स्ट्रीट, पुराना इलायिरम पन्ई 626201, ससूर वाया, विरुधुमगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 00	01-जून-77
2325	पी. कार्थिक (एस. पोथ्यामोजी)	टीएनएसवीसी / 42 9 / 05	आलमपट्टी, अथानूर डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, 636301, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 04	13-जून-80
2328	पी. करुणाकरन (एम. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी / 20 11 / 05	कंदीपन इल्लम, 1-2-4, थथमपट्टी, टी. वाडीपट्टी डाक व तालुक, मदुरई जिला 625218, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 92	05-अप्रैल-69
2327	पी. करुणाकरन (एस. पत्नीकुमार)	टीएनएसवीसी / 12 85 / 05	47-1, विजय कॉटेज, राउंड रोड, पुडुर, डिंडीगल 624005, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 94	10-जून-71
2326	पी. कासीराजन (पी. पिच्चमुथु नादर)	टीएनएसवीसी / 28 28 / 05	नॉर्थ स्ट्रीट, वेपलोडई डाक, कुलाथुर वाया, द्यूटीकोरिन जिला, पिन 627903, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 91	07-जन-67
2329	पी. कविथा (सी. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी / 50 5 / 05	5 / 152, स्वामी. नगर, III स्ट्रीट, मोहनूर रोड, नमक्कल जिला, पिन 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 05	05-जन-82
2330	पी. कविथा (आर. पत्नीनियमन)	टीएनएसवीसी / 25 04 / 05	9 / 236, सामियमपलायम डाक, बी.कुमारपलायम वाया, 638 183, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 97	12-अग-72
2331	पी. कुमार (एम. पत्नी)	टीएनएसवीसी / 10 18 / 05	289, मुथमपट्टी डाक, सेशन चावडी वाया, विलालपडुडी तालुक, सलेम जिला, पिन 636111, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 96	09-मई-73
2332	पी. कुमार (एन. परसिवम)	टीएनएसवीसी / 14 2 / 03	2 / 71-1, मिन नगर, अरियालूर डाक, पिन 821704, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 03	07-मार्च-79
2333	पी. कुमारन (एल. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी / 19 30 / 05	7 / 469, मेट्टुपट्टी, हरूर- 636903 डाक, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 93	06-मई-70
2334	पी. लक्ष्मी प्रसाध (के. पोसाराजन)	टीएनएसवीसी / 15 2 / 03	न. 48, श्री मायिम्मन नगर, नोचियम, त्रिची 621216, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 03	26-दिस-79
2335	पी. लोगनाथन (एस. पत्नीजाथम)	टीएनएसवीसी / 23 01 / 05	11, विवेकानंद स्ट्रीट, अन्ना नगर, चेर्यार 604407, तिरुवन्नामलई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएसयू / 02	16-जून-76
2336	पी. महालिंगम (के. पेरुमल)	टीएनएसवीसी / 32 74 / 05	9 / 11-ए, कोलुकरानूर, मेचेरी, 636453, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू / 87	01-मई-60

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2337	पी. मनिरामन, पुत्र श्री पेरियाथम्बी	टीएनएसवीसी/35 26/06	वीराम्बक्कम ग्राम व डाक (वाया) वंडुवासी, चेयार तालुक, तिरुवन्नामलाई जिला— 604408, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/06	07-जून-82
2338	पी. मनिमुथु (ए. पेरइयाह)	टीएनएसवीसी/24 20/05	अम्बेडकर नगर, कोटांगलम (पूर्व) डाक, कीरामंगलम वाया पुडुकोट्टई जिला, 614624	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/01	02-अक्टू-75
2339	पी. मनिराजम (डी. पुन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/65 6/05	एल3/38-अलगु नगर, त्रिची रोड, नमक्कल 837001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/01	04-अप्रैल-77
2340	पी. मनिवन्नन (एम. पलानीयप्पन)	टीएनएसवीसी/61 7/05	आलमपलायम डाक, अंधीयूर वाया, इरोडे जिला, पिन 638501, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/05	29-जुला-81
2341	पी. मनीवेल (एस. पिच्चामुथु)	टीएनएसवीसी/52 8/05	3/10, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, माजिनी डाक, अट्टूर डाक, सलेम जिला 636141, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/05	09-अक्टू-81
2342	पी. मनोगर (आर. पानइयाह)	टीएनएसवीसी/17 31/05	30, रामालिंगा नगर वेस्ट एक्सटेंशन, त्रिची 820003, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/75	02-जून-52
2343	पी. मारीरवरन (आर. एम. पेथियप्पन)	टीएनएसवीसी/19 99/05	# 19, सक्ति इस्लम, महबूबखान लेआउट, केरल समाजम के निकट, यूनिन ऑफिस के निकट, घाली रोड, उडुमेलपेट डाक 642126, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/98	05-अप्रैल-75
2344	पी. मरियम्मल (पी. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/73 /03	38 ई. एन.एस. वालन स्ट्रीट, पुली अंगुडी डाक, सिवागिरि तालुक, तिरुनेलवेली जिला 827, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/03	13-फर-71
2345	पी. मरियप्पन (एस. पलानीकुमार)	टीएनएसवीसी/12 56/05	47/1, विजय कॉटेज, राउड रोड, पुडुर, डिडीगल 624005, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/96	19-अप्रैल-73
2346	पी. मासिलमन (एम. आर. पिच्चई)	टीएनएसवीसी/15 19/05	6-1/23, नारायण अम्बालम स्ट्रीट, कोट्टइयूर, करईकुडी तालुक, 830106, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/83	18-मई-60
2347	पी. मथान (के. पोन्नुराम)	टीएनएसवीसी/12 60/05	वेस्ट स्ट्रीट, किट्टुनाइकन पट्टी, वेंकटथलापुरम डाक, थेनी जिला 625572, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/02	08-मई-76
2348	पी. माथी (के. पलानीयंडी)	टीएनएसवीसी/28 28/06	236-ए, पुरानी बालम्बिका प्रेस स्ट्रीट, पुरईयूर 621010, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/00	07-जुला-76
2349	पी. मधियासागन (पेरुमल)	टीएनएसवीसी/12 48/05	धम्मविकई इस्लम, पोन्नारा संकर नगर, पेरियापट्टी रोड, नमक्कल 837001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/63	29-अग-59
2350	पी. मयन (टी. पाम्नेर सेल्वम)	टीएनएसवीसी/76 /03	चिन्नापारसी, अम्मलापुरम डाक, पलाकोड तालुक, धर्मपुरी जिला 636, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/03	10-जून-76
2351	पी. मेइनाथन (पी. पोलइयंडी)	टीएनएसवीसी/13 26/05	42, एस.एस. नगर, पुडुकोट्टई, तमिलनाडु, पिन 622001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/86	08-अक्टू-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2352	पी. माइकल राज (एम. पेरियाथानी)	टीएनएसवीसी/27/02	डोर न. 8, रोड न. 5, अलईमगल इल्लम, वीओसी नगर, रासीपुरम डाक, 837406, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/02	09-जुला-78
2353	पी. मोहन (सी. पिचंडी)	टीएनएसवीसी/24/83/05	9, मथियल नगर (वाया), गंगापथि नगर, के.के. रोड, विल्लुपुरम 605602, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/83	18-अक्टू-59
2354	पी. मोहनराज (पी.आर. परमसिवम) (गुरुजी)	टीएनएसवीसी/16/34/05	3ए, एस पी.जी. लेन, धुरइयूर 621010, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/76	17-नव-50
2355	पी. मुरुगन (एम. पलवन्नन)	टीएनएसवीसी/20/02/05	36/11, सेंथिल नगर, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली 627002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/01	26-फर-75
2356	पी. मुरुगन (वी. पिचइयाई)	टीएनएसवीसी/31/96/05	155, श्रुति भवनम, गनपति पुरम, थिम्माराजापुरम डाक, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली जिला 627853	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/89	05-मई-66
2357	पी. मुरुगनाथम (एम. पलानियप्पन)	टीएनएसवीसी/55/9/05	अलमपलायम डाक, अंधियूर वाया, 638501, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/01	07-मई-78
2358	पी. मुरुगवेनी (सी.वी. सेंथिल कुमार)	टीएनएसवीसी/24/85/05	174, मेन रोड, मेलवथी, नेल्लीकुप्पम, कुडालूर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/95	13-मई-72
2359	पी. मुरुगसन (के. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/13/48/05	नेईकरम पलायम, कोक्कालई डाक, वडियप्पामलाई वाया, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला, पिन 637410	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/99	18-अप्रैल-74
2360	पी. मुगेसन (एन. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/16/89/05	डोर न.475, लक्ष्मी थिएटर के निकट, गांधीपुरम, सेदामगलम मेन रोड, नमक्कल	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/93	07-मई-70
2361	पी. मुरुगसन (पी. पुथियावन)	टीएनएसवीसी/16/52/05	49, वैरावासामी कोइल स्ट्रीट, मेट्टुपट्टी, सेथूर, विरुधुनगर जिला, पिन 626121, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/87	02-जून-83
2362	पी. मुरुगसन (एस. पंडारम)	टीएनएसवीसी/20/06/05	कीला मरावर स्ट्रीट, पटेमन गावम डाक, श्रीवैकुंठम तालुक, धुधुकुडी जिला, 628620, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/97	06-जुला-71
2363	पी. मुथु (पेरुमल)	टीएनएसवीसी/27/30/05	19, देवराजनगर स्ट्रीट, राधा महल के सामने, वेदाचलम नगर, चेंगलपट्टू 603001	बीवीएससी/टी एनएसयू/85	12-अप्रैल-54
2364	पी. मुथु, पुत्र श्री एस. पथियप्पन	टीएनएसवीसी/35/51/06	भारतीपुरम, पौपरापट्टी डाक, धर्मपुरी जिला, पिन 636908, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/08	15-जून-81
2365	पी. मुथुरामलिंगम (ए. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/52/0/05	मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, टी. रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली जिला 627760, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	02-मई-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2366	पी. मुथुसामी (एस. पलानियप्पन)	टीएनएसवीसी/21 11/05	3/185, मोहानूर रोड, कांडी चेट्टीपट्टी, रोजगार कार्यालय के निकट, पेरियापट्टी डाक, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	08-अप्रैल-52
2367	पी. मुथुवीरापंडियन (वी.एस. पोन्नाबालम)	टीएनएसवीसी/32 44/05	292, चिदाम्बरम नगर, मेलाक्कल मेन रोड, कोघाडई, मदुरई -16, पिन 825026, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 87	12-अप्रैल-44
2368	पी. नागराजन (एम. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/23 80/05	पुल्लमपट्टी, मेदुपट्टी डाक, सलेम रोड, सलेम जिला, पिन 636455, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	18-अप्रैल-69
2369	पी. नागराजन, पुत्र श्री ए. पोन्नुसामी	टीएनएसवीसी/34 48/06	पेरिया कट्टु वीडु, वडासिथूर डाक, पोलाची तालुक, पिन 841202, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	24-मई-80
2370	पी. नंदा देवी (एस. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/74 8/05	न. 32, महामाक्कडई स्ट्रीट, कामुथी 623603, रामनद जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	15-जून-78
2371	पी. नंद कुमार (आर. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/23 71/05	मंगनलपट्टी, करईकेनी डाक, पेरियार तालुक, मदुरई जिला 625702, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	02-जून-77
2372	पी. नटराज कुमार (एन. पंडियान)	टीएनएसवीसी/13 86/05	1/98ए.ईस्ट स्ट्रीट, कल्लूरानी डाक, अरुप्पुकोटई तालुक, विरुधुनगर 828105, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	25-अप्रैल-64
2373	पी. नटराजन (एम. पेरुमल थेवर)	टीएनएसवीसी/31 33/05	224/बी, इंदिरा गांधी नगर, संकरन कोविल रोड, राजा पलायम 628117, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/77	06-जून-50
2374	पी. नटराजन, पुत्र श्री ए. पलानियप्पा मुवलियार	टीएनएसवीसी/35 41/06	2/139, पी. वाडुगापलायम डाक, पल्लडम 841864, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/08	15-जून-59
2375	पी. मिर्मला (एस. पुरुषोत्तमन)	टीएनएसवीसी/32 15/05	न. 92, एम.जी.आर. नगर (वी.ए.के. नगर), अर्नी, तिरुवन्मा मलाई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	01-नव-78
2376	पी. नित्या (के.आर. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/40 6/04	काकुरिची डाक, बेलुकुरिची बाया, नमक्कल जिला 637402, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	03-अक्टू-81
2377	पी. पलानीयप्पन (के. पी. पोन्नुस्वामी)	टीएनएसवीसी/31 74/06	प्लॉट न. 31, एस. समयप्प नगर, सीलानाडकनपट्टी, सलेम नगर, सलेम जिला 636201, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 64	02-अप्रैल-40
2378	पी. पलानीसामी (पी. पेरियाथम्बी)	टीएनएसवीसी/27 99/06	कुदटीगुंडन स्ट्रीट, धारामंगलम डाक, जलकंडापुरम बाया, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	18-अप्रैल-82
2379	पी. पलानीवेल (के. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/26 76/06	29, अन्ना सेलाई, चिनमंडन कोइल एक्सटेंशन, करूर 639001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	04-जून-50
2380	पी. पंडियान (आर. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/11 74/05	29 सी, बथराकाली स्ट्रीट, एस.पी. पुडुर, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	07-जून-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2381	पी. पारी (सौ. पलानी)	टीएनएसवीसी/15 91/05	49/47, अम्मान कोइल स्ट्रीट, रानीपेट वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	632401, बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/00	30-अप्रैल-75
2382	पी. पेरीवेंदन (वी. पोनइयाह)	टीएनएसवीसी/31 47/05	42, महालक्ष्मी नगर, टी. कोट्टमपट्टी, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/89	06-जून-86
2383	पी. प्रतिभन (वी.एम. प्रकासम)	टीएनएसवीसी/24 9/04	43, थलागाई मुनिस्वामी स्ट्रीट, पिच्चानुनपेट, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/04	13-अप्रैल-78
2384	पी. प्रतिभा, पुत्र श्री आर. प्रमाकर	टीएनएसवीसी/34 20/06	एन1, एमआरसी स्टाफ क्वा., रेस कोर्स रोड (इटीरियर), गुडी 600032, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	01-मार्च-83
2385	पी. पार्वती देवी (आर. पसुपथि)	टीएनएसवीसी/28 4/04	41, विनायकर कोविल स्ट्रीट, सिंगरीकुडी कुडालूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच/पीयू/02	12-फर-79
2386	पी. पेरुमल (एम. पट्टइया गुंडेर)	टीएनएसवीसी/14 74/05	मामाराथु थोदट्टम, नगालूर डाक, अथानी वाया, भवानी तालुक, इरोडे जिला 638502, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/95	27-जून-71
2387	पी. पेरुमल (टी. पोनराज)	टीएनएसवीसी/63 3/05	वीरुवीदु डाक, नीलकोट्टई डाक, डिंगल जिला, पिन 624220, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	11-जुला-82
2388	पी. पोन्नुसामी, पुत्र श्री एस. पेरियासामी	टीएनएसवीसी/33 70/06	19, पिल्लइयार कोइल स्ट्रीट, थोदटाकुरिथी डाक, करूर जिला 639113, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	16-मई-82
2389	पी. पोथियप्पन, पुत्र श्री ए. पोन्नुसामी	टीएनएसवीसी/33 40/06	सिथेकड्डु, कलाथूर डाक, पट्टुकोट्टई तालुक, तंजौर जिला, 614804, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	14-जून-82
2390	पी. प्रसन्ना (ए. पाथरोज)	टीएनएसवीसी/63 2/05	थोलायावट्टम डाक, कन्याकुमारी जिला, पिन 629157, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	30-अप्रैल-61
2391	पी. प्रसन्न कुमार (के. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/30 43/05	16/21, अम्ना नगर, जयनकोडम, पेराम्बलूर जिला, पिन 621802, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	02-फर-82
2392	पी. राधा (पलानीयंडी)	टीएनएसवीसी/42 /03	सी-1, कल्कि अपार्टमेंट, न. 21, बाजुलाह रोड, टी. नगर, चेन्नई 60001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/00	15-जुला-75
2393	पी. राधा कृष्णन (पी. पेरुमलसामी)	टीएनएसवीसी/28 54/05	पुलीपरई पट्टी, कक्कीवादन पट्टी डाक, सिवाकोसी वाया, विरुधुनगर 626124, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी. एनएयू/78	02-नव-53
2394	पी. राघुवन (एस. प्रेम कुमार)	टीएनएसवीसी/10 0/03	एम-35, फेस VII, टीएनएसवी क्वा., बगलूर रोड, होसूर 635109, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/03	29-मार्च-78
2395	पी. रघुनाथन (पेरुमल)	टीएनएसवीसी/25 64/05	51, चेलामल नगर, गोबीचेट्टी पलायम, इरोडे जिला, पिन 636452, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	27-मार्च-82
2396	पी. रघुतिना वेलु (पेरियापइयन)	टीएनएसवीसी/28 98/05	मरुरपुडुर, कदम्बुर डाक, संकरापुरम तालुक, विल्लुपुरम जिला, पिन 805802, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	07-अग-55

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2397	पी. राजा (एम. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/10 71/05	श्री वेंकटेश्वर इल्लम, न. 27, अशोक नगर, मदुरई 625018, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/88	11-मार्च-60
2398	पी. राजा, पुत्र श्री एम. पलानीसामी	टीएनएसवीसी/35 01/05	19, मदुरई वीरन कोविल स्ट्रीट, कमालन कुट्टई, इरोडे 638011, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	30-जुला-77
2399	पी. राजा सेकरन (एस. पंडियान)	टीएनएसवीसी/11 09/05	पल्लावशायन पट्टी 626524 वाया, पन्नईपुरम, उदमपलायम तालुक, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/80	25-मई-53
2400	पी. राजाकुमार (के.वी. ए. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/78 9/05	सोलईपट्टी डाक, पेरियूर तालुक, मदुरई जिला 625708, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	03-मई-75
2401	पी. राजासेखरन (एस. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/30 45/05	धियागराज पिल्लै स्ट्रीट, कट्टफमन्नार कोइल, कुडलूर जिला, पिन 608301, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/87	25-सित-63
2402	पी. राजेंद्रन (के. पेरियाकरुप्पन)	टीएनएसवीसी/18 38/05	चेल्लम पिल्लै स्ट्रीट, नाथम तालुक, डिंडीगल जिला, 624401, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/95	02-जून-70
2403	पी. राजेंद्रन (बी. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/26 17/05	122, पोन्नागर एक्सटेंशन, अरवाकुरिथी 639201, करूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	15-अग-65
2404	पी. राजेंद्रन (पेरुमल)	टीएनएसवीसी/17 5/03	33, मीनाथी स्ट्रीट, नेहरू नगर, मदुरई 10, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	01-जून-58
2405	पी. राजेश कन्ना (ए. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/30 7/04	मुधुमहल इलांगो नगर, अरुम्बावुर तालुक, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	05-अग-80
2406	पी. राजू (पेरुमल)	टीएनएसवीसी/25 75/05	एल 361, पेरियार नगर हाउसिंग यूनिट, इरोडे 638009, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/78	03-जून-52
2407	पी. रामार (पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/12 23/05	1031-ए, क्रिसेंट नगर, के.टी.सी. नगर, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/85	09-जन-62
2408	पी. रामासामी (आर. पोलियानईकर)	टीएनएसवीसी/12 24/05	55, थिलागर नगर, कोविलपट्टी, ट्यूटिकोरिन जिला, 628502, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/83	26-मार्च-59
2409	पी. रमेश (ए. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/73 9/05	पेरियाकलाथुपट्टी, कीलावे लुयूर डाक, थोगामलाई, करूर जिला, 621313, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	24-मई-78
2410	पी. रमेश (सी. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/58 3/05	अक्कारईपट्टी डाक, मल्लासमुद्रम वाया, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, पिन 637503, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	21-फर-81
2411	पी. रमेश बाबू (एम. परदेश)	टीएनएसवीसी/28 73/05	न. 5, आर.एस. रोड, सेदुकरई, गुडीयट्टम, वेल्त्तेर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	12-जून-70
2412	पी. रमेश कुमार, (ए. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/19 88/05	न. 26, माथी हुसैन खान स्ट्रीट, रोयापेटाह, चेन्नई 600014	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/97	13-जून-73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2413	पी. रमेश कुमार (सी. पालसामी)	टीएमएसवीसी/78 1/05	48, वेस्ट स्ट्रीट, पट्टुकोटई, थंजावुर जिला, पिन 814801, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	08-दिस-78
2414	पी. रमेश (बी. पेरुमल)	टीएमएसवीसी/13 28/05	1257, उत्तरी तीसरी स्ट्रीट, पुडुकोट्टई, 822001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	30-जुला-89
2415	पी. रवि (जी. पन्नीरसेल्वम)	टीएमएसवीसी/85 8/05	थोप्पु कडु आर पुडुपलायम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 837408, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	07-जून-78
2416	पी. रवि (पद्मयप्पन)	टीएमएसवीसी/27 44/05	183 सी. सांथापुरम, कावेरीपट्टिनम डाक, कृष्णागिरि 835112, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	29-मई-84
2417	पी. रविचंद्रन (डी. पेरियाकरप्पन)	टीएमएसवीसी/10 81/05	7/986 ए.वैथियालिंगम स्ट्रीट, मीलाकुड्डलकुडी रोड, भाग मलाई पुडुकोट्टई, मदुरई -19	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	02-मई-88
2418	पी. रविचंद्रन, पुत्र श्री आर. पम्पुसामी	टीएमएसवीसी/34 27/06	2/15, वडापुडुर, इलूर डाक, ओथक्कल मंडपम वाया, कोयम्बतूर 641032, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	29-जून-88
2419	पी. रविचंद्रन (पी. पाकिरिसामी पिल्लै)	टीएमएसवीसी/92 1/05	5/177, गणेश नगर, नंदावनपट्टी, डिंडीगल 824001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	28-जून-80
2420	पी. रवीन्द्रन (पी.ए. परमासिवन)	टीएमएसवीसी/11 07/05	सुंबरी इत्सम, प्लॉट न. 3990, टीएमएचबी कॉलोनी, विल्लुपुरम, मदुरई 825011, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	25-अप्रैल-57
2421	पी. रवीन्द्रन (पेरुमल)	टीएमएसवीसी/80 8/05	प्लॉट न. 25, कृपागविनायगर नगर, सिवानंद महल, प्रथम स्ट्रीट, करईकुडी, सिवगंगा जिला	बीवीएससी/टी एनएयू/88	10-अप्रैल-83
2422	पी. रेनुका (पत्नी श्री ए.बी. प्रभाकरन)	टीएमएसवीसी/28 33/05	नं. 34, नई स्ट्रीट, अयानावरम, चेन्नई 800023	बीवीएससी/टी एनएयू/89	18-जून-84
2423	पी. सदानंदन (जी. पार्थसारथी)	टीएमएसवीसी/59 6/05	ऑडिबाथूर डाक, तिरुकोविलूर तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	17-मार्च-81
2424	पी. सक्तिवेल (कै. पेरियासामी)	टीएमएसवीसी/16 36/05	2/29, थिप्रामहादेवी पुथुर, बलायापट्टी डाक, नमक्कल जिला 837020, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	24-जून-72
2425	पी. सक्तिवेलु (एम.सी. पलानीसामी)	टीएमएसवीसी/28 87/05	1, तमिल नगर, थथोनिमलाई डाक, करूर 839005, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	03-जून-59
2426	पी. सामीनाथन (पी. पलानीसामी)	टीएमएसवीसी/82 9/05	वडुगापट्टी, कोंडामनईक्कन पट्टी डाक, नमक्कल जिला व तालुक, पिन 837405, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	25-जून-81
2427	पी. सम्पूर्णम (पी.के. पलानीसामी)	टीएमएसवीसी/83 3/05	667, पद्ममुडीपलायम, वेलूर डाक, पी. वेलूर तालुक, नमक्कल जिला पिन 838182, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	05-जून-77
2428	पी. सामी (टी. पेचीमुथु)	टीएमएसवीसी/18 53/05	3, कलियम्मन कोडल स्ट्रीट, मुथुसामीपुरम-मुहावुर 628111, राजापलायम तालुक, विरुधुनगर जिला	बीवीएससी/टी एनएयू/79	13-जून-55

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2429	पी. संगीथा, पत्नी (ए. प्रभु)	टीएनएसवीसी/19 13/05	कोट्टईमरुधर रोड, मनमपूडी डाक, तिरुकोडलूर तालुक, विरुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	20-जुला-76
2430	पी. संकड्याह (एम. पकियम)	टीएनएसवीसी/20 86/05	नॉर्थ स्ट्रीट, कल्लीकुडी रोड, टी. कल्लुपट्टी डाक, 625702, पेरईयूर तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	04-मई-74
2431	पी. संकर गणेश (एन. पंडियन)	टीएनएसवीसी/57 0/05	15, तमिल इल्लम, अन्ना नगर (पूर्व), तुन रोड, उलुंडुरपेट, पिन 606107, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	05-मई-79
2432	पी. संकर, पुत्र श्री एम. पलानीसामी	टीएनएसवीसी/33 74/06	वेगुवामपट्टी, वसंथुपरम डाक, नमक्कल जिला 637001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	17-जून-82
2433	पी. संकर, पुत्र श्री एस. पलानीसामी	टीएनएसवीसी/33 82/06	पलापट्टी डाक, मट्टापारी थोट्टम, पी. वेलूर तालुक, नमक्कल जिला, पिन 637017, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	02-जून-82
2434	पी. संकराकुमार (एस. परमासिवन)	टीएनएसवीसी/31 00/05	34-बी-1, टीबी रोड, प्रथम स्ट्रीट, कामराजनगर, वल्लियूर 627117, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/85	06-अप्रैल-62
2435	पी. सांथनम (एस. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/84 4/05	अलगानेरी डाक, वाया कुरुविकुलम संकरन कोविल तालुक, तिरुनेलवेली जिला 627754	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	06-फर-47
2436	पी. सारथ बाबू (आर. पुरुषोत्तमन)	टीएनएसवीसी/27 0/04	73, राधाकृष्णन स्ट्रीट, आर्कोट, वेल््लोर जिला, पिन 632503, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	16-दिसं-78
2437	पी. सरवन कुमार (एन. पद्मनामन)	टीएनएसवीसी/30 56/05	न. 8, छठी स्ट्रीट, कामराज नगर, अवाडी, चेन्नई 600071	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	29-दिसं-76
2436	पी. ससिकुमार (पी. परमासिवम)	टीएनएसवीसी/23 04/05	मिन्नमपल्ली, वायाक्कडु, डाक वडयप्पामलई, तालुक तिरुचेनगोडे, नमक्कल जिला पिन 637410	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	23-जुला-78
2439	पी. ससिकुमार (एस. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/13 31/05	3/293, पोर्टी रेडडी पट्टी डाक, नमक्कल जिला व तालुक, पिन 637013, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	25-जुला-75
2440	पी. सथियावानी (पत्नी पी. नागराजन)	टीएनएसवीसी/23 81/05	30बी, साबरी अपार्टमेंट, वेस्ट लिंक रोड, कोऑप कॉलोनी, कृष्णागिरि 635001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/95	25-मई-71
2441	पी. सत्या, पत्नी (वी. श्रवणन)	टीएनएसवीसी/87 7/05	ए-84, फ्लैट न. 4, तीसरी स्ट्रीट, अन्ना नगर पूर्व, चेन्नई 102, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	06-जून-77
2442	पी. सेल्वागणपति (जी. पन्नीर सेल्वम)	टीएनएसवीसी/24 2/04	पल्लथूर डाक, पट्टुकोट्टई तालुक, थंजावुर जिला, पिन 614803, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	01-जून-80
2443	पी. सेल्वाकुमार (ए. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/61 9/05	मरुवथुर डाक, सेंदुरई तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621710, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	10-मई-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2444	पी. सेल्वराज (सी. वेङ्कटन)	टीएनएसवीसी/20 23/05	अग्राहरम, वैकुंठम डाक, संकर गिरि तालुक, सलेम जिला, पिन 637103, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/96	27-मई-73
2445	पी. सेल्वराज (जी. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/91 5/05	जरियुसीलमपट्टी डाक, थिरुमंगलम तालुक, मंदुरई जिला 626702	बीवीएससी/टी एनएसयू/88	10-मई-61
2446	पी. सेल्वराज (के. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/24 25/05	89-सी, एनकेआर नगर, मोहानूर रोड, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/89	03-मई-65
2447	पी. सेल्वराज (एम. परमना गुंडेर)	टीएनएसवीसी/25 16/05	अय्यर वडक्कु थोट्टम, बंगलो पुडुर 638512, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/97	12-अप्रैल-74
2446	पी. सेल्वराज (एम. परमसिवन)	टीएनएसवीसी/31 64/05	न. 7, साउथ थोवपथि अम्मन कोविल स्ट्रीट, पुथुर, त्रिची 620017, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/92	27-मई-69
2449	पी. सेल्वराज (एस. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/61 0/05	29/5, श्रीसामी इल्लम, डॉ. अम्बेडकर II स्ट्रीट, बोस रोड, सिवगंगा 630560, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/88	02-मई-62
2450	पी. सेल्वराज, पुत्र श्री पोन्नमबालम	टीएनएसवीसी/33 78/06	जीवा नगर, अनावयाल डाक, अलंगुडी तालुक, पुडुकाट्टई जिला, 622304, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	07-जून-61
2451	पी. सेल्वरानी (पत्नी श्री वी. वसंत कुमार)	टीएनएसवीसी/28 12/05	डी-73, सरक्करई चेट्टियार स्ट्रीट, नीलीकोनम पलाम डाक, कोयम्बतूर 33, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/97	19-अप्रैल-74
2452	पी. सेल्वी, पुत्र श्री के. पलानीयप्पन	टीएनएसवीसी/34 84/06	नाथमडु स्ट्रीट, मादुरेट्टी, परमथी डाक, नमक्कल जिला, पिन 637207, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	10-अप्रैल-62
2453	पी. सेनापति (के. पलानीवेल)	टीएनएसवीसी/29 43/05	आलमपट्टी, अथानूर डाक, नमक्कल पिन 636301, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/91	15-जून-67
2454	पी. सेंथिल कुमार (एम. पलानियप्पन)	टीएनएसवीसी/78 /03	10, बालाजी अपार्टमेंट्स, जोथी नगर, II स्ट्रीट, इक्काडुथंगल चेन्नई 600097, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/03	04-जून-74
2455	पी. सेंथिल कुमार (पी. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/11 88/05	मट्टाकराडु थोट्टम, वेट्टमबाडी, नमक्कल 637405, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/98	30-मई-75
2456	पी. सेंथिल कुमार (पी. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/29 54/05	कामराज नगर, इल्लयूर तालुक, उदियारपलायम तालुक, पेराम्बलूर जिला, 621806, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/00	03-जून-77
2457	पी. सेंथिल कुमार (पी. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/24 29/05	न. 3, विजया रंगम स्ट्रीट, पलानी, 624601, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/96	16-मई-73
2458	पी. सेंथिलकुमार (के. पलानीसेल्वम)	टीएनएसवीसी/37 5/04	मारुवथूर डाक, सेंदुराई तालुक, पेराम्बलूर जिला 621710, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/04	18-फर-81
2459	पी. सेंथिलकुमार (एम. पलानीयंडी)	टीएनएसवीसी/81 2/05	20-ई, अन्नाई नगर, वाई.एम.आर. पट्टी, डिंडीगल 624001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/00	01-जून-76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2460	पी. सैथिलकुमार (पी. एस. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/37 0/04	इल्लूर डाक, ई.पुडुपट्टी, नमक्कल तालुक व जिला, पिन 637018, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/04	27-जून-81
2461	पी. शानमुगम (ए. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/89 8/05	नंदवनथोट्टम, अवलपुंडराई डाक, इरोडे जिला व तालुक, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/78	01-मई-51
2462	पी. शानमुगम (एस. परियासामी)	टीएनएसवीसी/28 36/05	46, त्यागी कुमारन स्ट्रीट, पम्पानाइकेन पुडुर कोयम्बतूर 641041, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/79	25-नव-55
2463	पी. शानमुगम (बी. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/19 87/05	2/968, श्री राम नगर, इलिशटराम रोड, वेजुदारेडडी, विल्लुपुरम 605602, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 74	30-दिसं-48
2464	पी. शानमुगाराजा (सी. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/17 55/05	पुत्र श्री पालनीसामी, पोस्टल असि., नम्बियार, इरोडे जिला 638458, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/00	21-फर-78
2465	पी. शानमुगा वाडिवु (एम. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/40 3/04	वाडिवु ऑटो वर्क्स, नकियानूर रोड, ए. सक्ति नगर, भवानी तालुक, इरोडे जिला 638315	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/04	11-जून-81
2466	पी. शांति (एस. पोन्नराज)	टीएनएसवीसी/10 81/05	3/189, कविमनि स्ट्रीट, इंडियन बैंक कॉलोनी, नारायण पुरम, मदुरई-14, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/97	19-अप्रैल-74
2467	पी. पी. सीलाम्बरासन (ए. परमसिवन)	टीएनएसवीसी/28 7/04	नॉर्थ स्ट्रीट, सिरुकलाथूर डाक, सेंदुराई तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621710, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/04	22-मई-81
2468	पी. सिवा, पुत्र श्री के. पन्नीरसेल्वम	टीएनएसवीसी/33 11/06	साउथ करईपट्टी(स्ट.) 3/74, पोन्नरापी डाक, सेंदुराई तालुक, पेराम्बलूर जिला 821710, तमिलनाडु	बीवीएससी/डी एनवीएंडएसयू/05	25-मई-83
2469	पी. सिवा सुब्रामण्यन (एस. पकियम)	टीएनएसवीसी/52 2/05	4, इन्द्रा भवन, शानमुगनाथपुरम II स्ट्रीट, मणिनाग्राम, अरुप्पुकोट्टई 626101	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	26-अप्रैल-78
2470	पी. सिवाकुमार (सी. पोन्नइयाह)	टीएनएसवीसी/11 35/05	पेरिया मनकुलम, सेंगुलम डाक, कामुटी तालुक, रामनाथ पुरम जिला, 626114, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/87	03-जून-83
2471	पी. सिवाकुमार (पी. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/64 8/05	वेस्टर्न गार्डन, पुथुर डाक, अददूर तालुक, सलेम जिला, टीएन 636112, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/01	15-मई-76
2472	पी. सिवाकुमार (पेरुमल)	टीएनएसवीसी/16 1/03	6/1041, ई.बी. कॉलोनी, परमधी रोड, नमक्कल जिला पिन 6370, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/03	06-जून-79
2473	पी. सिवाकुमार, पुत्र श्री बी. पिच्चमुथु	टीएनएसवीसी/34 38/06	उन्नीयूर डाक, कदुपुथुर बाबा, थोटियम तालुक, तिरुचिरापल्ली 621207, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/93	05-जून-70
2474	पी. सिवानेसन (के. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/92 /03	एम. गांधी स्ट्रीट, पी.टी.आर. कॉलोनी, उधमपलायम डाक तालुक, धेनी जिला 8251, त.ना.	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/03	26-मई-80
2475	पी. सिवराथिना, पत्नी (एस. आनंदन)	टीएनएसवीसी/14 39/05	16/32, राजीव गांधी नगर, I स्ट्रीट, कन्नन शॉप के निकट, कुन्म डाक, धेनी जिला	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/96	03-मार्च-73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2476	पी. सोतासुंदरम (बी. पलानीमलई)	टीएनएसवीसी/28 76/05	पलावरपट्टी, मानयडी डाक, करूर 639004, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/79	19-मई-52
2477	पी. सोरना कुमार (एस. पपनासम)	टीएनएसवीसी/31 89/05	सोरना भवन, 11, पेरुमल नॉर्थ कार स्ट्रीट, पलायम कोर्टई 627002, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/92	15-जून-69
2478	पी. श्रीदेवी, पत्नी (एस.ए. असोकन)	टीएनएसवीसी/24 38/05	न. 68, स्ट्रीट, IV सेक्टरिएट कॉलोनी, लक्ष्मीपुरम कोल्लाथूर, चेन्नई 600099	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/89	13-जन-67
2479	पी. श्रीनिवासन (सी. पलानी)	टीएनएसवीसी/29 85/05	कीरामूर बलासु (अयारगुरई) पी. मेट्टूर डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल 636203, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/93	15-जुला-70
2480	पी. श्रीविद्या (आर. पंडियान)	टीएनएसवीसी/11 4/03	न. 5/3, उदयसूरियम, प्रीमि स्ट्रीट, साथुमनगर, टोलगेट, चेन्नई 600, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/03	22-जन-79
2481	पी. सुब्रमण्यन (पेरुमल)	टीएनएसवीसी/24 8/04	2/90, ओथापट्टी, करुप्पायरानी डाक, मदुरई-625020, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/04	01-मार्च-53
2482	पी. सुब्रमण्यन (एस. पालनीवेल)	टीएनएसवीसी/85 3/05	16, विजयगणपति नगर, तीसरी स्ट्रीट, उल्लाग्राम, चेन्नई 600091	बीबीएससी/एमयू/ 66	25-जून-43
2483	पी. सुब्रमण्यन (एस. परमसिवन)	टीएनएसवीसी/55 2/05	ग्राम अगारम, वडाकलूर डाक, कुन्नम तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621108, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/05	22-मई-79
2484	पी. सुब्रमण्यन (परमसिवन)	टीएनएसवीसी/14 05/05	साउथ स्ट्रीट, ई.बी. कॉलोनी, अन्नानगर, कल्लाकुरिची डाक, विरुपुरम जिला 606202, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/85	12-जून-62
2485	पी. सुगंधी (ए. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/16 2/03	17एफ, करुपन्नन स्ट्रीट, आर.पी. पुडुर, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/03	13-अप्रैल-80
2486	पी. सुकुमार (के. पलानीवेलु)	टीएनएसवीसी/31 57/05	पैथूर। वार्ड डाक, अट्टूर तालुक, सलेम जिला, पिन 636141, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/02	11-जुला-78
2487	पी. सुमथी (एम. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/43 1/05	सलेम मेन रोड, कडाथूर डाक, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/04	09-जुला-80
2488	पी. सुमथी (बी. पुक्करंडी)	टीएनएसवीसी/15 57/05	3/14ए, 15ए, कट्टू स्ट्रीट, मेलापलपट्टी, पलापट्टी डाक, नमक्कल जिला 637017, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/02	10-जून-78
2489	पी. सुंदरा महालिंगम (बी. पलानीचामी)	टीएनएसवीसी/42 5/05	पोट्टल कलियम्मन कोविल स्ट्रीट, इलुमलई, पेरुडूर तालु. मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/04	07-जून-79
2490	पी. सुरेश कुमार (ई. पलानीयंडी)	टीएनएसवीसी/26 63/05	5/276, अन्ना नगर, 8वां क्रॉस, कुलीथलई, करूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/97	15-सित-73
2491	पी. सुरेश कुमार (एम. परमसिवम)	टीएनएसवीसी/43 8/05	52, वन्नमपरई, इरोडे रोड, पेरुडुरई 638052, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएएसयू/05	01-जुला-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2492	पी. सुरेश कुमार (पी. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/45 5/05	109-बी, धीरन नगर, धुरईमंगलम डाक, पेराम्बलूर जिला 621220, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	06-अक्टू-80
2493	पी. सुरेश, पुत्र श्री अंजनेयुलु	एपीएसवीसी/430 3/05	18-1-560, हरे कृष्णा रोड, श्रीपुरम कॉलोनी, तिरुपति 517507, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एस/एपीएयू/86	12-फर-86
2494	पी. तमिलारासी (टी. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/43 3/05	रेड्डीपट्टी डाक व कॉलोनी, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	06-जून-80
2495	पी. तमिलमनि (पी. परमसिवन)	टीएनएसवीसी/31 3/04	न्यू स्ट्रीट, मरुदूर डाक, पानपारप्पी वाया, पेराम्बलूर जिला, पिन 621710, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	30-जून-80
2496	पी. थंगमनि (पी. बालासुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी/24 27/05	मैलापलापट्टी, पलापट्टी डाक, काथिरमलई नगर, पी. वेलूर तालुक, नमक्कल जिला, पिन 637017	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	07-जून-78
2497	पी. थंगराजू (एस. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/16 43/05	सिंगा गूडान पुडूर, अरियूर डाक, नमक्कल तालुक व जिला 637015, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	27-जुला-78
2498	पी. थिलईकरासी (टी. कृष्णामूर्ति)	टीएनएसवीसी/16 13/05	55/10, अंडियप्पन थोट्टम, बेलुकुरिची डाक, नमक्कल तालुक व जिला 637402, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	05-मार्च-73
2499	पी. थिरुमारन (आर. पेथी)	टीएनएसवीसी/10 90/05	7.1.54 ए3.ए2, टीआरएमएस कम्पाउंड, टीबी रोड, उसीलमपट्टी, मदुरई जिला 628572, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/85	12-अप्रैल-81
2500	पी. थिरुमुगन (के. पेरियारमन)	टीएनएसवीसी/37 3/04	कौलम्माद्रापूर, परयापट्टी डाक, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन 635305, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	07-जून-80
2501	पी. थिरुनायुकरासु (एम. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/69 9/05	सेरन सेंगुदुवन स्ट्रीट, बाला समुद्रम डाक, थोट्टम तालुक, त्रिची जिला, पिन 621203	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	05-अप्रैल-78
2502	पी. उमाशंकर (के. परमसिवन)	टीएनएसवीसी/32 56/05	55/25, कोट्टई विनयागर कोइल स्ट्रीट, रायागिरि 627764, सिवागिरि तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	06-मई-67
2503	पी. उमेश चंद्रपा (आर. पदमनामन)	टीएनएसवीसी/40 /03	डॉ. ए.टी. वेनुगोपाल, 30, 70 फीट रोड, जवाहरनगर, चेन्नई 600, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/73	26-अक्टू-49
2504	पी.बी. लक्ष्मीनारायणन (पी.ए. वर्धराजलु)	टीएनएसवीसी/26 3/04	न. 6ई, राम मेशन, 385, पांथअिन रोड, एगमोरे, चेन्नई-8, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/76	07-अप्रैल-51
2505	पी. वाडीवेल (के. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/27 56/05	ई.बी.कार्यालय के पीछे, देविया कुरिची डाक, थलईवासल वाया, अट्टूर तालुक, सलेम 636112, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	05-जून-75
2506	पी. वाडीवेलु (टी. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/53 7/05	पलयामेदूर, अंधीपुर डाक, इरोडे जिला, पिन 638501, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/06	11-जन-81
2507	पी. वहेता मेनन (टी. वी.बी. कृष्णा राव)	टीएनएसवीसी/10 00/05	14, सुंदर राज नगर, सुब्रमण्यापुरम, त्रिची 620020, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	03-नव-70

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2508	पी. वनांगमुडी (पंडरीनाथन)	टीएनएसवीसी/19 16/05	3/332, अन्नानगर, एक्स., पिदामानेरी, कुमारसामीपेट डाक, धर्मपुरी 636703, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/79	17-दिसं-55
2509	पी. वासन (एम. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/15 49/05	पिलिक्कल पलायम, परमाथी वेलूर तालुक, नमक्कल जिला 637213, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	13-जन-71
2510	पी. वसंतकुमार (के. पेरियन्म)	टीएनएसवीसी/13 97/05	न. 50/2, मसक्कालीपट्टी डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	21-मई-89
2511	पी. वेलिगिरि (पी.एस. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/43 0/05	ईरी करई थोट्टम, कूथम पुंडी डाक, सकिल्लगर 838315, भवानी तालुक, इरोडे जिला	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	07-नव-78
2512	पी. वेलमुक्कन (पी. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/11 52/05	बी1-7, मुल्लई नगर, मोहानूर रोड, टीएनएचबी, नमक्कल तालुक, नमक्कल जिला 637002, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/90	09-जून-87
2513	पी. वेंकटेशन (एम. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/25 84/05	138/2, मुल्लई नगर, एलिस नगर डाक, धारापुरम 638857, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	28-मई-88
2514	पी. विद्यासगर, पुत्र श्री बी. पेरियासामी	टीएनएसवीसी/33 43/05	18/बी, एंजल कॉलोनी, रासीपुरम डाक, रासीपुरम डाक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	02-अग-81
2515	पी. विजयकुमार (एस. पी. पकियानाथन)	टीएनएसवीसी/28 65/05	न.5, मथा कोविल स्ट्रीट, थेकरई, पेरियाकुलम तालुक, थेनी जिला, 625601, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	23-जुला-88
2516	पी. विक्रम चक्रवर्ती (एम.ए. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/38 9/04	मिनमपल्ली डाक, सेलापमपट्टी वाया, नमक्कल जिला 637019, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	30-मई-81
2517	पी. विश्वनाथन (एम. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/83 0/05	थोट्टम पट्टी, विलारसम पट्टी डाक, इरोडे जिला 638107, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	29-अप्रैल-79
2518	पी. यासोथा (ए. पोन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/30 07/05	3/73, सतुथ स्ट्रीट, रायमपलायम, अवनाशी, कोवई 641654, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	30-जून-82
2519	पी. ए. गोवर्धनराज (पी.एम. अन्नासामी)	टीएनएसवीसी/28 80/05	38 बी (पुराना), 53 (नया), जी ब्लॉक, प्रथम मेन रोड, अन्ना नगर (ई), चेन्नई 600102	बीबीएससी/टी एनएयू/82	08-जन-54
2520	पी. अंबारसी (एस. थंगाडु)	टीएनएसवीसी/22 97/05	348/1, कॉलोनी कडु, मरवा नाथम, बी.पी.अगारम डाक, चिन्ना सलेम वाया, कुल्लुकुरिची तालुक, विल्लुपुरम जिला पिन 606201	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/97	20-मई-74
2521	पी. बालापूर्णी (एस. परमसिवन)	टीएनएसवीसी/17 67/05	न. 2, आडिन क्वार्टर्स, सिवगंगई मेन रोड, सधामंगलम, मदुरई 625020, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/82	13-मई-85
2522	पी. भारती, पुत्र श्री राजेश्वर राई	एपीएसवीसी/441 0/05	2-2-1186/2, तिलक नगर, हैदराबाद 500044, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एनजीआरएयू /05	11-जुला-81
2523	पी.सी. चंद्रन (ए. चिन्नकन)	टीएनएसवीसी/28 94/05	5/117, फुलांगुलम, कडायम वाया, तिरुनेलवेली 627415, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	19-मई-73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2524	पी.सी. प्रभु (पी.आर. चिन्नासस्वामी)	टीएनएसवीसी/86 0/05	37-ए, पहली मंजिल, ए क्रॉस, सक्ति नगर, थिंडल डाक, इरोडे 638009, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	17-अग-78
2525	पी. चेल्लान (एम. पथियप्पा)	टीएनएसवीसी/22 85/05	डो.न. 1261, थेंडराल नगर (साउथ), वेंगीक्कल ग्राम व डाक, तिरुवन्नामलाई जिला 606604	बीबीएससी/टी एनएयू/84	15-अप्रैल-60
2526	पी. चेंगुदुवन (पूमलाई)	टीएनएसवीसी/19 74/05	एम 193, ए फेस, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, कृष्णागिरि डाक व जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/82	13-जुला-57
2527	पी. चिन्नामरुथुपंडी (के.पी. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/13 54/05	पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, इलुमलाई डाक, पेरइयूर तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	01-मई-75
2528	पी. देवराजन (के. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/23 32/05	375, श्री सक्तिनगर, पुथु मरियमकोइल डाक, सलेम 636001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/81	29-दिसं-57
2529	पी. धनपति (आर. पिरायानायगम)	टीएनएसवीसी/26 23/05	न. 0-1-25 टी 5, परुथी विलई स्ट्रीट, कृष्णापुरम, कडायानल्लूर 627751, तेनकासी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/83	12-मार्च-70
2530	पी. डंडायुथयानी, पुत्र श्री पुन्नुस्वामी	टीएनएसवीसी/35 12/06	अरियाचंद्रनूर, ईरुपल्ली डाक, धर्मपुरी जिला, पिन 636816, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	15-मई-63
2531	पी. गोपाल (आर. पलानी गुंडेर)	टीएनएसवीसी/16 18/05	मुराम्बुकाडी, कोंगनापुरम डाक, इडापडुडी तालुक, सलेम जिला, पिन 637102, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/79	02-जन-55
2532	पी.जे. बालासुब्रमण्यम 'एम. जयरमन)	टीएनएसवीसी/19 10/05	21सी, बालाजी इल्लम, सउथ नरसिम्माचरी स्ट्रीट, धर्मपुरी-636701, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/79	09-जून-55
2533	पी. जनानी, जेगा प्रिया (आर.एम. पूनराजू)	टीएनएसवीसी/23 56/05	न. 100, कोनेरीपट्टी एकसटेशन न.2, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637408, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	09-मई-75
2534	पी. जारेद जबाकुमार (सी.सी. पोन्नुरंगम)	टीएनएसवीसी/18 45/05	91, परियार नगर, वानपडी रोड, रानीपेट 632402, वेल्तोर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/80	25-सित-54
2535	पी. जयान्तरी (आर. पोथानईकर)	टीएनएसवीसी/48 9/05	6/147, पेरियाथोट्टिपट्टी, कल्याणी डाक, पुडुचदरम वाया, नमक्कल जिला 637016, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	25-मई-82
2536	पी. जयकुमार (ए. पिलावनथिरन)	टीएनएसवीसी/22 68/05	पूनलवासल डाक, पट्टुकोट्टई तालुक, थंजावूर जिला, पिन 614803, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	03-अप्रैल-78
2537	पी.के. शांति (पत्नी जी.संकराजू)	टीएनएसवीसी/78 1/05	प्लॉट न. 5, नेहरुजी स्ट्रीट, डी.न. 6/681/2, लक्ष्मी नगर, विरुधुनगर 626001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/96	09-जून-73
2538	पी. कमलकन्नन (के. पेरुमल)	टीएनएसवीसी/23 50/05	32-सी, कट्टू कोट्टई कॉलोनी स्ट्रीट, रासीपुरम डाक व तालुक, नमक्कल जिला, 637408, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	30-जुला-70

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2539	पी. कानन (के. पलानीयंडी)	टीएनएसवीसी/29 13/05	28-ए, लक्ष्मी नगर, ५ स्ट्रीट, पेरम्बूर, चेन्नई 600011, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	17-मई-75
2540	पी. कृष्णामूर्ति (बी. परमानंदम)	टीएनएसवीसी/67 8/05	न. 40, तीसरी स्ट्रीट, वी.आर. पुरम, सालीग्रामम, चेन्नई- 600093, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	14-जुला-77
2541	पी.एम. इब्राहिम (मीहम्मद यूसुफ)	टीएनएसवीसी/17 29/05	79, ई.बी. कॉलोनी, कजामलाई, त्रिची- 620023, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/76	09-जून-53
2542	पी.एम. रमेश बाबू (पी. एन. मतीलाल)	टीएनएसवीसी/32 04/05	37/11, पुराना नाथम रोड, विशालक्षीपुरम, मदुरई 625014, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/80	10-अप्रैल-54
2543	पी.एम. श्रीनिवासन (पी. मुनिस्वामी चेट्टी)	टीएनएसवीसी/23 10/05	अमानीमल्लपुरम डाक, धर्मपुरी जिला, पिन 636801, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/78	02-जन-54
2544	पी.एम.के. विजय कुमार (पी.एम. कृष्णन)	टीएनएसवीसी/13 15/05	मुरुगरकोइल स्ट्रीट, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन 636903, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	06-मई-78
2545	पी.एम. थंगावेल (पी. मुनिया गुंडेर)	टीएनएसवीसी/25 08/05	277, धर्मपुरी, सालंगपलायम डाक, कर्विडापडी वाया, इरोडे जिला, तमिलनाडु 638455	बीबीएससी/ एमयू/89	10-जुला-45
2546	पी. महेंद्रन (आर. परमाशिवन)	टीएनएसवीसी/18 52/05	1-5-9, करुप्पन सरवई स्ट्रीट, अय्यमपलायम डाक, डिंडीगल जिला, 624204, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/94	24-सित-70
2547	पी. मारुथिवनन (एम. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/17 80/05	वेस्ट स्ट्रीट, ए. कलायमपुथुर डाक, पलानी तालुक, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/78	21-अप्रैल-53
2548	पी. मुकुगन (बी. पेरियन्तन)	टीएनएसवीसी/18 40/05	114, छठा क्रॉस, सीवन कोविल स्ट्रीट, कुमारन नगर, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/86	01-नव-62
2549	पी. मुथुरामलिंगम (एम. पलानीयेल)	टीएनएसवीसी/18 37/05	सीथाक्कनी ग्राम, सुब्रामण्यापुरम डाक, अराथंगी तालुक, पुडुकोट्टई जिला, पिन 614805	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	05-जन-55
2550	पी.एन. शानमुगम (पी. एम. नल्लासामी)	टीएनएसवीसी/25 74/05	40/161, पुराना बस स्टैंड रोड, पेरुंडुराई 638083, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/एमयू/ 72	20-जन-49
2551	पी. पंडियन (पी. पक्किचम)	टीएनएसवीसी/22 63/05	56, असीरियार नगर, तिरुपत्तूर, असीरियार नगर डाक, वेल््लोर जिला, 635601	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	25-मई-67
2552	पी. प्रकासम (टी. पप्पुसामी)	टीएनएसवीसी/42 3/05	गांधी नगर, जेसीटी वाया, अथियूर डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला 638501, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	05-दिस-79
2553	पी.आर. चेल्लादुरई (पी.एस. रामाअयंगर)	टीएनएसवीसी/26 05/05	43/23, पुराना पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, एफ9, सस्था फ्लैट्स, वेकटपुरम, चेन्नई 600053	बीबीएससी/ एमयू/72	03-जून-44
2554	पी.आर. मोहन (पी. आर. रामाचंद्रन)	टीएनएसवीसी/15 38/05	5, थिरुवल्लुवर स्ट्रीट, मेहता नगर, सेलइयूर, चेन्नई 600073	बीबीएससी/टी एनएयू/82	01-जून-59
2555	पी. आर. पलानीसामी	टीएनएसवीसी/28	15/37, मुथु नगर, एक्सटें., तिरुपुर, पिन	बीबीएससी/टी	28-जन-58

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
	(ए. रक्कीयन्न्)	18/05	641607, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	एनएयू/83	
2556	पी. राजेंद्रन (एस. पुगलेशी)	टीएनएसवीसी/27 10/05	न. 34, वेपेरी हाइ रोड, वेपेरी, चेन्नई 600007	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	10-मार्च-68
2557	पी. रामाकुमार (आर. आर. पंडयान)	टीएनएसवीसी/17 84/05	ए-87/4, टीएनएचबी क्वार्टर्स, म4रूडु पंडयान नगर, सिवागंगई 630562, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/88	26-फर-66
2558	पी.एस. मनोहर, पुत्र श्री पी.आर. सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/35 21/06	36, वसागा सेलई स्ट्रीट, शिवापेट, सलेम 636002, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/82	13-मार्च-53
2559	पी.एस. नटराजन (पी. एम. सेनियप्पन)	टीएनएसवीसी/24 96/05	1 बी, अयप्पा नगर, गोबीचेटिपलायम 638452, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/85	10-जून-62
2560	पी.एस. शिवा (के. सेलप्पन)	टीएनएसवीसी/17 11/05	97 बी-24, मुरुगन थिएटर, डाक वेतूर, नमक्कल जिला 638182, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	26-अग-76
2561	पी.एस. विनोद (बी. सिवदासन)	टीएनएसवीसी/17 37/05	फ्लैट न जी3, मास क्लासिक, नगा न. 23, फर्स्ट मेन रोड, थिल्लै मंगानगर, चेन्नई 600061	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	22-मई-68
2562	पी.एस. परमेश्वर गुप्ता, पुत्र श्री पी. नारायण	कर्नाएसवीसी/382 2/	पी.एस.पी. गुप्ता, नियाणा, अडुगोडी, बंगलौर 560030, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/एपीएयू/86	14-अग-64
2563	पी. सत्या श्रीहरि, पुत्र श्री पी.एस. वर प्रसाद	एपीएसवीसी/435 5/05	म.न.10-9231, पुराने बस स्टैंड के निकट, कोइलकुंटा, कुर्नूल जिला- 518134, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	01-जुला-81
2564	पी. सैथिल कुमार (एस. पेरियाथम्बी)	टीएनएसवीसी/27 16/05	103, अनावयल नार्थ, अनावयल डाक, अलगनगुडी तालुक, पडुकोट्टई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	13-जुला-74
2565	पी. सिरिशा, पुत्री श्री पी सत्यनारायण रेड्डी	एपीएसवीसी/ 4406/05	म.न. 6-4-69, नार्गाजुन कॉलोनी, नालगोंडा 508001, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	28-नव-80
2566	पी. सुब्रामण्यन (पी. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/10 47/05	3/42, कावेटीपट्टी, वल्लीपुरम, नमक्कल तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/77	20-जून-53
2567	पी. सुंदर वाडीवेलु (एम.बी. पलानीसामी)	टीएनएसवीसी/23 51/05	85-आर, कोमारपलायम, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, पिन 637403, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/91	25-मई-68
2568	पी. सुरेश (बी. परमसिवम)	टीएनएसवीसी/45 4/05	कलईमगल स्ट्रीट, मौरंगलम डाक, थंजावूर जिला, 613006, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	02-जून-81
2569	पी.टी.आर. थियोफिलस रोजर (एस. पकियानाथन)	टीएनएसवीसी/28 20/05	107जे/184सी, मिलर पुरम, ट्यूटिकोरिन-8, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/88	10-जन-65
2570	पी. तमिलसेलवन (टी. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी/44 1/05	4, अन्नई इल्लम ईस्ट स्ट्रीट, नामागिरिपेट डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	03-अप्रैल-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2571	पी. दयानिधि (के. परियन्तन)	टीएनएसवीसी/23 59/05	284/28, "वर्मा गार्डस", चिन्नाकोलापट्टी, कोन्ननकुरिची डाक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	17-मई-52
2572	पी. धेरसा रानी, पत्नी (एम. मुथुरामकृष्णन)	टीएनएसवीसी/17 49/05	6-2, मुथुसामी नायडु स्ट्रीट, मेन रोड, टी. कल्लुपट्टी डाक, मदुरई जिला 625702, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	10-मई-69
2573	पी. वाडीवेलन	पॉण्डीएसवीसी/26 1/05	7, हॉस्पिटल क्वार्टर्स, कशीकलपक्कम, पॉण्डीचेरी-7	बीवीएससीएंडए एच/पीयू/05	27-अग-79
2574	पद्मा सिंह, पुत्री डॉ. बी.एस. ठाकुर	एमपीएसवीसी/23 23/06	ग्राम एवं डाक सलोन-बी, वाया दतिया, 475336, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 05	22-अग-81
2575	पकाला चिरंजीवी, पुत्र श्री कोटेश्वर राव	एपीएसवीसी/ 4315/05	पकाला डाक, सिगरायाकोडा (एम), प्रकासम जिला, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	29-अग-81
2576	पनाकी साहा, पुत्र श्री सुनील कुमार साहा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3159/05	देशबंधुपाडा डाक, बक्शीरहाट, जिला कूचबिहार 736131, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	22-अक्तू-82
2577	पंचाल जयेश कुमार	गुजएसवीसी/264 7/06	एटी एवं डाक तरवाडिया भाऊ, तालुक जिला दाहोद, पिन 389151, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि. वि./06	31-अग-82
2578	पांडुरंगन, पुत्र श्री ए. नटराजन	कर्नाएसवीसी/380 9/	एल-40, एल.आई.सी. कॉलोनी, 25वां मेन जं.पी. नगर, प्रथम फेस, बंगलौर, कर्नाटक	बीवीएससी/मद्रास वि.वि./64	09-मई-41
2579	पंकज कुमार चौधरी, पुत्र श्री आर.एस. चौधरी	बिहारएसवीसी/23 95/03	ग्राम मिर्जापुर, डाक जगन्नाथ पुर, थाना बिरौल, सब.डिवी. बिरौल, जिला बारभंगा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएंडएफएस यू/03	15-अक्तू-76
2580	पंकज कुमार, पुत्री श्री नवल किशोर ठाकुर	बिहारएसवीसी/26 10/05	ग्राम/मुहल्ला-नंदिनी, डाक सिवऊसिंगपुर, थाना माहिउद्दीन नगर, सब.डिवी.-शाहपुर पटौरी, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	20-फर-80
2581	पंकज कुमार मंडल, पुत्र श्री भरत कुमार मंडल	बिहारएसवीसी/22 93/03	ग्राम रामपुर, डाक व थाना जमालपुर, सब.डिवी.-मुंगेर, जिला- मुंगेर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /02	15-जुला-77
2582	पंकज कुमार, पुत्र श्री राजकुमार प्रसाद	कर्नाएसवीसी/379 6/	हैदरनगर डाक, पलामू जिला, झारखंड राज्य, 822115, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	21-नव-80
2583	पंकज कुमार, पुत्र श्री अवध किशोर सिन्हा	बिहारएसवीसी/25 12/04	ग्राम/मुहल्ला- बेनुगढ़, डाक मतिथारी, थाना टेडागाच, सब.डिवी. किशनगंज, जिला कियानगंज, बिहार	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/ 03	05-अप्रैल-77
2584	पंकज कुमार, पुत्र श्री श्री राम स्वरूप प्रसाद	बिहारएसवीसी/23 68/03	ग्राम: बैलुटिकर, डाक जौमदिहा, थाना बंका, सब. डिवी. बंका, जिला बंका, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएंडएफएस	01-जन-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
	यादव			यू/03	
2585	पंकज कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र नाथ साहा	बिहारएसवीसी/22 64/03	ग्राम-घनौटी, डाक-घनौटी, थाना -दरौटा, सब डिवी.-महाराजगंज, जिला सीवन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 93	30-अक्टू-69
2586	पंकज कुमार सिंह, पुत्र श्री एस.के. सिंह	बिहारएसवीसी/23 58/03	ग्राम-सी 3,रोड न. 2, चित्रकूट नगर, डाक दीघा, थाना दानापुर, सब डिवी. दानपुर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	01-फर-77
2587	पंकज कुमार सिनहा, पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार सिंह	बिहारएसवीसी/23 99/03	ग्राम गियानी, डाक टुटुरखी, थाना गोह, सब डिवी. दौडनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	14-अक्टू-76
2588	पंकज मोर, पुत्र श्री डी.डी. मोर	राजएसवीसी/320 6/06	अग्रवाल कॉलोनी, सिविल लाइन्स, अजमेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	06-मार्च-79
2589	पंकज समन, पुत्र श्री रघुनंदन प्रसाद	बिहारएसवीसी/25 62/04	ग्राम/मुहल्ला- सौर, डाक राजापुर सौर, थाना वारिसलीगंज, सब डिवी. नवादा, जिला नवादा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/04	04-जन-80
2590	पप्पू कुमार, पुत्र श्री विजय शर्मा	यूवीसी/178/06	वेट अधिकारी, गवर्न. वेट. हॉस्पिटल, खेतीखान, जिला चम्पावत, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/एमएयू/01	14-जन-75
2591	पप्पू राम, पुत्र श्री लक्ष्मी राम	बिहारएसवीसी/24 78/04	ग्राम/मुहल्ला नवटोलिया, डाक अराजपुर,थाना; रुपौली,सबडिवी. धमदाहा, जिला पूर्णिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एनजीआरएयू /04	31-जन-80
2592	परवाकर कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार	बिहारएसवीसी/22 99/03	ग्राम बोकानी ब्रिटा, डाक बोकानी काला, थाना पटही, सबडिवी. पाकरी दयाल, जिला पूर्वी चम्पारन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/02	31-दिस-78
2593	परदेशी सतीश ज्योतिराम	गुजएसवीसी/261 3/89	सुरेश पार्क सोसायटी, नोविनो बैटरी के सामने, मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 09, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/केकेवीपी/89	
2594	पारिख राकेश कुमार सी.	गुजएसवीसी/265 7/06	78/42/5, रामचंद्र कॉलोनी, असरवा कलपीनगर, अहमदाबाद 380016, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	04-सित-81
2595	परिमल परुया, पुत्र श्री रबीन्द्र नाथ परुया	डब्ल्यूबीएसवी सी/3166/05	ग्राम एवं डाक देबनिबास, थाना नामखाना, जिला 24 परगना, पिन 743357, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	05-जन-82
2596	परमार किरन कुमार एच.	गुजएसवीसी/263 3/06	एटी चनचिपा, डाक अरंडी, तालुक गोधरा, जिला पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंदकृ.वि.वि. /06	15-जून-83
2597	परमार प्रकाश चंद्र डी.	गुजएसवीसी/265 8/06	ब्लॉक न. 139, शारदाकुंज सोसायटी, मोतीपुरा, हिम्मतनगर (एस.के.) गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	28-मई-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2596	पारभा गिस्वास, पुत्र श्री बिरसोय कुमार बिस्वास	डब्ल्यूबीएसवी सी/3190/05	ए-10एक्स/74, कल्याणी जिला, नादिया, पश्चिम बंगाल	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	28-जुला-81
2599	पार्थ करमाकर, पुत्र श्री गोपी नारायण करमाकर	डब्ल्यूबीएसवी सी/3177/05	जांगीपारा, डाक कलना जिला बर्दवान- 713409, पश्चिम बंगाल	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	03-जन-82
2600	पार्थ प्रतिम डे, पुत्र डॉ. प्रभात कुमार डे	डब्ल्यूबीएसवी सी/3156/05	परम, सारदापल्ली डाक, श्रीपुर, जिला हुगली 712612, पश्चिम बंगाल	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	23-सित-81
2601	परवीज पाशा, पुत्र श्री समीउल्ला	कर्नाएसवीसी/378 5/	वैश्य बैंक बिल्डिंग, बी.सी.एम. होस्टल, दिन्नूर मेन रोड, आर.टी.नगर, बंगलौर-32,कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	20-जून-82
2602	पटेल अरविंद कुमार वी.	गुजएसवीसी/264 8/06	ग्राम नरशीपुर तालुक कापडवंज, जिला खेडा, गुजरात	बीबीएससीएंडए एच/आनंद कृवि.वि. /06	14-जन-81
2603	पटेल आशीष कुमार सी.	गुजएसवीसी/266 6/06	एटी/डाक वाघारोटा, तालुक प्राणजीत, जिला साबरकंठा, पिन 383210, गुजरात	बीबीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	29-अग-83
2604	पटेल दशरथ भाई जी.	गुजएसवीसी/266 7/06	एटी/डाक केशरगंज, तालुक वाडाली, जिला साबरकंठा, पिन 383235, गुजरात	बीबीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	22-जुला-83
2605	पटेल गोविंद भान	गुजएसवीसी/266 8/06	एटी व डाक वासरीनेल, तालुक बयाद, जिला साबरकंठा, पिन 383325	बीबीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	28-जुला-83
2606	पटेल जतिन वी.	गुजएसवीसी/266 9/06	26, सिद्धराज नगर, कनक पार्क के निकट, मेहसाना-2, गुजरात	बीबीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	12-मार्च-83
2607	पटेल जतिन कुमार एच.	गुजएसवीसी/267 0/06	एटी कुकरवरडा, तालुक बीजापुर, जिला मेहसाना 382830, गुजरात	बीबीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	21-मार्च-82
2608	पटेल जयनेश कुमार	गुजएसवीसी/267 1/06	ई-17/3, एसडीएयू, दांतीवाड़ा, एस.के. नगर, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीबीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	10-जुला-83
2609	पटेल कैतन कुमार एस	गुजएसवीसी/263 4/06	सी-7, शांतिनगर सोसायटी, सहयाग सोसायटी के पीछे, रिफाइनरी रोड, बडोडरा 390016, गुजरात	बीबीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	13-जून-83
2610	पटेल राजजीभाई	गुजएसवीसी/267 2/06	एटी एवं डाक सुडगम, तालुक दाव, जिला, बनासकंठा, पिन 385570, गुजरात	बीबीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	01-जून-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2611	पटेल रिमताबेन	गुजएसवीसी/267 3/06	ए-22, तिरुपति टाउनशिप, दीसा, पालनपुर हाइवे पालनपुर जिला, बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	01-मई-83
2612	पटेल सुभाष कुमार बी.	गुजएसवीसी/267 4/06	एटी एवं डाक करनपुर, तालुक हिम्मतनगर, जिला साबरकंठा, पिन 383030, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	20-दिसं-82
2613	पटेल उमेश कुमार ए.	गुजएसवीसी/267 5/06	एटी कपोडा, तालुक इडार, जिला साबरकंठा, पिन 383010, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	09-अप्रैल-81
2614	पटेल विपुलकुमार ए.	गुजएसवीसी/263 5/06	46, तेजेंद्र पार्क सोसायटी, पार्ट 2, विराटनगर रोड, ऊधव, अहमदाबाद 382415, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंदकृ.वि.वि. /06	15-अप्रैल-83
2615	पठान नयरुल्लह खान, पुत्र श्री पी.एम. खान	टीएनएसवीसी/35 24/06	गवर्नस्टाफ क्वा.4/187, अरिग नार, अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वंडातूर 600048, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/ 96	12-फर-54
2616	पॉल सुभाषदीप, पुत्र श्री मनोज कुमार पॉल	असमएसवीसी/22 31/05	221, सीमन हाउस, नेपाली मंदिर के सामने, पल्टन बाजार, गुवाहाटी-8, असम	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/99	08-सित-76
2617	पॉलीन फेलिसटा सुगंध (पत्नी श्री बी. कोभागन)	टीएनएसवीसी/24 55/05	7, थिडाल, मिडल स्ट्रीट, मुदुकुलाथुर, रामनाथपुरम डाक, 623704, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/ 96	26-फर-73
2618	पवन कुमार, पुत्र श्री परमानंद मिश्रा	बिहारएसवीसी/25 60/04	ग्राम/मुहल्ला-कृष्णानगर, डाक कोशी कॉलेज, थाना खगरिया, सबडिवी. खगरिया, जिला खगरिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएएंडयू /04	05-जन-78
2619	पवन कुमार, पुत्र श्री गोवर्धन मंडल	बिहारएसवीसी/23 89/03	ग्राम तपूया, डाक बुधचौक, थाना पीरपोती, सबडिवी. काहलगवां, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	01-जन-79
2620	पवन कुमार सूनिया, पुत्र श्री मूल चंद	राजएसवीसी/322 5/06	ग्राम एवं डाक पंधारिया, वाया पिलानी, झुझुनू, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	15-जन-78
2621	पाठक कल्याण, पुत्र श्री देबेन च. पाठक	असमएसवीसी/22 16/05	डाक एवं ग्राम हेकरा, जिला कामरूप, पिन 781127, असम	बीवीएससीएंडए एच/एयू/05	03-मई-76
2622	पिनाकी प्रसाद सेनगुप्ता, पुत्र श्री दक्षिणाराजन	कर्नाएसवीसी/381 8/	रु170, एन-एचआईजी, डी ब्लॉक, न. 1, कैएचबी, ट फेस, येलाहंका न्यू टाउन, बंगलौर 560064, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/बीसीकेवीवी/8 7	02-फर-64
2623	पीयूष कुमार गोयल, पुत्र श्री मुकुट एल.	राजएसवीसी/323 9/06	श्री मुकुट लाल गोयल, पुरानी अनाज मंडी, खेरली अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	04-जुला-77
2624	पीयूष कुमार सिंह, स्व. प्रेम नारायण सिंह	यूवीसी/156/06	बेट. अधिकारी, गवर्न. बेट. हॉस्पिटल, कथूरबाड़ा, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/02	23-अक्टू-73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2625	पी.के. अंडावन, पुत्र श्री पी. कृष्णन	टीएनएसवीसी/35 53/06	एच 35/टी3, सीशोर अपार्टमेंट, थिरुवत्तूर नगर, थिरुवनमियूर, चेन्नई 600041	बीवीएससी/टी एनएयू/79	04-अग-54
2626	पोमकम राजू, पुत्र श्री अम्बियाह	एपीएसवीसी/ 4371/05	द्वारा एम. कौंडइयाह, डोर न. 12-646/1, सुंदराया नगर कट्टा, टाउपल्ली, गुंदूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एनजीआरएयू /05	31-अग-77
2627	पोन कृष्णन (पोन्नन)	टीएनएसवीसी/31 05/05	थूथीपटली, पोन्नकृष्णम डाक, अनंतपुरम, एस.ओ., जिंजी तालुक, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	20-मई-51
2628	पूजा गुप्ता, पुत्री डॉ. डी.सी. गुप्ता	राजएसवीसी/324 0/06	93/36, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/एमएंडएफएस यू/05	09-मार्च-82
2629	पूजा पटेल, पुत्री श्री मोहन लाल पटेल	यूवीसी/155/06	द्वारा श्री भूपाल सिंह, बागवाली (पोखर), अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/04	28-दिस-76
2630	पूजा साहनी, पुत्री श्री ए.के. साहनी	यूवीसी/158/06	ईडब्ल्यूएस-424, डॉ. अरोड़ा के निकट, रूद्रपुर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /04	14-दिस-81
2631	पूनम यादव, पुत्री श्री यादराम यादव	यूवीसी/119/06	वेट. अधिकारी, विकास भवन, पशुपालन विभाग, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /00	28-मई-77
2632	प्रशांत गौडो एम., पुत्र श्री चनभा एम.	कर्नाएसवीसी/371 0/	वासवी मंदिर के निकट, रामनगर, हागरी बोम्मनाहल्ली, बेलारी जिला 583212, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	20-जून-83
2633	प्रवीन कुमार, पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद	बिहारएसवीसी/25 14/04	ग्राम/मुहल्लाह-कायल गांव, टोला, खवासपुर, थाना पीरपैती, सबडिवी. काहलगांव, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/04	25-मई-73
2634	प्रभा भारती, पुत्री श्री उमेश मोदी	बिहारएसवीसी/23 14/03	ग्राम समतापथ, नया बंगाली टोला, डाक जीपीओ पटना, थाना जक्कनपुर, सबडिवी. पटनासर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	30-सित-77
2635	प्रभात कुमार पांडे, श्री राम सखी पांडे	यूवीसी/74/06	वेट अधिकारी, गवर्न. वेटरिनरी हॉस्पिटल, बोहाला जिला, बागेश्वर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/01	09-दिस-75
2636	प्रभात कुमार, पुत्र श्री वी.के प्रसाद	बिहारएसवीसी/25 94/05	ग्राम/मुहल्ला- लालगंज, डाक चंडी, थाना चंडी, सबडिवी. हिलसा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	24-जन-80
2637	प्रभात रंजन कुमार, पुत्र श्री रामशरन साहू	बिहारएसवीसी/23 94/03	ग्राम-पीरपैती, डाक अलीनगर, थाना बेहेरा, सबडिवी. बेनीपुर, जिला दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएंडएफएस यू/03	10-जन-76
2638	प्रभु नारायण यादव, पुत्र स्व. श्री ऋषि यादव	बिहारएसवीसी/22 56/02	ग्राम कमला कुंड, डाक कमला कुंड, थाना सैयदपुर(नया इस्माइलपुर) सबडिवी. नौगचिया, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/02	30-अक्टू-74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2639	प्रदीप कुमार, पुत्र श्री भूप सिंह	हरिएसवीसी/188 0	ग्राम शाहापुर, डाक भूषन कलां, नारनौल, महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /05	15-जुला-80
2640	प्रदीप कुमार जेना, पुत्र श्री नरेंद्र कुमार जेना	उड़ीसाएसवीसी/1 977/05	तुलसीपुर, वाया ब्रह्मकुंडी, जिला पुरी, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	02-मई-79
2641	प्रदीप कुमार मेनन	केरल/3103/05	अजीथ निवास, कंजूर डाक, अर्नाकुलम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/89	19-जून-63
2642	प्रदीप कुमार राय, पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण राय	बिहारएसवीसी/25 45/04	ग्राम/मुहल्ला-रीवा, डाक अखियापुर, थाना करगाहार, सबडिवी.-सासाराम, जिला रोहतास बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /04	15-फर-80
2643	प्रदीप कुमार सत्य नारायण प्रसाद	बिहारएसवीसी/24 91/04	ग्राम/मुहल्ला-रेंडी, डाक चमार बीघा, थाना हिलसा, सब डिवी. हिलसा, जिला नालदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/03	12-दिस-79
2644	प्रदीप कुमार, पुत्र श्री राम सागर यादव	बिहारएसवीसी/23 16/03	ग्राम पोखरिया, डाक धनौली फूलबरिया, थाना बलिया, सबडिवी. बलिया, जिला बेगुसराय, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/03	13-दिस-74
2645	प्रदीप कुमार पी.जी., पुत्र श्री गोविंद राजू के.	कर्नाएसवीसी/376 8/	शम्भुलिंगेश्वर मंदिर के निकट, पलाहल्ली डाक, श्रीरंगपट्टनम तालुक, मांड्या जिला 571438, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	23-अप्रैल-82
2646	प्रदीप बी. पुत्र श्री बालाराजू एम.	कर्नाएसवीसी/379 9/	गोपालगौडा एक्स., दूसरा क्रॉस, ई-67, शिमोगा, 577201, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	25-दिस-81
2647	प्रफुल रंजन, पुत्र श्री सुशील कुमार दास	बिहारएसवीसी/22 80/03	ग्राम बेहेरा, डाक व थाना बेहेरा, सबडिवी. बेनीपुर, जिला दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/02	01-मार्च-79
2646	प्रज्ञान भारती, पुत्र श्री केशब चंद्र मोहपात्रा	उड़ीसाएसवीसी/2 013/05	एटी: बडगडा ब्रिट कॉलोनी, एलबी-20, भुवनेश्वर -18, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	31-दिस-79
2649	प्रजापति आशीष कुमार पी.	गुजएसवीसी/264 9/06	50, कृष्णा नगर, बमरौली रोड, गोधरा 389001, जिला पंचमहल, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि. वि./06	11-नव-81
2650	प्रजापति नरेंद्र कुमार टी.	गुजएसवीसी/263 7/06	7, कैलाशकृपा सोसायटी, जलाराम सोसा. के सामने, सरदारनगर, एटी एवं डाक वीजापुर, जिलामेहसाना, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/ आनंद कृ.वि. वि./08	23-सित-82
2651	प्रकाश च. साहू, पुत्र श्री पंडब चरन साहू	उड़ीसाएसवीसी/2 006/05	एटी/डाक-टोलकापदा, वाया-सलपदा, जिला-कैओन्डर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0	02-जुला-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
				5	
2652	प्रमोद कुमार मिश्रा, पुत्र श्री चंद्रिका मिश्रा	बिहारएसवीसी / 22 60 / 02	ग्राम—सोवी भेरयन्ही, डाक — हरिदासपुर, थाना—कांति, सबडिवी.— मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 74	15-जन-52
2653	प्रमोद कुमार, पुत्र श्री अर्जुन प्रसाद	बिहारएसवीसी / 25 41 / 04	ग्राम/मुहल्ला—रामपुर, डाक आओप, थाना इकंगरसराय, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/99	05-जुला-71
2654	प्रमोद कुमार, पुत्र श्री दामोदर प्रसाद	बिहारएसवीसी / 24 13 / 04	ग्राम चांदपुर बेला, डाक जीपीओ पटना, थाना जक्कनपुर, सबडिवी. पटना सदर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 03	25-मार्च-79
2655	प्रमोद कुमार, पुत्र श्री गणेश प्रसाद	बिहारएसवीसी / 24 59 / 04	ग्राम/मुहल्ला—रघुबीघा, डाक सबैथ, थाना नालंदा, सबडिवी. राजगीर, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/यूएसबंगलौर /04	21-फर-76
2656	प्रमोद कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र कुमार वर्मा	बिहारएसवीसी / 25 07 / 04	ग्राम/मुहल्ला— गैबी, डाक इतासांग, सबडिवी. रहुई, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससी / टी एनवीएडएएसयू/03	20-सित-77
2657	प्रमोद कुमार सिंह, पुत्र श्री कृष्ण महादुर सिंह	यूवीसी / 18 / 06	वेट.अधिकारी, गवर्न.वेट. हॉस्पिटल, दुर्गाधर, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेईपीव /वी/92	05-अक्टू-68
2658	प्रमोद प्रभाकर, पुत्र श्री कपिलदेव रजाक	बिहारएसवीसी / 25 93 / 05	ग्राम/मुहल्ला— रतनपुरा, डाक रतनपुरा,थाना धैलाड, सबडिवी.—माधेपुरा, जिला माधेपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	01-मार्च-79
2659	प्रमोद एस.	केरल / 3017 / 05	मुट्टिटयारा, थोजुक्कल, नेयअक्कारा डाक, त्रिवेंद्रम 695121, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	02-अप्रैल-80
2660	प्रणब चिन्मा, पुत्र श्री दिलीप कुमार चिनया	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3168 / 05	ग्राम साहपुर (सुकांतपल्ली), डाक व थाना तारकेश्वर, जिला हुगली 712410, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	28-जन-83
2661	प्रसाद थॉमस	केरल / 3093 / 05	प्रकाश भवन, नेम्मारा डाक, पलक्कड 678508, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	02-अप्रैल-81
2662	प्रशांत कुमार झा, पुत्र श्री हर्ष नारायण झा	बिहारएसवीसी / 23 87 / 03	ग्राम:अयाची नगर बेइंता, डाक डीएमसी लहरियासराय, थाना लहरियासराय,सबडिवी. दरभंगा सदर, जिला दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/03	08-मई-79
2663	प्रशांत बाबू अंकेरु, पुत्र श्री ए. कन्नेया	एपीएसवीसी / 430 9 / 05	येलेटीपलेम, नगरम (एम), गुंदूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	01-जून-81
2664	प्रसीद सी.पी.	केरल / 3053 / 05	चेरियथ हाउस, कापरासेरी, नेदुम्बासेरी, अर्नाकुलम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	03-नव-75

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2665	प्रशांत नायक जी., पुत्र श्री एन.जी. गरुवइयाह	कर्नाएसवीसी/378 3/	"पंचमुखी नीलया" संदेश रेस्टोरेट के निकट, चत्ताकरे डाक, चित्रदुर्गा 577522, कर्ना.	बीवीएससीएंडए एच/केवीएडएफएस यू/05	26-नव-82
2666	प्रशांत अरोड़ा, पुत्र श्री रमेश अरोड़ा	हरिएसवीसी/1894	64-सी, अरावली होस्टल, सीसीएम, एचएयू, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	17-नव-81
2667	प्रशांत कुमार सी., पुत्र श्री दयाकर रेड्डी	एपीएसवीसी/4373/05	म.न.4-1,तरनीकल,कलवाकुर्थी, महबूबनगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	25-मई-81
2668	प्रशांति गुमी रेड्डी, पुत्री श्री रमनजनेया रेड्डी	एपीएसवीसी/442 8/06	टी2-296, 8 इन्कलाइन कॉलोनी, गोदावरी खानी, करीमनगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	24-जन-82
2669	प्रमून दूबे, पुत्र स्व. श्री देवी दत्त दूबे	यूवीसी/114/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, मनीाल, जिला अलमोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी बी/02	17-मार्च-78
2670	प्रताप कुमार गोकावारुपु, पुत्र श्री रामजनेयुलु	एपीएसवीसी/4365/05	कॉलेज रोड, अमरावती, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	13-मई-80
2671	प्रतिभा कुमारी, पुत्री प्रोफे. जवाहर लाल झा	बिहारएसवीसी/26 02/05	ग्राम/मुहल्ला-जयाजपट्टी, डाक डालसिंघसारी, थाना डालसिंघ सराय, सबडिवी. डालसिंघ सराय, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	01-मार्च-77
2672	पर्वत कुमार पाधी, पुत्र श्री बेनुधर पाधी	उड़ीसाएसवीसी/2 036/05	306-बी, इम्पीरियल मेशन अपार्टमेंट, बारामुंडा, बीबीएसआर-3, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/05	28-जून-81
2673	प्रवीण भयारी, पुत्र श्री नागभूषण राव	एपीएसवीसी/431 9/05	मिल्क कॉलोनी, पेड्डापडु, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	19-अग-82
2674	प्रवीण कुमार पांडे, पुत्र श्री जगतनंद पांडे	बिहारएसवीसी/23 66/03	ग्राम एवं डाक मलूर थाना चारपोखरी, सबडिवी. पीरो, जिला भोजपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएंडएफएस यू/03	02-फर-76
2675	प्रवीण कुमार, पुत्र श्री शम्भू सिंह	बिहारएसवीसी/23 17/03	ग्राम डाक करहरी, थाना किनीजार, सबडिवी. जहानाबाद, जिला जहानाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	03-सित-76
2676	प्रवीण कुमार, पुत्र श्री डी. रूशेंद्रनाथ	एपीएसवीसी/433 0/05	म.न. 22-1132/ए, एसबीआई कॉलोनी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	04-मई-81
2677	प्रवीण रंजन, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद	बिहारएसवीसी/23 52/03	गाम गोसाईंजीह, डाक सियाटंड, थाना-सबडिवी. -जिला- गिरडीह, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	09-अप्रैल-75

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2678	प्रवीण सिंह परिहार, पुत्र श्री उदय नारायण एस. परिहार	एमपीएसवीसी/22 88/05	बी-22/10, वेद नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 05	08-सित-70
2679	प्रवीण बाबू	केरल/3004/05	पूचालिल हाउस, ओलियापुरम डाक, कूथादट्टकुलम, अर्नाकुलम 888679, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	08-मई-81
2680	प्रीति पंत, पुत्री श्री उमेश चंद्र पंत	यूवीसी/02/06	111/1683, झा कॉलोनी, पंतनगर, यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /05	12-दिस-82
2681	प्रेम नाथ सिंह, पुत्र श्री दया शंकर सिंह	बिहारएसवीसी/25 47/04	ग्राम/मुहल्ला- मलिक मुहल्ला, डाक: सिरडीह थाना: सिमरी बख्तियारपुर, सबडिवी. सिमरीबख्तियार पुर, जिला सहरसा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/04	31-अग-79
2682	प्रेम पकाश हिमांशु	बिहारएसवीसी/23 69/03	ग्राम मोजकारा, डाक वरडीह, थाना इस्लामपुर सबडिवी. हीसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/03	01-मार्च-77
2683	प्रेम रंजन, पुत्र श्री कृष्णानंदन प्रसाद	बिहारएसवीसी/23 70/03	ग्राम किशनपुर, डाक बेलौर, थाना वरनिग्धा, सबडिवी. शेखपुरा, जिला शेखपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/03	14-दिस-79
2684	प्रेम चंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र श्री पी.डी. सिंह	बिहारएसवीसी/26 00/05	ग्राम/मुहल्ला-सुभाष नगर, डाक पूर्णिया, थाना के. हाट, सबडिवी. पूर्णिया सदर, जिला पूर्णिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	05-मई-73
2685	प्रेमलता सिंह, पुत्री श्री श्रीराम सिंह	बिहारएसवीसी/25 99/05	ग्राम/मुहल्ला-उटरी पटेल नगर, डाक केसरी नगर, थाना पाटलीपुत्र, सबडिवी. पटना सदर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	10-जुला-79
2686	प्रिंसो एनीस जॉन	केरल/3092/05	चेरुपराभिल हाउस, कल्लूरक्कड डाक, अर्नाकुलम 686868, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	03-मार्च-82
2687	प्रीति माण्ड्या, पुत्री श्री मदन मोहन मिश्रा	बिहारएसवीसी/24 41/04	ग्राम श्रीकृष्णपुरी, आई.एम.ए. पथ, डाक व थाना बेगुसराय, जिला बेगुसराय, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	01-मार्च-79
2688	प्रिया ए.आर.	केरल/3064/05	ऐश्वर्या, नायरकुजी डाक, एनआईआईटी कैम्पस, कोजीकोड, 673601, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	09-जुला-80
2689	प्रियव्रत पात्रा, पुत्र श्री हरेकृष्ण पात्रा	उड़ीसाएसवीसी/1 996/05	एटी मानसिंह बाजार, डाक मोतीगंज, जिला बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	29-जून-82
2690	प्रियका शर्मा, पुत्र श्री वी.पी. शर्मा	यूवीसी/151/06	संस्कार स्कूल के सामने, बदीपुर रोड, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /03	24-जून-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2691	पीएसएम मोहम्मद इब्राहीम, पुत्र श्री पीएसएम. मोहम्मद सुलेमान	टीएनएसवीसी/33 00/05	न. 19, बशीर अप्पा स्ट्रीट, मेलापलायम, तिरुनेलवेली जिला, 627005, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/ 05	04-जून-83
2692	पूजा बसु, पुत्री श्री टी. के. बसु	कर्नाएसवीसी/381 7/	रु 8, अनुग्रहा, फूड वर्ल्ड के निकट, 100 फुट रोड, बी.टी.ए. लेआउट, कोरामंगला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	09-फर-81
2693	पुलकेश देबबर्मा, पुत्र श्री सुकुमार देबबर्मा	त्रिपुरावीसी/ 160/05	हरिजॉय चौधरी पारा, पोमजालीशपुर, थाना जिरानिया, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/05	23-अप्रैल-82
2694	पुनीत मल्होत्रा, पुत्र श्री सरन दास	पीबीएसवीसी/260 6/05	म.न. 5973/20, गली न. 23 के सामने, नवन कोट, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	25-जन-82
2695	आर. अजागम्मा	पॉण्डीएसवीसी/25 7/05	10, न्यू स्ट्रीट, पवाजा नगर, पाँडीचेरी-5	बीवीएससीएंडए एच/पीयू/05	28-नव-82
2696	आर. निधियासेल, पुत्र श्री एन. रामासामी	टीएनएसवीसी/33 23/05	58, (57ए), न्यू हाउसिंग यूनिट, (सीएसआई के सामने), त्रिची रोड, थुरइयूर 621010, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/05	02-जुला-83
2697	आर. अलगम्मल, पत्नी (एस. रवि)	टीएनएसवीसी/12 58/05	20/1 जी, स्टर्लिंग गार्डन, बी-ब्लॉक, करुणानिधि तीसरी स्ट्रीट, कोट्टूर, चेन्नई 600085	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/93	13-जून-70
2698	आर अमरनाथ, पुत्र श्री पी. राजमोहन	टीएनएसवीसी/34 99/06	पशु पोषण प्रभाग, नेशनल इंस्टी. ऑफ एनीमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, औडुगोडी, बंगलौर	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/ 00	02-अप्रैल-76
2899	आर. अमियप्पन (एस. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/15 46/05	एस्सार इल्लम, न.80, सुब्रमण्यम स्ट्रीट, एक्स., वसंतपुरम, वेल्लोर 632003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/79	09-सित-57
2700	आर. आनंद कुमार (ए. के. रामासामी)	टीएनएसवीसी/80 2/05	4/100, सी. वादम्बाचेरी डाक, पल्लडम तालुक, कोयम्बतूर जिला, पिन 641669, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/00	06-सित-75
2701	आर. आनंदन (ए. राधाकृष्णन)	टीएनएसवीसी/30 04/05	सेपेत्तई डाक व ग्राम, जिंजी तालुक, विल्लुपुरम जिला, 604152, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/ 05	07-जून-82
2702	आर. अनंथ (पत्नी टी. आनंद सेबेस्टियन)	टीएनएसवीसी/67 /03	7, गांधी नगर, कुम्बाकोनम- 612001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/03	15-जून-78
2703	आर. अंबाजागन (के. राजेंद्रन)	टीएनएसवीसी/57 /03	81, रामचंद्रपुरम, कीला स्ट्रीट, श्रीविल्लुपुरतूर तालुक, विरुधु नगर टी-626126, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच/पीयू/02	14-जुला-80
2704	आर. एंजला सोरनामथि (पत्नी के. रुबन)	टीएनएसवीसी/96 6/05	45, थुलजापुरम कॉलोनी, फर्स्ट स्ट्रीट, थंजावूर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू/95	01-नव-72

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2705	आर. एनीनी इन्नेशियस सुरेश (आई. सी. एफ. ए.)	टीएनएसवीसी/26 82/05	करुणा भवन, इट्टानी, करीगल डाक, कन्याकुमारी जिला 629157, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	31-मई-69
2706	आर. एनीनी वरुण (आई. सी. एफ. ए.)	टीएनएसवीसी/16 3/03	कल्लायुपट्टी, थमारुपडी डाक, डिंडीगल 624005, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/ 03	17-मई-80
2707	आर. अरती (आर. राजू)	टीएनएसवीसी/36 5/04	3, जीकेएम बिल्डिंग, 70, सलेम मेन रोड, कल्लायुपट्टी पिन 606202, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/ 04	14-मार्च-81
2708	आर. अरुल (पी. रंगासामी)	टीएनएसवीसी/23 4/04	7/ई1, रामालिगम स्ट्रीट, धर्मपुरी 636701, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/04	08-जुला-79
2709	आर. अरुणादेवी (ए. रथिनम)	टीएनएसवीसी/13 10/05	वल्लुवर स्ट्रीट, नांगावेल्ली डाक, सलेम जिला, तमिलनाडु 626454	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	25-जुला-76
2710	आर. अयालुसामी (ए. रामाचेंडुरप्पन)	टीएनएसवीसी/23 73/05	86, वडम्बोकी स्ट्रीट वेल्ला कोट्टई, अरुप्पुकोट्टई डाक, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु राज्य-626101	बीवीएससी/टी एनएसयू/75	05-जून-53
2711	आर. अजागुवेल (टी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/19 71/05	पूर्वी राजापलायम डाक, वाया वीरागनूर, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला 636116, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/87	04-मार्च-65
2712	आर. बालाकृष्णन (ए. रामासामी पिल्लै)	टीएनएसवीसी/30 85/05	179, मेन रोड, अरुणाचल नगर केटीसी नगर, तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/88	15-मई-65
2713	आर. बालामुरुगन (के. सी. राजू)	टीएनएसवीसी/79 1/05	कलियमपट्टी, टी.मेट्टुपलायम डाक, वी. वलेडु वाया, इरोडे जिला, तमिलनाडु 638112	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/02	20-मई-79
2714	आर. बालामुरुगन (एस. रामनाथन)	टीएनएसवीसी/30 92/05	12, अनुरागम, विल्लम रोड, इलाजी डाक, तेनकासी तालुक, तिरुनेलवेली 627805, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/83	25-मई-60
2715	आर. बालामुरुगन, पुत्र श्री पी. रामासामी	टीएनएसवीसी/35 32/06	अंधूर-किलियूर, वारागूर डाक, कुन्नम तालुक, पेराम्बलूर 621708, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/06	23-जुला-82
2716	आर. बालासुब्रमण्यन (एस. राजमणि)	टीएनएसवीसी/16 90/05	57 सी. राजालक्ष्मी भवनम, श्रीराम नगर, प्रथम स्ट्रीट, मनथीथोप्पु रोड, कोविलपट्टी 628501	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/93	20-फर-70
2717	आर. भारती (एस. रासलिनम)	टीएनएसवीसी/26 61/05	42, ईस्ट स्ट्रीट, उप्पीडामंगलम, पुलियूर सी.एफ. वाया, करूर जिला, 639114, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/75	10-जून-52
2718	आर. भारती (क. रामइथाई)	टीएनएसवीसी/30 84/05	9, एनजीओ 'बी' कॉलोनी, मिननगर, मेलाग्राम 627828, तेनकासी तालुक, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएसयू/84	02-मई-58
2719	आर. भुमनेश्वरी (टी. वेकटेशम)	टीएनएसवीसी/55 7/05	595-ए, सलेम मेन रोड, वंगापलायम, करूर 639006, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एच/पीयू/00	14-जून-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2720	आर. बीनू (पी. इलांगो)	टीएनएसवीसी/55 8/05	11/9, चौथी मेन स्ट्रीट, रंगा नगर, के.के. नगर डाक, त्रिची 620021, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/01	26-जन-77
2721	आर. चंद्रमोहन (राजप्पन नादर)	टीएनएसवीसी/21 56/05	सीतानिवास, थिरुवत्तूर डाक, के.के. जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	31-जुला-57
2722	आर. चंद्रन (बी. राजाराम)	टीएनएसवीसी/27 85/05	रेडियापट्टी डाक, अरुप्पु कोट्टई तालुक, विरुधुनगर जिला, पिन 626118, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	06-जून-69
2723	आर. चंद्रसेखरन (एन. रामासामी)	टीएनएसवीसी/32 86/05	1542, आनंद नगर, न.1, टोल रोड, बिकचंदर कोइल डाक, त्रिची 621216, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/78	06-जन-54
2724	आर. चंद्रू (डी. रामाकृष्णन)	टीएनएसवीसी/16 25/05	पलैट न. बी-1, श्री गणेश दर्शन अपार्ट., 4-ए, संकरन पिल्लै रोड, त्रिची-2	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/89	31-अग-67
2725	आर. चंथिरासेखरन (एस. राजू)	टीएनएसवीसी/14 94/05	23, विल्लारामपट्टी डाक, नासियंडूर वाया, इरोडे जिला, पिन 638107, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	21-मई-69
2726	आर. चेल्लपा, पुत्र श्री रामनाथन	टीएनएसवीसी/34 04/06	कलयारकुरिची, एम. पुडुपट्टी डाक, सिवाकासी वाया, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	20-जून-52
2727	आर. चित्रादेवी (बी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/80 3/05	20ए, ईस्ट स्ट्रीट, पांचमपट्टी, पोटलपट्टी डाक, मुहावूर वाया, राजापलायम तालुक, विरुधुनगर जिला, 6261	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/99	15-अप्रैल-75
2728	आर. चोकालिंगम (एस. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/25 05/05	2/83, किडाराकुलम डाक, नेट्टूर वाया, तिरुनेलवेली जिला 627854, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	14-मई-69
2729	आर. दाचिनामूर्ति (के. रामासामी)	टीएनएसवीसी/48 8/05	पाचागूडेनवलाम्, कलप्पाराई कुडी, सोलासीरामानी डाक, नमक्कल जिला 637210, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/05	03-मई-82
2730	आर. देवराजन (आर. राजाराम)	टीएनएसवीसी/21 26/05	पुराना न. 12, नया न. 27, वीरसामी स्ट्रीट, पुरासाईवलकम, चेन्नई 600007	बीवीएससी/टी एनएयू/85	30-मई-62
2731	आर. धंदापानी (टी. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/68 2/05	के. कुमारैड्डयापुरम, अरुंगलम डाक, विलाथीकुलम तालुक 628712, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/98	18-अप्रैल-75
2732	आर. दयानिधि (आर. राजामनिक्कम)	टीएनएसवीसी/12 9/03	बोयर कॉलोनी, पप्पीरेड्डीपट्टी डाक व तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन 6369, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/03	13-जुला-80
2733	आर. दुराईराजन, पुत्र श्री पी. रामचंद्रन	टीएनएसवीसी/35 27/06	पारुक्कल डाक, उदयारपलायम तालुक, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/06	13-मई-82
2734	आर. एडिथ (एम. बालगंगाधर थिलागर)	टीएनएसवीसी/32 31/05	34, चेलियम्मन कोइल स्ट्रीट, थिरुकालुकुंडरम 603109, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/00	20-जून-75
2735	आर. एथिराजन (एस. बी. रामामूर्ति)	टीएनएसवीसी/11 49/05	3.4/ए, थिरु नगर, मोहानूर रोड, नमक्कल 63.7001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू/92	15-जून-69

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2736	आर. गणेशमूर्ति (एस. रासइयाह)	टीएनएसवीसी / 15 41 / 05	नम्बीवयाल डाक, पट्टुकोटई तालुक, तंजौर जिला 614615, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 96	05-जन-69
2737	आर. गीथा (टी. राजू)	टीएनएसवीसी / 63 6 / 05	6 / 183, के.जी. बोस पोस्टल नगर, बोधुपट्टी डाक, नमक्कल जिला, पिन 637003, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 05	23-जुला-81
2738	आर. गीता लक्ष्मी (एस. मथानकुमार)	टीएनएसवीसी / 21 14 / 05	39ए, चिन्ना कडई स्ट्रीट, कासोपलायम, अर्नी 632301, टी.बी. मलई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 02	26-मई-78
2739	आर. गोपीनाथ (के. रामचंद्रनद)	टीएनएसवीसी / 13 59 / 05	ए 21 / 2, डी.आर.ओ. कॉलोनी, पुडुर, मदुरई 625007, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 82	21-फर-56
2740	आर. गोपीनाथ (एस. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी / 73 7 / 05	प्लॉट न. 90, गणेश नगर, वेगीक्कल, तिरुवन्नामलई 606604, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 01	20-जून-76
2741	आर. गोविंदराज (पी. रामासुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी / 24 47 / 05	6, सेनगुदट्टवन स्ट्रीट, सेंथिल नगर, चेन्नई 600062	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 98	22-मई-75
2742	आर. गोविंद राजू (एम. रामासामी)	टीएनएसवीसी / 25 76 / 05	अरुल इल्लम, 244-ए, कामराज नगर, चेन्नियामलई 638051, इरोडे जिला, त.ना.	बीवीएससी / टी एनएयू / 79	12-मई-55
2743	आर. गुनालक्ष्मी (बी. राथिनावेल)	टीएनएसवीसी / 15 4 / 03	1 / 116सी, न्यू स्ट्रीट, टी. वेल्लोर रोड, धानीडाडी, तिरुवन्म अलाई, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 03	08-अग-79
2744	आर. गुणशीलन, पुत्र श्री एम.ए. रामासामी	टीएनएसवीसी / 34 79 / 06	53, नेहरुजी रोड, अलिनाग्राम, थेनी, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 94	19-अक्तू-70
2745	आर. गुनासेखरन (एस. राजू)	टीएनएसवीसी / 14 34 / 05	डब्ल्यू-12, 49ए, बोम्माचियम्मन कोइल स्ट्रीट, गुडालूर 625518, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 65	01-अप्रैल-59
2746	आर. गुरुमूर्ति (बी.के. बालासुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी / 29 01 / 05	292, मेन रोड, विलांथीदासम वरम, सिरकाली, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 84	06-अप्रैल-61
2747	आर. हरिद्रन ए. रंगाराजन)	टीएनएसवीसी / 14 75 / 05	पुराना न. 68, नया न. 42, पांचाली अम्मन कोइल स्ट्रीट, अरुम्बक्कम, चेन्नई 600106	बीवीएससी / टी एनएयू / 79	22-जून-53
2746	आर. जैस्मीन (एस. शीजू सेल्वा रोजी)	टीएनएसवीसी / 19 63 / 05	89, क्रिस्टोफर नगर, पेरुचिलई डाक, वाया वेट्टूरनीमदाम, नगरकोइल, कन्याकुमारी जिला 629003	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	17-दिसं-75
2749	आर. जयाकृष्णन (टी. राजइयाह नादर)	टीएनएसवीसी / 24 3 / 04	16 / 30, टी.आर.जे.के. भवन, ओटायलविल्लै, कन्याकुमारी डाक व जिला, पिन 629702, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 04	11-जून-77
2750	आर. जयगांधी (एन. सुकुमार)	टीएनएसवीसी / 29 39 / 05	676, समथुवापुरम (वाया), अम्भियाग्राम, चिन्ना सलेम, कल्लाकुरिची, विल्लुपुरम जिला	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	13-मई-76
2751	आर. जयकुमार (आर. के. रामासामी)	टीएनएसवीसी / 30 71 / 05	91 / 16बी / 4, डॉ. देवादौस रोड, पेरावुरानी 614804, थंजावूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएयू / 76	13-जन-53

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2752	आर. जयकुमार (एस. राजून्डक्कर)	टीएनएसवीसी/19 98/05	283, पेरियाकुलम रोड, थेनी 625531, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	02-मई-71
2753	आर. जयरतचगन (एस. रामचंद्र रेड्डी)	टीएनएसवीसी/19 95/05	127, वेस्ट अदायावलानीजम स्ट्रीट, श्रीरंगम डाक, तिरुची जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 67	06-जन-42
2754	आर. जीवानंदन (आर. रंगासामी)	टीएनएसवीसी/27 1/04	5/205, एनजीजीओ कॉलोनी, नार मिल के निकट, सलेमरोड, नमक्कल जिला 637001, त.ना.	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	02-मई-72
2755	आर. जयगनेशन, पुत्र श्री एल. राजा	टीएनएसवीसी/34 46/06	रामनाथपुरम डाक, आथू वाली वाया, तिरुनेलवेली जिला 627760, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	04-मई-66
2756	आर. जयापॉल (ई. रामासामी)	टीएनएसवीसी/16 63/05	61/6, एम. पलानीचामी स्ट्रीट, थिरुथंगल, विरुधुनगर जिला, 626130, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	11-जुला-83
2757	आर. जय प्रकाश (डी. राजागोपाल)	टीएनएसवीसी/11 26/05	97-सी, यथावा स्ट्रीट, वेलीपटनम, रामनाथपुरम 623504, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	21-मई-74
2758	आर. जॉन क्रिस्टी (एस. रॉबर्ट)	टीएनएसवीसी/13 85/05	9सी, उदयमबट्टू रोड, थियागदुर्गम, विल्लुपुरम जिला, पिन 606208, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /98	01-मई-74
2759	आर. जोथी (के.एस. जगनमोहन शंकर)	टीएनएसवीसी/19 76/05	1/289, नॉर्थ स्ट्रीट, देवीपटनम डाक, रामनाथपुरम जिला, पिन 623514, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	11-जून-77
2760	आर. जोथीप्रिया, पुत्री श्री एम. राजू	अंड.एवं निको. वीसी/94/06	पुत्री श्री एम. राजू, सरकारी टेकेदार, कामोरता, नानकौडी, अंडमान एवं निकोबार	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /2005	08-जन-83
2761	आर. कलईमथी (एस. सुकुमार)	टीएनएसवीसी/18 86/05	क्यू-35, अगाथियार नगर, विल्लीबक्कम, चेन्नई 600049	बीवीएससी/टी एनएयू/74	26-जुला-52
2762	आर. कलियप्पन (वी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/22 23/05	3/88, नल्ली चेट्टीपलायम डाक, अन्नूर वाया, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	02-मई-73
2763	आर. कमल राज (आर. रंगाबशियम)	टीएनएसवीसी/97 1/05	97/ए, चौथा क्रॉस, टीपीएस नगर, एम.सी. रोड, तंजौर 613007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	04-दिसं-57
2764	आर. कमलकन्नन (वी. राजावेलु)	टीएनएसवीसी/20 39/05	न. 4, एस.एस.आर. नगर, थिरुपापुलियूर, कुडालूर 607002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	24-सित-73
2765	आर. कंचना (आर. राजू)	टीएनएसवीसी/41 9/04	ईस्ट स्ट्रीट, कराईकुरिची पुडुर डाक, नमक्कल जिला 637014, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	10-अप्रैल-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2766	आर. कंडासामी (के. राजगोपाल)	टीएनएसवीसी/29 26/05	मदुरापुरी, सुंदरापंडियान डाक, श्रीविलीपुथूर तालुक, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	12-मार्च-71
2767	आर. कंडासेनन (के. राजासेकरन)	टीएनएसवीसी/79 0/05	15-ए, पिचईकुट्टी नादर स्ट्रीट, अरुप्पुकोट्टई, विरुधुनगर 626101, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	10-जुला-72
2768	आर. कन्नन (के.वी. रामासामी गुंडेर)	टीएनएसवीसी/25 11/05	3/115, मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, पलायापलायम डाक, नमक्कल तालुक, नमक्कल जिला, पिन 637405	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	11-फर-66
2769	आर. कन्नन (टी. रामचंद्रन)	टीएनएसवीसी/97 3/05	बुधालूर सलई, थिरुकट्टुपल्ली सलई, थिरुकट्टुपल्ली 613104, थंजावूर जिला	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	28-मई-68
2770	आर. करपागावल्ली (पत्नी जी. गुरुप्रभाकर)	टीएनएसवीसी/10 85/05	5-14-11-जे, कमरुगन कोइल स्ट्रीट, पेरईयूर 625703, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	07-जून-73
2771	आर. कार्तिकेयन (पी. रामाचंद्रन)	टीएनएसवीसी/57 6/05	कनक्कम पलायम डाक, कल्ली पट्टी वाया, गोबी तालुक, इरोडे जिला, पिन 638505, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	25-नव-79
2772	आर. करुणानिधि (बी. रामू)	टीएनएसवीसी/61 3/05	इट्टियम पट्टी डाक, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन 636903, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	29-जुला-82
2773	आर. कविथा (के. रंगासामी)	टीएनएसवीसी/39 0/04	33ए, 11 इंदिरा नगर, मोहानूर रोड, नमक्कल, नमक्कल जिला 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	24-जून-80
2774	आर. कविथा (एम. राधाकृष्णन)	टीएनएसवीसी/40 4/04	न. 72, न्यू स्ट्रीट, तीसरी लेन, अयानावरम, चेन्नई 600023, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	29-जून-79
2775	आर. केशवन (रामासामी)	टीएनएसवीसी/89 4/05	9डी, मासीमलई लेन, पुरानी धर्मापुरम रोड, पलानी, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	15-नव-67
2776	आर. किशोर कुमार (एस. राजेंद्रन)	टीएनएसवीसी/59 9/05	कासनकुडी, मलियाक्कडु डाक, पट्टुकोट्टई तालुक, तंजौर जिला 614602, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	09-मई-81
2777	आर. कृपा (जे. गणपति सुब्रामनि)	टीएनएसवीसी/56 /03	सी-2 ए, प्रसन नगर, 36, वीजीपी रोड, सइदापेट, चेन्नई 60001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/99	30-मई-74
2778	आर. कृष्णा कुमार (एम. रंगनाथन)	टीएनएसवीसी/10 5/03	39ए, चिन्ना कडई स्ट्रीट, कोसापलायम, अरनी 632301, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	05-दिसं-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2779	आर. कुलनथेइवेल (एम. राजू)	टीएनएसवीसी/25 06/05	मर्कु थोट्टम, चीना कराट्टूर, ब्रह्मदेसम डाक, अंथयूर 638 501, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	22-मई-75
2780	आर. कुमारन (पी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/10 23/05	बी 81, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, इडापडुडी डाक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	13-मई-73
2781	आर. कुमारन (रामइयाह)	टीएनएसवीसी/19 89/05	सी-2, क्वार्टर्स, ह्यूमन बायो लॉजिकल इंस्टीट्यूट, पुडुमुड, कुजीपनई, ऊटी-7, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	13-मई-67
2782	आर. कुमारसामी (एस. रामासामी)	टीएनएसवीसी/51 5/05	सेम्नथोट्टम, पेरुथालइयूर डाक, गोबी तालुक, इरोडे जिला 638315, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	02-जुला-81
2783	आर. कुमारसन (के. रमन)	टीएनएसवीसी/75 2/05	अन्ना स्ट्रीट, अधियामन कोइल कोट्टई डाक, धर्मपुरी, जिला, 636807, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	24-जून-78
2784	आर. ललिथा देवसेना, पत्नी (टी. श्रवनकुमार)	टीएनएसवीसी/14 24/05	ए-बी, ब्लॉक ए, संस्कृति अपार्टमेंट 27, संधानलक्ष्मी स्ट्रीट, राजेश्वरी नगर, सेलइयूर, ताम्बरम, चेन्नई 600073	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	22-जन-77
2785	आर. लथा (पत्नी वी. करुणाकरन)	टीएनएसवीसी/27 63/05	पी.न.19/डोर न. 47, कामराज नगर, अशोक नगर एक्सटेंशन, कांचीपुरम पिन 631502	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	23-मार्च-65
2786	आर. लीलावथी (जे. पॉल गुनासेखरन)	टीएनएसवीसी/24 00/05	न. 63, पुराना न. 34, टीचर्स कॉलोनी, अडयार, चेन्नई 600020, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 63	18-सित-42
2787	आर. लिली इंदिरा (ए. राजामनिक्कम)	टीएनएसवीसी/30 52/05	न. 10/156, जे.जे. नगर, मोगापेर ईस्ट, चेन्नई 600037	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	19-मई-83
2788	आर. मगेश (ए. वी. रमन)	टीएनएसवीसी/17 21/05	एस-3, सप्तगिरि होम्स, पुलीमडपम रोड, श्रीरंगम, त्रिची 620006, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	20-जून-66
2789	आर. महा प्रभु (ई. रामालिगम)	टीएनएसवीसी/53 6/05	23/ए, कीला कृष्णन कोविल स्ट्रीट, कजापेट, त्रिची 620001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	25-मई-80
2790	आर. महादेवी (के. राजासेखरन)	टीएनएसवीसी/79 2/05	15ए, पिचईकुट्टी नादर स्ट्रीट, अरुप्पुकोट्टई, विरुधु नगर जिला 626101, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /99	30-जून-74
2791	आर. महालिंगम (ओ. राजूरेडुडी)	टीएनएसवीसी/32 19/05	मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, कोलाथूर, सलेम जिला 636303, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	20-मई-60

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2792	आर. मनि (के. राजू)	टीएनएसवीसी/25 97/05	न. 34, ईगल गार्डन, कैकट्टीवलासु के निकट, इरोडे जिला 639009, त.ना.	बीवीएससी/टी एनएयू/76	12-जन-57
2793	आर. मनि (एम. रामासामी)	टीएनएसवीसी/10 15/05	163/13, अट्टूर मेन रोड, गंगावल्ली डाक व तालुक, सलेम जिला 636105, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	20-मई-70
2794	आर. मनि (वी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/23 12/05	604/5ए, थिलई नगर, पचाल ग्राम, तिरुपथूर तालुक, वेल्तोर जिला, 635601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	15-मई-67
2795	आर. मनि (के. रमिनासामी)	टीएनएसवीसी/28 16/05	105, ईवीएस नगर, तिरुवरूर, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 73	12-दिसं-45
2796	आर. मनिवेल (पी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/11 99/05	42, कॉलेज रोड, साउथ नल्लीयमपलायम, परमाथी वेलूर डाक व तालुक, नमक्कल जिला, पिन 638182	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	10-मार्च-77
2797	आर. मनोहरन (एल. रामासामी)	टीएनएसवीसी/28 07/05	न. 55, यादव स्ट्रीट, कुम्बाकोनम 612001, तंजौर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू /85	22-अप्रैल-62
2798	आर. मरियप्पन (सी. रंगानाथन)	टीएनएसवीसी/31 80/05	22-सी/5-ई.मेन रोड, कुलावा नीगर पुरम, पलायमकोटई, तिरुनेलवेली 627002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	12-मई-71
2799	आर. मोहन (डी. रामागोपाल)	टीएनएसवीसी/20 48/05	न. 10, अइबिया नगर, III क्रॉस, कूथापक्कम, कुडालूर 607002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	22-दिसं-64
2800	आर. मोहनरंगन, पुत्र श्री के. रामासामी कुमार	टीएनएसवीसी/34 69/06	डी.न. 8, छद्दा क्रॉस, परम सिवा पुरम, लालगुडी, त्रिची जिला, 621601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	23-अक्टू-57
2801	आर. मुरुगन (एस. रंगासामी)	टीएनएसवीसी/14 59/05	डब्ल्यू-10, कक्किलचिकमपट्टी स्ट्रीट, गुडालूर 625518, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	03-जून-68
2802	आर. मुरुगनथम, पुत्र श्री डी. रत्तिनम	टीएनएसवीसी/33 24/06	एम.जी.आर. नगर, सेंदुरई तालुक, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	20-मई-82
2803	आर. मुरुगासन (एम. रंगासामी)	टीएनएसवीसी/72 0/05	मुनियप्पार कोविल प्प क्रॉस, मेला अग्राहरम, अरियालूर 621704, पेराम्बलूर जिला	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /98	01-मई-71
2804	आर. मुरुगसन (पी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/58 4/05	कदमबूर डाक, अम्बापूर वाया, उदयारपलायम तालुक, पेराम्बलूर जिला, 621701, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	01-अप्रैल-81
2805	आर. मुथुरामलिंगम, पुत्र श्री एम. रामासामी	टीएनएसवीसी/35 31/06	सिल्लुकप्पट्टी, एम. रेडियापट्टी डाक, अरुप्पुकोटई तालुक, विरुधुनगर 626118, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /08	24-दिसं-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2806	आर. मुथुकामनन (एस. रामासामी)	टीएनएसवीसी/30 9/05	56/1, राजमनि हाउस, स्वामी नाथ अजारी स्ट्रीट, सेक्कलई रोड, करईकुडी, सिवांगई जिला, 630002	बीवीएसर्स/टी एनवीएंडएसयू /81	16-अप्रैल-64
2807	आर. मुथुमनि (टी.के. राजागोपाल)	टीएनएसवीसी/19 44/05	48, मनिक्कावसागर स्ट्रीट, अम्मापेट, सलेम 636003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/85	05-मार्च-58
2808	आर. मुथुसामी (के. रामासामी)	टीएनएसवीसी/27 15/05	370-सी, करूर मेन रोड, मुलानूर डाक, धारापुरम तालुक, इरोडे जिला पिन 638106, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /95	01-जुला-72
2809	आर. मुथुसेल्वी (के. राजासेखरन)	टीएनएसवीसी/78 8/05	15ए, पिचईकुट्टी नादर स्ट्रीट, अरुप्पुकोटई, विरुधुनगर जिला, 626101, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /95	25-जुला-70
2810	आर. नल्लाथम्बी (के. रामासामी गुंडेर)	टीएनएसवीसी/14 11/05	न.3, कस्तूरीबाई स्ट्रीट, कल्लाकुरिची डाक व तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	09-मई-59
2811	आर. नटराजन (एस. राजावेलु)	टीएनएसवीसी/20 51/05	68/165, बाजार स्ट्रीट, वृद्धाचलम, 606001, कुडालूर जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	04-अग-53
2812	आर. नक्कीथ कृष्णन, पुत्र श्री ए. रामासामी	टीएनएसवीसी/35 22/06	111/33/ई1, राजेश भवन, नटराज नगर, स्टेटबैंक कॉलोनी, ट्यूटिकोरिन 628002, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 66	15-जून-41
2813	आर. पचई (राजा)	टीएनएसवीसी/19 46/05	बल्लूर, अन्ना कॉलोनी (वाया), पप्पारापट्टी डाक, धर्मपुरी जिला, 636809, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /00	10-जून-76
2814	आर० पलानीसामी (सी. रामना गुंडेर)	टीएनएसवीसी/25 32/05	नल्ला गंडेन पलायम, एम. अनुमान पल्ली डाक, इरोडे जिला 638101, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	10-फर-63
2815	आर. पलानीवेलु (एस. रथिनावेलु)	टीएनएसवीसी/10 65/05	56/7ए, बालाजी कॉम्प्लेक्स, डोआक नगर एक्सटेंशन, मदुरई-16, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /90	14-जून-65
2816	आर. पंडियान (एल. रामासामी)	टीएनएसवीसी/11 54/05	41, भारती नगर, एस.एस. सलई, रासीपुरम 637408, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	12-जून-56
2817	आर. प्रतिभन (पी. राजन)	टीएनएसवीसी/38 1/04	153/251-सी, थिरुनावुक्करासु नगर, 186, गांधीपुरम, इदिरा नगर, साउथ वैदयार पलायम, अट्टूर डाक व जिला, सलेम जिला 636102	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /04	30-जुला-80
2818	आर. प्रतिभन, (बी. राजासेखरन)	टीएनएसवीसी/49 /03	230 ई/4, गांधीपुरम, अट्टूर, सलेम जिला, पिन 636102, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /03	15-जून-78
2819	आर. पवई, पुत्र श्री ए. रामासामी	टीएनएसवीसी/33 42/06	थिरुनल्लूर नॉर्थ, अरानथंगी तालुक, पिनकोड 614624, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू	10-मार्च-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
				/05	
2820	आर. पेरुमल स्वामी (रंगासाथी)	टीएनएसवीसी/25 58/05	26 बी, शक्ति इल्लम, मिन नगर, अमाला मैट्रिक स्कूल के निकट, गोबीचेट्टीपलायम, 638452, इरोडे जिला	बीवीएससी/टी एनएयू/88	20-मई-64
2821	आर. पोन्मबालम, पुत्र श्री पी. राजामनि	टीएनएसवीसी/34 24/06	2/81, दौलत नगर (एक्स.), संमांदम, कुडालूर-1, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	24-दिस-65
2822	आर. पोन्सिंह (पी. रामासिंहम)	टीएनएसवीसी/22 /02	2/27, थेराडी स्ट्रीट, विरालीमर्ल, पुडुकोट्टई जिला, 621316, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच/पीयू/02	10-दिस-79
2823	आर. पूंगुजाली (पत्नी टी. राजासेखरन)	टीएनएसवीसी/16 74/05	14, 'ए' ब्लॉक, स्नेहम अपार्टमेंट, 3, पार्क रोड, अन्ना नगर वेस्ट एक्स., चेन्नई 600050	बीवीएससी/टी एनवीएडएएसयू /91	21-अप्रैल-68
2824	आर. प्रभाकर, पुत्र श्री बी. रामाचंद्रन	टीएनएसवीसी/34 83/06	12, कुल्लामा नायडू स्ट्रीट, अलिग्राम, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएडएएसयू /93	16-अप्रैल-70
2825	आर. प्रभुरम शंकर (आई. रामाचंद्रन)	टीएनएसवीसी/10 95/05	39/7-एच, वाल्मिगी स्ट्रीट, एस.एस. कॉलोनी, मदरई- 625016, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएडएएसयू /02	05-मई-74
2826	आर. प्रकाशम (पी. रंगासाथी)	टीएनएसवीसी/25 68/05	176, नाथाकडडयूर, नाथाकडडयूर डाक, 838108, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/89	10-अप्रैल-86
2827	आर. प्रकाश करुपकारन (ए.एम. राजा)	टीएनएसवीसी/31 92/05	4/374, श्री विनायग कॉलोनी, थुरईयूर मेन रोड, कोसायम पट्टी डाक, नमक्कल जिला- 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएडएएसयू /93	31-जुला-70
2828	आर. प्रियादशिनी (ए. राजू)	टीएनएसवीसी/50 6/05	एलडीसी, बी 15, II एवेन्यू, भवानीसागर, इरोडे जिला 638451, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएडएएसयू /05	28-नव-81
2829	आर. रधा कृष्णन (आर. रामचंद्रन)	टीएनएसवीसी/11 33/05	7ए, वक्किल सौंदइयाह स्ट्रीट, अरुप्पुकोट्टई 626101, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	04-दिस-64
2830	आर. रधाकृष्णन (ए. रामासाथी)	टीएनएसवीसी/30 95/05	16, जवाहर स्ट्रीट, मुधुकृष्णापुरम, कडायानल्लूर, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	30-अप्रैल-85
2831	आर. रधाकृष्णन (राजू)	टीएनएसवीसी/19 68/05	7/129, ट्रेवलर्स बंगलो के सामने, अटिटयमनकोट्टई, ए. जेट्टीहल्ली डाक, धर्मपुरी जिला	बीवीएससी/टी एनएयू/88	23-मई-63
2832	आर. रामचंद्रन (डी. टी. रामनायडू)	टीएनएसवीसी/19 33/05	16/175, धॉमसनपेट स्ट्रीट, कावेरीपटनम डाक, कृष्णागिरि जिला, 635112, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	15-मई-52
2833	आर. रघुनंदन (बी. रामचंद्र राव)	टीएनएसवीसी/18 33/05	फ्लैट नं. 6, दूसरी मंजिल, 'ए' ब्लॉक, पारसन गार्डन, मेल्लूर रोड, श्रीरंगम, त्रिची 620006	बीवीएससी/टी एनएयू/80	01-दिस-54

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2834	आर. राधाकृष्णन (जी. राजागोपाल)	टीएनएसवीसी/12 32/05	कजुगचालापुलम, कुरुमलाई डाक, कोविलपट्टी तालुक, धुथुकुडी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	13-जून-60
2835	आर. राजा (ए. राजामनिकम)	टीएनएसवीसी/74 5/05	9वां क्रॉस, इंदिरा नगर, मन्नचनाल्लूर 621005, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	26-फर-77
2836	आर. राजा गोपाल (के. रामामीरथम)	टीएनएसवीसी/25 14/05	ममहर्षि ऐरवर्या, गुरुडेवर, थाबोवनम, पुंजई पुलियमपट्टी, इरोडे जिला 838459	बीवीएससी/टी एनएयू/75	05-जन-53
2837	आर. राजासेखरन (एन. रंगाराजुलु)	टीएनएसवीसी/26 73/05	न.333, III क्रॉस, शानमुगानगर, वयलूर रोड, यू. टी. मलाई, त्रिची 600102, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/81	02-अग-58
2838	आर. राजशेखरन (टी. राजामनिकम)	टीएनएसवीसी/39 7/04	बेक्कण्डु, आर. पुडुपलायम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला पिन 37408, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	19-जुला-81
2839	आर. राजाशेखरन (टी. एन. रंगाराजू)	टीएनएसवीसी/16 30/05	242/115, नॉर्थ स्ट्रीट, धुरईयूर डाक, त्रिची जिला, 621010, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/84	05-जून-61
2840	आर. राजाधिलगन (के. रामइयाह)	टीएनएसवीसी/19 62/05	धुम्बईपट्टी, मेलूर तालुक, मदुरई जिला 625105, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	05-मई-82
2841	आर. राजेंद्रन (जी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/12 84/05	आरवी कॉटेज, 998/8, चौथी स्ट्रीट, राजीव नगर, कोविलपट्टी, द्यूटीकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	25-मार्च-60
2842	आर. राजेंद्रन (बी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/12 07/05	4/716, नागराजापुरम, वसंतपुरम डाक, नमक्कल-2, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/68	19-जन-65
2843	आर. राजेश कुमार (डॉ. बी.एन. राजन)	टीएनएसवीसी/33 9/04	2-6/4, सरस्वती निवास, वैगई स्ट्रीट, कूडल नगर, मदुरई-18, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	07-नव-79
2844	आर. राजेश कुमार (बी. राजाराम)	टीएनएसवीसी/18 4/03	34-एल 3, वेल्लोर मेन रोड, आर्कोट, 632503, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	20-जून-80
2845	आर. राजेश्वरी (एल. रमन)	टीएनएसवीसी/20 1/03	धूधनडेपेट डाक, चेंगम तालुक, तिरुवन्नमलाई जिला 606701, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	25-जून-76
2846	आर. राजकुमार (जी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/13 34/05	नॉर्थ स्ट्रीट, लाधुवाडी डाक, गंगावल्ली तालुक, सलेम 636116, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	31-मई-78
2847	आर. रामाराजू (पी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/13 83/05	बी/5, श्री देवी अपार्टमेंट, 102, जी.एस.टी. रोड, क्रोमपेट, चेन्नई 600044, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	01-दिस-52

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2848	आर. रामासुब्बैया (रंगासामी)	टीएनएसवीसी/64 6/05	26, थिलाकर नगर, स्ट्रीट, कलाडीपेट, थिरुवोत्रीयूर, चेन्नई 600019	बीवीएससी/टी, एनवीएंडएसयू /93	12-मई-68
2849	आर. रामासामी (एम. राजावेलु)	टीएनएसवीसी/31 78/05	55/2, मलईकट्टी स्ट्रीट, चिदाम्बरम 608001, कुडालूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी, एनएयू/80	24-सित-56
2850	आर. रमेश (ए. रामासामी)	टीएनएसवीसी/69 7/05	22/15, के.के.वी. मुदाली स्ट्रीट, कुमारसामी पेट, धर्मपुरी 636703, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /98	01-जून-75
2851	आर. रमेश (के. राधाकृष्णन)	टीएनएसवीसी/22 34/05	न. 7, न्यू न. 13, अजीज़ मुल्क, III स्ट्रीट, थाउजैड लाइट्स, चेन्नई -6	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /92	19-नव-68
2852	आर. रमेश (के. रथिनम)	टीएनएसवीसी/19 15/05	सेम्बवरायन कोइल स्ट्रीट, पप्पी रेड्डीयापट्टी डाक व तालुक, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /94	15-जुला-71
2853	आर. रमेश, पुत्र श्री पी. रामासामी	टीएनएसवीसी/34 37/06	11, टी.बी. रोड, धेनपथी डाक, सिरकाली तालुक, नागाई जिला, पिन 609111, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /97	02-जून-72
2854	आर. रामया (एम. राजेंद्रन)	टीएनएसवीसी/19 0/03	13, मरप्पन थोट्टम, रत्नम रोड, रासीपुरम डाक, नमक्कल जिला 637408, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /03	03-जुला-80
2855	आर. रंगानाथन (एस. रंगास्वामी)	टीएनएसवीसी/25 55/05	27, वीरापत्रा स्ट्रीट, साथी रोड, इरोडे 638003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/82	21-जून-58
2856	आर. रंगास्वामी (ए. रमन)	टीएनएसवीसी/28 37/05	187, वनचिनाथन स्ट्रीट, पी. पुलियमपट्टी, इरोडे जिला 638469, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	04-अप्रैल-60
2857	आर. रंगेगौडु (आर. रंगेगौडु)	टीएनएसवीसी/19 78/05	न. 118, पुराने मंदिर की जमीन, हुडको, होसूर, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 73	01-जुला-48
2858	आर. रवीन्द्रन (एम. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/32 76/05	थिरुपतिसारम ईस्ट, वाया थाज़ाकुडी, थिरुपतिसारम डाक 629901, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/78	05-जून-50
2859	आर. रवि, पुत्र श्री के. रंगनाथन	टीएनएसवीसी/34 25/06	16/14-ए, पिलयार कोविल स्ट्रीट, पडियान नगर, गुडियाथम, वेल्तोर जिला 632602, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	19-फर-58
2860	आर. रविकुमार (आर. रंगासामी)	टीएनएसवीसी/87 1/05	255 डीए 56/9, उत्तरी माधवी रोड, एन.एस.के. महल के निकट, पेराम्बलूर 621212, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /98	31-जुला-75
2861	आर. रंगनाथिन (एम. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/12 26/05	1/81, मेला अरुणाचलम्पुरम डाक, पुडुर वाया, विलाधिकुलम तालुक, द्यूटिकोरिन जिला 626905	बीवीएससी/टी एनवीएंडएसयू /95	02-जून-72

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2862	आर. रंगासामी (सी. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/99/03	साउथ स्ट्रीट, सिरुकदम्बूर, वंजिनी डाक, सेंदुराई तालुक, वयापेराम्बलूर जिला, 62, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/03	25-अप्रैल-80
2863	आर. रिचर्ड राज (एम. राजारत्ना रेड्डी)	टीएनएसवीसी/21/34/05	3-100 बी2/3, अरुल रोड, स्कॉट नगर, नगरकोइल-3, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएसयू/69	22-मई-66
2864	आर. ऋषि केशवन (पी. रामाचंद्रन)	टीएनएसवीसी/16/6/03	23सी, वेस्ट स्ट्रीट, न. 7, जॉनसन नगर, सलेम 636007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/03	29-मई-80
2865	आर. संगुथला (एस. राजगम)	टीएनएसवीसी/30/59/05	वेटरिनरी डिस्पेंसरी के सामने, मीनसुरुट्टी (डाक), 612903, उदयारपलायम (तालुक), तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	09-जून-83
2866	आर. सक्तिवादियू पुत्र श्री एस. रत्नासामी	टीएनएसवीसी/32/98/05	25, थिरु नगर, मल्लसमुद्रम, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	01-जुला-82
2867	आर. समुंदीश्वरी (वी. राजेंद्रन)	टीएनएसवीसी/53/0/05	14 डी/2, रामासामी स्ट्रीट-2, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	30-जुला-61
2868	आर. संकर (एस. रंगासामी)	टीएनएसवीसी/13/74/05	एम-1, मे पलावर गार्डस, श्री निवास एवेन्यू रोड, राजा अन्ना मलई पुरम, चेन्नई 600028	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/93	02-जुला-70
2869	आर. शांति (आर. शेखर)	टीएनएसवीसी/10/31/05	1-17-10 एस 2, थिरुनगर कॉलोनी, संकरी, सलेम जिला	बीवीएससी/टीएनएसयू/88	29-जून-66
2870	आर. श्रवन बावन (रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/28/06/05	1-38/24, वेधानी नगर, पशुपति कोइल डाक, थंजावूर जिला, तमिलनाडु 614206	बीवीएससी/टीएनएसयू/65	12-जुला-61
2871	आर. श्रवनन (ए. रामाचंद्रन)	टीएनएसवीसी/60/9/05	कथालम पट्टू ग्राम, मेक्कालूर डाक, थिरुअन्नामलई 604601, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	16-अप्रैल-82
2872	आर. श्रवनन (वी. रामाकृष्णन)	टीएनएसवीसी/84/7/05	3/678, गवर्न. हायर सेके.स्कूल के सामने, बी. थिरुजी पट्टी डाक, पापीरेडियापट्टी तालुक, धर्मपुरी जिला, 635301	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/00	10-जून-77
2873	आर. सतीश कुमार (पी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/16/58/05	15, वी.आर.पुरम, मेन रोड, एक्स. II, उप्पिलीपलायम, कोयम्बतूर जिला, पिन 641015, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/01	10-मार्च-77
2874	आर. साथिया (वी.एस. राजागोपाल)	टीएनएसवीसी/33/3/04	चेंडाथूर ग्राम, मेलपट्टी डाक, वेल््लोर जिला, 635805, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/04	11-अप्रैल-80
2875	आर. सत्या (एल. जयशंकर)	टीएनएसवीसी/71/7/05	कूडापट्टू, राजापलायम डाक, (वाया) वेंगलापुरम, तिरुपत्तूर तालुक, वेल््लोर जिला 635653	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू	21-जून-72

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
				/95	
2876	आर.सेकर (रामाकृष्णन)	टीएनएसवीसी/15 40/05	कोनामंगलम ग्राम, थालुंडली डाक, टिडीवनम तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु, पिन 604304	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	09-अप्रैल-65
2877	आर. सेकर (जी. रगासामी)	टीएनएसवीसी/25 48/05	1, इल्लापलायम रोड, पेरिया सेमूर, इरोडे 638004, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/87	03-जून-64
2878	आर. सेकर (रामनाथन)	टीएनएसवीसी/24 63/05	राजनथंगल ग्राम, सनीपूंडी डाक, अवर वाया, त्रिवननामलाई जिला, 606755, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /93	09-जुला-56
2879	आर. सेलादुरई (जी. रेथिना वेल)	टीएनएसवीसी/28 04/05	बी-3, कावेरी नगर, रेलाडी, मथिलादूथुरई 609003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/81	10-मई-58
2880	आर. सेलादुरई (एम. राजागोपाळी)	टीएनएसवीसी/28 97/05	2/309, साउथ स्ट्रीट, थिरुवेनगडु डाक, 609114, सिरकाली तालुक, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/88	19-अप्रैल-64
2881	आर. संलीश्वर मूर्ति (एम. राजू)	टीएनएसवीसी/38 6/04	ए. सेम्बोलिलमिरम पलायम, भवानी तालुक, इरोडे जिला 638501, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	13-मार्च-80
2882	आर. सेल्वकुमार (सी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/33 5/04	3/9, कौंडी चेट्टी पट्टी (कडाकला), पेरियापट्टी डाक, नमक्कल तालुक व. जिला, 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	05-जून-80
2883	आर. सेल्वकुमार, पुत्र श्री एस. राजू पंडरम	टीएनएसवीसी/34 12/06	137, वीएमआर नगर, मेयानूर, सलेम-4, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	28-जुला-69
2884	आर. सेल्वम (ए. रामासामी)	टीएनएसवीसी/21 2/03	1/12, टी. गुंडमपलायम, थिडुमल डाक, परमथी वेलूर तालुक, नमक्कल जिला, 637213, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	06-जून-80
2885	आर. सेल्वम (पी. रासू)	टीएनएसवीसी/15 34/05	कीजामलीगई डाक, पोपारपी वाया, सेंदुराई तालुक, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	11-मई-75
2886	आर. सेल्वम (एस. रामासामी)	टीएनएसवीसी/11 64/05	1/112, मिन्म पल्ली, वैयप्पामलाई डाक 637410, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	01-मई-63
2887	आर. सेल्वराज (सी. रामानुजम)	टीएनएसवीसी/29 57/05	बिग पोनेरी, मंडलावाडी डाक (वाया), जोलारपेट, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/76	06-अक्टू-51
2888	आर. सेल्वराज (के. रामासामी)	टीएनएसवीसी/18 56/05	11/20, नॉर्थ स्ट्रीट, थोलुरपट्टी डाक, थोट्टियम तालुक, त्रिची जिला, 621215, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	12-मई-77
2889	आर. सेल्वराज (वी. राजू)	टीएनएसवीसी/53 9/05	17, नेहरू स्ट्रीट, अंथियूर 638501, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू	10-जुला-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
				/05	
2890	आर. सेल्वाराजन, पुत्र श्री एस.पी. रथिनम	टीएनएसवीसी/34 05/06	6/3/31, मुथामिल स्ट्रीट, वी.वी. वुमेंस कॉलेज के सामने, विरुधुनगर, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/75	16-अप्रैल-52
2891	आर. सेल्वाराजन (ए. रामासामी)	टीएनएसवीसी/23 63/05	पप्पायापुरम डाक, टी.कालूपट्टी वाया, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/62	01-जन-55
2892	आर. सेल्वाराजू (के. रंगासामी)	टीएनएसवीसी/23 93/05	जी-3, एन.जे. शेल्डर, 16, ऑफिसर्स कॉलोनी, फुथुर, त्रिची 620017, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/76	08-जन-52
2893	आर. सेथिल कुमार (के. रामासामी)	टीएनएसवीसी/61 8/05	वडाकुमारई, धेनकुमारई डाक, अट्टूर तालुक, सलेम जिला, पिन 636121, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	25-जून-82
2894	आर. सेथिल कुमारन (के.आर. रमन)	टीएनएसवीसी/14 86/05	6/372, कोटामंगलम डाक, कीरामंगलम वाया, पुडुकोट्टई जिला, 814624, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	17-मई-77
2895	आर. सेथिल राजाप्रभु (पी. राजामनि)	टीएनएसवीसी/12 65/05	97ए/1, फॉरेस्ट रोड, 5वीं स्ट्रीट, धेनी 625531, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	13-अप्रैल-78
2896	आर. सेथिलरमनन (एस. रामामूर्ति)	टीएनएसवीसी/31 22/05	कैलापुरम ग्राम, मामपट्टी डाक, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन 636902, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	22-जुला-77
2897	आर. शानमुगा भारती (एस. राजामनिक्कम)	टीएनएसवीसी/11 24/05	313, चिन्ना पचई कडु, सीलानइकेन पट्टी, सलेम 636201, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	07-नव-54
2898	आर. शानमुगम (के. रामासामी)	टीएनएसवीसी/57 2/05	ईलावमपलायम (कोविल कडु), काचीपल्ली डाक, इडापडुडी तालुक, सलेम जिला, 637102, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	18-मई-80
2899	आर. शेख दाऊद (एम.एस. राजा)	टीएनएसवीसी/13 92/05	8-ए 1, थरमार कोविल स्ट्रीट, कीरामंगलम, पुडुकोट्टई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	11-मई-73
2900	आर. शिवकुमार (एस. रंगासामी)	टीएनएसवीसी/80 /03	14, 1044, 73 स्ट्रीट, XII सेक्टर, के.के. नगर, चेन्नई 800078, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	20-मई-78
2901	आर. सिवा, पुत्र श्री वी. राजामोपाल	टीएनएसवीसी/35 00/06	50ए, मेट्टू स्ट्रीट, सेंदामंगलम डाक, नमक्कल जिला 637409, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	03-फर-79
2902	आर. सिवाकुमार (एम. एम. रामासामी)	टीएनएसवीसी/19 28/05	1/14, पलाकरकुथी यप्पाकोनार स्ट्रीट, माचमपलायम, सुंदरापुरम डाक, कोयम्बतूर 641024	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	07-जून-72
2903	आर. शिवनंदम, पुत्र श्री एम.डी.	टीएनएसवीसी/35	प्लॉट न. 2, डोर न. 24/सी, वेम्बाची अपार्ट., सी.आर. रामाकृष्ण पुरम, वीरुगम्बक्कम- 600092,	बीवीएससी/टी	04-मई-44

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
	राजारथिनम	57/08	तमिलनाडु	एनएयू/85	
2904	आर. श्रीदेवी (आर. राजंगम)	टीएनएसवीसी/82/03	2/75ए, पेरिया कृष्ण पुरम, उदयारपलायम तालुक, वर्दराजनपेट वाया, पेराम्बलूर	बीवीएससीएंडएच/पीयू/02	02-सित-79
2905	आर. श्रीदेव (बी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/22/41/05	2/101, मस्जिद गली, सन्यासीपट्टी, संकरी वेस्ट, सलेम जिला 637303, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/01	10-दिसं-76
2906	आर. श्रीनिवासन (जी. राधाकृष्णन)	टीएनएसवीसी/23/68/05	साइट न. बी, मूवेंधर नगर, क्रिस्टल गार्डन, नूम्बल रोड, पिलियारमदन थंगल, इय्यापन थंगल डाक, चेन्नई 600056	बीवीएससी/टीएनएयू/80	07-जून-58
2907	आर. श्रीनिवासन (के. राजारमन)	टीएनएसवीसी/19/39/05	न. 51, वेस्ट मादा स्ट्रीट, थिरुवोट्टियूर, चेन्नई 600019	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/01	29-अप्रैल-78
2908	आर. सुभाशायलु (एल. रामासामी)	टीएनएसवीसी/30/54/05	प्लॉट न. 1, नया न. 26, भारती कॉलोनी, अलवर थिरुनगर, चेन्नई 600087	बीवीएससी/एमयू/65	15-जुला-40
2909	आर. सुभामनि (रंगासामी गुंडेर)	टीएनएसवीसी/24/71/05	नमासिवायपुरम, थोट्टियम डाक, कल्लाकुरिची तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/75	20-अक्टू-51
2910	आर. सुभमण्यम (एस. वी. रामाश्रीरथम पिल्लै)	टीएनएसवीसी/10/33/05	न. 5/68पी, शान्मगम स्ट्रीट, अलगापुरम कट्टूर, सलेम - 636016, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/75	02-अप्रैल-47
2911	आर. सुभमण्यन (एम. रामार)	टीएनएसवीसी/28/6/04	135, पीआरसी नगर, पीटीसी डाक, मदुरई 625022, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/04	23-जुला-80
2912	आर. सुभमण्यन (एन. राजाशोपालन)	टीएनएसवीसी/22/48/05	प्लॉट न. 37, नया न. 11, राजालक्ष्मी नगर, 7वां क्रॉस स्ट्रीट, वेलाचेरी, चेन्नई 600042	बीवीएससी/एमयू/66	16-सित-41
2913	आर. सुभमण्यन (आर. रंगास्वामी गुंडेर)	टीएनएसवीसी/25/66/05	कुप्पाडापलायम डाक, अधानी वाया, पिन 636502, भवानी तालुक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/78	19-जन-60
2914	आर. सुभा (आर. रामनाथन)	टीएनएसवीसी/52/8/05	पचानूर, पुल्लागुंडमपट्टी डाक, थिरुचेनगोडु तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	15-जून-81
2915	आर. सुभा (एन. रंगनाथन)	टीएनएसवीसी/10/2/03	न. 470, 5वीं स्ट्रीट, वेंकटेशपुरम, अरकोनम 6310, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/03	11-अग-80
2916	आर. सुजाथा (पत्नी टी. श्रवणन)	टीएनएसवीसी/31/63/05	27, पोन्नमबाला नगर, चिदाम्बरम, कुडालूर जिला, पिन 808001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/99	17-मई-74
2917	आर. सुकुमार (ए. रामचंद्रन)	टीएनएसवीसी/14/57/05	अय्यक्कानूर, गुजिलियमपरई डाक, वेडासंदूर तालुक, डिंडीगल-624703, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू	02-जून-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
				/00	
2918	आर. सुकुमार (के.एस. रामइयाह)	टीएनएसवीसी/30 98/05	चौथी स्ट्रीट, करुकुरिची, तिरु नेलवेली 627417 तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/83	04-मई-59
2919	आर. सुकुमार (एम. राजाचंद्र शेखर)	टीएनएसवीसी/10 45/05	10, विजयराघव चेरियार रोड, कोमारसामीपट्टी, सलेम 636007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	23-अक्टू-61
2920	आर. सुमन (टी. रथिनासामी)	टीएनएसवीसी/30 19/05	मेन रोड, कूथूर डाक, थिरुकट्टुपल्ली वाया, थिरुवड्यारु तालुक, थंजावूर जिला, 613104, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	08-सित-82
2921	आर. सुंदरम (एस. रंगनाथन)	टीएनएसवीसी/28 11/05	156/1, साउथ स्ट्रीट, पिलाकुरिची डाक, वरियंकवल वाया, सेंदूरई तालुक, पेराम्बलूर जिला 621806	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	05-जून-77
2922	आर. सुरेश (पी. राजा)	टीएनएसवीसी/62 6/05	न. 7, बाजार स्ट्रीट, हरूर डाक व तालुक, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	02-मई-81
2923	आर. सुरेश कुमार (सी. राजा)	टीएनएसवीसी/14 87/05	20 ए. कम्बार स्ट्रीट, चिन्ना तिरुपति डाक, सलेम 636008, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	25-दिसं-75
2924	आर. सुरेश कुमार (के. राजाराम)	टीएनएसवीसी/29 88/06	एम 7, थिरुवल्लुवर नगर, राजापलायम, थिरुधुनगर जिला, पिन 626117, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /92	26-मई-69
2925	आर. स्वामीनाथन (टी. रंगादुरई)	टीएनएसवीसी/30 94/05	21, राम विलास नगर, एन.जी.ओ. 'बी' कॉलोनी, तिरुनेलवेली 627007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /87	04-जुला-64
2926	आर. थंगादुरई, पुत्र श्री एम. राजारथिनम	टीएनएसवीसी/33 87/06	पाचाकोइल कडु, कट्टानाथन पट्टी डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	02-मई-82
2927	आर. थंगाधुरई, पुत्र श्री पी. रामासामी	टीएनएसवीसी/34 88/06	2ए, कृष्णन काविल स्ट्रीट, कडायानल्लूर, तेनकासी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, 627751, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /98	09-मई-75
2928	आर. भतथिनामूर्ति (के. रंगासामी)	टीएनएसवीसी/45 9/05	95-बी, नारंगीयापट्टु (उत्तरी), करम्बकुडी डाक, पुडुकोट्टई जिला, 622302, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	16-जून-78
2929	आर. थियागराजन (बी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/31 86/05	न. 10, फेथापेस्मल स्ट्रीट, त्रिची रोड, थंजावूर 613007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	11-मई-68
2930	आर. थिरुसई गोविंदन (एस.ए. रंगनाथन)	टीएनएसवीसी/24 64/05	16, साउथ स्ट्रीट, थिरुभाचलम, कुडल्लूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /97	19-मई-66

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2931	अर. थिरुञ्जानम (राजारथिनम)	टीएनएसवीसी/27 64/05	19, थिरुवल्लुवर स्ट्रीट, इडियम पट्टी, ओलारपेट, 635851, वेल्डोर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू /89	26-जून-74
2932	अर. थिरुमलई सेल्वी (ए. रामामूर्ति)	टीएनएसवीसी/69 1/05	न. 52 (पुराना न. 98), ईआर गोविंदराज अपार्टमेंट, गेंगु रेड्डी रोड, इगमोर, चेन्नई-8	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू /00	21-अप्रैल-75
2933	अर. थिरुमूलन (पी. रंगानाथन)	टीएनएसवीसी/26 43/05	33/19, चौथी वेस्ट क्रॉस रोड, गांधी नगर, वेल्डोर 632006, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएसयू/88	31-जुला-65
2934	अर. थिरुमुक्कन (के. राजारत्नम)	टीएनएसवीसी/73 4/05	कामनदापट्टी, पचानामपट्टी डाक, ओमालूर तालुक, सलेम जिला 636455, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू /02	21-अग-77
2935	अर. थिरुनावुक्करामु (रंगामामी)	टीएनएसवीसी/11 10/05	36/54, भरतीयार, तीसरी स्ट्रीट, एस.एस. कोलोनी, मदुरई-10, तमिलनाडु	बीबीएससी/एमयू/ 89	07-मई-45
2936	अर. थिरुपति, पुत्र श्री जी.एल. रंगन	टीएनएसवीसी/34 85/06	गिडमपट्टी डाक, पेनकरम तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन 636809, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू /05	07-जून-82
2937	अर. थिरुथलिनाथन (अर. रंगामन्नार)	टीएनएसवीसी/26 14/05	34, कबार स्ट्रीट, पूर्वी तमबारम, चेन्नई 800059	बीबीएससी/टी एनएसयू/78	10-फर-52
2938	अर. थिरुवल्लुवन (ए. रथिनम)	टीएनएसवीसी/10 67/05	35, II स्ट्रीट, पुधु नगर, तिरुमंगलम 625706, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएसयू/86	20-मई-63
2939	अर. थिरुवेंगदम (एम. राजू)	टीएनएसवीसी/21 9/03	वेपमपलायम, वेलनकोविल डाक, गोबी तालुक, इरोडे जिला पिन 638054, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू /03	20-जुला-80
2940	अर. थियागराजन (टी.आर. रघुनाथन)	टीएनएसवीसी/23 14/05	न. 5, लक्ष्मी नगर, कलेक्टरेट डाक, नागपट्टिनम 611003, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएसयू/75	06-मई-47
2941	अर. उदय चंदर (एम. रामाकृष्णन)	टीएनएसवीसी/47 2/05	2/25ए/1, बालाजी नगर, III क्रॉस, राजागोपालपुरम, कुट्टालम 609801, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू /05	11-जून-82
2942	अर. उमापथि (सी. राजागोपाल)	टीएनएसवीसी/28 34/05	18/89, थेपाकुलम स्ट्रीट, न.4, कोयम्बतूर 641001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएसयू/76	04-फर-52
2943	अर. उषा (एम. रंगाराजू)	टीएनएसवीसी/45 1/05	कलागम (ग्राम व डाक), पेरारुवानी तालुक, धंजावर जिला, 614804, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू /05	22-सित-80
2944	अर. वसंध, पुत्र श्री के. राजामनिक्कम	टीएनएसवीसी/34 77/06	48, पूर्वी थोटीपलायम, कडाचनतूर डाक, इरोडे, नमक्कल जिला, तमिलनाडु 638008	बीबीएससी/टी एनबीएंडएसयू /02	10-जन-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2945	आर. वेलायुथम (बी. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/17 27/05	717, थिरुवत्तलुवर एवेन्यू न.1, टोलगेट, बिकांदर कोइल डाक, मनाचनलूर तालुक, त्रिची जिला, पिन 621216	बीबीएससी/टी एनएयू/76	01-जून-52
2946	आर. वेलमुक्कन (पी. सी. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/68 6/05	27, आर.एम. इल्लम, वी.एन.आर. नगर, विरुधाचलम, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	27-जून-77
2947	आर. वेंकटसुब्रामनि, पुत्र श्री टी.एस. रामासामी	टीएनएसवीसी/33 26/06	97, वल्लुवर नगर, कलेक्टरेट डाक, धर्मपुरी, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	19-जुला-82
2948	आर. वेंकटरमनन (बी. रगोथमन)	टीएनएसवीसी/26 75/05	256/1, वल्लुवर नगर (मिडल), इंदु नगर डाक, ऊटी 643005, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	19-सित-73
2949	आर. वेंकटेशन, पुत्र श्री पी. रंगासामी	टीएनएसवीसी/34 33/06	एम-57, फेस, IV टीएनएसबी, साथुवधारी, वेल्लोर जिला 632009, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	05-फर-52
2950	आर. विद्या (एस. रामनाथन)	टीएनएसवीसी/17 6/03	30, कामराज नगर, कोरानाड, मयिलाडुथरई, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /03	08-जून-80
2951	आर. विद्यासागर (एम. राजइयाह)	टीएनएसवीसी/20 61/05	51, आर.सी. साउथ स्ट्रीट, सचूर 626203, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	08-जून-71
2952	आर. विजया कुमार (बी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/27 50/05	14ए, बार्ड न. 5, नदटनीकोटई नॉर्थ, पेरारुरानी 614804, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /95	25-जुला-72
2953	आर. विजयकुमार (एम. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/30 36/05	गॉड हाउस, कागम एवं डाक, सिवागिरि (वाया), इरोडे जिला पिन 638109, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	02-मार्च-82
2954	आर. विजयन (बी. राजन)	टीएनएसवीसी/26 96/05	न्यूविलयस जर्सी एंड स्टड फार्म, क्या.न. 2, आविन, फिंगर पोस्ट, उधगमंडलम 643006	बीबीएससी/टी एनएयू/82	04-मई-55
2955	आर. विजयश्री, पत्नी (एस. अंबुकटारी)	टीएनएसवीसी/12 78/05	विजया का कम्पाउंड, 61-3, ए.के.एस. थिएटर रोड, कोविलपट्टी 628502	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /82	30-जुला-69
2956	आर. विजी (ए. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/30 34/05	5, पेदटई गणपति नगर, कुम्बाकोनम, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	06-अप्रैल-81
2957	आर. विनोद (एम. राजागोपालन)	टीएनएसवीसी/34 0/04	नटेशन पिल्लै स्ट्रीट, पेराम्बलूर 621212, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	14-जून-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2958	आर. योगेश्वरी, पुत्र श्री वी. संघवन	टीएनएसवीसी/34 91/06	109, कलईवानी नगर, मोहनूर 637015, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /06	19-नव-82
2959	आर. बाबू (आर. राजइयाह)	टीएनएसवीसी/23 34/05	11/74, टी.के.सी. नगर, टी.बी.एस. नगर के निकट, महाराजा नगर (डाक), तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	25-मई-67
2960	आर. बालाचंडा युथपानी (एम. रामाचंद्रन)	टीएनएसवीसी/26 85/05	19, चौथा क्रॉस, रामालिना नगर साउथ, त्रिची 620017, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 67	03-मार्च-43
2961	आर. बालाजी (ए. रामास्वामी)	टीएनएसवीसी/18 15/05	73, करीकली अम्मान कोइल स्ट्रीट, पोलाची, पिन 642001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	14-जून-76
2962	आर. बालामुरुगन (ई. रामासामी)	टीएनएसवीसी/76 9/05	21, साउथ नल्लीयमपलायम, परमाधी वेलूर, नमक्कल जिला, पिन 638182, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	12-अप्रैल-76
2963	आर.सी. श्रीवजागन (आर. चंद्रसेखरन)	टीएनएसवीसी/21 52/05	15/3, वॉयलेट फ्लैट्स, मुगापेर वेस्ट, चेन्नई 600037	बीवीएससी/टी एनएयू/71	20-नव-54
2964	आर. चंद्रसेखरन (टी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/24 /02	एस. कुलाथूर एवं डाक, संकरापुरम तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/80	25-जन-56
2965	आर. एडिलराज (पी. सी. रामासामी)	टीएनएसवीसी/57 5/05	24, कामराजनगर, दूसरी स्ट्रीट, थिन्नाथिरुपति, सलेम 636008, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /05	06-मई-82
2966	आर. गुरुसामी (बी. रथिनासामी)	टीएनएसवीसी/18 32/05	3, श्री विनायग एवेन्यू, रहमत नगर एकसटेशन, तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/86	11-दिसं-61
2967	आर. इलमाराजा (पी. राजामनिकम)	टीएनएसवीसी/42 2/05	थेनकाची पेरुमल नाथम डाक, टी.पलूर वाया, पेरम्बलूर जिला, 612904, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	27-मई-81
2968	आर.के. कनीमोजी (आर. कनगराजन)	टीएनएसवीसी/23 77/05	एच-34/ए, मानथोप्पु कॉलोनी, अशोक नगर, चेन्नई-83, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	02-सित-72
2969	आर.के. इक्तिदेवन (पी. कदुराजा)	टीएनएसवीसी/17 10/06	138 डी.वेलइयूर डाक, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला, पिन 636118, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /01	20-मई-78
2970	आर.के. रंगनाथन (रंगासामी कौंडुसामी)	टीएनएसवीसी/26 58/06	3/30, कलियम्मन कोइल स्ट्रीट, टी. कुन्नाथूर मडुरई जिला, पिन 626708, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनएयू/76	16-अक्टू-50
2971	आर. कावीमुथु (ए. रामासामी)	टीएनएसवीसी/24 41/06	4, नारायणसामी कोविल स्ट्रीट, अलवरथिरुनगर डाक, थूथुकुडी जिला 628612, तमिलनाडु	बीवीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /88	11-मई-73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
2972	आर. कार्तिकेयन (एन. रामाराज रेड्डियार)	टीएनएसवीसी/23 27/05	1/94ए, साउथ स्ट्रीट, मुक्किलानाथम डाक, अरुप्पु कोटई पिन 626101, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/88	06-अप्रैल-85
2973	आर. कृष्णामूर्ति (के. रामासामी)	टीएनएसवीसी/27 09/05	32/1, रामालिंगा नगर, पुराना सुरमंगलम, सलेम 636005, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/73	04-सित-46
2974	आर.एम. कार्तिकेयनी (पत्नी आर. शानमुगाकानी)	टीएनएसवीसी/30 44/05	10/1, पलानी अम्मल लेआउट, उडुमलपेट, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /00	24-मई-75
2975	आर. मनिमेकलई (ए. रामासामी)	टीएनएसवीसी/26 01/05	पेरुनरुदूर डाक, अयुदइयार कोइल तालुक, पुडुकोटई जिला, पिन 614618, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /02	02-जून-78
2976	आर. मुरुगेसन (के. रमन)	टीएनएसवीसी/23 58/05	बन्नार स्ट्रीट, कृष्णमपट्टी डाक, थुरईयूर तालुक, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /88	12-अप्रैल-74
2977	आर. नवनीथकन्नन (पी. रामासामी रेड्डी)	टीएनएसवीसी/18 50/05	पूचमपट्टी, कर्थाईकट्टी डाक, टी. वाडीपट्टी तालुक, कन्याकुमारी जिला, पिन 629163 तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /94	15-फर-70
2978	आर.पी. नवनीता कन्नन (पी. रामासामी रेड्डी)	टीएनएसवीसी/21 99/05	14/82, जॉन विला, कल्लुकटी, कुजीथुरई डाक, कन्याकुमारी जिला, पिन 629163, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /91	24-मई-85
2979	आर.पी. अरविंदबाबू (के.आर. प्रतिभन)	टीएनएसवीसी/31 7/04	92 बी, रेवेन्यू नगर, आरएन पुडुर डाक, सोत्तयम पलायम, इरोडे जिला 638005, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /04	25-अग-80
2980	आर. पलानियप्पन (के. रामासामी)	टीएनएसवीसी/10 50/05	कट्टीपलायम, इलानगर डाक, धिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला 637212, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/86	10-अप्रैल-59
2981	आर. राचरला सोलोमन राजकुमार	पॉण्डीएसवीसी/27 4/05	7-329, जेल स्ट्रीट, यनम-533464, पॉंडीचेरी	बीबीएससीएंडए एच/पीयू/05	17-फर-83
2982	आर. राजकुमार (एम. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/11 44/05	कोल्लनकडु, आर. पुडुपलायम डाक, रासीपुरम तालुक, पिन 637408, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /96	15-जून-71
2983	आर.एस.डी. अब्दुल रहिमान (आर. शेख दाऊद)	टीएनएसवीसी/10 29/05	ए-4, न्यू हाउसिंग यूनिट, कलक्टर बंगला क्वार्टर्स, सलेम 636007, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनएयू/75	28-मार्च-48
2984	आर.एस.डी. बाबू (आर. शेख दाऊद निजाम)	टीएनएसवीसी/10 02/05	सी-123, पेरियार कॉलोनी, धादगापट्टी, सलेम 636006, तमिलनाडु	बीबीएससी/टी एनवीएंडएएसयू /89	20-मई-67
2985	आर. संकरसुब्रमण्यन (एस. रामइयाह)	टीएनएसवीसी/30 99/05	2, पिलईमार स्ट्रीट, वी.आर. पुरम, कलाकड 627501, तिरुनेलवेली जिला, तमण	बीबीएससी/टी एनएयू/82	03-मई-59

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	रीक्षणिक आईताएं	जन्मतिथि
2986	आर. सारदा, पुत्री श्री आर. चिन्ना कोंडहड्याड	एपीएसवीसी / 4346 / 05	नेगेपल्ली, नरपला (एम), अनंतपुरम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआएएसयू / 05	09-अक्टू-79
2987	आर. सेल्वा विनायगम (ए. रामाकृष्णम)	टीएनएसवीसी / 18 55 / 05	न. 7 / 12, ज्ञाउथ एडा स्ट्रीट, अरियालूर 621704, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू / 82	03-अप्रैल-59
2988	आर. सेल्वाराज (आई. राकप्पन)	टीएनएसवीसी / 18 39 / 05	21, चर्च कॉलोनी, तीसरी स्ट्रीट, वयालूर रोड, पुथुर, तिरुचिरापल्ली 620017, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू / 83	30-जून-59
2989	आर. थंगामुथु (एम. राजाराम)	टीएनएसवीसी / 17 96 / 05	ए 93 / 1, मरुदुपडियन नगर, सिवागंगई, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 97	02-मई-74
2990	आर. थानीकोडी (के. रमन)	टीएनएसवीसी / 17 98 / 05	(दक्षिण) कोट्टइयूर, (उत्तरी) कोट्टइयूर डाक, इलायंगुडी (बाया), सिवागंगई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनएसयू / 83	03-जून-59
2991	आर. धियोगराजन (एस. रथिनम)	टीएनएसवीसी / 18 01 / 05	23-ए, मरियमन कोइल स्ट्रीट, रामनाथपुरम-623501, रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 71	15-जन-45
2992	आर. धिरुपति वेंकट चलपति, पुत्र श्री आर. एल. पिल्लै	टीएनएसवीसी / 34 68 / 06	चोक्कालिगापुरम, वेदासंदूर डाक, डिंडीगल जिला, 624710, तमिलनाडु	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 92	15-अप्रैल-69
2993	आर. वी. कन्नन (आर. वेंकटेशन)	टीएनएसवीसी / 67 9 / 05	14-बी, स्काई हाउस, कबीलरमलई रोड, परमथी डाक, परमथी वेलूर तालुक, 637207	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 00	20-मई-77
2994	आर. वेलायुधम (के. रामासामी)	टीएनएसवीसी / 18 20 / 05	कुरावनकुट्टईककु, कराडियानूर, थेंगलपलायम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला	बीवीएससी / टी एनवीएंडएएसयू / 94	19-मार्च-71
2995	आर. विरवनाथन (रामलिंगम)	टीएनएसवीसी / 17 68 / 05	न. 1076, पार्थसारथी इल्लम, प्रथम मेन स्ट्रीट, करपागवी नाथगर नगर, करईकुडी-2	बीवीएससी / टी एनएसयू / 62	27-मार्च-59
2996	रबि नारायण साहू, पुत्र श्री लक्ष्मी धर साहू	उड़ीसाएसवीसी / 2 026 / 05	द्वारा रामचंद्र साहू, एटी / डाक - गिलाजोडी, बाया जमसुलै, जिला बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच / ओयूएएडटी / 05	02-जुला-80
2997	रबि रंजन, पुत्र श्री अजीत रंजन	बिहारएसवीसी / 24 98 / 04	ग्राम / मुहल्ला- बरियारपुर, (बस्ती) डाक बरियारपुर थाना बरियारपुर, सबडिवी. मुंगेर, जिला मुंगेर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंड एफएस / 03	11-दिसं-79
2998	रबींद्र नाथ प्रसाद, पुत्र श्री बीर बहादुर राम	बिहारएसवीसी / 22 68 / 03	ग्राम कुकुर मुकन, डाक नवा नगर, धाना नवा नगर, सबडिवी. दुमराओ, जिला बक्सर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएसयू / 01	19-जन-72
2999	रबिंशंकर, पुत्र श्री जगन्नाथ साह	बिहारएसवीसी / 24 45 / 04	ग्राम / मुहल्ला- पी.एम.सी.एच., डाक बांकीपुर, थाना पीरभोर, सबडिवी. पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएसयू / 04	16-जन-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3000	राधा लक्ष्मी कोटा, पुत्री श्री के.वी. सुब्रह्म्याह	एपीएसवीसी/434 2/05	डी.न. 25-2937, गायत्री नगर-1 लेन, ए.के. नगर डाक, नेल्लोर 524004, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	25-जुला-81
3001	राधिका ककानी, पुत्री श्री उमा महेश्वर राव	एपीएसवीसी/433 4/05	डी.न. 1-225, प्रथीपडु, गुंटूर जिला - 522019, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	30-अग-80
3002	रागा सुधा मेदीचेरला, पुत्री श्री हरि	एपीएसवीसी/433 5/05	श्री रंगा एंड कं., लक्कावरम, मलिकीपुरम (एम), पू.गो. जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	26-अग-82
3003	राधवन प्रीथा नारायणन	केरल/3101/05	भाजाथेटिल हाउस, इडापोन अरियनकुडी डाक, पंडालम वाया, अलेप्पी, केरल	बीबीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/05	08-जन-85
3004	राधवेंद्र एम.टी., पुत्र स्व. श्री थोपन्ना	कर्नाएसवीसी/378 7/	कमरा न. सी-7, बीसीएम होस्टल, दिन्नूर मेन रोड, आर.टी. नगर, बंगलौर, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	13-मई-82
3005	रघु राम अंबाडीपुडी, पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा	एपीएसवीसी/435 2/05	डी.न. 1-45, दासरी प्लॉट, काथेरु, राजामुद्री -533105, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	27-मई-81
3006	रघुवर दयाल सिंघल, पुत्र श्री नुरारी लाल सिंघल	एमपीएसवीसी/23 17/05	जवाहर मार्ग, कैलारस, मोरैना, मध्य प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/ 05	30-जून-81
3007	रघुवीर रंजन, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/28 18/05	ग्राम/मुहल्ला- पटेल नगर, डाक बारबीघा, थाना बारबीघा, सतबडिबी, शेखपुरा, जिला शेखपुरा, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/बीएयू/05	01-मार्च-70
3008	राधवेंद्र शर्मा, पुत्र श्री रामस्नेही शर्मा	एमपीएसवीसी/22 77/05	ग्राम एवं डाक-सोनी, तह. मेहगांव, मिंड, मध्य प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/आईजीकेवीवी /03-04	11-अग-80
3008	रागी रंजन एम.	केरल/3067/05	मनियमपरम्बिल हाउस, माला डाक, कावानडु, त्रिसूर, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/05	10-मई-77
3010	रहमान अमीनुर, पुत्र स्व. मौह. ओबा जुददीन एस.के.	असमएसवीसी/22 17/05	ग्राम एटी घरीतारी, डाक दीघलतारी, थाना गोलकगंज, जिला धुबरी, असम	बीबीएससीएंडए एच/एएयू/05	17-दिसं-78
3011	रहमान ओबाईदुर, पुत्र मौह. अब्दुल जब्बार	असमएसवीसी/22 11/05	डींग गांव, डाक डागांव, वाया जुरिया, जिला नागांव, असम	बीबीएससीएंडए एच/एएयू/05	01-अप्रैल-77
3012	राहुल नायर	केरल/3099/05	अददुपुराथु हाउस, पन्नीयाली ओमालूर डाक, पथनमथिट्टा, केरल	बीबीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/05	30-सित-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3013	राहुल आर्या, पुत्र श्री वैद्यनाथ प्रसाद आर्या	बिहारएसवीसी/23 46/06	ग्राम पुरानडीह, डाक उरमल, थाना चंडिल, सबडिवी. चंडिल, जिला सरायकेला खरसावा, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/बीएयू/03	21-सित-79
3014	राहुल शंकर, पुत्र श्री उना शंकर प्रसाद	बिहारएसवीसी/26 11/05	ग्राम/मुहल्ला- नौहम्मदपुर, डाक झिटकही, थाना पटाही, जिला पूर्वी चम्पारन, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	18-अक्टू-80
3015	राज गुक कांग, पुत्र श्री निरंजन सिंहकांग	पीबीएसवीसी/260 3/05	102, रणजीत विहार, सिरहिंद रोड, पटियाला, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच/पीएयू/05	31-जन-80
3016	राजा बाबू गुप्ता, पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता	यूबीसी/76/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, कर्मी, जिला बागेश्वर, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /00	08-अक्टू-75
3017	राजा किशोर कोनका, पुत्र श्री कोटेश्वर राव कोनका	एपीएसवीसी/ 4361/05	न.न. 14-890ए, के.सी. वर्क्स, कृष्णा नगर, टाडेपल्ली (एम), गुंटूर जिला 522502, आंध्रप्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /05	05-जन-81
3018	राजा मंदीप सिंह, पुत्र श्री जसविंदर सिंह	पीबीएसवीसी/261 6/05	हारा थिंड हॉस्पिटल, मेन बाजार, मलसियान, जिला जालंधर, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच/पीएयू/05	20-जन-81
3019	राजात्मनी एस.	केरल/3014/06	राजश्री, मीरा 25, पोनिनथिरा रोड, इडापल्ली, कोचीन-24, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/05	05-दिस-80
3020	राजन सी. एंटोनी (सी. ए. एंटोनी)	टीएनएसवीसी/13 09/05	न. 8, गांधी नगर, प्रथम मेन रोड, किलकट्टलई, चेन्नई 600117	बीबीएससी/टी एनएयू/83	31-दिस-59
3021	राजनी केशवन	केरल/3070/05	केशव लैंड नल्लिला डाक, कोल्लम 691515, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/05	15-जन-80
3022	राजबोंगशी (सुश्री) नीतिका, पुत्री श्री प्रवीन राजबोंगशी	असमएसवीसी/22 04/05	ग्राम एवं डाक तमूलपुर, जिला नलबाड़ी 781367, असम	बीबीएससीएंडए एच/एएयू/05	01-मार्च-81
3023	राजीव भारती, पुत्र श्री विजय कुमार सिंह	बिहारएसवीसी/25 37/05	ग्राम/मुहल्ला- बाबन बीघा, साबनहुआ, डाक हरनोट, थाना हरनोट, सबडिवी. बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/एमएएंड एफएसयू/04	01-मार्च-79
3024	राजीव कुमार, पुत्र श्री राजनंदन प्रसाद	बिहारएसवीसी/25 31/04	ग्राम/मुहल्ला-मेयर, डाक कैरीमेयर, थाना मूरसराय, सबडिवी. बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/ओयूएएंडटी/0 4	09-दिस-75
3025	राजीव कुमार, पुत्र श्री सरयुम प्रसाद	कर्नाएसवीसी/3815 /	वेट. कॉलेज, बिदर, कर्नाटक वेट. एंड एनीमल फिशरीज साइंस, बिदर 585401, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	01-मार्च-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3026	राजीव रंजन कुमार, पुत्र श्री योगानंद प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/234 9/03	ग्राम एवं डाक अयाचीनगर, थाना मधुबनी, सबडिवी. मधुबनी, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	25-मार्च-78
3027	राजीव रंजन, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद	बिहारएसवीसी/236 7/03	ग्राम साइडीह, डाक प्यारेपुर, थाना गिरियाक, सबडिवी. राजगीर, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/03	06-जन-77
3028	राजीव रंजन सिन्हा, पुत्र श्री रामनारायण सिन्हा	बिहारएसवीसी/249 5/04	ग्राम/मुहल्ला- सोनमई, डाक सोनमई थाना धनरूया, सबडिवी. मसौही, जिला पटना, बिहार	बीवीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/03	18-जन-79
3029	राजीव सेन वर्मा, पुत्र श्री चंद्रसेन वर्मा	राजएसवीसी/3211 /06	द्वारा राजेश शर्मा, सी-146, कलालगढ़ प्लेस, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	04-नव-76
3030	राजेंद्र प्रसाद, पुत्र श्री अमर सिंह एनवाई	राजएसवीसी/3242 /06	ग्राम एवं डाक निनाह, तह. भद्रा, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	12-नव-76
3031	राजेंद्र एन. बेलाकरे, पुत्र श्री नागराजा	कर्नाएसवीसी/3725 /	के.बी.रंगप्पा, लेक्चरर, 385/4, 8वां मेन लेनिन रोड, मंजुनाथ फ्लोर मिल के पीछे, निट्टुवल्ली नया दावणगेरे, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	01-अप्रैल-82
3032	राजेंद्र प्रसाद पांडा, पुत्र श्री त्रिनाथ पांडा	उड़ीसाएसवीसी/20 02/05	एटी/डाक: पार्क स्ट्रीट, चिकिटी, जिला, गंजम, पिन- 761010, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	07-सित-81
3033	राजेश कुमार, पुत्र श्री धरम पाल चौधरी	राजएसवीसी/3221 /06	ग्राम एवं डाक भोजासर, तह. भद्रा, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	15-सित-77
3034	राजेश कुमार, पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद	बिहारएसवीसी/230 4/03	ग्राम हिमतपुर मिर्जापुर, डाक परमानंदपुर, थाना बलिया, जिला बेगूसराय, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/02	05-सित-76
3035	राजेश कुमार, पुत्र श्री मोला पंडित	बिहारएसवीसी/237 6/03	ग्राम घरपार, डाक व थाना नावदा, सबडिवी. नावदा, जिला नावदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	30-नव-73
3036	राजेश कुमार, पुत्र श्री गंगा राम साहू	बिहारएसवीसी/260 5/05	ग्राम/मुहल्ला- बलुआ, डाक बलुआ, थाना फुलपारस, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	01-मार्च-82
3037	राजेश कुमार, पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद यादव	बिहारएसवीसी/240 6/03	ग्राम एवं डाक- लाटरा, थाना गोपालपुर, सबडिवी. नौगचिया, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/03	15-नव-76
3038	राजेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री बृज भूषण शर्मा	यूवीसी/138/06	म.न. 32, लेन न. 2, प्रेम नगर, ज्वालापुर जिला, हरिद्वार, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/एचपीकेवीवी/ 04	20-जून-74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3039	राजेश कुमार सिंह, पुत्र श्री ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/240 4/03	ग्राम बारबीधी, डाक हुसैना, गिना बलिया, सबडिवी. बलिया, जिला बेगुसराय, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/03	25-जन-79
3040	राजेश्वर, पुत्र श्री रणमल सिंह	हरिएसवीसी/1895	ग्राम एवं डाक बीबीपुर, तह. एवं जिला जींद, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएस एचएयू/05	02-सित-79
3041	राजेश्वरी आर.	केरल/3086/05	कलायिल हाउस, देवियार कॉलोनी, वलारा डाक, आदिमली, इडुक्की 685561, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	20-मई-77
3042	राजगोर नवीन कुमार सोनाजी	गुजएसवीसी/2676 /06	31, शक्ति नगर-1, मानसरोवर रोड, पालनपुर, पिन 385001, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	20-जून-83
3043	राजीव देब, पुत्र श्री रतन कुमार देब	त्रिपुरावीसी/ 163/05	द्वारा: श्री रतन कुमार देब, उत्तरी जॉयनगर, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम, त्रिपुरा	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/0 6	05-अप्रैल-81
3044	राजीव कुमार गोयल, पुत्र श्री रामेश्वर दास गोयल	पीबीएसवीसी/2588 /05	म.न. 19, वार्ड न. 16, अनी दी कोठी, गौशाला रोड, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	23-मार्च-83
3045	राजकुमार कोयारी, पुत्र श्री सीता कोयारी	बिहारएसवीसी/234 7/03	ग्राम श्रीनगर, डाक खड्डा कुजलाही, धाना नौतन, सबडिवी. बेतिया, जिला प. चम्पारन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	26-मार्च-78
3046	राजकुमार शाह, पुत्र श्री शिव शंकर शाह	बिहारएसवीसी/225 1/02	ग्राम सतवार, डाक सतवार, (मुस्ताफाबाद) धाना गौतम बुध नगर (तरवार), सबडिवी. महाराजगंज, सीवन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/99	25-जन-73
3047	रजनीश कुमार सिन्हा, पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार सिन्हा	बिहारएसवीसी/243 1/04	ग्राम महावीर स्थान, डाक सासा राम, धाना सासाराम, सबडिवी. सासाराम, जिला रोहतास, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	01-जन-70
3048	रजनीश लाल, पुत्र श्री मणि मोहन लाल	बिहारएसवीसी/249 9/45	ग्राम/मुहल्ला- परबती, डाक भागलपुर सिटी, धाना हातरपुर, सबडिवी. भागलपुर, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/जेएनएयू/04	01-मार्च-76
3049	रजनीश, पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद	बिहारएसवीसी/246 0/04	ग्राम/मुहल्ला-आनंदपुरी, डाक द्वारा पाटलीपुत्र रेजीडेंसी ग्रीन हाउस, जी-2, आनंदपुर, सबडिवी. पटनासदर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/यूएस बंगलौर/04	02-मार्च-77
3050	रजनीश कुमार, पुत्र श्री एल. बहादुर कृष्ण	हरिएसवीसी/1883	14, सरस्वती नगर, सिंघावाला रोड, ए/सिटी, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएस एचएयू/05	15-मार्च-81
3051	राजपाल सिंह, पुत्र श्री जगमल सिंह	यूवीसी/144/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, धुमाकोट, गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेईपीव ीवी/98	10-नव-69

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3052	राजपुरा रईसभाई एम.	गुजएसवीसी/2677/06	एटी एवं डाक मुमनवास, तालुक वडगाम, जिला बनासकंठा, 385120, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/06	23-मई-83
3053	राजू दास, पुत्र श्री परीक्षित दास	डब्ल्यूबीएसवीसी/3205/05	22/2जी, गांगुलीपाड़ा लेन, कोलकाता 700037, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/05	05-जन-82
3054	राजवीर सिंह पावइया, पुत्र श्री इंदर सिंह पावाइया	हरिएसवीसी/1903	514, टाउन पार्क के निकट, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/89	08-जून-65
3055	राकेश कुमार, पुत्र श्री महानंद	हरिएसवीसी/1877	म.न. 180, लाजपत नगर, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएस एचएयू/05	15-सित-78
3056	राकेश कुमार, पुत्र श्री महानंद	हरिएसवीसी/1902	513, सेक्टर-1, सांगरिया, हनुमानगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/	20-जुला-78
3057	राकेश कुमार, पुत्र श्री इंदरजीत कुमार	पीबीएसवीसी/2604/05	प्रेवाल स्त्री वार्ड न. 10, खालसा टेलर के निकट, मनसा, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	20-अक्तू-81
3058	राकेश कुमार, पुत्र श्री बलदेव सिंह	एचपीएसवीसी/740/05	अनु कलां, तह. एवं डाक हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	07-सित-81
3059	राकेश कुमार, पुत्र श्री रामरतन प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/2525/04	ग्राम/मुहल्ला- बालतारा, डाक फुलवारिया, धाना गोगरी, सबडिवी. गोगरी, जिला खगरिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएंडएफएसयू/04	09-अक्तू-80
3060	राकेश कुमार सिंह, पुत्र श्री राम किशोर सिंह	बिहारएसवीसी/2401/03	ग्राम-करसार, डाक-करसार, धाना-रघुनाथपुर, सबडिवी.-सीवन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/	30-मार्च-76
3061	राकेश कुमार सिंह, पुत्र श्री सुप्रिय कुमार सिंह	बिहारएसवीसी/2519/04	ग्राम/मुहल्ला- सालेहपुर, धाना अकंगासराय, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/04	12-जुला-76
3062	राकेश कुमार सिन्हा, पुत्र श्री अजीत कुमार सिन्हा	बिहारएसवीसी/2273/03	ग्राम-मुनेंदु नगर, डाक-मुनेंदु नगर, धाना-फुलवारीशरीफ, सबडिवी.-पटना सदर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/00	11-जून-73
3063	राकेश मिश्रा, पुत्र श्री चिरजीवी मिश्रा	बिहारएसवीसी/2471/04	ग्राम/मुहल्ला-जगयी, डाक एवं धाना बंका, सबडिवी. व जिला, बंका, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/04	26-जन-75
3064	राकेश मित्तल, पुत्र श्री केवल कृष्ण मित्तल	पीबीएसवीसी/2606/05	म.न. 864, गली न. 8, गणेश बस्ती, भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	17-अग-80
3065	राकेश प्रसाद कवि, पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद कवि	यूवीसी/73/06	कवि सदन, पोस्ट ऑफिस के निकट, नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी/83	30-जून-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3066	राकेश रंजन, पुत्र श्री लाल देव सिंह	बिहारएसवीसी / 229 2/03	ग्राम लोदीपुर, डाक पतार— हिया, थाना जहानाबाद, सबडिवी.— जहानाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /02	02—मार्च—78
3067	राकेश सहारन, पुत्र श्री एम.आर. सहारन	हरिएसवीसी / 1855	म.न. 251, डिफेंस कॉलोनी, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/	03—सित—73
3068	राम नरेश रमन, पुत्र श्री राजी लाल महारा	बिहारएसवीसी / 234 6/03	ग्राम एवं डाक सुक्की, थाना खजौली, सबडिवी. मधुबनी, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	14—मई—74
3069	राम निवास, पुत्र श्री भंवर लाल	हरिएसवीसी / 1886	सुंदरीवाल लैदर मर्चेट, बेगु रोड, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /05	31—जन—79
3070	राम प्रकाश, पुत्र श्री राम सेवक शर्मा	बिहारएसवीसी / 257 6/05	ग्राम/मुहल्ला—बिरला कॉलोनी, म.न.—ए/72, डाक फुलवारी शरीफ, थाना दानापुर, सबडिवी. दानापुर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू /04	23—जन—75
3071	राम राज सिंह, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 256 3/04	ग्राम/मुहल्ला— बंधिया, डाक रानीपरती, थाना रोसेरा, सबडिवी. रोसेरा, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/	16—नव—76
3072	राम शरन राम, पुत्र श्री दसय राम	बिहारएसवीसी / 225 5/02	ग्राम सिमराहा, डाक सरोजावेला, थाना मरौना, सबडिवी.— निर्मली, जिला सुपौल, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/00	25—फर—76
3073	रामबाबू कालका, पुत्र श्री लक्ष्मणइयाह	एपीएसवीसी / 4323 /05	ककरानई डाक, वत्सावा (एम), कृष्णा जिला, 521402, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजी आरएयू/05	10—जून—82
3074	रमन कुमार ठाकुर, पुत्र श्री सुभाष चंद्र ठाकुर	बिहारएसवीसी / 235 6./03	ग्राम टाउन थाना रोड, डाक दुमका, थाना दुमका, सबडिवी. दुमका, जिला दुमका, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	24—मार्च—78
3075	रामावतार दीक्षित, पुत्र श्री वेदराम दीक्षित	यूवीसी / 118 / 06	प्रमुख तकनीकी अधिकारी, द्वारा सीवीओ कार्यालय, अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी /91	16—अग—66
3076	रमेश चंद्र जोशी, पुत्र श्री गोपाल दत्त जोशी	यूवीसी / 124 / 06	गली न. 1, एकता एन्क्लेव, डाक नाथनपुर, जोगीवाला, जिला देहरादूर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/एयू/63	15—जुला—41
3077	रमेश हेब्बाली, पुत्र श्री चंद्र शेखर	कर्नाएसवीसी / 3722 /	बासवा नीलाया, देना बैंक कॉलोनी, कुमरेश्वर नगर, धारवाड़, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	05—अक्तू—81
3076	रमेश कुमार, पुत्र श्री किशना राम	हरिएसवीसी / 1889	डाक कलांबाली, जिला सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू /05	05—मई—79
3079	रमेश कुमार निराला, पुत्र श्री जुदगी राम	बिहारएसवीसी / 258 6/05	ग्राम/मुहल्ला—सरैया, डाक शोरामपुर, थाना जानीपुर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	02—सित—82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3080	रमेश कुमार, पुत्र श्री इजारी ठाकुर	बिहारएसवीसी/255 0/04	ग्राम/मुहल्ला— भखारा, डाक भखारा, धाना सिंहवाड़ा, सबडिवी. दरभंगा, जिला दरभंगा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएस यू/04	02-जन-80
3081	रमेश तिवारी, पुत्र श्री अशोक कुमार तिवारी	बिहारएसवीसी/230 7/03	ग्राम एवं डाक—रौंकी काला, धाना मनिका, सबडिवी. लाटेहर, जिला लाटेहर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/02	17-जन-77
3082	रामजीत, पुत्र श्री सुखराम	राजएसवीसी/3204 /06	ग्राम एवं डाक—नागौर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	10-मई-79
3083	रामकेश यादव, पुत्र श्री रघुवीर सिंह यादव	एमपीएसवीसी/228 4/05	एच-1, प्लूट्री फार्म कैम्पस, एमओजी लाइन, इंदौर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/05	10-जून-72
3084	रामकिशन छिम्पा, पुत्र श्री ओम प्रकाश	राजएसवीसी/3199 /06	ग्राम एवं डाक डाबरी, तह. मद्रा, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/08	13-जून-79
3085	शाना रणजीत सिंह, पुत्र श्री महेश सिंह	बिहारएसवीसी/240 5/03	ग्राम एवं डाक डेंग, धाना माजोरगंज, सबडिवी. भैरगनिया, जिला सीतामढ़ी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/03	28-मार्च-77
3086	रणवीर चौधरी, पुत्र श्री प्रहलाद चौधरी	बिहारएसवीसी/224 1/02	ग्राम तारेगना गोला, डाक मसौधी, धाना मसौधी, सबडिवी. मसौधी, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/79	05-जन-53
3087	रणवीर सिंह, पुत्र श्री चंद्र बोंस सिंह	यूवीसी/149/08	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, डांगोली, जिला बागेश्वर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/00	25-मई-77
3088	रनीत कुमार सिन्हा, पुत्र श्री वैद्य नरेंद्र कुमार सिन्हा	बिहारएसवीसी/249 0/04	ग्राम/मुहल्ला— दरियापुर, डाक चकनवाड़ा, धाना बड़, सबडिवी. बड़, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/	01-मार्च-78
3089	रंजन कुमार सेठी, पुत्र श्री परमेश्वर सेठी	उड़ीसाएसवीसी/20 01/05	एटी/डाक: सुजानपुर, जिला जाजपुर, पिन 755017, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/0 5	28-मई-81
3090	रणजीत कुमार, पुत्र श्री देवनंदन प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/257 2/04	ग्राम/मुहल्ला—गदनपुरा, डाक दयालपुर, धाना चंडी, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	15-जन-77
3091	रंजिनी ए.आर.	केरल/3086/05	अलक्कडी हाउस, विजय होटल, थलासेरी रोड, मननथा वडी डाक, वायनाड, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	05-मई-78
3092	रणजीत सैम स्टेनली (जे.ए. स्टेनली)	टीएनएसवीसी/319 7/05	57ए, राम नगर, महाराज नगर, डाक तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीवीएससी/एपीएयू /84	20-फर-80
3093	रास बिहारी प्रसाद यादव, पुत्र स्व. श्री रामाश्रीप्रसाद यादव	बिहारएसवीसी/228 1/03	ग्राम जहांगीर पाटेरा, डाक धाना सराय, सबडिवी. हाजीपुर, जिला वैशाली, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/	03-जन-43

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3094	रेशमी रजन मोहंती, पुत्री श्री सिबा प्रसाद मोहंती	उड़ीसाएसवीसी/20 28/05	एटी-महाजन साही, डाक धरीरकाबा, वाया केंद्रपाड़ा, थाना सालेपुर, कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	10-जुला-81
3095	रश्मि रजन नायक, पुत्री श्री कुजा मोहन नायक	उड़ीसाएसवीसी/20 23/05	एटी कुसम्बी, डाक सुंगेरा, जिला कटक, पिन 754221, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	03-जुला-80
3096	रश्मि रेखा कुमारी, पुत्री श्री नवल किशोर चौधरी	बिहारएसवीसी/237 8/03	ग्राम-ए.जी. कॉलोनी, डाक आशियाना नगर, थाना शास्त्री नगर, सबडिवी. पश्चिमी पटना, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	02-फर-79
3097	रश्मि शुक्ला, पुत्री श्री रमेश किशोर शुक्ला	यूवीसी/17/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल कैम्पस, गौबर, चमोली, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी बी/99	24-फर-74
3098	रश्मि ठाकुर, पुत्री श्री राज कुमार ठाकुर	एचपीएसवीसी/735 /05	दिव्या निवास, मजीठा हाउस के निकट, छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी /05	03-दिसं-80
3099	रश्मि एस., पुत्री श्री सी. शंकरप्पा	कर्नाएसवीसी/3762 /	पुत्र स्व. श्री चेतनगोडा, मगोडु डाक, सीरा तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	17-जून-82
3100	रतन दीप सिंह	गुजएसवीसी/2678 /06	बी-34/130 13बी-1, ब्रह्मानंद कॉलोनी, दुर्गाकुंड वाराणसी उ.प्र. 221005	बीवीएससीएंडए एच/	17-सित-83
3101	रतन कुमार चौरी, पुत्र श्री मुरलीधर चौधरी	बिहारएसवीसी/255 8/04	ग्राम/मुहल्ला- मोतिया, डाक मोतिया, थाना- गोडडा, बिहार	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	05-अक्टू-77
3102	राठौड़ प्रताप सिंह टी.	गुजएसवीसी/2638 /06	प्लॉट न. 124/2, सेक्टर 2/ए, गांधीनगर, 382007, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/	11-नव-82
3103	रतिया भारत बाबूभाई	गुजएसवीसी/2639 /06	'जय भद्रईकृपा', स्वास्तिक मिल के पीछे, छाम्पा, पौरबंदर, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/	19-दिसं-82
3104	रौशन, पुत्र स्व. श्री कमल कुमार श्रीवास्तव	बिहारएसवीसी/251 3/04	ग्राम/मुहल्ला-पाटलीपुत्र कॉला. डाक-पाटलीपुत्र कॉलोनी, थाना पाटलीपुत्र कॉलोनी, सबडिवी. पटना सदर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/04	12-अक्टू-78
3105	रावल नीतेंद्र कुमार के.	गुजएसवीसी/2658 /06	सी-1, स्नेह कुंज सोसा. शॉप. काम्प., ब्राह्मनी किराना स्टोर, कलोल (एनजी), गांधीनगर 384230, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/	29-जन-82
3106	रावत प्रवीण कुमार बी.	गुजएसवीसी/2679 /06	क.न. 341, ब्लॉक न.57, पुलिस हैड क्वा., पालनपुर, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/	13-जुला-81
3107	रवि इंवर सिंह, पुत्र श्री तेजा सिंह	पीबीएसवीसी/2621 /05	एसबीजे नगर, नानकसर रोड, बरनाला, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	11-दिसं-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3108	रवि कुमार किल्ली, पुत्र श्री शंकर राय	एपीएसवीसी / 4297/05	डी.न. 21-206, काकानी नगर, नाड डाक, विशाखापटनम - 530009, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/05	04-मई-81
3109	रवि कुमार सिखाकोलानू, पुत्र श्री नागेश्वर राव	एपीएसवीसी / 4380/05	द्वारा श्री मल्लिकार्जुन शू मार्ट, मेन रोड, सत्तेनापल्ली, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/01	25-जुला-79
3110	रवि शंकर झा, पुत्र श्री राम अयोध्या झा	यूवीसी/135/06	टीचर्स कॉलोनी के सामने, डिग्री कॉलेज रोड, खातिमा, ला यू.एस.नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी/98	05-जन-76
3111	रविकांत निराला, पुत्र श्री पून्य देव सिंह	बिहारएसवीसी/2247/02	ग्राम डोढ़ी, डाक बेला वारिश, थाना गोह, सबडिही, दौंडनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/02	07-मार्च-76
3112	रवि कुमार हुक्केरी, पुत्र श्री गंगप्पा हुक्केरी	कर्नाएसवीसी/3713/	कनकनवाडी डाक, रायबाग तालुक, बेलगाम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएस यू/05	14-जुला-82
3113	रवीन्द्र, पुत्र श्री राजिन्द्र	हरिएसवीसी/1893	सी.वी.एच. लाडवा, सीकेकेआरआई, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	25-सित-82
3114	रवीन्द्र तनेजा, पुत्र श्री नारायण दास तनेजा	हरिएसवीसी/1876	93-1, डी ब्लॉक, नई मंडी, मोह के निकट, सिरसा शहर, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	03-फर-83
3115	रवि रंजन कुमार सिन्हा, पुत्र श्री परमानंद सिंह	बिहारएसवीसी/2561/04	ग्राम/मुहल्ला- मई, डाक मई, थाना हिलसा, सबडिही, हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/04	01-मार्च-80
3116	रवि शंकर कुमार, पुत्र श्री शत्रुघ्न प्रसाद	बिहारएसवीसी/2372/03	ग्राम खरजामा, डाक बड़ा खुर्द, थाना नूरसराय, सबडिही, बिहार शरीफ, ए नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	05-दिस-74
3117	रायावारपु एस.वी.वी. एस.एस.आर. एओ, पुत्र श्री सथिराजू	एपीएसवीसी/4354/05	बेडापुडी, थोंडगंम (एम), पू.गो. जिला-533406, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	15-जुला-82
3118	रेखा पी. राघव	केरल/3052/05	चिथिरा टेम्पल एवेन्यू, अय्यानथोले, त्रिसूर, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	24-अप्रैल-79
3119	रेम्या आर. नायर	केरल/3041/05	पंचवाडी, थिसिलेरी डाक, मनानथक्की, वायनाड, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	23-मई-61
3120	रंजिनी पी.	केरल/3013/05	मडाथिल हाउस, नम्बरुविकाता अलुमकाडवु डाक, करुनाग पल्ली, कोल्लम 690573, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	15-अप्रैल-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3121	रेशमी आर चंद्रन	केरल/3015/05	रेशमी विहार (कोप्परा), कुरुमन्ना, मुकथाला डाक, केल्लम 69157, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	16-मई-80
3122	रेवथी मुस मूर्ति, पुत्री राजेश गोटेटी	कर्नाएसवीसी/3703 /	जी-4, सी ब्लॉक, शांति निकेतन लेआउट, आरेकरे, बी-जी रोड, बंगलौर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केकेवीपी/94	13-अप्रैल-72
3123	रिचा सिंह, पुत्री श्री आलोक कुमार सिंह	यूवीसी/169/06	ग्राम आनंदपुर, डाक गोकुल, जिला उधमसिंह नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/02	26-जून-72
3124	रिजुला सरकार, पुत्र श्री रमेश च. सरकार	डब्ल्यूबीएसवी सी/3188/05	583, पुरबाहसिंधी रोड, मधुगढ़, कोकाटे-700030, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/5	01-जन-82
3125	रिंकी कुमारी, पुत्री श्री जयराम शर्मा	बिहारएसवीसी/259 8/05	ग्राम/मुहल्ला- पाहलेजा, डाक जयपुर, थाना मेहदिया, सबडिवी. अरावल, जिला अरावल, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	19-मई-80
3126	रिशव रंजन, पुत्र श्री के.एन. चौधरी	बिहारएसवीसी/25 8/04	ग्राम/मुहल्ला-एमटीपीएस, डाक काटी थाना, सबडिवी. मुजफ्फर पुर जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/जीबीबीयूएंडटी/04	05-अग-81
3127	रीतेश कुमार शीवास्तव, पुत्र श्री ए.के. श्रीवास्तव	बिहारएसवीसी/241 7/04	ग्राम- बाखरी बाजार, डाक- बाखरी, थाना-पटाही, सबडिवी.-जिला, मोतीहारी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/03	01-मार्च-77
3128	रीतेश सूद, पुत्र श्री जे. के. सूद	एचपीएसवीसी/746 /05	ग्राम अहेजु, तह. जोगिन्दर नगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	14-अग-81
3129	रियास एम.ए.	केरल/3080/05	मनक्कट्टु हाउस, इस्टटुपेटा, नदक्कल डाक, कोट्टायम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	30-4-80
3130	आरएम. रवि चंद्रन (एम. रामनाथन)	टीएनएसवीसी/239 2/05	सेंधी इल्लम, 595बी, कृष्णा कॉलोनी, श्रीरंगपायम, राजा पलायम 626117, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/86	15-मई-62
3131	रोडी लारिनफेली फर्नाई, पुत्री श्री एफ. वनलालहावना	मिजएसवीसी/154 /05	रिपब्लिक, वेंगलुन, डाक आइजवाल, मिजोरम, मिजोरम	बीवीएससीएंडए एच/सीएयू/05	09-सित-80
3132	रोहित शर्मा, पुत्र श्री सतीश शर्मा	एचपीएसवीसी/719 /05	सनव्यू कॉटेज सीमेटी रोड, संजौली, शिमला-6, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	25-जन-81
3133	रोहतास, पुत्र श्री निहाल सिंह	हरिएसवीसी/1881	ग्राम एवं डाक- बालसमंद, तहसील व जिला हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	14-नव-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
3134	रोको रोज, पुत्र श्री रुपहुफु रोज	एनएसवीसी / 205 / 06	बिली ग्राहम रोड, डी.बी.एस. हायर सेकेंड्री स्कूल के निकट, कोहिमा	बीबीएससीएंडए एच / एएएयू / 06	16-अप्रैल-82
3135	रोडा वेंकटेश्वरलु	एपीएसवीसी / 4292 / 05	पापीरेडुडीयल्ली (ग्राम), वेलीगडाला (एम), प्रकासम जिला, 523224, आंध्र प्रदेश	बीबीएससी / एच / एनकेवीसी / एएयू / 05	01-जुलाई-81
3136	रोंगसेन वती आओ, पुत्र श्री तैमसुखबा	एनएसवीसी / 200 / 05	स्पेडिड कॉटेज, पुराना बाजार, दीमापुर, नागालैंड	बीबीएससीएंडए एच / एएएयू / 05	14-मार्च-76
3137	रायमोन जेकब	केरल / 3057 / 05	वालियापराम्बिल हाउस, वेमपल्ली डाक, कुरुविलंगड, कोट्टायम, केरल	बीबीएससीएंडए एच / एएएयू / 05	13-मार्च-81
3138	रुद्र गौडा, पुत्र श्री चन्नापनावर	कर्नाएसवीसी / 3708 /	तुम्माती डाक, बिलगी तालुक, बगलकोट, जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच / केवीएंडएफएस यू / 05	01-मई-82
3139	रुद्रप्पा एस.एम. पुत्र श्री महेशवरप्पा एस.	कर्नाएसवीसी / 3751 /	अनुरंजेषु, डोर न. 1689 / 18ए, छटा क्रॉस, अंजनेया बदवानी, हेमवती होस्टल के पीछे, दावणगेरे 577004, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच / केवीएंडएफएस यू / 05	13-जून-79
3140	रुमी सेन गुप्ता, पुत्री श्री गौतम सेन गुप्ता	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3147 / 05	टाइप IV/1, 18, माल रोड स्टेट, कोलकाता 700080, पश्चिम बंगाल	बीबीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंड एफएस / 05	12-अग-82
3141	रूपा बोराल, पुत्र श्री मृत्युंजय बोराल	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3213 / 06	43, क्रिक रो, कोलकाता- 700014, पश्चिम बंगाल	बीबीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंड एफएस / 05	19-अग-82
3142	रूपम चटर्जी, पुत्र श्री रबीन्द्र चटर्जी	डब्ल्यूबीएसवीसी / 3179 / 05	ग्राम एवं डाक दासपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	बीबीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंड एफएस / 05	19-मई-83
3143	रूपेश कुमार, पुत्र श्री जय किशोर पर्व	बिहारएसवीसी / 2342 / 03	ग्राम इस्माइलगंज, डाक लहरियासराय, थाना लहरिया सराय, सबडिवी. लहरियासराय, जिला दरभंगा, बिहार	बीबीएससीएंडए एच / आरएयू / 03	09-जुलाई-77
3144	रूपेश कुमार श्रीवास्तव, पुत्र श्री डी.के. श्रीवास्तव	बिहारएसवीसी / 2479 / 04	ग्राम / मुहल्ला-तखनुपुर, डाक तखनुपुर, थाना लौरिया, सबडिवी. नरकटियागंज, जिला पश्चिमी चम्पारन, बिहार	बीबीएससीएंडए एच /	27-जुलाई-77
3145	रूपिंदर कुमार, पुत्र श्री सोनी राम	पीबीएसवीसी / 2623 / 05	बी.एम.डी. स्कूल के निकट, बारेटा जिला, मनसा, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच / जेएनकेवीसी / 05	17-अग-81
3146	रूपिंदर पाल सिंह, पुत्र श्री मोहिंदर सिंह	पीबीएसवीसी / 2607 / 05	म.न. 24, प्रताप नगर, जी.टी. रोड, अमृतसर, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच / पीएयू / 05	02-अक्टू-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3147	रुपिंदर, पुत्र श्री सुबबौर सिंह	हरिएनएसवीसी / 1887	10/21, पुराना कैम्पस, सीसीएस, एचएयू, हिसार, हरियाणा	बीबीएससीएंडए एच / सीसीएसएचएयू /05	23-जन -83
3148	एस. इन्द्रावती (एम. सुबइयाई)	टीएनएसवीसी / 650 /05	7/3, गोविंदसामी स्ट्रीट, पेराम्बूर, चेन्नई 600011, तमिलनाडु	बीबीएससी / एमयू / 65	13-जून-37
3149	एस.ए. सिवाकुमार (एस. अरुणाचलम)	टीएनएसवीसी / 616 /05	393/22, पूर्वी पॉण्डी रोड, महाराजापुरम, विल्लुपुरम 605602, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 05	01-मई-80
3150	एस. अब्दुल हकीम (एस. शेख लिबई)	टीएनएसवीसी / 893 /05	7/197ए, अन्ना सेलई, कोडई कनाल, 624101, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनएयू / 86	06-जन-62
3151	एस. अक्लिदादेश्वरी, पुत्र श्री के. बालामुसुगन	टीएनएसवीसी / 340 7/06	ए-4, सराशा महल, 60 भुजन्ना स्ट्रीट, वालजापेट, 632513, वेल्तोर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 89	30-मई-66
3152	एस. एल्बर्ट (सी. सेल्वराज)	टीएनएसवीसी / 229 /03	3/305, फेस III, साधुवचारी, वेल्तोर, 632009, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनएयू / 76	02-अक्टू-51
3153	एस. अरुबर (एम. सुब्रमण्य पिल्लै)	टीएनएसवीसी / 283 0/05	88, पूंगा स्ट्रीट, एलिम नगर, पेरुगुडी, चेन्नई -- 96	बीबीएससी / टीएनएयू / 80	01-मार्च-57
3154	एस. अरुधा (पत्नी श्री वी. सुरेश)	टीएनएसवीसी / 255 4/05	9/451, सेनापति नगर, ऊडियम रोड, मुथुर डाक, कंगायम तालुक, इरोडे जिला 638105	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 98	13-मार्च-72
3155	एस. आनंदगिरि (बी. सुबइयाई)	टीएनएसवीसी / 322 4/05	न.9, परमसिवम स्ट्रीट, मेलाकल कलंदर कोट्टई, त्रिची-11, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनएयू / 79	01-अप्रैल-53
3156	एस. आनंद कुमार (के. सुदरेसन)	टीएनएसवीसी / 279 7/05	करुपुर सुरईकयूर डाक, पिलयूर वाया, नागपट्टिनम जिला, पिन 612203, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 97	07-मई-72
3157	एस. आनंदी (आर. सुदरम)	टीएनएसवीसी / 261 0/05	156/1, साउथ स्ट्रीट, पिल्लाकुरिची डाक, वारियनकवल वाया, सेंदुरई तालुक, पेराम्बलूर जिला, 621806, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 00	04-जुला-77
3158	एस. अंबेजियान (टी. सिवावाकीवेलु)	टीएनएसवीसी / 182 8/05	1/85, मुलपकम, मन्नमपंडाल, मायिलाडुथुरई 609305, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 91	15-जुला-67
3159	एस. अनिता ज्ञान रानी पत्नी (पी. जयसिंह)	टीएनएसवीसी / 125 9/05	156ए, रोजा स्ट्रीट, अम्बल नगर, पोरूर, चेन्नई 600116, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 93	05-अप्रैल-70
3160	एस. अन्नदुरई (पी. शुनमुगामिल)	टीएनएसवीसी / 308 9/05	सिवन कोइल स्ट्रीट, वीरा सिगामनि, सकरनकोइल तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनएयू / 84	30-मई-58

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3161	एस. अन्नामालई (सेथिल विनायगम)	टीएनएसवीसी/137 9/05	13, ईश्वरी नगर, ईस्ट तम्बरम, चेन्नई 600059, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/82	12-अप्रैल-56
3162	एस. एंथोनीराज (ई सेल्वाराज)	टीएनएसवीसी/303 2/05	डोर न. 8/88सी,चेक्काडी स्ट्रीट, कुरुविकुलम 627754, संकरनकोविल तालुक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	10-फर-81
3163	एस. अनुसूया (पी. श्रवनन)	टीएनएसवीसी/66 /03	4/138-एम, एनजीओ कॉलोनी, थायिलपट्टी, सिवाकासी, पिन 6261, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	29-अक्तू-77
3164	एस. अर्जुनन (के. सुब्रामण्यम)	टीएनएसवीसी/172 /03	बंगला थोट्टम, इन्नामंगलम डाक, अथियूर वाया, इरोडे जिला 638501, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	11-सित-77
3165	एस. अर्जुनन (पी. सीथानंदर)	टीएनएसवीसी/534 /05	अयामराथोट्टम, वेल्लीथिरुपुर डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला 638314, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	09-मई-81
3166	एस. अरुल मनोहरन (ए. सजीवी)	टीएनएसवीसी/106 3/05	आर.सी. चर्च के सामने, मेन रोड, चेल्मपट्टी, मदुरई जिला, पिन 625566, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/82	31-मई-58
3167	एस. अरुल प्रकाश राज (एस. सत्यापिल्लै)	टीएनएसवीसी/101 1/05	17/12, डॉ. रत्नम स्ट्रीट, आरिशीपलायम, सलेम 636009, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/91	06-जून-68
3168	एस. आर्मुगम, पिल्लै (ए. सिवाथनु)	टीएनएसवीसी/218 5/05	44, वी.एन.कॉलोनी, बीच रोड, इरुलम्पापुरम, कोट्टार डाक, नगरकोइल 629002, कन्याकुमारीए तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/76	09-जून-49
3169	एस. अरुण, पुत्र श्री सत्यशीलन	टीएनएसवीसी/344 0/06	मेट्टूर कोडायम वाया, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/94	20-अप्रैल-71
3170	एस. अरुण धलकानी (आर. संकरासुब्बु)	टीएनएसवीसी/121 4/05	नॉर्थ स्ट्रीट, चेम्बूर, अलवरथिरुनगरी- 628612, थुदुकुडी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/87	05-अप्रैल-63
3171	एस. असोकन (के. सुरीलीकामु)	टीएनएसवीसी/263 6/05	नंदगोपाल कोइल स्ट्रीट, ओडईपट्टी डाक, थेनी जिला, पिन 625540, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/69	13-मार्च-67
3172	एस. बाबू कोलाप्पन (ए. सुब्रामोनियम)	टीएनएसवीसी/219 4/05	"द्वारका"21/III, संकरन स्ट्रीट, पी.एन. नगर, नगरकोइल, के.के. जिला 629004, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/85	24-जून-59
3173	एस. बागवथी (जी.के. सिवासुब्रामण्यम)	टीएनएसवीसी/253 6/05	5, नॉर्थ पार्क स्ट्रीट, गोबीचेट्टी पलायम डाक, इरोडे जिला पिन 638452, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/92	16-जून-69
3174	एस. बकयाराज (आर. सन्यासी)	टीएनएसवीसी/326 /04	किल्लई मेन रोड, मूरासपलायम डाक, संकरापुरम तालुक, विल्लुपुरम जिला 606208	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	05-अग-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3175	एस. बालासुरनाथन (जी. सिवाशानमुगम)	टीएनएसवीसी / 100 3 / 05	32, मरियमन कोइल स्ट्रीट, मनाकडु, सलेम 636007, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 88	01-मई-64
3176	एस. बालासुरनाथन (वी.पी.एस. सुब्बानइकर)	टीएनएसवीसी / 937 / 05	पल्लनाथम, मल्लापुरम डाक, गुजिलियमपरई वाया, वेदासंदूर तालुक, डिंडीगल जिला	बीवीएससी / एमयू / 74	04-जुलाई-49
3177	एस. बालाजी (वी. सामीकन्नु)	टीएनएसवीसी / 170 8 / 05	40-ए, मेल कंगियाकुप्पम, पानरुति, तालुक, कुडालूर जिला, 607805, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 02	07-जन-77
3178	एस. बालाकृष्णन (सेवुगन)	टीएनएसवीसी / 113 9 / 05	3 / 135 सी, नेहरू नगर, 5वीं स्ट्रीट, टी.नल्लूर, परमाकुडी, रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 82	29-मई-56
3179	एस. बालाकमुगन (के. साधनम)	टीएनएसवीसी / 131 7 / 05	दानिशपेट, ओमालूर तालुक, सलेम जिला, पिन 636354, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 01	11-जुलाई-77
3180	एस. बालासुरगन (एस. सुंदरराजन)	टीएनएसवीसी / 215 5 / 05	न.2, रंगास्वामी सर्वई लेन, नॉर्थ अवानी मदा स्ट्रीट, मदुरई तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 97	30-मई-71
3181	एस. बालासुब्रामण्यन (एस. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी / 186 1 / 05	29, वलालर स्ट्रीट, मंगलमपेट डाक, विरुधावलम तालुक, कुडालूर 606104, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 94	10-मार्च-70
3182	एस. भास्कर (एन. सदासिवम)	टीएनएसवीसी / 120 4 / 05	एल-151, कोट्टापल्ली कॉलोनी, तिरुथेनगोडे, नमक्कल जिला 637214, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 86	04-अप्रैल-66
3183	एस. भास्करन (ए. सुब्रामण्यम)	टीएनएसवीसी / 145 3 / 05	191 / 3, मिडल स्ट्रीट, नारायण थेवनपट्टी डाक, ऊथमपलायम तालुक, थेनी जिला	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 97	11-अप्रैल-72
3184	एस. भारतीयसन, पुत्र श्री पी. सेथुरमन	टीएनएसवीसी / 335 1 / 06	आमाराडक्की डाक, कोविल तालुक, पुडुकोट्टई जिला, पिन 614618, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 05	11-मई-83
3185	एस. भारतीयसन (एम. सेल्वाराजू)	टीएनएसवीसी / 304 / 04	10, वी.ओ.सी. नगर, विकरावडी, विल्लुपुरम जिला, पिन 605652, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 04	22-मई-80
3186	एस. बोगानाथन (पी. आई. सुब्रामण्यम)	टीएनएसवीसी / 153 2 / 05	न. 15, प्रथम स्ट्रीट, केजी ज अपार्टमेंट, भक्तवत्सलम नगर, अडयार, चेन्नई 600020	बीवीएससी / टीएनएयू / 79	15-सित-49
3187	एस. भूतलिंगम, पुत्र श्री बी. सिवा सुब्रामण्यम	टीएनएसवीसी / 345 6 / 06	16-डी, इयार पगाई मयामार स्ट्रीट, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली 627002, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 87	19-अप्रैल-64

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3188	एस. चंदिश लेखा (एस. सुंदरम)	टीएनएसवीसी/244 /04	2-ई, न. 9, अम्बेडकर नगर, प्रथम स्ट्रीट, संकरन कोविल, नेल्लई जिला 627756, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/04	09-फर-78
3189	एस. चंद्रबोस (एस. शुनमुगम)	टीएनएसवीसी/161 4/05	एचआईजी-13, जाकुलिन इल्लम तिरुनगर, पलायम कोट्टई, तिरुनेलवेली 627007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/86	10-अप्रैल-55
3190	एस. चंद्रन (ए.एस. स्वामीनाथन)	टीएनएसवीसी/134 5/05	इलागिरि ग्राम एवं डाक, जोलारपेट बाया, वेल्लोर जिला 635853, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/76	06-जून-52
3191	एस. चंद्रन (आर. सुंदरम)	टीएनएसवीसी/256 2/05	206/1, नटराजपुरम, मेट्टूर मेन रोड, भवानी 638302, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/88	26-मार्च-53
3192	एस. चंद्रसेखर (पी. सेल्वाराज)	टीएनएसवीसी/376 /04	111/3-648, पेरियाकलम, मेडक्कारापट्टी, सलेम 636010, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/04	15-मार्च-80
3193	एस. चंद्रसेखर (एस. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/447 /05	6ए, पसुनकायामंगलम रोड, कल्लाकुरिची 606202, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/05	15-अप्रैल-82
3194	एस. चिन्नामरियप्पन (एम. सेलामुथु)	टीएनएसवीसी/148 5/05	बोडीनायकनपट्टी, वेलांडी वालासू (बाया), इडापारी तालुक, सलेम जिला 637105, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/00	28-जून-76
3195	एस. चित्रा (पत्नी ई. भुवनेश्वर बाबू)	टीएनएसवीसी/211 6/05	22-ए, बाजार स्ट्रीट, कुरुम्बालूर डाक 621107, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/92	13-जून-69
3196	एस. चित्रादेवी (के. सोमासुंदरम)	टीएनएसवीसी/143 /03	करुथिपलायम, थमारई पलायम डाक, इरोडे जिला 638152, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/03	23-जून-79
3197	एस. देवी कनगम्बिगई (पत्नी के. केनाडी)	टीएनएसवीसी/309 3/05	न. 5, महालक्ष्मी स्ट्रीट, नेहरू कॉलोनी, पलावनथंगल, चेन्नई 600114	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/96	07-जून-72
3198	एस. दामोदरन (एम. संबधा रेड्डी)	टीएनएसवीसी/210 7/05	33/7 ए, धर्मराजा कोइल स्ट्रीट, तिरुत्तनी 631209, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/91	07-मई-88
3199	एस. दामोदरन (डी. सोमासुंदरम)	टीएनएसवीसी/310 3/05	न.44/84, पॉण्डी रोड, नागल पुरम, टिंडीवनम, विल्लुपुरम जिला, पिन 604002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/00	03-मई-76
3200	एस. धनलक्ष्मी, पुत्र श्री एल. सुदालईमुथु	टीएनएसवीसी/332 0/06	अथिथापुरम, वेल्लामदाम, कन्याकुमारी 629305, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/05	26-अग-8

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3201	एस. धनपालन (बी. सेल्वम)	टीएनएसवीसी/322 2/05	30, बसधम कॉलोनी, महाराज नगर डाक, तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/92	20-जुला-69
3202	एस. धनसेखरन (एस. सामीनाथन)	टीएनएसवीसी/291 2/05	न. 29, ई.बी. नगर, मन्नारगुडी, थिरुवरूर जिला, 614001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/96	20-मई-71
3203	एस. धनसेखरन (टी.पी. आर. सुब्रह्मचेटियार)	टीएनएसवीसी/144 1/05	15-1-15, स्वामी मुथइया नगर, मीनाची इल्लम, टी.कल्लीपट्टी डाक, 625605, पेरियाकुलम तालुक, थेनी जिला	बीवीएससी/ टीएनएयू/82	09-दिस-57
3204	एस. धरनी, पुत्र श्री सुंदरलिंगम	टीएनएसवीसी/351 3/06	बालाजी डिजिटल फोटो स्टूडियो, के.वी. पुरम, वेल्लोर जिला, पिन 632201, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	05-जून-83
3205	एस. धयाला मूर्ति (आर. सिधियन)	टीएनएसवीसी/284 7/05	न. 3 एवं 4, विवेकानंद रोड, सिंगानल्लूर डाक, कोयम्बतूर 641005, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/75	20-सित-50
3206	एस. दुर्ईसामी (के. सेनगोड गुंडेर)	टीएनएसवीसी/101 2/05	14, वीरप्पा चेट्टियार कॉलोनी, सिवनदा सेलई, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637408	बीवीएससी/ टीएनएयू/75	01-जून-50
3207	एस. दुर्ईसामी (आर. सेनगोड गुंडेर)	टीएनएसवीसी/251 0/05	14, नेताजी स्ट्रीट 2, सुकमपट्टीवलासु, इरोडे 638009, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/85	12-जन-62
3208	एस. दुर्ईसामी (सेनगोडन)	टीएनएसवीसी/191 8/05	असमहतापलायम, अलावईपट्टी डाक, वेन्दूर वाया, नमक्कल जिला 637505, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/86	01-जून-61
3209	एस. ईश्वरन (सी. सामंदी)	टीएनएसवीसी/143 6/05	104/20, कोडीथोजू स्ट्रीट, कुम्बम 625516, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/00	10-मई-76
3210	एस. इलांगोवन (एस. सिवासामी)	टीएनएसवीसी/247 9/05	186, एन.जी.जी.ओ. नगर, बलालर स्ट्रीट, थिरुकोइलूर 605757, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/83	30-मई-56
3211	एस. इलांगोवन (टी. सीथन)	टीएनएसवीसी/195 6/05	4/1270-ए, III स्ट्रीट, नॉर्थ क्रॉस, ई.बी. कॉलोनी, धर्मपुरी- 5, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/88	24-मई-66
3212	एस. ईश्वर शीला, पत्नी (डी. सुरेश क्रिस्टोफर)	टीएनएसवीसी/171 6/05	17/2, थताचेरियन आर्केड, मम्बाला सेलई, त्रिची 620005, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/89	14-जन-65
3213	एस. ईश्वरी, पुत्र श्री ज्ञान शंकर	टीएनएसवीसी/344 7/06	नया न. 117, अम्बलम थोड्डा, मलप्पाचेट्टियार स्ट्रीट, अरुप्पु कोटई 626101, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/95	06-जुला-71
3214	एस. एजिलवेलान (पी. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/855 /05	16, विजय गणपति नगर, III स्ट्रीट, उलाग्राम, चेन्नई-91	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/96	04-अग-70

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3215	एस. गधपति मरान (एस. शानमुगानाथन)	टीएनएसवीसी / 145 1/05	139/डब्ल्यू 3, वेस्ट स्ट्रीट, कोडुरविलारपट्टी डाक, पेरियाकुलम तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/88	29-मई-65
3216	एस. गणेश कुमार (एम. सुंदरराजन)	टीएनएसवीसी / 304 2/05	29/सी, अवईयार स्ट्रीट, सुब्रमण्यापुरम, त्रिची 620020, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	02-सित-81
3217	एस. गायत्री (के. सुंदरम)	टीएनएसवीसी / 159 /03	118, सवादी स्ट्रीट, रामापुरम पुडुर, नमक्कल, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	04-जून-80
3218	एस. गायत्री (एस. सुकुमारन)	टीएनएसवीसी / 130 /03	1, के 6, टी.ए.एम.एस. कॉलोनी, भारतीय आईटीआई के पीछे, धर्मपुरी 638702, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	14-दिस-78
3219	एस. गोबीनाथ (एम. शानमुगा सुंदरम)	टीएनएसवीसी / 91 /03	थिरुवलुवर सोसायटी के निकट, न. 3, कोमारपलायम डाक, मल्लूर वाया, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, डी-636203, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	15-जुला-79
3220	एस. गोकुलाकृष्णन, पुत्र श्री ए. सेनगोटइय्यन	टीएनएसवीसी / 339 1/06	46, पूलुवापट्टी, अय्यमपलायम डाक, इरोडे जिला, पिन 838455, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	15-मई-82
3221	एस. गोपालकृष्णन (जी. सनथमा राघवन)	टीएनएसवीसी / 130 8/05	प्लॉट न. 4, 5वां क्रॉस, अमायप्पा नगर, वयालूर रोड, त्रिची 820017, तमिलनाडु	बीबीएससी/एसयू/ 73	23-जून-48
3222	एस. गोपालस्वामी (ए. सुब्बामूनन)	टीएनएसवीसी / 252 2/05	मुरुगा गूडेन पुथुर, नोधीकुट्टी डाक, पी. पुलियमपट्टी वाया, 638459, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/65	10-मई-81
3223	एस. गोवर्धनन (एन. श्रीरामुलु)	टीएनएसवीसी / 213 2/06	नया न. 40, पुराना न. 36, वर्धराजन स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई-17	बीबीएससी/ टीएनएसयू/82	14-मई-57
3224	एस. गुनसेखरन, पुत्र श्री ए. शानमुगम	टीएनएसवीसी / 337 2/06	न. 177, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, अलपक्कम, पोरूर जिला, चेन्नई 600116, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	02-जुला-81
3225	एस. गुनवथी (वी. सुंदरम)	टीएनएसवीसी / 300 8/05	50, इलांगो स्ट्रीट, अरुम्बायूर डाक, 821103, विपथट्टई तालुक पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	03-मई-82
3226	एस. गुरुवइयाह (आर. सुंदरम)	टीएनएसवीसी / 248 1/05	30/257ए, सुरिया गांधी स्ट्रीट, के.वी.आर. नगर, विल्लुपुरम, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/65	10-मई-60
3227	एस. हमसा प्रिया (एस. सुंदरसन)	टीएनएसवीसी / 386. /04	न.3, गंगई स्ट्रीट, समुंदीश्वरी नगर, अनकापुथुर, चेन्नई - 70, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	18-मई-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3228	ए.स. इलांगोवन (बी. सुंदरसिं)	टीएनएसवीसी/979/05	नम्बीवयल डाक, पददुकोटई तालुक, थंजावुर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/88	22-अप्रैल-65
3229	ए.स. इलयाराजा (एन. सेल्याराज)	टीएनएसवीसी/237/04	न. 11, मीनाइल्लम, मददूसंधाई रोड, मन्नई नगर, पददुकोटई 614801, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/04	05-जून-80
3230	ए.स. जगन्नाथन (पी. सुब्रामनी)	टीएनएसवीसी/828/05	278/158, गांधी नगर, अट्टूर डाक, सलेम जिला, तमिलनाडु, पिन 636102, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/02	01-जुला-78
3231	ए.स. जयशंकर (ए.स. सिवासंकरन)	टीएनएसवीसी/206/05	17, सर्वेयर चोक्कालिंगम स्ट्रीट, एम.डी.आर. नगर, चोक्कालिंगपुरम, अरुपुकोटई 826101	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/97	20-मई-73
3232	ए.स. जयश्री (एन.टी. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी/391/04	एसएलटी फीट, अपस्टेयर्स, कोडईकनाल, कौडीचेटिपट्टी मोहानूर रोड, नमक्कल जिला 63700, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/04	25-जुला-81
3233	ए.स. जयचंद्रन (एन. सांघनम)	टीएनएसवीसी/242/05	335/4, अमरजोथी गार्डन, गांधीग्रामम उत्तर, करूर- 639004, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/97	21-जुला-74
3234	ए.स. जयहचत्रा (सी. सत्यनारायणन)	टीएनएसवीसी/138/05	न. 18/28, पेरियास्वामी पिल्लै स्ट्रीट, फातिमा नगर, कृष्णागिरि -635001, कृष्णागिरि जिला	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/00	12-जुला-74
3235	ए.स. जयचित्रा, पुत्र श्री ए. सेनगोदट्टुवेल	टीएनएसवीसी/329/05	थलाथला मेदु, मेदट्टुपलायम, मलासमुद्रम डाक, टी.युडे तालुक, नमक्कल जिला- 637503, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	09-जून-82
3236	ए.स. जयकुमार (जे. सुब्रह्मदीस)	टीएनएसवीसी/208/05	प्लॉट न. ई2-ए, डोर न. 8ए, मदुरई पेरुमल नगर, वलासर्वक्कम, चेन्नई 600087	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/01	10-सित-78
3237	ए.स. जयकुमार (एम. सिवालिंगम)	टीएनएसवीसी/286/05	20/45, डीएमएम स्ट्रीट, कुमारासामीपेट, धर्मपुरी 836703, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/02	06-जून-77
3238	ए.स. जयकुमार (पी. आर. सतगोपम)	टीएनएसवीसी/262/05	154, सिंगन्ना चेट्टी स्ट्रीट, चिंदाद्रीपेट, चेन्नई 600002	बीवीएससी/टीएनएयू/76	15-जून-49
3239	ए.स. जयकुमार (ए.स. सदानंदन)	टीएनएसवीसी/560/05	न. 136, बाजार स्ट्रीट, वलापंडाल, पिन 632318, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/01	15-जून-78
3240	ए.स. जयंति (बी.एस. ए.स. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/920/05	44, थिरुनगर, डाक अम्बाथुरई (आर.एस.), डिंडीगल जिला, 824302, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/00	07-अप्रैल-76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3241	एस. जयशंकर (आर. सभापति)	टीएनएसवीसी/266/04	नॉर्थ स्ट्रीट, वेगाकोल्लई डाक, कुरिजीपडी वाया, पानरुति तालुक, कुडालूर जिला, पिन 607302	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/04	07-मई-78
3242	एस. जयावेल (बी.पी. सुब्रामनी)	टीएनएसवीसी/221 2/05	पिलियार कोविल कडु, पटनम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/97	25-मई-74
3243	एस. जीवानंधम (एन. सिंगारावेलु)	टीएनएसवीसी/582 /05	डोर नं. 50ए, कोविल नॉर्थ स्ट्रीट, विजयापुरम, थिरुवरुर जिला, पिन 610001, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/05	25-जुला-81
3244	एस. जेगा वीरापंडियान (पी. संकरइयाह)	टीएनएसवीसी/217 /03	3/1308, ग्राम जेट्टी हल्ली रोड, धर्मपुरी 836701, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/03	09-जुला-77
3245	एस. जयाकुमार (एस. सुबइयाह)	टीएनएसवीसी/319 3/05	8, 17वीं साउथ स्ट्रीट, थियागराजा नगर, तिरुनेलवेली -627011, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनएसयू/65	26-फर-81
3246	एस. जॉन सेमुअल (के. ए. सेत्वामोनी)	टीएनएसवीसी/217 8/05	659, मेरिबा, बेंजामिन स्ट्रीट, निसामोनी नगर, नगरकोइल, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनएसयू/65	18-मई-58
3247	एस. जोथी कुमार (के. पी. सिवामनि)	टीएनएसवीसी/207 /03	402/ए, कोयडू मेन रोड, नम्बियूर 836458, गोबी तालुक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/03	24-मार्च-79
3246	एस. कबीलान (बी. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/461 /05	अयक्कारनपुरम II, (डाक) बंदारानियम (तालुक), नगाई (जिला) 614707, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/06	01-अक्टू-80
3249	एस. काला (एम. ओमुरुगन)	टीएनएसवीसी/195 8/05	नं.19, लोगनाथन स्ट्रीट, ताम्बरम वेस्ट, चेन्नई 600045, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनएसयू/88	12-मई-65
3250	एस. कलईमनि (आर. सुब्रामनी)	टीएनएसवीसी/334 /04	पनकाडु, कल्लनगुलम, आर. पुडुपलायम डाक, नमक्कल जिला 637408, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/04	20-जुला-80
3251	एस. कालीश्वरन (पी. सम्पथ)	टीएनएसवीसी/277 /04	36/19, कुपंदर स्ट्रीट, 4, पुडुपलायम डाक, गोबीचेट्टी पलायम, इरोडे जिला, पिन 638452	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/04	11-जुला-80
3252	एस. कलियापेरुमल (के. सोमासुंदरम)	टीएनएसवीसी/260 9/05	मलाईयरनाथम, एन.वी. कुडीकडु डाक, पूडी वाया, थंजावूर जिला, 613502, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/84	28-जुला-71
3253	एस. कल्पना (पत्नी एस. हेमंत)	टीएनएसवीसी/442 /05	76, मेददू स्ट्रीट, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/05	11-अप्रैल-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3254	एस. कनगलक्ष्मी (बी. संकरपडियान)	टीएनएसवीसी/301 3/05	37-1, दक्षिणी पुथुग्रामम, ओडई थेरु न.1, कसेविलपट्टी, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	02-अप्रैल-82
3255	एस. कनगराज, पुत्र श्री वी.के. सुब्रामण्यन	टीएनएसवीसी/335 8/06	8/129-जेड, मुनियप्पनकोविल, पलक्कापलायम डाक, संकेरी पश्चिम 637303, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	22-जून-80
3256	एस. कन्नन (पी. सेनगोट्टियन)	टीएनएसवीसी/254 /04	नत्ताथन्नीर थोट्टम, थोपापट्टी डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637406, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	10-जून-79
3257	एस. कन्नन (सारंगमानी उदयार)	टीएनएसवीसी/114 3/05	778/3(3/424बी), सेल्वानगर, थाथमपट्टी डाक, होली क्रॉस स्कूल के निकट, सलेम तालुक व जिला, 636014	बीवीएससी/ टीएनएयू/78	24-जून-53
3258	एस. कनियप्पन (के. सिवासुब्रामण्यम)	टीएनएसवीसी/261 6/05	26, बलराजपुरम, वीरारकियम डाक, कुलीथलई तालुक, करूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/00	18-जून-76
3259	एस. करुपड्याह (एस. संकर)	टीएनएसवीसी/131 6/05	टी. कृष्णापुरम डाक, सपतुर वाया, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/94	19-मई-71
3260	एस. कथिरेसन (ए. सेल्वम)	टीएनएसवीसी/640 /05	कट्टी गुंडेर हाउस, वेल्लाकल पट्टी डाक, नामागिरिपेट वाया, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला- 637406, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच/पीयू/05	05-मई-82
3261	एस. काथिरवेल (सेलप्पन)	टीएनएसवीसी/120 0/05	12, प्रथम स्ट्रीट, सी.एच.वी. कॉलोनी, वेलूर रोड, तिरुचेनगोडु 637211, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/84	06-अप्रैल-60
3262	एस. कविथा (एम. संजीवी)	टीएनएसवीसी/464 /05	3/9, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, आर.के.पेट, 631303, थिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	20-जून-82
3263	एस. कविथा (पत्नी एस. सिवाकुमार)	टीएनएसवीसी/144 0/05	6, टेलीफोन एक्सचेंज, नॉर्थ स्ट्रीट, थंडराल नगर, बोडीनायकानूर, थेनी जिला	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/97	22-जुला-74
3264	एस. कीर्थिका (आर. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/314 /04	अट्टावनी पुडुर, मुक्कासी पुडुर डाक, भवदानी तालुक, इरोड जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	11-अप्रैल-80
3265	एस. कोकिला, पुत्र श्री जी. स्वामी	टीएनएसवीसी/341 9/06	न. 137, थिरुनीरमलई रोड, पश्चिमी ताम्बरम, चेन्नई 600045, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	04-दिस-82
3266	एस. कृष्ण कुमार (के. सुब्रय्याह)	टीएनएसवीसी/116 6/05	15/126, के.एस.आर. नगर, थेनी, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/02	09-सित-74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3267	के. कृष्णामनि (एस. सुब्रमण्या नादर)	टीएनएसवीसी/272 8/05	2/38ए, ईस्ट स्ट्रीट, ए.पी. नादरूर, पोर्टल पुडुर वाया, अलंगुलम तालुक, 627423, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/93	07-जन-68
3268	एस. कृष्णामूर्ति (के.के. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/251 9/05	12, कलामेगम स्ट्रीट, गोबीचेट्टी पलायम, पेरियार जिला, पिन 638452, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/85	09-जन-61
3269	एस. कुञ्जान्धेइवेलु (टी. वी. सुब्रामण्यम)	टीएनएसवीसी/120 2/05	ओम शक्ति मुरुगन इल्लम, टीघर्स कॉलोनी, आलमपलायम, इरोडे 638008, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/89	01-जून-67
3270	एस. लक्ष्मनन (वी. सांथनम)	टीएनएसवीसी/324 8/05	4/22, इलांगो नगर, डाक करियापट्टिनम साउथ, तालुक वेदरानयम, जिला नागपट्टिनम 614806	बीवीएससी/ टीएनएयू/75	10-जन-48
3271	एस. लावण्या, पुत्र श्री पी. सुब्बाराजू	टीएनएसवीसी/355 6/06	'जमुना इल्लम', 32, आयनार कोइल स्ट्रीट, थेक्काथिर (के सामने), मदुरई 625018, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच/पीयू/05	09-फर-83
3272	एस. लोगा सुंदरी (पत्नी डी. सोथी सेल्वन)	टीएनएसवीसी/212 0/05	35, न्नापालया स्ट्रीट, विल्लुपुरम 605602, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/87	04-जून-64
3273	एस. लोगनाथन, पुत्र श्री एम. सेनगोडन	टीएनएसवीसी/339 4/06	10, महेंद्रपुरी, बालाजी नगर, कन्ननकुरिची डाक, सलेम-8, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/83	25-अप्रैल-60
3274	एस. लोगेश्वरी (के. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी/490 /05	3/18, लोगेश्वरी इल्लम, कोंडीचेटीपट्टी, पेरियापट्टी डाक, नमककल -637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	06-जून-82
3275	एस. लोकनाथन (सिवासुब्रामण्यम)	टीएनएसवीसी/172 3/05	6, मारुथि सेलई, अन्नामलाई नगर एक्सटेंशन, त्रिची-18, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/74	24-फर-51
3276	एस. मदन मोहन (बी. सुंदरा कृष्णन)	टीएनएसवीसी/240 4/05	न. 231, मासिलामनिपुरम, डिंडीगल 624005, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 73	01-जून-50
3277	एस. मधन, पुत्र श्री आर. सुब्रामण्यन	टीएनएसवीसी/332 1/06	32, शक्ति नगर, गांधीग्रामम, पशुपतिपलायम डाक, करूर 639004, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	07-अक्टू-81
3278	एस. माधुरी (जी. सुब्रह्मयाह)	टीएनएसवीसी/551 /05	डी-192, सुंदरार स्ट्रीट, अलगप्पन नगर, मदुरई 625003, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	19-दिस-81
3279	एस. महालक्ष्मी (जी. सेल्वाराज)	टीएनएसवीसी/324 /04	न. 9, पेन्नाग्राम रोड, पोपरपट्टी डाक, धर्मपुरी जिला 636809, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	11-अप्रैल-80
3280	एस. महालिंगम (एम. सोरीमुथु)	टीएनएसवीसी/217 9/05	वैलाहम 1, कोलाविलई स्ट्रीट, वडासेरी, नगरकोइल 629001, के.के. जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/89	20-जुला-66

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3281	एस. महेंद्रन	पोण्डीएसवीसी / 268 / 05	35, तीसरी स्ट्रीट, कट्टाबोमन स्ट्रीट, मनावेली अरियंकुप्पम, पोण्डीचेरी-7	बीवीएससी/एंडए एच/पीयू/05	20-अक्तू-81
3282	एस. महेश (के. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी / 135 6/05	पूनथोदटम, मक्कलपुडुर, ग्राम वेललापलायम डाक, सक्ति नगर, इरोडे जिला 638315, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/01	05-जून-78
3283	एस. मलमरुगन (बी. शानमुगासामी)	टीएनएसवीसी / 274 2/05	590, पेरियार नगर, सत्तूर 626203, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/95	10-जून-72
3284	एस. मनि (पी. सेनगोटा गूंडेर)	टीएनएसवीसी / 187 7/05	मेन कडु, सिरुवचूर डाक, अददूर तालुक, सलेम जिला 636112, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/94	24-जून-71
3285	एस. मनिगनेश (सी. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी / 221 0/05	11/7-4, एम.एस.जी. स्ट्रीट, कोलाथुर डाक, मेददूर तालुक, सलेम जिला, पिन 836303, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/96	31-मई-73
3286	एस. मनिभारन (बी. सेलामुथु)	टीएनएसवीसी / 190 3/05	5/1705, पेरुमल गूंडेर स्ट्रीट, इलक्कियमपट्टी, धर्मपुरी-5, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/89	10-मई-64
3287	एस. मनिमैकलई (एस. सदासिवम)	टीएनएसवीसी / 245 /04	डोर न. 3/259, थुम्बईपट्टी आरओ, मेलूर तालुक, मदुरई जिला, पिन:625106, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/04	11-फर-76
3288	एस. मनिवन्नन (के.टी. सिंगाराकेलु)	टीएनएसवीसी / 247 5/05	2/83, नेदुन थिरु, कोलईनूर 605103, विल्लुपुरम तालुक, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/62	05-मई-59
3289	एस. माण्डीचामी (एम. शानमुगाइयाह)	टीएनएसवीसी / 266 7/05	न. 1/15ए, कडारमीरन नगर, धर्मल नगर । (के सामने) ट्यूटीकोरिन 628006, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/95	20-जुला-72
3290	एस. माण्डीमुथु (ए. सुबइयाह)	टीएनएसवीसी / 147 7/05	474बी, आरुमुगमपट्टी पूर्व, सिवंधीपुरम, विक्रमसिंगपुरम 627425, तिरुनेलवेली जिला	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/91	09-जन-68
3291	एस. माण्डीमुथु (एस. सुंदरम)	टीएनएसवीसी / 919 /05	628, थियागी मुथुकुमारसामी नगर, गांधी मार्केट, उत्तरी ओडानचटरम डाक, डिंडीगल जिला 624619	बीवीएससी / टीएनएयू/87	09-फर-61
3292	एस. माण्डीवन्नन (बी. सुबइयाह)	टीएनएसवीसी / 279 5/05	187, श्रीनिवास नगर, सकुत्तई, कुम्बाकोनम 612001, थंजापूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/80	30-मई-58
3293	एस. मीनाक्षी सुंदरम (जी. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी / 289 1/05	न.2/1036, मेन एनीमल स्ट्रीट, राजा राजेश्वरी नगर, मादीपक्कम, चेन्नई 800091	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/95	12-मई-66
3294	एस. मीनालोचानी (एम. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी / 727 /05	11, पेरियाथोदटम, नसारथपेट्टई, कांचीपुरम पिन 631501, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/02	14-सित्त-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3295	एस. मे तिरु अनल (डी.डी. साथीदास)	टीएनएसवीसी/230 9/05	"मिज़पाह", 100-अब्बास गार्डन, टी.वी.एस. नगर, कोयम्बतूर 641025, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/78	04-मार्च-52
3296	एस. मोहम्मद अब्दुल कादर (ए. शेख मोहम्मद)	टीएनएसवीसी/906 /05	17/177सी, पोन्प्पा नादर लेन, डिंडीगल-3, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/88	31-मार्च-65
3297	एस. मोहम्मद खान (वाई. समसखान)	टीएनएसवीसी/110 6/05	पुराना डोर न. 16ए, नया डोर न. 43, काजीमार मेन स्ट्रीट, मदुरई-1, पिन 625001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/88	01-जुला-66
3298	एस. मोहम्मद शफी (एम.पी. सैयद अहमद)	टीएनएसवीसी/307 8/05	एच-147, अंबू नगर, तीसरा मेन रोड, तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/80	28-जन-57
3299	एस. मोहन (एस. सुबइयाह)	टीएनएसवीसी/313 0/05	न. 2, मुथुसामी स्ट्रीट, विरुधुनगर, 826001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/76	05-फर-53
3300	एस. मोहनराज (के. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/815 /05	26, कोवलन स्ट्रीट, चेन्नीमलई, इरोडे 838051, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/01	19-अप्रैल-78
3301	एस. मोहनराज (एस. सारंगन)	टीएनएसवीसी/142 8/05	प्लॉट न. 44, 8वां क्रॉस, अरुलनंदा नगर, थंजावुर, 613007, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/82	02-जुला-56
3302	एस. मोहनराज (एस. सुंदरम)	टीएनएसवीसी/491 /05	पेरामलई कडु, मुंजानूर डाक, त्रिचेनगोडु तालुक, नमक्कल जिला 637403, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	10-जून-81
3303	एस. मोहिदीन अब्दुल कादिर जिलानी (सुलेमान)	टीएनएसवीसी/269 0/05	1बी, सुब्रामण्यम स्ट्रीट, पलायमकोटई, तिरुनेलवेली 627002, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/79	01-जून-56
3304	एस. मुरली (टी. सामीकन्नु)	टीएनएसवीसी/262 0/05	अम्मापलायम, अलपुरम डाक, मेनिसी वाया, पापीरेड्डीपट्टी तालुक, धर्मपुरी जिला 636904, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/00	02-जून-76
3305	एस. मुरुगइयाह (बी. शुनमुगावेल)	टीएनएसवीसी/308 7/05	79, अम्मन कोइल स्ट्रीट, डाक मेलाग्राम, तालुक तेनकासी, पिन 627816, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/89	08-फर-62
3306	एस. मुरुगन (ए. युबइयाह)	टीएनएसवीसी/127 7/05	11ए/20, भरतियार तीसरी स्ट्रीट, संकरनकोविल 627756, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/94	29-मई-71
3307	एस. मुरुगन (पी.के.वी. संकरन)	टीएनएसवीसी/308 2/05	24, साउथ चोकर स्ट्रीट, तेनकासी 627811, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/ 74	25-अप्रैल-49
3308	एस. मुरुगन (सुंदर राजन)	टीएनएसवीसी/144 9/05	51, मैस्त्री संकरइयाह स्ट्रीट, साउथ स्ट्रीट, अरुप्पुकोटई, विरुधुनगर जिला 626101, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/88	10-मई-65

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3309	एस. मुकुगन, पुत्र श्री एस. सुब्रह्म्याह	टीएनएसवीसी / 348 6/08	प्लॉट नं. 72, किरुबा नगर, किजानाथम डाक, तिरुनेलवेली 627353, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/01	17-जून-78
3310	एस. मुकुगनाथन (ई. सिवापरुमल)	टीएनएसवीसी / 272 1/05	241, थोपुर नया ग्राम, तिरुवेंदूर डाक, द्यूटिकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/95	29-दिस-70
3311	एस. मुकुगेसन (एस. सुंदर वेन्नायुथम)	टीएनएसवीसी / 308 6/05	4321, सोरना मलार स्ट्रीट, गोतथीपुरम, छाटा मेन रोड, मदुरई 625020, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/63	07-अक्टू-60
3312	एस. मुकुगेसन (टी. सुब्रह्म्याह)	टीएनएसवीसी / 239 6/05	4, नलाथनेर किनारु स्ट्रीट, थिरुमलपुरम, बोडीनाकनूर,थेनी जिला 625513, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/64	09-मई-61
3313	एस. मुकुगह्याह (सुब्रह्म्याह)	टीएनएसवीसी / 834 /05	एच-6, आर.एम. कॉलोनी, मेन रोड, डिंडीगल 624001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/76	08-अप्रैल-48
3314	एस. मुकुसामी (एन. श्री रंगा गुंडेर)	टीएनएसवीसी / 300 9/05	कडप्पानलूर डाक, भवानी तालुक, पेरियार जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू/ 64	15-जन-40
3315	एस. मुकुसामी (एस. सेथरमाप्पामी)	टीएनएसवीसी / 163 2/05	10, संकरसिथी विनायगर कोइल स्ट्रीट, संकरनकोविल डाक, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/77	11-जून-52
3316	एस. मुकुसामी पंडियन (एस. सीनीपंडी)	टीएनएसवीसी / 926 /05	123/4, अयानापुरम, छत्रपति डाक 626102, राजापलायम वाया, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/95	13-मार्च-72
3317	एस. मुकुमिल रफीक (एम. शेख मंसूर)	टीएनएसवीसी / 283 7/05	प्लॉट नं. 11, प्रथम स्ट्रीट, राम सैत नगर, थोरपडी, वेल््लोर 832002, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/64	02-अप्रैल-61
3316	एस. नागालक्ष्मी, पुत्र श्री के. सेत्वारज	टीएनएसवीसी / 353 6/06	85बी, वीरावांचीनगर, प्रथम स्ट्रीट, कोविलपट्टी, द्यूटिकोरिन जिला, 628501, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/08	26-दिस-61
3319	एस. नागालिंगम (ए. सुंदरेसा रामालिंगम)	टीएनएसवीसी / 126 3/05	औदूर वाया, श्रीवेकुंटम तालुक, उमरीकडु 62815, द्यूटिकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/76	04-मार्च-52
3320	एस. नागराजन (एन. सुब्रह्म्याह)	टीएनएसवीसी / 221 3/05	कडियार स्ट्रीट, डाक उत्तरी अम्बलापट्टु, वाया पप्पनाड, ओराथनाड तालुक, तंजौर जिला, 614626	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/81	12-मई-68
3321	एस. नलायिनी (एन. सुंदराजन)	टीएनएसवीसी / 124 /03	वालसाकडु, थिरुचित्राम्बलम डाक, पट्टुकोटई तालुक, धंजापुर जिला- 61462, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/03	29-अक्टू-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3322	एस. नलिनी (एस. संगरालिंगम)	टीएनएसवीसी/121/03	नन्थवाना थोट्टम, बाला मुनियप्पन के निकट, कोवी थिरुमलईगिरि (दक्षिण) के.एन. पट्टी, नमक्कल तालुक व जिला-637404, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/03	25-मई-79
3323	एस. नामागिरिलक्ष्मी (एल. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी/119/03	80, मुरुगन कोविल स्ट्रीट, गांधीनगर, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/03	15-जून-79
3324	एस. नंद कुमार (ए. सुंदरम)	टीएनएसवीसी/533/05	वेलीथिरुपुर डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला 638314, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/05	01-मई-82
3325	एस. नंदगोपाल (जी. संकरप्पन)	टीएनएसवीसी/239/4/05	3/2125, एस.एन. पुरम डाक, थिरुथंगल वाया, विरुधुनगर जिला, पिन 626130, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/88	20-अप्रैल-86
3326	एस. नटराजन (आर. सेनरायन)	टीएनएसवीसी/269/8/05	एन.एस.के. नगर, थेंगलवरई, मेट्टूर डैम-2, सलेम जिला, 626402, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/96	10-फर-67
3327	एस. नटेशन (एम. सेवी गूडेर)	टीएनएसवीसी/252/0/05	64-2, कामराज स्ट्रीट, अम्मापेट्टई डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला, पिन 638311, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/79	15-अग-52
3328	एस. नेलसन सैम, पुत्र श्री डी. सामराज	टीएनएसवीसी/352/3/06	12/8, मुदलीमार नॉर्थ स्ट्रीट, कोट्टार, नगरकोइल 629002, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/96	08-जून-73
3329	एस. नीलेसन (एस. सुंदरम)	टीएनएसवीसी/412/04	सैंथनगुडी, नागलम डाक, अलंगुडी तालुक, पुडुकोट्टई जिला, पिन 614624, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/04	15-जून-79
3330	एस. नित्या (आर. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/566/05	थोट्टियापट्टी डाक, वैयप्पामलई वाया, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637410, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/05	04-जून-82
3331	एस. पलानी स्वामी (एल. सुबइयाह गूडेर)	टीएनएसवीसी/326/4/05	5/87, सुंदाकरई पुडुर, डाक वेलीनांगडूर, वाया करमडई, कोयम्बतूर 641104, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/84	10-मार्च-80
3332	एस. पलानीयप्पन (पी. आर. सुंदरम)	टीएनएसवीसी/328/4/05	पी-9, तीसरा मेन रोड, रामलिंगा नगर, वोरियूर, त्रिची 620003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/83	12-अप्रैल-57
3333	एस. पलानीचामी (जी. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/166/1/05	371, अलगई नगर, राजापलायम, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/92	01-मई-69
3334	एस. पलानीसामी (के. सुब्बारायन)	टीएनएसवीसी/115/9/05	2/82, ईचावरी, बोम्मासमुद्रम डाक, नमक्कल तालुक, सलेम जिला, 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/83	21-अप्रैल-58
3335	एस. पन्नीरसेल्वम (वी. सुवासुब्रामण्यम)	टीएनएसवीसी/224/2/05	रामनाथपुरम डाक, (वाया), सेंदामंगलम 637409, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/98	03-जुला-75

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3336	एस. पार्थसारथी (एस. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/114 2/05	कलकट्टनूर डाक, वेन्ननदूर वाया, नमक्कल जिला 637505, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/95	10-जून-71
3337	एस. पार्थसारथी (जी. श्रीकृष्णन)	टीएनएसवीसी/312 5/05	के. दुरईसामीपुरम, अरुगुलम डाक, विलाथीकुलम तालुक, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/83	07-मई-66
3338	एस. प्रतिभन (सी. सनगोडेन)	टीएनएसवीसी/516 /05	पुल्लीपलायम, मोरूर रोड, संगकिरी तालुक, सलेम जिला 637304, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	15-मई-79
3339	एस. प्रतिभन (पी. सदागोपन)	टीएनएसवीसी/567 /05	पुराना न. 50, नया न. 3, पामबती स्ट्रीट, थंजावूर 613001, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	13-सित-77
3340	एस. प्रतिभन (आर. सिवामूर्ति)	टीएनएसवीसी/634 /05	2/112, इल्लई अम्मन कोइल स्ट्रीट, चिन्ना बाबू समुद्रम एवं डाक, विल्लुपुरम तालुक, पिन 605102	बीबीएससीएंडएच/ पीयू/05	16-मई-83
3341	एस. पेरुमलसामी (के. सी. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी/247 2/05	एमएसआर इल्लम, गोविंद नगरम डाक, गंडानूर वाया, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ एमयू/64	30-नव-41
3342	एस. पेरुमलसामी (सुब्रह्मय्य)	टीएनएसवीसी/310 8/05	6, थेंडशाल नगर, भारती नगर पूर्व, पेरुमलपुरम, पलायम कोट्टई 627007, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/74	07-जून-51
3343	एस. फणि कुमार मोथुला, पुत्र श्री प्रसाद राव पी.	एपीएसवीसी/4356 /05	दूसरी लेन, एल.आर.पेटा, पलाकोल, प.गो. जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएच/ एएनजीआरएसयू/05	24-नव-79
3344	एस. पिरामनयगम (टी. शानमुगासुंदरम)	टीएनएसवीसी/309 6/05	43, पी एंड टी. कॉलोनी, त्यागराज नगर, तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/78	21-मई-55
3345	एस. चोनपंडी (के. सुरिलीयंडी)	टीएनएसवीसी/108 7/05	133/1, कुप्पनचेदितयार स्ट्रीट, करुकट्टनपट्टी रोड, उसीलमपट्टी, मदुरई (जिला)	बीबीएससी/ टीएनएसयू/63	05-जुला-58
3346	एस. प्रभाहरन (आई. सूसाईराज)	टीएनएसवीसी/61 /03	न.60, मूनमचावडी उमारेडुडीयूर डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला 638311, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	21-मार्च-78
3347	एस. प्रभाकरन (एस.पी. सेम्बा गूडेर)	टीएनएसवीसी/101 4/05	पेरियाकोडमपट्टी डाक, सिक्कमपट्टी, ओमालूर तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/77	02-मई-50
3348	एस. प्रभु (आर. सूसाई)	टीएनएसवीसी/892 /05	6-144-1, डेवी लैंड, सिन्नुपट्टी, रंडियापट्टी डाक, बाटलागुंडु 624202, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/91	08-मार्च-68
3349	एस. प्रदीपा (के.ए. सोमासुंदरम)	टीएनएसवीसी/310 /04	नेलकोनकट्टई डाक, कम्बईनल्लूर वाया, धर्मपुरी जिला- 835202, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	03-मार्च-60

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3350	एस. प्रसाद (एम. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/142 5/05	मुमुनाकडु कुरुविकरामबई डाक, पेरापुरानी तालुक, थंजावूर जिला, पिन 614802	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/02	26-अप्रैल-77
3351	एस. प्रेमा (एन. नीलाकंदन)	टीएनएसवीसी/160 7/05	51/65, स्टेट बैंक कॉलोनी एक्स., नांगानल्लूर, चेन्नई 600081, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/96	22-फर-73
3352	एस. प्रेमकुमार (के. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी/514 /05	न. 21, चौथा क्रॉस रोड, चट्टारम स्कूल स्ट्रीट, पट्टाभिराम, चेन्नई 600072	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/05	18-मार्च-82
3353	एस. प्रेमकुमार (आर. सुंदरराजन)	टीएनएसवीसी/150 6/05	385, छठी मिडल स्ट्रीट, थियागराज नगर, तिरुनेलवेली 627011, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/94	19-मई-71
3354	एस. प्रिसिला रानी (एस.डी. सिमिओन)	टीएनएसवीसी/147 2/05	38 सी. पौलराज अपार्टमेंट्स, गणपथिराज नगर सलई, विरुगम्बक्कम, चेन्नई 600092	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/97	24-मई-74
3355	एस. प्रिया (सी.एस. सत्यनाथन)	टीएनएसवीसी/98 /03	5, बालाजीनगर, आर.वी. नगर डाक, कोडुंगुडूर, चेन्नई 600, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/03	09-जन-80
3356	एस. प्रियदर्शिनी, पुत्र श्री एम. सुंदरराजन	टीएनएसवीसी/333 1/06	नीरमुल्लीकुट्टई डाक, सलेम जिला, पिन 636138, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/85	06-अक्टू-80
3357	एस. पुगलेश्वरी (आर. सोमासुंदरम)	टीएनएसवीसी/211 9/05	276/बी 1, कल्याण नगर, धुरियूर रोड, पेराम्बलूर 621212, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/86	26-जुला-61
3358	एस. पुनिथावल्ली (सी. सिवागनेशम)	टीएनएसवीसी/306 3/06	सेनगुथर नगर, मारुथूर डाक, पोरीपरापी वाया, पेराम्बलूर 621710, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/06	15-जुला-61
3359	एस. पुनिया मूर्ति (के. सेथुरमन)	टीएनएसवीसी/652 /06	न. 2ए, भारती दासन स्ट्रीट, वेदाचलम नगर, सेवेलीमेडु डाक, कांचीपुरम 631502	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/68	04-मई-71
3360	एस. पुरुषोत्तम (एम. के. स्वामीनाथन)	टीएनएसवीसी/322 5/06	16, पिन्ना अयाडु लेड, सावरीपलायम रोड (सीम्स स्कूल के सामने), सावरीपलायम, कोयम्बतूर 641028, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/75	16-जन-84
3361	एस. राधाकृष्णन (टी. एस. साधुरामानंदकर)	टीएनएसवीसी/321 6/06	100/5, मीनाक्षीनगर, सलई पुंडुर, कोविलपट्टी- 628503, द्यूटिकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/78	19-सित-83
3362	एस. रघु (बी. सेल्वराज)	टीएनएसवीसी/264 9/06	172, एम.बी.टी. रोड, नरसिंंगपुरम, थिरुवल्लम डाक, पिन 632515, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडएएसयू/00	19-जून-75

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3363	एस. राजा (एम. सेनगोडिन)	टीएनएसवीसी / 105 5/05	24/39, पोनानडी गूडेर स्ट्रीट, कलुनी स्कूल के निकट, सिवा सामी पुरम, पुडुर, सलेम-7	बीवीएससी / टीएनएयू/86	17-जुला-80
3364	एस. राजागोपाल (एस. सैथियन)	टीएनएसवीसी / 292 7/05	22/ए, मडलमपट्टी, थेरूर डाक, सेलेम जिला 637104, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/00	24-जुला-73
3365	एस. राजामीना (एस. शानमुगम)	टीएनएसवीसी / 477 /05	44/1, रेलवे फीडर रोड, विरुधुनगर, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/05	29-अग-81
3366	एस. राजामुथु (आर. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी / 149 /03	28/18ए, नॉर्थ कृष्णन कोइल स्ट्रीट, मदुरई 625001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/03	24-अप्रैल-80
3367	एस. राजन (आर. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी / 140 7/05	न. 4, अम्मु राजन इल्लम, काचिरापलायम रोड, कल्लु कुरिची 606202, विल्लुपुरम जिला	बीवीएससी / टीएनएयू/88	01-जून-85
3368	एस. राजापंडी (एस. सेरुवन)	टीएनएसवीसी / 168 4/05	डॉ. पलराज स्ट्रीट, काथीगुडी चटरम, थिरुमंगलम तालुक, मदुरई जिला 625701, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/91	10-मई-86
3369	एस. राजाराजन (एम. चिनइयाह)	टीएनएसवीसी / 148 4/05	प्लॉट न.41, पो न अशोक नगर एक्सटेंशन, पुडकोटई 622303, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/93	21-मई-70
3370	एस. राजाराजेश्वरी (एम.आर. सुबइयाह)	टीएनएसवीसी / 799 /05	81, इडयापोट्टल स्ट्रीट, श्रीविल्लुपुरम, विरुधुनगर जिला 626125, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/89	26-जून-86
3371	एस. राजारेथिनम (एम. सेलाम्बन)	टीएनएसवीसी / 933 /05	कोट्टानाथम डाक, वेडासंदूर तालुक, डिंडीगल जिला, 624620, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/76	
3372	एस. राजासेखर (के. सीरंगन)	टीएनएसवीसी / 444 /05	2/39, वागुरमपट्टी, वसंतपुरम डाक, नमककल 637002, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/05	31-जुला-81
3373	एस. राजासेखरन (जी. सामीनाथन)	टीएनएसवीसी / 479 /05	पप्पमपडी ग्राम, सिन्नपमपट्टी डाक, सलेम जिला, ओमुलूर तालुक, पिन 636306, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/05	07-मार्च-79
3374	एस. राजथी (सी. शुनमुगम)	टीएनएसवीसी / 192 /03	1/3, बी.वी.डी. रोड, दूवीपुरम, द्यूटिकोरिन, 628003, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/03	21-जन-80
3375	एस. राज एजिल (के. सिगामनि)	टीएनएसवीसी / 273 4/05	5/87, डॉ. अम्बेडकर नगर, जागीर रेडीपट्टी, अम्मापलायम डाक, सलेम, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/95	18-मई-72
3376	एस. राजेंद्रन (के. सुब्रह्मण्यन)	टीएनएसवीसी / 746 /05	5/146ए, मरियम्मन कोविल के पीछे, जागीर रेड्डी पट्टी, सलेम 636302, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/81	31-जुला-86

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3377	एस. राजेंद्रन (आर. सुंदर नायडु)	टीएनएसवीसी / 291 0/05	बैंक स्ट्रीट, कलियमपुंडी ग्राम व डाक, कांचीपुरम जिला, पिन 603402, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 76	04-मार्च-52
3378	एस. राजेंद्रन (एस. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी / 318 0/05	13, थिरुविकास्ट्रीट, वीरप्पन चटरम, इरोडे 638004, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 00	28-अग-75
3379	एस. राजेंद्रन (सुब्राया मूपेर)	टीएनएसवीसी / 140 4/05	37, टैंक स्ट्रीट, कल्लाक्कुरिची, विल्सुपुरम जिला 606202, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 83	20-जुला-60
3380	एस. राजेश कुमार (एस. सोमासुंदरम)	टीएनएसवीसी / 203 /03	16, के.के. सामी नगर, सलूर 641402, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 03	04-अप्रैल-60
3381	एस. राजेश्वरन, पुत्र श्री एन. सेत्वाराजन	टीएनएसवीसी / 351 4/06	38, वी. वनिया नादर स्ट्रीट, विरुधुनगर 626001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 85	28-फर-59
3382	एस. राजू (एस. सुब्रह्मय्य)	टीएनएसवीसी / 129 5/05	38, लेवेंगीपुरम, साउथ स्ट्रीट, थिरुकुरुंगुडी डाक, नानगुनेरी तालुक, तिरुनेलवेली जिला 627115	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 98	15-मई-70
3383	एस. राजू, पुत्र श्री सागी श्रीनिवास राव	एपीएसवीसी / 4305 /05	म.न. 13-228, टी.बी. एरिया, मनकीरल, आदिलाबाद जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एमएएंडएफएसयू / 0 5	15-अप्रैल-81
3384	एस. रामा सुब्रामण्यन (एल. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी / 202 4/05	79, पोनुरंगम स्ट्रीट, पुराना डोर न. 70, राजापलायम 626117, विरुधुनगर जिला	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 95	14-मई-72
3385	एस. रामाचंद्रन (आर. सिन्नप्पापिल्लै)	टीएनएसवीसी / 107 9/05	37/17, वर्दराजापुरम स्ट्रीट, कुम्बन, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 88	05-जून-65
3386	एस. रामाकृष्णन (के. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी / 198 1/05	2/311, राधाकृष्णन स्ट्रीट, नारायणपुरम, मदुरई-14, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 76	08-मई-54
3387	एस. रामाकृष्णन (आर. सुब्रह्मय्य)	टीएनएसवीसी / 239 9/06	मैलापुधुकुडी डाक, (वाया) अम्मानपुर, थिरुचेंदूर तालुक, ट्यूटिकोरिन-628201, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 93	19-जन-70
3388	एस. रामालिंगम (आर. सेथिलनाथन)	टीएनएसवीसी / 164 0/05	1/112, थेंडराल इस्लम, टाउन प्लानिंग नगर, नरसोथिपट्टी, सलेम 636004, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 00	05-मई-78
3389	एस. रमेश (ए. सुब्रारायम)	टीएनएसवीसी / 313 6/05	2/205, कोंगु नगर, कोवई रोड, अंडनकोविल ईस्ट डाक, करूर, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 01	02-जून-77
3390	एस. रमेश (पी. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी / 350 /04	कामरासवल्ली (डाक), अरियालूर (तालुक), पेराम्बलूर (जिला) 621715, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू / 04	10-अप्रैल-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3391	एस. रमेश (आर. स्वामीनाथन)	टीएनएसवीसी/245 8/05	न. 2,II क्रॉस रोड,III मेन रोड, अजीज नगर, अरुप्पुकोट्टई 626101, विरुधुनगर जिला	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/92	03-मई-89
3392	एस. रमेश बाबू (पी. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/110 0/05	21, सोलई इल्लम, 8वां क्रॉस स्ट्रीट, थिरुवत्तुधरनगर, पालंग नाथम, मदुरई-3, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/91	06-जून-85
3393	एस. रमेश (आर. सुयम्मु)	टीएनएसवीसी/3/ 02	25/32 ए. कुंजन विलई, मनिक्कट्टिपोटल डाक, नगरकोइल 629501, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/02	15-जून-78
3394	एस. रंगासामी (पी. श्रीरंगम)	टीएनएसवीसी/763 /05	कम्पारुंडर थोट्टम, अथियूर कॉलोनी, माइकेलपलायम डाक, अथियूर वाया, मवानी तालुक, इराण	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/02	21-अप्रैल-76
3395	एस. रतनावेल (के. सेनगुडागुंडेर)	टीएनएसवीसी/116 0/05	इरकंडु करयानूर, थंगलपलायम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 636318, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/89	03-मई-85
3396	एस. रवि (सी.ई. सेट्टिबाचारी)	टीएनएसवीसी/223 0/05	137-1/43बी, 13ए, गांधी नगर, वेलांडी पलासई डाक, इडापडी तालुक, 637105, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/92	26-जुला-89
3397	एस. रविचंद्रन (टी.बी. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/213 /03	22, नाञ्जप्पा स्ट्रीट, थाविट्टुपलायम, अथियूर, इरोडे 638501, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	31-जुला-77
3398	एस. रविचंद्रन (ए.एम. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/981 /05	प्लॉअ न. 98, रहमान नगर, राजमहल कल्याण मंडपम के निकट, मेडिकल कॉलेज रोड, थंजावूर 613004	बीवीएससी/ टीएनएयू/85	17-जुला-82
3399	एस. रविचंद्रन (ए. शिवालिगम)	टीएनएसवीसी/760 /05	सेनगापडुथंकाडु डाक, पट्टुकोट्टई तालुक, थंजावूर जिला 614613, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/98	30-जुला-74
3400	एस. रविचंद्रन (एम. सम्बासिवारेडिडियार)	टीएनएसवीसी/285 8/05	न. 77, मिडल स्ट्रीट, कुरुम्बाल्लुर डाक, पेराम्बल्लुरजिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/83	25-मई-57
3401	एस. रवीन्द्रन (सी. सिवामनि)	टीएनएसवीसी/312 1/05	16, मिडल वाइट बेटल स्ट्रीट, त्रिची 620008, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/01	26-जून-77
3402	एस. रविशंकर (जी. शंकररमन)	टीएनएसवीसी/928 /05	डोर न. 8-1-451एफ, कनाशा बैंक के पीछे, रेलवे स्टेशन, वडा मदुरई 624802, डिंडीगल जिला	बीवीएससी/ टीएनएयू/87	13-मई-64
3403	एस. रंगनाथन (के. श्रीनिवासाचरी)	टीएनएसवीसी/766 /05	जी1, मधु मदिनी टावर्स, 5/3, कुमारन कॉलोनी, I स्ट्रीट, सहदापेट, चेन्नई 600015	बीवीएससी/एमयू/ 70	30-अग-48

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3404	एस. रेनुकादेवी (पत्नी एस. आनंद मुरुगन)	टीएनएसवीसी/249 3/05	8, अंडल लेआउट, सरदार स्ट्रीट, उदामलपेट 642126, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/00	01-जुला-75
3405	एस. रेवथी, पुत्र श्री जी. सेल्वराजन	टीएनएसवीसी/335 6/06	उडयनठकरई (के निकट), कोनूर डाक, मेट्टूर तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	07-मई-82
3406	एस. सायराबानू (पी. समसुदीन)	टीएनएसवीसी/2/ 02	एफ 8, डॉ. अम्बेडकर, टेलीफोन क्वार्टर्स, टेलर्स रोड, किलपौक 600010, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/02	10-जून-78
3407	एस. सजयन (के. सहदेवन)	टीएनएसवीसी/259 /04	23/8, नेलीसेरी हाउस, कलियल एवं डाक, के.के. जिला, 829101, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	02-मई-79
3408	एस. सक्तिवेल (के. सुदालई)	टीएनएसवीसी/189 0/05	9/1 बी. सेनइयूर स्ट्रीट, मुधुकृष्णापुरम, कडायानल्लूर, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/02	11-जन-79
3409	एस. सक्तिवेल (पी. सुब्रामण्यम)	टीएनएसवीसी/168 /03	5/167, सेलियमपलायम, एसटीएल के सामने, अट्टूर, सलेम, पिन 63610, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	24-मार्च-80
3410	एस. सैम रिथर्ड (सैम करुणाकरन)	टीएनएसवीसी/265 /04	पुथेन परम्बु, सरल लिई, मुट्टाकडु, कुमारपुरम डाक, कन्याकुमारी जिला, पिन:829189	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	01-मार्च-80
3411	एस. समारासैम (के. सीनी)	टीएनएसवीसी/977 /05	न. 452/2, चौथी स्ट्रीट, विक्टोरिया कॉलोनी, मेडिकल कॉलेज डाक, थंजावुर 613004, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/86	05-मई-80
3412	एस. सैमुअल अरुल नयागम (एस. स्वामीनाथन)	टीएनएसवीसी/220 6/05	सेट्टीकुलम डाक, वाया थेरकु करुंगुलम, नेल्लई जिला, 627 124, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/96	17-जुला-72
3413	एस. संजीवीराज, पुत्र श्री सुबइयाह थेवर	टीएनएसवीसी/340 0/08	21 बी/1, पोन्नाग्राम, एयरसेल टावर के निकट, राजपलायम 626108, तिरुघुनगर जिला तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/88	01-मई-86
3414	एस. संकरा सुब्रामण्यन (के.ए. सुबइयाह)	टीएनएसवीसी/308 9/05	119डी, गांधी वीधि, कलाकड, तिरुनेलवेली जिला, पिन 827501, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/83	03-मार्च-80
3415	एस. संकरराज (एस. सिवानइयाह करयालर)	टीएनएसवीसी/173 /03	डोर न. 359, एसएलसी II, अन्ना नगर, मदुरई 625020, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/06	23-जन-46
3416	एस. शानमुगम (आर. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/148 1/05	एच.जी.सी.-2, पार्क रोड, मेट्टूर डैम-1, सलेम जिला, पिन 636401, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/01	02-अग-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3417	एस. सारस्वती, पुत्र श्री वी.के. सान्न्मुगम (स्व.)	टीएनएसवीसी/339 3/08	वेपुर् ग्राम एवं डाक,कटपडी तालुक, वेल्लोर जिला 635803, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/92	21-नव-66
3418	एस. श्रवन्मुथु (एम. संकर)	टीएनएसवीसी/138 8/08	न. 28, मरियम्मन सान्न्थी स्ट्रीट, धेंकरई, पेरियाकुलम, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/91	27-मई-68
3419	एस. श्रवन्न (सी. सुंदरम)	टीएनएसवीसी/302 0/05	अलीसुकुडी, परुक्कल डाक, उदियारपलायम तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621804, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	09-मई-82
3420	एस. श्रवन्न (जी. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/47 /03	30/20डी, सुगालयम, सक्ति नगर एनेक्सी, जज रोड, सलेम 6360, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	05-जून-77
3421	एस. श्रवन्न (एम. सम्पथ)	टीएनएसवीसी/253 /04	4/818, जे.जे. नगर, मोगापेर पूर्व, चेन्नई 600037, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	02-अग-77
3422	एस. वनन (एम. सेवंधिलिंगम)	टीएनएसवीसी/850 /05	धंडलाई डाक, मुसिरी तालुक, त्रिची जिला, 621217, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/00	05-मई-77
3423	एस. श्रवन्न (ओ. संकरन)	टीएनएसवीसी/262 2/05	100 सी, मुरुगन इल्लम, थोंडी रोड, सिवागंगई 630560, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/00	26-नव-75
3424	एस. सारगुरुनाथन, पुत्र श्री जी. सुभाष चंद्र बोस	टीएनएसवीसी/347 1/06	57, कल्याणी नगर, उदामलपेट, 642154, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	10-अग-82
3425	एस. सरोधमन (एल. सीतापति)	टीएनएसवीसी/159 8/05	न. 7, रेडहिल्स रोड, भारत नगर, कोलाथुर-99, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/98	18-अक्टू-74
3426	एस. सतिश कुमार (के. सेनगोडेन)	टीएनएसवीसी/265 2/05	कुप्पनगुडु, अप्पयापट्टी, वदूर डाक, तिरुक्कैनगोडे 637205, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/97	02-जुला-74
3427	एस. सदासिवम (के. समियप्पन)	टीएनएसवीसी/886 /05	38/21, कनिका परमेश्वरी स्ट्रीट, गोबीचेट्टीपलायम, इरोडे जिला 638462, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/02	25-अक्टू-77
3428	एस. सतिश कुमार (एम. संपीवी)	टीएनएसवीसी/930 /05	285, कट्टुनाइकन स्ट्रीट, मलयडीपट्टी, राजाप्रलायम, विरुधुनगर जिला- 626117, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएसयू/88	15-दिसं-64
3429	एस. सतीश बाबू, पुत्र श्री एम. सेल्वराज	टीएनएसवीसी/346 3/05	न. 13-बी, लिंगप्पन स्ट्रीट, अर्नी 632301, तिरुन्नामलई जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/02	06-मई-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3430	एस. सत्या (एम. मकेश)	टीएनएसवीसी / 164 8/05	12/18, वीरप्पन स्ट्रीट, आर.पी. पुडुर, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/00	30-मार्च-75
3431	एस. सत्या (पत्नी आर. रमेश)	टीएनएसवीसी / 223 5/05	1 ई, दूसरी मंजिल, रिची डेल अपार्टमेंट, 131, एम.एच.रोड, पेराम्बूर, चेन्नई 600011	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/92	11-मई-69
3432	एस. सत्यामूर्ति, पुत्र श्री जी. सुंदरावेल	टीएनएसवीसी / 336 3/06	धोप्पुवेली, टी. सोलनकुरिची डाक, उदियारपलायम तालुक, पेराम्बलूर जिला—621804, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/05	21-अक्टू-60
3433	एस. श्रीनिवासगन (बी. सुब्रह्मय्य)	टीएनएसवीसी / 325 7/05	1-3-8 एच, कामराज नगर, अनईपथी रोड, नीलाकोट्टई, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/85	01-जून-62
3434	एस. सीतालक्मी (जी. समुदी)	टीएनएसवीसी / 458 /05	2/30, बी.एस.के.एन. नगर, कावेरीपट्टिनम 635112, कृष्णगिरि (जिला), तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/05	06-दिसं-81
3435	एस. सेल्वगनेश (एस. सुभाष)	टीएनएसवीसी / 124 9/05	न.2/82, गुरुसामी पलायम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला, पिन 637403, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/02	06-जून-78
3436	एस. सेल्वाराज (बी. सुंदरम)	टीएनएसवीसी / 166 2/05	31-111 मेन रोड, पोन्नागर, त्रिची 620001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/85	10-जुला-60
3437	एस. सेल्वाराज (के. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी / 179 /03	28, वसंतापुरम, टिडीवनम 604001, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/03	24-दिसं-79
3438	एस. सेल्वाराज (एस. शानमुगावेलु)	टीएनएसवीसी / 128 2/06	266ए, वीरम मुनिवर स्ट्रीट, एनजीओ सी कॉलोनी, संकरन कोविल 627758, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/89	15-मई-60
3439	एस. सेल्वाराज (बी. सत्यनारायणन)	टीएनएसवीसी / 149 6/05	32, एम.बी. शेट्टी स्ट्रीट, पलाकोड डाक, 636808, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/80	15-अग-55
3440	एस. सेल्वाराजू (ए. सेलाप्पन)	टीएनएसवीसी / 269 9/05	जराथल, मुरली डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला, पिन 638504, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/95	01-अप्रैल-72
3441	एस. सेल्वाराजू (एम. सेलप्पा गूडेर)	टीएनएसवीसी / 170 0/05	वेदुवापट्टी, वेलासीवेल्ली डाक, इडापडी वाया, सलेम जिला 637101, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/00	08-अप्रैल-75
3442	एस. सेल्वविनायगी (एम. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी / 128 /03	सॉल्ट रोड, टी.मरवाकडु डाक, पदुकोट्टई तालुक, तंजौर जिला, पिन 614, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/03	22-अप्रैल-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3443	एस. सैबरी (जी. सेलामुंदु)	टीएनएसवीसी/569/05	8/98, विदाम्बर नगर, सेंदुरई तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621714, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	11-जुला-81
3444	एस. सैबिल कुमार (एन.सी. सदासिवम)	टीएनएसवीसी/1010/05	5-151-49-1, डॉ. सुब्रायन नगर, मेदूर डैम, सलेम जिला, 636401, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएसयू/84	30-मई-61
3448	एस. सैबिलकुमार (के. सुब्रानण्यम)	टीएनएसवीसी/1733/05	69, देवर कॉलोनी, थिलई नगर, 1 क्रॉस रोड, त्रिची 620018, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/90	18-नव-66
3448	एस. सेनगोदट्टुवेलु (पी. एस. सुब्रामण्यम)	टीएनएसवीसी/1517/05	11, ए.के.ई. रोड, न. 3एम, तिरुचेनगोडे 637211, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/70	20-नव-46
3447	एस. सैबिल (आर. सुधाशिरा कुमार)	टीएनएसवीसी/2059/05	प्लॉट न. 8, डोरन. 5, एफ-3, सारथ चंदर अपार्ट, 7वीं स्ट्रीट, कुमारन कॉलोनी, वडापलानी, चेन्नई-28	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/94	30-जुला-71
3448	एस. सैबिल कुमार (ए. सदासिवम)	टीएनएसवीसी/36/02	वरागुर टीचर्स कॉलोनी, वरागुर डाक, नमक्कल पिन 637021, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/02	31-जुला-78
3449	एस. सैबिल कुमार (के. एस. सांभना कृष्णन)	टीएनएसवीसी/770/05	न. 23 एच, कुमारप्पा नगर, III स्ट्रीट, कटपडी 632007, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/00	
3450	एस. सैबिल कुमार (के. सिवालिंगम)	टीएनएसवीसी/2075/05	57, ए.जी. पट्टी रोड, डाक नामागिरिपेट, नमक्कल जिला, पिन 637406, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/98	14-जुला-72
3451	एस. सैबिल कुमार (पी. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/1966/05	4/369, श्री राम नगर, वातुथा रेड्डी, विल्लुपुरम 605401, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/96	27-मार्च-75
3452	एस. सैबिल कुमार (बी. सुब्रानण्यम)	टीएनएसवीसी/1053/05	कलारमपट्टी डाक, मलियाकारा (वाया), अट्टूर तालुक, सलेम जिला 636107, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएसयू/88	21-जून-63
3453	एस. सैबिल कुमार (बी. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/1098/05	बी 65/1, नई डीआरओ कॉलोनी, के. पुडुर, मडुरई 625007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएसयू/89	03-फर-64
3454	एस. सैबिल सेल्वा कुमार (आर. सुधाशिरा मणि)	टीएनएसवीसी/378/04	131ए, एमडीआर नगर, 7वीं स्ट्रीट, अरुप्पुकोट्टई, विरुधुनगर जिला 626101, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/04	24-मई-81
3455	एस. सेंधुरन (आर. सिंगाराम)	टीएनएसवीसी/1739/05	774, एस.के.सी. रोड, इरोडे जिला, पिन 638001, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/01	20-मई-77
3456	एस. शानमुगम (एस. एम. सेम्बा गूंडेर)	टीएनएसवीसी/1127/05	4/3-14, आर.सी. प्लांट के सामने, रमन नगर, सलेम जिला, पिन 636403, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएसयू/76	12-अग-46

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3457	एस. शानमुगन (पी. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/252 8/05	रेडियापलायाथर थोट्टम, अम्पापेट्टई डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/94	04-जून-71
3458	एस. शानमुगा सुंदरम (के.पी. सेनियाम्पन)	टीएनएसवीसी/237 2/05	6/1-2, चर्च स्ट्रीट, पुंजई पुलियमपट्टी डाक, इरोडे जिला, पिन 638489, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/75	11-दिसं-80
3459	एस. शर्मिला प्रिया (आर. रंगनाथन)	टीएनएसवीसी/122 5/05	1/61, मेला अरुनाचलपुरम, केला अरुनाचलपुरम (डाक), पुडुर (वाया), विलाधिकुलम (तालुक), द्यूटिकोरिन (जिला) 628905	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/95	20-जन-72
3460	एस. शेनबगाम, पुत्र श्री सी. संकर	टीएनएसवीसी/338 0/08	न. 9, नेहरू नगर, गणपति कोइल स्ट्रीट, कामराज नगर, अवाडी, चेन्नई-71, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/08	25-जून-83
3461	एस. श्रीविद्या (के. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/415 /04	न.1/35, II स्ट्रीट, मदागुपट्टी, सिवागंगई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससीएंडएच/ पीयू/04	12-अक्टू-81
3462	एस. सिंधु, पुत्र श्री पी. सुब्रामण्यन	टीएनएसवीसी/336 6/08	126, कलईवानी नगर, मोहनूर, नमककल जिला 637015, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/05	05-जून-83
3463	एस. सिवाकुमार (एम. शानमुगन)	टीएनएसवीसी/754 /05	श्री अशिरानीइल्सन, अवलपुंजुरई रोड, मोवाकुरिची, इरोडे जिला 638104, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/08	10-अप्रैल-78
3464	एस. सिवकुमार (पी. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/268 /04	इयानगुडी ग्राम, सधनाथम डाक, थिदटागुडी तालुक, कुडालूर जिला 606111, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/04	28-अग-79
3465	एस. सिवाकुमार (पी. सुंदरम)	टीएनएसवीसी/268 8/06	कोविल कडु, सेम्बनपट्टी, कल्याणी डाक, पुनुचटरम वाया, नमककल तालुक, नमककल जिला	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/01	28-जून-75
3466	एस. सिवकुमार, पुत्र श्री एम. सावितवेशु	टीएनएसवीसी/345 1/05	8/ए.ओडाई स्ट्रीट, थिन्ना पुलियमपट्टी, अरुप्पुकोट्टई 626101, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/94	22-मार्च-71
3467	एस. सिवकुमार, पुत्र श्री एस. सिंगारावेशु	टीएनएसवीसी/337 8/08	2, उलायर स्ट्रीट, बनियार स्ट्रीट, कुमारस्वामीपेट, धर्मपुरी 638703, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/00	20-जून-79
3468	एस. सिवसंकर (एम. सिवासुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/258 8/05	9/23, इलुगमवलासु, पोनीवडु डाक, धरमपुरम तालुक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडएएसयू/97	11-जुलै-73
3469	एस. श्रीदेवी (एम. सुंदरम)	टीएनएसवीसी/587 /05	38, राजू रेक्की स्ट्रीट, जोशी नगर, अदूर तालुक, सलेम जिला, पिन 638102, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/08	28-जून-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3470	एस. श्रीधर (डी.बी. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी/667/05	पुराना न.18, नया न.65, जागीरदार रोड, फोर्ट, धर्मपुरी 636702, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/02	16-जन-77
3471	एस. श्रीनिवासन (एम. शुनमुगम)	टीएनएसवीसी/2133/05	35/3, पुरानी एसबीआईकॉलोनी मेलारमन पुडुर, नगरकोइल 629001, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/92	10-जून-86
3472	एस. श्रीनिवासन, पुत्र श्री एम. सेव्याराज	टीएनएसवीसी/3361/06	डोर न. 13बी, लिंगप्पन स्ट्रीट, अर्नी, अर्नी 632301, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	23-मई-83
3473	एस. स्टालिन वेलादुराई (बी. सीनी)	टीएनएसवीसी/170/03	ई-133, पीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स, टोयुनतेर नगर, सइदापेट, चेन्नई- 15, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/03	20-अक्टू-79
3474	एस. सुबा (एन. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/156/03	ए 4, दर्शन, अयायुनायडु कॉलोनी, 11, रंगराजुलु स्ट्रीट, अमिनिजीकरई, चेन्नई 600029, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/03	19-फर-80
3475	एस. सुबाप्रिया (के. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/18/02	न.5, ललिथालय अपार्टमेंट, अरुम्बककन, चेन्नई, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/02	30-नव-77
3476	एस. सुबइयाह पंडियान (एस. सिवानइयाह थेवर)	टीएनएसवीसी/1222/05	7-25, वीरापंडिया पुलिकुलम, इलावैंगल डाक, कडम्बूर वाया, द्यूटिकोरिन जिला, 628723, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनएसयू/88	17-मई-83
3477	एस. सुब्रामण्यन (एस. सिवाकुमार)	टीएनएसवीसी/2193/05	'मनिकंदन', कविमनि नगर, सुचिन्द्रम 629704, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/97	25-जून-74
3478	एस. सुब्रामण्यन (टी. स्वामीनाथन)	टीएनएसवीसी/1062/05	फ्लैट न. 870, करपग्गा नगर, के. पुडुर, मदुरई 625007, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/89	08-अप्रैल-87
3479	एस. सुदालई (टी. सुबइयाह)	टीएनएसवीसी/3241/05	अन्ना स्ट्रीट, वल्लम डाक, तेनकासी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, पिन 627817, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/92	22-अप्रैल-89
3480	एस. सुधा (सागा सीनिवासन)	टीएनएसवीसी/29/02	पुराना न.16बी-31, नया न. 89, कक्कन आर. छठी संकरन कोइल 627758, तिरुनेलवेली	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/02	17-जून-78
3481	एस. सुधाकरन, पुत्र स्व. श्री के. शानमुगम	टीएनएसवीसी/3339/06	73, मुवेलियार स्ट्रीट, जयनकॉडम 621802, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	20-मई-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	रीवाजिक आईताएं	जन्मतिथि
3482	एस. सुगलेसिनी (सुब्रामण्यम)	टीएनएसबीसी/566 /05	730, एस.एन.आर. लेआउट, नया सिधपुडुर, कोयम्बतूर 641044, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/04	20-नव-80
3483	एस. सुगंधी, पत्नी (पी. श्रीनिवासन)	टीएनएसबीसी/168 0/05	वडक्कुक्कु, आर.एस. चिन्ना गूडानूर, संगकिरी (वाया), सलेम 637302, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/97	15-मार्च-74
3484	एस. सुकुमार (एस. सेथुराजन)	टीएनएसबीसी/171 9/05	डी-15, प्रथम क्रॉस, उत्तर-पूर्वी एक्सटेंशन, थिल्लई नगर, त्रिची 620018, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/88	31-जुला-86
3485	एस. सुमथी (पी. सौरनाकुमार)	टीएनएसबीसी/310 1/05	11, वेरुमल नॉर्थ कार स्ट्रीट, पलायमकोट्टई, तिरुनेलवेली -2, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/92	
3486	एस. सुमथी (बी. सुब्रामण्यम)	टीएनएसबीसी/182 /03	प्लेग क्वार्टर्स, मीरामडल के सामने, रेलवे स्टेशन रोड, ठोक्कूर -635109, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/03	21-अक्टू-79
3487	एस. सुमथी (पत्नी एस. कार्तिकेयन)	टीएनएसबीसी/223 7/05	19/53ए.सलाईयूर, डाक सलंगापलायम, कार्तिवापडी, इरोडे जिला, पिन 638456, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/01	24-फर-77
3488	एस. सुमथिया ग्रेस (एम. ए. जॉनसन चार्ली)	टीएनएसबीसी/296 4/05	103, एनएच कॉलोनी, वेरुमलपुरम, तिरुनेलवेली 627007, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/68	03-अग-85
3489	एस. सुंदर रजन (एम. सुब्रामण्यम)	टीएनएसबीसी/283 5/05	9 बी, साई नगर, चिंतामनि के पीछे, शान्ताधपुरम, कोयम्बतूर- 18, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/81	10-अक्टू-87
3490	एस. सुंदरराज (आर. सुब्रामण्यम)	टीएनएसबीसी/299 5/05	अक्कननायकनपट्टी डाक, बेलाकोइल वाया, कनकायन तालुक, इरोडे जिला 638111, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/06	28-सित-80
3491	एस. सुरेश (एम. सुब्रह्मण्यम)	टीएनएसबीसी/917 /06	7/158, मुलई नगर, कलक्कनार्डकेन पट्टी रोड, पलानी - 624801, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/92	30-जुला-88
3492	एस. सुरेश (बी.बी. सुब्रामण्यम)	टीएनएसबीसी/163 6/05	प्लॉट न.5, डोर न.30, 13वीं क्रॉस स्ट्रीट एक्सटेंशन, नई कॉलोनी, क्रोनवेट, चेन्नई-4	बीबीएससी/ टीएनएसयू/87	01-जून-84
3493	एस. सुरेश (एस. संकरन)	टीएनएसबीसी/163 7/05	2/48, वृत्ता कॉक, मोगापर पश्चिम, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/89	30-मई-88
3494	एस. सुरेश (एस. सुब्रह्मण्यम)	टीएनएसबीसी/122 9/05	न. 16ई, बीएनसी कम्पाउंड, बंगलो स्ट्रीट, कोविलपट्टी 628801, धनुक्कुडी जिला	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/97	18-जून-72

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3495	एस. सुरेश बाबू (के. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी/296 2/05	2/200, महुपालीपट्टी, कुली बलायु डाक, कोल्ची हिल्स, नमक्कल 637411, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/01	10-जुला-78
3496	एस. सुधा (पत्नी के. थिरुनायुकरासु)	टीएनएसवीसी/201 5/05	16, नवेशा नगर, वेल्डोर मेन रोड, आर्कोट, वेल्डोर जिला, 632603, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/00	25-मई-74
3497	एस. सुवासिनी (ए. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/463 /05	25, थिरु-बी-का स्ट्रीट, कुमारसामीपेट, धर्मपुरी 636703, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	27-दिसं-80
3498	एस. स्वामीनाथन (आर. सुब्रह्मय्याह)	टीएनएसवीसी/983 /05	कन्ननगुडी डाक, देवाकोट्टई वाया, सिवांगगई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/90	09-मई-68
3499	एस. तामीलरासन (बी. पी. सुंदरराजन)	टीएनएसवीसी/215 /03	23, ओ.पी. कुल्लम स्ट्रीट, कांचीपुरम, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	28-नव-78
3500	एस. तमील सेलवन (एम.के. सुब्रह्मय्याह)	टीएनएसवीसी/128 3/05	69, पिलयार कोइल स्ट्रीट, मवाडीकल, कडयानल्लूर- 627751, तिरुनेलवेली जिला	बीबीएससी/ टीएनएयू/68	08-मार्च-62
3501	एस. धनावलान (एम. सामीनाथन)	टीएनएसवीसी/111 3/05	2/304, कुरिजी मेन स्ट्रीट, अयायुधेवर नगर, अय्यर बंगला, मदुरई 625014, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/80	02-दिसं-63
3502	एस. धनपन (पी. सिवारमन)	टीएनएसवीसी/214 5/05	न.44, बिग स्ट्रीट, वाडीवीस्वरम, नगरकोइल 829002, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससीएंडएएच/ केयू/70	29-मई-46
3503	एस. धंगामंडियान (एस. सद्दइयंडी)	टीएनएसवीसी/409 /04	सन्कूर्थी पिल्लै लेम, वेस्ट कार स्ट्रीट, इलुमलाई 625535, मदुरई जिला तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/04	04-जून-81
3504	एस. तत्विनामूर्ति (एम. सेनगोटाइवन)	टीएनएसवीसी/643 /05	ओडाथुरई डाक, ओडाथुरई भवानी तालुक, इरोडे जिला, पिन 638455, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/05	21-मई-61
3505	एस. थिरुकुमारन (एस. संकरनारायणन)	टीएनएसवीसी/320 6/05	20, अम्मान नगर, मनियाकरन पलायम, गनपति, कोयम्बतूर 641006, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/88	19-नव-66
3506	एस. यू. अब्दुल लतीफ (एस.एस. उबुमन)	टीएनएसवीसी/174 /03	198, पूर्वी अम्मान बाजार रोड, कडयानल्लूर 627751, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	08-मई-78
3507	एस. उधवापेरुमल (एम. शानमुगानाथन)	टीएनएसवीसी/148 3/05	पनानमुलाम(उत्तर), डाक कीरा मंगलम(वाया), अलंगुडी तालुक पुडुकोट्टई जिला 614624	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/01	20-जून-77
3508	एस. उमान्देश्वरी (ई.ए. सुब्रामण्यन)	टीएनएसवीसी/657 /05	385, कोवड मेन रोड, नम्बियूर, इरोडे जिला 638468, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/02	12-मई-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3509	एस. उषा (एम. एस. सुब्रामनी)	टीएनएसवीसी/149 8/05	पश्चिमी वलासु, पुडुकोट्टु, डाक मेट्टूर, तालुक रासीपुरम, जिला नमक्कल, 636203, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/02	19-मई-77
3510	एस.वी. धम्बीदुरई (एस. वेलायुदम)	टीएनएसवीसी/152 9/05	5, मेन रोड, पल्लीपट 631207, थिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/86	15-जुला-63
3511	एस. वाडीवेलु (सी. सेनगोडन)	टीएनएसवीसी/273 3/05	10/13ए, पुलियमपट्टी, चिन्नूर डाक, इडापडी तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु 637101	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/93	23-फर-69
3512	एस. वारालक्ष्मी (एस. सेनगुट्टुवन)	टीएनएसवीसी/112 /03	12ए/3, वायगुंडा पेरुमल कोइल स्ट्रीट, कांचीपुरम 631502, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	12-जून-80
3513	एस. वीरामनि (सी.वी. सामीमाधन)	टीएनएसवीसी/996 /05	1/56, पूर्वी स्ट्रीट, सूरापल्लम, पट्टुकोट्टई तालुक, धंजावर जिला, 614801, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/00	12-नव-76
3514	एस. वेलमुकगन (पी. शानमुगा सुंदरम)	टीएनएसवीसी/50 /03	4, अरिक्करन कट्टूर, वेलोदटम परप्पु डाक, पासूर बाया, इरोडे तालुक व जिला, पिन 6381, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/03	24-जन-77
3515	एस. वेलुघामी (सुबइयाह कोनार)	टीएनएसवीसी/324 3/05	मिडल स्ट्रीट, मेलानीलीथा नल्लूर 627953, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/92	04-दिसं-64
3516	एस. वेंगदालक्ष्मी (पत्नी पी. श्रवनन)	टीएनएसवीसी/204 4/05	47/3, मेन रोड, सरकारी अस्पताल के सामने, टीटागुडी, कुडालूर जिला, 606106, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/98	20-जुला-75
3517	एस. वेंकट रामा राव, पुत्र श्री नागमूषणम	एपीएसवीसी/4381 /05	पशुपालन परियोजना निदेशक, राजेंद्रनगर, हैदराबाद 500030, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएएच/ एपीएयू/87	10-मार्च-64
3518	एस. वेंकटचलम (आर. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/290 3/05	कन्नियाकुडी, थिरुप्पनगुर डाक, सिरकली तालुक, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/80	07-मई-50
3519	एस. वेंकटेशन (के. सोमासुंदरम)	टीएनएसवीसी/274 1/05	असिरियार थोट्टम, लाडीवडी डाक, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला, 636006, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/98	27-मई-73
3520	एस. वेंकटेश्वरन (के. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी/284 8/05	40, विमल नगर, वडावल्ली, कोयम्बतूर 641041, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/85	18-जून-62
3521	एस. वेमिला (पत्नी जी. शानमुगावेलु)	टीएनएसवीसी/233 3/05	2/77, सोमनदुरई डाक, पोलाची तालुक, कोयम्बतूर तालुक, 642134, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/00	01-मार्च-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3522	एस्. विक्टर जेबराज (ए. सुंदरराज)	टीएनएसवीसी/219 0/05	करुवाचनकूजी विल्लै, कन्नूरु डाक, कन्याकुमारी जिला 629188, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएस/81	25-जुला-57
3523	एस्. विद्या (पी. सेनगोद्वेलु)	टीएनएसवीसी/118 /03	अम्मापलायम पुडुर, अग्रहरम डाक, गुरुसानीपलायम वाया, नमक्कल तालुक, 637403, तमिलनाडु.	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/03	21-जून-80
3524	एस्. विजय कुमार (ई. श्रीराम)	टीएनएसवीसी/188 8/06	3/195, मडिम्मन कोविल स्ट्रीट, वैंगलाम डाक, वेप्यानथट्टई, तालुक, पेराम्बलूर जिला, 821103	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/98	02-अग-72
3525	एस्. विजय कुमार (एन. सिंगारावेलु)	टीएनएसवीसी/290 2/05	कयप्पमपुलम साउथ व डाक, वैंगलम तालुक, नागपट्टिनम जिला, 814707, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/00	02-जून-75
3526	एस्. विजय कुमार (एन. सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/171 2/05	डब्ल्यू 8, 3/18, इन्द्रा नगर, उच्चमपलायम, धेनी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/00	15-जुला-78
3527	एस्. विजयानूर्ति (एन. सिंगरम)	टीएनएसवीसी/120 5/05	कनक्कनकडु, इलापलायम, मलासमुन्न डाक, तिरुचेनगोडु तालुक, नमक्कल जिला 637803	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/00	10-मई-78
3528	एस्. विमली ग्रेसी, पत्नी (सतीश बर्धोज)	टीएनएसवीसी/381 /04	एमआईजी 107, दूसरा क्रॉस स्ट्रीट, ईआरआई स्क्रीम, मोगापेर वेस्ट, चेन्नई 600037	बीबीएससी/पीयू/0 2	17-सित-78
3529	एस्. विनोदिनी (के. सुब्रमणियम)	टीएनएसवीसी/222 /03	एजी-8, शांति कॉलोनी, अम्मा नगर, चेन्नई 600040, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/03	19-अक्टू-78
3530	एस्. विनोदकुमार (पी. सोभासुंदरम)	टीएनएसवीसी/603 /06	पेराम्बुत डाक, तिरुपूरु तालुक, वेल्लोर जिला, पिन 835652, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/05	15-जुला-81
3531	एस्. विष्णु कंदन (वी.पी. सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/256 0/05	13/98, मिन नगर, आमला गोबीचेट्टिपलायम डाक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएस/88	01-मई-68
3532	एस्. विष्णु विनायगम (एन. शिवम)	टीएनएसवीसी/107 /03	10, पुराने मंदिर वाली गली, पप्पारापट्टी डाक, धर्मपुरी जिला 636809, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/03	28-मई-79
3533	एस्. जेवियर स्वामीदीक्ष (एस्.जे.जे. सेवेस्टियन)	टीएनएसवीसी/244 2/05	ए-15, आल्फा ब्लॉक, अमृतवर्षिनी, सुवररानी रोड, मोगापेर पूर्व, चेन्नई 600037	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/82	08-जून-69

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3534	एस. युवराज (एस.के. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/400/04	स्वामीनाथपुरम डाक, मोदाक्कुरुकल वाया, इरोडे 636104, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/04	17-सित-80
3535	एस. युवराज, पुत्र श्री सी. सेनगोडन	टीएनएसवीसी/3418/06	के.एस.एस.ब्लू मेटल्स के निकट, बुदाबदी डाक, 638311, भवानी तालुक, इरोडे, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/05	21-जन-80
3536	एस.ए. फ्रांसिस जेवियर (एस. अरुलसामी)	टीएनएसवीसी/1103/05	47, रामालक्ष्मी नगर, लौर्ड नगर एक्सटेंशन, के. पुडुर, मदुरई 625007, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/88	08-अप्रैल-85
3537	एस.ए.सैयद शमीन (एस.ए. सैयद करीम)	टीएनएसवीसी/980/05	5, सीरींग स्ट्रीट, कुडालूर- 607003, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/79	09-सित-55
3538	एस. अभीरथवल्ली (पी. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी/1790/05	न. 9/11, कोलकारानूर, सलेम मेन रोड, माचेरी डाक, मेट्टूर तालुक, सलेम जिला 636453	बीवीएससी/टीएनएयू/65	15-मई-61
3539	एस.बी. कोमाथी (एस. बोस पोन्नामबलाम)	टीएनएसवीसी/1248/05	49सी, नेदुमरान नगर, धर्मपुरी - 636701, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/02	25-अप्रैल-77
3540	एस. भगवत सिंह (ए. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी/2281/05	अथिनाथपुरम, अलवरथिरुना गिरि डाक, तिरुचेंदूर तालुक, थूतुकुडी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/88	15-मार्च-66
3541	एस. बालाजी (ए. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी/2655/05	रासीपुरम मेन रोड, गवर्न. हा.सेक.स्कूल के सामने, वैयप्पामलई डाक, थिरुचेनगोडु तालुक, नमक्कल जिला	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/96	09-मई-73
3542	एस. बालयोकिनी, पत्नी (आर. वेंगटसामी)	टीएनएसवीसी/1769/05	न. 7/34, III स्ट्रीट, नेहरू नगर, टी.वी.एस. नगर, मदुरई-3, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/92	31-जुला-69
3543	एस. भारतीराजा	पॉण्डीएसवीसी/263/05	204, इंदिरा नगर पुष्पु नगर-2, नेटापक्कम एवं डाक, पॉंडीचेरी- 805506, पॉंडीचेरी	बीवीएससीएंडएएच/पीयू/205	20-जन-83
3544	एस.सी. एडविन (वाई. सूब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी/1551/05	8-ए2, अरुलप्रकाश स्ट्रीट, रमनपुथुर, नगरकोइल 629004, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/92	30-जुला-69
3545	एस.सी. करुणानिधि (एस.पी. चिन्नास्वामी)	टीएनएसवीसी/2857/05	23-ए3, जगन्नाथ कॉलोनी, फौक्सन स्ट्रीट, पेराम्बूर, चेन्नई -11	बीवीएससी/टीएनएयू/76	21-अक्टू-50
3546	एस.सी. चंद्रशेखरन (वी. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी/2585/05	न. 6, एम.एस.पी. नगर, धारापुरम, इरोडे जिला, पिन 638658, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/84	20-मार्च-61
3547	एस.ई. थियागराजन (एटियाना गुंडेर)	टीएनएसवीसी/1048/05	प्लॉट न. 40, जी.आर. नगर, सेलानाइकेनपट्टी डाक, सलेम 638201, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/70	09-नव-47

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3548	एस्. जॉर्ज पैराडिस	पॉण्डीएसवीसी/277 /05	17, थिरुनल्लूर रोड, करईकल- 609602, पॉण्डीचेरी	बीवीएससी/ टीएमवीएंडए एसयू/92	34-मई-66
3549	एस्.एच.साईद अंसलम (एस्.के. साईद हलीम)	टीएनएसवीसी/149 7/05	19-सी, मुस्लिम स्ट्रीट, परामथी -637207, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएमवीएंडए एसयू/01	02-जून-76
3550	एस्. जयबाबू (एस्. सूदनारायण मूर्ति)	टीएनएसवीसी/175 8/05	567/7, साउथ स्ट्रीट, त्याग राजन नगर, महाराजा नगर डाक, तिरुनेलवेली 627011	बीवीएससी/ टीएमवीएंडए एसयू/95	25-जून-69
3551	एस्. जयाकुमार (वी. सिमाझानम)	टीएनएसवीसी/226 7/05	117, तिरुवन्नामलाई रोड, किलपेनाथूर, तिरुवन्नामलाई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएमवीएंडए एसयू/92	21-मार्च-69
3552	एस्.के. बाला सुब्रमण्यन (कौलांडावेल)	टीएनएसवीसी/254 5/05	सेलापलायम, कोसनाम डाक, नम्बियूर तालुक, इरोडे जिला 638458, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएमवीएंडए एसयू/92	10-जुला-68
3553	एस्.के. भास्कर (एस्. जी. कृष्णामूर्ति)	टीएनएसवीसी/222 5/05	न.6, नीलकंदन स्ट्रीट, नुंगम बक्कम, मद्रास 600034	बीवीएससी/ टीएमएयू/67	01-जून-59
3554	एस्.के. मगुदेश्वरन, पुत्र श्री एस्. कुलांडावेलु	टीएनएसवीसी/335 2/06	1/85, नारायण पलायम, मोरुर डाक, थिरुचेनगोडे (तालुक), नमक्कल जिला 637304, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएमवीएंडए एसयू/05	27-जुला-83
3555	एस्.के. रमेश (एस्. कफय्याह)	टीएनएसवीसी/301 7/05	25/23, पी.एच. रोड, वेट्टीथिएटर के निकट, बोडीनायक्कनूर, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएमवीएंडए एसयू/95	10-मई-72
3556	एस्.के.आर. वरुण (एस्. के. तामसयामी)	टीएनएसवीसी/611 /05	787, एम.जी.आर.नगर, II स्ट्रीट, विरालीमलाई, पुडुकोट्टई जिला, पिन 621316, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएमवीएंडए एसयू/05	12-मई-81
3557	एस्.के. सीनिवेलन (एस्. कृष्णास्वामी कनायलार)	टीएनएसवीसी/217 5/05	20/3, पूरानी इल्लम, विश्वकर्मा पलैट्स, वेंकटरथिनम स्ट्रीट, टेनमपेट, चेन्नई-6	बीवीएससी/ टीएमएयू/88	31-जन-66
3558	एस्. कडासामी (के. सीरंगन)	टीएनएसवीसी/193 1/05	4/54, सी1, इंजीनियर्स कॉलोनी, जागीर रेड्डीपट्टी, सलेम 636302, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएमएयू/63	08-अप्रैल-59
3559	एस्. कन्नन (एम. सिवाशानमुगम)	टीएनएसवीसी/185 4/05	7/790, सिवागामी इल्लम, पोंगालूर 641887, तिरुप्पुर तालुक, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएमवीएंडए एसयू/95	30-जून-72
3560	एस्. कार्तिकेयन (के. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी/176 5/05	सी-29, थिरुनावुकारासर स्ट्रीट, अलगप्पन नगर, मदुरई-3, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएमवीएंडए एसयू/93	07-मई-70

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3561	एस. लावण्या	पॉण्डीएसवीसी/265 /05	332, साथनी स्ट्रीट, कुयावरपलायम, पॉन्डीचेरी-13	बीबीएससीएंडएच/ पीयू/05	06-फर-83
3562	एस.एम. बाला सुब्रमण्यन (एस.पी. मुथु)	टीएनएसवीसी/123 4/05	78/16ए.स्टेटबैंक कॉलो. ईस्ट, डालयूर मेन रोड, कोविलपट्टी - 628501, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/82	06-मार्च-80
3563	एस.एम. चाकला बाबू (एल.एस. महबूब बाबा)	टीएनएसवीसी/236 4/05	49, मेलापलायम, वेस्ट कार स्ट्रीट, अम्बासमुद्रम, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/82	22-अप्रैल-88
3564	एस.एम. सेल्वाराज (जी. सिंगारा वेलु)	टीएनएसवीसी/277 9/05	6ए. नया न. 19, वीराराघवन स्ट्रीट, श्रीनिवास नगर, पेरुगालादूर, चेन्नई 600063	बीबीएससी/ टीएनएयू/84	22-दिसं-85
3565	एस.एम. सुधा रोज (ए. सूसई मरियन)	टीएनएसवीसी/237 0/05	3/282, मेन रोड, थिरुवोनम डाक, ओराथंडु तालुक, धंजावूर जिला, पिन 614614, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/02	31-मई-78
3566	एस.एम. अरविंद कुमार (एम.एस.वी.आर. पंडियान)	टीएनएसवीसी/180 2/05	175-8, कुरिगी कॉलोनी, चौथा एवेन्यू, अन्ना नगर, चेन्नई 600040	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/97	04-फर-73
3567	एस.एम.के. थिरुमारन (एस.एम. कुमुसामी)	टीएनएसवीसी/362 /04	58, नापगुरम नगर, नांभीवरम, गुडुवानचेरी, कांचीपुरम, जिला 603202, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/04	19-अग-80
3568	एस. महेंद्रन (टी. श्रीनिवासन)	टीएनएसवीसी/164 1/05	न. 18, अरुणाधलपुरम सी कॉलोनी, केटीसी नगर, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/87	09-मई-74
3569	एस. मारीमुथु, पुत्र श्री सुब्रमनी	कर्नाएसवीसी/3808 /	"अनिल सुनील मौलायम" अमरावथी लेआउट, बांगरपेट, कोलार जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडएच/ यूएसबंगलोर/77	28-नव-52
3570	एस. मूकन (एम. सुब्बन)	टीएनएसवीसी/233 7/05	सेनगुनम डाक, पेराम्बलूर तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621220, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/97	10-सित-74
3571	एस. मुथुसामी (के. शानमुगा सुंदरम)	टीएनएसवीसी/232 5/05	67, आर.एस. पुरम, महालिंगा पुरम डाक, पोलाची तालुक, कोयम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/75	04-सित-48
3572	एस.एन. जयप्रकाश (एस.एस. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/172 6/05	19, लुस्कर स्ट्रीट, त्रिणी 620008, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/86	29-दिसं-82
3573	एस.एन. सुधागर (एस. नमाशिवाय मूर्ति)	टीएनएसवीसी/199 7/05	221, मुंडगा नादर स्ट्रीट, सिवाकाशी 628123, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनबीएंडए एसयू/85	12-मार्च-72
3574	एस.पी. गौधमन (पी. एस. पलानीवेलु)	टीएनएसवीसी/189 2/05	5/872, अन्नाई धेरैसा स्ट्रीट, सेंथिल नगर, कन्नैक्कटेट डाक, धर्मपुरी 638705, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/79	06-जून-88

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3575	एस.पी. मुथु कुमार (एस. पेडारमन)	टीएनएसवीसी / 155 9/05	32, चिन्नागोलापट्टी, मल्लासमुद्रम, 637503, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/95	07-नव-71
3576	एस.पी. ओम मुरुगन (एस. पलानीचामी)	टीएनएसवीसी / 144 8/05	डब्ल्यू-20, थेंडराल नगर, ईस्ट स्ट्रीट, बोडीनायकन्नूर, धेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/91	29-जन-68
3577	एस.पी. सुब्रमण्यन (पलानीयप्पा गूडेर)	टीएनएसवीसी / 60 /03	वेदटुकडु, थेंथुकडु, नमक्कल तालुक व जिला, पिन 637404, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू/78	10-दिस-52
3578	एस.पी. शिवकुमार (एस. पंडारा मुदलियार)	टीएनएसवीसी / 300 5/05	इडडकल डाक, तेनकासी तालुक, नेल्लई जिला, पिन 627804, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/05	24-फर-80
3579	एस. परमेश्वरन (के. सेनगोडन)	टीएनएसवीसी / 759 /05	गांधी नगर, जी.एस. कॉलोनी डाक, अंधयूर वाया, इरोडे जिला 638501, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/01	08-मई-75
3580	एस. प्रतिभन	पॉण्डीएसवीसी / 276 /05	10/442, प्रथम क्रॉस, थुलुकाथम्पन नगर, मुरुंगापक्कम, पॉंडीचेरी	बीवीएससीएंडएएच/ पीयू/05	16-मई-63
3581	एस.आर. बीना, पुत्र मेजर के. अन्नेसूदन	टीएनएसवीसी / 351 1/08	द्वारा श्री ए. कायावर्णनम, एस. पदमनाभन स्ट्रीट, कामराज नगर, चेन्नई 600071	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/97	03-मई-72
3582	एस.आर.एस. सेल्वकुथालिंगम (एस. आर. सिवासुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी / 434 /05	मोदाथूर ग्राम, गुनारमनल्लूर डाक, तेनकासी, तिरुनेलवेली जिला, पिन 627814, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/85	20-मई-69
3583	एस.आर. सुरेश (एस. एस. राजामनिकम)	टीएनएसवीसी / 206 2/05	15/44, अपस्टेयर्स, करूर मेन रोड, कारुमंडम पलायम, 638154, इरोडे जिला तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/82	28-मई-68
3584	एस.आर. थनम्मल, पत्नी श्री एस. रविचंद्रन	टीएनएसवीसी / 555 /05	1/437, नारनपुरम ग्राम डाक सिवाकाशी ईस्ट, तिरुधुनगर जिला, 626189, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/00	04-मई-75
3585	एस.आर. मुरुगन (एस. रामासामी)	टीएनएसवीसी / 243 9/05	55, हुसैन स्ट्रीट, कोविलपट्टी 628501, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/93	30-अप्रैल-69
3586	एस. राधाकृष्णन (एन. शिवशंकरन)	टीएनएसवीसी / 235 3/05	61, रत्ना स्कूल स्ट्रीट, मूथुकृष्णापुरम, कडयानल्लूर 627751, तेनकासी तालुक, तिरुनेलवेली जिला	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/00	19-अप्रैल-73
3587	एस. राजामोहन (ओ. सारासाक्षन)	टीएनएसवीसी / 213 8/05	32-ए, कलमदा स्ट्रीट, वाडीवीश्वरम, नगरकोइल, के.के. जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू,86	12-जून-72

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	सैद्धांतिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3588	एस. रजथी (पी.आर. सौदाप्यन)	टीएनएसवीसी/679/05	सीरापल्ली डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637408, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/96	27-दिसं-71
3589	एस. राम (पी. सम्बंदम)	टीएनएसवीसी/225/5/05	45, सन्धी स्ट्रीट, वंदावासी, तिरुनेलवेली जिला, पिन 604408, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/69	07-जुला-43
3590	एस. रामाकृष्णन (आर. सम्बाथइया)	टीएनएसवीसी/174/7/05	न. 3, पार्वथी नीलायम, राजाजी नगर, अरियालूर जिला, 621713, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/01	15-जन-76
3591	एस. रामामूर्ति (आर. सुंदरम)	टीएनएसवीसी/177/7/05	आर.जे. हॉस्पिटल, भारतीदासन सलई, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला पिन 637408, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/97	14-जून-74
3592	एस. रमेश (एम. सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/545/05	3/41ए, मट्टईपरई पुडुर कडापल्ली डाक, नमक्कल पिन 637019, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/05	25-अप्रैल-82
3593	एस. रविचंद्रन (एन.के. संकरन)	टीएनएसवीसी/121/0/05	151/बी3, मीनाथी इल्लम, कोकरायनपेटई रोड, डाक कोलापट्टी, अनीमूर, तालुक तिरुचेनगोडे, नमक्कल जिला	बीवीएससी/टीएनएयू/88	06-अप्रैल-85
3594	एस.एस. मुरुगेश (बी. सिव्वाथनैथा पेरुमल)	टीएनएसवीसी/220/7/05	2/408, सी.टी.एम. पुरम, परकई डाक, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/00	30-मई-75
3595	एस.एस. सेंथिल कुमार (एस. सिनराज)	टीएनएसवीसी/179/3/05	प्लॉट न. 16, वीओसी स्ट्रीट, अरुल नगर, एलिस नगर एक्स., मदुरई 625010, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/00	11-जून-77
3596	एस. सक्तिवेल पंडी (डी. सेधुरथिनम)	टीएनएसवीसी/923/05	7/1, डॉ. कालीमुथु नगर, इडुम्बनमलई रोड, पलानी, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/88	09-मई-86
3597	एस. सत्यप्रभा (पत्नी श्री पी. सेत्वाराजन)	टीएनएसवीसी/234/8/05	31, मलियारासन कोविल रोड, अरुप्पुकोटई 626101, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/95	23-जुला-72
3598	एस. सेलांडी (सेलांडी शेवर)	टीएनएसवीसी/145/0/05	778-38ए, संजय गांधी स्ट्रीट, जगन्नाथपुरम साउथ, पलानीपेट्टीपट्टी, थेनी, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनएयू/84	12-अप्रैल-59
3599	एस. सेल्विनजोस (एस. साथियानेसन)	टीएनएसवीसी/680/05	1-169, वडासेरी विलई, चेरुकोले, कट्टाथुरई डाक, कन्याकुमारी जिला 629158, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/00	21-जून-78
3600	एस. सेंथिल कुमार (आर. सुब्रामनी)	टीएनएसवीसी/178/0/05	कीरानूर, न.3, कुंभारापलायम डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला पिन 636203, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडए एसयू/02	10-जुला-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3801	एस. संधिलमुथु कुमारन (पी. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/287 0/05	6/35ए, कनकायम रोड, कोडुमुडी 638151, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/97	23-मई-74
3802	एस. शानमुगम (सेलप्पा गुंडेर)	टीएनएसवीसी/181 7/05	अक्काराईपट्टी डाक, मल्लसमुद्रानी वाया, नमक्कल जिला 637503, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/94	02-जून-70
3803	एस. शांति (पत्नी आर. बाबू)	टीएनएसवीसी/233 5/05	11/74, टी.फे.सी. नगर, टी.वी.एस. नगर, महाराजा नगर (डाक), तिरुनेलवेली 827011, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/95	14-मार्च-72
3804	एस. सिवाज्ञानम (पी. संथाल)	टीएनएसवीसी/227 7/05	1172, थेंडराल नगर, वेंगीककल, तिरुवन्नमलई, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/91	09-अप्रैल-66
3805	एस. सिन्धा	पॉण्डीएसवीसी/260 /05	28, अमीरथ निवास, स्ट्रीट, राजाजी नगर, पॉंडीचेरी-8	बीवीएससीएंडए एच/पीयू/05	23-अक्टू-62
3806	एस. श्रीगीथा (कै. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी/469 /05	130ए, मारुथाम कॉम्प्लेक्स, बाजार स्ट्रीट,	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/05	16-मई-62
3807	एस. श्रीजीशा	पॉण्डीएसवीसी/271 /05	20, वीरइयाह स्ट्रीट, गुंडुपलायम, पॉंडीचेरी-9	बीवीएससीएंडए एच/पीयू/05	05-सित-62
3808	एस.टी. बीनो सुंदर (पी. सुंदरराज)	टीएनएसवीसी/210 9/05	15/13 बी, कोटापुलिवलई, पालियडी डाक, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु 629169	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/00	02-जुला-76
3809	एस.टी. राजकुमार (एस. थंगावेल)	टीएनएसवीसी/254 8/05	103, कुलालर स्ट्रीट, इलांडाकुट्टई डाक, इरोडे 638008, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/94	25-मार्च-70
3810	एस.टी. सेत्थन (आर. एन. शानमुगम)	टीएनएसवीसी/138 0/05	ए8, प्लॉट न. 109, चौथी वेस्ट स्ट्रीट, वीरापंडियान नगर, चूलईनेडु, चेन्नई 600084	बीवीएससी / टीएनएसयू/88	07-जुला-68
3811	एस. थिरुनावुकुशासु (बी. सेलामुथु)	टीएनएसवीसी/229 8/05	64/ए8, एम.वी.के. नगर, पेराम्बलूर डाक व जिला, पिन 621212, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/01	04-अप्रैल-77
3812	एस.यू. बासवराजा (एस. उमापथि)	टीएनएसवीसी/318 8/05	एचआईजी 31, टीएनएसबी, इरेनाहल्ली डाक, पलाकोड 636808, तमिलनाडु	बीवीएससी / यूएसबंगलौर /87	01-जून-62
3813	एस.बी. सिंगारासेलम (एस. वेंकटेशन)	टीएनएसवीसी/263 2/05	न. 270, जीबानंदम स्ट्रीट, गांधी नगर, वेल्सोर 632006	बीवीएससी / टीएनएसयू/87	27-मई-63
3814	एस.बी. सुजाथा, पुत्र श्री एस. कृष्णन	टीएनएसवीसी/360 7/06	न.48, सत्यदेव एवेन्यू, एमआरसी नगर, चेन्नई 600028, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडए एसयू/91	01-जून-68

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3615	एस. वेलईपंडी (बी. सीनिवासगम)	टीएनएसवीसी/175 3/05	मेन रोड, वेलायुथापुरम पोडुगई डाक, तौनकासी तालुक, तिरुनेलवेली जिला, पिन 627856, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/93	11-सित-65
3618	एस. वेंकटेशन (एन. आर. सामी)	टीएनएसवीसी/178 9/05	न.9, राजाराम स्ट्रीट, पुडु नगर डाक, थिरुमंगलम, मदुरई जिला	बीवीएससी/ टीएनएसयू/89	01-सित-65
3617	एस. विजय कुमार राव, पुत्र श्री नारायण राव	एपीएसवीसी/4422 /06	2-101, गोपालपुरम, हनमकोंडा (एम), वारंगल जिला, 506015, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी/एपीएसयू/79	06-मार्च-56
3618	सबीहा हयाथ बाशा (के. हुसैन शरीफ)	टीएनएसवीसी/224 6/05	न. 4/8, ग्रेस कोर्ट अपार्ट., अकबराबाद II स्ट्रीट, कोडम्बक्कम, चेन्नई 600024	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/92	13-फर-68
3619	सबिता कुमार, पुत्री श्री श्रीकृष्ण राम	बिहारएसवीसी/246 2/04	ग्राम/मुहल्ला-गडपुर, डाक बिहार शरीफ, सबडिवी. व जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएसयू/04	08-मार्च-79
3620	सधिन सीखालगी, पुत्र श्री नानासाहेब	कर्नाएसवीसी/3744 /	धिंचली रायबाग तालुक, बेलगाम 591217, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/कैवीएंडएएसयू/05	22-अग-82
3621	सधिन उपाध्याय, पुत्र श्री एस.एस. उपाध्याय	एमपीएसवीसी/230 3/05	ए-24, विजयनगर कॉलोनी, अमखो लशकर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/05	28-सित-78
3622	सदानंद दिवाकर, पुत्र स्व. श्री मुंशी तांती	बिहारएसवीसी/258 7/05	ग्राम/मुहल्ला- कानन, डाक केशोपुर, जिला जमुई, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएसयू/05	15-जन-77
3623	सदीनेनी श्री लक्ष्मी, पुत्र श्री एस. मलियाह	एपीएसवीसी/4385 /05	क्वा. न. 588-डी, गांधीनगर, गोदावरीखानी, करीमनगर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएसयू/05	04-जून-81
3624	साफना इसाक एम.	केरल/3019/05	मट्टमेलमाउस, मुलंथुरुथी, अनाकुलम 882314, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/केएसयू/05	02-जन-80
3625	सहद एस.	केरल/3068/06	खाडीजा मंजिल, कन्नानल्लोर डाक, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/केएसयू/05	25-सित-79
3626	सहाय प्रताप फोंगलान (ए.एम. फोंगलान)	टीएनएसवीसी/161 2/05	18-बी, हेनरी रोड, नगरकोइल 629001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/96	03-नव-80
3627	सहद मुस्तफा (येहशानल्लाह)	टीएनएसवीसी/221 6/05	11/ए, जैलानी स्ट्रीट, लाबई कुडी कडु डाक, पेराम्बलूर जिला, 821108, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडए एसयू/93	10-जून-70
3628	सैकिया (सुश्री) देबानिता, पुत्री स्व. श्री देबनंद सैकिया	असमएसवीसी/222 9/05	द्वारा श्रीमती अनीता सैकिया, आर्या नगर, आर्या पथ-2, गुवाहाटी-16, असम	बीवीएससीएंडए एच/एसएसयू/03	16-अप्रैल-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3629	सैकिया बिनंदा बिकारा, पुत्र श्री बेनुघर सैकिया	असमएसवीसी / 222 6/05	मयंग नाराह पथ, स्टेशन रोड, डाक व जिला धीमाजी, पिन 787057, असम	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/05	01-मार्च-81
3630	सैलेश कुमार मोहंती, पुत्र श्री पी.के. मोहंती	उड़ीसाएसवीसी / 19 86/05	एटी/डाक-तितिरा, थाना बासीकुडा, जिला जगतसिंगपुर उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	07-मई-80
3631	सामबांगी रामबाबू, पुत्र श्री अपमाला स्वामी एस.	एपीएसवीसी / 4367 /05	प्लॉट नं. 277, फेस II, साकेत, कांपरा, सिकंदराबाद-500062, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	03-अग-82
3632	समीर कुमार मंडल, पुत्र श्री जवाहरि प्रसाद	बिहारएसवीसी / 248 2/04	ग्राम/मुहल्ला-बेबली, डाक जुगलपुर, थाना गोबिंदपुर, सबडिवी. धनबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएंडएफएयू/0 3	16-अप्रैल-77
3633	समीरम मंडल, पुत्र श्री जालेश्वर मंडल	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3157/05	ग्राम:काजीचाक, डाक: खन्याडीह, जिला पुरबा मिदना पुर, 721641, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	02-सित-81
3634	सम्राट खुराना, पुत्र श्री सोहन लाल खुराना	यूबीसी / 129/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, तूनी जिला, देहशिदून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/02	30-नव-77
3635	संदीप भाटिया, पुत्र श्री देवकी नंदन भाटिया	हरिएसवीसी / 1867	म.न. 1426, सेक्टर-14, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	18-फर-80
3636	संदीप गुप्ता, पुत्र श्री देस राज गुप्ता	एचपीएसवीसी / 737 /05	संस्कृत कॉलेज के निकट, पुराना बाजार, सुंदर नगर, जिला मंडी, 174402, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	26-जून-79
3637	संदीप खिमता, पुत्र श्री काहन सिंह	एचपीएसवीसी / 710 /05	ग्राम बाघल, डाक कैरवी, थाना कोठई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	18-फर-81
3638	संदीप कुमार, पुत्र श्री सुरेश शर्मा	बिहारएसवीसी / 254 4/04	ग्राम/मुहल्ला-जलालपुर, डाक सोहसराय, थाना सोहसराय, सबडिवी. बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/यूएसघारवाड़/04	15-फर-79
3639	संदीप श्रीवालसन, पुत्र श्री श्रीवालसन एम.के.	कर्नाएसवीसी / 3777 /	एफ 2, 13/14, कोरोमेट कैसल, आरएमवी नायडु लेआउट, संजयनगर स्टेज, बंगलौर-24, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	08-नव-82
3640	संदीप यादव, पुत्र श्री शेर सिंह यादव	हरिएसवीसी / 1888	1183/9, शास्त्री नगर, लाडोत रोड, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	10-अग-82
3641	संध्या पी., पुत्री श्री बिक्सा रेड्डी पी.	एपीएसवीसी / 4402 /05	मं.न. 29-73, इडुलागुडा मिरयलगुडा 508207, नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	10-जुला-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3642	संध्या टी.पी.	केरल/3051/05	थाजे परम्बथ हाउस, मेपाडम डाक, ममपड (वाया), मलपुरम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	23-मार्च-79
3643	सन्दिग्ध सेनापति, पुत्र श्री सरोज सेनापति	उड़ीसाएसवीसी/19 98/05	एटी: मकालपुर, डाक मोतीगंज, जिला बालासौर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/05	04-सित-78
3644	संगीता बेरमड्या, पुत्री श्री एस. एल. बेरड्या	एमपीएसवीसी/230 8/05	म.न. 1608, सिध बाबा रोड, गोपाल होटल, लालमती जबलपुर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/05	16-मई-82
3645	संजय कुमार, पुत्र श्री राम निवास	हरिएसवीसी/1885	अमर नगर, हनुमान धानी, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	28-जुला-79
3646	संजय कुमार भारती, पुत्र श्री रवन पासवान	बिहारएसवीसी/232 2/03	ग्राम व डाक-सहारी, थाना-घोसबरी, सबडिवी. -बढ़, जिला-पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी/03	08-मार्च-76
3647	संजय कुमार प्रधान, पुत्र श्री आर.सी. प्रधान	उड़ीसाएसवीसी/20 30/05	एटी/डाक-सहरगुरुजंग, वाया-पलहारा, जिला अंगुल 759119, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/05	21-जून-81
3648	संजय कुमार, पुत्र श्री श्री भगवान साऊ	बिहारएसवीसी/242 9/04	ग्राम-चबैल, डाक-महापुर, थाना कौयाकोल, सबडिवी.-नवादा, जिला बवादा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /03	08-अग-78
3649	संजय कुमार, पुत्र श्री देव नंदन प्रसाद	बिहारएसवीसी/256 7/04	ग्राम/मुहल्ला-पनाती, डाक- पनाती, थाना-बेलागंज, सब-डिवी. -गया, जिला गया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	04-जून-77
3650	संजय कुमार, पुत्र श्री राधा कृष्ण रजाक	बिहारएसवीसी/239 1/03	ग्राम व डाक-मोरे, थाना- मोकामा, सबडिवी.-बढ़, जिला- पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	28-नव-77
3651	संजय कुमार शर्मा, पुत्र श्री स्व. श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा	यूवीसी/153/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट. हॉस्पिटल, थलंडी (यामकेश्वर) जिला: पौडीगढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेईवीवी/98	30-जुला-71
3652	संजय कुमार वर्मा, पुत्र श्री राम हरि प्रसाद	बिहारएसवीसी/255 4/04	ग्राम/मुहल्ला-भलूया, डाक- कचियावान, थाना-बोध गया, सबडिवी.-गया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	01-मार्च-77
3653	संजय सरकार, पुत्र श्री सुशील चंद्रा सरकार	डब्ल्यूबीएसवी सी/3201/05	ग्राम शेरपुर, डाक बुनियादपुर, जिला डी/दीनाजपुर-733121, पश्चिमी बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	30-अप्रैल-83
3654	संजय सूद, पुत्र श्री डी.पी. सूद	पीबीएसवीसी/2582 /05	3124/3, सेक्टर 44-डी, चंडी, रमल मेडिकल हॉल, एससीएफ 202, सेक्टर 24डी, चंडी, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/91	26-मई-68

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3655	भंजय एम.पी., पुत्र श्री एम.टी. पुट्टाराजू	कर्नाएसवीसी / 3789 /	मुलपेटालु, मारेनाहल्ली डाक, के. आर. नगर, मैसूर जिला, 571441, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच / केवीएंडएफएसयू / 05	19-जुला-82
3656	संजीत कुमार, पुत्र श्री श्री अनेश्वर प्रसाद मेहता	बिहारएसवीसी / 248 8 / 04	ग्राम / मुहल्ला—मानिकपुर, डाक कवाडपुर, थाना—सूरजगढ़, सबडिवी. / जिला—लखीसराय, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 04	25-फर-80
3657	संजीत कुमार, पुत्र श्री राम नरेश राय	बिहारएसवीसी / 2533 / 04	ग्राम / मुहल्ला—पंधरुखी, डाक—रतनपुर बेला, थाना—समस्तीपुर, सबडिवी.—समस्तीपुर, जिला—समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 04	10-अक्टू-79
3658	संजीव कुमार जीहरी, पुत्र स्व. श्री आर.सी. जीहरी	यूवीसी / 176 / 06	वेट. अधिकारी, प्रजनन फार्म, भरारीसेन, जिला चमोली, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच / सीएसएकेईपीवीवी / 92	05-जुला-89
3659	संजीव कुमार, पुत्र श्री शीतल प्रसाद यादव	बिहारएसवीसी / 231 8 / 06	ग्राम सुखासन खोठी, डाक लोकाही, थाना बरहारा खोठी, सबडिवी. बमदहा, जिला पूर्णिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 02	25-सित-74
3660	संजीव कुमार, पुत्र श्री दर्शन सिंह	पीबीएसवीसी / 2610 / 05	ग्राम सरदारपुर, डाक बजाचक तहसील दसूया, जिला होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच / पीएयू / 05	10-जन-79
3661	संजीव कुमार, पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्रा	बिहारएसवीसी / 255 5 / 04	ग्राम / मुहल्ला—मनिहारी, डाक मनिहारी, थाना मनिहारी, सब मनिहारी, जिला कटिहार, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / एमएएंडएफएसयू / 04	10-दिस-82
3662	संजीव कुमार, पुत्र श्री विजय कुमार	बिहारएसवीसी / 260 1 / 05	ग्राम / मुहल्ला—बेगम की हवेली, डाक खजेकलां, थाना खजेकलां, सबडिवी. पटना सिटी, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 05	17-जन-79
3663	संजीव कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी / 228 2 / 02	ग्राम हथियांवा, डाक हथियांवा, थाना हथियांवा, सबडिवी. शेखपुरा, जिला शेखपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 99	14-नव-76
3664	शांतनु पांडा, पुत्र श्री श्यामल कुमार	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3167 / 05	ग्राम केशियारी भुनियाबर, डाक प्रोतापपुर, जिला पुरबा मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएस / 05	02-मई-83
3665	सांथा सिवा रेड्डी, पुत्र श्री यू. गली रेड्डी	एपीएसवीसी / 4312 / 05	वेंकट रेडियापल्ली, पुल्ललाचेरुदु (एम), प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	15-जुला-79
3666	शांति नागार्जन (पत्नी श्री एस. नागार्जन)	टीएनएसवीसी / 228 2 / 05	न. 39, सिधराथरा नादा स्ट्रीट, तिरुवन्नामलई, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 88	27-६.प्रैल-65
3667	संतोसम मुथुकुमार (एस. संतोसम नादर)	टीएनएसवीसी / 710 / 05	9/4, गेलिंग भवन, आर्शीवाद पुरम स्ट्रीट, सतनकुलम, धूतुकुडी 828704, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 89	04-नव-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3668	संतोष हादीमनि, पुत्र श्री गिरिमलम्पा हादीमनि	कर्नाएसवीसी/3712 /	द्वारा: जी.ए. हादीमनि, अध्यापक नगर, नारगुंड, 582207, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	22-जुला-82
3669	संतोष कुमार, पुत्र श्री लेख राम	एचपीएसवीसी/720 /05	ग्राम व डाक बस्सी, तह. सदर, जिला बिलासपुर, एचपी 174002, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	08-दिसं-80
3670	संतोष कुमार, पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद	बिहारएसवीसी/245 0/04	ग्राम/मुहल्ला-पोखरमिंदा, डाक सासामुसा, थाना कुचई कोट, सबडिवी. गोपालगंज, जिला गोपालगंज, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	03-जून-78
3671	संतोष कुमार, पुत्र श्री लाल बाबू मांझी	बिहारएसवीसी/231 5/03	ग्राम-समस्तीपुर, डाक बानपुरा बाजार, थाना जनता बाजार, सबडिवी. छपरा, जिला छपरा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएसयू/03	01-मार्च-78
3672	संतोष कुमार, पुत्र श्री नरसिंह प्रसाद भगत	बिहारएसवीसी/227 9/03	ग्राम लटराहा, डाक अमहा, थाना सुपील, सबडिवी. सुपील, जिला सुपील, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएसयू/02	24-मार्च-77
3673	संतोष कुमार, पुत्र श्री हरिशंकर यादव	यूवीसी/173/08	एसबीआई (एडीबी), काशीपुर, उधमसिंह नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी/03	30-मई-80
3674	संतोष कुमार, पुत्र श्री अनुरोध नारायण यादव	बिहारएसवीसी/226 1/02	ग्राम- फुलिकिया, डाक फुलिकिया, थाना इस्माइलपुर, सबडिवी. नवगधिया, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/उदयवीयूएंडएफएसयू/02	01-जन-79
3675	संतोष कुमार एच.टी., पुत्र श्री शिप्येस्वामी एच.टी.	कर्नाएसवीसी/3792 /	आरटीडी, पोस्टल क्लर्क, भरमम्पा स्ट्रीट, मोलाकलनूर तालुक, चित्रदुर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	25-मई-81
3676	संतोष रवानी, पुत्र श्री कलाचंद रवानी	बिहारएसवीसी/247 7/04	ग्राम/मुहल्ला-छोटा नगरी, डाक-तेतुलमकी (सिजुया) थाना तेतुलमकी, सबडिवी. धनबाद, जिला धनबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/04	03-फर-78
3677	संतवाना पिलई, पुत्र श्री प्रेमनंद पिलई	उड़ीसाएसवीसी/19 88/05	एटी-247/2, ऐरोव रम एरिया, बुधनरवर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/05	23-जुला-80
3678	शानी शोमस	केरल/3048/08	किष्काकेकारा हाउस, शोमीनाडु डाक, पाला कोट्टायम 686861, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	16-मार्च-81
3679	सरिता जेना, पुत्र श्री सुरेश च. जेना	उड़ीसाएसवीसी/20 09/05	एटी: महिना नगर, डाक- नुआबाजार, जिला- कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/05	29-जून-81
3680	सरिता कमकोरिया, पुत्री श्री शिव चरण लाल कमकोरिया	एमपीएसवीसी/232 4/08	मऊ चंद्रबानी, गाढरवाली नाता रोड, लखर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/05	12-फर-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3681	सरिता यादव, पुत्री श्री एस.आर. यादव	हरिएसवीसी/ 1892	म.न. 639, सेक्टर-15ए, हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/ सीसीएस एचएयू/05	01-फर-80
3682	सरिथा ए.एल.	केरल/3037/05	कादुविला साबु सदानम, वेनीयूऊ, नेलीविला डाक, त्रिवेंद्रम 695523, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	10-मई-82
3683	सरिथा अनुगु, पुत्री श्री ए. हनुमंथ राव	एपीएसवीसी/4417/05	एमआईजी। न.17, नई एपीएचबी कॉलोनी, निजामाबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	09-मई-82
3684	सरिता कृष्णा	केरल/3058/05	साकल्या, टीसी 10/588, पेरुरकडा डाक, त्रिवेंद्रम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	10-अप्रैल-81
3685	सरिथा एस.	केरल/3069/05	अजीककाथु (सरिता सदानम) पनानेगड डाक, कोची अर्नाकुलम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	31-दिसं-79
3686	सर्मा ध्रुव ज्योति, पुत्र स्व. श्री जगर च. सर्मा	असमएसवीसी/2205/05	द्वारा श्रीमती निरूपमा सर्मा, एच.बी. रोड, वार्ड न. 11, सिबसागर, पिन-785640, असम	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/05	01-जन-81
3687	सर्मा नथ कुमार, पुत्र स्व. श्री रजनी कांत सर्मा	असमएसवीसी/2234/05	नामघर पथ, खानापाड़ा, गुवाहाटी -22, असम	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/81	01-मार्च-58
3688	सरोज कुमार, पुत्री श्री रणधर सिंह	बिहारएसवीसी/2612/05	ग्राम/मुहल्ला-इन्द्रपुरा डाक-नटवर, थाना-बिक्रमगंज, सबडिवी. - बिक्रमगंज, जिला रोहतास, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	15-नव-82
3689	सरोज कुमार मोहंती, पुत्र श्री बी.के. मोहंती	उड़ीसाएसवीसी/1994/05	ग्राम/डाक: कमारशालिया, वाया नामपो, जिला बालासोर, पिन 756034, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	23-फर-78
3690	सरोज कुमार रजाक, पुत्र श्री शिव प्रसाद रजाक	बिहारएसवीसी/2324/03	ग्राम व डाक-बरून, थाना बरून, सबडिवी.- औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/03	09-नव-79
3691	सरोज कुमार सिंह, पुत्र श्री कल्याणद सिंह	बिहारएसवीसी/2500/04	ग्राम/मुहल्ला- खामारी, डाक केकवाड़ा, थाना बंका, सबडिवी. बंका, जिला बंका, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/04	31-जुला-75
3692	सरोजा रमेश, पत्नी (पी. रमेश कुमार)	टीएनएसवीसी/1987/05	न. 26, माधी हुसैन खान स्ट्रीट, रोयापेट्टाह, चेन्नई 600014	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/99	11-जून-75
3693	श्रवण सिंह, पुत्र श्री हरि सिंह जी	राजएसवीसी/3229/08	एच-27, खतूरिया कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/एमएलएसयू/84	02-अग-55

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3694	सशि भूषण सुधाकर, पुत्र श्री बी.के. दास	बिहारएसवीसी/230 3/03	ग्राम व डाक— गुमहा, थाना — पंडौल, सबडिवी.— मधुबनी, जिला —मधुबनी, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएएस /02	01-मार्च-80
3695	सशि कला, पुत्री स्व. श्री रामधरिन्द्र	बिहारएसवीसी/231 2/03	ग्राम—बसौनी, डाक—धरहरा, थाना—सूर्यगढ़, सबडिवी.— लखीसराय, लखीसराय, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएएस /03	05-अक्टू-79
3696	सतीश चंद्र जोशी, पुत्र श्री पी.आर. जोशी	यूवीसी/24/06	ग्राम मुंघोल, तहसील 7 तूनी, जिला— देहरादून, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी/95	19-जुला-72
3697	सतीश चंद्र, पुत्र श्री जीतेंद्र सिंह	यूवीसी/133/06	56/14, कनाल रोड, वैली गैस गोदाम के निकट, देहरादून, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी/04	19-जुला-79
3698	सतीश बी., पुत्र श्री वैजनाथ	कर्नाएसवीसी/3729 /	म.न. 19-04-133, मौबद तालुक, व जिला—बिदर— 585401, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केबीएंडएफएएस/95	08-अक्टू-82
3699	सत्य प्रिया, पुत्र श्री सत्येंद्र नारायण सिंह	बिहारएसवीसी/238 6/03	ग्राम—रोख अली, डाक—बेराबाक, थाना—इस्लामपुर, सबडिवी.— दिलसा, जिला—नालंदा, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/03	01-मार्च-79
3700	सत्यनारायण अर्चना, पुत्र श्री ए. गोविंदराजलु	एपीएसवीसी/4329 /05	द्वारा मणि अर्चना, कोरिंगा, 533461, तालारेवू (एम), पू.गो. जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	21-जून-79
3701	सावी, पुत्र श्री ओम प्रकाश	हरिएसवीसी/1858	838/11, राम नगर कॉलोनी, डॉली, जिला हिसार, हरियाणा	बीबीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	18-फर-82
3702	सीमा, पुत्री श्री ध्यासदेव तिवारी	बिहारएसवीसी/239 3/03	ग्राम—भदवाकूप, डाक कुचलकोट, सबडिवी.—जिला— गोपालगंज, बिहार	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/03	15-जून-79
3703	सेंटीरेनला लोंगकुमार, पुत्र श्री पांगजुंग किंगकुमार	एमएसवीसी/ 208/08	द्वारा सियामेनजा, डायरेक्टर ऑफ इंजिनरी, नागालैंड, कोहिमा	बीबीएससीएंडए एच/एएयू/08	18-सित-81
3704	शगुफता प्रवीण, पुत्री मोह. तीफीक अहमद	बिहारएसवीसी/288 0/05	ग्राम/मुहम्मद—भरकोही, डाक भारतीली, थाना औरंगाबाद, जिला औरंगाबाद	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/95	20-मई-80
3705	शाह नीरज कुमार ए.	गुजएसवीसी/2650 /08	2/14, गवर्न., 'जी' कॉलोनी, लाल मिल सचिवालय के पीछे, अहमदाबाद 380021, गुजरात	बीबीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि.वि./08	31-अग-81
3706	शाहिद अनवर खान, पुत्र स्व. श्री बशरत खान	एमपीएसवीसी/232 5/08	75, रामनगर, संजीवनी हॉस्पिटल, अधरताल, जवाहरपुर मध्यप्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/जेएसकेबी बी/82	28-मार्च-87

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3707	शाहनवाज इमाम, पुत्र श्री जफर इमाम	बिहारएसवीसी / 232 6 / 03	ग्राम पंचमहल्ला, डाक व थाना जहानाबाद, सबडिवी. जहानाबाद, जिला जहानाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 03	05-फर-78
3708	शैबी धीमस	केरल / 3007 / 05	कडापलक्कल हाउस, इरदुपेटा डाक, काकुवामुजी, कोट्टायम - 686121, केरल	बीवीएससीएंडए एच / केएयू / 05	26-अप्रैल-79
3709	शेख एम.आई.जे.	गुजराएसवीसी / 2651 / 06	3.मुंसीपार्क सोसा.नगर, ट्रांस पोर्ट नगर सोसा., खुरवाड़ा रोड, मोदासा, जिला साबरकण्ठा, पिन 383315, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच / आनंदकृ.वि.वि. / 06	26-सित-82
3710	शैलेन्द्र कुमार, पुत्र श्री राज देव सिंह	बिहारएसवीसी / 233 6 / 03	ग्राम प्र डाक जामुयारा खुर्द, थाना रोशनगंज, सबडिवी. शेरघाटी, जिला गया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 03	05-जन-78
3711	शैलेन्द्र कुमार, पुत्र स्व. श्री विशेषर प्रसाद	बिहारएसवीसी / 252 3 / 04	ग्राम/मुहल्ला- कासवान, डाक कासवान, थाना किंजेर, सबडिवी. जहानाबाद, जिला जहानाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / सीएसएए एंडटीयू / 04	16-दिस-78
3712	शाजु देवकुमार (पौल सैम चंद्रसेखरन)	टीएनएसवीसी / 226 9 / 05	प्लॉट न.1, डोर न.3 / 488 / 9, महा नगर एकस-IV, मदानंद पुरम, पोरूर, चेन्नई 600116	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 92	29-अक्टू-85
3713	शकुंतला यादव, पुत्र श्री आर.डी. यादव	यूवीसी / 157 / 06	म.न.22, स्ट्रीट न.02, जैन कॉलोनी, रुद्रपुर जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच / जीबीपीयूएंडटी / 04	15-फर-82
3714	शम्भू नाथ, पुत्र श्री राम प्रसाद यादव	बिहारएसवीसी / 227 2 / 03	ग्राम-सिसवा बरही, डाक- फुलपरास, थाना-फुलपरास, सबडिवी.-फुलपरास, जिला- मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 02	07-अग-73
3715	शम्भू प्रसाद, पुत्र श्री तारा नंद यादव	बिहारएसवीसी / 225 7 / 02	ग्राम मुजियासी, डाक परसा, थाना घोघरडीह (नया इस्माइलपुर), सबडिवी.-जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 00	07-सित-72
3716	शम्भू शहन सिंह, पुत्र श्री देवनाथ सिंह	बिहारएसवीसी / 260 7 / 05	ग्राम/मुहल्ला- दुलारबीघा, डाक-समपुरछाप, थाना- देवकुंड, सबडिवी.-दौड़नगर, जिला-औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 05	08-मई-80
3717	शामना एम.	केरल / 3040 / 05	अराडिकुजिल हाउस, नटियामंगलम, चुंभमबट्टा डाक, कुलकालूर (वाया) पलक्कड, 679337, केरल	बीवीएससीएंडए एच / केएयू / 05	20-अप्रैल-81
3718	शंकर ब्याल, पुत्र श्री दीन दया प्रसाद	बिहारएसवीसी / 227 8 / 03	ग्राम महादेव, डाक व थाना बरियारपुर, सबडिवी. मुंगेर सदर, जिला मुंगेर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / एमएएंडएएसयू / 02	03-जुला-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3719	शंकर दयाल वर्मा, पुत्र श्री ब्रह्मदेव वर्मा	बिहारएसवीसी/250 4/04	ग्राम/मुहल्ला-अरूरी, डाक अरूरी, थाना पाकरी बरानवा, सबडिवी. नवादा, जिला नवादा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/04	07-सित-77
3720	शांतनु कुमार, पुत्र श्री देवर्नदन यादव	बिहारएसवीसी/253 9/04	ग्राम/मुहल्ला-गंगासागर, भवानीपुर, डाक-प्रतापगंज, थाना-वीरपुर, सबडिवी.-वीरपुर, जिला-सुपौल, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एमएएंडएफएसयू/0 4	28-फर-80
3721	शरथ एन., पुत्र श्री नागासेट्टी	कर्नाएसवीसी/3782 /	श्री वेंकटेश्वर नीलया, दूसरा मेन, 5वां क्रॉस, हेमवती नगर, हसन, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	28-अक्तू-82
3722	शर्मा संजीव, पुत्र श्री के. शर्मा	असमएसवीसी/223 0/05	प्रोफेसर कॉलोनी, बोहोटिया गांव, जोरहाट, जिला जोरहाट, असम	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएयूएंडटी/9 8	15-दिस-71
3723	शशि प्रकाश, पुत्र श्री रामशरन प्रसाद	बिहारएसवीसी/260 4/05	ग्राम/मुहल्ला-मोहुद्दीनपुर, डाक देसबाक, थाना इस्तामपुर, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	11-जन-82
3724	शशि राना, पुत्र श्री करम सिंह	एचपीएसवीसी/739 /05	ग्राम बगवाल, डाक अधवानी, तह. देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	14-दिस-81
3725	शशि सिन्हा, पुत्र श्री बी.पी. सिन्हा	बिहारएसवीसी/224 0/02	ग्राम-उत्तरी कुसायी, डाक डोरांडा, थाना डोरांडा, सबडिवी. रांची सदर, जिला रांची, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/02	24-मार्च-77
3726	शशिधर, पुत्र श्री काशीनाथ	कर्नाएसवीसी/3731 /	धुम्नासूर, टीवर्स कॉलोनी, कल्लूर रोड, हुम्नाबाद, बिदर 585330, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	15-जून-82
3727	शशिकांत, पुत्र श्री शिवरुद्रइया	कर्नाएसवीसी/3743 /	धुम्नासूर, हीरेमठ कॉलोनी, बासवकल्याण तालुक, बिदर जिला, 585327, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	30-अग-82
3728	श्वेता सूद, पुत्री श्री भरत चंद सूद	एचपीएसवीसी/730 /05	ग्राम गौर टांडा, तहसील-पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	07-मई-82
3729	शीजा वी.एम.	केरल/3012/05	कईमुक्कु इल्लम, कुजीमाट्टोम डाक, कोट्टायम 686533, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	23-मई-80
3730	शोफाली गुप्ता, पुत्र डॉ. ओ.पी. गुप्ता	यूवीसी/93/06	V/1429, टीए कॉलोनी, पंतनगर, उधमसिंह नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयू एंडटी/03	17-जून-81
3731	शिव शंकर सरन, पुत्र श्री नंदलाल सरन	डब्ल्यूबीएसवी सी/3204/05	ग्राम अतिसारा, डाक शालीदाहा, जिला 24 परगना 743145, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	15-जून-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3732	शिव प्रसाद शित, पुत्र श्री एकादशी शित	उत्ख्युबीएसवी सी/3200/05	ग्राम सड़बोनी, डाक कलासबढ़, जिला प.मिदनापुर, 721467, बंगाल	बीवीएससीएंडए, एच/उत्ख्युबीयूएंडएफएस /05	05-मव-82
3733	शिवु सी. थंकाचेन	केरल/3095/05	चक्कलाकल हाउस, थॉडनकुलन गारा, अलेप्पी, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	10-जन-81
3734	शिरले चेरियान	केरल/3062/05	कोट्टकाकथु पुथेन वीडु, हॉस्पिटल जं. कुंडारा, डाक कोल्लम 891501, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	31-मई-81
3735	शिवानंद पाठक, पुत्र श्री यशोवानंद पाठक	यूबीसी/71/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, बधेलीखल, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेईपीवीवी/ 01	12-जुला-72
3736	शिवानी, पुत्री श्री सुरिंदर कुमार भल्ला	पीबीएसवीसी/2833 /06	37, सूर्य विहार, डीएवी कॉलेज के निकट, जालंधर सिटी, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	09-जुला-82
3737	शिवराम, पुत्र श्री निगनागोडा पाटिल	कर्नाएसवीसी/3798 /	द्वारा जी.एन. पाटिल, म.न. एफ-16, टीएलसी कॉलोनी, नेताजी नगर, टी.बी. डैम, होसपेट, बेलारी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	23-मार्च-81
3738	शिवारामु के.वी., पुत्र श्री वीरप्पा	कर्नाएसवीसी/3774 /	कीलाशा ग्राम व डाक, केरागोडु होबली, माण्ड्या तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	22-नव-82
3739	शिवाशंकर, पुत्र श्री पंडित राव	कर्नाएसवीसी/3732 /	वालापुर एटी डाक बेलकोने, औरद तालुक, बिदर जिला, 585401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	05-जून-82
3740	शिवेश सिंह सेनगर, पुत्र श्री प्रभाकर सिंह	यूबीसी/134/06	ग्राम किशनपुर, डाक किच्छा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेईपीवीवी/ 05	03-अक्टू-80
3741	शोभा सफ्जन, पुत्र श्री शिवरंगप्पा	कर्नाएसवीसी/3728 /	लक्ष्मी चौक, जेवारगी डाक व तालुक, गुलबर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	01-जून-80
3742	श्रीकांत, पुत्र श्री सूर्यकांत	कर्नाएसवीसी/3746 /	एस.एस.तली शरन नगर, अलंद तालुक, गुलबर्गा- 585305, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	01-फर-83
3743	श्रीराम, पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/244 9/04	ग्राम/मुहल्ला-दयालपुर, डाक संगीतबैटा, थाना काहलगांव, सबडिवी. काहलगांव, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	15-मार्च-79
3744	श्रीमाली अश्विन गिरधरलाल	गुजएसवीसी/2681 /06	प्रकाश नगर, ताजपुरा रोड, पालनपुर, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/06	29-सित-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3745	श्रीमाली कमलेशकुमार ए.	गुजरात/एसवीसी/2682/06	बी-32, माधव टेनामेंट, आईओसी रोड, चांदखेड़ा, जिला गांधीनगर, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/06	06-अग-63
3746	श्रुतिकेश कुमार, पुत्र श्री बालेश्वर प्रसाद	बिहार/एसवीसी/2337/03	ग्राम शेखअली, डाक बेशवाक, थाना इश्लामपुर, सबडिवी. इश्लामपुर, जिला:नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	03-जन-77
3747	श्वेता कुमारी, पुत्री श्री देवेन्द्र कुमार	बिहार/एसवीसी/2590/05	ग्राम/मुहल्ला- बिरायी, डाक अराये, थाना दौड़नगर, जिला औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	23-अक्तू-78
3748	श्यामेश कुमार, पुत्र श्री गंगाधर सिन्हा	एपीएसवीसी/4308/05	फ्लैट 154, ब्लॉक 19, राजेंद्र नगर, पटना 800016, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	15-जन-82
3749	शैलजा मिडीडोडी, पुत्र श्री नरसइयाह	एपीएसवीसी/4378/05	म.न. 16-4-94, एल.बी. नगर, गोदावरी खानी, करीमनगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	14-जन-80
3750	सिद्धाराजू एन. पुत्र श्री निंगइयाह	कर्ना/एसवीसी/3790/	मड्डूर, येलांडूर तालुक, चामराजनगर, 571441, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	14-फर-82
3751	शिल्पा विश्वम	केरल/3045/05	मेनमपलाघिल हाउस, अजूर डाक, पथानमथिट्टा, 689645, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	10-मई-81
3752	सिमि जी.	केरल/3033/05	स्मिथा भवन, स्पेस कॉटेज, कजाकुट्टोम डाक, त्रिवेंद्रम 895582, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	18-मई-80
3753	सिंसी जोसेफ ओ.	केरल/3022/05	ओलाकॅंगिल हाउस, जेसन विला, कॉन्वेंट के निकट, चित्तटुकारा डाक, थिसूर, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	30-मई-81
3754	सिन्हा (सुश्री) चंदरिमा, पुत्री श्री सी.डी. सिन्हा	असम/एसवीसी/2235/05	फ्लैट न. ए3, स्पदन, अम्बिकापट्टी, सिलचर, कछार, असम	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/06	29-दिसं-81
3755	सिरीशा पुलला, पुत्री श्री ननचारा राव	एपीएसवीसी/4339/05	झे.न. 298/2, सुजाथा गोल्ड कवरिंग वर्क्स, चिलाकलापुडी मचिलीपटनम-02, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	29-अग-82
3756	सिरिगी रेड्डी कामेश रेड्डी, पुत्र श्री गुरिवी रेड्डी	एपीएसवीसी/4429/06	म.न. 31-436, राजा रेड्डी स्ट्रीट, कडपा, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/01	01-मार्च-77
3757	सिवेंद्र कुमार, पुत्र श्री श्याम सुंदर यादव	बिहार/एसवीसी/2408/03	ग्राम कुसमार, डाक बाघा कुसमार, थाना खुटीना, सबडिवी. खुटीना, जिला मधुबनी, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएएस/03	31-मार्च-75
3758	स्मिजिशा ए.एस.	केरल/3078/05	अम्बट हाउस, थडिकादुसेरी डाक, त्रिसूर, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	02-अक्तू-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3759	रिम्हास सिन्हा, पुत्री स्व. श्री राघव शरण श्रीवास्तव	बिहारएसवीसी/232 7/03	ग्राम, काशीपुर, ताजपुर रोड, डाक व थाना समस्तीपुर, सबडिवी. समस्तीपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	01-मार्च-79
3760	रिम्था थॉमस पी.	केरल/3089/05	पूवाथुसेरी हाउस, वडासेरी आयरन ब्रिज, डाक अलेपी, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	22-मई-81
3761	रिम्था पी.के.	केरल/3035/05	पारमबेथुकुड हाउस, नयाथोड डाक, अंगमाली, अर्नाकुलम 683572, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	25-मई-81
3762	स्मृति राना, पुत्री श्री बुधि सिंह	एचपीएसवीसी/729 /05	ग्राम व डाक दुर्गदा, तह. शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	04-मई-81
3763	स्मृतिकना पांडा, पुत्र श्री भितरंजन पांडा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3211/06	ग्राम व डाक—सिमलापाल, जिला बंकुरा—722151, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	08-मार्च-82
3764	सोभा एस.एस.	केरल/3043/05	कुजिविला, वेलावूर, कोलियाकोड डाक, वेंजसामुडु, त्रिवेंद्रम 695607, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	19-मई-81
3765	सोभा ऑगस्टिन	केरल/3000/05	मलारवाडी, ओला थन्नी नेयट्टीकारा, त्रिवेंद्रम—695121, केरल	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	25-मई-81
3766	सोमनाथ पात्रा	उड़ीसाएसवीसी/20 10/05	एटी-प्लॉट न.1328, भीमातांगी, कपिल प्रसाद इकामरा कॉलेज रोड, भुवनेश्वर, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	04-जुला-75
3767	सोमनाथ राहा, पुत्र स्व. श्री स्वप्न कुमार राहा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3187/05	40/41, डेनीस एस.के. लेन, हावड़ा 711109, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	11-नव-82
3768	सोमसुवरा मोई, पुत्र श्री माधुर च. माई	डब्ल्यूबीएसवी सी/3163/05	210/ई/4, स्कूलडुंगा बंकुरा, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	31-अक्टू-80
3769	सोमवीर सिंह, पुत्र श्री सूदे सिंह धनकर	हरिएसवीसी/1879	ग्राम व डाक गोपालवास, डाक बदरई, तालुक च.दादरी, भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	03-मार्च-82
3770	सोमू रवि, पुत्र श्री दिनेश सिंह यादव	बिहारएसवीसी/243 2/04	ग्राम व डाक महेंद्र, थाना पीरबहोर, सबडिवी. पटना सदर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /03	02-अग-77
3771	सोमिन चटर्जी, पुत्र श्री बंशी बदन चटर्जी	डब्ल्यूबीएसवी सी/3175/05	ग्राम व डाक मोंटेश्वर, जिला बर्दवान—713145, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	06-जन-81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3772	सोमन चौधरी, पुत्र श्री गोपाल कृष्ण चौधरी	त्रिपुरावीसी - /161/05	द्वारा जी.के. चौधरी, के.बी. रोड, धर्मन, उत्तरी त्रिपुरा, त्रिपुरा	बीबीएससीएंडए एच/सीएयू/05	20-अप्रैल-82
3773	सोमित्र पंडित, पुत्र श्री रामकृष्ण पंडित	डब्ल्यूबीएसवी सी/3192/05	ग्राम व डाक भूबन नगर, जिला 24 परगना- 743347, पश्चिम बंगाल	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएएस /05	14-मार्च-82
3774	सौरभ धवन, पुत्र श्री सुरिंदर कुमार धवन	पीबीएसवीसी/2005 /05	55, तुरी बाजार, देवी द्वार रोड, फिरोजपुर सिटी, पंजाब	बीबीएससीएंडए एच/पीएयू/05	22-जुला-81
3775	सौरभ मोंडल, पुत्र डॉ. सुशांत कुमार मोंडल	डब्ल्यूबीएसवी सी/3178/05	जी.सी. 223, प्लेट न. 4, सॉल्ट लेक, कोलकाता 700108, पश्चिम बंगाल	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएएस /05	12-अप्रैल-83
3778	सौमिक पॉल, पुत्र श्री श्यामल कुमार पॉल	डब्ल्यूबीएसवी सी/3214/06	प्लेट-4बी, ब्लॉक-एन, भवानी कॉम्प्लेक्स, बारोस्टियाला, कृष्णापुर, कोलकाता-12	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएएस /05	24-जन-82
3777	श्रीजा एस. नायर	केरल/3080/05	3/86, करीपयी सुंदरागिरि रोड, कलामासेरी डाक, अर्नाकुलम 683104, केरल	बीबीएससीएंडए एच/केएयू/05	20-फर-81
3778	श्रीनिवास भारत एम. एस. पुत्र श्री शेबाद्रि एम.एस.	कर्नाएसवीसी/3912 /	बिदट्टमल स्ट्रीट, मेलकोटे, पांडवपुरा तालुक, माण्ड्या जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएएसयू/05	05-सित-83
3779	श्रीदेवी टी., पुत्र श्री राजाशेखरप्पा टी.	कर्नाएसवीसी/3748 /	डोर न.4/328, बनादरोनी, आर/ओ हीरेहडगली, हडगली तालुक, बैलारी -583218, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएएसयू/05	18-जुला-82
3780	श्रीनिवास गंडम, पुत्र श्री हनमंडलु	एपीएसवीसी/4363 /05	न.न. 2-11,द्वारा:जी/रामहयाह, मल्लापुर धर्मावरम (एम), करीमनगर जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	14-अप्रैल-82
3781	श्रीनिवास राव, पुत्र श्री ओमकार	कर्नाएसवीसी/3740 /	एस.ओ. पटनायक, एटी: पोक्मलापुर,न.न.9-10,गुलबर्गा तालुक ब जिला, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएएसयू/05	05-जून-83
3782	श्रीनिवास श्रीरामुलु, पुत्र श्री राजा	एपीएसवीसी/4296 /05	वेमपेट, मेटपल्ली (एम), करीमनगर जिला- 508331, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/आरएयू/01	01-अग-77
3783	श्रीनिवास राव मुनुमथु, पुत्र श्री सम्बासिवन	एपीएसवीसी/4314 /05	अनंतवरम डाक, धुल्लु (एम), गुंदूर जिला- 522238, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	25-फर-83
3784	श्रीनिवास रेड्डी वेना, पुत्र श्री वेंकट रेड्डी	एपीएसवीसी/4348 /05	ब्राह्मणपल्ली, पिडुगुरल्ला (एम), गुंदूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	05-जुला-81
3785	श्रीरंगा एच.के., पुत्र श्री केशवामूर्ति एच.एस.	कर्नाएसवीसी/3781 /	द्वारा मैसूर वेलनाडु सभा, न. 29, रेल्व कौलोनी, आरएमवी सूबरा एल.जी. हल्ली, बंगलौर- 94, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएएसयू/05	02-अक्टू-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3786	सुनील कुमार के.एम., पुत्र श्री मजप्पा पी.	कर्नाएसवीसी/3733 /	सिद्धेश्वर कृपा शांति नगर, दूसरा क्रॉस, शिकारीपुर, शिमोगा, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	01-अग-82
3787	स्टेनली जॉन	केरल/3054/05	थंडिल वीडु, करीकोम डाक, कोट्टाराकारा, कोल्लम- 691531, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	26-नव-77
3788	स्टीफेन सोरेन, पुत्र श्री राजेंन सोरेन	डब्ल्यूबीएसवी सी/3195/05	ग्राम सहरपुर, डाक चिलिमपुर, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	15-जुला-82
3789	सर्वना घोष, पुत्र डॉ. सुभाष च. घोष	डब्ल्यूबीएसवी सी/3184/05	श्रीनगर पल्ली, गोबिंद नगर, जिला बंकुरा- 722102, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	10-दिस-80
3790	सुभा गांगुली, पुत्र श्री स्वप्न गांगुली	डब्ल्यूबीएसवी सी/3149/05	4/8 बी, काटु कुठी लेन, मोवानीपुर, कोलकाता- 25, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	29-जून-82
3791	शुभंकर जोरादर, पुत्र श्री शैरब जोरादर	डब्ल्यूबीएसवी सी/3186/05	म.न. 53, अलीपुर दुआर कोर, पिन 738122, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	02-जन-82
3792	सुभाष कुमार तिवारी, पुत्र श्री जगत नारायण तिवारी	बिहारएसवीसी/248 3/04	ग्राम/मुहल्ला-बारजा, डाक बारजा, थाना विहिया, सबडिवी.-जिला भोजपुर (आराह), बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/04	01-मार्च-79
3793	सुभाष बाबू, पुत्र श्री तुलसी राम	यूवीसी/102/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, बेतलघाट, जिला नैनीताल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेईपीवीवी/ 00	31-दिस-76
3794	शुभाशीष मोहपात्रा, पुत्र श्री छंदा चरन मोहपात्रा	उड़ीसाएसवीसी/20 24/05	म.न. ईबी-356, एटी: बडगडा ब्रिट कॉलोनी, डाक भुवनेश्वर, पिन 751018, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	05-जुला-81
3795	सुभाषी परिदा, पुत्र श्री श्रीचंद्रन परिदा	उड़ीसाएसवीसी/19 89/05	एटी- सत्संग लेन, डाक कल्याणी नगर, जिला कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	09-फर-81
3796	सुभांगु कुमार पटनायक, पुत्र श्री एस. सी. पटनायक	उड़ीसाएसवीसी/19 82/05	एटी/डाक- पंचबहुटी, जिला गंजम, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	20-जून-78
3797	सुबोध कुमार, पुत्र श्री नंद किशोर प्रसाद सिन्हा	बिहारएसवीसी/258 5/05	ग्राम/मुहल्ला- रामचाक, डाक नगरनौसा, थाना नगरनौसा, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	29-अग-80
3798	सुब्रता मोहपात्रा, पुत्र श्री ब्रज किशोर मोहपात्रा	उड़ीसाएसवीसी/20 09/05	एटी: नलाडिया साशन, डाक गटनई, जिला केंद्रपाड़ा, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	26-जून-79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3799	सुब्रते कराली, पुत्र स्व. श्री अरविंद कराली	डब्ल्यूबीएसवी सी/3148/05	ग्राम व डाक सोनताला जिला, हावड़ा पिन 711412, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/05	20-जन-82
3800	सुधिता कुमारी, पुत्री स्व. श्री नरेंद्र प्रसाद	बिहारएसवीसी/258 9/05	ग्राम/मुहल्ला-मिल्की मौहल्ला, डाक चौक आराह, थाना टाउन थाना, सबडिवी.- आराह, जिला भोजपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	21-मार्च-81
3801	सुदर्शन कुमार, पुत्र श्री अरुण कुमार गुप्ता	बिहारएसवीसी/241 1/04	ग्राम व डाक अमौर, थाना अमौर, सबडिवी. बयाशी, जिला पूर्णिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयू एंडटी/03	10-जन-79
3802	सुदीप सिंह साहला, पुत्र श्री लाखा सिंह साहला	पीबीएसवीसी/2593 /05	25-बी, मंड निवास, गुरु तेग बहादुर नगर, डाक खालसा कॉलेज, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	07-अक्टू-81
3803	सुधा रानी, पुत्री श्री जी. रामाकृष्णप्पा	कर्नाएसवीसी/3767 /	एन.जी. हुलकर, श्रीनिवासप्पा, बंगारपेटे तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	02-जून-81
3804	सुधा एस.के., पुत्र श्री नागप्पा एस.के.	कर्नाएसवीसी/3765 /	एच.बी. हल्ली डाक व तालुक, बेलारी जिला- 583212, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	22-फर-83
3805	सुभांशु मिश्रा, पुत्र श्री भारतेंदु मिश्रा	यूवीसी/148/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, झुलाघाट, जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेईपीवीबी/98	28-सित-72
3806	सुभांशु शेखर, पुत्र श्री हरिशंकर प्रसाद	बिहारएसवीसी/226 3/02	ग्राम-पटरीन, डाक-फुडकीचाक, थाना-गोगरी जमालपुर, सबडिवी.-गोगरी, जिला- खगरिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस/02	01-मार्च-77
3807	सुभांशु शेखर पटेल, पुत्र श्री दुबाराज पटेल	उड़ीसाएसवीसी/19 93/05	एटी- पंचायत हाई स्कूल, कांसबहल, डाक कांसबहल, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	08-जून-79
3808	सुभांशु शेखर, पुत्र श्री रामबालक पांडे प्रखर	बिहारएसवीसी/258 3/06	ग्राम/मुहल्ला-दाबिनी चक्कर मैदान, डाक मुजफ्फरपुर, थाना काजी मोहम्मदपुर, सबडिवी. पूर्वी मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	01-मार्च-76
3809	सुभाकर ठाकुर, पुत्र श्री दीनानाथ ठाकुर	बिहारएसवीसी/251 6/04	ग्राम/मुहल्ला- लहसनगंज डाक खवासपुर, थाना रेनुगांव सिमराहा, सबडिवी. फरबीसगंज, जिला अरारिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/04	05-फर-75
3810	सुधीर कुमार जैन, पुत्र श्री विमल कुमार जैन	एमपीएसवीसी/232 0/06	द्वारा अशोक मेडिकल स्टोर, टाडा सागर 470235, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/आईजीकेबीबी/05	09-जुला-79
3811	सुधीर कुमार, पुत्र श्री गोपी चंदर	राजएसवीसी/3231 /06	ग्राम व डाक- 15-जेड, गंगानगर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	09-दिस-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3812	सुधीर कुमार, पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद	बिहारएसवीसी/228 9/03	ग्राम गोपालगंज, डाक व धाना इमामगंज, सबडिवी. शेरघाटी, जिला गया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/02	03-दिस-75
3813	सुधीर कुमार, पुत्र श्री मुखदेव सिंह	यूवीसी/41/08	वेट. श्रमिकारी, भेड़ प्रजनन फार्म, डुंडा, उत्तरकाशी, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/00	12-जन-72
3814	सुधीर कुमार, पुत्र श्री सुरत सिंह	यूवीसी/162/08	ग्राम व डाक नानहेरा, अनंतपुर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी/04	28-दिस-78
3815	सुधीर कुमार तिवारी, पुत्र श्री सैलेश कुमार तिवारी	बिहारएसवीसी/229 4/03	ग्राम अंशा पारी, डाक अंशा पारी, धाना सिमरी, सबडिवी. दुमरांव, जिला बक्सर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/जीएयू/02	28-अग-77
3816	सुजाता साहू, पुत्र श्री नब किशोर साहू	उड़ीसाएसवीसी/19 79/05	द्वारा नब किशोर साहू, एटी: बानीकंधा, डाक अथागढ़, जिला कटक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/05	20-मई-81
3817	सुजीत कुमार, पुत्र स्व. श्री महेंद्र प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/237 9/03	ग्राम व डाक- गोनावा, धाना हरनौठ, सबडिवी. व जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	16-फर-78
3818	सुजीत कुमार, पुत्र श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/229 0/03	ग्राम शेखपुर, डाक शेखपुर, धाना अफरियापुर, सबडिवी. मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/02	01-मार्च-78
3819	सुखजिंदर सिंह नागरा, पुत्र श्री गुरुदेव सिंह नागरा	पीबीएसवीसी/2627 /05	ग्राम व डाक हरगोबिंदपुर, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	16-अग-81
3820	सुमन उमदा, पुत्र श्री यू. मोहन राव	एपीएसवीसी/4359 /05	जे.टी.ओ. म.न. 8-1-101, रामगिरि, नालगोंडा, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	21-मई-82
3821	सुमंता डे, पुत्र श्री फटीक चंद्र डे	उड्यूसी/3182/05	ग्राम डांगापारा, डाक कुलियारा, जिला बीरभूम- 731218, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/उड्यूसीएंडएफएस/05	02-अप्रैल-83
3822	सुमीरा झाडिम	केरल/3029/05	मंगलासेरिल हाउस, मुलारिंगड डाक, कोडीकुलम वाया, इडुक्की 685582, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	19-मई-80
3823	सुमित कुमार, पुत्र श्री मनमोहन लाल	हरिएसवीसी/1883	13/520, खन्ना कॉलोनी, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएस एचएयू/05	19-जून-82
3824	सुंदरलाल राठी, पुत्र श्री बाबू लाल राठी	एमपीएसवीसी/227 5/05	188, चाणक्यपुरी कॉलोनी, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/03-04	22-अग-76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3825	सुनील कुमार बैठा, पुत्र श्री धन्र नाथ बैठा	बिहारएसवीसी/227 0/03	ग्राम बनीटा मुकुंद, डाक सलीमपुर, थाना पारसा, सबडिवी. पारसा, जिला सारन छपरा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 99	08-मई-75
3826	सुनील कुमार चौधरी, पुत्र श्री बीनु प्रसाद चौधरी	बिहारएसवीसी/251 1/04	ग्राम/मुहल्ला- जगदीशपुर, डाक जगदीशपुर, सबडिवी. जगदीशपुर, भोजपुर, बिहार	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/03	01-मार्च-78
3827	सुनील कुमार गुप्ता, पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता	यूवीसी/152/08	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, बागवान, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेईपीवीवी/ 02	05-अप्रैल-78
3828	सुनील कुमीर, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद	बिहारएसवीसी/248 5/04	ग्राम/मुहल्ला- धितामानपुर, डाक घोरार, थाना सासाराम, सबडिवी. सासाराम, जिला रोहतास, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 04	01-मार्च-78
3829	सुनील मांडा, पुत्र श्री पुरुषोत्तम	एपीएसवीसी/4393 /05	वांगापहाड़, हसनपारथी (एम), वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	11-जुला-78
3830	सुनील, पुत्र श्री शंकर	कर्नाएसवीसी/3749 /	पुत्र श्री शंकर चिदरी, एटी डाक कडवाड, बिदर तालुक व जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	01-जून-82
3831	सुनीता कमारी, पुत्री श्री राजनाथ सिंह	बिहारएसवीसी/245 4/04	ग्राम/मुहल्ला-नवादा, डाक बेलवई, थाना कराकट, सबडिवी. विक्रमगंज, जिला रोहतास, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/04	30-जन-80
3832	सुनीता रायत, पुत्री श्री रामेश्वर डे	राजएसवीसी/3235 /06	19.रूप नगर II, सवाईमाधोपुर रेलवे लाइन, टॉक फाटक, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आईजीकेवीवी/05	08-जुला-77
3833	सुपंधा मंडल, पुत्र श्री काली प्रसाद मंडल	डब्ल्यूबीएसवी सी/3158/05	ग्राम एवं डाक-कोलसूर, जिला उत्तरी 24 परगना-743438, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /06	01-मार्च-83
3834	सुप्रिय बक्शी, पुत्र श्री जनार्दन बक्शी	डब्ल्यूबीएसवी सी/3191/05	कटजुरीडांगा, डाक केन्दुआडीह, जिला बंकुरा, पश्चिम बंगाल	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	08-अप्रैल-82
3835	सूरज कुमार, पुत्र श्री विजय कुमार लाल	बिहारएसवीसी/253 6/04	ग्राम/मुहल्ला-कल्याणपुर, बस्ती तानरा, डाक:मोहिउद्दीन नगर सबडिवी. पाओरी, जिला समस्तीपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी/04	15-दिसं-78
3836	सुरजीत नाथ, पुत्र श्री एस.सी. नाथ	यूवीसी/109/08	152/1/2, जाखन, राजपुर रोड, देहरादून	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/99	25-दिसं-73
3837	सुरानी राजेशकुमार ए.	गुजएसवीसी/2640 /08	एटी गणेशपुरा काम्पा, डाक बोलुंदा, तालुक मोदासा, जिला साबरकंठा-383250, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंदकृ.वि.वि./08	06-मई-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3838	सुरेंद्र कुमार नैन, पुत्र श्री बुल्नी लाल नैन	हरिएसवीसी / 1868	ग्राम व डाक कारिया, तह. रामिया, जिला सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/85	22-मार्च-87
3839	सुरेंद्र कुमार, पुत्र श्री गिरिराज सिंह	हरिएसवीसी / 1868	ग्राम वाजीपुर तिताना, डाक दिवबाड़ी, तह इसराना, पानीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	14-जुला-78
3840	सुरेश बाबू बट्टा, पुत्र श्री नागभूषणम बी.	एपीएसवीसी / 4363/05	पुराने डाकघर के निकट, इन्द्रापेट, थिराला(एम), प्रकासम जिला 523165, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	24-मई-82
3841	सुरेश बाबू टी.	केरल / 3079/05	मनिकंडा भवन, कंडाचिराविला पम्पलिल पेरीनाड डाक, कोल्लम, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	14-मई-81
3842	सुरेश नरंजतरी, पुत्र श्री यमनरथा भंजतरी	कर्नाएसवीसी/3736 /	वदवाडागी डाक, बसावन बागेवाड़ी तालुक, बीजापुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	01-जुला-80
3843	सुरेश चंद शर्मा, पुत्र श्री जगदीश	राजएसवीसी/3210 /06	शर्मा मेडिकल एवं प्रोवीजन, लावान, दोसा, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	02-अप्रैल-76
3844	सुरेश कुमार गौड, पुत्र श्री गिबेश्वारी लाल गौड	एमपीएसवीसी/228 7/05	ग्राम व डाक बिलानजी, मंदसौर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी/05	07-फर-73
3845	सुरेश कुमार गोड्डावसासा, पुत्र श्री त्रिनाथ राव	एपीएसवीसी / 4357/05	डी.नं. 5-3-38, पेंटय्या क्वार्टर्स, अमदालावालसा, श्रीकाकुलम जिला, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	27-अग-82
3846	सुरेश कुमार ठाकुर, पुत्र श्री प्रेम राज ठाकुर	एचपीएसवीसी/718 /05	मौहल्ला लाहरी, हरदासपुरा, तह. व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	05-जन-82
3847	सुरेश एम., पुत्र श्री मुदप्पा	कर्नाएसवीसी/3793 /	नल्लेकामनाहल्ली, बेडादूर डाक, मधुगिरि तालुक, तुमकुत जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	10-जन-82
3848	सुरिंदर ठाकुर, पुत्र श्री लक्ष्मी चंद	एचपीएसवीसी/722 /05	ग्राम सेरी भटवास, डाक किलर, पांगी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	25-फर-82
3849	सूर्य नागायणन डी.आर.	केरल / 3087/05	डोड्डामन्ना कारु-कुलांगरा, इरिजलकुडा डाक त्रिसूर 680121, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	23-जन-79
3850	सूर्य शंकर	केरल / 3077/05	सूर्य नादुवाट्टोम डाक, पल्लीपड, अलेप्पी, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	15-मार्च-81
3851	सूसन एलेक्स (शाजू देवाकुमार)	टीएनएसवीसी/227 0/05	प्लॉट नं.1,डोर नं. 3/488/9, मद्यामिगर एक्स.-IV, मदानंदपुरम, पोरुर, चेन्नई 600116	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/82	21-सित-88

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3852	सुरांत कुमार सेठी, पुत्र श्री नकुला सेठी	उड़ीसाएसवीसी/20 12/05	ग्राम जुना पडिया, डाक सामपुर, वाया पीपली, जिला पुरी, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	08-अक्तू-82
3853	सुशील कुमार, पुत्र श्री बिधी चंद	एचपीएसवीसी/724 /05	ग्राम मेरी, डाक बानी, तह. बडसर, जिला हमीरपुर, 174304, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	20-फर-80
3854	सुशील कुमार, पुत्र श्री महावीर सिंह	हरिएसवीसी/ 1861	ग्राम व डाक बुआना लाखु, तह. इसराना, जिला पानीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	20-सित-81
3855	सुशील कुमार सारंगी, पुत्र श्री कैलाश चंद्र सारंगी	उड़ीसाएसवीसी/20 38/06	एम-37, बारामुंडा, एच.बी. कॉलोनी, भुवनेश्वर-3, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/71	23-जून-49
3856	सुशील कुमार यादव, पुत्र श्री दुली चंद	राजएसवीसी/3219 /06	ग्राम कुशालपुरा, डाक जाखोड, झुझुनू राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	01-दिस-80
3857	सुशील कुमार तोपनो, पुत्र श्री धरम दास तोपनो	उड़ीसाएसवीसी/20 34/05	एच.ए.एल. टाउनशिप, सूना बेड़ा-2, क्वा. एलए/462, कोरापुट, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/05	22-दिस-05
3858	सुषमा कुमारी, पुत्री श्री एस.एन. शर्मा	बिहारएसवीसी/238 3/03	ग्राम व डाक हथियावा, थाना शेखपुरा, सबडिवी. शेखपुरा, जिला शेखपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	19-जुला-73
3859	सुधार विशाल एस.	गुजएसवीसी/2641 /06	नया सी/4 स्टाफ क्वा., खेतीवाड़ी एग्री.यूनि.कैम्पस, आनंद 366110, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंदकृ.वि.वि./06	30-नव-62
3860	स्वनेश्वर नाइक, पुत्र श्री केशव नाइक	उड़ीसाएसवीसी/20 22/05	एटी:नूहमालिया (कलियाशोल), डाक सरबनघाटी, वाया नूडाडीह, जिला मयूरभंज 757074, उड़ीसा	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंडटी/05	03-जून-81
3861	स्वरूपमय मजूमदार, पुत्र श्री कमल कांति मजूमदार	कर्नाएसवीसी/3804 /	#19, 5वां मेन, मारुति एक्सटेंशन, श्रीरामपुरम, बंगलौर-21, कर्नाटक	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/01	25-दिस-76
3862	स्वाति, पुत्री श्री बिनोद शर्मा	बिहारएसवीसी/231 1/03	ग्राम एवं डाक सबनीमा, थाना अथमलगोला, सबडिवी. बड, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /02	09-जन-80
3863	स्वेदेवितो नेखा, पुत्र स्व. श्री किहोडेल नीखा	एनएसवीसी/ 206/06	किंकोपाल जॉन आईओसी पेट्रोल पम्प, एनएच 39, मोहनखोला, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएंडए एच/एएयू/05	02-अक्तू-79
3864	टी. अंदावर, पुत्र श्री आर. थिरुमल चेट्टियार	टीएनएसवीसी/344 4/06	107*, 14डब्ल्यूपुराना हॉस्पिटल स्ट्रीट, बोडीनायकानूर 625 513, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/73	05-अक्तू-50

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3865	टी. अरुलकुमार (एम. थंगामनि)	टीएनएसवीसी/311/04	वेंकटसमुद्रम डाक, पापीरेडडीपट्टी तालुक, धर्मपुरी जिला, 636905, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/04	14-अक्तू-79
3866	टी. आमुंगम (थंगावेलु चेट्टी)	टीएनएसवीसी/207/05	एचआईजी 80, विन्नूर टीएनएच बी. रेसवे स्टेशन रोड के सामने, होसूर डाक व तालुक, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनएयू/74	31-अक्तू-51
3867	टी. अरुणानंद (पी. थंगावेल)	टीएनएसवीसी/437/05	459, टीएनएचबी कॉलोनी, वेनमपट्टी, धर्मपुरी तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/04	14-अग-80
3868	टी. असोकन (बी. थंगागराजन)	टीएनएसवीसी/904/05	1199, तमिलोसई वीथि, 5वीं स्ट्रीट, थंथई पेरियार नगर, सेक्कलईकोट्टई, करईकुडी, सिवागगई जिला	बीबीएससी/टीएनएयू/87	04-मई-83
3869	टी. बालाकुमार (के.पी. थिरुमलईसामी)	टीएनएसवीसी/922/05	बी-47, कुरिजी नगर, नया हाउसिंग बोर्ड, ओड्डनचटरम, डाक, डिडीगल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/93	17-मई-70
3870	टी. बाला सुब्रमण्यन (पी. तमिलारासन)	टीएनएसवीसी/117/05	30, थेरकुराथिना सभापट्टिपुरम स्ट्रीट, थिरुनगरम, अरुप्पुकोट्टई, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/97	11-मई-74
3871	टी. बाशिनी (पत्नी पी. बालामुरुगन)	टीएनएसवीसी/313/05	4/18ए, एस.आर. नटराज नगर, कलंगल रोड, सुलुर, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/98	23-नव-70
3872	टी. भास्करन (के. थंगाराजू)	टीएनएसवीसी/314/05	5, नटजापुरम साउथ कॉलोनी, एम. सी. रोड, थंजावूर, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनएयू/84	02-सित-60
3873	टी. भुवनेश्वरी (ए. थंगावेलु)	टीएनएसवीसी/940/05	5ए/67, नारसीदासन नगर, पेराम्बलूर 621212, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/02	21-फर-78
3874	टी. देवी रंजनी, पुत्र श्री के. थंगावेलु	टीएनएसवीसी/332/06	24, कमालम्बी नगर, थिरुवरूर, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	04-मार्च-82
3875	टी. धतधिनामूर्ति (के. ए. थंगावेल)	टीएनएसवीसी/247/05	40/9सी, गोविंदसामी स्ट्रीट, कीलपेरुमक्कम, विल्लुपुरम 805602, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनएयू/82	17-जुला-58
3876	टी. गीथा, पुत्र श्री पी. थंगावेल	टीएनएसवीसी/331/06	13/109, वेस्ट स्ट्रीट, इंगुर, इंगुर डाक, इरोडे जिला, पिन 638058, तमिलनाडु	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	03-अप्रैल-83
3877	टी. ज्ञान सुब्रमण्यन (थिरुवेट्टन)	टीएनएसवीसी/907/05	इलुपकुलम, मारुधनगुडी डाक, कल्तीकुडी (बाया), थिरुमंगलम तालुक, मदुरई जिला, पिन 626701	बीबीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/91	25-जून-67

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3878	टी. गोविंदरंजन (एम. थंगावेलु)	टीएनएसवीसी / 21 / 02	87 / 2, धिरुवल्लुवर नगर, न.1, नागई रोड, थंजावुर 613001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 02	27-मई-78
3879	टी. गुनासेखर (पी. तमिलरासु)	टीएनएसवीसी / 296 / 04	चेट्टीकडु, बालनइकेन पलायम, कंडमपलायम डाक, पी. वेल्लूर तालुक, नमक्कल जिला 637203	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 04	29-मई-81
3880	टी. हरिहरन (ए. थिरुवैगडा चेट्टी)	टीएनएसवीसी / 623 / 05	47, पलानीयप्पा स्ट्रीट, क्रॉस 3, थाविट्टुपलायम, अथियूर डाक, इरोडे जिला, पिन 638501	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 01	02-मई-76
3881	टी. इलांगो (एस. थंगाराज)	टीएनएसवीसी / 315 3 / 05	माउंट जिओन, सोलापुरम साउथ डाक, विरुधुनगर जिला, पिन 626139, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 92	14-अप्रैल-69
3882	टी. जयाबल (पी. तमिलरासन)	टीएनएसवीसी / 225 8 / 05	कीलामलिगई डाक, पोन्पारप्पी वाया, सेंदुरई तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621710, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 01	17-अप्रैल-78
3883	टी. जयलक्ष्मी (के. थंगाराजन)	टीएनएसवीसी / 300 / 04	28 / 3, वीवर्स कॉलोनी, तिरुचेनगोडे, नमक्कल जिला पिन 637211, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 04	21-मई-80
3884	टी. जयति, पत्नी (सी. मोहन)	टीएनएसवीसी / 191 7 / 05	पूंगोथई इल्लम, IV पेरियार नगर, हरूर तालुक, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 96	07-मई-73
3885	टी. जीवागन (वी. थियागराजन)	टीएनएसवीसी / 177 2 / 05	1199, थमिलोसई स्ट्रीट, थंथई पेरियार नगर, 5वीं स्ट्रीट, सेकलाकोट्टई, कराईकुडी 630002	बीवीएससी / टीएनएयू / 74	09-अक्टू-50
3886	टी. जॉन क्रिस्टोफर, पुत्र श्री ए. थंकियाह	टीएनएसवीसी / 342 3 / 06	हनोरा भवन, मामुडु, कुलशेखरम, 629161, कन्याकुमारी, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 86	02-जून-62
3887	टी. कन्नन (एम. थेंसिंगराजन)	टीएनएसवीसी / 322 9 / 05	म.न. 5 / 79, ईस्ट स्ट्रीट, नॉर्थ सालीग्रामम डाक, इलायनगुडी तालुक, सिवांगई जिला, 623710, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 92	30-अग-66
3888	टी. कार्तिक (वी. थंगावेलु)	टीएनएसवीसी / 628 / 05	ए 99, टीएनएचबी, इडापडुडी डाक, सलेम जिला, पिन 637101, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 05	01-जुलै-81
3889	टी. कार्तिक (के. थियागराजन)	टीएनएसवीसी / 84 / 03	एपी 1334, 33वीं स्ट्रीट, सेक्टर-7, के.के. नगर, चैन्नई 600078, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच / यूएसघारवाड / 02	04-अक्टू-78
3890	टी. कावैरी सेल्वन (के. थंगासामी)	टीएनएसवीसी / 112 8 / 05	2 / 404, गांधी रोड, परमकुडी, रामनद जिला, 623707, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 79	02-अक्टू-55

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3891	टी. कोकिलावानी (एन. थंगावेलु)	टीएनएसवीसी / 291 / 04	5 / 1201, प्रकाश इल्लम, अधीयमान स्ट्रीट, सेथिल नगर, धर्मपुरी 636705, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 04	20-जून-80
3892	टी. कौसल्या देवी (पत्नी पोन. पारीवेंदन)	टीएनएसवीसी / 314 8 / 05	42, महालक्ष्मी नगर, टी. कोट्टमपट्टी, पोलाची, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 91	13-सित-66
3893	टी. कृष्णन थिरुमंगई मन्नन)	टीएनएसवीसी / 207 3 / 05	21, मंगापेथी स्ट्रीट, चिंदात्रीपेट, चेन्नाई 600002	बीवीएससी / एमयू / 73	02-अप्रैल-51
3894	टी. लक्ष्मी देवी, पुत्री श्री रामा कौंडा रेड्डी	एपीएसवीसी / 4337 / 05	मोरागुडी, 7 / 107, जमालमडुगु (एम), कडपा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	03-नव-80
3895	टी. लक्ष्मी नारायण रेड्डी, पुत्र श्री टी. लक्ष्मी रेड्डी	एपीएसवीसी / 4347 / 05	केशपुरम, मिट्टोमोरुपल्ली, माड्डुकुर (एम), कडपा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	11-जून-80
3896	टी. महेश्वरन (ए. थंगावेलु)	टीएनएसवीसी / 51 / 03	4, पैलेस वेस्ट स्ट्रीट, रामनाथपुरम 623501, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 03	20-जून-78
3897	टी. मनिचंद्रन (पी. थिरुवेंगडम)	टीएनएसवीसी / 972 / 05	न. 80, सत्याकृष्ण नगर, वेन्नार बैंक, थंजावुर 613003, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच / एच एयू / 90	11-जुला-64
3898	टी. मनोहरन (जे. थंडवामूर्ति)	टीएनएसवीसी / 321 7 / 05	न. 26, म्युनिसिपल कॉलोनी, गांधी नगर ईस्ट, वेल्डोर 632006, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 87	12-मई-62
3899	टी. महेश्वरन (पी. थंगावेलु)	टीएनएसवीसी / 188 0 / 05	18ए.अर्थनारी मुदलियर स्ट्रीट, अट्टायमपट्टी डाक, सलेम जिला, 637501, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 01	14-अक्टू-75
3900	टी. मीरा, पत्नी (ए. गोकुलकन्नी)	टीएनएसवीसी / 880 / 05	21 / 74, कॉवेरी नगर, मेट्टूर डैम, 636401, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 01	05-जून-77
3901	टी. मोहन जी. थिरुमलई)	टीएनएसवीसी / 201 3 / 05	पुराना न.1 / 15 / 23, थिरुकुमारन नगर, नया न. 1 / 43 / 9, पलायमपट्टी अरुप्पुकोट्टई, विरुधुनगर जिला	बीवीएससी / टीएनएयू / 83	18-मई-60
3902	टी. मोहन (थिरुनामुक्कुरासु)	टीएनएसवीसी / 154 3 / 05	2, जी.एस.टी. रोड, गांधी नगर, अचीरुपक्कम 603301, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 69	16-जन-67
3903	टी. मुरुगा लक्ष्मी (पत्नी नाहा. श्रवणन)	टीएनएसवीसी / 107 6 / 05	प्लॉट न.25, टैगोर नगर, तीसरी स्ट्रीट, थिरुपलई, मदुरई जिला	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 90	17-अप्रैल-68
3904	टी. मुरुगेशन (एम. थंगा नादर)	टीएनएसवीसी / 214 1 / 05	मुरुगा भवन, वडुगन पट्टु (दक्षिण) अगास टी स्वरम डाक, 629701, कन्याकुमारी जिला	बीवीएससी / टीएनएयू / 88	20-मई-63

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3905	टी. मुथुकन्टु (थंगावेल)	टीएनएसवीसी/205 6/05	एआर.चट्टीपट्टी डाक, इडापडडी वाया, संकागिरि तालुक,पिन 637101,तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/98	30-मई-66
3906	टी. मुथुरामलिंगम (पी. थंगास्वामी)	टीएनएसवीसी/549 /05	37, नायडु वेस्ट स्ट्रीट, मुडुकुलाथुर 623704, रामनद जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	05-अप्रैल-82
3907	टी. नागराजन (एस. थियागराजन)	टीएनएसवीसी/108 8/05	2/309, सक्ति नगर, तीसरी स्ट्रीट, अय्यर बंगलो, मदुरई 625014, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/82	15-अप्रैल-57
3908	टी. नागरथिनम (टी. एस. थियागराजन)	टीएनएसवीसी/277 7/05	3/2, ईश्वरन कोइल स्ट्रीट, टैपल व्यू अपार्टमेंट, चेंगलपट्टु, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/86	10-जुला-59
3909	टी. नागराजन (डी. थिलई गोविंदन)	टीएनएसवीसी/305 0/05	दूसरा मेन रोड, जयाप्रिया नगर, अबधारानापुरम, वडलूर, कुडलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/98	08-जून-74
3910	टी. पक्कीरीसामी (एस. थंगावेलु)	टीएनएसवीसी/205 5/05	ई-17, मुरुगन कोइल स्ट्रीट, ब्लॉक-20, नेवेली, कुडलूर जिला 607803, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/98	28-सित-72
3911	टी. पलानीसामी (एम. थिरुमलई)	टीएनएसवीसी/138 4/05	6/95ए, करुमापुरम डाक, संकरी वाया, थिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला 637302	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/98	13-मई-75
3912	टी. पलानीसामी (थोडन्ना गुंडेर)	टीएनएसवीसी/254 0/05	1/275, साती मेन रोड, बंगलो पुडुर. 638512, गोबी तालुक,इरोडे जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/83	20-जून-56
3913	टी0 पलानीवेल (एन. थनक्कन)	टीएनएसवीसी/209 2/05	नॉर्थ स्ट्रीट, इलाडईकुडम डाक, अरियालूर तालुक. पराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/93	02-मई-69
3914	टी. पंडियान (डी. थांजी)	टीएनएसवीसी/264 4/05	न. 37, विनयगापुरम, पेरिया अल्लापुरम, वेल््लोर-2, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/93	30-मई-71
3915	टी. परमेश्वरन (के.सी. थियागराजन)	टीएनएसवीसी/188 9/05	17/5, वलायलकरार स्ट्रीट, तिरुमंगलम, मदुरई 625706, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/01	08-अग-77
3916	टी. पॉलराज (पी. थंगावेलु)	टीएनएसवीसी/605 /05	86/ए4, बेथलगाम इल्लम, उपोडम इलाम्बलूर रोड, पराम्बलूर जिला व डाक, पिन 621212	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	06-मई-81
3917	टी. पीटर नोलोस्को (आर. थंकाराज)	टीएनएसवीसी/351 /04	अम्ननविलई, चंकल, काजिराकोड डाक, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/04	28-फर-79

क्र.सं.	नाम	फंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3918	टी. पोनराज (पी. थिरुमलईसामी)	टीएनएसवीसी/564/05	करुमन किनारु, कूथमपोंडी डाक, कल्लीमंडयम वाया, ओडनचटरम तालुक, डिंडीगल तालुक	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/05	21-जून-82
3919	टी. पोनकुमारी (एस. थनापल)	टीएनएसवीसी/325/04	सिरपाथनल्लूर डाक, कदमपुर वाया, संकरपुरम तालुक, विल्लुपुरम 605802, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/04	02-जून-80
3920	टी. पुगार्जेशी (एम. थंगाराजू)	टीएनएसवीसी/468/05	साउथवेली, इलईयूर डाक, उदयारपलायम तालुक, पेराम्बलूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/05	13-जून-81
3921	टी.आर. कानकी (एम. रामासामी)	टीएनएसवीसी/117/03	द्वारा थट्टन थोट्टम, वेट्टामबाडी, नमककल 637405, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/03	18-जुला-80
3922	टी. राजामोहोरन (ए. थरुमनावन)	टीएनएसवीसी/269/05	1/जे, बालाजी निवास, मदन गोपालपुरम, पेराम्बलूर 621212	बीवीएससी/ टीएनएसयू/85	06-जून-81
3923	टी. राजाराम (वी. थियागराजन)	टीएनएसवीसी/273/05	2/504ए, वेलु नगर, सील नइकेन पट्टी, सलेम 636201, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/96	20-जून-74
3924	टी. राजासेखरन (पी. थिरुपति गोडेर)	टीएनएसवीसी/145/05	5/20, नॉर्थ स्ट्रीट, जीवा नगर, बोडीनाथगनूर डाक, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएसयू/81	06-अप्रैल-57
3925	टी. राजासेखरन (टी. एस.एस. थिरुज्ञानसंबदम)	टीएनएसवीसी/162/05	14, ए ब्लॉक, स्नेहम अपार्टमेंट, 3, पार्क रोड, अन्ना नगर वेस्ट एक्सटेंशन, चेन्नई 600050	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/91	27-मई-68
3926	टी. रमन (श्री. थंगावेल)	टीएनएसवीसी/187/05	ग्राम सेलियम पलायम, डाक मेलनारियम्पनूर, तालुक कल्लाकुरिची, विल्लुपुरम जिला, पिन 606201	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/96	13-अप्रैल-71
3927	टी. रामासामी (आर. थसा गूडेर)	टीएनएसवीसी/254/05	46/2, कामराजार कॉलोनी, भवानी रोड, अप्पुकोडल 638 315, इरोडे जिला तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/91	12-मार्च-66
3928	टी. रामासामी, पुत्र श्री वी. थंगामलई	टीएनएसवीसी/338/05	वेम्बानेरी डाक, वेलांडी वलासु वाया, इडापई तालुक, सलेम जिला पिन:637105, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/05	15-अप्रैल-81
3929	टी. रंजीथ (सी. थेवाचियन)	टीएनएसवीसी/108/03	प्लॉट न.148, एवीएम नगर-1, अथानु ग्राम, मादम्बक्कम पोगुडुवानचेरी वाया, कोचीपुरम जिला 60, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/03	17-दिसं-79
3930	टी. रविचंद्रन (एस. थिरुनारायणसामी)	टीएनएसवीसी/318/05	27/14-22, लेनिन नगर, मानथिथोपु रोड, कोविलपट्टी 628501, दयूटिकोरिन जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएसयू/85	14-जुला-62

क्र.सं.	नाम	पजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3931	टी. रंगाराजू (पी. तमिलसेल्वन)	टीएनएसवीसी/194/03	इनाधि वेस्ट, पट्टुकोटई तालुक, तंजौर जिला, पिन 614615, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/03	21-फर-79
3932	टी. सामराज (थिरुपति)	टीएनएसवीसी/2021/05	184, टीएनएचबी, फेस II, तिरुपत्तूर, धर्मपुरी रोड, वेल््लोर जिला 635601, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/92	05-अग-51
3933	टी. सेमुअल गुनासेखर थंगाराज (जे. थॉम्पसन)	टीएनएसवीसी/3182/05	111/11एफ, गोमतीबाई कॉलोनी, ट्यूटिकोरिन 626002, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/84	25-अप्रैल-61
3934	टी. संकर (एल. थंगावेल)	टीएनएसवीसी/53/03	जीएचएस स्कूल स्ट्रीट, लालीगाम डाक, धर्मपुरी जिला, 636804, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/03	16-जून-76
3935	टी. सांथा कुमारी (पत्नी डी.के. आरसु)	टीएनएसवीसी/2136/05	नया न. 19, पुराना न. 3, रेड्डीकुप्पम रोड, वेस्ट मम्बलाम, चेन्नई-33	बीबीएससी/ टीएनएयू/85	07-फर-62
3936	टी. सारथ (पी. थुलसीरमन)	टीएनएसवीसी/731/05	मनियमबाडी डाक, पापीरेड्डी पट्टी तालुक, धर्मपुरी जिला 635303, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/02	06-जून-78
3937	टी. श्रवनकुमार (एन. थंगावेल)	टीएनएसवीसी/385/04	172/5, एनटीआर इल्लम, थिरुचेनगोडु मेन रोड, अडागेलोर गेट, रासीपुरम डाक, नमक्कल जिला 637401	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/04	20-जून-75
3938	टी. श्रवनन (के. थियागराजन)	टीएनएसवीसी/1422/05	43, विनायगर कोविल स्ट्रीट, ई.बी. कॉलोनी, टीएनएसटीसी हैडऑफिस के पीछे, कलेक्टरेट डाक, धर्मपुरी 636705	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/97	30-जून-74
3939	टी. श्रवनन (एम. थिरुपति)	टीएनएसवीसी/2041/03	3/81, बजानई कोविल स्ट्रीट, इरापट्टी, ए. जेट्टीहल्ली डाक, धर्मपुरी 636807, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/03	15-जून-78
3940	टी. सेंथिल (सी. थंगारासु)	टीएनएसवीसी/614/05	रेड्डीपलायम डाक, अरियालूर तालुक, पेराम्बलूर जिला, पिन 621704, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	13-मार्च-81
3941	टी. सेंथिल कुमार (टी. थिरुमेनी)	टीएनएसवीसी/2433/05	मेन रोड, उरानीपुरम 614631, तंजौर जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/00	05-जून-76
3942	टी. सेंथिलकुमार (आर. थंगाराजू)	टीएनएसवीसी/345/04	40-ए, नया न. 49, विनायगर स्ट्रीट, थुरईयूर डाक, त्रिची जिला, 621010, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/04	14-जून-80
3943	टी. शंकमी (एम. थंगावेल)	टीएनएसवीसी/32/02	1बी, एकमे पार्क अपार्टमेंट, माउंट पूनामल्ली रोड, पोळूर, चेन्नई 600116, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/02	24-दिसं-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3944	टी. श्यामला (थिरुनवुकरासु)	टीएनएसवीसी/263 5/05	न.3, भारतीदासन रोड, प्रथम क्रॉस स्ट्रीट, वी.ओ.सी. नगर, पम्मल, चेन्नई 600075	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/01	16-अप्रैल-77
3945	टी. सिवासामी (पी. थंगावेल)	टीएनएसवीसी/544 /05	6/7, वैरमपट्टी, कोट्टानाथम डाक, पलायम वाया, डिडीगल पिन 624620, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	04-मई-82
3946	टी. श्रीकान्त रेड्डी, पुत्र श्री टी. ओबुल रेड्डी	एपीएसवीसी/4349 /05	डी.न. 15/113-1, श्री पद्मावती नगर, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	02-अग-82
3947	टी. श्रीनिवास राव, पुत्र श्री पांडुरंगम	एपीएसवीसी/4391 /05	म.न. 19-5-82/1/11/ए, नंदी मुसलईगुडा, किशनबाग, बहादुरपुरा, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	24-मई-81
3948	टी. सुब्रमनी (थंडवन)	टीएनएसवीसी/698 /05	42, कलईवनर स्ट्रीट, मंडावेली, पुडुपेट डाक, अट्टूर तालुक, सलेम जिला 636141, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/92	29-मई-67
3949	टी. सुब्रमण्यन	टीएनएसवीसी/876 /05	118/8, अरायीपलायम, सी. अय्यमपलायम डाक, मनचानल्लूर तालुक, त्रिची जिला, पिन 621005	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/98	15-मार्च-73
3950	टी. सुब्रमण्यन, पुत्र श्री थंगावेल	एपीएसवीसी/4294 /05	द्वारा आर.आर. ऑटोमोबाइल्स, 10-87, सरकारी अस्पताल के सामने, गजवेल 502278, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/97	10-मई-72
3951	टी. सुरेश (एल. थानीकोडी)	टीएनएसवीसी/294 1/05	डब्ल्यू-4, ओडाई स्ट्रीट, ओडाई पट्टी डाक, पिन 626540, उथामापलायम तालुक, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/94	17-जुला-70
3952	टी. तमिलसेल्वन (वी. थंगाराजन)	टीएनएसवीसी/156 7/05	ए-45, नया हाउसिंग यूनिट, बाइ-पास रोड, मन्नारगुडी 614001, थिरुवरुर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/83	10-सित-59
3953	टी. थेंकरथिंगई (पत्नी वी.एस. सुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी/252 3/05	पौथापलायम, कोसानम डाक, नम्बियार वाया, इरोडे जिला, तमिलनाडु 638458	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/97	04-दिस-72
3954	टी. थिलाकावथी (पी. राजासेखरन)	टीएनएसवीसी/200 9/05	वी-49, टीएनबीएच, करई, रानीपेट 632404, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/88	05-मई-66
3955	टी. थिरुनावुकरासन (के. थंगासामी)	टीएनएसवीसी/129 9/05	102, मूवैथर साउथ स्ट्रीट, किलापवूर 627806, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/95	07-अप्रैल-71
3956	टी. थियागोसन (के.पी. थंजन)	टीएनएसवीसी/319 1/05	कट्टुपुथुर ग्राम एवं डाक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/82	21-मई-55

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3957	टी. उमाकांतन (के. थंगाराजू)	टीएनएसवीसी/124 2/05	दुरईराजापुरम कॉलोनी, अनाकरईपट्टी डाक, बोडीनायकानूर तालुक, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/85	20-जुलै-88
3958	टी. वडामलाई चेट्टी (वी. थम्बन चेट्टियार)	टीएनएसवीसी/167 6/05	110/13, II क्रॉस, पो नगर, त्रिची 620001, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/80	19-फर-52
3959	टी. वेंकटेश्वरन (के. थिम्माची)	टीएनएसवीसी/535 /05	वाडुगामपला, डी536, याम, निन्नाक्कल डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला पिन 637505, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	13-अप्रैल-81
3960	टी. विक्टर जॉन बास्को (एस. थासन)	टीएनएसवीसी/214 0/05	लिटल कॉटेज, 175, ए.आर.कैम्प रोड, पी.एन. कॉलोनी, कोनम डाक, नगरकोइल 629004, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/63	17-फर-57
3961	टी. विनोथ (आर. घनराज)	टीएनएसवीसी/354 /04	पुत्र श्री इनभरानी, इलिसपेट, ल्लापलायम डाक, कांजीकोवल वाया, इरोडे 638116, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/04	03-जन-80
3962	टी. यसोथा (वी. थिरुपति)	टीएनएसवीसी/450 /05	14-सी, अलेक्जेंडर स्ट्रीट, रानीपेट, अट्टरुक्के, सलेम जिला 638102, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	19-अप्रैल-80
3963	टी.सी. महेंद्र मूपति (टी.एस. चिन्नुसामी)	टीएनएसवीसी/317 2/05	ई27/1, कूटापल्ली कॉलोनी, रिचैरगोडे तालुक, नमक्कल जिला 637214, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/80	04-जून-49
3964	टी. गुनाशेखर (आर. थंगराज)	टीएनएसवीसी/163 5/05	2/259, ईस्ट स्ट्रीट, कोराम्बूर डाक, थुरड्यूर तालुक, त्रिची जिला, पिन 62102, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/91	22-जून-68
3965	टी.के. नागराजन (के. कलियापेरुमल)	टीएनएसवीसी/267 1/05	साउथ मरियम्मन कोविल स्ट्रीट, थकनकुरिची, लालगुडी तालुक, त्रिची जिला, 627712, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/96	21-मई-58
3966	टी.के. पदमावती (आर. कुमारस्वामी)	टीएनएसवीसी/873 /05	248, अन्ना नगर रोड, बंगलो पुडुर डाक, गोबीचेट्टीपलायम तालुक, इरोडे जिला, पिन 638512	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/02	05-फर-78
3967	टी.एम. महेंद्रन (टी.वी. मोहनन)	टीएनएसवीसी/319 9/05	प्लॉट न. 19, श्री बालाजी नगर, अलवरथिरुनगर, चेन्नई 600087, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/86	23-अक्टू-61
3968	टी.एम. दुरई कुमार (टी.डी. मुथुसामी)	टीएनएसवीसी/173 4/05	1/74, ए.वी.एम. एवेन्यू, तीसरी स्ट्रीट, वीरुगमबक्कम, चेन्नई 600092	बीबीएससी/एमयू/72	25-मई-49

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3969	टी.एन. अरुण बालाजी (के. नारायणसामी)	टीएनएसवीसी/120 9/05	3/149, कोटाइन थोट्टम, डाक फ्टचुडियम पुदुर, वाया सेंदामंगलम, नमक्कल जिला 637409	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/91	14-अप्रैल-68
3970	टी.एन. पलानीवेलु (एस.एम.पी. नागप्पा मुदलियार)	टीएनएसवीसी/777 /05	7/738, सरस्वती इल्लम, सक्ति नगर, पोंगालूर 641867 कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/70	21-अप्रैल-48
3971	टी.पी. राजेंद्रन (ए. परसुरामन)	टीएनएसवीसी/158 3/05	1ए/3, एलएफ रोड, बर्मा नगर, करई, रानीपेट 632402, वेल््लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/82	17-मई-58
3972	टी. आर. मेहर वानी (जे. गोविंदराजन)	टीएनएसवीसी/192 4/05	# 7, मुथियल चट्टी स्ट्रीट, पुरासवालक्कम, चेन्नई 600007, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/94	18-दिसं-70
3973	टी.आर. सिवा सुब्रमण्यम (टी.एन. रंगासामी)	टीएनएसवीसी/283 8/05	वल्लुवर स्ट्रीट, थोंडामुथुर डाक, कोयम्बतूर 641109, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/75	09-नव-51
3974	टी.आर. दियनेश बाबू (टी.एम. रामालिंगम)	टीएनएसवीसी/318 4/05	374-बी, सर्वेश्वरर कोइल स्ट्रीट, अन्ना नगर, मदुरई 20, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/88	26-मार्च-64
3975	टी.रवि (एस.पी. धंगवेल)	टीएनएसवीसी/147 8/05	15/9ए, नई सौराष्ट्र स्ट्रीट, रासीपुरम 637408, नमक्कल जिला	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/94	15-मई-70
3976	टी. सरकारियप्पन (पी. धंगमने)	टीएनएसवीसी/163 8/05	एजिल नगर, के. अलगापुरी, करईकुडी तालुक, सिवागंगई जिला, पिन 830106, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/85	03-जून-57
3977	टी. सुरेश कुमार (एम. धंगवेल)	टीएनएसवीसी/244 4/05	डोर न. 360, चौथी स्ट्रीट, कूटामल्ली कॉलोनी, तिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/93	02-जून-70
3978	टी.वी. मीनमबिगई (टी. एम. वर्दराजन)	टीएनएसवीसी/290 6/05	विक्टरी फ्लैट्स, नया न. 42, पांचाली अम्मन कोइल स्ट्रीट, अरुम्बक्कम, चेन्नई 600106	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/93	09-अग-69
3979	टी.वी. मुरुगावेल (टी. वेटरीवेल)	टीएनएसवीसी/171 4/05	पुराना न. 34/ए, नया न. 41, कौलाचटरम रोड, टेन्नूर, त्रिची-17 तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/91	25-जुला-68
3980	टी.वी. नित्यनंदन (टी. आर. वैक्कटेशन)	टीएनएसवीसी/211 7/05	3/9, श्रुति अपार्ट., मस्जिद वाली गली, माइलापुर -4, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/66	26-अग-44
3981	टी.वी. सुशीला (एम. सक्तिवेल)	टीएनएसवीसी/248 0/05	5/1200, चेल्लम कुडीयोरुप्पु, गांधी नगर डाक, उदुमलपेट तालुक, कोयम्बतूर जिला, 642154, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/02	09-जून-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3982	टी.वी. तमिलम, पुत्र श्री वेन्नुविजीवेंदन	टीएनएसवीसी / 354 8/06	2/2, वीपमपूडी डाक, अरागलूर वाया, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनबीएंडएएसयू/06	26-मार्च-82
3983	टी.वी. शिवाशंकर, पुत्र, वीरासंगइयाह	कर्नाएसवीसी / 3788 /	न. 118, वीसीएच, हेम्बल, बंगलौर- 24, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	20-जुला-82
3984	टी. विजयानंद (एस. थियागराजन)	टीएनएसवीसी / 498 /05	गुरुविला थोट्टम, नामागिरिपेट, रासीपुरम, नमक्कल 637408, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडएएसयू/06	01-जून-80
3985	टाडेपल्ली साम्बासिवा राव, पुत्र श्री रामुलु	एपीएसवीसी / 4426 /06	प्लॉट न.17, म.न.16-11-16 / 17, श्रीपुरम कॉलोनी, मलकपेट, हैदराबाद 500030, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/99	16-जून-75
3986	ताज मौहम्मद खान, पुत्र श्री रसूल	राजएसवीसी / 3224 /06	कायमखानी कॉलोनी, कुचेरा, नागौर, राजस्थान	बीबीएससीएंडए एच/जेएनकेवीबी / 05	01-जुला-81
3987	ताज मौहम्मद, पुत्र श्री रुल्लु खान	यूवीसी / 177 / 06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, असकोट, जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/पीएयू/97	07-जन-69
3988	तलवार राजेंद्र कुमार, पुत्र श्री राजशेखरप्पा टी.	कर्नाएसवीसी / 3747 /	डोर न. 4 / 328, बनादर ओनी, आर/ओ हिरिहदागली, हदागली तालुक, बेलारी 583216, कर्नाटक	बीबीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	16-अप्रैल-81
3989	तण्मय राना, पुत्र श्री सुदर्शन राना	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3153 / 05	ग्राम नौनाकुरी डाक, नौनाकुरी बाजार, थाना तालुक, डीटीपी /मिदनापुर, पश्चिम बंगाल	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	06-फर-63
3990	तारक नाथ भूनिया, पुत्र श्री बिस्वनाथ भूनिया	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3180 / 05	ग्राम कमारगेरिया डाक डिगल-कमारगेरिया जिला मिदनापुर-721232, पश्चिम बंगाल	बीबीएससीएंडए एच/डब्ल्यूबीयूएंडएफएस /05	07-मार्च-83
3991	ताराकांता भक्ता, पुत्र श्री भास्कर च. भक्ता	उड़ीसाएसवीसी / 19 99 / 05	एटी / डाक: कोठापडा, वाया दरादा, जिला बालासौर, उड़ीसा	बीबीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी / 05	09-सित-80
3992	तरुण कुमार, पुत्र श्री हरीश चंद्र	यूवीसी / 44 / 06	डाक हल्लुचौर, ग्राम बेमता बंगार, खेमा, साहकुआं, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी / 00	30-मार्च-76
3993	तरुण वालिया, पुत्र श्री ललित मोहन वालिया	यूवीसी / 141 / 06	बडयाली भिकियासेन, डाक भिकियासेन, जिला अल्मोडा, उत्तरांचल	बीबीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी / 04	12-अप्रैल-82
3994	टीनू जैन, पुत्री श्री विजय कुमार जैन	एमपीएसवीसी / 231 6 / 06	द्वारा विवेक किराना स्टोर, छपरा, सिओनी, मध्य प्रदेश	बीबीएससीएंडए एच/आईजीकेवीबी / 06	21-फर-79
3995	ठक्कर सुनील कुमार जी.	गुजएसवीसी / 2683 /06	संदेसारा नो मठ, चचरिया पाटन 384265	बीबीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू / 06	01-दिस-83

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
3996	ठाकुर कृष्णा शंकर राय, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद	बिहारएसवीसी/244 6/04	ग्राम/मुहल्ला-चौधरी बसंतपुर, डाक व थाना पीरपौती, सबडिवी. काहलगांव, जिला भागलपुर, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/04	01-मार्च-77
3997	विष्णुगुरुवरु (मरुतमुथु)	टीएनएसवीसी/271 3/05	नम्बिवयल डाक, पट्टुकोट्टई तालुक, थंजावुर जिला, पिन 614815, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/95	15-जन-70
3998	थॉमस वी. बाबू	केरल/3094/05	वडाकैथलक्कल हाउस, पुथुसेरी, चेंडल डाक, त्रिसूर, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	14-मई-82
3999	टिला खान, पुत्री झर अब्दुल कयूम खान	यूवीसी/164/06	1/7, पंत नगर, जिला उधमसिंग नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी/05	06-दिस-81
4000	तीर्थकर महतो, पुत्र श्री अनिस बरान महतो	बिहारएसवीसी/247 3/04	ग्राम/मुहल्ला- बेनागोरिया, डाक मोगमा, थाना चिरकुंडा, सबडिवी. घनबाद, जिला घनबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/04	10-जून-80
4001	त्रिमुदन प्रसाद, पुत्र श्री महंगु राम	यूवीसी/43/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, पाखु, बेरिनाग, जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी/00	10-अप्रैल-75
4002	त्रिमुदन यादव, पुत्र श्री राम अक्व यादव	यूवीसी/58/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, नाचनी, जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी/98	17-अग-72
4003	यू. कलीश्वरन (वी. उरकालाथेवर)	टीएनएसवीसी/106 9/05	मुथप्पन पट्टी, केंजमपट्टी डाक, पेरियूर तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/89	05-जून-66
4004	यू. सोहनदास, पुत्र श्री ए. उरुमाथन	टीएनएसवीसी/354 0/06	थामरक्की नॉर्थ डाक, सिवागंगई तालुक, सिवागंगई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/06	21-अप्रैल-80
4005	यू. रवि (एस. उमापति)	टीएनएसवीसी/190 4/05	5/1214, अधियामन स्ट्रीट, संधिल नगर, कलेक्टेरेट डाक, धर्मपुरी जिला 636705	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/97	01-जून-74
4006	यू. सतीश कुमार (के. उथमन)	टीएनएसवीसी/318 /04	33/1, मेलायिन्नम पट्टी डाक, थानीयियम वाया, मदुरई 625221, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/04	30-जून-78
4007	यू. सीमासुंदरम (एस. उथिरक्षम)	टीएनएसवीसी/121 7/05	576ए, 8वीं साउथ स्ट्रीट, थियागराया नगर, तिरुनेलवेली-11, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/87	04-जून-64
4008	यू. वेलमुरुगन (टी.ए. उलगनाथन)	टीएनएसवीसी/413 /04	33/17, जगनाथन स्ट्रीट, सुधानथन नगर, इरोडे पिन 638011, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/04	13-जून-80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4009	यू. अमृता (ए. उदयकुमार)	टीएनएसवीसी / 353 / 04	बी 12, म्युनिसिपल कॉलोनी, डोर न. 13, मेडिकल कॉलेज रोड, थंजावुर-613007, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 04	14-सित-81
4010	यू. लक्ष्मीकांतन (ए. उथंडारमन)	टीएनएसवीसी / 349 / 04	408, वीथि कडु, पेरुमनलूर 641666, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 04	02-जुला-80
4011	यू.एन. श्रवन्न, पुत्र श्री यू. नागराजन	टीएनएसवीसी / 354 2 / 06	215, कोंडापनायकन पलायम, पट्टुकोट्टई 614601, थंजावुर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 06	04-जुला-79
4012	उदय शंकर गुप्ता, पुत्र स्व. श्री हीरा लाल गुप्ता	यूवीसी / 175 / 06	वेत. अधिकारी, गवर्न. वेत हॉस्पिटल, नौटी, जिला चमौली, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / सीएस एकेई पीवीवी / 96	31-दिसं-71
4013	उदय शंकर, पुत्र श्री एन. चौधरी	बिहारएसवीसी / 254 2 / 04	ग्राम / मुहल्ला- शास्त्री नगर, डाक मंगेर, थाना कासिम बाजार, सबडिवी. मुंघेर, जिला मुंघेर, बिहार	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 04	31-जुला-75
4014	उज्जवल कुमार, पुत्र श्री जितेंद्र बहादुर सिंह	बिहारएसवीसी / 252 1 / 04	ग्राम / मुहल्ला- आमवारी, डाक नंदपुर आमवाड़ी, थाना रघुनाथपुर, सबडिवी. सीवन, जिला सीवन, बिहार	बीवीएससीएंडएच / यूएसधारवाड / 04	15-दिसं-80
4015	उमाकांत धुपति, पुत्र श्री डोला गोबिंद धुपति	उड़ीसाएसवीसी / 19 64 / 05	एटी- सानंदपुर, जिला भद्रक, उड़ीसा	बीवीएससीएंडएच / ओयूएंड टी / 05	05-जून-81
4016	उमेश चंद्र भट, पुत्र श्री एम.सी. भट	यूवीसी / 11 / 06	ग्राम व डाक इंचोली (चंद्र भाग), जिला पिथौरागढ़, उत्तरांचल	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 05	09-मार्च-80
4017	उमेश चंद्र, पुत्र श्री दयाधर चंडोला	यूवीसी / 137 / 06	ग्राम जवाहर नगर, डाक डेयरी फार्म नांगला जिला यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 98	10-दिसं-65
4018	उमेश प्रसाद, पुत्र श्री सत्यदेव प्रसाद	बिहारएसवीसी / 223 9 / 02	ग्राम चकांद्रा, डाक चकांद्रा, थाना चेवारा, सबडिवी. शेखपुरा, जिला शेखपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 02	19-दिसं-76
4019	उमेश सिंह, पुत्र श्री सुरेंद्र एस.	एमपीएसवीसी / 228 5 / 05	38-ए. साईनाथ कॉलोनी, तिलेक नगर के निकट, इंदौर	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 05	28-दिसं-78
4020	वी. अकिलन (आर. वेदियप्पन)	टीएनएसवीसी / 574 / 05	डच. डोडमपट्टी डाक, हरुर तालुक, धर्मपुरी जिला 636903, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 05	09-फर-81
4021	वी. अनुसूया (के. वीरप्पन)	टीएनएसवीसी / 299 4 / 05	4 / 301, थिरुमल नगर, इरोडे मेन रोड, अथूर डाक, करूर 639002, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 05	02-फर-82
4022	वी. अरासौदियन	टीएनएसवीसी / 220 1 / 05	नादुविकोट्टई डाक, पट्टुकोट्टई तालुक, थंजावुर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 86	27-अक्तू-57

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4023	वी. अरुणमा राजू (पी. वेलुचामी)	टीएनएसवीसी/107 3/05	प्लॉट नं. 110, 'वेलुमीना' इल्लम, महा गनपति नगर, पावर हाउस के सामने, समायानल्लूर, मदुरई जिला	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/92	23-फर-69
4024	वी. अरुण कुमार, पुत्र श्री आर. वैकटेशन	टीएनएसवीसी/343 6/06	थिरुमंगलम डाक, थिरुकुनार, विल्लुपुरम तालुक 605501, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/99	02-मई-72
4025	वी. अरुणागिरि नाथन (पी. वैद्यनाथन)	टीएनएसवीसी/207 7/05	48ए/50, कीजापुडु स्ट्रीट, चिदाम्बरम 608001, कुडालूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/92	01-जून-66
4026	वी. बालाकृष्णन (एम. वैयापुरी)	टीएनएसवीसी/288 5/05	721, एनपीएल, पुष्पांजली, नं.1, तिरुमंगलम रोड, विलिवक्कम, चेन्नई 600049	बीवीएससी/ टीएनएसयू/80	22-सित-48
4027	वी. बालाकृष्णन (एम. वेलइयन)	टीएनएसवीसी/103 4/05	8/55, अम्मापलायम, थेवूर डाक, संकरी तालुक, सलेम जिला 637104, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/89	01-जून-66
4028	वी. बालासुब्रमण्यन, पुत्र श्री पी. वैकटेशन	टीएनएसवीसी/353 4/06	मेन रोड, ओलागडम डाक, भवानी तालुक, इरोडे जिला, पिन 638314, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/06	05-जून-82
4029	वी. भास्करन (टी. वर्धराजन)	टीएनएसवीसी/501 /05	4-3/18, ऊर गूडेर इल्लम, तारामंगलम, पिन 636502, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/05	28-जून-81
4030	वी. भाग्यलक्ष्मी (जी. विश्वनाथन)	टीएनएसवीसी/666 /05	9, दूसरा मेन रोड, जया नगर, टी. वी.एम. सैनितोरियम, चेन्नई-47	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/97	15-जून-69
4031	वी. भवानी (पत्नी श्री एस. श्रवणन)	टीएनएसवीसी/225 3/05	43/4, श्री अपार्टमेंट, टीएनएचबी फ्लैट, छठा ब्लॉक, जे.जे. नगर, मोगापेर ईस्ट, चेन्नई 600037	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/96	03-जुला-72
4032	वी. चंद्रिसेखरन (के. के. वीरप्पन)	टीएनएसवीसी/859 /05	37/ए-7, पेरियापट्टी रोड, एस.पी. पुडुर, नमक्कल 637001, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडए एच/डॉपीडीके वी/96	29-जुला-74
4033	वी. चेलादुरई (एम. वलुसामी)	टीएनएसवीसी/289 3/05	46, गोविंदसामी स्ट्रीट, पैडी फील्ड रोड, पेराम्बूर, चेन्नई-11	बीवीएससी/ टीएनएसयू/84	10-अप्रैल-59
4034	वी. चिन्मा (एम. वेलु)	टीएनएसवीसी/281 1/05	मल्लीगई पुंचई, वडाकडु डाक, अलंगुडी तालुक, पुडुकोटई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएसयू/81	01-जून-57
4035	वी. दीपा (के. शंथिल)	टीएनएसवीसी/832 /05	फ्लैट नं.2, गैलेक्सी अपार्टमेंट, नं.4, साई नगर एनेक्सी, मेन रोड, चिण्मय नगर, कोयमबेडु, चेन्नई-92	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/01	16-जुला-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4036	वी. देविहा (एस. वेंकटचलम)	टीएनएसवीसी/255 9/05	न.1ए, गूंडूर मूर्ति स्ट्रीट, राजापलायम, विरुधुनगर जिला 626117, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/97	16-मार्च-74
4037	वी. घनलक्ष्मी, पुत्र श्री बी. प्रमु कुमार	टीएनएसवीसी/354 4/06	75/ए, 1, गांधी रोड, दक्षिणी उदइयार पलायम, अट्टूर 636 102, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/97	06-मई-74
4038	वी. दुरईसामी (ए. वेलियन)	टीएनएसवीसी/902 /05	पेरिची पलायम डाक, पलानी तालुक, डिंडीगल जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएसयू/84	29-अग-57
4039	वी. ईश्वरमूर्ति (पी. विजयन)	टीएनएसवीसी/322 1/05	26-ए, कट्टाबोमन स्ट्रीट, नारीमेदु, मदुरई 625002, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/92	29-फर-64
4040	वी.जी. अंबुमलार (वी.के गणेशवरन)	टीएनएसवीसी/565 /05	24, भारतीदासन स्ट्रीट, पालीकडु, गोबीचेट्टीपलायम, इरोडे जिला पिन 638452, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/05	06-अक्टू-81
4041	वी.गनपति प्रसाद (एस. वेंकटरमन)	टीएनएसवीसी/111 6/05	188, लिंकन स्ट्रीट, के.के. नगर, तिरुचिरापल्ली 620021, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/91	21-अक्टू-66
4042	वी. गीता, पत्नी (आर. वेलुमन)	टीएनएसवीसी/134 3/05	बालाजी सागो फैक्ट्री, थोटापडी डाक, कुगियूर रोड, कल्लाकुरिची तालुक, विल्लुपुरम जिला, पिन 606301	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/96	30-मई-72
4043	वी. गिरिजा (पत्नी आर. गोपीनाथ)	टीएनएसवीसी/864 /05	न.5, वी.ओ.सी. स्ट्रीट, के.के. नगर, मदुरई 625020, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/89	15-जून-67
4044	वी. ज्ञानसुंदरम (के.ए. वीरप्पाचेट्टियार)	टीएनएसवीसी/151 6/05	3-66, टी.कैलासमपलायम डाक, थिरुचेनगोडे वाया, नमक्कल जिला 637209, तमिलनाडु	बीवीएससी/एसयू/67	07-अग-42
4045	वी. ज्ञानवेल (एन. वेंकटेशन)	टीएनएसवीसी/104 /03	277, सेनगुंधर स्ट्रीट, करुक्कुपेट्टई, कांचीपुरम तालुक व जिला, पिन 631, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/03	03-अप्रैल-80
4046	वी ज्ञानोबागराम (के.पी. वेलमुरुगन)	टीएनएसवीसी/190 7/05	एसआईजी 29, टीएनएचबी-फेस IX, होसूर, देनकनीकोटा रोड, होसूर रेलवे स्टेशन के सामने	बीवीएससी/ टीएनएसयू/79	09-अप्रैल-54
4047	वी. गोपीनाथ (वी. वलियुदयार)	टीएनएसवीसी/988 /05	82/1, ईस्ट स्ट्रीट, काचीरायापलायम, वडक्कनडल डाक, 606207, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/00	16-मई-77
4048	वी. गौथमन (के. वासुदेवन)	टीएनएसवीसी/538 /05	1/154, कृष्णापुरम, तुम्भनकुरिची डाक, नमक्कल 637003, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/05	16-फर-81
4049	वी. गुरुसामी (के. वन्नामुथु कोनार)	टीएनएसवीसी/328 8/05	प्लॉट नं. 11, सेंथिल नगर, नंधवानापट्टी, डिंडीगल, पिन 624001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएसयू/77	05-जून-51

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4050	वी. हरिहरन (के. वेंकटरमनन)	टीएनएसवीसी/326 2/05	30, अरविंद नगर, केएनजी पुडुर, पिरिवु इडयारपलायम, कोयम्बतूर 641025, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/92	16-मार्च-69
4051	वी. हेमालक्ष्मी (वी. वेनुगोपाल)	टीएनएसवीसी/198 /03	न. 23/10, जयराम स्ट्रीट, पलावनथंगल, चेन्नई 600114, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/03	16-सित-79
4052	वी. जानकी थायर (वी. वेंकीदासामी)	टीएनएसवीसी/801 /05	2/2221, शशिनगर उत्तर, सिवाकासी 626123, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/96	20-अप्रैल-73
4053	वी. जयाकोडी (यू. वीरप्पन)	टीएनएसवीसी/598 /05	मेदुपट्टी, चामराजपेट डाक, मेदटूर तालुक, सलेम जिला, पिन 636451, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	04-मार्च-80
4054	वी. जयललिता (एस. वेम्बु अन्यर)	टीएनएसवीसी/606 /05	14ए, पुलिस लाइन स्ट्रीट, अलंगुडी 622301, पुडुकोट्टई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	10-जन-82
4055	वी. जयन्ति (वी. वेत्रायन)	टीएनएसवीसी/137 /03	पुडुर, मिटाहल्ली डाक, कावैरीपटनम बाया, धर्मपुरी जिला 63511, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/03	15-जून-80
4056	वी. जयराम (आर. वेलुचामी)	टीएनएसवीसी/914 /05	करियमपट्टी डाक, कालीमांडयम बाया, डिंडीगल जिला, 624616, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/91	10-मई-68
4057	वी. जेया क्रिस्टी (पत्नी जे. थया सिंह)	टीएनएसवीसी/219 2/05	39-वी, येसुदियन स्ट्रीट, नगरकोइल, कन्याकुमारी जिला, 629001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/88	14-फर-65
4058	वी. जयरमन (आर. वेम्बानन)	टीएनएसवीसी/25 /02	पुलियूरनाथम डाक, इडायकोट्टई बाया, डिंडीगल जिला, पिन 624704, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/02	05-जून-78
4059	वी. जोषी विश्वगंध (एन. विश्वनाथन)	टीएनएसवीसी/118 5/05	नागुडी डाक, अरनथंगी तालुक, पुडुकोट्टई जिला, 614616, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/01	19-मई-77
4060	वी. जस्टिन (एस. वेधामुथु)	टीएनएसवीसी/688 /05	साउथ स्ट्रीट, पुनलवासल डाक, पट्टुकोट्टई तालुक, थंजावुर जिला 614803, त.ना.	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/00	25-मई-75
4061	वी. कलईसेल्वी (आर. गुनासेखरन)	टीएनएसवीसी/115 1/05	प्लॉट न. 30, कोंगु नगर, मोहानूर रोड, नमक्कल डाक व जिला, पिन 637001, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/96	19-जन-73
4062	वी. कमलराज वेंकटेशन (डी. वेंकटेशन)	टीएनएसवीसी/6/ 02	156डी/163वी, सुबाश्री नगर, एक्सटेंशन 1, पोरूर, चेन्नई 600016, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/02	05-अग-78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4063	बी. करीकला (वैलायुथान)	टीएनएसवीसी/968 /05	8, अरुणा नगर, फिलोमिना नगर के निकट, नानयिकोटई रोड, थंजावूर 613006, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/84	03-जुला-60
4064	बी. करमेगन, पुत्र श्री टी.एम. वेंकटेशा पिल्लै	टीएनएसवीसी/343 2/06	थिरुमलपडी देसूर डाक, वांडावासी तालुक, टी.बी.मलई जिला, पिन 604501, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/88	28-मई-65
4065	बी. करुणाकरन (बी. वाडीवेलु)	टीएनएसवीसी/278 2/05	19/47, कामराज नगर, अशोक नगर एक्सटेंशन, कांचीपुरम 631502, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/85	29-अप्रैल-61
4066	बी. करुणामूर्ति (एम. वीरासामी)	टीएनएसवीसी/995 /05	वट्टागुडी (उत्तर), पट्टुकोटई तालुक, तंजौर जिला, पिन 614613, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/86	29-जन-61
4067	बी. कविथा (के. वेलुसामी)	टीएनएसवीसी/160 6/05	32, सिवानंद नगर, पंडियान नगर एक्सटें., कराईकुडी, सिवागंगई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/98	01-जुला-74
4068	बी. कविथा (आर. वीरासामी)	टीएनएसवीसी/122 /06	529, कलईवानी नगर, मोहानूर, नमक्कल जिला 63701, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/03	17-जून-79
4069	बी. कृत्तिका (के. वासु)	टीएनएसवीसी/622 /06	एमआईजी-65, प्रथम मेन रोड, नोलामबूर हाउसिंग स्कीम, मोगापर वेस्ट, चेन्नई 37, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	12-सित-61
4070	बी. कोथंडरमन (एम. वडामलई)	टीएनएसवीसी/217 1/05	न.2, वैदीश्वरन नगर, आर.एस. रोड, गुडीयट्टम, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु 632602	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/87	27-जन-63
4071	बी. कुमार, पुत्र श्री जी. वेलुचानी	टीएनएसवीसी/334 7/06	नॉर्थ स्ट्रीट, गंडामनूर डाक, अंडीपट्टी तालुक, धेनी जिला, पिन 625517, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	10-मई-81
4072	बी. कुमारवेल (एस. कर्षराजन)	टीएनएसवीसी/145 /03	4डी/1, बी. नगर, 5वीं स्ट्रीट, रासीपुरम डाक, नमक्कल जिला 637406, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/03	14-जुला-79
4073	बी. लोकनाथ राव, पुत्र श्री बी. वेनुगोपाल राव	एपीएसवीसी/4423 /06	2-1-339/ए, विजय अपार्टमेंट, नल्लाकुंटा, हैदराबाद 44, आंध्र प्रदेश	बीबीएससी/एसबीयू/81	15-जुला-34
4074	बी. लीडिया अरुलसेल्वी (इसाक जेबास्टीन)	टीएनएसवीसी/112 0/05	92, सथप्पा नगर II स्ट्रीट, मसचुवाडी, पुडुक्कोटई, पुडुक्कोटई जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/91	23-जून-68
4075	बी. महालिंगम (एस. वीरामलई)	टीएनएसवीसी/227 /03	बी 6, थामरई नगर, कजामलई मेन रोड, तिरुचिरा पल्ली 620023, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएयू/62	15-जुला-57

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4076	वी. महालिंगम (एस. वीरामलई)	टीएनएसवीसी/321 2/05	बी 6, धामरई नगर, कजामलई मेन रोड, त्रिची- 23, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/82	15-जुला-57
4077	वी. महेंदिरन (वेंकटप्पा)	टीएनएसवीसी/252 9/05	पालेपल्ली ग्राम, कांडीकुप्पम डाक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/76	03-दिसं-52
4078	वी. मलियप्पन, पुत्र श्री आर. वारइयन	टीएनएसवीसी/336 9/06	पलाचेरीकडु, करम्बाकडु डाक, पेरायुरानी तालुक, थंजावुर जिला 614802, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	10-मई-82
4079	वी. मनिक्कम (के. वेलाप्पा गुंडेर)	टीएनएसवीसी/317 9/05	वरप्पम पलायम, वेलांडी डाक वलासई, इडापडी तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/93	10-मार्च-70
4080	वा. मानिकंदन (एम. वीराराघवन)	टीएनएसवीसी/180 /03	9ए, नेरमई नगर, कोलाथुर, चेन्नई 600099, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/03	25-मार्च-79
4081	वी. मनिवन्नन (एस. वेलायुधम)	टीएनएसवीसी/263 4/05	210/1, लेक एवेन्यू, टीकेएम रोड, चिंगलपेट 603002, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/78	17-सित-54
4082	वी. मनिवेल (एस. वीरप्पा गुंडेर)	टीएनएसवीसी/258 0/05	रेटरावलासु डाक, कोलाथु पलायम वाया, धरमपुरम तालुक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/98	10-अग-74
4083	वी. मनोहरन (के. वानमीहनाथन)	टीएनएसवीसी/289 6/05	4, वी.एन.एस. नगर, धेनपथि, सिरकाली 609111, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/80	10-मई-56
4084	वी. मारीमुथु (एम. वीरामासामी)	टीएनएसवीसी/202 5/05	पलामुथी, अलादिवकुमलई (एस.ओ.), पट्टुकोटई तालुक, थंजावुर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/00	16-मई-71
4085	वी. मोहन कुमार, पुत्र श्री ए. वेनुगोपाल	टीएनएसवीसी/329 2/05	न. 22डी, पी.टी. राजन सलई, के. के. नगर, चेन्नई 600078, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/91	10-अप्रैल-68
4086	वी. मुरुगादास, पुत्र श्री एम. दैयापुरी	टीएनएसवीसी/337 1/06	63, नॉर्थ स्ट्रीट, थंगामुरुगादास इल्लम, पोथानूर डाक, वेलूर तालुक, नमक्कल जिला 638181, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	20-मार्च-81
4087	वी. मुरुगावेल (ए. वीरामासामी)	टीएनएसवीसी/881 /05	6/84, बजनई कोइल स्ट्रीट, कंडाचीपुरम डाक, विल्लुपुरम जिला 605701, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/00	13-मई-75
4088	वी. मुरुगेसन (जी.आर. वीरारामासामी)	टीएनएसवीसी/210 2/05	2375, कलईमगल कॉलोनी, बाईपास रोड, चिन्लापट्टी, गांधीग्राम, चेटियापट्टी डाक, डिंडीगल जिला 624314	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/92	05-मई-69
4089	बी. मुथु गोपाल कृष्णन (ए. वैकिडुसामी)	टीएनएसवीसी/258 1/05	पेरुमल कोविल थोट्टम, कुंडाउम 636702, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/81	03-जून-57

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4090	वी. मुथुदुरई (एम. वीरन)	टीएनएसवीसी/118 6/05	कुन्नुर, थोडईमनेथल डाक, अपुदयार कोइल तालुक, पुडुकोट्टई 614618, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/01	07-मई-77
4091	वी. मुथुसेल्वन (पी. वेगन)	टीएनएसवीसी/206 0/05	6/103बी, वी.आर.पी. क्वार्टर्स के सामने, पापीरेड्डीपट्टी 636905, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/94	16-जुला-71
4092	वी. नटराजन (ए. वेंकटचलम)	टीएनएसवीसी/150 9/05	साडेन पलायम कोनासमुद्रम डाक, कोंगनापुरम वाया, सलेम जिला 637102, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/00	14-मई-74
4093	वी. नटराजन (पी. वीरुसिक्कु)	टीएनएसवीसी/143 2/05	सौदामु कोइल स्ट्रीट, गुडालूर डाक, थेनी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/75	15-जन-50
4094	वी. पलानी कुमार (एम. वेंकटाचलम)	टीएनएसवीसी/221 /03	32, थयारकुलम स्ट्रीट, कांचीपुरम 631502, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/03	25-मई-77
4095	वी. पन्नीरसेल्वम (एस. वेंकटचल मुदलियार)	टीएनएसवीसी/303 9/05	102ए, ओट्टाकूथन स्ट्रीट, ममालन नगर, कांचीपुरम 631502, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/80	20-मार्च-58
4096	वी. पारंतमन (एम. वर्दराजुलु)	टीएनएसवीसी/194 2/05	6एच6, 8वां क्रॉस स्ट्रीट, जक्कप्पन नगर, कृष्णागिरि, 635001, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/64	01-जुला-40
4097	वी. प्रभाकर (वी.वी. नरसारेड्डी)	टीएनएसवीसी/150 0/05	3, (पुराना न. 277), 13वीं स्ट्रीट, एस.आर.पी. कॉलोनी, जवाहर नगर, चेन्नई 600082	बीवीएससी/ टीएनएयू/87	11-अक्टू-46
4098	वी. प्रभाकरन (के.वी. वेंगारेड्डी)	टीएनएसवीसी/159 5/05	15, भारती नगर, रानीपेट, वेल्लोर जिला 632403, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/83	12-मई-62
4099	वी. प्रसाद (वी. वेंकटराम)	टीएनएसवीसी/546 /05	न. 1/32, वी.वी.कोइल स्ट्रीट, चूलई, चेन्नई 600112, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/04	21-जुला-80
4100	वी. प्रेमा (वी. वेंकटचलम)	टीएनएसवीसी/149 9/05	189, थॉमसनपेट स्ट्रीट, कावेरीपटनम, कृष्णागिरि जिला, 635112, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/00	01-दिसं-76
4101	वी. प्रिसिला मालिनी निकल्सन, पत्नी (के. विजयकुमार)	टीएनएसवीसी/157 7/05	5/39, वल्लीमलाई रोड, कासम, कटपडी, वेल्लोर 632007, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/88	19-दिसं-65
4102	वी. राजामनिकम (ई. वैयान्नम)	टीएनएसवीसी/236 7/05	147, पुलियाकडु, थाल्कुनी डाक, 638456, कोलपसलुर, गोबी तालुक, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/00	20-फर-76
4103	वी. राजंगम (के. वीरानन)	टीएनएसवीसी/318 3/05	14/1, लॉयन सिटी एक्स., थिरुनगर, मदुरई जिला-6, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/92	02-जुला-65

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4104	वी. राजेंद्रन (एम. विनायगम पिल्लै)	टीएनएसवीसी / 909 / 05	प्लॉट नं. 5, गोकुल नगर, कृष्णा नगर, थिरुपलई, मदुरई 625014, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएसयू / 81	14-जून-58
4105	वी. राजेंद्रन (आर.के. वीराराजन)	टीएनएसवीसी / 985 / 05	5 / 13, सेल्वम नगर, मेडिकल कॉलेज रोड, थंजापुर 613007, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएसयू / 86	30-जुला-82
4106	वी. राजनीकांत (आर. वसागर)	टीएनएसवीसी / 247 6 / 05	मुथुसामी कोने स्ट्रीट, गडालूर, धेनी जिला, 625516, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 00	07-जुला-76
4107	वी. रज्जू, पुत्र श्री वेंकटवल्लभ	टीएनएसवीसी / 336 8 / 06	अन्नाईगुडानूर, पी.के. पुडुर डाक, भयानी तालुक, इरोडे जिला 638504, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 05	30-अप्रैल-80
4108	वी. रामाकृष्णन (एन. विजयाराघवन)	टीएनएसवीसी / 467 / 05	किडारीपट्टी डाक, अलागर कोविल वाया, मेलूर तालुक, मदुरई जिला, 625301, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 05	03-मार्च-82
4109	वी. रामालिंगम, पुत्र श्री ए. कडीवेल	टीएनएसवीसी / 340 3 / 06	5 / 48, एन.जी.जी.ओ. कॉलोनी, सलेम मेन रोड, नमक्कल, तमिलनाडु	बीवीएससी / एसयू / 74	12-मई-49
4110	वी. रामार (सी. वीराधिरन)	टीएनएसवीसी / 281 / 04	वानीचेल्लमपट्टी (पूर्वी स्ट्रीट) परियूर तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 04	16-जून-78
4111	वी. रामासुब्बु (एस. वेंकटरामानुजम)	टीएनएसवीसी / 281 5 / 05	नॉर्थ स्ट्रीट, वडामेलापुरम, थिरु थिंगल वाया, थिरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 91	29-जुला-68
4112	वी. रमेश श्रवणन कुमार (के. वेलुचामी)	टीएनएसवीसी / 167 1 / 05	न.5, एस.टी.एल. कामाची चेदिटयार स्ट्रीट, चोकालिगापुरम, अरुप्कोटई 628101, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएसयू / 88	08-जन-65
4113	वी. रामप्रस्थ मनोहर (एस. वर्धराजन)	टीएनएसवीसी / 225 / 03	टी.एन.सी. अलनगुलम डाक, थिरुधुनगर जिला, 628127, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 03	14-मई-80
4114	वी. रेवथी (वैलुसामी)	टीएनएसवीसी / 162 3 / 05	761-ए.अन्ना नगर, II ईस्ट मेन रोड, मदुरई 625020, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 00	20-जून-76
4115	वी. सदासिवम (के. वरवप्पा मूंडेर)	टीएनएसवीसी / 137 7 / 05	4 / 69, पेरियार साउथ, पेरियार डाक, अट्टूर तालुक सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 92	04-जून-69
4116	वी. सम्पथ कुमार (एम. वैयापुरी)	टीएनएसवीसी / 242 4 / 05	9, वेस्ट स्ट्रीट, गंगावल्ली तालुक, सलेम जिला 638105, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएसयू / 93	06-मई-70

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4117	वी. शंकर नारायणन (के.एन. वर्धराजुलु)	टीएनएसवीसी/210 5/05	59, वसंद नगर, बाई पास रोड, करीमंगलम 635111, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/93	30-जुला-70
4118	वी. शंकरनारायणन (वी. वीरासामी)	टीएनएसवीसी/123 1/05	9 सी, जी.के. नगर, II स्ट्रीट, मनथीथोपु रोड, कोविलपट्टी 628501, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएसयू/88	20-जून-66
4119	वी. सारदा (पी. वाडीवेल)	टीएनएसवीसी/540 /05	काडुक्कापट्टी सेलियमपट्टी डाक, धर्मपुरी जिला, 636809, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	25-जून-81
4120	वी. श्रवन कुमार (सी. विश्वनाथन)	टीएनएसवीसी/903 /05	3/612, एन.एस. नगर, प्रथम स्ट्रीट, करूर रोड, डिंडीगल-1, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/91	10-मई-66
4121	वी. ससिकला, पुत्र श्री जी. वेंकटचलम	टीएनएसवीसी/333 4/06	4/147, पुलियमपट्टी (टी. थोटम), नादथी डाक, पी. वेलूर तालुक, नमक्कल जिला 637206, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	04-मई-83
4122	वी. सेल्वकुमार, पुत्र श्री जी.वेलु	टीएनएसवीसी/329 7/05	4/124, कील बाचा पेट, हरूर, धर्मपुरी जिला, 636903, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	28-मार्च-82
4123	वी. सेल्वेंद्रम (के. वलाथियन)	टीएनएसवीसी/585 /05	एम. कल्लुपट्टी, पेरियूर तालुक, मदुरई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	10-मई-79
4124	वी. सेन्नाकेसवन (वी. वेंकटासामी)	टीएनएसवीसी/553 /05	5-18-31, पोस्टल कॉलोनी, अरुम्पुकोटई डाक, विरुधुनगर जिला, 628101, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/01	05-जून-77
4125	वी.सेंधिल कुमार (पी. वेंकटचलम)	टीएनएसवीसी/314 0/05	13ए1, नया इडापडी रोड, संकरी दुर्ग डाक, सलेम जिला 637301, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/01	26-जन-77
4126	वी. सेंधिल कुमार, पुत्र श्री ए. वर्दराजन	टीएनएसवीसी/348 1/06	75बी/37, चंकर नगर, पशुपतिपलायम डाक, करूर-4, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/95	13-जून-72
4127	वी. शानमुगम (सी. वीरप्पन)	टीएनएसवीसी/202 7/05	कस्पना स्वामी कोइल स्ट्रीट, वेल्लपम पलायम, वेलेट्टम परापु डाक, इरोडे जिला 638154, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/00	10-मई-76
4128	वी. श्रवनन (एम. वेलुसामी)	टीएनएसवीसी/984 /05	53, रेलवे स्टेशन, मूथुपेट 614704, थिरुवरूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/92	27-मई-69
4129	वी. सिवकुमार (पी. विजयन)	टीएनएसवीसी/291 6/05	74, धिंगालोर रोड, कांजीकोविल डाक, पेरुंडुरई तालुक, इरोडे जिला 63816, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/01	27-मई-78
4130	पी. शिवराधिका, पुत्र श्री एस. वेलदुरई	टीएनएसवीसी/336 2/06	12/824, चुंगम मैसूर रोड, गुडालूर नीलगिरि 643212, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	20-जन-83

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4131	बी. सोमासेखरन (बी. वेंकटेशन)	टीएनएसवीसी / 148 0/05	16, सावडी पिलडूर कोविल स्ट्रीट, करीमंगलम डाक, 635 111, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू/01	15-जून-75
4132	वी. सुब्रह्मण्यम (आर. वेंकटचलम)	टीएनएसवीसी / 281 0/05	मुदलियार स्ट्रीट, अलंगुडी डाक, वलंगडमन तालुक, थिरुवरूर, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएसयू/79	05-मई-55
4133	वी. सुब्बुराज (के. वेंकटसामी)	टीएनएसवीसी / 207 6/05	313, थामिरावरानी स्वयेयर, पेरियार नगर, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू/91	05-मई-68
4134	वी. सुब्रह्मण्यम (एस. वीरमद्रन)	टीएनएसवीसी / 122 9/05	3ए1, तीसरी स्ट्रीट, पशुवन्दनई रोड ईस्ट, भारती नगर, कोविलपट्टी 628501, धूतुकुडी जिला	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू/89	28-जून-67
4135	वी. सुजाथा (एल. वासुदेवन)	टीएनएसवीसी / 307 0/05	न. 21, लक्ष्मी नगर, गोवर्धन गिरी डाक, अवाडी, चेन्नई 600071	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू/05	27-जन-83
4136	बी. सुंदरपडियान (के. वजावेलु)	टीएनएसवीसी / 159 4/05	न.87, राधाकृष्णन स्ट्रीट, बेलियप्पा नगर, बालजापेट 632513, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएसयू/84	31-मई-61
4137	वी. सुरेश कुमार (एस. वीरा पंडिबान)	टीएनएसवीसी / 181 0/05	नया न.2/1(पुराना न.2/3), पुगंमपट्टी डाक, अम्बासमुद्रम तालुक, तिरुनेलवेली जिला, पिन 627415	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू/77	30-जुला-74
4138	वी. सुरेश (ई. वैयापुरी)	टीएनएसवीसी / 255 3/05	9/451, सेनापति नगर, ऊडयम रोड, मुथुर डाक, कंगायम तालुक इरोडे जिला 638105	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू/93	11-फर-70
4139	वी. थंगादुरई (के.एस. वेलायुधम)	टीएनएसवीसी / 964 /05	25, कन्नुगापुरम स्ट्रीट, चेयार 604407, थिरुवन्नामलाई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू/97	01-जून-72
4140	वी. थंगावेलु (एस. वेम्बन)	टीएनएसवीसी / 102 5/05	ए-99, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, इडापडी डाक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएसयू/75	25-मई-53
4141	वी. थंगावेलु (बी.पी. वेलईसामी)	टीएनएसवीसी / 312 6/05	124/5, अविनाशी रोड, अन्नूर, कोयम्बतूर जिला 641653, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएसयू/81	07-जून-58
4142	वी. थनीवैडयल (के.वी. वाडीवेल)	टीएनएसवीसी / 128 8/05	3/12, ईस्ट स्ट्रीट, गुरुसामीपलायम डाक, रासीपुरम तालुक, नमककल जिला 637403	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू/01	24-जुला-76
4143	वी. थवासियप्पन (टी. वीरन)	टीएनएसवीसी / 128 6/05	साउथ स्ट्रीट, नागालूर डाक, अथानी वाया, इरोडे जिला 638502, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू/01	11-मार्च-76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4144	वी. थेंडराल (एम. विश्वनाथन)	टीएनएसवीसी/800/05	1/80ए, मारुंगूर, धुलाई डाक, सेंदुराई तालुक, पिन 621719 तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/05	10-मई-81
4145	वी. थियागराजन (सी. विजयन)	टीएनएसवीसी/20/02	30, सुब्रमनियर कोविल स्ट्रीट, वेलानाथन, अट्टयमपथी डाक, सलेम जिला 637501, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/02	30-जून-77
4146	वी. उमामहेश्वरी (एम. के. शंकर)	टीएनएसवीसी/284/05	18, गोखला स्ट्रीट, राम नगर, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/92	13-मई-69
4147	वी. वैदीश्वरन, पुत्र श्री वेंकटचलम	टीएनएसवीसी/334/8/06	5/314, कोबईकडु, कटुवलायु, कराननपट्टी डाक, इडापडुडी तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/05	05-जून-83
4148	वी. वेलियप्पन (वी. वेलुसामी)	टीएनएसवीसी/151/3/05	28, वसंध नगर, दूसरी स्ट्रीट, मदुरई 625003, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/94	11-मई-69
4149	वी. वनिथा, पुत्र श्री आर. वीरासामी	टीएनएसवीसी/329/4/05	523, कलईवानी नगर, मोहानूर 837015, नमक्कल जिला तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/05	22-अग-81
4150	वी. वर्धराजन (ई. वेंगडुसामी)	टीएनएसवीसी/266/4/05	अनुमंथमपट्टी, अलमराधुपट्टी डाक, अरावाकुरिची तालुक, करूर जिला, 839207, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/83	03-फर-59
4151	वी. वसावन (एन. विश्वनाथन)	टीएनएसवीसी/203/3/05	बैरनाथम डाक, पापीरेडुडीपट्टी तालुक, धर्मपुरी जिला, पिन 638905, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/97	07-नव-73
4152	वी. वेलन (जी. वेंकटेशन)	टीएनएसवीसी/508/05	जमाथोट्टम (ग्राम), मल्लीनयनापल्ली डाक, कृष्णागिरि, पिन 635120, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/05	02-फर-80
4153	वी. वेलन (वी. वैथिलिंगम)	टीएनएसवीसी/216/8/05	ए3/7, ऐश्वर्यम, फेस II, डीएबीसी अपार्टमेंट, नोलम्बूर, चेन्नई 600095	बीबीएससी/ टीएनएसयू/78	25-अग-54
4154	वी. विजयबालाजी (वी. वेंकटेशन)	टीएनएसवीसी/220/8/05	87, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, मजइयूर 604502, जिला तिरुवन्नामलई, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/02	27-जुला-79
4155	वी. विजय कुमार (वी. एन. वेंकटचलम पिल्लै)	टीएनएसवीसी/905/05	4, कुलाथुर डाक, डिंडीगल-5, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/89	28-जून-67
4156	वी. विजयकुमारन (पी. वेंकटासामी)	टीएनएसवीसी/144/3/05	107/6, परियाकुलम रोड, रथिनम नगर ईस्ट, थेनी पिन 625531, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनएसयू/83	02-मई-80
4157	वी. विनाथ (के. वनापेरुमल)	टीएनएसवीसी/126/9/05	7जी/5, वी.ओ.सी. नगर, पोन् इल्लम, चिन्नामनूर 625515, तमिलनाडु	बीबीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/01	01-जून-77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4158	वी.ए. हेमवती (के.वी. अलगासरसामी)	टीएनएसवीसी / 169 / 03	5 / 636ए, पेरियार स्ट्रीट, एनजीओ कॉलोनी ईस्ट, विरुधुनगर, पिन 626001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 03	19-मई-80
4159	वी.ए. आनंद (वी. अगोरम)	टीएनएसवीसी / 234 6 / 05	न. 40, एन.जी.ओ. कॉलोनी, तिरुवल्लूर, जिला तिरुवल्लूर, 602001, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 97	09-अप्रैल-74
4160	वी.ए. लक्ष्मी नरसिम्हन, पुत्र श्री वी.वी. आनंद	टीएनएसवीसी / 349 7 / 06	33, नारायणसामी स्ट्रीट, पुडुपेट, अददूर टाउन, सलेम जिला 636141, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 84	09-दिसं-59
4161	वी.ए. राजेंद्रन (वी. अलागु)	टीएनएसवीसी / 179 7 / 05	चदुरवेदामंगलम डाक, थिरुपददूर तालुक, सिवांगगई जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 84	17-अप्रैल-55
4162	वी.बी. शंकर विनयम (एस. बालासुब्रमण्यन)	टीएनएसवीसी / 913 / 05	118, वेस्ट कार स्ट्रीट, विरुधुनगर, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 94	05-जुला-71
4163	व.सी. पलानीसामी (के. चिन्नासामी)	टीएनएसवीसी / 327 7 / 05	2 / 65, सनारपलायम, विल्लारसम्पती डाक, इरोडे 638107, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 91	22-जून-67
4164	वी.डी. रामचंद्रइयाह, पुत्र श्री डा.डारंगप्पा	कर्नाएसवीसी / 3702 /	वड्डागोरे डाक, कोराटागोरे तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससी/एंडए एच / यूएसबंगलौर / 89	20-अप्रैल-61
4165	वी. दीपन चक्रवर्ती (पी. वनांगमुडी)	टीएनएसवीसी / 470 / 05	3 / 332, अन्नानगर एक्सटेंशन, पिदामानेरी, धरमपुर जिला, पिन 636703, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 05	12-जून-81
4166	वी.जी. अधियप्पन (वी. गनेशन)	टीएनएसवीसी / 190 9 / 05	कानमनी थोट्टम, कालकुरिची डाक, बेलुकुरिची वायां, नमक्कल 637402, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 01	17-मार्च-75
4167	बी.के. कविथा (एस. आर. सुरेश)	टीएनएसवीसी / 202 6 / 05	15 / 44, अपस्टेयर्स करूर मेन रोड, कारुन्दमपलायम, मलयमपलायम डाक 638154, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 00	29-अप्रैल-76
4168	वी.के. ससिकुमार (वी. कृष्णासामी)	टीएनएसवीसी / 323 6 / 05	रंडियारूर, रेडियारपुर डाक, पोलाची तालुक, कोयम्बतूर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनएयू / 84	04-जून-58
4189	वी.के. रामासामी (वी. काथिर गेलपिल्लई)	टीएनएसवीसी / 233 8 / 05	7, थिरुवासागामनी एक्स., के.के. नगर, त्रिची- 21, तमिलनाडु	बीवीएससी / एमयू / 65	17-अक्टू-39
4170	वी. करुप्पासामी (टी. वेलु)	टीएनएसवीसी / 183 1 / 05	चिन्नाथिकुलम, अधिकुलम डाक, श्रीविल्लीपुथुर तालुक, 626125, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 91	06-मई-65

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4171	वी. कवियारासी (आर. वेतरायन)	टीएनएसवीसी / 420 / 05	2, टी.वी.के. टीचर्स कॉलोनी, पीपरापट्टी डाक, धर्मपुरी जिला, 636809, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 04	01-जून-79
4172	वी. कोमथी (एस. बालाजी)	टीएनएसवीसी / 265 4 / 05	21, कामराज नगर, रासीपुरम डाक, नमक्कल जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 96	30-जून-73
4173	वी.एम. मुरुगेसन (वी. एम. मुथु)	टीएनएसवीसी / 256 6 / 05	520, अय्यासामी नगर, पीके रोड, कंगायम 638701, इरोडे जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनएयू / 85	03-जुला-62
4174	वी.एम. उलगनाथन (वी.ए. मरगाबंदु)	टीएनएसवीसी / 297 2 / 05	132, दूसरी ईस्ट क्रॉस स्ट्रीट, नेताजी नगर, साथुवचारी, वेल्लोर 632009, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनएयू / 86	01-जून-63
4175	वी. मथियालगन (सी. वेलायुधम)	टीएनएसवीसी / 233 9 / 05	पोथिरामंगलम डाक, टिट्टाकुडी तालुक, कुडालूर जिला, पिन 606111, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 99	25-मार्च-73
4176	वी.एन. राजगोपालन (वी.वी. नांजप्पा चेट्टियार)	टीएनएसवीसी / 134 9 / 05	3 / 519, नलवार नगर, के. वाडमथुरई डाक, कोयम्बतूर 641017, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनएयू / 75	28-फर-50
4177	वी.वी. अंबाजगान (वी. पेरियासामी)	टीएनएसवीसी / 326 3 / 05	न. 122 ए1, सेल्वम नगर, फोर रोड, धुरई मंगलम, पेराम्बलूर 621220, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 92	03-जून-68
4178	वी.पी. अनुबामा (एस. पलवेसा पंडियान)	टीएनएसवीसी / 319 8 / 05	4 / 323, II स्ट्रीट, शांति नगर, पलायमकोटई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 97	25-जुला-74
4179	वी.पी. पोन्नुवेल (एस. पेरुमल)	टीएनएसवीसी / 100 7 / 05	न.4, मरगाबंदु स्ट्रीट, सलेम -7, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनएयू / 86	12-जन-65
4180	वी.पी. सुधाकर (टी.वी. पुष्पराज)	टीएनएसवीसी / 296 9 / 05	न.7, हाजियार कॉलोनी, सेल्वा नगर एक्सटेंशन, कारुमंडबम, त्रिची-2, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 97	17-जून-73
4181	वी. पलानीवेल (सी. वीरमदन)	टीएनएसवीसी / 120 6 / 05	121-1, कोक्करायनपेट रोड, नवीधन कडु, कोलापट्टी, अनिमूर डाक, थिरुचेनगोडे तालुक, नमक्कल जिला 637214	बीबीएससी / टीएनएयू / 88	14-मई-66
4182	वी. पारीवेल (वी. वीरामलई)	टीएनएसवीसी / 163 7 / 05	237, मेन रोड, अरासलूर डाक, 621203, थोट्टियम तालुक, त्रिची जिला, तमिलनाडु	बीबीएससी / टीएनएयू / 88	15-जुला-66
4183	वी.आर. भास्कर (वी. रगनाथन)	टीएनएसवीसी / 180 1 / 05	32 / 6, अजीज़ नगर II स्ट्रीट, कोडाम्बक्कम, चेन्नई 600024	बीबीएससी / टीएनवीएंडएएसयू / 91	14-जून-66

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4184	वी.आर. बंद्र मोहन, पुत्र श्री वी.जी. रंगनाथन	टीएनएसवीसी/343 9/06	एसबीसी अपार्ट., प्रथम मंजिल, नया न.22/सी (पुराना न.19/ जी), जयशंकर स्ट्रीट, पश्चिम माम्बलम 600033, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/72	02-जून-42
4185	वी. राजशेखर (पी. वन्नीमुथु)	टीएनएसवीसी/162 2/05	112, थिरुमुरुगन नगर, बाईपास रोड जक्शन, मुसिरी, त्रिची 621211, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/96	01-जुला-73
4186	वी. राजकुमार (एस. विसेटराजू)	टीएनएसवीसी/670 /05	10/210, वेलई मनाल स्ट्रीट, थोडी 623409, रामनद जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/97	15-जून-74
4187	वी. राज्यलक्ष्मी, पुत्री श्री लक्ष्मी प्रसाद	एपीएसवीसी/4318 /05	एमआईजी-178/4, फेस I, एचबी कॉलोनी, विजयवाड़ा -12, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	05-अप्रैल-79
4188	वी.एस. देवसेनाधिपति (वी.के. सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/83 /03	एम-61, न्यू एसटीसी हुडको होसूर पिन 635109, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/79	14-अप्रैल-52
4189	वी.एस. गोविंदसामी (वी.जी. सीतारमन)	टीएनएसवीसी/232 3/05	16/100, रत्नम नगर, पल्लडम रोड, पोलाची 642002, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/79	28-अग-50
4190	वी.एस. मेइजान सुंदर (वी. श्रीरंगराजन)	टीएनएसवीसी/158 6/05	9/10 एफ. बोस रोड, शिवगंगा, शिवगंगा जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/97	10-3.अप्रैल-73
4191	वी.एस. नादना सिगामनि (वी.ए. सुंदरावेतु)	टीएनएसवीसी/265 1/05	27, जे.पी. बिल्डर्स कॉलोनी, थिरुनगर एक्सटेंशन, वेल्लोर 632006, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/69	01-जून-42
4192	वी.एस. राघवन (एस. वेंकट सुब्रमण्यम)	टीएनएसवीसी/204 1/05	83, वागीश नगर, चिदाम्बरम, कुडालूर जिला, 60800, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/88	16-जून-64
4193	वी.एस. रामाचंद्रन (वी. बी. शंकरप्पन)	टीएनएसवीसी/193 8/05	3, पम्बल अम्मान कोइल नायडु, नॉर्थ स्ट्रीट, प. पुडुपट्टी डाक, श्रीविल्लुपुथुर तालुक, विरुधुनगर जिला	बीवीएससी/ टीएनएयू/77	05-अप्रैल-51
4194	वी.एस. वाडीवोड (के. एस. पतानीसामी)	टीएनएसवीसी/223 6/05	डब्ल्यू-145, चौथी स्ट्रीट, बी-सेक्टर, अन्ना नगर वेस्ट एक्सटेंशन, चेन्नई 600101	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/94	07-जुला-70
4195	बी. शंकरनारायणन (जी. वी.शंभद्र पंडुलु)	टीएनएसवीसी/161 6/05	24बी/सी कॉलोनी, पेरुमलपुरम, तिरुनेलवेली 627007, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/71	12-जन-45
4196	बी. शांति (पत्नी बी. संथिल कुमार)	टीएनएसवीसी/235 7/05	1/3, नल्लामनइकर पट्टी (ग्राम व डाक), राजापलायम तालुक, विरुधुनगर जिला 626102, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएसयू/00	15-अप्रैल-76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4197	वी. संतोष, पुत्र श्री नरसिम्हा रेड्डी	एपीएसवीसी/4298 /05	3-4-859, मदर अपार्ट., फ्लैट न. 602, बरकतपुरा, हैदराबाद-27, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एपीएयू/76	25-नव-52
4198	वी. श्रवणन (एम. वरुधाप्पन)	टीएनएसवीसी/114 5/05	5/56, किजाविकडु, थोप्पापट्टी डाक, रासीपुरम तालुक, नमक्कल जिला 637406, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/95	25-मई-70
4199	वी. सुंदरराजन (आर. वैथिलिंगम)	टीएनएसवीसी/175 6/05	सेरियलूर (इनाम), करामंगलम डाक, अलंगुडी तालुक, पुडुक्कोटई 614624, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/78	12-मार्च-53
4200	वी.वी. रामा राव कसूला, पुत्र श्री के. नरसिम्हा राव	एपीएसवीसी/4327 /05	मेन रोड, तिरुपुरथकम, प्रकासम जिला, 523326, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	02-अप्रैल-81
4201	वी. वर्धराजन (टी. वेंकटचलम)	टीएनएसवीसी/137 5/05	4/22, अरुणा नगर, दूसरी स्ट्रीट, श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली 620006, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनएयू/87	02-मई-60
4202	वी. विंस्टन रॉय (डी. वेथा रॉय)	टीएनएसवीसी/532 /05	डेनियल विला, लक्ष्मीपुरम डाक व (वाया), नेयूर, कन्याकुमारी जिला 629802, तमिलनाडु	बीवीएससी/ टीएनवीएंडएएसयू/05	03-दिसं-81
4203	वाडाविया राजेश कुमार ए.	गुजएसवीसी/2642 /06	खेपरिया तालुक, मोरबी जिला, राजकोट, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंदकृ.वि.वि./06	01-दिसं-83
4204	वैद्युति सिंह, पुत्र श्री मानिक चंद्र सिंह	बिहारएसवीसी/259 2/05	ग्राम/मुहल्ला- जरलाही, डाक गुरमेला, धाना बरारी, सबडिवी. कटिहार, जिला कटिहार, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	20-अग-81
4205	वैजनाथ, पुत्र श्री सिद्दना मम्मानी	कर्नाएसवीसी/3739 /	द्वारा: बासवनप्पा, कलप्पा मम्मानी, एटी/डाक फरहाताबाद, गुलबर्गा जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	15-जून-82
4206	पनीत मलहोत्रा, पुत्र श्री जीपन कुमार मलहोत्रा	यूवीसी/22/06	वेट. अधिकारी, गवर्न वेट हॉस्पिटल, चंद्रपुर, रुद्रप्रयाग, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/00	07-मार्च-76
4207	वनिता कामिली, पुत्री श्री सत्यनारायण राजू	एपीएसवीसी/4341 /05	एमआईजी 119, भीमवरम हाउसिंग बोर्ड, नीट सेंट मेरी हाई स्कूल, भीमवरम-3, प.गो.जिला 534203, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	30-अग-82
4208	वर्धमान पाटिल, पुत्र श्री धनपाल	कर्नाएसवीसी/3741 /	मेन बाजार, नेहरू रोड, ग्राम चावडी के निकट, इलाकल, बगलकोट जिला 587125, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	14-सित-80
4209	वारिया रासेश कुमार	गुजएसवीसी/2645 /06	238, शरदा नगर सोसा., साई मंदिर के निकट, तारसादी, वडोदरा 390009, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंद कृ.वि.वि./06	13-नव-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4210	वरिंदर पाल सिंह पन्नु, पुत्र श्री करमीर सिंह पन्नु	पीबीएसवीसी / 2581 / 05	म.न. 7 / 16, इम्बूवमेंट ट्रस्ट कॉलोमी, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/ 04	28-जुला-80
4211	व3ण संख्यान, पुत्र श्री चदर गुप्त संख्यान	एचपीएसवीसी / 713 / 06	म.न. 45, वार्ड न. 07, देवनगर, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी / 05	17-मार्च-82
4212	वासव जगदीश भाई वी.	गुजएसवीसी / 2643 / 06	एटी कुनबर, डाक झरियावाड़ी, तालुक देदियापडा, जिला नर्मदा 393040, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/आनंदकृ.वि.वि./ 06	03-जुला-80
4213	वासवी अबुधु, पुत्री श्री लम्मा रेड्डी	एपीएसवीसी / 4372 / 05	सी-26, 8-3-222/8, मधुरा नगर, युसुफगुडा, हैदराबाद 500038, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/ 05	06-मई-81
4214	वीना एम.पी., पुत्र श्री एम.के. प्रभुशंकर	कर्नाएसवीसी / 3778 /	1744, छठा क्रॉस, सिद्धार्थ नगर, मलावली तालुक, मांड्या जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/ 05	10-फर-82
4215	वीरा नारायण रेड्डी, पुत्र श्री पद्म ब्राह्मइया सुरम	एपीएसवीसी / 4310 / 05	काजीपुरम, बेस्तावारीपेटा (एम) प्रकाशम जिला- 523346, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/ 05	06-जुला-82
4216	वीरभद्रप्पा जी., पुत्र श्री जी.थिपइयाह	एपीएसवीसी / 4430 / 06	डोर न. 13-1-171, 13वां वार्ड, उरवकोंडा, अनंतपुर जिला, 515812, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी / एपीएयू/ 73	01-जुला-48
4217	वेलुगु बाबू राव, पुत्र श्री वेलुगु गोपीयाह	एपीएसवीसी / 4361 / 05	द्वारा डी. सिंगा रेड्डी, म.न. 4 / 7 / 81, अंजनैयापेट, कोरीटापडु, गुंदूर, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/ 05	01-जुला-70
4218	वेंकट अजय कुमार वट्टूर, पुत्र श्री राजा राव	एपीएसवीसी / 4311 / 05	कोरुकोत्सु डाक, कडकलूर (एम), कालीडिंडी (एम), कृष्णा जिला -521343, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/ 05	20-जून-81
4219	वेंकट सुषमा देवी रेड्डी, पुत्र श्री वेंकटेश्वर रेड्डी	एपीएसवीसी / 4377 / 05	एमएमएम कॉलेज के भिक्ट, कानीगिरि, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/ 05	01-अग-82
4220	वेंकटेश, पुत्र श्री धर्मराज चालीकर	कर्नाएसवीसी / 3716 /	के.के. नगर डाक, न. 348, बीजापुर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/ 05	13-फर-82
4221	वेंकटेश सन्निबिदारी, पुत्र श्री भरमरेड्डी	कर्नाएसवीसी / 3738 /	मनाकूर डाक, रानेबन्नूर तालुक, हावेरी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/ 05	15-जुला-81
4222	वेनुगोपाल एस.	केरल / 3100 / 05	राजीवम, मुथुकुलम साउथ डाक, अल्लेरुट 690506, केरल	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवीवी / 05	29-अक्टू-80
4223	विहील विवेन डी.	गुजएसवीसी / 2684 / 06	134, अयोध्या नगर, पालनपुर, जिला बनासकंठा, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच/एसकेडीएयू/ 06	01-फर-83

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4224	विजय कुमार, पुत्र श्री नमन सिंह	हरिएसवीसी / 1901	1707, सेक्टर 12, पार्ट-1, साई धाम, सोनीपत	बीवीएससीएंडए एच/एचएयू/81	13-अप्रैल-60
4225	विजय कुमार गोंड, पुत्र श्री नंदजी प्रसाद	बिहारएसवीसी / 236 4/03	ग्राम गजाधर टोला, डाक थावे, थाना थावे, सबडिवी. गोपालगंज, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	24-मई-80
4226	विजय कुमार, पुत्र श्री अयोध्या गरई	बिहारएसवीसी / 235 7/03	ग्राम देखपुरा, डाक मीरा तलाव, थाना रहुई, सबडिवी. बिहार शरीफ, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/03	28-अक्टू-77
4227	विजय पाल प्रजापति, पुत्र श्री राम उजागिर प्रजापति	यूवीसी / 26 / 06	पीआरओ. मैनेजर, सघन मिनी डेयरी परियोजना, जिला चम्पावत, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/सीएसएकेईपीवीवी/ 02	28-जुला-74
4228	विजय पाल सिंह जादों, पुत्र श्री छोटे सिंह	यूवीसी / 49 / 06	पीआरओ. मैनेजर, सघन मिनी डेयरी, परियोजना दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उत्तरकाशी, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जेएनकेवी वी / 01	31-अक्टू-73
4229	विजय सिंह जोरा, पुत्र श्री राजेंद्र सिंह	राजएसवीसी / 3232 / 06	64, एच ब्लॉक, गंगानगर, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच/उदयपुर वि.वि. / 83	01-जन-58
4230	विजयकांत रेड्डी ए., पुत्र श्री वेंकटेश्वरलु	एपीएसवीसी / 4395 / 05	म.न. 54-14/3-10, बैंक कॉलोनी, श्रीनिवास नगर, विजयवाड़ा 8, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	06-अग-82
4231	विकास नेहरा, पुत्र श्री बलवान सिंह नेहरा	हरिएसवीसी / 1862	म.न. 68, पुराना एच.बी.सी., भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	19-जून-80
4232	विकाश चंद्र मिश्रा, पुत्र श्री त्रिलोकी मिश्रा	बिहारएसवीसी / 238 5/03	ग्राम ढकलिया, डाक योगा पट्टी, थाना योगा पट्टी, सबडिवी. बेतिया, जिला प. चम्पारन, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/03	12-दिसं-72
4233	विकाश कुमार, पुत्र श्री कृष्णा बल्लव प्रसाद यादव	बिहारएसवीसी / 250 6/04	ग्राम/मुहल्ला-धीमा, डाक धीमा, थाना बनमंखी, सबडिवी. बनमंखी, जिला पूर्णिया, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/जीएयू/03	21-जन-79
4234	विकाश सक्सेना, पुत्र श्री भुटो महतो	बिहारएसवीसी / 259 5/05	ग्राम/मुहल्ला- ताल वंशपुर, डाक दिघारी, थाना सूर्यगढ़, सबडिवी. लखीसराय, जिला लखीसराय, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	05-जुला-80
4235	विक्रम, पुत्र श्री ओम प्रकाश	पीबीएसवीसी / 2587 / 05	म.न. 924, गली न. 3, गीता कॉलोनी, भोगा 142001, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/05	26-3.क्टू-81
4236	विक्रान्त गिल, पुत्र श्री बचन सिंह	यूवीसी / 46 / 06	म. न. 19, जैन कॉलोनी, रूद्रपुर, यू.एस. नगर, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी / 05	01-जन-83

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4237	विमल कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र पासवान	बिहारएसवीसी/257 7/05	ग्राम/मुहल्ला- झंझारा, डाक झंझारा, थाना कुशेश्वर, स्थान, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/ओयूएंड टी/04	12-जून-78
4238	विनय टिकारे, पुत्र श्री पुडांलिका टिकारे	कर्नाएसवीसी/3709 /	अलावंडी डाक, कोप्पल तालुक व जिला, 583226, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	01-जून-82
4239	विनोद कुमार, पुत्र श्री जानकी प्रसाद	बिहारएसवीसी/261 5/05	ग्राम/मुहल्ला- बारडीह, डाक बारडीह, थाना इस्लामपुर, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/बीएयू/05	21-सित-80
4240	विनीश एन.	केरल/3082/05	श्रीपदम होम, मक्कडा डाक, काकोडी वाया, कोजीकोड 673617, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	15-अप्रैल-81
4241	विनीत सैनी, पुत्र श्री प्यारा सिंह सैनी	पीबीएसवीसी/2583 /05	# 538, वार्ड न. 5, बस्ती गोबिंदगढ़, मोगरा - 142001, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच/पीएयू/98	28-सित-72
4242	विनीता कुमार, पुत्री श्री बाल्मिकी प्रसाद सिंह	बिहारएसवीसी/260 8/05	ग्राम/मुहल्ला-मारंची भगत, थाना मारंची, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	12-मई-77
4243	विनी एन वर्गीज	केरल/3050/05	वडाकुथला चोलकेल, वेन्नीकुल्लम डाक, थिरुवला, पथानमथिट्टा, केरल	बीवीएससीएंडए एच/केएयू/05	19-अग-79
4244	विनीत कुमार, पुत्र श्री अनिल कुमार गुप्ता	बिहारएसवीसी/253 2/04	ग्राम/मुहल्ला- बरुन, डाक बरुन, थाना बरुन, जिला औरंगाबाद, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/यूएसएधरवाड़/04	17-अक्टू-80
4245	विनोद गुडाकेत्रा, पुत्र श्री शंकर राव	कर्नाएसवीसी/3737 /	द्वारा आर.एस. गुडाकेत्रा, बनशंकरी मंदिर, म.न. 2135, सोमवार पेठ, गोकक, बैलगांम जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	22-जुलै-82
4246	विनोद कुमार, पुत्र श्री महावीर सिंह	हरिएसवीसी/1882	ग्राम कंथरपुरा, डाक काशुम्बी, जिला सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच/सीसीएसएचएयू/05	26-अक्टू-80
4247	विनोद कुमार, पुत्र श्री शिवशंकर सिंह	यूवीसी/120/06	वेट. अधिकारी, गवर्न. वेट हॉस्पिटल, सामेश्वर जिला, अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/जीबीपीयूएंडटी/00	09-अग-75
4248	विनोद कुमार शर्मा, पुत्र श्री मननोहर लाल शर्मा	यूवीसी/112/06	41, सुभाष रोड, देहरादून, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच/एयू/62	17-अग-39
4249	विपिन कुमार, पुत्र श्री नरिन्दर कुमार	एचपीएसवीसी/738 /05	म.न.- 89/2, वार्ड न.2, सुंदर नगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	17-जन-80
4250	विपिन कुमार, पुत्र श्री प्रेम चंद	एचपीएसवीसी/711 /05	ग्राम पांडेर, डाक थटवानी, तह. एवं जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/सीएसकेकेवीवी/05	08-अप्रैल-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4251	द्विपल जैन, पुत्र श्री सुरेश चंद्र जैन	यूवीसी / 142 / 08	ग्राम नंदगांव, तहसील बरकोट, जिला उत्तरकाशी, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच / जीबीपीयूएंडटी / 03	01-नव-79
4252	वीरेंद्र कुमार, पुत्र श्री गया प्रसाद	बिहारएसवीसी / 223 7 / 02	ग्राम बरौना, डाक चोरवार, थाना अरियारी, सबडिवी. शेखपुरा, जिला शेखपुरा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 02	05-मार्च-72
4253	विशाल चंदर, पुत्र श्री सोमनाथ	एचपीएसवीसी / 714 / 05	शिली निवास, हिमाचल पलावर मिल, द्योनघाट, डाक सरप्रून, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / सीएसकेकेवीवी / 05	28-जन-81
4254	विशाल डोगरा, पुत्र श्री रवीन्द्र नाथ	एचपीएसवीसी / 725 / 05	एम.बी.एस.सी. स्कूलर, वेट.विभाग एनाटोमी एग्री.वि.वि.— हिसार, हिमाचल प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / सीएसकेकेवीवी / 05	25-अग-82
4255	विशालजीत सिंह, पुत्र श्री बलदेव सिंह	पीबीएसवीसी / 2819 / 05	ग्राम एवं डाक फतेहपुर राजपुतान, तहसील एवं जिला अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडए एच / पीएयू / 05	13-सित-81
4256	विशाल कुमार, पुत्र श्री कृष्ण कुमार	हरिएसवीसी / 1672	म.न. 66, डी.सी. कॉलोनी, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडए एच / सीसीएसएचएयू / 05	16-सित-82
4257	विशाल सिंह शेखावत, पुत्र श्री हरबंस	राजएसवीसी / 3200 / 06	एसएसबी रोड, गली नं 2 चुकी डाक नाथवाली, श्री गंगानगर राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच / आरएयू / 05	23-सित-78
4258	विश्वनाथ एच.आर. पुत्र श्री रामे गौडा	कर्नाएसवीसी / 3811 /	हुलीकल, तुरवेकरे, तालुक, तुमकूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच / केवीएंडएफएसयू / 05	01-जून-82
4259	विवेक अग्रवाल, पुत्र श्री जगदीश चंद्र अग्रवाल	यूवीसी / 130 / 06	पयिाजना प्रबंधक, द्वारा: आंचल डेयरी दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ लि., अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच / जेएनकेवी वी / 02	07-जून-78
4260	विवेक नायक, पुत्र श्री बासनी कुमार नायक	एमपीएसवीसी / 228 0 / 05	668, सराफा वार्ड, मलदारपुरा, जबलपर, मध्य प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / जेएनकेवीवी / 03-04	26-सित-78
4261	विवेक एस.	केरल / 3056 / 05	विजया भवन टीसी 36 / 1101, कट्टाचल रोड, वेटआमुकु, थिरुमला डाक, विद्रम, केरल	बीवीएससीएंडए एच / केएयू / 05	19-फर-81
4262	विवेक सिंह, पुत्र श्री रतन सिंह	राजएसवीसी / 3233 / 06	सोढानी फार्म, पिपराली रोड, सीकर 332001, राजस्थान	बीवीएससीएंडए एच / एसकेएनडीएयू / 05	06-नव-80
4263	विवेकानंद, पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता	बिहारएसवीसी / 230 1 / 03	ग्राम चौराहा, डाक व थाना: फुलवारी शरीफ, सबडिवी.—पटना सदर, जिला पटना, बिहार	बीवीएससीएंडए एच / डब्ल्यूबीयूएंडएफएस / 02	26-नव-78
4264	विवेकानंद सती, पुत्र श्री हेमचंद्र सती	यूवीसी / 45 / 06	ग्राम कालनू, डाक उपरारी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल	बीवीएससीएंडए एच / जीबीपीयूएंडटी / 93	04-जुला-71

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4265	विवेक प्रभु बी., पुत्र श्री बालप्पा	कर्नाएसवीसी/3791 /	मंजुनाथ फ्लोर मिल के पीछे, मशतूर रोड, प्रशांतनगर, चिक्काबल्लापुर तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	27-जुला-82
4266	वृंदा आर, पुत्र श्री रामचंद्र गौरी	कर्नाएसवीसी/3734 /	द्वारा:कृष्ण कुमार डिंडा, महाकाली सरफ बाजार, खादी ग्रामोद्योग संघ, दु.न.57/ए, उदगीर रोड, बिदर 401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडए एच/केवीएंडएफएसयू/05	24-अप्रैल-82
4267	डब्ल्यू जयाकुमार सेमुअल (विल्सन नायगम)	टीएनएसवीसी/223 3/05	182, जोशना स्ट्रीट, नगरकोइल, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु	बीवीएससी/एमयू/70	17-जून-48
4268	डब्ल्यू मार्टिन वसंतकुमार (विलियम भोजेज)	टीएनएसवीसी/173 6/05	41/19, चौथा एवेन्यु, अशोक नगर, चेन्नई 600083	बीवीएससी/टीएनएयू/80	03-मार्च-57
4269	वारिज नायन, पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद	बिहारएसवीसी/241 6/04	ग्राम-माई, डाक-परबलपुर, थाना-परबलपुर, सबडिवी. हिलसा, जिला नालंदा, बिहार	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/03	01-मार्च-78
4270	वाई. धनराजम, पुत्र श्री के.आर. गोगनाथम	टीएनएसवीसी/343 4/065	26, क्यू/8, वेलू एजेंसीज, वेलूर रोड, तिरुचेनगोडु, नमक्कल जिला 637211, तमिलनाडु	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/05	11-जन-81
4271	वाई. पक्कीर मौहम्मद (के.एस. सुसुफ)	टीएनएसवीसी/214 3/05	'निवाज़ मंज़िल', 13-17-एच, बालामोर रोड, थुवारकडु, बूथापंडी डाक, कन्याकुमारी जिला 629852	बीवीएससी/टीएनएयू/83	25-जुला-60
4272	वाई. वल्लभन (एम. युवराज)	टीएनएसवीसी/138 7/05	5-ए, मरिअम्न कोइल स्ट्रीट, चोकरलिंगापुरम, अरुप्पुकोटई, विरुधुनगर जिला	बीवीएससी/टीएनवीएंडएएसयू/91	06-मई-66
4273	वाई. भानु, पुत्र श्री वाई. कृष्णामूर्ति	एपीएसवीसी/4408 /05	सहा.निदेशक (कृषि), डीटी वाटर मैनेजमेंट एजेंसी, स्टेट गैस्ट हाउस कम्पाउंड, गर्वनर पेट, विजयवाड़ा, कृष्णा जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	15-अग-64
4274	यकंती भूमाल, पुत्र श्री सुब्रायुडु	एपीएसवीसी/4362 /05	मरिकुंतापल्ली, कनीगरि तालुक, प्रकासम जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/आरएयू/05	15-मई-80
4275	यारामा रेड्डी माधवीलता, पुत्री श्री वाई. रामकृष्णा रेड्डी	एपीएसवीसी/4345 /05	मदर इंडिया हाई स्कूल लेन, कनारा बैंक के साथ, ब्लाईंड स्कूल के निकट, संकरापुरम, कडपा, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	14-दिसं-81
4276	यारलागड्डा श्रीवानी, पुत्री श्री वाई.एस.आर. के. प्रसाद	एपीएसवीसी/4343 /05	डोर.न. 24-502, धत्रामम के सामने, अलूरवारी स्ट्रीट, बुटटईपेट, मचलीपटनम, 521001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच/एएनजीआरएयू/05	01-अप्रैल-82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
4277	याता राम मोहन रेड्डी पुत्र श्री यादव रेड्डी	एपीएसवीसी / 4416 / 05	राजन्मगुडेम, खपरायपल्ली, न. गोंडा जिला, 508111, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडए एच / एएनजीआरएयू / 05	30-अग-78
4278	जाला जयदीपसिंह रजनीकांत	गुजएसवीसी / 2685 / 06	23, ए.के. नगर सोसायटी, विसनगर, लिंक रोड, मेहसाना, 384001, गुजरात	बीवीएससीएंडए एच / एसकेडीएयू / 06	19-जून-81

डा. अनुप भौमिक, सचिव

[विज्ञापन-III/IV/असा./141/66]

VETERINARY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2007

F.No. 10-7/2007-VCI.—Whereas the Veterinary Council of India in pursuance of Sub-section (1) of Section 23 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) is required to maintain a register known as Indian Veterinary Practitioners Register which shall contain the names of all persons who possess the recognised veterinary qualification and who are for the time being enrolled on State/UT Veterinary Council of the State to which this Act extends.

Now, in exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 23 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Secretary, Veterinary Council of India, directs that Supplement to Indian Veterinary Practitioners Register, 2006 shall be published in the Gazette of India for general information.

Dr. ANUPBHAUMIK, Secy.

[ADVT.-III/IV/Exty./141/06].

Indian Veterinary Practitioner's Register, Supplement_2006

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1	A SATHISH KUMAR (S.ARUMUGAM)	TNSVC/887/ 05	56 / 24, TEACHERS COLONY, RASIPURAM POST, NAMAKKAL DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	18-Jun-77
2	A. AFROSE ASAF (K.ASAF ALI)	TNSVC/3279 /05	3 / 42, PERUMANALLUR, TIRUPUR MAIN ROAD, COIMBATORE 641 666 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	17-Oct-71
3	A. ANAND(D.ALOYSIUS)	TNSVC/3151 /05	NEW HOUSE, RAMAPURAM POST, KANYAKUMARI DIST 629 303.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	29-Mar-72
4	A. ANIL (V ALPHONSE)	TNSVC/471/ 05	134, SAHAYA ILLAM, KAVIALOOR, KATTATHURAI (PO) K.K. DT. - 629158TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	09-Apr-82
5	A. ANITHA W/o. (C.BASKER BABU)	TNSVC/1599 /05	76, ASHOK NAGAR, TIRUPATTUR, VELLORE DIST 635 601.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	29-May-76

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
6 A. ARDHANARI (M.ARDHANARI)	TNSVC/1899 /05	NAGAPATTY, CHINNANKUPPAM POST, HARUR TK, DHARMAPURI DT - 636903, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	21-Jun-60
7 A. ARIVUCHELVAN (M.ARIVALAGAN)	TNSVC/2307 /05	239A/1, GANDHIPURAM, CHERAN KUDIL, ATHUR, SALEM DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	23-Jul-72
8 A. ARUL MARY LOVEENA (C. ARUL SWAMY)	TNSVC/620/ 05	103, MELASURANGUDI ROAD, SHARON SHELTER, NAGERCOIL - 4TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	24-Sep-80
9 A. ARUL RAJ (S.AMAL RAJ)	TNSVC/1945 /05	56-A, RAYAPPA MUDALI STREET, KRISHNAGIRI - 635001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /69	30-May-66
10 A. ARULMOZHI (W/O K.VINOD KUMAR)	TNSVC/3143 /05	19, MARAPPAN STREET, S.P.PUDUR, NAMAKKAL 637 002. TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	11-Jul-73
11 A. ARUNARANJANI S/O M.ARTHANARI	TNSVC/3492 /06	138/63E, INDIRA NAGAR, LAW COLLEGE ROAD, KANANKUNULI POST, SALEM 636 006.	B.V.Sc/TNV&ASU /05	3-Mar-83
12 A. ASOKAN (B.ARULANANTHAM)	TNSVC/2159 /05	18/8, OEVASHAYAM STREET, OPP. TO BSNL QUARTERS, NAGERCOIL 629 001. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	16-Feb-60
13 A. BABUJI (R.ANNAMALAI)	TNSVC/895/ 05	K-DHRMATHU PATTY P.O. KANNIVADI (VIA) DINDIGUL DIST. 824714 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	23-Nov-55
14 A. BALASUBRAMANIAN (S.R.ATHIMOOLAM)	TNSVC/3155 /05	ATHITYA ILLAM, A29, NEW COLONY, SUBBARAJ NAGAR, BOONAYAKANUR, PIN : 625 513, THENI DIST. TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	05-Jul-70
15 A. BALASUBRAMANIYAM (N.ANDI)	TNSVC/1409 /05	27, VETS NAGAR, NEELAMANGALAM CROSS ROAD, KALLAKURICHI 606 202, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	15-Jan-87
16 A. BOOBALAN (M.ADHIMOOLAM)	TNSVC/377/ 04	SORIAMPATTY PUDUR, MOBIRIPATTY PO, HARUR TK, DHARMAPURI DT, - 636 902, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	30-May-81
17 A. CHANDRASEKARAN (M.ADHISESHAN)	TNSVC/2477 /05	NO.13.A, ASANUR ROAD, SANDAPETTAI, THIRUKOILUR 605 757. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	13-Apr-55
18 A. CHINNUSAMY (AMMASAI)	TNSVC/2513 /05	1F, AYYAPPANAGAR, NEAR HEAD POST OFFICE, GOBICHETTIPALAYAM 638 452., ERODE, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	20-May-62

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
19	A. DAMQDARAN (M. ANNAMALAI)	TNSVC/1964/05	77A, KRISHNAN STREET, PILLAYAR PALAYAM, KANCHIPURAM 631 501.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	23-May-79
20	A. DEVAKI (M.R.ARUNACHALAM)	TNSVC/279/04	2 / 8, EAST STREET, KOONAVELAM PATTI PUDUR PO, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT, PIN : 637 401.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	16-May-79
21	A. DHANALAKSHMI (K.ABIMANYU)	TNSVC/509/05	POTHANAICHAN THOTTAM, THANDAGOUNDANDOR, BERUKURICHI (PO), NAMAKKAL (DT) 637402TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-May-79
22	A. DOMINIC DIVIANATHAN (A.ARULDOSS)	TNSVC/2971/05	48, BALAJI NAGAR, PHASE III, NEAR PATC MAHAL, SATHUVACHARI, VELLORE - 9TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	11-Dec-60
23	A. DURAISAMY (K.R.ATHIAPPA GOUNDER)	TNSVC/1870/05	KODIANUR, L.N. PATTY P.O. SANKARAPURAM TALUK, VILLUPURAM DISTRICT 606 402TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	25-May-67
24	A. ELANGO VAN (N.ARUNACHALAM)	TNSVC/2165/05	37, IDAIYARU VILLAGE, PUDUVAKKOTTAI POST, ARANTHANG TK, PUDUKKOTTAI DT, - 614 816,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	31-Dec-55
25	A. ELAVARASI (G.ARIVAZHAGAN)	TNSVC/2302/05	85/A11, KANDIAN STREET, MADUKKUR MAIN ROAD, PATTUKOTTAI (T.K.) TANJORE DT 614 601,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	20-Apr-74
26	A. ELUMALAI (A.ARUMUGAM)	TNSVC/1292/05	ODAIYANATHAM, ODIYATHUR POST, VILLUPURAM DISTRICT 605701,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	07-Jan-77
27	A. ESWARI (P.ANANDAN)	TNSVC/1501/05	METTUPATTY, CHAMRAJPET (PO) METTUR (TK) SALEM DISTRICT 636 451,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	01-May-78
28	A. GOPALAKRISHNAN (G.ARULPRAKASAM)	TNSVC/408/04	9 / 52.D, POLICE COLONY, PAUPARAPATTY PO, DHARMAPURI DT 536 809.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	15-Jul-80
29	A. GOPINATHAN (P.ALAGAPPAN)	TNSVC/636/05	33/14, BHARATTIYAR ST. N.G.G.O NAGAR, THIRUKOILUR, VILLUPURAM DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	30-Jul-74
30	A. GOVINDAN (A.ANNAMALAI)	TNSVC/1004/05	PANANGADU ANDIPATTY (P.D) SIVADHAPURAM, SALEM 636307 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	10-Jun-73
31	A. HABIBUR RAHMAN (M.ABDUL SHUKUR)	TNSVC/1252/05	19, KAYALAR OTRAI VADAI STREET, VANDAVASI - 604 408 TIRUVANNAMALAI DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	29-Sep-55

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
32 A. HEMAVATHI (N. ARIVAZHAGAN)	TNSVC/231/03	7 / 20, 20TH STREET, 5TH AVENUE, ASHOK NAGAR, CHENNAI -83 TAMIL NADU	B.V.Sc&AH/PU/00	07-Jul-75
33 A. JALAGANDEESWARAN (M.V.ARUMUGAM)	TNSVC/2465/05	S-1, GUEST HOUSE LINE, SATHANUR DAM & POST 606 706, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	07-Jun-69
34 A. JANAGARAJAN (A.ARUMUGAM)	TNSVC/1162/05	15 / 31, PACHI STREET, RASIPURAM PO & TK, NAMAKKAL DT, PIN : 637 408, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	24-Feb-59
35 A. JAWAHAR (V. AYYARU)	TNSVC/200/03	KOODAKKUDI, MUTHARASAPURAM POST, 610 201, NAGAPATTINAM DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	17-Jun-80
36 A. JAYAKUMAR (P.S.ARBESHAN)	TNSVC/110/03	15 / 43 / 254, VIVEKANANDAR ST, RAJAJIPURAM - II, TIRUVALLUR 602 001 TIRUVALLUR TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	26-Jan-79
37 A. JEHANMOHAN (N.ARUMUGAM)	TNSVC/929/05	DOOR NO 37, SALAI THOTTAM, PUDUCHATRAM 624 619, ODDANCHATRAM VIA, DINDIGUL DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	23-Jun-61
38 A. JEROME (S.ANDONISSAMY)	TNSVC/636/05	NO.4 / 281, THIRU NAGAR, PATTANOOR, VANUR, VILLUPURAM 605 111, TAMIL NADU	B.V.Sc&AH/PU/04	21-Sep-82
39 A. JOHN MALACHI THILAGAN (J.M. ARTHUR)	TNSVC/2186/05	631, M.S. ROAD, J.V. JOHNVILLA, M.S. ROAD, NAGERCOIL 629 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/69	12-Jul-44
40 A. JOSEPH RAJ (M.ANTONY XAVIER)	TNSVC/1219/05	2 / 245, P & T COLONY, 11TH STREET, THOOTHUKUDI - 628 008 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	23-May-69
41 A. KALAI SELVAN (C. ANNADURAI)	TNSVC/95/03	MULLUKURICHY, ATHANAKURICHY POST, SENDURAI TALUK, PEREMBALUR D-62, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	17-Jun-80
42 A. KALAIKANNAN (S.ATHAPPAN)	TNSVC/2432/05	26, D/1, KONERIPATTI EXT.NO.1, RASIPURAM P.O. 637 408, NAMAKKAL DIST- TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	12-May-73
43 A. KANAGARAJAN (S.APPAVU PILLAI)	TNSVC/1119/05	523, NORTH 4TH STREET, PUDUKKOTTAI 622 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	11-Apr-48

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
44 A. KANDASAMY (K.ARJUNAN)	TNSVC/2503 /05	8-6-200 PERUMAL CHETTY STREET, JALA KANTAPURAM VIA, SALEM DIST, PIN : 636 501.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85 /02	01-May-61
45 A. KANDASAMY (T.M.APPU)	TNSVC/15/0 2	153, MAIN ROAD, THIMMARAJAMPET (POST) AYYANPET (S.O.) KANCHEEPURAM DIST-631 601, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	10-Jun-79
46 A. KANNAN ALPADI(T.T.ALPAI)	TNSVC/8/02	KEELA RADHA VEEDI, MUDUKULATHUR 623 704, RAMANATHAPURAM DT., TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	21-Apr-79
47 A. KATHIK S/O A.ARUMUGAM	TNSVC/3325 /06	4/2, ROAD NATTANIKKOTTAI, PERAVURANI P.O., THANJAVUR DT. 614 804,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	14-May-82
48 A. KAVITHA (K.APPUSAMI)	TNSVC/493/ 05	ELUR PUDUPATTY, ELUR (PO) PUDUCHATRAM (VIA), NAMAKKAL (DT)TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	12-Sep-82
49 A. KOWSIGAN (V.AYYAMPERUMAL)	TNSVC/711/ 05	L-63, HUDCO COLONY, OLD TEMPLE LAND, HOSUR PIN 635 109,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	18-Jan-76
50 A. KRISHNASAMY (S.A.ARUMUGAM)	TNSVC/3112 /05	4 / 90, WEST STREET, SEYDUNGANALLUR, THOOTHUKKUDI DISTRICT, PIN 628 809 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	27-Mar-68
51 A. KUMAR (S.N.ARUMUGAM)	TNSVC/2535 /05	KATTUR, PACHAMPALAYAM POST, BHAVANI TK, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	01-Oct-49
52 A. KUMARESAN (P.ANNAMALAI)	TNSVC/1691 /05	VAYAKKADU, SEERAPPALLI(PO), RASIPURAM (TK), NAMAKKAL (DT),TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	09-Feb-70
53 A. LAKSHMANAN (S.ALAGUMALAI)	TNSVC/2417 /05	NADAYANERI, ERICHANATHAM POST, SIVAKASI TALUK, VIRUDHU NAGAR DISTRICT 626 103,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	05-Jun-77
54 A. LAKSHMIPATHI (M.ARUNAGIRI)	TNSVC/2821 /05	NO.231 / 194, BAVASAKIPPET ROAD, THIMMARAJAMPET POST, KANCHIPURAM TK & DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	23-Mar-77

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
55 A. LAWRENCE S/O A. ANTONY	TNSVC/3525 /06	67, MAIN ROAD, PUNAVASAL 614 603, THANJAVUR DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	16-Sep-72
56 A. MAHALAKSHMI (P.ANBARASAN)	TNSVC/591/ 05	NO.1, MARKETCOMMITTEE STREET, JAYAMKONDAN PIN - 621 602.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	26-Feb-81
57 A. MAHENDRAN (K.ARALIAPPAN)	TNSVC/2593 /05	PAPPAVALASU, CHINNIAMPALAYAM POST, KUNNATHUR 638 103, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	12-May-80
58 A. MAHENDRAN (R.ALAGARSAMY)	TNSVC/736/ 05	7 / 63, M.REDDIAPATTI P.O. ARUPPUKOTTAI TK., VIRUDHUNAGAR DT. 6261 18TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	15-Jul-72
59 A. MAHESWARAN (S.V.ANGAMUTHU)	TNSVC/1111 /05	105 / 275, KALARAMPATTI MAIN ROAD, NEAR DEVI THEATRE, SALEM 636 015.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	14-Dec-60
60 A. MANGALA GOWRI S/O V.PERASIRIYAN	TNSVC/3368 /06	PLOT NO.173, HIG PHASE II, NOOLANEBUR, 4TH MAIN RD, MOGAPPAR WEST GARDENS-37,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	1-Jun-69
61 A. MANIKANDAN (M.ARUMUGAM)	TNSVC/3018 /05	KANDASAMPURAM P.O. S.KAILASAPURAM VIA TUTICORIN DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	27-May-70
62 A. MANIKANDAN (O.ATTUSAMYTHAVER)	TNSVC/1084 /05	NO.10 PONMARINAGAR ARUL ART STUDIO BACK SIDE,USILAMPATTI RD,CHECKKANURANI,MADURAI (DT) 625 514,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	06-May-75
63 A. MANIMARAN S/O A.AYYASAMY	TNSVC/3330 /06	KACHAKUDI - VILL,ERANJI - PO KALLAKURICHI - TK, VILLUPURAM DIST 608 305TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	19-May-83
64 A. MANIVASAGAM (S.ARUNACHALAM)	TNSVC/916/ 05	277, Vith, CROSS ST. PALANIANDAVAR NAGAR, PALANI TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	24-Jul-65
65 A. MARIA SUNDAR (D.K.ANTHONY SAMY)	TNSVC/1947 /05	58 / 16L, I CROSS, GOPALA KRISHNA COLONY, KRISHNAGIRI - 635 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	21-May-66

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
66 A. MARUDHAI RAJU (K.ANGAMUTHU)	TNSVC/1730 /05	NO.7, SMES COLONY, IVTH STREET, NORTH EXTN. TRICHY 620 021, TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNAU/87	05-Feb-63
67 A. MARY NIRMALA JOSEPHINE (S.AROCKIASAMY)	TNSVC/1272 /05	13 / 17, M.L. PILLAI NAGAR, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI 627 002, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Mar-75
68 A. MEENAKSHI SUNDARAM (P.S.AMBALATHAZUVAR)	TNSVC/951/ 05	NO.1, BUNGALOW III STREET, KOVILPATTI 828 501, THOOTHUKKUDI DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	07-Apr-68
69 A. MOHAMED SAFIULLAH (A.ABDUL HAMEED)	TNSVC/2084 /05	184, PALANIAPPAN STREET, PATTUKKOTTAI POST, THANJAVUR DIST 614 601., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	31-Oct-60
70 A. MUURUGAN (AMMASAI NADAR)	TNSVC/2561 /05	4, AMBIGAI NAGAR, MILL ROAD, GOBICHETTIPALAYAM, ERODE DIST 638 476. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	12-May-60
71 A. NAVEEN KUMARAVEL S/OT. ARTHANARI	TNSVC/3308 /06	377/E, GANESH SRINITHI ILLAM, SAKTHI NAGAR, PONNAMMAPET, SALEM, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	12-May-82
72 A. NEHRU KUMAR (P.AYYANAR)	TNSVC/1115 /05	PLOT NO.454, 14TH STREET, KARPAGAM NAGAR, K.PUDUR, MADURAI 625 007. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	11-May-64
73 A. PADMAVATHY(W/o. A. KAMALA KANNAN)	TNSVC/9/02	102, ARANI KOOTROAD, CHEYYAR - 604407 THIRUVANNAMALAI DIST., TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	17-Jun-78
74 A. PALANIVELU (K.ARUMUGAM)	TNSVC/2050 /05	PLOT NO.14, MARAN NAGAR, EZHIL ILLAM, VANDIGATE, LALPURAM PO, CHIDAMBARAM 608 001 TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/89	30-May-65
75 A. PARAMESWARAN (R.S.ALAGARSAMY)	TNSVC/1455 /05	224 / 13C, SUBBAN STREET, THENI 625 531, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	07-Jun-59
76 A. PARASURAMAN (R.ANNAMALAI)	TNSVC/2662 /05	33/79, ARUNACHALA NAGAR, RAMANOOR - PASUPATHIPALAYAM, KARUR DISTRICT 639 002, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	23-May-49

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
77 A. PARTHASARATHI S/O G.AYYAKUTTI	TNSVC/3422 /06	8/220, KARUMPALAM AND POST, NILGIRIS, TAMIL NADU 643 102.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	6-Oct-56
78 A. PERIASAMY S/O L. ANNAMALAI	TNSVC/3565 /06	MUTHAGOUNDANOOR, UMAYALPURAM P.O. ATTUR (T.K.), SALEM - 636 119, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	10-Jun-70
79 A. POONKODI W/o. (E.MANIVANNAN)	TNSVC/1056 /05	37, CHINNUSAMY NAGAR, SEELANAICKENPATTY BYE PASS, SALEM 636 201.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	11-Jun-75
80 A. PRABHAKARAN S/O P.R.ARUMUGAM	TNSVC/3395 /06	19, (OLD NO.7) RANGANATHAR STRET, TIRUPATTUR VELLORE DIST 635 601.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	27-May-70
81 A. PRABHU (N.AMMASHI)	TNSVC/1912 /05	CHAPPERTHY (PO), KRISHNAGIRI (TK & DT) 635106TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-Jul-77
82 A. PREMKUMAR (C.ARAVINDAN)	TNSVC/1724 /05	318-2, RAJIV NAGAR, MANAPPARAI, TRICHY DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	26-May-70
83 A. RADHA KRISHNAN (R.S.ALAGARSAMY)	TNSVC/1114 /05	183 A / 8, THIRUMURUGAN COLONY, THIRU NAGAR, MADURAI 625 006.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	17-May-53
84 A. RADHAMANI (V. AYYAKANNU)	TNSVC/240/ 04	METTUPPATTY (PO), NAMAKKAL TK & DT., PIN:637 020TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Jun-77
85 A. RAGHAVAN (M.S.AZHAGIRISAMY)	TNSVC/2759 /05	27, NEW COLONY 1ST STIREET, THIRU NAGAR, KATPADI, VELLORE - 6.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	16-Jul-73
86 A. RAJA (LANGAMUTHU)	TNSVC/2603 /05	278, SATHY ROAD, VEERAPPAN CHATRAM, ERODE 638 004, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	31-May-67
87 A. RAJA GOPAL (V.ANGAMUTHU)	TNSVC/989/ 05	NO.35, MUTHU NAGAR, RAJAH SERBOJI COLLEGE POST, THANJAVOOR 613 005.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	29-Mar-54

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
88	A. RAJA(V.ALAGU)	TNSVC/1082 /05	PL NO.3, BALAJI NAGAR 1ST STREET, KALAI NAGAR EXTENSION, PLT NAGAR, MADURAI - 17 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	07-Jun-67
89	A. RAJADURAI (R.ARUMUGAM)	TNSVC/1035 /05	BNO.25, KAMATCHI NAGAR, CHINNA- THIRUPATHI PO SALEM -DT. PIN - 636 008,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	20-Jul-60
90	A. RAJAMANICKAM (R.AMIRTHALINGAM)	TNSVC/1720 /05	1 / 259A; NAGAPPA NAGAR, NACHIKURICHI, SOMARASAM PETTAI P.O. TRICHY 620 102,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	12-Mar-59
91	A. RAJAN (T.ARUMUGAM)	TNSVC/2930 /05	313 / 51, VALLALAR NAGAR, TNHB EAST, AYYANTHIRUMALIGAI, SALEM 636 008 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	30-Jun-68
92	A. RAJAPANDIAN (C.AYYARTHEVAR)	TNSVC/280/ 04	121-B, CHINNASAMY PILLAI STREET, BETHANIYAPURAM, MADURAI - 18.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	13-May-79
93	A. RAJASEKAR (P.ANDIAPPAN)	TNSVC/561/ 05	THARKAKUDI VILLAGE, AYYAPAATTI POST, MELUR DT, MADURAI DIST, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	28-Feb-74
94	A. RAJESH (R.ATHMANATHAN)	TNSVC/507/ 05	55 / A, 48COLONYTHONDI ROAD SIVAGANGATAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	01-Jul-82
95	A. RAJKUMAR(P.AYYAKANNU)	TNSVC/151/ 03	MELNARIYAPPANUR PO, KALLAKURICHI TKVILLUPURAM DTPIN 606 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	10-Mar-80
96	A. RAMACHANDRAN (R.AZHAGAPPAN)	TNSVC/978/ 05	NORTH STREET, RAMUDAIYANPATTI, MINNATHUR POST, PERUNGALUR VIA,PUDUKKOTTAI-622203,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	21-Feb-69
97	A. RAMALINGAM (C.ANNAMALAI)	TNSVC/2722 /05	SOBANAPURAM P.O. THURAIYUR (T.K.) TRICHY DISTRICT PIN 621 018,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	15-Feb-67
98	A. RAMAN (D.ANNAMALAI)	TNSVC/1122 /05	KARUNGALIKUPPAM, KALAVASAL POST, 606 903, POLUR TK, THIRUVANNAMALAI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	15-May-69

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
99 A. RAMAPRABA (R.ARJUNAN)	TNSVC/2780 /05	82, KAVADAIKARA STREET, DINDIGUL, DINDIGUL DIST, PIN : 624 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	17-Nov-72
100 A. RAMASAMY (N.ALAGAPPAN)	TNSVC/2813 /05	A. KUDIKADU, ANUKKUR POST, VEPPANTHATTAI TK, PERAMBALUR DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	04-May-67
101 A. RAMASAMY (S.ALAGARSAMY)	TNSVC/924/ 05	PANNAI PATTI, ERIYODI POST, DINDIGUL ANNA DISTRICT, PIN : 624 702.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	15-Jun-57
102 A. RAMESH KUMAR (M. ANBU KUMAR)	TNSVC/188/ 03	NO.503, T.N.H.B. AMBUR, VELLORE DISTRICT 835 802.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	30-Jan-79
103 A. RAVICHANDRAN (A.P.A.LALAGAPPAN)	TNSVC/908/ 05	BOMMINAKKENPATTI, PALAMEDU (P.O) MADURAI DISTRICT 625 503 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	09-Jun-64
104 A. RAVICHANDRAN (ANDIYAPPAN)	TNSVC/1184 /05	178, ARANTHANGI ROAD, PERAVURANI PO, THANJAVUR DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	03-Jul-65
105 A. RUBA NANTHINI(E.ANNA KAMU)	TNSVC/135/ 03	91 / 79, WEST ASHOK NAGAR, ANGU NAGAR POSTDINDIGUL. - 6240,01TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	11-May-80
106 A. SABAREESWARAN (ARUMUGAM)	TNSVC/160/ 03	13 / 36, AGRAHARAM STREET, MUDUKULATHUR, RAMANATHAPUR AM, PIN : 623 70TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	16-May-80
107 A. SABIBULLAH (M.Y.ABDUL RASHID)	TNSVC/3285 /05	2 / 74, ALAGAPPA NAGAR, 3RD CROSS, ARIYALUR, 621 704.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	02-Jun-66
108 A. SADASIVAM (K.ARUMUGAM)	TNSVC/2557 /05	16, RAJENDRA NAGAR, III CROSS STREET, UDUMALAI ROAD, DHARAPURAM, ERODE: 638 656, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	18-Feb-60
109 A. SADASIVAM (M.K.ARUMUGA MUDALIAR)	TNSVC/1150 /05	CHETTICKADU, PALANTHIMI PATTI, PALANTHIMIPATTI POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	13-Apr-54

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
110 A. SAMBANTHAN (K.APPASAMY)	TNSVC/2725 /05	208, NUNGAMBAKKAM VILLAGE AND POST, TIRUVALLUR TK AND DIST.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	07-May-82
111 A. SANGEETHA (E.ANANDA BASKARAN)	TNSVC/635/ 05	PERUMAL KOIL STREET, L.R.PALAYAM & PO, VILLUPURAM TK, PIN : 605 107.TAMIL NADU	B.V.Sc&AH/PU/05	01-Jul-81
112 A. SANTHI (R.ANANDAN)	TNSVC/513/ 05	SAMATHAKUPPAM, DEVANUR POST, GINGEE (TK), VILLUPURM (DT)PIN - 604208TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	01-Jun-82
113 A. SATHYA (S.ARUNACHALAM)	TNSVC/90/0 3	No.4,Old No.15,MANI MANDAPAM, MAHA VIR GARDEN,4TH ZONE, 6TH CROSS T,KAVANGARAI, PUZHL O-CHEN-066 TAMILNADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	28-Dec-80
114 A. SEITHOON (P.JAMAL HASSAN)	TNSVC/2128 /05	4/35A, MADEENA FLATS, F1, FIRST FLOOR, AZHAGIRINAGAR MAIN ROAD, VADAPALANI, CHENNAI-26.	B.V.Sc/TNAU/88	21-May-85
115 A. SELVA PRAHARAN (S.ANNAPANDIAN)	TNSVC/1857 /05	234, KALANTHAPANAI POST, PANAGUDI (VIA), RADHAPURAM TALUK, TIRUNELVELI - 627 109 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	10-May-70
116 A. SELVALATHA (M.PALANISAMY)	TNSVC/1156 /05	11 / 109, PATTANAM POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	02-Nov-75
117 A. SENTHIL (A.T.ARULRAJ)	TNSVC/3102 /05	37-C, KAMARAJ NAGAR, ALANKULAM, TIRUNELVELI DISTRICT PIN 627 851 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	02-Apr-84
118 A. SENTHIL KUMAR (A.ANNAMALAI)	TNSVC/1355 /05	2 / 66, SANKARI MAIN ROAD, THARAMANGALAM P.O. SALEM DISTRICT PIN 636 502 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	12-Jul-74
119 A. SENTHIL KUMAR (P.AMBIGAPATHY)	TNSVC/2489 /05	44, TANK STREET, SAKKARAPURAM, GINGEE, VILLUPURAM DIST 604 202.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	10-Mar-87
120 A. SENTHIL KUMAR (P.M. ANNAMALAI)	TNSVC/115/ 03	347-A, GANESA COLONY, PERAMBALUR PO & DT621 21TAMILADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	23-Nov-79

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
121 A. SENTHIL KUMAR S/O M. ARUMUGAM	TNSVC/3546 /06	377, ROAD STREET, NORTHAMPOONDI POST, TIRUVANNAMALAI. OISTRIC 606 802, TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNV&ASU /06	16-Mar-81
122 A. SENTHU (M.ARUMUGAM)	TNSVC/153/ 03	11B, 2ND CROSS, MOHAN RAO COLONY, KRISHNAGIRI, DHARMAPU DIST, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	19-Mar-79
123 A. SETHURAMAN (V.ANANDA PADMANABAN)	TNSVC/3275 /05	10, WEST MADAWALAGAM STREET. KARUR 639 001, KARUR DIST. TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/75	08-Oct-49
124 A. SHA. ARUN S/O S. SHANMUGAM	TNSVC/3516 /06	"ARUN ILLAM", ARAGALUR P.O. SALEM DISTRICT, PIN 636 101 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	7-Jun-76
125 A. SHAMIMA SHAHEEN (W/O S. MUZAMIL RAFEEK)	TNSVC/2638 /05	PLOT NO.11, FIRST STREET, RAM SAIT NAGAR, THORAPADI, VELLORE 632 002 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	20-Apr-59
126 A. SHANMUGASUNDARAM (C.ARUMUGAM)	TNSVC/2825 /05	1 / 448, THAIVATHAILLAM, BHARATHI NAGAR, RAMANATHAPURAM, RAMANATHAPURAM DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	02-Apr-65
127 A. SINGARAVEL (V.C.ARUNACHALAM)	TNSVC/2781 /05	NO.2, UDAYAM NAGAR, KAVERIPAKKAM 632 508., VELLORE DIST, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	02-Jul-55
128 A. SIVAKUMAR (A.AYYAR)	TNSVC/594/ 05	BACK OF FIRE STATION, SUNDAR NAGAR, CHOLOVANDAN, MADURAI DT, PIN : 625 215. TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	06-Jun-81
129 A. SIVAKUMAR (KANNAMALAI)	TNSVC/999/ 05	OLD NO.23, NEW NO.47, CHALLAPPA MUDALI STREET, PERAMBUR BARAACKS RDAO, CHENNAI 600 012.	B.V.Sc/TNAU/75	17-Jan-49
130 A. SIVANATHAN S/O AYEMUTHAKANDAR	TNSVC/3493 /06	NANGAVALLI MAIN ROAD, THARMANGALAM POST, SALEM DIST, PIN : 636 502. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	4-Jan-53
131 A. SIVARAMA KRISHNAN S/O LANGAPPAMUDALIAR	TNSVC/3392 /06	2/10-1, THIRUVENKATAM NAGAR, TVS NAGAR RD, KAVUNDAM PALAYAM PO, COIMBATORE. TAMIL NADU	BVSc/MU/72.	5-Jan-49

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
132 A. SIVARAMAKRISHNAN (S.ARUMUGAM)	TNSVC/3090 /05	37, VADAKKUVASELVI AMMAN KOIL STREET, MUTHUKRISHNAPURAM, KADAYANALLUR, 627751 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	06-Feb-61
133 A. SOJA (M AUGUSTIN)	TNSVC/482/ 05	NARONDY HOUSE, S.T.MANGAD, KANYAKUMARI 629172TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-May-61
134 A. SOUNDARAPANDIAN (S.APPAVOO)	TNSVC/998/ 05	PLOT NO.37, PRATHABASIMAPURAM, SRINIVASAPURAM, THANJAVUR 613 009.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	09-Jan-57
135 A. SRITHAR (ANDY)	TNSVC/2849 /05	KUMARAN KOVIL STREET, DEVADANAM, RAJAPALAYAM (VIA), VIRUDHU NAGAR DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	13-Jun-62
136 A. SUBBURAJ (T.A.ALAGARSAMY)	TNSVC/1547 /05	137, V STREET, ZION NAGAR, THIRUMANGALAM T.K. MADURAI 625 706.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	11-Aug-68
137 A. SUBRAMANIAN (ARUMUGAM)	TNSVC/1158 /05	17, GOUSE ROAD, VADIVELAR ILLAM, THAMMAMPATTY POST 636 113, GANGAVALLI TK, SALEM DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	02-May-53
138 A. SUBRAMANIAN (V.AYYAMUTHU)	TNSVC/1943 /05	APPU GOUNDER THOTTAM, THANDA GOUNDANOR, BELUKURICHI (PO), NAMAKKAL (DT) - 637402,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	07-Apr-63
139 A. SUBRAMANIYAN (P.AIYAKANNU)	TNSVC/316/ 04	KALLAI VILLAGE OLAIPPADI POST, PERAMBALUR DISTRICT PIN 621 717,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	19-Apr-79
140 A. SUGANYA (W/O B.SARAVANAN)	TNSVC/2803 /05	107, VALLALAR NAGAR IVTH STREET, MEDICAL COLLEGE ROAD, THANJAVUR,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Jul-76
141 A. SUKUMARAN (A.ALAGAMUTHU)	TNSVC/2032 /05	29-C, VELLANATHAN PATTY, MELUR, MADURAI DT, PIN : 625 106.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	01-Jun-71
142 A. SUMATHI (W/O CHAKRADHAR DAS)	TNSVC/3209 /05	368, G.P. NAGAR, PERIYAKURICHI, NEYVELI - 2 (PO) CUDDALORE DISTRICT- 607802,TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/88	13-Apr-64

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
143 A. SUMEETHA (C.ANTONY SAMY)	TNSVC/1873 /05	18, 6TH EAST CROSS ROAD, GANDHI NAGAR, VELLORE 832 006, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	02-Apr-70
144 A. SUMITHRA S/O M.ARUMUGAM	TNSVC/3341 /06	NO.A4, "KATHIR ILLAM" NEAR G.H. PERAMBALUR MAIN RD, THURAIYUR 621010, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	19-Dec-82
145 A. SUNDARAM (S.ATHI NADAR)	TNSVC/3187 /05	2 / 7, KENNEDY STREET, KIDARAKULAM (PO) 627 854, TIRUNELVELI DISTRICT, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	12-May-67
146 A. SUNDARESAN (S.ARUMUGAM)	TNSVC/2615 /05	PLOT NO.14, SUBBIAH NAGAR, MADANANDAPURAM, PORUR, CHENNAI 600 116	B.V.Sc/TNAU/88	21-Jun-69
147 A. SUSAI MARI NIXON (M.AROKIAM)	TNSVC/1504 /05	65, SUDARSANAM STREET, MANJUKUPPAM, CUDDALORE 607 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	13-Aug-74
148 A. THAMIZHARASAN (V.AYYANAR)	TNSVC/602/ 05	4 / 54, KRISHNAN KOVIL STREET, SOLAI SERI KRISHNAPURAM PO, RAJAPALAYAM TK, VIRUDHUNAGAR DIST-826143, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	09-Oct-81
149 A. THANGAVELU (P.ARDHANARY)	TNSVC/2868 /05	150A, KALTHOLILALAR FIRST STREET, BHAVANI, ERODE DIST, PIN : 638 301, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	20-Jun-63
150 A. THAVAL THENDRAL (O.P.ARUMUGAM)	TNSVC/1875 /05	D.NO.5 / 518. KONAMMAL STREET, OPP. COLLECTORATE, DHARMAPURI 636 705, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	25-Jul-77
151 A. THAVAMATHI (V.ANNAMALAI)	TNSVC/346/ 04	5A / 2, (NEW NO.9) SECOND LANE, FLOWERS ROAD, CHENNAI - 600084, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	03-Jun-80
152 A. THAYA SEKhar (D.ABELRAJ)	TNSVC/2189 /05	35, VICTORY LANE, VETTOORNIMADAM, NAGERCOIL 629 003, KANYAKUMARI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	30-Mar-64
153 A. THIRUVALARSELVI (N.ANBANANTHAN)	TNSVC/1118 /05	THIRU BHUVAN ILLAM, KEERAMANGALAM (N) & POST, PUDUKKOTTAI DT, PIN : 614 624. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	20-Jun-72

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
154 A. THYAGAVIJAYAN (P.ARTHANARRI)	TNSVC/1934 /05	29 / 41, KARUNGALPATTY ITTERY ROAD, SALEM - 636006, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	04-Dec-52
155 A. UMA MAHESWARI (N.A.ALAGAR)	TNSVC/482/ 05	244, BAZAAR STREET, ST. THOMAS MOUNT CHENNAI 600016, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-Jun-81
156 A. VADIVEL (K.ARUMUGUM)	TNSVC/1173 /05	MANIAKARAN PATTY, KANNIVADI POST, DINDIGUL DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	05-Apr-69
157 A. VANITHA (R. ANNAMALAI)	TNSVC/183/ 03	25B, KONERIPATTI EX.NO.1, RASIPURAM. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	11-Feb-79
158 A. VELLAIYA GOUNDAN (R. ARTHANARI)	TNSVC/2022 /05	153/93, NADU STREET, VELLANDIVALASU POST 637 105, EDAPPADI TK, SALEM DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	30-Jun-72
159 A. VENKATA RAMANAN (V.ANANTHA KRISHNAN)	TNSVC/2766 /05	PLOT NO.15, VEDHAMMAL NAGAR, MINJUR 801 203, THIRUVALLUR DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	25-Jul-64
160 A. VENKATESAN (P.ARUNACHALAM)	TNSVC/347/ 04	SENGADU (PO), YERCAUD (TK) SALEM (DT) 636601 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Jun-80
161 A. VENUGOPAL (R.ARUMUGAM)	TNSVC/1476 /05	30, NATHAMEDU STREET, MAVUREDDY, PARAMATHY PO. P.VELUR (TK) NAMAKKAL DT 637 207, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	05-Jun-76
162 A. VIRACHABADOSS (V.AJITHADOSS)	TNSVC/2093 /05	12-A, KRS ILLAM, 6TH STREET, SENKUNTHAR NAGAR, CHINNASALEM 606 201. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	11-Jul-67
163 A.ANBUNAYAGAM(P.ABUB UCKER)	TNSVC/1779 /05	22, POLICE LINE WEST MAIN ROAD, SEKKALAI - KARAUKUDI - 630 002, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	26-Jun-55
164 A. BALAKRISHNAN (M.ARUMUGAM)	TNSVC/2405 /05	CHITTHAMBALAM (PO) PALLADAM 641 664 COIMBATORE DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	17-Nov-76

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
165 A.CHANDRASEKARAN(ALA. GARSAMYNAIDU)	TNSVC/2274 /05	79, 13TH STREET, PADMAVATHI NAGAR EXTENSION, MADAMBAKKAM, SELAIYUR, TAMBARAM, CHENNAI	B.V.Sc/TNAU/79	13-Apr-55
166 A.E. GANAPATHY (ELUVANDI GOUNDER)	TNSVC/1192 /05	M3, ALAGU NAGAR, HOUSING UNIT, TRICHY ROAD, NAMAKKAL DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	01-Apr-50
167 A.ELANGO VAN (ARUMUGAM)	TNSVC/2360 /05	4/208, PLOT NO.60, PRIYANKA NAGAR, KATTUR, TRICHY 620 019 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	27-Jan-66
168 A.GOVINDARAJ (ANNAMALAI)	TNSVC/1808 /05	KAVAPATTI, SELLAMPATTI (POST), HARUR T.K. DHARMAPURI DISTRICT PIN 636 903, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	25-Jun-77
169 A.K. MURUGAN (A. KARUPPANNAN)	TNSVC/2066 /05	KARIYA GOUNDAN PUDUR, SRI RAMAPURAM POST, DINDIGUL TK, PIN : 624 622. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	11-Jun-70
170 A.K. MURUGESAN (A.KALIAPPAN)	TNSVC/3091 /05	A / 23, T.N.H.B. QUARTERS, RESERVER LINE, SIVAKASI WEST, VIRUDHUNAGAR DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	16-May-58
171 A.K.KAMALAKANNAN(K.A. KUPPUSAMY)	TNSVC/1813 /05	115 / 8, FIVE STAR APARTMENTS, PADIKUPPAM SALAI, ANNANAGAR WEST, CHENNAI 600 040	B.V.Sc/TNV&ASU /98	02-Dec-74
172 A.KANDASAMY (N.AVUDAIYAPPAN)	TNSVC/2355 /05	NEW NO.14,(OLD NO.1)NGO.COLONY,VI STREET EXTERNSION, NEAR CSI CHURCH, MELAGARAM 627818, TENKASI TALUK, TIRUNELVELI DIST, TAMIL	B.V.Sc/TNV&ASU /97	08-Jul-74
173 A.L.S. SENTHUR SELVAM (A.L.SAMUTHIRAKKANI)	TNSVC/1279 /05	299, CHINNASURAKKAIPATTI STREET, RAJAPALAYAM 626 117, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	14-Apr-71
174 A.M. NALIM (L.KAMALAKANNAN)	TNSVC/965/ 05	NEW No.3, BHARATHI NAGAR, MAIN ROAD, IIIrd CROSS STREET JAMINPALLAVARAM CHENNAI - 600 042	B.V.Sc/TNV&ASU /91	16-Nov-66
175 A.M.MOHAMED IQBAL (A.M.MOHAMED HUSSAIN)	TNSVC/2296 /05	114, MAIN RAOD, PUTHAGARAM, ENANGUDI P.O. NAGAPATTINAM TALUK & DT. PIN 609701 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	10-Jan-60

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
176 A.MARIMUTHU (K.ARUMUGAM MUDALIAR)	TNSVC/3083 /05	H-110, T.N.H.B. COLONY, TENKASI, TIRUNELVELI DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	02-Jun-59
177 A.N.SHAHUL HAMEED (M.NAINAMOHAMED)	TNSVC/3068 /05	30Q, RAHMANIAPURAM STREET, KADAYANALLUR (P.O.) - 627 751, TIRUNELVELI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	15-Mar-83
178 A.P. KUMAR (O.PARAMASIVAM)	TNSVC/1874 /05	S.R.C. APARTMENTS, III FLOOR, 5 / 28, KARUPPANNASAMY KOIL STREET, ERODE 838 009TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	19-Jan-80
179 A.P. SENTHIL KUMAR (PERIYASAMY.M.)	TNSVC/2743 /05	33, KALLUPATHAR KOIL ST, KARUNKALPALAYAM POST, ERODE - 3.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	01-May-71
180 A.R. ELANGO VAN (V.A.RAMAKRISHNAN)	TNSVC/728/ 05	NO.30, PERUMAL SOUTH STREET, NAGAPATTINAM 811 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	18-Apr-50
181 A.R. RAVIKUMAR (A.P.RANGASAMY)	TNSVC/2747 /05	5 / 66, ATTHAPPAMPATTY, KOLANGOUNDAL POST, TIRUCHENGODU TK, NAMAKKAL DIST., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	28-Mar-75
182 A.R. SIVAKUMAR (A.K.RAMACHANDRAN)	TNSVC/2539 /05	178, CKR NAGAR, CHINNAKALIIYUR ROAD, KALLIPATTI 638 505, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	10-Feb-59
183 A.R.JAGATHNARAYANAN S/OAP.RENGACHARI	TNSVC/3560 /06	PLOT NO.7-13/2, BUNGLER NAGAR, KANANANKURICHY, SALEM - 636 008, TAMIL NADU	BVSc/MU/70	11-Oct-45
184 A.R.R. BAPUJI (A.RAJASEKAR)	TNSVC/804/ 05	67A, THIRUNAGAR 3RD STREET, AMBATHURAI, GANDHIGRAM - PO DINDIGUL 624 302, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	04-Jul-69
185 A.S. PALANISAMY (M.SHANMUGAM)	TNSVC/2500 /05	PERUMAL KOVIL PUDUR, ICHIPALAYAM POST, KODUMUDI 638 151, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	10-Apr-59
186 A.S. SELVA RAMESH (A.SUBRAMANIAN)	TNSVC/367/ 04	147, VAIGAI COLONY, ANNA NAGAR, MADURAI 625020, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	01-Jun-80

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
187 A.SANGEETHA	PONDISVC/2 59/05	129, MAIN ROAD MADAGADIPET, PONDICHERRY-605107	B.V.Sc & AH/PU/05	01-Jul-81
188 A.SRINIVASAN(N.ARUNAC HALAM)	TNSVC/1774 /05	10, CHINNAKULAM MARIAMMAN KOIL STRET, TIRUPATTUR 635 601, VELLORE DISTRICT, TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-May-76
189 A.SUKUMAR (M.ALAGU CHOCKALINGAM)	TNSVC/2354 /05	T-58, T.K.C. NAGAR, TIRUNELVELI 627 011, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	11-May-67
190 A.V. ANBALAGAN (A.VELLAICHAMY)	TNSVC/927/ 05	PLOT NO.314, MIG, SECTOR I, TAMILNADU HOUSING BOARD, MELA ANUPPANADY, MADURAI 625 009.	B.V.Sc/TNAU/81	09-Feb-56
191 A.V. GENESIS INIGO (N. ABRAHAM VINCENT)	TNSVC/224/ 03	3 / 40, POST OFFICE STREET, GURUVAREDDIYUR PO, BHAVANI TK, ERODE DT 636 504 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	29-Mar-79
192 A.V. JOSEPH AYYADURAI (A.VIAGULAM)	TNSVC/1072 /05	9-1-53, DOUBLE AGRAHARAM, SHOLAVANDAN 625 214, MADURAI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	31-Jul-69
193 A.V. PURUSHOTHAMAN (A.VENKATARAMAN)	TNSVC/932/ 05	264, CHEKKUMEDU, BEHIND POLICE STATION, PENNAGARAM TOWN, DHARMAPURI DT.- 836810, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/71	22-Feb-48
194 A.V. KRISHNAN (A.SIASWATHAMAN)	TNSVC/2174 /05	NEW NO.109/46, NEW AVADI ROAD, KILPAUK, CHENNAI, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/82	16-Oct-58
195 A.VENKATACHALAM(N.AR UMUGAM)	TNSVC/2436 /05	54, PAPPETHI KADU, IIND STREET, MUNICIPAL COLONY ROAD, ERODE 638 004 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	27-May-70
196 AAF TAAB AHMED S/o KHURSHEED AHMED	RajSVC/3203 /06	ILAH I MANZIL VYAPARON KA MOHALLA JODHPUR , RAJASTHAN	BVSC&AH/RAU/0 5	15-Aug-75
197 AASHIS KUMAR S/o SHREE AUDHESH KUMAR	BiharSVC/24 64/04	VILL/MUHALLAH - KALI STHAN P.O. - MADHUBANI SUB-DIV - PURNEA SADAR DIST - PURNEA, BIHAR	BVSc&AH/AAU/04	12-Feb-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
198	AASHISH MUKUNDAN	KERALA/301 8/05	VAISHAK, MOLLOOR LANE, KADAGAM PALLY, ANAYARA, TRIVANDRUM. KERALA	BVSc&AH/KAU/05	11-Oct-80
199	ABHAY KISHORE RAJAK S/o SRI RAMDEO RAJAK	BiharSVC/22 59/02	VILL - MAHSAURA P/O MAHSAURA THANA - LAKHISARAI SUB DIV - LAKHISARAI DIST - LAKHISARAI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	15-Jan-76
200	ABHINITA KUMARI D/o SHREE AJAY KUMAR BHAGAT	BiharSVC/24 58/04	VILL/MUHALLAH - SUB-DIV - JAMSHADEPUR DIST - JAMSHADEPUR, BIHAR	BVSc&AH/BAU/04	25-Oct-78
201	ABHISEK BANERJEE S/O DILIP KUMAR BANERJEE	WBSVC/315 1/05	KUND KUNDAR BAZAR P.O.BISHNUPUR DT.BANKURA- 722122, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	11-Dec-81
202	ABHISHEK GANDHI S/o SH. DEVI RAM	HPSVC/723/ 05	MAHAJAN NIWAS, GHUMARWIN 174021, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	20-Aug-81
203	ABHISHEK KUMAR S/o SRI DEVI DAYAL MANDAL	BiharSVC/22 49/02	VILL-PATWAR TOLA PO-BARI KODAR JANNA THANA-SAHEBGANJ SUB-DIV-SAHEBGANJI DT- SAHEBGANJ, BIHAR	BVSc&AH/RAU/9 9	15-Jun-77
204	ABHISHEK URANW S/o SHREE SUKHDEO URANW	BiharSVC/26 03/05	VILL/MUHALLAH - SARAYE TAND, HATMA P.O. - RANCHI UNIVERSITY THANA - LALPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	30-Dec-80
205	ABUL KASHIM GAZI S/O MR.ABDUL KADER	WBSVC/320 9/05	VILL&PO-TARAGUNIA, DIST-24 PRGS- 743405 WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	21-Aug-82
206	ACHINTYA KUMAR HAJRA S/O SRI MULYA KUMAR HAJRA	WBSVC/318 1/05	SIMULPUR (N), P.O. THANKURNAGAR DT. 24 PRGS(N), WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	03-Feb-83
207	ADITYA KUMAR PAUL S/O SRI DILIP KUMAR PAUL	WBSVC/317 0/05	MANGALPUR(SUBHASHCORNER),PO -BELTALA PARK,DT-D/DINAJPUR- 721152	BVSc&AH/WBUA &FS/05	10-Nov-81
208	ADITYA MISHRA S/o DR. P.C. MISHRA	MPSVC/2276 /05	33, PREM NAGAR, FORT ROAD GWALIOR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/IGKVV/ 03-04	09-Mar-77

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
209	AHIR SANJAY KUMAR D	GUJSVC/265 3/06	TO. DANTIWADA CONONY DIST BANASKANTHA, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	02-Mar-81
210	AHIR VIRAL BABUBHAI	GUJSVC/261 4/06	8, MITRINAGAR SOC NR. PRAGATINR, NARANPURA, AHMEDABAD-13, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	14-Aug-82
211	AIZAZ AHAMED DELVI S/o G.M.DELVI	KARNASVC/ 3797/	149 5TH CROSS, 7TH MAIN, JAYANAGAR, BANGALORE, KARNATAKA	BVSc/UAS,B'LOR E/70	11-Apr-46
212	AJAY KUMAR GUPTA S/o SHREE JAGNNATH PRASAD GUPTA	BiharSVC/25 40/04	VILL/MUHALLAH - AMBA P.O. - AMBA THANA - KUTUMBA SUB-DIV - AURANGABAD DIST - AURANGABAD, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/04	08-Aug-77
213	AJAY KUMAR S/o NANDKISHORE PRASAD	BiharSVC/23 82/03	VILL - BABUBANNK P.O. + THANA - JHAJHA SUB-DIV - JAMUI DIST - JAMUI, BIHAR	BVSc&AH/OUAT/ 99	08-Jan-80
214	AJAY KUMAR S/o SHREE RAM PRATAP SINGH	BiharSVC/25 53/04	VILL/MUHALLAH - DARIYAPUR P.O. - KACHIYAWAN THANA - NAGAMAUSA SUB-DIV- HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	01-Mar-81
215	AJAY KURUVILA	KERALA/308 3/05	ANCHERIL HOUSE, ALAMPALLY JN., PAMPADY P.O, KOTTAYAM 686502, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	31-May-82
216	AJEET PRATAP SINGH S/o SHRI VIJAY BAHADUR SINGH	UVC/136/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, DHARCHULA, PITHORAGA RH, UTTARANCHAL	BVSc&AH/IGKVV/ 98	05-Sep-74
217	AJIT KUMAR S/o SHREE BHAGWAT PRASAD	BiharSVC/25 08/04	VILL/MUHALLAH - SONWA P.O. - RAISA SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc/TNV&ASU/ 03	01-Mar-78
218	AJITESH KUMAR S/o SRI JITENDRA MISHRA	BiharSVC/22 48/02	VILL-DANGA (W) PO-DANGA THANA - KALUAHAI SUB-DIV-MADHUBANI DT- MADHUBANI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 1	10-Jan-76
219	AKASH DEEP S/o LATE RAMCHANDRA PRASAD	BiharSVC/25 75/04	VILL.MUHALLAH - MAIDI P.O. - KAHAUNA THANA - KAZRI SARAY SUB-DIV - BIHAR SHARIF DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	15-Aug-79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
220	AKBARI RAJNISHKUMAR A.	GUJSVC/261 6/06	TO, NAVAGAM, TA, KALAVAD, DIST JAMNAGAR, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	26-Oct-82
221	AKHILANSK KUMAR S/o SHREE KAMTA PRASAD SINGH	BiharSVC/25 52/04	VILL/MUHALLAH - LAKHIBAGH P.O. - MAUSAURI THANA - MAUSAURI SUB- DIV - MAUSARURI DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	02-Jan-80
222	AKHILESH KUMAR S/o SHREE UPENDRA PRASAD	BiharSVC/24 72/04	VILL/MUHALLAH - KAKHARA P.O. - SOHSARAI THANA - NURSARAI SUB- DIV - BIHARSHARIEF DIST NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/UAS,D HARWAD/02	01-Mar-77
223	ALOK BHARGAVA S/o SHRI SURESH CHAND BHARGAVA	MPSVC/2291 /05	BEHIND VISHNU MANDIR, NEAR KOTHI NO. 8, SHIVPURI, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	01-Jan-82
224	AMAN DEEP S/o SH SARDARI LAL	PbSVC/2589/ 05	RAJINDER NAGAR, PATHANKOT, GURDASPUR,, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	11-Dec-80
225	AMAN GUPTA S/o PARVEEN GUPTA	PbSVC/2590/ 05	1720, PHASE-II, URAN ESTATE, DUGRI ROAD, LUDHANA, PUNJAB., PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	12-Jul-83
226	AMANDEEP KARU D/o SH. KARNAIL SINGH	PbSVC/2636/ 06	H. NO. 75-A, SANT AVENUE, LANE # 3, P/O SULTANWIND, AMRITSAR,, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	22-Apr-81
227	AMANDEEP S/o SH. BHARAT BHUSHAN	PbSVC/2614/ 05	H.NO. 2862, KHETA RAM STREET, MUKTSAR, PUNJAB., PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	12-Dec-81
228	AMANDEEP SINGH CHOHAN S/o SH. INDERJIT SINGH CHOHAN	PbSVC/2634/ 06	MUNAK STREET VPO URMAR, DISTT. HOSHIARPUR - 144204, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/03	21-Feb-80
229	AMARENDER REDDY. M S/o M. GOPAL REDDY	APSVC/4379 /05	MADHU MEDICALS & DIAGNOSTICS,NR STD TOWER,HUZURABAD, KARIMNAGAR,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	22-Aug-81
230	AMARJIT SAHOO S/O SH UCHHABANANDA	ORISSASVC /1985/05	AT-PANIKORADA,PO- PANDALAMA,VIA-KALAPATHARA,DT- CUTTACK	BVSc&AH/OUA&T /05	04-May-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
231	AMATHE VIKRAM S/o AMATHE VISHNU RAO	KARNASVC/ 3745/	BAZAR ROAD, MUNOLI POST SAVADATTI TALUK, BELAGAUM DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	16-Jun-81
232	AMBILY NARAYANAN	KERALA/306 3/05	THAZHATHU HOUSE, KAIPUZHA P.O. KOTTAYAM 686602, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	09-May-81
233	AMBILY.R.	KERALA/300 5/05	ARAKKAL PUNNOKKIL HOUSE, URAKAM P.O, TRISSUR - 680562, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	17-Dec-80
234	AMBRISH KUMAR GUPTA S/o SHRI PREM CHANDRA GUPTA	UVC/63/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, GHANSALI, DT-TEHRI GARHWAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/UAS.B' LORE/00	05-Feb-73
235	AMBUJ KUMAR S/o SHREE UMESHJEE SHARMA	BiharSVC/24 88/04	VILL/MUHALLAH - DEMI P.O. - SUTIHAR THANA - DEMI SUB-DIV - DIST - SARAN, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/04	14-Sep-76
236	AMIR KUMAR SAMAL S/O SH RAMAKRUSHNA SAMAL	ORISSASVC /2037/05	AT-BHADA, PO- A LALPUR, PS-JALE SWAR, DISTT-BALASORE-756032, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	07-Jun-80
237	AMIT BHARDWAJ S/o SH. R.K. BHAROWAJ	PbSVC/2597/ 05	1478-U, T-3 SECTOR 3, TALWARA, DISTT. HOSHIARPUR, PUNJAB	BVSc&TNV&ASU/ 05	03-Sep-78
238	AMIT DHYANI S/o SHRI K.K.DHYANI	UVC/77/06	VILL DHYANI GAON, PO RANAKOT DT PAURI GARHWAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/03	15-Jul-78
239	AMIT DOGRA S/o SH. PARDEEP DOGRA	HPSVC/744/ 05	VELLY VIEW BULDING NEAR OLD POLICE CHOWAKI SANJOLI-6, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	27-Dec-81
240	AMIT KUMAR RAI S/o SHRI DHARAM NATH RAI	UVC/146/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, JAURAI (GANAI), DT- ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/00	08-Apr-77
241	AMIT KUMAR S/o SHREE BUCHKUN SINGH	BiharSVC/24 97/04	VILL/MUHALLAH - MURADPUR P.O. VISHNUPUR THANA - PARWATTA SUB-DIV - GOGRI DIST - KHAGARIA, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/04	02-Jan-78

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
242	AMIT KUMAR S/o SHREE DR. CHANDRA BHUSAN PRASAD SINGH	BiharSVC/23 31/03	VILL - BARKI PAIPURA P.O + THANA - PALIGANJ SUB-DIV - DIST PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	01-Feb-75
243	AMIT KUMAR S/o SHREE KAPIL DEO RAI	BiharSVC/25 20/04	VILL/MUHALLAH - KODAR KATTA (PURANTOLA) P.O. - BARJEE THANA - MOTIPUR SUB-DIV - WEST MUZAFARPUR DIST-MUZAFFARPUR, BIHAR	BVSc&AH/UAS,B' LORE/04	11-Feb-79
244	AMIT KUMAR S/o SHREE RABINDRA PRASAD SINHA	BiharSVC/23 02/03	VILL + P.O - DEGTHANA - MAJORGANJ SUB-DIV - SITAMARHI SADAR DIST - SITAMARHI, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	02-Oct-77
245	AMIT KUMAR S/o SHREE SUDHANSHU SHEKHAR JHA	BiharSVC/25 82/05	VILL/MUHALLAH - KALYANPUR P.O. - KALYANPUR THANA - VIBHUTIPUR SUB-DIV ROSRA DIST - SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	11-Dec-80
246	AMIT KUMAR SAREN S/O SHRI BAIDYANATH SAREN	WBSVC/320 2/05	VILL SATBINDA, P.O. KIABONI DIST, MIDNAPORE, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	18-Dec-82
247	AMRITA SINGH D/o SHREE KANT PRASAD SINGH	BiharSVC/24 19/04	VILL - CHHAPRA BAHASTOLA CHIKNAUTA P.O. - CHHAPRA BAHAS THANA - SUGAULI SUB-DIV - DIST - EAST CHAMPARAN, BIHAR	BVSc&AH/AAU/03	09-Sep-79
248	ANAMIKA D/o SHREE YOGAL KISHORE THAKUR	BiharSVC/25 71/04	VILL/MUHALLAH - SHASHAN P.O. - SHASHAN THANA - HASANPUR SUB- DIV - ROSERA DIST - SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc&AH/CCSH AU/04	12-Dec-80
249	ANAND AKELA S/o SHREE KRISHNANAND	BiharSVC/25 10/04	VILL/MUHALLAH - MANGHARA P.O. - PARWA - NAWTOLA SUB-DIV - MADHEPURA DIST - MADHEPURA, BIHAR	BVSc&AH/AAU/04	30-May-77
250	ANAND GURIKAR S/o MALLAPPA	KARNASVC/ 3719/	VINAYAKANAGAR,NALATWAS POST,MUDEBIHAL TALUK,BIJAPUR DT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	10-Oct-81
251	ANAND KUMAR GILL S/o SHRI BACHAN SINGH	UVC/28/06	MANAGEMENT TRAINEE,US NG,DUGDH,UTPADAK SAHKARI SANGH LTD.,RUDRPUR,UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPÜ A&T/95	01-Jan-80
252	ANAND PRAKASH S/o SHREE PRABHU RAZAK	BiharSVC/23 75/03	VILL - MAGHRA SARAI P.O. - MAGHRA THANA - DEEPNAGAR SUB- DIV -BIHAR SHAREIF DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	09-Jun-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
253	ANANDA JEHAN MOHAN (P.E.S. WALLER)	TNSVC/1863 /05	4 / 7, WELCOME COLONY, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI 600 101	B.V.Sc/TNAU/74	06-Aug-51
254	ANANDAMAY KHATUYA S/O SRI KESAB CH. KHATUYA	WBSVC/317 1/05	VILL & P.O. DUMDAN DT. P/MIDNAPUR - 721152, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	21-Nov-82
255	ANANYA BHAR S/O SHRI PURNACHANDRA BHAR	WBSVC/316 0/05	SATMANDIRTALA, P.O. SINGUR DT. HOOGHLY-712409, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	06-Jan-83
256	ANEES C	KERALA/307 5/05	CHERKUNNATH THENHIPALAM P.O. MALAPPURAM 673636, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	13-Mar-81
257	ANEESH A	KERALA/309 6/05	AYINIPULLY HOUSE, MANNUTHY P.D. TRISSUR 680651, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	30-May-82
258	ANEESH KUMAR S/o SH. JAYANT KUMAR	HPSVC/721/ 05	BOYEE COTTAGE SUMMER HILL, SHIMLA-5, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	06-Jul-80
259	ANGAN ROY S/O SRI AMAL KANTI ROY	WBSVC/316 4/05	BLOCK-IV, FLAT-2A, SHRACHI VILL, 31/1 JESSORE RD MADHYAMGRAM, KOLKATE-129, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	23-Jan-82
260	ANGSHUMAN NANDI S/O SRI MANINDRANATH NANDI	WBSVC/317 3/05	DAINHAT P.O. DT, BURDWAN PIN - 713502, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	31-Dec-81
261	ANI BENCY JACOB	KERALA/307 6/05	CHACKAL AKKAL HOUSE, KAINAKARY EAST P.O. ALLEPPEY, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	22-May-81
262	ANIL DAHIYA S/O SH SAHAB SINGH	HARSVC/185 7	H.NO. 83-R, MODEL TOWN, ROHTAK., HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/96	11-Jan-73
263	ANIL KUMAR AGRAWAL S/o MR. HEERA LAL AGRAWAL	MPSVC/2322 /06	OLD SUBZI MANDI MOU BHIND, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/IGKV// 05	03-Sep-76

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
264	ANIL KUMAR ANAND S/o SHREE SUDAMA PRASAD SINGH	BiharSVC/23 28/03	VILL - GYANWATI TAPUYA P.O. - BUDH CHOUK THANA - PARIPAUTI SUB-DIV - KAHALGAON DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/9 9	02-Dec-72
265	ANIL KUMAR RAWAT S/o SHRI BHUPAL SINGH RAWAT	UVC/10/06	VILL GWALI P.O.SYALDEY, DISTT ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/02	08-Jul-79
266	ANIL KUMAR S/O SH MOTI LAL	HARSVC/185 9	307/8, MODEL TOWN, NARWANA DISTT. JIND, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	08-Dec-79
267	ANIL KUMAR S/o SH. D.S. THANKUR	HPSVC/726/ 05	VILL. SAINTHAL, P.O. SAINTHAL, JOGINDER NAGAR DISTT. MANDI, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	24-May-82
268	ANIL KUMAR S/o SHREE SITARAM MAHTO	BiharSVC/23 13/03	VILL + O.O. - DARSUR THANA - WARISNAGAR SUB-DIV - SAMASTIPUR DIST SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 1	05-Jun-76
269	ANINDYA KUMAR JENA S/O SRI BINOD CHANDRA JENA	ORISSASVC /2025/05	DOLA TANK ROAD VICTORY COLONY AT/PO-PARALAKHEMUNDI DIST - GAJAPATI - 761200, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	28-May-81
270	ANITHA DOKALA D/o JANKAI NAIDU	APSVC/4332 /05	VELAMPETA, NEAR SAMALAMMA TEMPLE, SALUR, VIZIANAGARAM DT, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	07-Aug-82
271	ANJALI ARORA D/o SH SHANTI PARKASH ARORA	PbSVC/2637/ 06	HOUSE NO. 123, PARTAP NAGAR, SANGRUR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	02-Dec-79
272	ANJANEYA.S.N. S/o NAGARAJAPPA S.G.	KARNASVC/ 3720/	KUMBALUR POST, HARIHARA TALUK, DAVANAGERE DIST, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	05-Jul-81
273	ANJANI KUMAR MISHRA S/o SHRI BADRI PRASAD MISHRA	UVC/163/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, SERAIN, DT-TEHRI GARHWAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /02	07-Jan-74
274	ANJANI KUMAR S/o SHREE DEOKI NANDA PRASAD	BiharSVC/25 65/04	VILL/MUHALLAH - PAKPAR P.O. - KEOTI THANA - BARBHIGHA SUB- DIV - SHEIKHPURA DIST - SHEIKHPURA, BIHAR	BVSc&AH/CSAA& TU/04	15-Feb-79

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
275 ANJU SHARMA D/o MR. JAIN NARAYAN SHARMA	MPSVC/2319 /06	PUSHPANJALI COLONEY, MUKHTEYARGANJ SATNA SATNA, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/IGKVV/05	02-Feb-81
276 ANJU PRASAD MANDAL S/o SHREE KARMAN PRASAD MANDAL	BiharSVC/23 29/03	VILL - GYANWATI TAPUYA P.O. - BUDH CHOUK THANA - PAIPAUTI SUB-DIV - KAHALGAON DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/9 9	03-Dec-71
277 ANJU S.	KERALA/308 8/05	VATHYATTU HOUSE, VARANAD P.O CHERTHALA ALLEPPEY 688543, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	26-May-81
278 ANN MARY JAMES	KERALA/309 7/05	SURYA -44 YAMUNA COLONY KUDAPPANAKKUNNU P.O. TRIVANDRUM 895043., KERALA	BVSc&AH/KAU/05	18-Jan-80
279 ANNIE SUPRIYA. R D/o R. DAVI RAJU	APSVC/4304 /05	19-9-2.CHURCH STREET,BANKPET,KAKINADA -533 001.E.G.DT.,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc& A.H./POND.U/04	02-Apr-81
280 ANSHAJ SINGH S/o SHREE DEONANDAN PRASAD SINGH	BiharSVC/24 93/04	VILL/MUHALLAH - RATANPURA P.O.- DARIYAPUR THANA - ISHLAMPUR SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc/TNV&ASU/ 03	25-Jan-80
281 ANU NISA	KERALA/303 9/05	UPPUPURAM, CMC-5 CHERTHALA P.O, ALLEPPEY, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	31-Mar-81
282 ANU SUSAN CHARLES.	KERALA/309 0/05	PALLATHIL HOUSE, ASWATHYPURAM COLONY, MUTTAMBALAM PO, KOTTAYAM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	27-Mar-81
283 ANUMOLU VIJAY KUMAR S/o VENKATESWAR RAO	APSVC/4375 /05	C/O P.SHANKER REDDY,PLOT NO.C-7,FLAT NO 404 SIRICON ENCLAVES KAMALANR ECIL, H'BAD,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	19-Feb-81
284 ANUP KUMAR MONDAL S/O SRI CHANDI CHARAN MONDAL	WBSVC/320 3/05	VILL SONATIKARI, P.O. KUSTIA DIST. 24 PRGS-743330, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	03-Dec-82
285 ANUPAM KHAN S/O BHAGYARATAN KHAN	WBSVC/315 2/05	JALDOBRA (MASTER COLONY)PO KHATRA,DT-BANKURA-722140, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	31-Dec-82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
286	ANUPAMA S/O SH DHARAMPAL SHARMA	HARSVC/187 3	VPO, JALAUJI, DISTT, PANCHKULA, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	16-Oct-82
287	ANUPAMA KUMARI S/o SHREE ALAKHDEO PRADAD	BiharSVC/25 43/04	VILL/MUHALLAH -CHANDAURA P.O. - MEYAR THANA -CHABILAPUR (RAJGIRI) DIST-NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/UAS.D HARWAD/04	01-Jan-81
288	ANUPAMLAL KUSUMAKAR S/o SH B.P SINGH	BiharSVC/24 38/04	VILL - RAM MURTI NAGAR HILSA P.O. + THANA - HILSA SUB-DIV - HLISA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/03	02-Feb-80
289	ANURADHA KUMARI D/o SHREE KRIPA SHANKAR SHARMA	BiharSVC/22 36/02	VILL - DUBHA P.O. - DUBHA THANA - SAKRA SUB DIV - DIST - MUZAFFARPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	29-Jun-72
290	ANURAG SINGH SIKARWAR S/o NAWAL	RajSVC/3236 /06	HOUSE NO 401 MAHAVEER NAGER KOTA, RAJASTHAN	BVSc&AH/JNKVV /05	07-Sep-79
291	ANURANJAN KUMAR RAVI S/o SHREE SADANAND MANDAL	BiharSVC/25 49/04	VILL/MUHALLAH - DINDAYALPUR P.O. - KODANDA THANA - SHAHKUND SUB-DIV - BHAGALPUR DIST-BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/04	01-Mar-80
292	APARNA BANERJEE S/O SHRI GOBINDA BANERJEE	WBSVC/319 7/05	NATUNCHATI, B.B.D. NAGAR P.O. KENDUADIHI, DIST, BANKURA, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	27-Nov-81
293	APPALA NAIDU ARUNUPU S/o A. RAMU	APSVC/4317 /05	D.NO.3-7, RAVADA, BHOGAPURAM(M), CHITTIVALASA(PO), VIZIANAGARAM DT - 531 162., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	24-Aug-81
294	ARCHANA D/o SRI BINDESHWARI PASWAN	BiharSVC/22 38/02	VILL GANGJALA, WARD NO. 6 PO- SAHARSA THANA-SAHARSA SUB- DIV- DT SAHARSA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	02-May-77
295	ARCHANA D/o SRI PRAMOD KUMAR SINHA	BiharSVC/22 42/02	VILL-MAJIDPUR P.O-ITaura THANA- MANPUR SUB-DIV-BIHARSHARIF DT- NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/OUAT/ 02	25-Feb-77
296	ARJUN KUMAR LUKHA S/o SHRI CHUNA RAM	UVC/15/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, RAJGARHI, UTTARKASHI, U TTARANCHAL	BVSc&AH/RAU/0 1	01-Jan-74

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
297	ARNAV SHARMA S/o SH. BRIJESH KUMAR	HPSVC/743/05	B-25, DHA VLADHAR COL THIKLI BAROL PODARI THE. DHARAMSALA, KANGRA, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	06-Dec-81
298	ARUN KUMAR D/o SHREE SHIVLAL PASWAN	BiharSVC/2613/05	VILLAMUHALLAH-ALAUDIYASARAY P.O. TTIKURI SUB-DIV - BIHAR SHARIF DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/04	12-Nov-80
299	ARUN KUMAR THAKUR S/o SHREE CHANDRADEV THANKUR	BiharSVC/2371/03	VILL - KHAJEDIH P.D. - KHAJEDIH THANA - LADHNIYA SUB-DIV - JAYNAGAR DIST - MADHUBANI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/03	02-Jan-78
300	ARUN. F.M. S/o MAHALINGAPPA	KARNASVC/3756/	HIREANAJI POST, BYADAGI TALUK, HAVERI DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FSU/05	20-Jun-78
301	ARUN.B.	KERALA/3065/05	SREERAGAM 30/2239, CHEVAYUR P.D, KOZHIKOD 873017, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	22-Sep-80
302	ARUNA EDIGA D/o NAGA SESHANNA	APSVC/4344/05	H.NO. 15/9M/18, HAZI NAGAR, NANDIKOTKUR, KURNOOL DT - 518 401, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANGRAU/05	01-Jul-79
303	ARUNJI JOY T.K.	KERALA/3036/05	KALATHIKAL HOUSE, KUMMALLOOR P.O, KAITHAKUZHI, KOLLAM-691573, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	01-Jun-82
304	ARVIND KUMAR SHRI RAM DESHPANDEY S/o SHRI RAM DESHPANDEY	MPSVC/2314/06	70/C RAJENDRA NAGAR INDORE, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV/79	20-Nov-53
305	ARVIND NAGESHWAR S/o SHRI AMNU LAL NAGESHWAR	MPSVC/2279/05	H. NO. 12, NEW ITI ROAD, BURHI BALAGHAT, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/IGKVV/03-04	21-Dec-77
306	ASAD AYUB S/o MD. AYUB	BiharSVC/2274/03	VILL- VINDESHWARI COMPOUND P.O - G.P.O. PATNA THANA - TOWN THANA SUB - DIV - MUSHHARI DIST - MUZAFFARPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/02	06-May-75
307	ASHA ANTONY.	KERALA/3044/05	THATTUNGAL HOUSE, KUTHIATHODE P.O, CHERTHALA, ALLEPPEY-688533, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	21-Apr-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
308	ASHA K.	KERALA/304 7/05	KUTHUKALLINGAL HOUSE, THIRUVAMKULAM, KANDANADU P.O, ERNAKULAM 682305, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	09-Dec-80
309	ASHA P.A.	KERALA/304 8/05	PERUPULLIKKADAN HOUSE, AVITTATHUR P.O, IRINJALAKUDA TRISSUR - 680683, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	11-May-81
310	ASHA RANI S/O SH OM PARKASH	HARSVC/187 0	744/10, ENG. COLLEGE, OPP TILYAR LAKE, ROHTAK., HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	04-Dec-82
311	ASHISH BAHIA S/o SH. MEHAR CHAD BAHIA	PbSVC/2609/ 05	H.NO. B-III-420, SINGLA STREET RAMPURA PHUL, BHATINDA, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	09-Sep-81
312	ASHISH DHINGRA S/o SH. ASHOK KUMAR DHINGRA	PbSVC/2594/ 05	STREET DR. VIJAY SWAMI NEAR ISTRI BHAWAN, FAZILKA, 152123, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	22-Dec-81
313	ASHISH SHARMA S/o SH. B.D. SHARMA	HPSVC/736/ 05	H. NO-25 & 26 HOUSING BOARD COLONY BILASPUR - 174001, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	07-Jan-81
314	ASHISH SINGH S/o RATANESHWAR SING	RajSVC/3209 /06	HARI NIWAS CIVIL LINES FAIZABAD, RAJASTHAN	BVSc&AH/GBPU A&T/99	21-Jun-75
315	ASHOK DANGI S/o SARDAR SINGH DANG	RajSVC/3223 /06	8 GANDHI COLONY BIKANER, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	07-Jul-80
316	ASHOK KHASA S/O SH KULDEEP SINGH	HARSVC/187 8	VPO. HASSANGARH DISTT. ROHTAK, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	23-Sep-80
317	ASHOK KUMAR S/o SHRI KARTAR SINGH	UVC/179/06	VETY OFFICER, GOVT. SHEEP BREEDING, FARM KALIYAN, BANGAR, RUDRAPRAYAG, U TTARANCHI	BVSc&AH/RAU/0 3	09-Aug-78
318	ASHOK KUMAR S/o SHRI RAM NATH SINGH	UVC/161/06	V/1532, TA COLONY, PANTNAGAR, UDHAM SINGH NAGAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/04	01-Jul-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
319	ASHOK KUMAR SWAMI S/o PRITHVI CHA	RajSVC/3205/06	V/P RAMGARH VIA GOGAMERI TEH-NOHAR HANUMANGARH, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/05	01-Jul-58
320	ASHWAN KUMAR DHIR S/o SH SATISH KUMAR DHIR	PbSVC/2602/05	80-B; OPPOSITE D.R.M. OFFICE, FERDZEPIJR CANTT, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	18-Oct-80
321	ASHWAN KUMAR SINGH S/o SH. RAJ VIR SINGH	PbSVC/2584/05	7/1, PAU CAMPUS, LUDHIANA 141004, PUNJAB	BVSc&A.H/PAU/01	30-May-77
322	ASHWINI KUMAR S/o SH YOGESH KUMAR	PbSVC/2638/06	ROOM NO 2, HOSTEL NO 3, PAU, LUDHIANA, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	10-Jul-82
323	ASIT JAIN S/o SHRI RAJ KUMAR JAIN	MPSVC/2293/05	AHINSA TRADERS, NEAR KOTWALI TIKAMGARH, MADHYA PRAOESH	BVSc&AH/JNKVV/05	28-Feb-79
324	ATIN DUTTA S/O SRI AJIT KUMAR DUTTA	WBSVC/318.5/05	VILL KRISHNANAGAR P.O. JANGIPARA, DT. HOOGHLY- 712404, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	18-Aug-81
325	ATUL KUMAR S/o SH. J.K. GUPTA	HPSVC/712/05	VILL&PO-MAHDEV, THE-SU8NDERNAGAR,, DIST-MANDI, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	19-Jun-82
326	AVA MANJARI NAYAK S/O SH AMRUT NAYAK	ORISSASVC/1990/05	AT- RANGOLI, PO-LAIDA, DIST-SAM BALPUR, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T/05	25-Mar-81
327	AVINASH KUMAR S/o LATE SHREE RAMBRISK PRASAD	BiharSVC/2564/04	VILL/MUHALLAH - MURGIACHAK P.O. - ISHLAMPUR THANA - ISHLAMPUR SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/CSAA&TU/04	01-Oct-82
328	AVINASH KUMAR S/o SHYAMNANDAN SHARMA	BiharSVC/2502/04	VILL/MUHALLAH - BHABHA COLONY, HANUMAN NAGAR P.O. - KANKARBAGH THANA - KANKARBAGH SUB-DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc/TNV&ASU/03	20-Feb-78
329	AWADESH KUMAR S/o SHREE MUKTESHWAR PRASAD SINGH	BiharSVC/2426/04	VILL - PANSALWA P.O. - THANA - BELDAUR SUB-DIV - GAUGRI DIST - KHAGARIA, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	06-Mar-79

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
330 AYANA RAJEEV	KERALA/307 1/05	KARIYATTU KUNIYIL HOUSE, NARAKKODE, KEEZHARIYUR PO. KOYILANDI, KOZHIKOD, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	30-Sep-80
331 AYUB KHAN(BASITH KHAN)	TNSVC/1681 /05	OLD NO.22 / 1, NEW NO.4, RITCHIE STREET,ANNA ROAD H.P.O, NARASINGAPURAM, CHENNAI - 600 002	BVSc/TNAU/85	25-May-60
332 AZHAGESWARAN (GURUSAMY)	TNSVC/2934 /05	4 / 244, WEST STREET, SANKARALINGAPURAM P.O. VIRUDHUNAGAR DISTRICT 626 119TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	18-Apr-72
333 B. ANANDARAJ (S.BALAKRISHNAN)	TNSVC/1365 /05	5 / 65, 1 / 3, ARUN NAGAR ANNEXE, ALAGAPURAM PUDUR (P.O.) SALEM - 636 016,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /86	25-Jul-66
334 B. ANITHA (P.BALASUBRAMANIAM)	TNSVC/299/ 04	3 / 41, THOTTIPALAYAM, AGRAHARAM PO, NAMAKKAL DT 637 403.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	14-May-81
335 B. BALAGANESAN (S.BALASUBRAMANIYAM)	TNSVC/449/ 05	272 B, SENGUNTER STREET, KARUKKUPETTAI, EKANAMPETTAI PO, KANCHEEPURAM DT & TK 631601	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-Jun-81
336 B. BALASUNDARAM (S.BALAKRISHNAN)	TNSVC/621/ 05	SUNDARAKKUDIYIRUPPU, MANGADU WEST & PO, VADAKADU (VIA), PUDUKKOTTAI DT- 622 304,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	27-May-81
337 B. DORISAMI RAJU (A.R.BHEEMA RAJU)	TNSVC/2920 /05	KUPPAMBATTU VILLAGE, VEPPENKUPPAM (POST), ODUKKATHUR (VIA), VELLORE DT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/77	05-Mar-52
338 B. GANESA PANDIAN(K.BETHU CHETTIAR)	TNSVC/2069 /05	R.R.D. 134-A, GANDHIJI STREET, THIRUNAGAR, MADURAI 625 006.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	15-May-69
339 B. GEETHA (P.BALASUBRAMANIAN)	TNSVC/499/ 05	14, BHARATHI NILAYAM LANE, THOTTIAM, TRICHY (DT),TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-Jul-82
340 B. GOWRI W/o. (K.GANAPATHIRAMAN)	TNSVC/882/ 05	PLOT NO.103, ALEX NAGAR , 'B' COLONY, MADHAVARAM MILK COLONY, CHENNAI -51.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	13-Jun-72

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
341	B. K. RAMESH (A. KRISHNAMOORTHY)	TNSVC/503/ 05	V.P.K. POMMAN STREET, BALASAMUDRAM (PO), TRICHY DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	13-Oct-80
342	B. KALAYATHI S/OS. BALRAJ	TNSVC/3547 /06	8/303, Q2, TNHB NEEPANAM COLONY, VASANTHAPURAM P.O. NAMAKKAL 637 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	9-May-82
343	B. KARTHIKEYAN S/O M. BALAKRISHNAN	TNSVC/3487 /06	430, ESWARAN KOIL BACK SIDE, SENDAMANGALAM, NAMAKKAL DIST 637 409. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	3-Jun-81
344	B. KASTHURI S/O S. BALASUNDARAM	TNSVC/3443 /06	56, SOUNDAMMAN KOIL STREET, ARUPPUKOTTAI, VIRUDHUNAGAR DIST 626 101. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	20-May-67
345	B. KOMAGAN (A. BALIAH)	TNSVC/2987 /05	7, THIDAL MIDDLE STREET, MUDUKULATHUR, RAMANATHAPURAM DISTRICT 623 704 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	14-Jun-73
346	B. KRISHNA KUMAR (R. BALASUBRAMANIAN)	TNSVC/2855 /05	9, PANAI VILAI STREET, KOTTAR, NAGERCOIL 629 002, KANYAKUMARI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	20-Jan-74
347	B. M. SENTHIL KUMAR (B. MURUGAN)	TNSVC/460/ 05	NO.6, 8TH STREET, RAJIV GANDHI NAGAR EXTN, BIG ALLAPURAM, VELLORE 632002 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	29-Mar-80
348	B. MAHENDRAN (S. BOSAIAN)	TNSVC/1369 /05	74 / 3, SAVADI STREETSURULIPATTY (P.O.) UTHAMAPALAYAM (TK), THENI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	20-May-57
349	B. MALA W/o. (V. RAVISANDRAN)	TNSVC/820/ 05	47 / 41, PULICHAKKADU, ARPPAKKAM POST, SIRKALI TALUK, NAGAI DISTRICT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	03-May-77
350	B. MOHANASUNDARRAJ (G.A. BALASUBRAMANIAM)	TNSVC/1312 /05	24, KENNEDY STREET, S. GANAPATHI PALAYAM, PUDUKKARAIPUDUR POST, GOBICHETTI PALAYAM TK, ERODE DISTRICT 638 313.	B.V.Sc/TNV&ASU /02	27-Mar-78
351	B. MONICA (D. BOTHINATHAN)	TNSVC/70/ 03	PLOT NO. 1321, ANNA NAGAR WESTERN EXTENSION, GOLDEN COLONY, CHENNAI 600, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	10-Jul-78

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
352	B. MURUGADHAS (S.BAGAVATHIPERUMAL)	TNSVC/2187 /05	118, GNANAM "B" COLONY, THAMATHUKONAM, NAGERCOIL- 4.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	08-Mar-66
353	B. MURUGAN (K.BABU)	TNSVC/2648 /05	16/5D, L.I.C. COLONY, CROSS STREET, SANKARANPALAYAM VELLORE 632 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	24-Aug-76
354	B. MURUGANANDAN S/OST.BALASUBRAMANIA M	TNSVC/3460 /06	W-4, 1/9, URALPATTY, PANNAIKADU POST, DINDIGUL DIST 624 210.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	1-Aug-56
355	B. MUTHUKUMARASAMY (A.K.BALASUBRAMANIAM)	TNSVC/1713 /05	117, KEERAIKARA STREET, KARUR PIN - 639 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	09-May-75
356	B. NAGARAJAN (A.BALASUBRAMANIAN)	TNSVC/2919 /05	B28, MANOHAR APTS., 1, EASWARAN KOIL STREET, WEST MAMBALAM, CHENNAI 600 033 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /82	26-Jun-60
357	B. NAVAS KHAN (D.BABU)	TNSVC/261/ 04	29-B, MUSLIM STREET, VELLALAPPATTY PO, VIZ, KARUPPUR, SALEM 636 012.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	11-Apr-78
358	B. PICHAI (M.BABU)	TNSVC/3213 /05	452 / 45C, KAMARAJAR NAGAR, SANDHAPETTAI, LALGUDI, TRICHY DISTRICTTAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	15-Mar-65
359	B. PIRUTHIVIRAJKUMAR S/O BALAGURU	TNSVC/3450 /06	PL NO.63-A, 3RD STREET, KALAINAGAR, ANAIYUR POST, MADURAI 625 017.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	28-May-71
360	B. RAJAPPAN (S.BUJINGAGOWDER)	TNSVC/3226 /05	8 / 17, MANGALAKARAI PUDUR P.O. KARAMEDAI (VIA) COIMBATORE DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/84	15-Apr-55
361	B. RAJASEKARAN (M.BANGARU REDDI)	TNSVC/1052 /05	108, HOSPITAL STREET, THAMMAMPATTI PO, GANGAVALLI TK, SAKEM DT 636 113TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	13-May-56
362	B. RAMAKRISHNA (G.N.BALASUBRAMANIAN)	TNSVC/2224 /05	1/33 B2, KRISHNAN STREET, GLR LAKSHMI.NAGAR, GOBICHETTIPALAYAM 608 452.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	19-Oct-74

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
363 B. RAMANATHAN (BALAKRISHNAN)	TNSVC/1656 /05	MAYADEVANPATTY, MALLIPUDUR P.O. SRIVILLIPUTTUR (TK) VIRUDHUNAGAR DISTRICT PIN 626 141	B.V.Sc/TNV&ASU /95	25-May-70
364 B. RAMASWAMY PILLAI (K.M.BHAGAVATHI PERUMAL PILLAI)	TNSVC/2184 /05	SARAS, 35, COLONY EAST, R.V. PURAM, NAGERCOIL, KK DIST, TAMIL NADU.	B.V.Sc/MU/73	22-Apr-45
365 B. RAVIRAJA (M.BALASUBRAMANIAM)	TNSVC/2899 /05	266, ROJA STREET, KVR NAGAR, VILLUPURAM.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	28-Jan-68
366 B. SAMBASIVAM (M.BALASUBRAMANIAM)	TNSVC/747/ 05	NO.47, CRUZ PURAM, TUTICORIN, PIN : 628 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	05-Feb-70
367 B. SARATHA BOBBY (W/O S.PRABHU)	TNSVC/2577 /05	86.A, GANDHIPURAM, SIRUVALLUR ROAD, KAVUNDHAPADI 638 455, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	15-Jun-74
368 B. SATHYA (N. BALASUBRAMANIAM)	TNSVC/542/ 05	3 / 253, MANAKKADU, KALAIVALLI POST KAMBAINALLUR (VIA), HARUR (TK), DHARMAPURI Dt. 635 202	B.V.Sc/TNV&ASU /05	30-Oct-81
369 B. SAVEETHA S/OK.BALU	TNSVC/3309 /06	5A, PILLAIYAR KOVIL STREET, GANESHAPURAM, NAMAKKAL,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	9-Nov-82
370 B. SENGUTTUVAN (A.V.M. BOOBALAN)	TNSVC/1134 /05	52, SOUTH CAR STREET, RAMANATAAPURAM 623 501, RAMANATHAPURAM DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	02-Mar-67
371 B. SENTHIL KANNAN (R.BALAKRISHNAN)	TNSVC/2705 /05	5/2072, SOURASTRAPURAM, 4TH STREET, VANDIYUR, MADURAI 625 020,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	27-Jul-78
372 B. SUDHA (M.BOMMAIYAN)	TNSVC/2008 /05	W-19, PERIYAMAYATHAVAR LANE, GUDALUR 625 518, THENI DTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	11-Jul-79
373 B. SUGUMARAN (S.BOJAN)	TNSVC/3124 /05	192, D7, ROSE MOUNT, TAMILAGAM ROAD, OOTY, THE NILGIRISTAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/85	30-Apr-62

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF^{ca}</i>	<i>DOB</i>
374 B. SUKHUMARAN (K.BALASUNDARAM)	TNSVC/2884 /05	21 / 32, BARATHI NAGAR, MAYILADUTURAI 609 003.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81 /04	04-May-57
375 B. SURESH SUBRAMONIAN (V.BALASUBRAMONIA)	TNSVC/2700 /05	160/1, GOLDEN JUBILEE FLATS, PADIKUPPAM ROAD, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI 600 040	B.V.Sc/TNAU/86 /04	03-Jul-63
376 B. TAMILZARASAN (P.BALASUBRAMANIAM)	TNSVC/426/ 05	7 / 150, THIRUVALLUVAR SALAI, POTHANUR PO, NAMAKKAL DT, PIN : 638 181.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	06-Jun-80
377 B. THANARAJ (A.BALU)	TNSVC/457/ 05	CHETTIAR STREET, L.N.PURAM, ANAVAYAL (PO), PUDUKKOTTAI (DT) ALANGUDI (TK) 622504	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jul-81
378 B. THIRUKUMARAN (T.BALASUBRAMANIAM)	TNSVC/1651 /05	2 / 87, V.S.K.D. NAGAR, SATCHIAPURAM, SIVAKASI WEST - 626 124 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88 /04	15-May-65
379 B. THIRUNAVUKARASU (T.K.BALASUBARAMANI)	TNSVC/1078 /05	KUMBARIYUR POST, KODAIKANAL TK, PIN : 624 202.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83 /04	23-Mar-60
380 B. UMA DEVI(T.BALAKRISHNAN)	TNSVC/131/ 03	30, ANNASALAI, III CROSS THAVITTUPALAYAM, ANTHIYUR DHAVANI T.K.- 638501TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	26-Jan-80
381 B. VASANTHI (T.V.BALAN)	TNSVC/547/ 05	162, CHOWDRY NAGAR, 14th, STREET, VALASARAVAKKAM, CHENNAI 600 087.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	29-Apr-81
382 B. VENKATESWARALU (G.BALAKRISHNAN)	TNSVC/550/ 05	PLOT NO.81 & 82, S.S. NAGAR, NATHAM ROAD, NAGAL NAGAR POST, DINDIGUL 624 003.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	31-May-79
383 B.A. NASSER (K.B.ABDUL SALAAM)	TNSVC/2378 /05	25/30, K.T.S. MANI STREET, MAMALLAN NAGAR, KANCHIPURAM631 502.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	10-Jul-67
384 B.E. SELVARAJ (B.V.ELLAPPA NAIDU)	TNSVC/3012 /05	NO.AJ-12, ANNA NAGAR, CHENNAI 600 040 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79 /04	02-Dec-51

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
385 B.GANESH BABU (V.BALAKRISHNAN)	TNSVC/1742 /05	3/38, KALLIAMMAN KOVIL STREET, KEELAPALAMUR POST, ARIYALUR TK, PERAMBALUR DISTRICT PIN 621 707	B.V.Sc/TNV&ASU /96	05-Jun-73
386 B.JEYASUNDARI(R.RAMAN ATHAN)	TNSVC/2291 /05	5A/1-MIN NAGAR, ARIYALUR, PERAMBALUR DISTRICT PIN 621704TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	15-Feb-74
387 B.JOSE CHAKKRAVARTHY (S.BAKTHINATHAN)	TNSVC/2264 /05	AKKARAI KODIVERY & POST, KASIPALAYAM (VIA) GOBICHETTPALAYAM T.K. ERODE DISTRICT PIN 638454	B.V.Sc/TNV&ASU /97	22-JUN-73
388 B.KAVITHA	PONDISVC/2 73/05	5,19-A, EXTENSION STREET, AVVAI NG, LAWSPET, PONDICHERRY	B.V.Sc & AH/PU/05	01-Aug-76
389 B.M. MAHESWARI (B.S.MANICKAM)	TNSVC/358/ 04	76B, ANNAI ILLAM, M.K.M ROAD, BHAVANI - 2 ERODE DT 638302	B.V.Sc/TNV&ASU /94	02-Nov-80
390 B.N.PRAVEEN	PONDISVC/2 56/05	163, AMBALATHADAYAR MADAM STREET, PONDICHERRY-1	B.V.Sc & AH/PU/05	08-May-80
391 B.NATARAJAN(K.BEEMAN)	TNSVC/2284 /05	47, AMBEDKAR NAGAR, KILPENNATHUR P.O. TIRUVANNAMALAI TALUK, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	23-Jun-65
392 B.RAJASREE (M.R.BAKTHAVATSALAM)	TNSVC/2267 /05	A-13, MADHURAM APARTMENTS, 147, MOHANRAM NAGAR, MOGAPPAIR, CHENNAI 600 038	B.V.Sc/TNV&ASU /89	01-Jun-67
393 B.S. GNANAMOORTHY (R.BARATHARAJ)	TNSVC/2415 /05	VAIKKAL STREET, KAMAYA GOUNDENPATHY (P.O.) THENI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/77	26-Sep-59
394 B.SHANTHAL	PONDISVC/2 69/05	3, ANNAI THERASA STREET, SHIVAJI NR GORIMEDU, PONDICHERRY-6	B.V.Sc & AH/PU/95	17-Jan-83
395 BACHHA SINGH S/o SHREE LAXMAN SINGH	BiharSVC/24 47/04	VILL/MUHALLAH - BAHARMADAR P.O. - M KUYARI THANA - PARMA SUB-DIV - CHAPRA SADAR DIST - CHAPRA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/8 4	15-JUN-76

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
396	BADAM KISHORE KUMAR REDDY S/o VENKATESWARA REDDY	APSVC/4409 /05	PLOT NO 110, ADITHYA TOWERS, OPP SBO, MYSORE, BALAJI COLONY, TIRUPATI, CHITTOOR DT. ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	12-Jun-79
397	BAIKUNTHA BIHARI SAHOO S/O BENUDHAR SAHOO	ORISSASVC /2007/05	AT: SINGHOLA, PO: KHALARDA DIST: CUTTACK, PIN - 753011, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	02-Jul-80
398	BAKTHA (S. BALAKRISHNAN)	TNSVC/2249 /05	NO.1, VENKATESHWARA NAGAR, VALASARAVAKKAM, CHENNAI 600 087.	B.V.Sc/MU/64	12-Jan-41
399	BAKUL KUMAR DATTA S/O SHRI DEBIPRASAD DATTA	WBSVC/319 4/05	VILL & P.O. ISLAMPUR DT. UTTAR DINAJPUR, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	11-Aug-82
400	BALAJIEOLANG NONGRUM S/o SRI. W. NONGRUM	MEGHSVC/2 37/05	C/O DONEE VILLA, LABAN (HARISABA) SHILLONG-4, MEGHALAYA	BVSc&AH/ANGR AU/05	26-Jan-78
401	BALAKRISHNA POTTABATTULA S/o ANJALIAH POTTABATHULA	APSVC/4388 /05	C/O A.VENKATAIAH, DRIVER HNO1-1- 517/6 OPP HYMANAGAR NR HIGHTECH BUSSTAND, SURYAPET 508213 NALGONDA, ANOHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	27-Jun-81
402	BALAMURUGAN, N (K.NAINAR)	TNSVC/62/0 3	15, STATE BANK COLONY, 4TH STREET, MELAGARAMTENKASI TALUK 627 81TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	23-Jun-79
403	BANANI GANTAYAT S/O SRI BIJAY CHANORA GANTAYAT	ORISSASVC /2020/05	C/O R.M PANIGRAHY SASTRI NR LANE-2, NR UTKAL CINEMA HALL, BERHAMPUR, OT-GANJAM, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	30-Sep-79
404	BAPU DAS S/O SRI GOPAL CHARAN DAS	ORISSASVC /2031/05	114, RASULGARH (NUASAH) BHUBANESWAR - 751010, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	01-Sep-79
405	BAROT JIGNESHKUMAR G.	GUJSVC/265 9/06	SHREYAS SOCIETY AT TAL BHABHAR OIST BANASKANTHA PIN 385320, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	01-Jun-82
406	BARPATRA GOHAIN(MS) ARUNIMA S/o PURNANANDA BARPATRA	ASMSVC/22 08/05	MAHENDRA BORGHAIN PATH, NA- AII, LICHUBARI JORHAT, ASSAM	B.V.Sc&A.H/AAU/ 05	07-Jun-79

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
407 BASANA BARMAN S/O SRI SUSHIL BARMAN	WBSVC/319 8/05	VILL KALAGACH, P.O. CHOPRA OIST. U/DINAJPUR, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	03-Apr-83
408 BASAVARAJ M. S/o MANIK RAO	KARNASVC/ 3730/	R/O GANOHINAGAR COLONY, HNO. 17-3-183, BIOAR - 585401, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	02-Aug-82
409 BENI PRASAD GOUR S/o SHRI GOVARDHAN LAL GOUR	UVC/150/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, BAGWALI (POKHAR) DT. ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /02	08-Aug-76
410 BENISON PAUL	KERALA/308 4/05	MALAKKARAN HOUSE, TC 12/799(1) PUTHANKULAM RD, EDAKUNNY, THAIKATTUSSERY P.O. OLLUR, TRISSUR 680322, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	01-May-81
411 BHABANI SANKAR TRIPATHY S/O SRI HARI KRUSHNA TRIPATHY	ORISSASVC /2017/05	AT/PO: KRUPASINOHUPUR VIA- NIMAKHANOI, GAMJAM - 761001, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	05-Jun-80
412 BHADANIYA A.R.	GUJSVC/261 7/06	TO, JAMVALI, TA, JAMJODHPUR OIST JAMNAGAR, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNW06	22-Jan-83
413 BHAGIRATHI DEVUNURI S/o CHANDRAIAH	APSVC/4392 /05	HNO. 8-188, SAGARVEEDHI PARKAL WARANGAL DT, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	01-Jun-82
414 BHAGWAN DAS LARIYA S/o LATE SHRI L. P. LARIYA	MPSVC/2281 /05	DR. AMBEDKAR WARD, BANDA SAGAR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /75-76	02-Apr-49
415 BHAGWATI PRASAD BHATT S/o LATE SHRI ISWARI DATT BHATT	UVC/01/06	G-1, RACE COURSE, DEHRADUN, UTTARANCHAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/AU/68	08-Sep-46
416 BHAGWATI PRASAD YADAV S/o SHRI MOTILAL YADAV	MPSVC/2308 /05	G-7, BLOCK COLONY, JANPAD PANCHAYAT, AVASIYA COLONY SHIVPURI, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /91	05-Jun-63
417 BHAKTACHARAN S/O GOBINDA CHANDRA SETHI	ORISSASVC /2033/05	AT/PO: NACHIPUR, VIA-KHAIRA, DIST-BALASORE, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	06-Apr-80

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
418 BHARDAJ NIDHISH S/o SHRI M.L. SHARMA	GUJSVC/263 1/06	H.NO. 2/40 HOUSING BOARD COLONY, SAWAI MADHOPUR 322021, RAJASTHAN	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	05-Jul-81
419 BHATT RAGHUVIR H.	GUJSVC/261 8/06	500/1, SECTOR 5/A, GANDHINAGAR, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	27-Apr-83
420 BHIM PRASAD S/o SRI LILLO MAHTO	BiharSVC/22 65/03	VILL - BHALUA P.O - SARANDA THANA - MIRNI SUB - DIV - GIRIDIH DIST - GIRIDIH, BIHAR	BVSc&AH/BAU/01	07-Apr-75
421 BHOI DHIRENKUMAR B.	GUJSVC/261 9/06	AT & PO. VARDHARI, TA, LUNAVADA, DIST. PANCHMAHALS, PIN 388270, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	09-Mar-83
422 BHOOMIAH. S S/o VITTAL	APSV/4425 /06	ASST.DIRECTOR (AH), BHONGIR, NALGONDA DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc& A.H/APAU/73	04-Feb-50
423 BHOPENDRA KATARIA S/o NATHMAL KAT	RajSVC/3214 /06	MOONKA COLONY WARD NO 4 CHIRAWA JHUNJHUNU, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	25-Feb-77
424 BHYRU PADMAJA D/o PRABHAKAR REDDY	APSV/4413 /05	HNO. 9-4-37, SRI NAGAR COLONY, KARIMNAGAR 505001, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	03-Aug-81
425 BIBU JOHN KARIYIL	KERALA/301 0/05	KARIYIL HOUSE, KK ROAD, CHALAKKUDY - 680307,KERALA	BVSc&AH/KAU/05	27-Oct-80
426 BIDHAN CHANDRA SAHA S/O SRI AMULYA KUMAR SHA	WBSVC/317 2/05	VILL MAHIAHBATHAN P.OMAHISHBATHAN,DT- COCHBEHAR-736179,WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	01-Jul-81
427 BIGHNARAJ SWAIN S/O SRI BHOBA BISOYEE	ORISSASVC /2018/05	AT/PO-DIHAPADHALIA, VIA- BHANJANAGAR DIST - GANJAM, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	28-May-82
428 BIJAY BHARTI S/o SHREE LATE RAM CHANDRA SAH	BiharSVC/24 09/04	VILL + P.O. - ORLAHA THANA - B. KOTHI SUB-DIV - DHANDAHA DIST - PURNEA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	01-Mar-77

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
429	BIJAY KUMAR SINGH S/o SHREE TRILOKI NATH SINGH	BiharSVC/25 66/04	VILL/MUHALLAH - RAMJICHAK LAKHPAR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	29-Sep-77
430	BIMAL KUMAR CHOUDHURY S/O SRI B.K.CHOUDHURY	ORISSASVC /2029/05	AT/PO-KUKUDAKHANDI, SONAPENTHASTREET DIST - GANJAM - 751003, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	02-Nov-81
431	BIMAL KUMAR S/o SHRE BAL KRISHAN PRASAD	BiharSVC/26 18/05	VILL/MUHALLAH - LANGER TOLI CHIK LANE P.O. - BANKIPUR THANA - KADAM KUAN SUB DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/AAU/05	23-Aug-78
432	BINAY KUMAR BHARTI S/o SHREE RAJENDRA PRASAD TURI	BiharSVC/23 19/03	VILL - RAJPUR P.O. - LOSHIDHANI THANA - PIN BAZAR SUB-DIV - LAKHISARAI DIST - MUNGER, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	07-Oct-77
433	BINAY KUMAR JHA S/o SHREE KRIPANAND JHA	BiharSVC/23 39/03	VILL - P.O. - SHILANATH RUPAULI THANA - JANKINAGAR SUB-DIV - BANMAANKHI DIST - PURNEA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	30-Dec-75
434	BINDHU BALAKRISHNAN.	KERALA/302 4/05	VALATH HOUSE, MANALUR P.O, TRISSUR, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	27-Apr-80
435	BINIL B CHANORAN	KERALA/307 2/05	SADANAM HOUSE, MUTHUKULAM NORTH P.O. ALLEPPEY 690560, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	06-May-81
436	BINOD KUMAR RANJAN S/o SHREE BIOHA RAM	BiharSVC/24 02/03	VILL - ISHMALLPUR P.O. - OORIGANJ THANA- DORIGANJ SUB-DIV - CHHAPRA DIST - CHHAPRA SARAN, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	04-Feb-77
437	BISHAN KUMAR TOMAR S/o SHRI PRATAP SINGH TOMAR	UVC/147/06	VETY OFFICER, VETY HSOPTIAL, OULAGHAT, DT- ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/98	30-Sep-72
438	BISHNUPRIYA S/O SH RAJKISHORE BISWAL	ORISSASVC /1991/05	AT-ROUTARAPU R, PO-JAJPUR, OIST-JAJPUR, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	05-Jun-78
439	BISNI PETER.	KERALA/300 6/05	KDODARAPPILLIL HOUSE, VALAYAN CHIRANGARA P.O, PERUMBAVDOR - 683556, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	07-Sep-80

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
440	BISWAJIT MUKHERJEE S/O SAHADEV HANDRA MUKHERJEE	BiharSVC/24 94/04	VILL/MUHALLAH - AABADPUR P.O. - AABADPUR THANA - AABADPUR SUB-DIV - BARSOI DIST - KATIHAR, BIHAR	BVSc/TNV&ASU/ 03	31-Dec-78
441	BISWANATH CHOWDHURY S/O LATE BAMAPADA CHOWDHURY	WBSVC/315 0/05	VILL BAGICHA PO.K JAFULY,BIBICHAK DT.PURBA MIDNAPUR-721137 WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	13-Sep-81
442	BISWOPRAKASHA S/O SRI SHARAT CH. BEHERA	ORISSASVC /2005/05	AT- KANPUR, PO- MALIANCH VIA- MAHAKALAPADA DIST KENDRAPARA 754224, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	23-Apr-80
443	BLESSA SAILO O/o LALHLUNA SAILO	MIZSVC/155/ 05	DAWRPUT - VENGTHAR, PO: AIZAWAL, MIZORAM, MIZORAM	BVSc&AH/CAU/0 5	29-Apr-83
444	BOLLEDU RAVI KUMAR S/o BALAIAH	APSVC/4389 /05	HNO 5-11-148, SHANTHI NAGAR NALGONDA 508001, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	18-Dec-79
445	BOLLU SUBASH CHANDRA BOSE S/o SIDOIAH	APSVC/4340 /05	H.NO. 7/83, REDDY NAGAR, PORUMAMILLA - 516 193, KADAPA DT, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	10-Aug-78
446	BORGOHAIN (MS) APARUPA D/o LATE DILIP KR BORGHAIN	ASMSVC/22 18/05	C/OGITANJALI BORGHAIN,KADAUSAI,SHANKARDE V COLONY,DIBRUGARTH,ASSAM	B.V.Sc&A.H/AAU/ 05	28-Nov-79
447	BORGOHAIN JAYANTA S/o MR. DULA-I GOHAIN	ASMSVC/22 06/05	C/ODULAL GOHAIN P.OGOHAIN GAON, DHEMAJI, DT DHEMAJI- 787057, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	01-Aug-78
448	BORI M.M.	GUJSVC/265 2/06	SUNNY VHORWAD, DHALWAS PALANPUR, DIST BANASKANTHA, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	21-Jan-81
449	BOTCHA PADMA PRIYA O/o DALAPPADU	APSVC/4331 /05	D/O BANGARAMMA.CH, TEACHER,PLOT NO.3, SIVARAMNAGAR COLONY,BANOILIPURAM, SRIKAKULAM DT., ANOHRA	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	03-Mar-80
450	BRAHMAJI. R S/o NAGESWARA RAO	APSVC/4321 /05	O.NO.22-5-34, SAROJINI NAJOU ST,POLICE LINES,KOTHAPET,TENALI,GUNTUR DT.ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	08-Feb-81

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
451	BRAJ MOHAN GUPTA S/o SHRI RAMNARAIAN GUPTA	UVC/14/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, HANUMAN CHATTI, UTTARKASHI, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/99	07-Mar-71
452	BRIJESH KUMAR YADAV S/o MR. GHANSHYAM SINGH YADAV	MPSVC/2318 /06	GARGAJ COLONEY, BAHODAPUR, A.B. ROAD GWALIOR GWALIOR 474012, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	01-May-78
453	BRIJESH RAWAT S/o SHRI BACHAN SINGH RAWAT	UVC/83/06	VILL & P.O. UKHIMATH, DISTT RUDRAPRAYAG,, UTTARANCHAL	BVSc&AH/AAU/99	02-Jul-75
454	BUDHIRAM ROUL S/O SRI BRUNDABAN ROUL	ORISSASVC. /2015/05	AT/PO: KOCHIA KOILI, VIA - BAHANAGA DIST : BALASORE, DRISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	28-Jun-79
455	C. ANANDHA SATHEESH S/O S. CHINNAMUTHU	TNSVC/3480 /06	AGRI THOTTAM, PAPPAMBADI POST, PUDHUPATTI VIA, PAPPIREDDIPATTI TK, DHARMAPURI DIST, PIN : 638 905.	B.V.Sc/TNV&ASU /06	8-Aug-82
456	C. ANBARASAN (CHINNAPPAN)	TNSVC/3035 /05	SIVAN KOVIL STREET, NAYAGANAIPIRIYAL P.O. UDAYARPALAYAM (TK) PERAMBALUR (DT), TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	04-Mar-82
457	C. ANBAZHAKAN (G.CHANDRASEAKARAN)	TNSVC/2474 /05	NQ.16, DHARMARAJA STREET, V.MARUTHUR, VILLUPURAM. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	20-Apr-80
458	C. ARUN KUMAR (K.CHINNAPPAN)	TNSVC/2933 /05	4, GANDHI SCHOOL WEST SIDE, GURUNCHI NAGAR, MAIN ROAD VASUDEVANALLUR AND SIVAGIRI TK, TIRUNELVELI DIST., 627756.	B.V.Sc/TNV&ASU /96	05-May-69
459	C. ABOKAN S/O N.CHOCKALINGAM	TNSVC/3411 /06	12, SURI ILLAM, MAVIKANDAN NAGAR, EDAYARPALAYAM, PIRIVU, KUNIA MUTHUR, COIMBATORE 641 008.	B.V.Sc/TNAU/78	1-Mar-51
460	C. BABU (A.CHINNASAMY)	TNSVC/138/ 03	18, BHARATHI NAGAR, SWAMY SIVANANDA SALAI, RASIPURAM 837 408. NAMAKKAL DISTRICT.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	10-Jul-77
461	C. CHANDRASEKAR (G.CHOKKALINGAM)	TNSVC/627/ 05	VEPPILAIPATTI VILLAGE, KETHUREDDIPATTI POST, PAPPIREDDIPATTI TK, DHARMAPURI DT, 635 302.	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-May-81

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
462 C. CHILAMBAN (C.CHINNAIAH)	TNSVC/2717 /05	VALLAVARI POST, ARANTHANGI TALUK, PUDUKOTTAI DISTRICT 614 801, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-May-75
463 C. DAKSHINA MOORTHY S/O V.K. CHAKRAPANI	TNSVC/3519 /06	OLD NO.11A, NEW NO.23, ANDAL SANNATHI ST, ARNIPALAYAM, ARNI - 632 301, THIRUVANNAMALAI, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	1-Jan-51
464 C. DEEPA (R.CHANDRASEKAR)	TNSVC/65/0 3	UMASHANKAR LORRYSERVICE, MUMMUDITHALAVASAL P.O.ATTUR T.K. SALEM DISTRICTPIN 63, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	02-Jul-77
465 C. DEVARAJ (N.CHINNASAMY)	TNSVC/320/ 04	ALAMPURADAI VILLAGE NOCHALUR P.O. VIA AVALURPET GINGEE TALUK VILLURPURAM DT.604 201TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	17-Jun-79
466 C. DORATHY PUSHPARANI S/O CHRISTOPHER OMER	TNSVC/3464 /06	NO.232, SRI MAHALAKSMI MANDIRA, 39, JUSTICE RATINAVEL PANDIAN ROAD- 600 107. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	25-Jul-71
467 C. EASWARAN (K.CHINNA KARUPPIA)	TNSVC/2018 /05	CHINNA CHITTULOTTY, JARIUSILAMPATTY POST, T.KALLUPATTY VIA, MADURAI DT, 625 702., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	19-Jun-79
468 C. EDWIN GEORGE (S.CRUIZ ANTONY)	TNSVC/2198 /05	16, CHURCH STREET. VATTAKARI, NAGERCOIL 628 004, KANYAKUMARI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	05-May-59
469 C. GOPALAKRISHNAN (A.CHANDRASEKARAN)	TNSVC/645/ 05	MARUTHU PANDIYAR STREET, KALAVANAR NAGAR, AIANGANAILUR 625 501, MADURAI DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jul-79
470 C. GOVINDARAJU (M.CHINNASAMY)	TNSVC/3128 /05	SOBANAPURAM P.O. WEST STREET, THURAIYUR (TK) TRICHY DISTRICT PIN 621 016 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	24-Mar-68
471 C. ILANGO (P.S.CHINNA ELANGAN)	TNSVC/2767 /05	48, AMMAN KOIL STREET, ANAYUR, ANAIYUR POST, MADURAI -17. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	06-Jun-68
472 C. ILANGO (T.K.CHINNASAMY)	TNSVC/128/ 03	4/459, MAIN ROAD, OTHAKUTHIRAI, METTUPALAYAM P.O. KAVANDAPADI VIA, GOBICHETTY PALAYAM, PIN - 638455	B.V.Sc/TNV&ASU /03	16-Jan-80

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
473 C. JAGADESH (R.CHINNUSAMY)	TNSVC/1194 /05	0A / 1, THAILAMBIGAI NAGAR STREET, THIRUCHENGODU, NAMAKKAL DIST. 637 211.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	04-Jun-74
474 C. JAYANTHY (T.CHANDRAN)	TNSVC/1572 /05	PLOT NO.393, PHASE I, 44TH STREET, BHARATHI NAGAR, VELLORE 632 009, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	29-Aug-74
475 C. JAYAPPAUL (G. CHINNA THAMBI)	TNSVC/2157 /05	435A, "SHALOM" BHARAT NAGAR, MELAPUTHERI, NAGERCOIL - 1.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86 /04	31-May-62
476 C. JEYA KUMAR (V.CHIDAMBARA THANU)	TNSVC/2148 /05	1354, SINGARA THOPPU, PARVATHIPURAM, MAGERCOIL 629 003, KANYAKUMARI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85 /04	01-Jan-61
477 C. KALAIVANI (P.CHANDRASEKARAN)	TNSVC/322/ 04	NO.6, POLICE QUARTERS NEAR STATE BANK-BLOCK DHARMAPURI TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	25-Feb-79
478 C. KANAGARAJ (G.CHINNACHAMY)	TNSVC/866/ 05	20-7-10 (1), G.C.S. BHAVAN, T.VEERACHAMY STREET, ARUPPUKOTTAI POST 626 101.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	02-May-70
479 C. KARUPPANNAN (K.CHINNAN)	TNSVC/72/0 3	275.A, THIRUNAVUKKARASU NAGAR, GANDH(PURAM POSTATTUR TALUKSALEM DISTRICT 636 ,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	16-May-75
480 C. KAVITHA (K.CHINNIAH)	TNSVC/2402 /05	ENATHIKARANBI, AVANAM (VIA) PERAVURANI (TK) THANJAVUR DISTRICT 614 623, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	19-May-78
481 C. KAVITHA (S.VEERAMALAI)	TNSVC/1324 /05	14 / 33, THIRUPACHISWARAR STREET, AYANAVARAM, CHENNAI 600 023.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	11-Mar-76
482 C. LATHA (T.M.NAVANEETHA KUMAR)	TNSVC/1911 /05	1 / 298, STATE BANK BACK SIDE, POCHAMPALLI (PO & TK), KRISHNAGIRI (DT) 635 206,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	05-Mar-72
483 C. MANOHARAN (B.CHANDRASEKAR)	TNSVC/2801 /05	3 / 355, SRI DURGANIVAS, KUMBAKONAM MAIN ROAD, KARUGUDI, RAYAMPETTAI POST, THIRUVAYARU 613 204.	B.V.Sc/TNAU/81 /04	02-Jan-57

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
484	C. MATHIYALAGAN (K.CHINNAIAH)	TNSVC/987/ 05	320, BANK STAFF COLONY, 9TH CROSS, MADHAKKOTTAI ROAD, THANJAVUR 613 005. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	04-Dec-56
485	C. MEGANATHAN (T. CHOKKALINGAM)	TNSVC/1180 /05	VANNATHAR THOTTAM, ANAIKATTIPALAYAM, ANDAGALUR GATE POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT, PIN : 637 401.	B.V.Sc/TNV&ASU /92	19-Jul-69
486	C. MEHALA S/OA.CHINNADURAI	TNSVC/3312 '06	A2/495, TOWNSHIP, KAILASAPURAM, TRICHY - 14 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	4-Nov-81
487	C. MERIL RAJ (S. CHANDRA SEKARAN)	TNSVC/206/ 03	PLOT No2. VEERAMMA MUNIVAR ST., ALAMELU NAGAR, S. ALANGULAM, MADURAI - 625017	B.V.Sc/TNV&ASU /03	03-Feb-80
488	C. MOHANA SUNDARAM (N.CHINNAPPA GOUNDER)	TNSVC/2567 /05	3, KAMBAR STREET, TEACHER'S COLONY, ERODE - 11. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	16-Dec-54
489	C. MURUGAN (CHINNAIAH)	TNSVC/48/0 3	PANDIPATHIRAM POST, AVUDAIR KOIL TALUKPUDUKKOTTAI DISTRICT614 6TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	21-May-77
490	C. MURUGAN (S.CHOCKALINGAM)	TNSVC/910/ 05	37, KARUMPULI VEERAPPAN STREET, CHOCKALINGAPURAM, ARUPPUKOTTAI, VIRUDHUNAGAR DT. 626 101	B.V.Sc/TNV&ASU /92	03-May-69
491	C. MURUGESAN (U.CHIDAMBARAM)	TNSVC/947/ 05	4 / 116, KAVI KALIDOSS STREET, JAYARAM NAGAR, KOLATHUR, CHENNAI-99.	B.V.Sc/TNAU/76	02-Mar-52
492	C. MUTHUKUMARAN S/O K.CHELLAPPAN	TNSVC/3332 /06	1st WARD, ARUNACHALAMPUDUR, THARAMANGALAM (PO)OMALUR(TK) SALEM DIST- 636 502 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	20-May-82
493	C. MUTHUSAMY (P.CHINNAKARUPPAN)	TNSVC/1066 /05	7 / 1016, LIVINGSTON STREET, MELAKUIL KUDI ROAD, NAGAMALAI PUDUKOTTAI, MADURAI - 19. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	03-May-62
494	C. NAGENDRANATHA (G.S.CHANDRASHEKARAIA H)	TNSVC/1994 /05	22 / 1, BHIND J.K. STOLAS, SAMADARMAPURAM, THENI 625 531. TAMIL NADU	B.V.Sc/UAS B'LORE/86	20-May-64

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
495	C. NARAYANAN (S.CHENGALVARAYAN)	TNSVC/1339 /05	BADHUR VILLAGE POST, VANDAVASI TK, TIRUVANAMALAI DT 604 403.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	19-Aug-84
496	C. NATARAJAN (P.CHINNAPPAN)	TNSVC/2591 /05	3/1, NEHRU STREET, SOORAMPATTI VALASU, ERODE 638 009.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/70	10-Jul-44
497	C. NATARAJAN S/O K.CHOKKALINGAM	TNSVC/3453 /06	H-12, TNHB COLONY, STC ROAD, PERUMALPURAM, TAMIL NADU - 7.	B.V.Sc/TNAU/79	23-Apr-54
498	C. NIRMALA (W/O R.ARUNKUMAR)	TNSVC/2098 /05	21/3D, KA.NAMANANDAL ROAD, V.O.C.NAGAR EXTENSION, KALLAKURICHI, VILLUPURAM DT 606 202.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	08-Jul-74
499	C. NOBLE (N.CHELLAN)	TNSVC/2160 /05	ANAIKUZHI, CHATHEN CODE POST, KANYAKUMARI DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	03-Jun-84
500	C. PANDIAN (K.CHINNAGOUNDER)	TNSVC/1675 /05	AG, AYYAMPALAYAM, NALLIPALAYAM POST, NAMAKKAL DT. 637003,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	30-Apr-81
501	C. PANNEERSELVAM (V.P.CHINNAPERUMAL)	TNSVC/1104 /05	1 / 198-4, MEENAKSHI AMMAN NAGAR, NEAR SURYA NAGAR, K.PUDUR, MADURAI 625 007.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	10-Jul-81
502	C. PARTHIBAN (V.CHENGALVARAYAN)	TNSVC/1645 /05	C 21, ABHINAV KAILASH, 19, VELACHERY ROAD, SAIDAPET, CHENNAI 600 015	B.V.Sc/TNAU/86	06-Jul-83
503	C. PRABHAR (C.CHINNAPALANI)	TNSVC/912/ 05	KUPPAPALANIPATTI, NILAKKOTTAI TK. DINDIGUL DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	05-Jun-85
504	C. RAGHUPATHI (K.CHENDRAYAN)	TNSVC/1019 /05	THENGALVARAI, METTUR DAM RS SALEM - 636402,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	05-Apr-88
505	C. RAJENDRAN (S.K.CHOCKALINGAM)	TNSVC/2814 /05	5 / 14, ELLAIKKAL STREET, MADAPPURAM, TIRUVARUR, PIN : 610 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	21-Aug-50

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
506	C. RAJENDRAN (V.K.CHIDAMBARAM)	TNSVC/1566 /05	AGOOR, VELLIMEDUPETTAI VIA, TINDIVANAM TK, VILLUPURAM DT.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	20-May-65
507	C. RAMASAMY (K.P.CHINNASAMY)	TNSVC/939/ 05	K.C. PATTI POST, PERUMPARAI VIA, KODAIKANAL TALUK, DINDIGUL DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	03-Mar-65
508	C. RATHINASAMY (O.CHINNAANNA)	TNSVC/1906 /05	HIG 362, TAMILNADU HOUSING BOARD, VENNAMPATTI ROAD, VIRUPATCHIPURAM, DHARMAPURI	B.V.Sc/TNAU/79	02-Apr-54
509	C. SABAPATHY (K.CHINNAYAHSAAMY)	TNSVC/1448 /05	16 / 5, NANDHAGOPAL KOVIL STREET, ODAIPATTY P.O. THENI, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	11-May-65
510	C. SANKARA NARAYANAN (K.CHIDAMBARAM)	TNSVC/2829 /05	P.NO.4, VANATHI NAGAR, NEAR VIJAYALAXMI NGR, KOOTHAPAKKAM, CUDDALORE.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	29-Jun-68
511	C. SARAVANA KUMAR (K.N. CHANDRASEKARAN)	TNSVC/2001 /05	15, PARASAKTHI STREET, SUNDAR NAGAR, THIRU NAGAR POST, MADURAI 625 008.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	14-Mar-71
512	C. SATHYA (G.THULASI RAMAN)	TNSVC/2450 /05	NO.105, KOIL STREET, V.K.THANGAL VILLAGE PERUKANCHI POST, WALLAJA TALUK, VELLORE DISTRICT 631 002	B.V.Sc/TNV&ASU /00	05-May-76
513	C. SENTHIL KUMAR (V.CHINNUSAMY)	TNSVC/1169 /05	NEW NO.155, MARURPATTI, SELLAPPAMPATTI VIA, NAMAKKAL DT, PIN : 637 019.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /69	02-May-67
514	C. SENTHILKUMAR (V.CHINNUSAMY)	TNSVC/395/ 04	NEW NO. 136, 2 / 299, PONNAGAR, METTURDAM 638 401, SALEM DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	10-May-80
515	C. SENTHL KUMAR (I. CHINNA KANNAN)	TNSVC/209/ 03	5 / 116, ANKINAYANA PALLI PO, BARGUR VIZ, KRISHNAGIRI TK, DHARMAPURI DT, 635 104.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	16-Mar-80
516	C. SIGAMANI (N.CHINNAMUTHU)	TNSVC/2497 /05	7, BALAJI AVENUE, NEAR SAKTHI NAGAR, THINDAL POST, ERODE - 9.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	05-Jun-61

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
517	C. SIVANANDAM (P.CHINNASAMY)	TNSVC/1346 /05	70, HIG, PHASE I, TAMIL NADU HOUSING BOARD, TIRUPATTUR, VELLORE DIST 635 601. TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	15-Jul-47
518	C. SOUNDAN (B.CHENNAIAH)	TNSVC/3210 /05	3 / 197, KATTABOMMAN STREET, KAMARAJ NAGAR, M.K.PATTI (PO) POLLACHI 642 003 TAMILNADU	B.V.Sc/MU/74	09-Nov-50
519	C. SREEKUMAR (M.SUNDARESWARAN)	TNSVC/3064 /05	1 / A, BRINDAVAN FLATS, 45TH STREET, NANGANALLUR, CHENNAI 600 061	B.V.Sc/TNV&ASU /91	24-Apr-67
520	C. SUDHAKAR (K.CHINUSAMY)	TNSVC/74/0 3	No. 1, EAST STREET, NAMAGIRIPET POST, RASIPURAM TALUK, NAMAKKAL DISTRICT PIN : 637 406.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	15-Jul-76
521	C. SUGAM (P.CHINNUSAMI)	TNSVC/2036 /05	SITHERI, AKKARIKKADU 636 101 VIA, ARAGALUR, ATTUR TK., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	20-Jan-69
522	C. SUNDARARAJAN (M.CHINNASAMY)	TNSVC/1722 /05	No.1, RAJAJI STREET, K.K.NAGAR, TRICHY 620 021 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	14-Feb-57
523	C. SUNDARRAJ (P.CHELLAKKANI)	TNSVC/663/ 05	4/28, VINAYAKAR KOVIL STREET, KRISHNAPURAM 626 143, RAJAPALAYAM, T.K VIRUDHU NAGAR DT, T.N	B.V.Sc/TNV&ASU /00	23-Apr-77
524	C. SURESH (R.CHINNATHAMBI)	TNSVC/3073 /05	KONCHIKUPPAM, KADAMPULIYUR POST, PANRUTI - TALUK, GUDDALORE DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	07-Jun-83
525	C. SURESH KUMAR (K.K.CHENNIAPPAN)	TNSVC/3227 /05	DR.M.G.R. NAGAR, KANAKKAMPALAYAM (PO), KALLIPPATTI (VIA) GOBI (TK) 638 505 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-Jan-76
526	C. SUTHA (L. CHENNIMALAI)	TNSVC/246/ 04	616, INESAVALAR COLONY, MARKENDAYAN NAGAR, MELMANGALAM, PERIYAKULAM TK, THENI DT.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	20-Apr-78
527	C. THANKAMONY (N.CHINNA PILLAI)	TNSVC/2158 /05	KUNNAN VILLAI VEEDU, PADODE PO 628 168, KK DIST, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /90	11-May-62

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
528 C. THIRUMURUGAN (S.CHOCKALINGAM)	TNSVC/1080 /05	15 / 5(2), PONNAGARAM STREET, MELA CHOCKALINGAPURAM, ARUPPUKOTTAI 626 101., VIRUDHUNAGAR DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	04-May-71
529 C. THIYAGARAJAN (K.CHINNASAMY)	TNSVC/2675 /05	3/3A, CHANDRAMANI NAGAR, S.R.K.V. (P.O.) COIMBATORE 641 020, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	02-Jun-71
530 C. TITUS KOILPILLAI (K.DURAIRAJ CHELLIAH)	TNSVC/2922 /05	2864, 'Y' BLOCK, 3RD STREET, 12TH MAIN ROAD, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI 600 040	B.V.Sc/TNAU/79	06-Sep-54
531 C. V. CHANDRASEKARAN(C.V. VELUSAMI)	TNSVC/134/ 03	29, SELLIANDIAMMAN KOIL STREET, ANNAI ILLAM, ATHANI PIN 638 502BHAVANI TALUKERODE DT.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	10-May-79
532 C. V. SHIVAKUMAR (C.VELLAPANDIAN)	TNSVC/1319 /05	27-A, II BUNGLOW STREET, KOVILPATTI, TUTICORIN DISTRICT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	29-Sep-70
533 C. VALLI (W/O R.MAHADEVAN)	TNSVC/3015 /05	18 / 20, LIG COLONY, A.E. KOIL STREET, 3RD LANE, CHENNAI 600 081	D.V.Sc/TNV&ASU /92	24-Nov-67
534 C. VASANTHI (G.CHANDRASEKAR)	TNSVC/684/ 05	453, 3RD LINK STREET, 5TH MAIN ROAD, M.K.B. NAGAR, CHENNAI 600 039, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	03-Dec-75
535 C. VEERA SUBRAMANIAN (C.CHOCKALINGAM)	TNSVC/2590 /05	3/41, ACHAMPATHU, MADURAI 625 019. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	24-Sep-67
536 C. VIDYASAGAR (R.CHANDRAN)	TNSVC/729/ 05	NO.43, BAZAAR STREET, PAUPPARAPATTY POST, DHARMAPURI DISTRICT PIN 636 809 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	31-Aug-78
537 C. VIJAYA KUMAR (M. CHINNA THAMBI)	TNSVC/193/ 03	ADHIYAMAN KOTTAI PO., DHARMAPURI DISTRICT 630 807 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	12-Jun-80
538 C. VIJAYAVISHNU (K.R.CHELLAPPAN)	TNSVC/414/ 04	NO.14, INDRANI NAGAR, NARASOTHIPATTY, SALEM 636 004. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	27-Jul-78

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
539	C. WINSON DANIEL ABRAMHAM(S. CHELLAIH)	TNSVC/111/ 03	2 / 66, CHURCH STREET, MUNDRADAIPPU & POTIRUNELVELI 627 1.,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	09-Jan-79
540	C.A. SELVAJAYAKUMAR (K.K. ANGAMUTHU)	TNSVC/1536 /05	5 / 6, GANDHI NAGAR, ATTUR 636 102, SALEM DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	01-May-57
541	C.A. SELVARAJU (C.APPAVU)	TNSVC/2650 /05	7/3, SANTHAI MEDU, K.V. KUPPAM (P.O.) KATPADI (T.K.) VELLORE DISTRICT,TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNAU/87	28-Jul-60
542	C.B.RAJ (V.BALASUBRAMANIAN)	TNSVC/2693 /05	NO.8, EAST WEST STREET NO.1, MUTHUSAMY COLONY, COIMBATORE 641 026,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	22-Jan-58
543	C.B.V. RATHNAM (C.L.NARASIMHA MURTHY)	TNSVC/2028 /05	T-9, AKS SHRUTHI APPTS, 63, KALLIKUPPAM ROAD, VENKATAPURAM, AMBATTUR, CHENNAI-53.	B.V.Sc/MU/69.	10-Sep-41
544	C.D.DHARANESH S/o C.M. DYAVE GOWDA	KARNASVC/ 3769/	BYRAVESHWARA NILAYA, MALLESHWARANAGARA (LEFT SIDE) ARASIKERE, HASSAN DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	23-Jul-83
545	C.ELANCHERAN(CHEZHIA N)	TNSVC/1844 /05	87 / 35, VADIVELU MAIN RAOD, PERAMBUR, CHENNAI 600 011	B.V.Sc/TNAU/84	14-Nov-59
546	C.J. KUMAR (C.D.JEEVARATHINAM)	TNSVC/2921 /05	C-37, VENKATARAMAN SALAI, PERIYAR NAGAR, CHENNAI 600 082	B.V.Sc/TNAU/84	15-Nov-57
547	C.K. KANNAGI (M.KAVARAN)	TNSVC/355/ 04	7 / 329, KANNAGI ILLAM, BY PASS ROAD, HARUR PO & TK, DHARAMAPURI DT. 636903,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	15-Jun-79
548	C.KARUPPUCHAMY (S.CHINNACHAMY)	TNSVC/1830 /05	KANDAYAMPATTY POST, THANICHIYAM VIA VADIPATTY T.K. MADURAI DISTRICT -624 221,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	29-Jul-65
549	C.L.S. RAKSHA (P.ANANDHA KUMAR)	TNSVC/2317 /05	25/4, LOGANATHAN STREET, CHEYYAR 604 407,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	14-May-76

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
550 C.MUMMOORTHY (V.CHELLIAH)	TNSVC/1626 /05	29, 7TH STREET, GANDHI NAGAR, MANNACHANALLUR 621 005, TRICHY DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	09-Feb-67
551 C.N. CHANDRAMOHAN (C.NATESAN)	TNSVC/2164 /05	33/3, K.P.K.COLONY, DEVADOSS ROAD, PERAVURANI POST, THANJAVUR DIST.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	01-Jan-53
552 C.N. CHANDRASEKARAN (C.L.NANNABA)	TNSVC/1030 /05	6 / 670, THULASI NIVAS, GANESAPURAM, VAIKKALPATTARAI, ALLIKUTTAI (PO) SALEM 636003, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	14-Mar-65
553 C.PADMANABAN (O.C.PILLAI)	TNSVC/2329 /05	1-281A, GANESH NAGAR, EAST PUTHERI, PUTHERI, NAGERCOIL 629 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	21-Jun-63
554 C.R. PRASANNA (A.CHAKARAVARTHY)	TNSVC/755/ 05	VADAKURUM BOOR, KOOVADU POST, VILLUPURAM DISTRICT, 607 201.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	04-Jun-76
555 C.R. RAMGOPAL (C.R.RAMABRAHMAM)	TNSVC/2137 /05	NO.45, BAJANAI KOIL STREET, KADAPERI, MADURANTHAGAM, KANCHEEPURAM DISTRICT, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/78	26-Feb-54
556 C.R.SOLLIN SELVAN (C.V.RAMASAMY)	TNSVC/2606 /05	NORTH CHEYYUR, CHEYYUR POST AND TALUK, KANCHEEPURAM DISTRICT 803 302, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	03-Jun-67
557 C.S. ANANDA LAKSHMI (W/O M.RAMAMOORTHY)	TNSVC/2121 /05	83, BIG STREET, TRIPLICANE, CHENNAI-6.	B.V.Sc/TNAU/78	24-May-56
558 C.S. ARUNAMAN (S.C.SARANGAPANI)	TNSVC/724/ 05	D-41, MAHATMA GANDHI ROAD, BLOCK - 25, NEYVELI - 3 CUDDALORE DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	03-Dec-70
559 C.SIVANANDAN (N.CHINNAIYA PILLAI)	TNSVC/2658 /05	C.48, 9TH CROSS, W.E. THILLAI NAGAR, TRICHY 620 018TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	26-Apr-58
560 C.SIVASAKTHI (R.CHINNAPONNAN)	TNSVC/2252 /05	NO.8, RASI ILLAM, JOTHI NAGAR, GOBICHETTIPALAYAM, ERODE DISTRICT 638 476, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-May-75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
561	C.SRINIVASAN(S.CHINNAS AMY)	TNSVC/1770/05	VELIYATHUR, AMARADAKKI P.O. AVUDAIYARKOIL TK PUDUKOTTAI DIST.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/77	18-Nov-52
562	C.SURULIRAJ (M.CHELLIAH)	TNSVC/1848/05	MANGALREVE (P.O.) PERAIYUR (VIA) & (T.K.) MADURAI DISTRICT - 625 703 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/00	10-May-75
563	C.T. JAYARAM (C.THANKARAJ)	TNSVC/2977/05	9 / 81C, RAJMATHI BHAVAN, KARUCKANKUZHI, THICKANAMCODE (P) KANYAKUMARI DT - 629 804,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/92	05-Jun-69
564	C.T. SELVAKUMAR S/O.C. THIYAGARAJAN	TNSVC/3517/06	THE K.C.S. MILLS LTD., MOONGILTHURAI PATTU (P.O.) 605 702, VILLUPURAM DIST-TAMIL NADU	BVSc/WBUAFS/03	22-Apr-76
565	CECILIA JOSEPH (W/o A.JOSEPH ELANGO)	TNSVC/750/05	NEW No. 21(OLD No.9), 5TH STREET, SOURASHTRA NAGAR, CHENNAI 600 094.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	02-Oct-62
566	CH. SURESH KUMAR S/o CH. MURALIDHAR	APSVC/4382/05	HNO 1-2-12 RAKASIPET BODHAN NIZAMABAD DT 503185, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANGRAU/05	21-Nov-80
567	CHANDAN PASWAN S/o SHREE SUMEET LAL PASWAN	BiharSVC/22/97/03	VILL - MADESHI P.O. - TILAKPUR THANA - SULTANGANJ SUB-DIV - BHAGALPUR DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/CCSH AU/02	17-Sep-77
568	CHANDRAKANT KUMAR NIRALA S/o LATE DEONANDAN PRASAD	BiharSVC/23/59/03	VILL - NAGWA P.O. - DAMODARPUR (BALGHA) THANA - NAGAR NAUSA SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	01-Mar-77
569	CHANDRAKANT TRIPATHI S/o LALJI TRIPATHI	MPSVC/2313/06	CHANDMARI ROAD NO 1 DHAWARI NEAR MANGAL BHAWAN DHAWARI SATNA 485001, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV/84	28-Aug-59
570	CHANDRAMNI SAHOO S/O SRI GANDHARB SAHOO	ORISSASVC/2016/05	AT/PO: SIRLONABAGRAM VIA RAGHUNATHPUR, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T/05	02-Jun-80
571	CHANDRASHEKHAR SINGH S/o SH RAMPUJAN SINGH	BiharSVC/23/98/03	VILL - PATERAHI JALAL P.O. - MIRZAPUR THANA - MARHAURA SUB-DIV - MARHAURA DIST - CHHAPRA (SARAN), BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	01-Mar-77

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
572 CHANDRPAL SINGH SOLANKI S/o SHRI DHYAN SINGH SOLANKI	MPSVC/2274 /05	SOLANKI TRADERS BHAWANI ROAD SANAWAD KHARGONE, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /03-04	27-Jun-77
573 CHANGMAI KALYAN S/o SRI SARUKAN CHANGMAL	ASMSVC/22 24/05	C/O S.K.CHANGMAL,GOHAIN GAON,PO.- TOPESAJIA,(N)LAKHIMPUR, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	15-May-79
574 CHANNABASAYYA S/o GANGAYYA HIREMATH	KARNASVC/ 3717/	INDALAGI, HERUR POST, HUNGUND TALUK, BAGALKOTE DIST - 587125, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	23-Jul-83
575 CHARAN PREET SINGH S/o SH. AMRIK SINGH	PbSVC/2592/ 05	25-B,MAND NIWAS GURU TEG BAHADUR NR,P/O KHALSA COLL,AMRITSAR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	15-Aug-60
576 CHARANJEEV SINGH S/o SH. AJIT SINGH	PbSVC/2601/ 05	VILL NAWAN JHAWAR, P/O JEEWANWAL BABRI, DISTT. GURDASPUR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	27-Jul-80
577 CHAUDHARI BHANWARLAL	GUJSVC/266 0/06	V/P NOKH, TEHSIL BARER, DIST BARMER (RAJASTHAN)	BVSc&AH/SKDAU /06	25-Apr-81
578 CHAUDHARI NARESHKUMAR F.	GUJSVC/266 1/06	TO, MOTIHIRWANI, TA. KHERALU DIST MEHSANA, PIN 384325, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	01-Jun-81
579 CHAUDHARI RAMESHKUMAR K	GUJSVC/266 2/06	AT, RAHODA PO. ALWADA, TA. DHANERA DIST BANASKANTHA, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	14-Jun-82
580 CHAUHAN FATESHINH D	GUJSVC/265 4/06	TO NAROLI, TAL THARAD DIST BANASKANTHA, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	01-Jun-82
581 CHAUHAN SATPALSINGH T.	GUJSVC/262 0/06	VILL. & POST - PEETH, TEHSIL - SIMALWADA, DIST- DUNGARPUR, STATE - RAJASTHAN, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	30-Jun-83
582 CHAVA SATISH S/o CH VENKATESWARA RAO	APSVC/4400 /05	HNO8-1-376,VDO'S COLONY,KHANAPURAM HAVELI,KHAMMAM,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	03-Aug-81

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
583 CHETHAN.K.P. S/o PUTTASWAMY.H.U.	KARNASVC/ 3784/	ROOM NO.9, NEW BUILDING, R.B.D.G.T.C.HOSTEL.NEAR CITY RAILWAY STATION, BANGALORE-23, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	25-Sep-82
584 CHETIA UTTAM S/o SRI BALU RAM CHETIA	ASMSVC/22 07/05	BOKOTA GARKUCH CHETIA GAON, P.O. CHARUBHANGA, DIST SIBSAGAR, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	01-Sep-78
585 CHIDANANDA MURTHY.S.N. S/o A.NAGAI/AH	KARNASVC/ 3783/	SONDEKOPPA PO, BANGALORE NORTH TALUK, BANGALORE - 562130, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	27-Feb-82
586 CHILUKA HARITHA D/o CH. PAPIREDDY	APSVC/4411 /05	HNO.7-164/1/A, KAMALNAGAR, ECIL(PO), HYDERABAD 500062, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	03-Apr-82
587 CHINMAYEE DAS S/O SH CINTAMANI DAS	ORISSASVC /1980/05	DURGACHARAN DAS AT- RANIGODA, PO-TURANGA, DIST- ANUGUL, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	10-Jun-79
588 CHINNA MUNIYYA NUTAKKI S/o NAGESWARA RAO	APSVC/4324 /05	GOVT. BOYS HOTEL, NAZARPET, TENALI, GUNTUR DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	01-Apr-81
589 CHITRA R NAIR	KERALA/301 6/05	GOWRISANKARAM, VP 1/1452, KAMALA GARDENS AKG NAR RD, PEROORKADA P.O. TRIVANDRUM - 695005, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	08-Dec-80
590 CHITTARANJAN DASS/O SRIDHAR PRASAD DAS	ORISSASVC /2000/05	AT: BINAYAKPUR, PO: BODAK PATNA VIA - RANDIA DIST: BHADRAK PIN-756135, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	10-Jan-78
591 CHOUDHARY POQJA R.	GUJSVC/283 6/06	B-71, BIRLA SUGAR COLONY, PORBANDAR, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	11-Sep-82
592 CYNTHIA RACHEL DANIEL (J.V.THOMAS)	TNSVC/1818 /05	NO.23, TAYLOR'S ESTATE, IST, KODAMBAKKAM, CHENNAI 600 024	B.V.Sc/TNAU/86	03-Oct-61
593 D. ABIRAMI (R.ARULPRAKASAM)	TNSVC/696/ 05	PERIYAKADU, MOOLAI PALLIPATTI POST, NAMAGIRIPET VIA, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /86	10-May-71

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
594 D. AMUDHA W/o. (S.ARULMANI CHELVAN)	TNSVC/1574 /05	69, GANDHI NAGAR, NEAR MARAKKANAM ROAD, TINDIVANAM, VILLUPURAM DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	31-May-75
595 D. ARUN(G.DEVARAJ)	TNSVC/2482 /05	4TH CROSS MURUGAR KOIL STREET, KANDACHIPURAM & POST, VILLUPURAM DIST 605 701., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Jun-74
596 D. BALASUBRAMANIAN (I.DURASAMY)	TNSVC/840/ 05	NO.10 / 26, ANNA NAGAR, SENDURAI POST, PERAMBALUR DISTRICT, PIN : 621 714. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	15-Jun-73
597 D. BALASUBRAMANIYAM (A.DAKSHANAMURTHY)	TNSVC/3028 /05	B-34, ALAGESA NAGAR, CHENGALPATTU 603 001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	20-Jun-67
598 D. BARANI LAKSHMI (S.RAVIKUMAR)	TNSVC/1589 /05	851, TAMIL NADU HOUSING BOARD QUARTERS, KARAI, RANIPET, VELLORE DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	21-Apr-66
599 D. BHARANIDHARAN (A.C.DURASAMY)	TNSVC/1041 /05	5 / 187-C, RAJA GANAPATHY NAGAR, MAYAMMAL ASHRAMAM BACKSIDE, CHINNAKOLLAPATTY, KANNAN KURICHI POST, SALEM - 8	B.V.Sc/TNV&ASU /97	04-Jun-74
600 D. CAUVERI (K.JEYARAJA)	TNSVC/1420 /05	12, LINGAM RICE MILL STREET, OLD PALLAVARAM, CHENNAI 600 117 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	21-May-73
601 D. CHANDRA SEKARAN (K.DURASAMY)	TNSVC/897/ 05	32 / 1, EAST STREET, PERICHPALAYAM POST, PALANI TK, DINDIGUL DISTRICT, PIN : 624 617. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	24-Feb-57
602 D. DAMODARAN (V.DEVARAJ)	TNSVC/2468 /05	PILLUR VILLAGE & POST, VILLUPURAM TALUK & DIST, TAMIL NADU 605 103.	B.V.Sc/TNAU/80	09-Jan-57
603 D. DEEPA (A.DAKSHINAMOORTHY)	TNSVC/597/ 05	GOVINDASAMY NAGAR, KILKODENGALORE, VANDAVASI 604 403, THIRUVANNAMALAI DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	17-May-81
604 D. DEEPA DICKSON (DICKSON PREM RAJ)	TNSVC/176/ 03	14 / 48-A, JANE'S DEN, KALLUKATTY, KUZHITHURAI PO, K.K. DIST 629 163. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	22-Jul-80

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
605	D. DHANAPATHI (P. DURAISAMY)	TNSVC/195/03	KAKKACHI KADU, MOOLAI PALLIPATHY PO, RASIPURAM TALUK, NAMAKKAL DT, 637 406. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	07-Aug-79
606	D. DHARMARAJ S/O K.DHANASEKARAN	TNSVC/3364/06	SOUTH STREET, EDAYAKURICHY PO. UDAYARPALAYAM (TK) PERAMBALUR DT, 621 719 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	17-Jun-80
607	D. DONALD GANARAJ (G.P. DHANARAJ)	TNSVC/1879/05	20, 4TH STREET, GANDHI NAGAR, TIRUVANNAMALAI, TAMIL NADU	B.V.Sc/UNI OF MADRAS/71	24-Jul-46
608	D. EDWIN JAMES JEBADHAS (C. DURAIRAJ)	TNSVC/3194/05	H-16, PONVIZHA NAGAR, MAHARAJANAGAR (POST) TIRUNELVELI 627 011 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/89	31-Jul-66
609	D. GAJENDRAN (M.S. DHAYALAN)	TNSVC/52/03	KUTLADAMPATTY VADIPATTY, TALUK, MADURAI DIST., 625 218, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	22-Jan-78
610	D. GANAPATHY (G. DHANAKODI)	TNSVC/1039/05	51, SUNDARAM CHETTY STREET, JALAKANTAPURAM (PO), SALEM DT. 636 501 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	10-Jun-80
611	D. GANDHI (R. DURAIRAJ)	TNSVC/3168/05	2 / 1098, MANICKAVASAGAR STREET, VOC NAGAR, GOMATHIPURAM, MADURAI 625 020 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/78	03-Oct-54
612	D. GANDHIMATHI (W/O V. KOTHANDARAMAN)	TNSVC/2170/05	NO. 2, VAIDESWARAN NAGAR, R.S. ROAD, GUDIYATTAM, VELLORE DIST, TAMIL NADU- 632 602.	B.V.Sc/TNV&ASU /90	19-May-68
613	D. GOPU (M. DAIVASIGAMANI)	TNSVC/2953/05	22, MAHA SAKTHI COLONY, SEMBAKKAM, CHENNAI 600 073, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	08-Apr-83
614	D. JAGANMOHAN CHARY S/o RANGACHARY	APSVC/4424/06	HNO. 1-6/1, KARMANGHAT, HYDERABAD 500079, ANDHRA PRADESH	BVSc/APAU/81	01-Jun-55
615	D. JANE THANAM W/o. (P. SURESH)	TNSVC/1950/05	98A-6, KALARAMPATTY MAIN ROAD, NEAR DEVI THEATRE, KITCHIPAKYAM (PO), SALEM - 636015	B.V.Sc/TNV&ASU /02	02-Jul-75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
616	D. JAYANTHAN (P.DAKSHINAMOORTHY)	TNSVC/272/ 04	117-C, SOUTH RAILWAY LINE, KUMARASAMY PET, DHARMAPURI 636 007TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	03-Jul-77
617	D. JOTHIBASS (S.N.DURAIRAJ)	TNSVC/1920 /05	THOPPU STREET, CHINNAVALAYAM (PO), JAYANKONDAM (VIA), PERAMBALUR (DT) 62180,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	10-Mar-71
618	D. KARTHIGEYAN (V.S.DHANASEKARAN)	TNSVC/481/ 05	OLD NO. 31 / 1, NEW NO.12, SARADAMBALSTREET, SAIDAPET, CHENNAI - 600015TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	08-Jul-82
619	D. KARTHIKEYAN (R.DAKSHINAMOORTHY)	TNSVC/139/ 03	58-A, SANYASIGUNDU EXTENSION, KITCHIPALAYAM POST,SALEM 636 015TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	21-May-80
620	D. KARTHIKEYAN (T.DHEENADHAYALAN)	TNSVC/2426 /05	PLOT NO.65, ALAGAPPA NAGAR, GANDHIPURAM, SULEESWARANPATTI PO.POLLACHI 642 001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	21-Jul-78
621	D. KARUNAKARAN (M.DEVADOSS)	TNSVC/811/ 05	15, ATHYAMAN SOUTH 4TH STREET, PARY NAGAR, KARAIKUDI, SIVAGANGA DIST., PIN : 630 004.	B.V.Sc/TNAU/84	24-May-60
622	D. KASIVISWANATHAN S/O K.DHANUKODI ALAGAR	TNSVC/3429 /06	34, NORTH STREET, SINDHUPOONDURAI, TIRUNELVELI 627 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	3-May-73
623	D. KAVITHA (V.RAJAMANICKAM)	TNSVC/2579 /05	147, PULIAKKADU, THALKUNI VIA, KOLAPPALUR POST, GOBI TK, ERODE DIST 638 456.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Oct-74
624	D. KISHORE KUMAR (S.DELHI BATCHA NAIDU)	TNSVC/2958 /05	NO.14, IIND CROSS STREET, NEW COLONY, CHROME PET, CHENNAI 600 044,	B.V.Sc/TNAU/82	24-Mar-56
625	D. KRISHNAMOORTHY (K.R.DHARMALINGAM)	TNSVC/1886 /05	142, PACHAMUTHU UDAIYAR COMPLEX, PUTHIRA GOUNDAN PALAYAM (PO), YETHAPUR VIA, ATTUR TK, SALEM DT - 636119	B.V.Sc/TNV&ASU /00	13-Jun-72
626	D. KUMARAN (M.DORAISAMY)	TNSVC/2889 /05	18 / 49, THIRUVALLUVAR STREET, ETHIRAJ NAGAR, WEST MAMBALAM, CHENNAI 600 033.	B.V.Sc/TNV&ASU /95	22-Jul-72

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
627	D. LAZAR EZHIL DURAI (L.DAVALADAS)	TNSVC/2214 /05	6/14, MAIN ROAD, PAPPAMPATTI, ONDIPUDUR VIA, COIMBATORE -16, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	28-May-73
628	D. LILLY ARUL KUMARI W/o. (M.RAJASEKARA PANDIAN)	TNSVC/1161 /05	3 / 12 W, SEKAR BHAVANAM, PARAMKUNTAPURAM, SURANDAI VIA, TENKASI TK, 627 857.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	30-Sep-69
629	D. MADHIPANDIAN (T.DURAI PANDIAN)	TNSVC/3114 /05	27 / 12, PERUMAL NORTH CAR STREET, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI 627 002 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	08-May-55
630	D. MANOHARAN (R.DEVARAJALU)	TNSVC/2659 /05	73, KVB NAGAR, I CROSS, KARURTAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	15-May-57
631	D. MOHAMMAD MUBARAK (M.DASTAGIR)	TNSVC/943/ 05	E-123, PWD QUARTERS, THOD HUNTER NAGAR, SAIDAPET, CHENNAI 600 015.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	06-May-65
632	D. MURUGANANDAM (K.DANA VELU)	TNSVC/1979 /05	27 A / 2, MAGANADU DHARMARAYAR STREET, KANCHEEPURAM 631 502.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	22-Jun-77
633	D. MURUGANANDAM (P.P.DURAI CHAMY)	TNSVC/2238 /05	6/14, 18TH STREET, TANSI NAGAR, VELACHERY, CHENNAI 600 042.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/77	28-Aug-48
634	D. NANDAGOPAL (M.DHARMAR)	TNSVC/1220 /05	1 / 364 'B', SILVERPURAM, MEELAVITTAN ROAD, TUTICORIN - 628002 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	06-May-61
635	D. NARENDRAN(RAMA .DHAYANITHI)	TNSVC/518/ 05	212 / 248, KAMARAJ ROAD, ARAKANDANANUR 805 752, TIRUKKOLIUR TK, VILLUPURAM DT	B.V.Sc/TNV&ASU /05	27-Dec-81
636	D. NATARAJAN (S.DURAIRAJ)	TNSVC/3240 /05	107 / 39, MILLERPURAM, TUTICORIN 828 008 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/76	31-Oct-54
637	D. POOMALAI (P.DURAI SAMY)	TNSVC/2016 /05	KADANERY POST, PERAIYUR TK, MADURAI DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	05-Jun-74

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
638 D. PORCHELZIYAN (S.DURAI)	TNSVC/543/ 05	5/1397-C, L.R. MANICKAM STREET III BHARTHI PURAM, DHARMAPURI DIST. PIN - 636 805, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	29-Jul-81
639 D. PRADEEPA (G.DHAMODHARAN)	TNSVC/709/ 05	5 / 821-1. TREASURY COLONY, COLLECTORATE POST DHARMAPURI 636 705 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	13-Mar-77
640 D. PRAKASH (G.DHARMALINGAM)	TNSVC/607/ 05	2 / 42 A KEEZHA THERU, KUNNAM & POST, SERKAZHI NAGAI DIST. - 809 108. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	21-Jul-81
641 D. PRAKASH (V. DEVARAJU)	TNSVC/187/ 03	SENGULAM STREET, MELPADUR VILL CHENGAM TALUK, THIRUVANNAMALAI DIST, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	22-Jun-80
642 D. PRIYA (M.DHARMALINGAM)	TNSVC/64/0 3	215, UDAIYARPALAYAM THAMMAMPATTI POSTSALEM DISTRICT 636 1 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	13-May-78
643 D. PURUSHOTHAMAN S/OR. DEVADOS	TNSVC/3515 /06	19, GANESHAPURAM, PILLAIYAR KOIL ST. NAMAKKAL - 637001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	8-Apr-83
644 D. R. NATARAJAN (D. RATHINUM	TNSVC/198/ 03	113, GOLLAPPATTI ROAD, NEAR GOVINDHARAJ RICE MILL, DHARMAPURI 636 702. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	10-Dec-77
645 D. RAGHAVAN (P.K.DHARMALINGAM)	TNSVC/3011 /05	1 / 33, ANNA STREET, PERIYAPANICHERRY, GERUGAMBAKKAM P.O. MANGADU (VIA) CHENNAI 602 101	B.V.Sc/TNV&ASU /02	14-Apr-48
646 D. RAJA (A. DHANDAPANI)	TNSVC/109/ 03	6, VENKATTAKUPPAM, VADALUR POST, CUDDALORE TK & D, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	03-Jun-79
647 D. RAJA SEKARAN (M.DURAIRAJ)	TNSVC/1592 /05	34 / 5, NORTH STREET, MANTHITHOPPPU POST, KOVILPATTI TALUK, THOOTHUKUDI DIST. 628 502.	B.V.Sc/TNV&ASU /99	24-May-75
648 D. RAJARAJAN (P.DORAISAMY)	TNSVC/808/ 05	25-D, RAMAKRISHNA ROAD, OPP. LRN SHED, SALEM 636 007, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /81	05-Jul-57

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
649 D. RAJARAM (R.DEVARAJ)	TNSVC/3173 /05	162, 7TH CROSS, BHARATHI NAGAR, PUTHUR, TRICHY - 17TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/86	29-Apr-60
650 D. RAJENDRAN (R.DURASAMY)	TNSVC/2915 /05	BALLAKULI, SENBAMAGADEVI P.O. ATTAYAMPATTI - VIA, NAMAKKAL DISTRICT-637 501TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	10-Jun-74
651 D. RAMALINGAM (K.DAKSHINAMOORTHY)	TNSVC/1518 /05	78, 7CII, ATTOOR SALAI, MANNAI RASTHA EDAR STREET, THIRUTHURAIPOONDI TALUK PIN 614 713	B.V.Sc/TNAU/88	13-Apr-65
652 D. RAMAMURTHY (S.DAMODARAN)	TNSVC/2042 /05	57, NARAYANAN NAGAR, THIRUPPAPULIYUR, CUDDALORE 607 002.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	14-Apr-59
653 D. RANJAN SUNDARAKUMAR (Y.DURAJIRAJ)	TNSVC/3235 /05	4 / 618-A, 24TH STREET, SHANTHI NAGAR, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI 627 002 TAMILNADU	B.V.Sc/MU/68	10-Oct-45
654 D. RATHINAVEL (A.DURAJIRAJ)	TNSVC/453/ 05	47-E, RASIPURAM CROSS ROAD, NARASINGAPURAM (PO), ATHUR TK, SALEM (DT) 636108TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	13-Mar-80
655 D. REENA (B.DEVARAJAN)	TNSVC/1701 /05	1 / 37, KAMARAJAR STREET. VENNAMPATTI ROAD, DHARMAPURI - 636 705,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	29-May-78
656 D. SANTHI (R.DHANASEKAR)	TNSVC/2431 /05	NO.206, S.R.S. COMPLEX, G.S.T. ROAD, CHROME PET, CHENNAI 800 044	B.V.Sc/TNV&ASU /98	07-Feb-74
657 D. SARAVANA KUMAR (DAMODARAN)	TNSVC/269/ 04	OLD NO.10, NEW NO.17, 5TH STREET, KAMARAJA NAGAR, AVADI, CHENNAI-71TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	15-Jun-80
658 D. SEKAR(R.DURASAMY)	TNSVC/26/ 2	PERUMBALIPATTY,ELUR POST 637 018, NAMAKKAL DISTRICT,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	07-Jun-78
659 D. SEKHAR (DEVA SENATHI PATHY)	TNSVC/2470 /05	145, KAMARAJAR STREET, NGGO NAGAR, TIRUKOILUR, VILLUPURAM DIST 605 757.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	25-Jan-53

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
660 D. SELVAKUMAR (S.S.DURAI RAJ)	TNSVC/1233 /05	4 / 200, SOUTH STREET, PUTHIYURPUTHUR - 628402, THOOTHUKUDI DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	06-May-65
661 D. SELVARAJAN (S.DORAIRAJ)	TNSVC/723/ 05	5 / 252, FIFTH STREET, VENKATESWARA NAGAR, POLICHALUR, CHENNAI 600 074 TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/83	10-Jul-41
662 D. SENTHIL KUMAR(M.DHANAPAL)	TNSVC/331/ 04	No.2, 1ST CROSS STREET, VADIVEL NAGAR, SAINATHAPURAM VELLORE - 632001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	10-Jun-80
663 D. SENTHIL MURUGAN (R.DEVARAJAN)	TNSVC/2662 /05	B.71, SIXTH STREET, PERIYAR NAGAR, CHENNAI 600 082. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	05-Mar-68
664 D. SHANMUGA KUMAR S/O S.DURAIRAJ	TNSVC/3475 /06	6/4, PERUMAL KOIL SOUTH LANE, BODINAYAKANUR 626 513, THENI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	15-May-72
665 D. SRINIVASAN (R. DEVARAJU)	TNSVC/238/ 04	48, ILANGO NAGAR, KOLAVA LAKE, AMMANAMBAKKAM NATHAM (SUB.POST) CHENGALPATTU 603 002. KANCHEEPURAM DT.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	12-May-80
666 D. SRIRANJANI(M.DURAIRAJ)	TNSVC/155/ 03	159, III STREET, GANESAPURAM, THIRUCHIRAPALLI - 620014 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	24-Nov-73
667 D. SUBASRI (S.SARAVANAKUMAR)	TNSVC/1215 /05	49 / 28, KAMATCHI AMMAN KOIL STREET, TUTICORIN DT - 628002 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	28-May-74
668 D. SUBRAMANI (C.DURAISAMY)	TNSVC/862/ 05	4 / 80.G, K.K. NAGAR, YERCAUD MAIN ROAD, CHINNAGOLLAPATTY, KANNAN KURICHI POST, SALEM 636 008.	B.V.Sc/TNAU/87	15-Jul-80
669 D. SUDHA (P.DURAISAMY)	TNSVC/478/ 05	1 / 51, SEMBARIPUDHUR, NALLIPALAYAM VIA, MUDHALAIPATTI (PO), NAMAKKAL (DT) TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	20-Jun-81
670 D. SUDHA W/o. (J.MANIVANNAN)	TNSVC/1803 /05	D122, SPB COLONY, ERODE- 10, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /99	04-Apr-73

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
671 D. SUKUMAR (M.DHANDAPANI)	TNSVC/1414 /05	135 / A-1, VASAVI OIL MILL STREET, POOTTAI ROAD, SANKARAPURAM (P.O. & T.K.) VILLUPURAM DISTRICT, PIN 606 401	B.V.Sc/TNV&ASU /91	24-May-68
672 D. SURESH (V.DHANDAPANI)	TNSVC/337/ 04	2, SARASWATHI STREET, BHARATHI NAGAR, THARAMANI, CHENNAI - 600113TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	19-May-80
673 D. SURESH CHRISTOPHER (G.R.DOSS)	TNSVC/1715 /05	17 / 2, THATHACHARIAN ARCADE, MAMBALA SALAI, TRICHY 620 005TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	24-Mar-66
674 D. SURESH S/O M. DOULAT SINGH	TNSVC/3503 /06	VETERINARY SURGEON, VETY HOSPITAL, GINGEE VILLUPURAM DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	2-Feb-52
675 D. SUTHA W/o. (M.KANDASAMY)	TNSVC/1402 /05	87, RAMANCHANDRA NAGAR, EMAPPER, KALLAKURICHI PIN 606 202 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	02-Jun-68
676 D. SWAMINATHAN (V.DHANABAL)	TNSVC/1430 /05	50, JALAHANDAPURAM MAIN ROAD, SILAMBAGAM, THARAMANGALAM (PO) SALEM DT 636 502 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	11-Jun-71
677 D. THANIGAVELU (K.M.DEVARAJ)	TNSVC/2642 /05	16, VATHIYAR STREET, KILVISHARAM, MELVISHARAM POST 632 509,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	24-Jul-77
678 D. THIRUMEIGNANAM (M.M. DURAISAMY)	TNSVC/220/ 03	P.METTUR PO, MALLUR VIA, SALEM 636 203,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	27-Jun-80
679 D. THIRUNAVUKKARASU (R.DURAISAMY)	TNSVC/1338 /05	ELANTHAMARATHU KADU, ORAMBU VILLAGE, T.G.PALAYAM PO, RASIRURAM TK, NAMAKKAL 636 202.TAMIL NADU	BVSc&AH/PU/00	23-May-76
680 D. UMA MAHESWARI (W/O R.DURAI SINGH)	TNSVC/1092 /05	7-A, TNAU AVENUE, RAJAKAMBIRAM, THIRUMOHAVUR POST; MADURAI - 625 107TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	19-May-72
681 D. VANCHINATHAN (G.DESHNAMOORTHY)	TNSVC/3252 /05	9, ACHUTHA NARAYANA PILLAI LANE, NAGAPATTINAM 611 001, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /96	14-Mar-58

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
682 D. VASANTHA KUMARI S/O B.DHAYANITHI	TNSVC/3318 /06	29/30, ANNAI THERESA STREET, V.O.C. NAGAR, VALLUVAR COLONY, MADURAI -17,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	22-Feb-83
683 D. VELMURUGAN S/OV DHAKSHANAMOORTHY	TNSVC/3535 /06	EAST STREET, PADAIVETTIKUDIKADU, CHOLANKUDIKADU (PO), SENDURAI (TK) PERAMBALUR- 621 709,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	27-May-82
684 D. VENUGATESAN(S.DAYALA N)	TNSVC/148/ 03	11-7 / 42 B1, THIRUNAGAR, SHIVAGANGA RDAD, THIRUPATTUR 630 211.SHIVAGANGA DISTRICT.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	09-Jun-80
685 D. VIJAY (R. DURAIRAJ)	TNSVC/357/ 04	14, RAMALINGA NAGAR, THOTTIYAM, TRICHY (DT) 621215,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	04-Jul-80
686 D. VIJAYA (K.DASARATHAN)	TNSVC/1571 /05	452, KANNIYAMMAN KOIL STREET, CHEYYAR 604 407, TVMALAI DT.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-May-75
687 D. VIJAYARAJ S/O J.DEVISINGH	TNSVC/3349 /06	104, PALANIYAPPA NAGAR, THIRUKOKARNAM, PUDUKKOTTAI - 622 02,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	1-Jun-83
688 D. VINITHA (V.DURAISAMY)	TNSVC/918/ 05	53 / 14, SOUTH STREET, THEVARAM P.O. THENI DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	23-May-59
689 D. VIVEKANANDAN (K.S.DEENAPPAN)	TNSVC/2839 /05	5, B.K.R. NAGAR, SATHY ROAD, COIMBATORE 641 012.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	02-Jun-82
690 D. VIVEKANANDAN (P.DURAIRAJ)	TNSVC/2760 /05	NO.10, MARINE APTS, MASILAMANI ST, BALAJI NAGAR, ROYAPETTAH, CHENNAI - 14.	B.V.Sc/TNV&ASU /96	14-Jul-68
691 D.ARIVARASU (S.DURAISAMY)	TNSVC/364/ 04	13-C, NEW STREET, LINE-2, 11TH WARD, VATHIYAR THOTTAM, THARAMANGALAM 636502 SALEM DT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	15-May-80
692 D.CHANDRASEKARAN(A.D UR AISAMY)	TNSVC/1822 /05	2 / 229, PON NAGAR, METTUR DAM - 1, SALEM DISTRICT PIN 636 401TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	01-Jun-73

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
693	D.ENOCH KANNIAH RAJSINGH S/O G.DEVAMANI	TNSVC/3505 /06	KIRUBAI ILLAM, PLOT 116, DOOR 5- 4/80, KALAI NAGAR, MADURAI 625 017, TAMIL NADU	BVSc/MU/73	21-Jan-49
694	D.K. ELIZABETH MANJU (R.DANIEL KALIMUTHU)	TNSVC/3040 /05	NO.5, KALIAMMAL COLONY, THUDIYALUR, COIMBATORE 641 034, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /05	09-Aug-83
695	D.K. KESAVAKUMAR (P.KANDASAMY)	TNSVC/55/0 3	15A/138, VASANTHA ILLAM NETHAJI BYE PASS ROADDHARMAPURI 63601 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	27-Jul-78
696	D.M. SANTHY (W/O.K.MAGENDIRAN)	TNSVC/2484 /05	23, SUBRAMANIAM NAGAR EXTENSION, RAGAVENPETTAI, PANAMPATTU POST, VILLUPURAM, TAMIL NADU 605 103.	B.V.Sc/TNAU/86	14-Apr-63
697	D.MARY MALLIKA (P.DEVASIRVATHAM)	TNSVC/1620 /05	NO.18, MOORTHY AVENUE, LAKSHMI NAGAR, PORUR, CHENNAI 600 116	B.V.Sc/TNAU/83	28-Aug-58
698	D.R. SUBRAMANIAN (D.RAJAGOPALAN)	TNSVC/3237 /05	ANDHAKUDI P.O. THAPPALAMPULIYUR (VIA) NAGAPATTINAM DISTRICT PIN 610 106 TAMILNADU	B.V.Sc/MU/70	24-Aug-45
699	DADAWALA ABIDALI ISMAIL	GUJSVC/266 3/06	TO BADARPURA TA VADNAGAR, DIST MEHSANA PIN 384355, GUJRAT	BVSc&AH/ISKDAU /06	29-Mar-82
700	DALEEP KUMAR ARORA S/o SH. GURBAKSH LAL	PbSVC/2620/ 05	H.NO. 4025, MOHALLA SAIDAN, NAKODER, DISTT. JALANDHAR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	16-Aug-80
701	DAMAN JAIRATH S/o SH VIJAY KUMAR	PbSVC/2613/ 05	28 GF SARASWATI VIHAR, KAPURTHALA ROAD, JALANDHAR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	14-Oct-80
702	DARSANA M.G	KERALA/302 6/05	SAKALYAM, TC 6/308-8, PALM GROVE LANE, VATTIYOORKAVU, TRIVANDRUM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	01-Nov-80
703	DASIAH C.B. S/o BORIAH	KARNASVC/ 3800/	HIREHALLY POST, CHANNAKERE TALUK, CHITRADURGE DT, 577529, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	04-Apr-82

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
704 DASARATHI NAG S/O HADI NAG	ORISSASVC /2032/05	C/O HAOI NAG, AT-JAYANTI NAGAR, PO- M RAMPUR, DIST - K ALAHANDI, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	05-Aug-79
705 DEBALINA MITRA S/O DR. DEBAPRASAD MITRA	WBSVC/319 9/05	6A, DESHBANDHU ROAO KAMARPARA, JADAVPUR, KOL- 700032, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	16-Dec-81
706 DEBAPRASAD GAYEN S/O SHRI SASANKA SEKHAR GAYEN	WBSVC/318 3/05	VILL & P.O. BHUBANNAGAR DT. 24 PRGS, P.S.KAKDWIP, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	15-Mar-82
707 DEBASHIS MOHAPATRA S/O SRI AJIT KUMAR MOHAPATRA	ORISSASVC /2008/05	AT: MANSINGBAZAR, PO: MOTIGANJ DIST: BALASORE, PIN-756003, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	24-Jun-79
708 DEEP MANI GUPTA S/o SHRI RAMESH CHANDRA GUPTA	UVC/168/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, JAULJIVI, DT- PITHORAGARH, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/00	15-Jan-74
709 OEEPA SHARMA S/o SH. BHUSHAN LAL	HPSVC/727/ 05	POONAM ENTERPRIZES DHARMSALA ROAD, KANGRA, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc. & AH/CSKKVV/05	22-Sep-81
710 DEEPA.S.	KERALA/303 2/05	KOTTAKKAKATHU HOUSE, UMAYANALLORE P.O.KOLLAM- 691589, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	16-May-82
711 DEEPAK KUMAR GOSWAMI S/o SHREE JAY NARAYAN GOSWAMI	BiharSVC/22 95/03	VILL - SUOWAS P.O + THANA - KURNI SUB - OIV - DIST - MUZAFFARPUR, BIHAR	BVSc&AH/AAU/03	11-Sep-76
712 DEEPAK KUMAR S/o SHREE UPENDRA PRASAD SINGH	BiharSVC/24 07/03	VILL + P.O. - CHAUKI THANA - SAHEBPUR KAMAL SUB-DIV - BALIA DIST - BEGUSARAI, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	01-Mar-76
713 DEEPAK KUMAR S/O SH RAMESH KUMAR	HARSVC/187 1	236/7, ROHTAK ROAD, NEAR W. WORKS NO7, JIND, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	29-May-81
714 DEEPAK KUMAR S/o SH. DHIRAT RAM	PbSVC/2629/ 05	PATWARIAN MOHALLA, WARD NO. 11, TANDA, DISTT. HOSHIARPUR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	08-Mar-79

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
715 DEEPAK KUMAR SINGHAL S/o NAVAL	RajSVC/3207 /06	CLOTH MERCHANT HATT BAZA CHIPPABAROD BARAN, RAJASTHAN	BVSC&AH/RAU/0 5	18-Dec-79
716 DEEPAK S/O SH MAHAVIR SINGH	HARSVC/189 6	H.NO. 177, SECTOR-4, ROHTAK, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	20-Jul-80
717 DEEPAK SHARMA S/o SH. BRIJ MOHAN	HPSVC/717/ 05	VILL&PO-KAROA,THE-DEHRA, DT. KANGRA, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc.& AH/CSKKVV/05	10-Feb-79
718 DEEPALI GUNWANT S/o SHRI S.C.GUNWANT	UVC/13/06	ASHRAYA,A/23,TRANSIT CAMP RUDRAPUR,DT UDHAM SINGH NR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/05	24-Sep-81
719 DEEPALI MALHOTRA D/o SH. B.F. MALHOTRA	HPSVC/728/ 05	H. NO-19 HOUSING BOARD COLONY BHULY DISTT. MANDI, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc.& AH/CSKKVV/05	16-Sep-82
720 DEEPIKA D/o DR R.S.VERMA	UVC/165/06	1324,TA COLONY PANTNR DT UDHAM SINGH NAGAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/04	11-May-80
721 DEEPMALA SHRIVASTAV D/o SHREE ARUN KUMAR SHRIVASTAVA	BiharSVC/25 96/05	VILL/MUHALLAH - UTARI PATELNARAR P.O. - KESRI NAGAR THANA - PATLIPUTRA SUB-DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	01-Oct-80
722 DEEPTHY P.	KERALA/302 1/05	DEEPTHY BHAVAN,EDAVATTOM,VEL LIMON PO,KERALAPURAM, KOLLAM- KERALA	BVSc&AH/KAU/05	19-May-81
723 DEEPTI DAHIYA S/O SH V. S. DAHIYA	HARSVC/188 4	C/O C.V.H. JUNDLA, KAMAL,HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	28-Jul-81
724 DEVADOSSGUNASEELAN (S.DEVADOSS)	TNSVC/2587 /05	20, C.S.T. NAGAR, DHARAPURAM, ERODE DIST 638 65 TAMIL NADU.	B.V.Sc/MU/70	19-Oct-46
725 DEVENDRA PATHAK S/o SHREE SITARMA PATHAK	BiharSVC/25 57/04	VILL/MUHALLAH - CHAPRA P.O. - AKRA, BIHAR	BVSc/TMV&ASU/ 04	26-Feb-79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
726	DHAMENDRA KUMAR S/o SHREE KRISHN PRASAD	BiharSVC/24 80/04	VILL/MHALLAH - MOHAMMADPUR P.O. - MOHAMMADPUR THANA - ASTHAWA SUB-DIV - BIHARSHARIEF DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/GAU/0 3	15-Dec-76
727	DHANANJAY KUMAR S/o SHREE JANESHWAR PRASAD SINHA	BiharSVC/25 24/04	VILL/MUHALLAH - DARIYAPUR P.O. BELKHARA THANA - ARWAL SUB- DIV - ARWAL DIST - ARWAL, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	16-Nov-77
728	DHANRAJ NAGAR S/o LATE MOHAN LAL NAGAR	UVC/170/06	C/O DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD. DEHRADUN,UTTARANCHAL	BVSc&AH/RAU/0 1	03-Jun-75
729	DHANYA PURUSHOTHAMAN	KERALA/309 1/05	30/1707 A, CHARAMKANDAT HIL HOUSE, VYTTILA P.O. COCHIN - 682019, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	02-Dec-80
730	DHARANESH.M.G. S/o GANGAIAH	KARNASVC/ 3705/	MAHIMAPURA, KULUVANAHALLI PO,NELAMANGALA TALUK,B'LORE RURALDT-562111, KARNATAKA	BVSc&AH/UAS,B'i ore/04	21-Jul-80
731	DHARAVATH BHEEKYA S/o DEVLA	APSVC/4390 /05	MANGAL BANDA THANDA, KAKARAVAI, TIRUMALAYAPALEM (M) KHAMMAM DT ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	03-Aug-78
732	DHARMAVEER SETTY.B. S/o M.K.SHETTY	KARNASVC/ 3755/	NO. 11 ANUGRAHA, CHAKRAVARTHY LAYOUT, BANGALORE - 20, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	12-Aug-81
733	DHARMENDRA KUMAR S/o SHREE BRAHMDEO SINGH	BiharSVC/24 14/04	VILL + P.O. BABU OMAUNA THANA - DAUDHNAGAR SUB-DIV - DAUDNAGAR DIST - AURANGABAD, BIHAR	BVSc&AH/KAU/03	22-Nov-77
734	DHARMENDRA KUMAR S/o SHREE SURESH PRASAD	BiharSVC/24 28/04	VILL + P.O.- ALIGANJ THANA - CHANDRADEEP SUB-DIV - ALIGANJ DIST - JAMUI, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	06-Jul-77
735	DHARMENDRA SINGH S/o SHRI SHAMSHER SINGH	MPSVC/2283 /05	8/879, ANAND NAGAR, BODA BAG REWA, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /03-04	30-Nov-76
736	DHARMENDRA VYAS S/o SHRI HARI SHANKAR VYAS	MPSVC/2288 /05	TARKESHWARI COLONY, GURUDWARA ROAD, PURANI SHIVPURI, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	24-Aug-80

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
737 DHARMESH KR. SHARMA S/o BRIJENDRA	RajSVC/3202 /06	MUDGAL BHAWAN SARMATHURA BHOLPUR, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	05-Oct-77
738 DHARMVIR SINGH S/O SH SUKHDEV SINGH	HARSVC/189 0	VPO ODHAN, T. DABWALI, DISTT. SIRSA, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	07-May-80
739 DHIRAJ KUMAR GUPTA S/o SHRI RAM AVATAR GUPTA	UVC/106/06	6/664, TALLA GORAKHPUR, HALDWANI, NAINITAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/01	16-Dec-79
740 DHIRAJ KUMAR S/o LATE UPENDRA PRASAD	BiharSVC/25 17/04	VILL/MUHALLAH - GAUCHARI P.O. - GOPALPUR THANA - GOGRI SUB- DIV - KHAGARIA DIST - KHAGARIA, BIHAR	BVSc&AH/KAU/04	19-Feb-79
741 DHIRENDRA KUMAR S/o SHREE BULAKI PRASAD	BiharSVC/22 91/03	VILL - HABIBPURA P.O + THAN - SOMASARAI SUB-DIV - BIHARSHARIEF DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/UAS,B' LORE/02	01-Jan-77
742 DHARMVIR SINGH S/o SHREE DEVENDRA SINGH	BiharSVC/24 12/04	VILL - PHOOLBARIA P.O. - BAINTPUR THANA - KHUSRUPUR SUB-DIV - PATNACITY DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	12-Jan-78
743 DIBYENDU BIKASH KARMAKAR S/O BYOMKESH CHANDRA	WBSVC/316 9/05	VILL NARAYANPUR P.O.BALURGHAT DIST. D/DINAJPUR-733101, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	12-Jun-81
744 DIGVIJAY ADITYA SINGH MANDHOTRA S/o SH. RAVI SINGH MANDHOTRA	PbSVC/2615/ 05	VPO SALOH, TEHSIL PALAMPUR, DISTT. KANGRA, 176102, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	28-Jan-80
745 DILEEP P.K.	KERALA/303 4/05	DEEPAM, PADINJATTAMMURI SOORANAD NORTH P.O. KOLLAM- 690561, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	08-Apr-81
746 DILIP KUMAR BAITHA S/o SHREE SHIV MANGAL BAITHA	BiharSVC/25 09/04	VILL/MUHALLAH - PAKBALIYA P.O. - PAKBALIA THANA - DURAUDHA SUB- DIV - MAHARAJGANJ DIST - SIWAN, BIHAR	BVSc/TNV&ASU/ 03	05-Dec-75
747 DILIP KUMAR PRASAD S/o SRI NARAYAN PRASAD	BiharSVC/22 58/02	VILL - BHALUKA P.O - MALAYPUR THANA - BARHAT SUB - DIV - JAMUI DIST - JAMUI, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/00	25-Oct-75

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
748 DIMPY KUMARI D/o SHREE PAWAN KUMAR	BiharSVC/24 22/04	VILL + P.O. - BILANDERPUR THANA - RAJAPAKAR SUB-DIV - MAHUA DIST - VAISHALI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	12-Dec-77
749 DINESH KUMAR SHARMA S/o SHRI RAMHET SHARMA	UVC/88/06	VILL-LAMGARHI, GRAM SABHA JOLIMOHAR, DT-ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /04	25-Jul-77
750 DIPANKAR SETH S/O SRI KANAI SETH	WBSVC/315 5/05	SETH COLONY, KALIYAGANJ UTTAR DINAJPUR - 733129, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	26-May-83
751 DIPIKA BHARTI JOSHI D/o SH. SATOSH KUMAR-	HPSVC/733/ 05	HNO-127HILL VIEW, COR.SOC. JALEHRA NR POLICE LINE UNA, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	07-May-80
752 DIRUSALA TIRUMALA REDDY S/o VENKATAESWARLU	APSVC/4350 /05	MERELLA, MUNDLAMUR(M), PRAKASAM DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	07-Jun-80
753 DIVYA RANI D/o SHREE RANJEET KUMAR SINHA	BiharSVC/26 09/05	VILL/MUHALLAH - PASRAHA P.O. - PASRAHAR SUB-DIV - GOGRI DIST - KHAGARIA, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/05	01-Mar-81
754 DIVYA V. NAMBIYAR	KERALA/309 8/05	ANAND MEMUNDA P.O. VADAKARA KOZHIKODE 673104, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	16-Jan-81
755 DOLEY JUWAR S/o DIMBESWAR DOLEY	ASMSVC/22 12/05	C/O DIMBESWAR DOLEY, TANGANAPARA, BLOCK NO.3, PO&D DHEMAJI -787057, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AU/05	18-Dec-79
756 DR.S. JOSEPH CHANDRAN(S.SOOSAI NADAR)	TNSVC/1301 /05	194 / 31C / 9A. T.B. ROAD, KAMARAJ NAGAR, IV STREET, VALLIOOR 627 117, TIRUMELVELI DISTRICT.	B.V.Sc/TNAU/85	03-Jul-81
757 DURAI MOSCOWMALAR (W/o R.SHASTRI)	TNSVC/800/ 05	2 & 105, SUBRAMANIAN KOIL ST, KRISHNAPURAM, KRISHNAPURAM PO (VIA) RAJAPALAYAM, VIRUDHUNAGAR DIST. - 626 143TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	17-Jun-72
758 DURGA RAM S/o SHRI ATWAROO RAM MAURYA	UVC/171/06	C/OPRIYOJNA PRABANDHAK SAGHAN MINI DAIRY, SIMLY, CHAMOLI, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/01	20-Jun-70

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
759 DUSHYANT SHARMA S/o DR R.J.SHARMA	UVC/09/06	WARD NO-1/107, PHOOL BAGH PANTNAGAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/05	01-May-82
760 DUTTA (MS) PARIMITA D/o SRI KSHIRODE DUTTA	ASMSVC/22 22/05	C/OK.DUTTA, NAKARI WARD NO. 3 P.O.N.LAKHIMPUR, DT LAKHIMPUR, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	26-Oct-79
761 E. AMBETHKAR (A.ELLAN)	TNSVC/2908 /05	A20 / 78, T.N.H.B. QUARTERS, THIRUVALLUVAR ST, MADURANDAKAM 803 306, KANCHEEPURAM DISTRICT	B.V.Sc/TNAU/81	29-Dec-54
762 E. ANNAKODI (W/o. SADASIVAM)	TNSVC/17/0 2	PERIYA THOTTAMMOTHAIYANUR P.O, SANKARI WEST PIN - 637 303,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	22-Dec-77
763 E. CHANDRASEKAR (K.ESAKKI)	TNSVC/3113 /05	73, SRI SAKTHI NAGAR, TENKASI, TIRUNELVELI DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	16-Dec-60
764 E. GEETHA (K. ETTIKAN)	TNSVC/89/0 3	SOUTH STREET, MUTHUGAPATTY POSTNAMAKKAL PIN637 4TAMILNADU5	B.V.Sc/TNV&ASU /03	07-Jul-80
765 E. INBASELVI (K.EKAMBARAM)	TNSVC/45/0 3	168, X CROSS, PONNAGAR, TRICHY - 620001,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	31-May-77
768 E. JEYALAKSHMI (S.ELANGOVAN)	TNSVC/715/ 05	467 / C, RAILWAY QUARTERS, JOLARPETTAI, VELLORE DISTRICT, PIN 635 851,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	05-May-79
767 E. MARIAPPAN (R.ELLAPPA GOUNDER)	TNSVC/2499 /05	PULLAGOUNDAN PATTI POST, THEVUR VIA, SANKARI TK, SALEM DIST 837 104.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /88	03-Mar-65
768 E. PANNEER SELVAM (M.ELLAPPAN)	TNSVC/2631 /05	17, FIRST MAIN STREET, KAMARAJ NAGAR, THURAPADI, VELLORE - 2	B.V.Sc/TNAU/86	24-Apr-61
769 E. PERIANMAN (ETTIYA GOUNDER)	TNSVC/2452 /05	PAPPINAICKAN PATTI POST, SALEM ROAD, NAMAKKAL 637 003.,TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	05-Feb-50

SNUM NAME	RNUM.	ADD	QUALIF	DOB
770 E. PORKODI (KUZHANDAI EAKAVARASAN)	TNSVC/302/ 04	THENMOZHI ILLAM, M-85, PHASE-III, ANNA NAGAR, TRICHY 620 026. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	23-May-81
771 E. RAMYA MANICKAVALLIW/o. (M.MURUGAN)	TNSVC/1697 /05	10, ELLA RAJA MANICKAM STREET, POLICHALLOOR, CHENNAI - 600 074	B.V.Sc/TNV&ASU /01	13-Oct-78
772 E. RAVI (A.ELANTHIRAIYAN)	TNSVC/2401 /05	124-A, POOTAI ROAD, (OPP.TO POLICE STATION) SANKRAPURAM (PO&T.K.), VILLUPURAM DT 606 401, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	06-Jul-70
773 E. SAI RAVINDRANATH (E.G.SRINIVASULU)	TNSVC/374/ 04	NO.5, BHARATHI ST, TIRUTTANI 631 209, TIRUVALLUR DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Jul-79
774 E. SARAVANAN S/O K.ETTIKAN	TNSVC/3357 /06	SOUTH STREET, MUTHUGAPATTY (PO) NAMAKKAL (DT) PIN 637 405, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	3-Jun-81
775 E. SARAVANAN (G.ELAIYAPERUMAL)	TNSVC/258/ 04	122 A2 VELAYUTHA NAGAR, JAYANKONDAM, PERAMBALUR DT 621 802 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	21-Jun-78
776 E. SAROJA (D.SIVAKUMAR)	TNSVC/703/ 05	4 / 45, KOIYYA THOTTAM, MINNAKKAL P.O. RASIPURAM TK. NAMAKKAL DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	30-May-73
777 E. SELVAKUMAR (R.EKAMBARAM PILLAI)	TNSVC/2895 /05	B-4, J.R.R. BUILDING, 22, MAHADANA STREET, MAYILADUTHURAI 609 001, NAGAI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	10-Jun-55
778 E. SELVENDRAN (ERUSAGOUNDER)	TNSVC/512/ 05	THOPPAPALAYAM, P.K.PUDUR (PO), BHAVANI (TK) ERODE (DT) 638504 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	07-May-79
779 E. SUBBIAN CHETTIAR (S.ESAKKIMUTHU CHETTIAR)	TNSVC/2191 /05	XI -12-48, SOUTH STREET, KOTTARAM, AGASTEESWARAM TALUK, KANYAKUMARI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	24-Mar-61
780 E. SUGUNA (B.R.ETHIRAJ)	TNSVC/2127 /05	31/12, MALLEESWARAR KOIL STREET, MYLAPORE, CHENNAI-4.	B.V.Sc/TNAU/87	15-Apr-62

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
781 E. THANGAPANDIAN(K.ESWARAN)	TNSVC/757/05	B.10 / 31, MALLIGAI HOUSING BOARD, K.K. NAGAR, MADURAI 600 020, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	08-May-78
782 E. UDAYAKUMAR (C.ETHIRAJ)	TNSVC/3053/05	NO.44 / 29, THULUKKANATHAMAN KOIL STREET, ARAKKONAM 831 001, VELLORE DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	09-Nov-63
783 E. VIJAYAKUMAR (ETTIGOUNDER)	TNSVC/1381/05	1 / 37b, KOMARIPALAYAM P.O. MOHANUR (VIA) NAMAKKAL DISTRICT PIN 637 015, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	15-Jun-77
784 E. VIJAYARAGHAVAN (M.EASWARAN)	TNSVC/399/04	60.A, GANDHIPURAM, LAKKAMPATY, GOBICHETTIPALAYAM, ERODE DISTRICT, 638 452. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	23-Nov-80
785 E.BUVANENDRA BABU (G.ETHIRAJ)	TNSVC/2115/05	22-A, BAZAAR STREET, KURUMBALUR POST 821 107, PERAMBALUR DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	07-Jul-69
786 E.J. GNANADURAI JEYACHANDER (G.EDWIN DEVADOSS)	TNSVC/900/05	78 / 1-5, SCA COLONY, VIRUDUNAGAR. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	24-Jun-64
787 E.K. SELVARAJU (S.KARUPPANNAN)	TNSVC/2846/05	ELUPARANIYUR, SAVARIYAR PALAYAM POST, KOLATHUR 636 303, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/87	01-May-64
788 E.MAHALAKSHMI W/o. (P.SUBBURAM)	TNSVC/1823/05	7 / 67, PIONEER POULTRY GROUP, PONGALUR, 641 667, TIRUPUR TALUK, COIMBATORE DT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	25-May-70
789 E.P.SENTHIL KUMAR (V.PALANIYANDI)	TNSVC/571/05	3 / 49, SIVIYAMPALAYAM POST, NAMAKKAL DIST, PIN : 637 405. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jun-80
790 E.S.ASAN IBRAHIM (E.M.SINTHAMATHAR)	TNSVC/3119/05	206 / 76, PARASURAMAPURAM SOUTH STREET, KADAYANALLUR 627 751, TIRUNELVELI DT 827751, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	20-May-64
791 E.SYED MUSTHAFA (K.EBRAHIM)	TNSVC/1628/05	NO.42, TRICHY MAIN ROAD, THOTTIYAM 621 215 TRICHY DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	30-Apr-63

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
792	EBEBENI S/O THENUGBEMO	NSVC/198/0 5	C/O MRS.LILY MURRY,LECTURER MODERN COLL,KOIMA,NAGALAND	BVSc&AH/AAU/05	30-Aug-80
793	ESWARA REDDY VERUVA S/o CHANDRA SEKHARA REDDY, Y	APSVC/4353 /05	C/O K. SRINIVASA REDDY, D.NO.. 26- 33-81, VENKATA RAMANA COLONY, 5TH LINE, GUNTUR., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	05-Jul-81
794	F. BABU MANOHAR (S.C.FERGUS)	TNSVC/2147 /05	6, LEE STREET, NAGERCOIL, PIN : 629 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/64.	18-Aug-41
795	F.I. SHAD S/o MD. SHAHABUDDIN	BiharSVC/22 46/02	VILL SABJIBAGH PO-BANKIPUR THANA-PEERBAHOR SUB-DIV- PATNA SADAR DT PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 1	01-Mar-74
796	F.X.RAJESH KUMAR (M.F.FRANCIS)	TNSVC/2037 /05	1/132, THANGARAJ NAGAR, THIRUPAPULIYUR, CUDDALORE DT, 607 002.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	05-May-68
797	FALGUNI MRIDHA S/O SRI MAHANANDA MRIDHA	WBSVC/316 1/05	6/K 1A/1,A.K.DUTTA LANE PO.BALLY, DT. HOWRAH-711201, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	14-Feb-82
798	FELSON.P. FRANCIS	KERALA/304 9/05	PUTHUR HOUSE MULAMKUNNATHU KAVU P.O, NR ST. THOMAS CHURCH, THIROOR, TRISSUR, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	01-Apr-80
799	FINTON MISSIER (S.A.MISSIER)	TNSVC/2070 /05	54, ST. PETER KOIL STREET, TUTICORIN -1.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	21-Oct-59
800	FIROZ AHMED S/o SHREE TIPTU SULTAN ANSARI	BiharSVC/23 25/03	VILL - CLUB ROAD P.O. + THANA - AURANGABAD SUB-DIV- AURANGABAD DIST AURANGABAD, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	01-Mar-71
801	G. ABSAL (A.GHOUSE BASHA)	TNSVC/1539 /05	10 / 59A, EAGAMBARA PILLAI STREET, TINDIVANAM 804 001, VILLUPURAM DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	20-May-58
802	G. ANDHUVAN (V.GOPALAKRISHNAN)	TNSVC/2645 /05	MELA-KOLAKKUDI & POST NEYVELI - 2 (VIA) CUDDALORE TALUK, PIN 607 802,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	10-Aug-66

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
803	G. ANNAPOORANI (GURUPACKIAM)	TNSVC/14/0 2	6, SENGUTTUVAN STREET, SENTHIL NAGAR, CHENNAI 600 062 ,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	12-Apr-79
804	G. ARIVARASAN (K. GNANA PRAKASAM)	TNSVC/252/ 04	DOOR NO:2, BLOCK "A" FIRE SERVICE EMPLOYEE QTRS, MANALI, CHENNAI-68.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Jun-77
805	G. ARJUNPRASATH (K.GOVINDARAJAN)	TNSVC/387/ 04	7, KAMATCHI AMMAN KOIL STREET, GOBICHETTIPALAYAM, ERODE DISTRICT 638 452.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	17-Apr-80
806	G. AZHAGESAN (A.GOVINDAN)	TNSVC/1344 /05	NO.14, POONGULAM VILLAGE, ALANGAYAM VIA, VANIAMBADI TK, VELLORE DISTRICT, PIN : 635 701.	B.V.Sc/TNAU/86	30-May-61
807	G. BALAGURUNATHAN (S.GURUSAMY)	TNSVC/1489 /05	S.G. STREET, KALLIGUDI, THIRMANGALAM (TK) MADURAI DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	18-May-72
808	G. BALASUBRAMANIAM (S.S.GURUSAMY)	TNSVC/393/ 04	ANNAMADUVU, NEAR VET HOSPITAL), PACHAMPALAYAM POST, BHAVANI TK, ERODE DT, PIN : 638 314.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	07-Jun-80
809	G. CHANDRA SEKAR (P.GOVINDAN)	TNSVC/1101 /05	10 / 4-B, V.O.C. STREET, ALAGAPPAN NAGAR, MADURAI 625 003, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	02-May-67
810	G. CHRISTO PAUL ROY (R.GNANIAH)	TNSVC/2182 /05	"SKYLARK" 13, PAUL DANIEL STREET, WATER TANK ROAD, NAGERCOIL 629 001, KANYAKUMARI DISTRICT.	B.V.Sc/TNV&ASU /94	02-Mar-65
811	G. DEEPA LAKSHMI (S.GOPALSAMY)	TNSVC/502/ 05	C / O P.K. KUNJITHA PATHAM, NO.2, IRATTAI PILLAYAR KOIL ST, TRICHY, PALAKARAI (PO)	B.V.Sc/TNV&ASU /05	09-Jun-81
812	G. DHANARAJ(R.GOVINDARA JAN)	TNSVC/11/0 2	151, VELAYUTHAM STREET, THAVITTUPALAYAM, ANTHIYUR 638 501, ERODE DIST ,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	31-Jan-78
813	G. DINESH KUMARAN (R.GUGUSAMY)	TNSVC/405/ 04	A 87 / 2, MARUDHUPANDIYAR NAGAR, SIVAGANGAI 630 561.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	02-Mar-81

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
814 G. ELANGO (T.GOVINDASAMY)	TNSVC/2765 /05	20, ESWARAN KOIL STREET, DEVASTHANAM VILLAGE & POST, VANIYAMBADI 635 751.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	25-Sep-59
815 G. GANESAN (S.P.GOVINDAN)	TNSVC/3061 /05	SAMANUR (P.O.) PALACODE (T.K.) DHARMAPURI DISTRICT 636 806 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	20-Jul-81
816 G. ILANGOVAN (B.GOVINDARAJ)	TNSVC/2408 /05	NO.9, PHASE I TNHB, SATHUVACHERI, VELLORE - 832 009,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	01-Jun-52
817 G. JAMUNA S/O K.GENGAREDDY	TNSVC/3301 /06	NO.2/16D:METTU STREET, MUDUR & PO,ARAKONAM TALUK,VELLORE DIST,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	29-05-1982
818 G. JAYARAMAN (GOWRAPPA CHETTY)	TNSVC/1970 /05	PERIYAMPATTY POST, PALACODE TK, DHARMAPURI 835 205.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	02-Feb-58
819 G. JEBA SUJANA DHAS (L.GNANADHAS)	TNSVC/103/ 03	2 / 213, PARNATIVILLAI, COLACHEL POST,KANYAKUMARI DISTRICTPIN: 629 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	23-Sep-79
820 G. JEGADISAN S/O T.A.GANESAN	TNSVC/3441 /06	PALLIVAGAI NAGAR, ANGASAI S.O. LALGUDI TK, TRICHY DIST 621 303.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	5-Apr-59
821 G. JEYACHANDRAN (N.GURUSWAMY)	TNSVC/305/ 04	84, VIRUDHUNAGAR ROAD TIRUMANGALAM MADURAI DISTRICT - 625 706TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	02-Jun-78
822 G. JEYAPPAUL (K.GURUSAMY)	TNSVC/883/ 05	12 / 17K, PULITHEVAN STREET, MARUTHUPANDI NAGAR, MADURAI 625 002.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/71	04-Jan-49
823 G. JOHN VIJAYA SELVAN (J. GABRIEL DHARMARAJ)	TNSVC/997/ 08	A44, NEW HOUSING UNIT, PONNAVARAYANKOTTAI LUKKADAI, PATTUKKOTTAI, THANJAVUR DISTRICT 614 802.	B.V.Sc/TNAU/87	20-May-64
824 G. K. SAKTHIVEL (N.S.KARUPPAIAH)	TNSVC/435/ 05	GANAPATHI PALAYAM, ORUVANDUR POST, NAMAKKAL TK & DT., PIN : 837 016.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	14-May-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
825	G. KALAIARASI (W/O M.MURUGESAN)	TNSVC/3116/05	37A, VALLAVA VINAYAKAR KOVIL STREET, PULIYANGUDI 627 855, TIRUNELVELI DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89/05	18-Apr-67
826	G. KALAISELVI (N.GOVINDAN)	TNSVC/500/05	POOSARIPPATTY, NEERMULLI KUTTAI(PO), KOTTATHUPPATTY (VIA) SALEM (DT) 636139TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/05	23-Jul-80
827	G. KALAIVANI (W/O R.VENKTESH)	TNSVC/2176/05	P-6, ADYAR APARTMENTS, KOTTUR GARDEN, KOTTURPURAM, CHENNAI 600 085.	B.V.Sc/TNV&ASU/00	20-Jul-75
828	G. KAMALANATHAN (R.T.GOVINDAN)	TNSVC/700/05	E51, 15TH STREET, PERIYAR NAGAR, CHENNAI 600 082.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82/05	13-Jun-57
829	G. KANAGA SUBRAMANIAN (G.GURUSAMY)	TNSVC/282/04	154D, MUDANGIYAR ROAD, RAJAPALAYAM 626 117, VIRUDHUNAGAR DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/03	05-Jun-80
830	G. KANNAN (M.GNANASAMBANDAM)	TNSVC/2437/05	45, KANNARA LANE, MAVADIAN KOIL STREET, KARUR 639 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85/05	07-Jul-82
831	G. KARTHIK S/O N.GURUSAMY	TNSVC/3329/06	PALAYACHENNALKULAM, P. RAMACHANDRAPURAM (PO) RAJAPALAYAM (TK) 626 127 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/05	5-May-83
832	G. KARTHIKEYAN S/O M.GURUSAMY	TNSVC/3390/06	172, VINAYAKAR KOIL STREET, KARUNKALPALAYAM, ERODE 638 303.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/05	19-May-80
833	G. KARUNANIDHI S/O P.GANESAN	TNSVC/3562/06	GANDHI STREET, ARASAMPATTU (PO), SANKARAPURAM (TK) VILLUPURAM - 606 401, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/06	14-Jun-80
834	G. KOKILA S/O M.AKILRAJ	TNSVC/3466/06	SALEM MAIN ROAD, NALLAMPALLI POST, DHARMAPURI DIST, TN, PIN : 636 807.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/00	17-Jul-76
835	G. KOKILARANI (L.GANESAN)	TNSVC/323/04	150 / 2, GANDHI NAGAR, ATTUR 636 102 SALEM DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/04	13-Sep-81

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
836 G. KRISHNAN (GOVINDAN)	TNSVC/59/03	S / O. SANTHIKARAKALIAMMAL, NILAVOOR, YELAGIRI HILLSVELLORE DIST. 635 853TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	15-May-76
837 G. KUMAR (S.GOVINDASAMY)	TNSVC/845/05	9 / 69, VADAKKUPULIAMPATTI, VANNIKONANDAL VILLAGE, MELANARI KUDI PO, SANKARAN KOVIL TALUK, TIRUNELVELI DISTRICT.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	04-Apr-75
838 G. MALARKODI (K. GOVINDASAMY)	TNSVC/189/03	T.R. NAGAR, INDIAN BACK BACKSIDE, BARUGUR, KRISHNAGIRI TK, DHARMAPURIDT -635 104, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	03-Feb-80
839 G. MALATHI (R.GANESAN)	TNSVC/473/05	10/19, VAIDYANATHAN ST. SHENOY NAGAR, CHENNAI - 600030TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	05-Jun-61
840 G. MANGAMMAL (P.GOVINDASAMY)	TNSVC/541/05	MADHAHALLI, PAUPARAPATTI (P.O), DHARMAPURI DIST PIN 636 809TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	06-Jun-80
841 G. MANI (C.GOPALAKRISHNAN)	TNSVC/3214/05	B-19, NORTH EAST EXTENSION, SASTHIRI ROAD, THILLAI NAGAR, TRICHY 620 018TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/82	16-Jan-55
842 G. MANICKAM (K.GOVINDAN)	TNSVC/1179/05	407 / 1, SAKTHI NAGAR (OPP SANKAR THEATER), NARASOTHIPATTI, ALAGAPURAM PO, SALEM -4TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /91	11-Jun-63
843 G. MANICKAM (S.GURUSAMY)	TNSVC/1227/05	9-2, BHARATHINAGAR, 2ND METTU STREET, KOVILPATTI, THOOTHKUDI DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	27-Nov-61
844 G. MOHAN KUMAR (L.GURUSAMY)	TNSVC/2770/05	129 / 61A, RAJAJI 7TH STREET, THIRUMANGALAM, MADURAI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	07-Apr-67
845 G. MOHANRAJ (V.GOVINDASAMY)	TNSVC/319/04	POYERIPALAYAM, THALIGAI POST, VELAGOUNDAMPATTY (VIA) NAMAKKAL TK & DT. PIN 837 212	B.V.Sc/TNV&ASU /04	15-May-79
846 G. MOHANVEL (D.GNAVELU)	TNSVC/673/05	22 / 48, NORTH MUTHU STREET, TIRUPATTUR 635 601 VELLORE DIST., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	29-May-77

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
847 G. MURUGAN (P.GANAPATHY)	TNSVC/1221 /05	125, NGO NEW COLONY, TIRUNELVELI - 627007TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	20-Apr-68
848 G. MURUGAN(GANESAN)	TNSVC/1683 /05	242-A, SOUTH STREET, SATTANAHTAPURAM (PO), SIRKALI TALUK, NAGAPATTINAM DT. 609109,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	15-Jan-78
849 G. NAGABOOSANI W/o. (P.KUMAR)	TNSVC/1261 /05	NO.97, MANOHARAN STREET, CHENDHUR PURAM, KATTUPAKKAM, CHENNAI 600 056	B.V.Sc/TNV&ASU /93	20-Jan-70
850 G. NAINAPPAN (M.GOVINDASAMY UDAYAR)	TNSVC/2550 /05	DOOR NO.1, FIRST STREET, NATARAJAPURAM POST, NAMAKKAL TK & DIST 637 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	15-Apr-53
851 G. NEELAVANNAN (K.GANESAN)	TNSVC/3123 /05	66E3 / 3, IYYANTHOTTAM, B.KOMARAPALAYAM, NAMAKKAL DISTRICTTAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	16-May-69
852 G. PANDIAN (S.GOVINDARAJULU)	TNSVC/2395 /05	16/30, KAMARAJ NAGAR, VADUVOOR ROAD, MANNARGUDI POST, THIRUVARUR DIST, TAMIL NADU STATE.	B.V.Sc/TNAU/80	08-Jun-54
853 G. PARTHASARATHY MALLIAH(M.GANESAN)	TNSVC/1682 /05	3-1-B, GANDHINAGARAM STREET, CHDKALINGAPURAM, ARUPPUKOTTAI - 626101, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	09-May-61
854 G. PAUL FREDRICK (J.GNANADICKAM)	TNSVC/2130 /05	5, MALAR APARTMENTS, CHAKRABANI ROAD, MADUVANKARAI, GUINDY, CHENNAI- 32.	B.V.Sc/TNAU/75	12-Oct-51
855 G. PERIYASAMY (U.GOVINDHAN)	TNSVC/1415 /05	15, VETS NAGAR, NEELAMANGALAM X ROAD, KALLAKURICHI 606 202,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	15-Aug-65
856 G. PRABHU S/O V.GANESAN	TNSVC/3314 /06	27, SRI VISWANATHAR KOIL NORTH STREET, NAGAI ROAD, VEDARANYAM 614 810,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	2-Apr-82
857 G. PRASANNA (V.S.GOVINDARAJULU)	TNSVC/3028 /05	PLOT ND.42, ANDAL KARUNAI APTS., FIRST MAIN ROAD, ANDAL NAGAR, ADAMBAKKAM, CHENNAI 600 088	B.V.Sc/TNAU/88	01-Oct-66

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
858	G. PREMA (ALFRED P. MOSES SAM)	TNSVC/2142 /05	11A, UDYADI VILLAI STREET, WEST KALUNGADY, VADASERY, CBH POST, NAGERCOIL, K DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	01-Jul-61
859	G. PRITHIVIRAJ (M.GURUMOORTHY)	TNSVC/2805 /05	NO.24, RAGAVENDRA NAGAR, CHEKKAKUKANNI ROAD, KUMBAKONAM 612 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	15-Jul-55
860	G. PURUSHOTHAMAN (R.GOTHANDARAMAN)	TNSVC/3033 /05	PILLAYAR KOIL STREET, GURUVAMMAPETT, ENDIYUR P.O., TINDIVANAM T.K. PIN 604 002,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	01-May-70
861	G. R. SAMPATH KUMAR (G. RAJAMANI)	TNSVC/250/ 04	VALLI ILLAM' KARUPPASAMY KOIL STREET, GUDALUR 625 518.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	30-Jul-77
862	G. RADHA (P.K.GOPALSAMY)	TNSVC/1445 /05	207, K.R.R. NAGAR, THENI, THENI DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	15-Feb-55
863	G. RAJA (M.GANESAN)	TNSVC/1512 /05	6 / 1B, OLD KATPADI ROAD, VELLORE 632 004,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	21-Jan-71
864	G. RAMAKRISHNAN (R.GOVINDAN)	TNSVC/1896 /05	229-1, T.V.K. NAGAR, HARUR TK - 636903, DHARMAPURI DT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	20-May-66
865	G. RAMESH (V.T.GOVINDAN)	TNSVC/3249 /05	9 / 1, SATTAYAPPAR WEST STREET, NAGAPATTINAM, 611 001.TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/89	27-Jan-66
866	G. RATHEESH KANNAN (V.GURUSAMY)	TNSVC/3220 /05	MNO.14/12,BALAJI GARDEN EXTEN, RAGHAVENDRA AVENUE,S.M.PALAYAM, G.N.MILLS PO,COIMBATORE 641 029TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	05-Jul-75
867	G. RUBARANI (D.J.GUNASEKARAN)	TNSVC/483/ 05	ANNAI VELANKANNI RICE MILL, PVAIGAIGULAM (PO), THIRUMANGALAM (TK) MADURAITAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	04-Jun-80
868	G. SACRAVARTY (A.GOVINDARADJOU)	TNSVC/38/0 2	NO.28 / 14C, IYYASAMY MUDALI ST, TINDIVANAM, VILLUPURAM DIST-TAMIL NADU 604 001	B.V.Sc&AH/PU/02	07-Jun-78

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
869 G. SANKARANARAYAN(S. GOVINDASWAMY)	TNSVC/2768 /05	9 / 69, VADAKKU PULIAM PATTI, MELA NARIKUDI POST, VANNICONENDAL VIA, SANKARAN KOIL TK, NELLAI DT.	B.V.Sc/TNV&ASU /95	05-Jun-72
870 G. SARATHCHANDRA (G.JAYARAM)	TNSVC/1740 /05	No.22, GODAVARI STREET, GOMATHI NAGAR, SELAIYUR, CHENNAI 600 073	B.V.Sc/TNAU/89	01-Jan-64
871 G. SATHIYA BAMA (S.GOPALSAMY)	TNSVC/681/ 05	2-45.A, PAPPAYANAICKER PATTI, MALLI (POST) SRIVILLI PUTTUR TK, VIRUDHUNAGAR DT, PIN : 626 141.	B.V.Sc/TNV&ASU /02	07-Apr-78
872 G. SELLAMANI (M.GOVINDARAJU)	TNSVC/3014 /05	KALAGAM P.O. PERAVURANI TALUK, THANJAVUR DISTRICT PIN 614 804 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-Jul-81
873 G. SELVAKUMAR (E.GOVINDARAJ)	TNSVC/1479 /05	ATTUMEDU ALAMARAM, PONNARAMPATTI P.O. VAZHAPPADI (TK) SALEM DISTRICT PIN 636 115TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	10-Jun-76
874 G. SELVAM (V.GANAPATHY)	TNSVC/517/ 05	75 / A, THIRUVALLUVAR NAGAR, KATUKOODALLOOR ROAD, VAIDDHACHALAM, CUDDALORE DISTRICT, PIN : 606 001.	B.V.Sc/TNV&ASU /05	12-May-78
875 G. SENTHIL KUMAR(M.GANAPATHY)	TNSVC/69/0 3	OORKINARUTHOTTAM, PERIYA GOUNDAM PALAYAM, THINDAMANGALAM POSTNAMAKKAL D-637 001, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	16-May-76
876 G. SENTHIL VALAVAN (A.GOVINDAN)	TNSVC/2860 /05	10/18, CEYLON COLONY, AMMODR (P) WALAJAPET (TK), VELLORE (DT) TAMIL NADU (S) 632 501.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	05-Apr-76
877 G. SENTHILNATHAN S/O T.S.GANESAN	TNSVC/3377 /06	ND.755, KIELPUDUPAKKAM ROAD, SHIVAJI NAGAR, CHEYYAR 604 407, T.V.MALAI DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	5-Feb-82
878 G. SHANMUGA SUNDARAM (A.M.C.GOVINDARAJAN)	TNSVC/1400 /05	18 / 42, ANNAMALAI NAGAR, SEELANAICKENPATTY, SALEM 636 201TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	30-Sep-56
879 G. SHANTHI(V.GANESAN)	TNSVC/2397 /05	PARAIKADU, PALLIPATTY, BELUKURICHI POST, NAMAKKAL DIST 637 402. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	05-Jun-77

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
880	G. SIVAKUMAR S/O P.R. GOVINDARAJALU	TNSVC/3504/06	NO.32, PLOT NO.14, VALASARAVAKKAM AMBATTUR TALUK, THIRUVALLUR DIST- 600 087, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	24-Nov-50
881	G. SIVAKUMAR S/O T.GOVINDASAMY	TNSVC/3306/06	TIRUPATTUR T.K. VELLORE DISTRICT, PIN 635 853 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/05	13-May-83
882	G. SIYAM SUNDAR (K.GANESAN)	TNSVC/2034/05	137, MADASAMY KOIL MARAVAR NORTH STREET, RAJAPALAYAM, VIRUDHUNAGAR DIST TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/97	01-Jun-73
883	G. SRILAKSHMI (W/o. G. RAMESH KUMAR)	TNSVC/28/02	DHOOTHUREDDIYUR, POTTENERI P.O., METTUR T.K. SELEM DIST. 636453, TAMILNADU.	B.V.Sc/TNV&ASU/02	25-Jun-78
884	G. SRINIVASAN (K.GANESAN)	TNSVC/2068/05	FLAT NO.10, IIIRD FLOOR, 105, MEDAVAKKAM TANK ROAD, KILPUAK, CHENNAI - 10.	B.V.Sc/TNV&ASU/94	21-Jun-71
885	G. SRINIVASAN (K.V.GOPAL)	TNSVC/1398/05	NO.1-H, VIJAYARAGAVACHARIAR STREET, KOMARASAMPATTY, SALEM DIST. 636 007 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	07-Oct-49
886	G. SRINIVASAN (R.GOVINDARAJ)	TNSVC/1980/05	44, ALAGAR NAGAR, 5TH CROSS STREET, K. PUDUR, MADURAI 625 007, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/00	18-May-77
887	G. SUBBIAH (A.GANAPATHY)	TNSVC/1070/05	PLOT NO.24, THIRD STREET, POSTAL & TELEGRAPH NAGAR, MADURAI 625 017, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	04-May-59
888	G. SUBBROYAN (M.S.GOVINDASAMY)	TNSVC/1655/05	PLOT NO.60, ANNA STREET, EB COLONY, NAYERKOTTA ROAD, THANJAVUR 613 006, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	25-Feb-58
889	G. SUBHA (G.GANAPATHY)	TNSVC/2379/05	60-B, AMUDAPADI STREET, LITTLE KANCHIPURAM, KANCHIPURAM DIST 631 503, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/97	02-Mar-74
890	G. SUJITHRA (S. GURUSHEV)	TNSVC/456/05	OLO NO. 12-D, NEW NO. 53, WEAVERS COLONY, DHARMAPURI 636701 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/95	16-Oct-81

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
891	G. SUKUMAR(K.S.GOPAL)	TNSVC/2189 /05	OLDNO.10, NEW NO.37, MUNIKULAM STREET, TIRUPPATTUR, VELLORE DT, TAMIL NADU- 635 601.	B.V.Sc/TNAU/76	01-Oct-51
892	G. SUMATHI (C.GANESAN)	TNSVC/278/ 04	SAVANDAPUR PO, GOBI TK, PIN : 638 502.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	25-Jun-78
893	G. SUNDARA RAJ (C.GNANATHAMBI)	TNSVC/2195 /05	SUNGEETH BHAVAN, MUTHAPPAN CODE, ARUMANAI POST, KANYAKUMARI DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	10-Jun-63
894	G. SUNDARAMOORTHY (S.GANAPATHY)	TNSVC/1558 /05	EDAYAPATTI, ALAGAPURI PDBT, ALANGANALLUR VIA, MADURAI DT, 625 501.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	11-Jun-78
895	G. SURESH (P.GNANASURIYAN)	TNSVC/2974 /05	15 / 1, 1ST STREET, JOHN'S COLONY, GOPALAPURAM, VELLORE - 8 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	01-Jun-68
896	G. SUSILA (A.GENGIREDDY)	TNSVC/495/ 05	2 / 52, DHINNA BELLUR (PO), PENNAGARAM (TK), DHARMAPURI (DT) 636610, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	05-Jun-81
897	G. SWAPNA D/o GUDA KISTAPPYA	APSVC/4403 /05	HNO1-2-39, SWAPAN NILAYAM, SHANTINAGAR, ADILABAD, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/06	26-Jun-81
898	G. THIRUNAVUKKARASU (A.T.GOMATHINAYAGAM)	TNSVC/3117 /05	25, MASI STREET, ALWARTHIRUNAGARI (PO) 628 812 TUTICORIN DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	06-Oct-87
899	G. V. VELMURUGAN (G.B. VISWANATHAN)	TNSVC/233/ 04	3 / 164, C.P. KOIL STREET, VANGANOR POST, PALLIPET TK, THIRUVALLUR DT, 631 304.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	04-Jun-80
900	G. VANANGAMUDI (C.M.GOVINDARAJ)	TNSVC/2788 /05	JOTHI RICE MILL, SOMANDURAI POST, POLLACHI TK, COIMBATORE DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	14-Apr-55
901	G. VANDARKUZHALI (GUNASEGARAN)	TNSVC/411/ 04	NO.32, SENGUNDA PILAIYAR KOIL STREET, KURINJIPADI, CUDDALORI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc&AH/PU/04	18-Nov-61

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
902	G. VASANTHARANI (O.J.GUNASEKARAN)	TNSVC/329/ 04	ANNAI VELANKANNI RICE MILL P.VAGAIKULAM POST THIRUMANGALAM T.K. MADURAI DT. 625 529	B.V.Sc/TNV&ASU /04	22-May-61
903	G. VASUDEVAN (V.GANAPATHY)	TNSVC/1121 /05	NO.23, CHINNA PATTU, NOOLAKARA STREET, KOSAPALAYAM, ARNI 832 301.TAMIL NADU	B.V.Bc/TNV&ASU /98	24-May-74
904	G. VENKATASAMY (V.V.GOVINDAREDDY)	TNSVC/901/ 05	2-1-85, METTUPERUMAL NAGAR, T.VADIPATTY, MADURAI DT. 625 218TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	23-May-71
905	G. VENKATESAN (D.GANADARAN)	TNSVC/438/ 05	DOOR NO. 1 / 3, LALIGAN (PO) DHARMAPURI DT 636804TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	20-May-79
906	G. VENKATESAN (R.GOVINDARAJULU)	TNSVC/1059 /05	4.C.3, NAICKER NEW FIRBT STREET, EAST GOVINDAPURAM, DINDIGUL - 624 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	30-May-55
907	G. VENKATESH (P.GOVINDARAJULU)	TNSVC/1254 /05	2 / 45, MARI AMMAN KOIL STREET, TALAIVASAL - 836 112 SALEM DISTRICT TAMIL NADU	BV/Bc&AH/MPKV P/94	05-May-71
908	G. VENKATESH(A.V.GUNASE KARAN)	TNSVC/94/0 3	ACHALVADI PDST, HARUR TALUK, DHARMAPURI DISTRICTPIN : 636 9TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	01-May-79
909	G. VENUGOBAL S/O M.GUHAN	TNSVC/3313 /05	140, CAR STREET, ANTHIYUR - 638 501, ERODE DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	25-Apr-82
910	G. VIJAY KANTH S/O A.GOVINDHARAJAN	TNSVC/3298 /05	D/50, RAJIV NAGAR, VALAJANAGARAM POST, ARIYALUR DIST- 621 701.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	1-Apr-82
911	G. VIJAYAKUMAR (P.GANESAN)	TNSVC/3085 /05	3 / 25, BAYAKKADU, KOOTHAMPOONDI (PO) THIRUCHENGODE (TK), NAMAKKAL- 637 202 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-Jul-82
912	G.A. SANTHI (M.GANESAN)	TNSVC/474/ 05	76 / 1, ELANGO STREET, SIVAGIRI - 636109 ERODE-DTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	28-Sep-80

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
913	G.B. PRABHAKARAN (G.B. BALAGURUNATHAN)	TNSVC/2079 /05	NO. 5, 25TH STREET, NANGANALLUR, CHENNAI 600 061.	B.V.Sc/TNAU/78	27-Oct-48
914	G.GAVIDAMAN	PONDISVC/2 70/05	18, CANNAL STREET PITCHAVEERAMPET, PONDICHERRY- 605010	B.V.Sc & AHPU/05	17-Feb-80
915	G.GOVINDASAMY (K.GOVIN DASAMY)	TNSVC/2286 /05	MUTHANOOR, ETTIYAMPATTY P.O. HARUR (TK), DHARMAPURI DISTRICT 636 903, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	20-Jul-74
916	G.KALEELUR RAHMAN (M.A. GHANI)	TNSVC/1216 /05	4/65, NEW STREET, SEYDUNGANALLUR (PO), THOOTHUKUDI DT - 628809 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	18-Dec-56
917	G.KRISHNARAJ (S.GOVINDARAJ)	TNSVC/2687 /05	9-A, E.V.R. ROAD, PUTHUR, TRICHY - 620 017, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	15-Jun-49
918	G.MURUGAN (GURUSAMY)	TNSVC/1834 /05	KADANERI (VPO), T.KALLUPATTI (VIA), MADURAI DISTRICT, PIN 625 702, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	05-Jun-64
919	G.R.PALANISAMY (K.RAMASAMY)	TNSVC/2453 /05	KADAKKARAIYANUR, KANAKKAPATTI POST, NANGAVALLI TK, SALEM 636 454, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	30-Apr-70
920	G.RALSTON SEBASTIAN EDWARD (S.GEORGE EDWARD)	TNSVC/1751 /05	KANAHAPPAPURAM, ANJUGRAMAM POST, KANYAKUMARI DISTRICT 629 401, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	01-Jul-69
921	G.S. AYYASAMY (G.M.SRINIVASAN)	TNSVC/1044 /05	20, ANNAMALAI STREET, AMMAPET (PO), SALEM DT 636 003, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	22-Sep-62
922	G.S.GANESAN (G.SOUNDARARAJA ACHAR)	TNSVC/1826 /05	NO. 8, PUMP HOUSE ROAD, UNNAMALAI CHETTY CHAVADI, KONDUR P.O. CUDDALORE 607 002 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	31-Mar-57
923	G.SELVAPERUMAL (R.GOPALAKRISHNAN)	TNSVC/2289 /05	15/B, KANNIYAMMAN KOIL STREET, CHEYYAR P.O. TIRUVANNAMALAI DT - 604407, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	02-Feb-57

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
924	G.SELVAPRIYA (D.SWAMINATHAN)	TNSVC/1009 /05	SILAMBAGAM, 13TH WARD, THARAMANGALAM PO SALEM DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	26-Jun-70
925	G.SOMASUNDARAM(R.GO VINDAN)	TNSVC/1787 /05	1/93-3, ROSE NAGAR, SOUMIYA NARAYANAPURAM, DEVAVAMPUR ROAD, PUDUKATTAMPUR, THIRUPATHUR, SIVAGANGAI DISTRICT	B.V.Sc/TNAU/87	08-Jul-65
926	G.UGANDER REDDY S/o G. HANUMANTH REDDY	APSVC/4420 /05	1-13-115/4, RAJENDRANAGAR, MAHABUBNAGAR 509001, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	17-Sep-80
927	G.V.SUDHAKAR RAO S/OG.RAJAGOPAL RAO	TNSVC/3506 /06	26, RANI ENCLAVE APARTMENTS, 36, KUTTIAAPAN THERU, KELLYS- 600 010, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	12-Jun-64
928	G.VENKATESWARAN (S.E.GAJARAJAN)	TNSVC/2283 /05	32-G/8, VETTAVALAM ROAD, TIRUVANNAMALAI PIN 606 601, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	18-May-67
929	G.VIVEK (R.GURUSAMY)	TNSVC/1358 /05	29 / A, KOVALAN STREET, E.B.COLONY (WEST), TEACHERS COLONY, ERODE 638 011, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	25-Mar-77
930	GABBAR SINGH BISHT S/o SHRI DAYAL SINGH BISHT	UVC/131/06	VILL MAIRAB KHAS PATTI, JAKHNIDHAR, DISTT TEHRI GARHWAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/RAU/9 9	01-Jun-76
931	GADARA ARVINDKUMAR B.	GUJSVC/262 1/06	TO. DHRANDADA, POST SOYAL, VIA DHROL, TA. & DIST JAMNAGAR, PIN 381210, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	23-Jan-83
932	GADHAVI SANDIPKUMAR J.	GUJSVC/266 4/06	AT MOTETA, PO. JALOTRA TA VADGAM, DIST BANASKANTHA, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	05-Jul-82
933	GAGAN GARG S/o VINOD PAL GARG	RajSVC/3226 /06	VETERINARY HOSPITAL BARAP TEH BHIM RAJSAMAND, RAJASTHAN	BVSc&AH/GBPU A&T/98	06-Sep-75
934	GAGANDEEP KAUR D/o SH. IQBAL SINGH	PbSVC/2632/ 06	B-IV, 397, SIMBLE CHOWK, GT ROAD, BATALA, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	12-Sep-81

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
935 GAGHUVVEER PRASAD MARUTI RAO	KARNASVC/ 3728/	C/O SHRI JAGADAMBI KRUPA, BRAHMPUR COLONY, B.V.B.ROAD, BIDAR- 585403, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/08.	02-Aug-82
936 GANESH SINGH PARIHAR S/o SHRI BALWANT SINGH PARIHAR	UVC/75/08	VILL SYUNI, P.O.QUAIRALLY TEH& DT BAGESHWAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/03	01-Jun-80
937 GANGADHARIAH.B.P. S/o PARWATHIAH.B.K.	KARNASVC/ 3782/	BALABASAVANAHALLY, THARUR POST, SIRA TALUK, TUMKUR DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	11-Jun-82
938 GANTTALU N RAMANUJAM (R.NAMMALVAR)	TNSVC/1228 /08	97, JOTHI NAGAR, II ST., KOVILPATTI 628801 THOOTHUKUDI DT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	02-Mar-82
939 GAOKHORA NANDKUMAR S/o GANGADHARRAO	APSVc/4302 /05	H.NO. 301, BIDRELLY, MUDHOL(M), ADILABAD DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H./MA& FSU/05	20-Mar-81
940 GARG ARINDOM S/o MANIK CHANDRA BHATTACHARJEE	ASMSVC/22 19/05	C/O MANIK CH. BHATTACHARJEE, N.N.B.ROAD AMOLAPATY, NAGAON, DT NAGAON, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	28-Feb-80
941 GARIMA KATOCH D/o SH. DILBAG KATOCH	HP8VC/731/ 05	HOTEL MONA-SITA VILL.&P.O. GHAMUNDA MANDER DISTT. KANGRAHIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	18-Nov-79
942 GARIMA SHARMA D/o RAKESH KUMAR SHARMA	MP8VC/2315 /08	C/O HARI OM MEDICAL STORE, TILAK CHOWK VIDISHA VIDISHA 484001, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/IGKV/ 05	04-Apr-80
943 GAURAV SINGHAL S/o RAKESH KUMAR	Raj8VC/3220 /08	F-87 SECTOR 14 HIRAN MAGRI UDAIPUR, RAJASTHAN	BVSc&AH/MA&F SU/08	10-Jul-80
944 GAURI SHANKAR BISHT S/o LATE SHRI DHARMA NAND BISHT	UVC/80/08	VILL GULOLI, P.D AMYARI, RANIKHET, DISTT ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/82	04-Nov-87
945 GAVISWAMY.N. S/o NANJAPPA.V.S.	KARNASVC/ 3818/	VADDAGERE, GUNDLUPET TALUK, CHAMARA.NAGAR DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	16-Feb-83

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
946	GEDIA KISHORBHAI V.	GUJSVC/262 2/06	KHODIYARKRUPA P.P.SHERI, STATION ROAD, AT CHALALA, TA DHARI, DT AMRELI, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	15-Dec-80
947	GEETA SHARMA D/o SHRI R.D.SHARMA	UVC/143/06	7751/11, TA COLONY, PANTNAGAR DT U.S.NAGAR,UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/97	26-Jun-75
948	GEETANJALI DAS S/O SRI BASUDEV DAS	ORISSASVC /2014/05	AT- MANINATHA PUR, PD: SOLAMPUR, VIA: JAJPUR TOWN DIST BHADRAK 755001, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	20-Oct-77
949	GHANSHYAMKUMAR	GUJSVC/262 3/06	NITIN NIKETEN, NAYATOLA, SPEAKER CHWOK, MUZAFFARPUR BIHAR 842001	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	10-Jan-83
950	GHODASARA SANJAY N.	GUJSVC/264 4/06	NANJIBHAI R.GHODASARA SAJJANPAR (NAVA).TA. MORBI, DT RAJKOT, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	16-Jun-82
951	GIRIRAJ GOYAL S/o SHRI KALYAN CHAND GOYAL	MPSVC/2294 /05	CHANDRA COLONY, NAWAB SAHIB ROAD, NEAR VIRENDRA SHARMA ADVOCATE SHIVPURI, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /06	23-Mar-82
952	GIRISH CHANDRA MATHUR S/O SRI DHYAN PAL SINGH MATHUR	ORISSASVC /2019/06	AT/PO - J.N.V. BELPADA, BOLANGIR, PIN - 767026, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /06	06-Aug-80
953	GIRISH KUMAR S/o TEJPAL SINGH	RajSVC/3222 /06	GULAB BAGH BARI ROAD DHOLPUR, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	21-Sep-77
954	GOBINDA ADAK S/O SHRI BANKIM ADAK	WBSVC/319 3/06	VILL CHISTIPURVERI P.O.BARMAKSHAL DT. MIDNAPUR - 721434, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	25-Apr-83
955	GOGOI (MS) SWAPNA D/o LATE M.R.GOGOI	ASMSVC/22 32/06	LICHUBARI SIXMILE HOUSE NO 21, KHANAPARA GHY-22, ASSAM	B.V.Sc&A.H/AAU/ 00	10-Jul-75
956	GOGOI (MS.) JUMI S/o MR. CHITENDRA KR GOGOI	ASMSVC/22 25/06	C/O MR. CHITENDRA KR. GOGOI, LACHIT NAGAR SISSAGAR, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	31-Dec-79

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
957	GOGOI (MS.) NINITA S/o MR. SARAT GOGOI	ASMSVC/22 28/05	BUNGLOW NO. D-135, OIL INDIA LTD. DULIAJAN, PIN 786602, ASSAM	B.V.Sc & A.H/AAU/05	09-Sep-78
958	GOGOI AMULYA KUMAR S/o LATE NANDESWAR GOGOI	ASMSVC/22 39/05	SURAJ NAGAR KHANAPARA GUWAHATI-22 (NEAR CENTRAL SCHOOL), ASSAM	B.V.Sc & A.H/AAU/04	28-Jul-58
959	GOGOI KAMAL CHANDRA S/o MR. BHUGESWAR GOGOI	ASMSVC/22 09/05	VILL HONDIQUIC MILLON GAON, PO: CHIMEN CHAPARI, DT. DHEMAJI, ASSAM	B.V.Sc & A.H/AAU/05	06-Oct-77
960	GOGOI RUPAM KUMAR S/o LATE KESHAB CH. GOGOI	ASMSVC/22 23/05	MILAN NAGAR WARD NO. 5 NORTH LAKHIMPUR, DT LAKHIMPUR- 787001, ASSAM	B.V.Sc & A.H/AAU/05	25-Apr-80
961	GOPAL PATRA S/O SRI SUKDEV PATRA	WBSVC/818 9/05	VILL SOUTH SHIBPUR P.O. DEHNIBUS, DT. 24 PRGS PIN - 743357, WEST BENGAL	BVSc & AH/WBUA &FS/05	10-Dec-81
962	GOSWAMI AMITABEN A.	GUJSVC/268 5/06	14, BHERAVNAGAR SOCIETY PATAN PIN 384265, GUJRAT	BVSc & AH/SKDAU /06	05-Oct-82
963	GOVIND KUMAR CHAUDHARY S/o R.K CHAUDHARY	BiharSVC/23 73/03	VILL - DUMRI P.O. - AFJAL BALIA THANA - BIRAU. SUB-DIV - BIRAU, DIST - DARBHANGA, BIHAR	BVSc & AH/BAU/03	10-Aug-76
964	GOWRI THIRUPATHY (N. THIRUPATHY)	TNSVC/1776 /05	BEARIKODI, MADAVARAM POST, THIRUPATTUR (T.K.) VELLORE DISTRICT PIN 635 653, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV & ASU /89	25-Jun-87
965	GURDEEP SINGH S/O SH TARLOCK SINGH	HARSVC/187 /05	TVPO, GUMTHALA CAIRHU, DISTT. KURUKSHETRA, HARYANA	B.V.Sc & A.H/CCS HAU/05	05-Apr-80
966	GURIQBAL SINGH NAYYAR S/o SH.H.SINGH NAYYAR	PHSVC/2639/ /06	45, SECTOR-4, RANJIT AVENUE, AMRITSAR, PUNJAB	BVSc & AH/PAU/05	17-Aug-81
967	GURU PANDIYAN (S. GURUSAMY)	TNSVC/2293 /06	H-81, KOOTARPALLI COLONY, TIRUCHENGODE 637 214, NAMAKKAL DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV & ASU /01	25-Jul-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
968	GURUDUTT JOSHI S/O SH UDAI NARYAN JOSHI	HARSVC/186 0	H NO. 1072, SECTOR - 13 (P) HISAR, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	17-Jul-81
969	GURUNATH GOUDA PATIL S/o NAGAGOUDA	KARNASVC/ 3715/	VANAHALLI POST, MUDDABIHAL TALUK, BIJAPUR DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	02-Jun-81
970	GURUVA REDDY ANNAPU REDDY S/o VENKATA REDDY	APSVC/4325 /05	H.NO. 13-1-247, 13TH WARD, MACHERLA, GUNTUR DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	15-Aug-81
971	GUTHIKONDA DHANALKASHMI W/o SRIIVASA RAO	APSVC/4307 /05	F-16, SANGEETA APRA., GAYATHRINAGAR, VIJAYWADA-520 008., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc/TNVASU/9 1	27-Sep-67
972	GYAN CHANDRA KUMAR ARYA S/o SHREE RAM SWAST YADAV	BiharSVC/24 84/04	VILL/MUHALLAH - SOIMA P.O. BAHARANWA THANA - BARH SUB- DIV - BARH DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	14-May-73
973	H. ARUNMOZHI DEVAN (K.HARKRISHNAN)	TNSVC/1935 /05	3 / 592, RAYAPPA MUDALI STREET, KRISHNAGIRI - 635001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79.	06-Feb-56
974	H. JAFERIN S/O G.HAYATH KHAN	TNSVC/3302 /06	42, NARASOJI RAO STREET TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	12-May-62
975	H. MASTHAN (B. HAJA MOHIDIN)	TNSVC/37/0 2	33, KUYAVAR ST, KOTTAKUPPAM, VANUR TALUK, VILLUPUR DIST- 605101	B.V.Sc&AH/PU/02	26-Dec-73
976	H. MOHAMED ZULFARALI, (K.HABIBUR RAHMAN)	TNSVC/1952 /05	716, CAUVERY ROAD, ERODE - 638001, ERODE DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	04-May-63
977	H. MOHAN(P.HARIDOS)	TNSVC/2046 /05	PE. PONNERI, PENNADAM, TITTAGUDI TK, CUDDALORE DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	05-Oct-65
978	H. PRABHAVATHY (M.HARIKRISHNAN)	TNSVC/3051 /05	NO.35 / 38, M.S.NAGAR, II STREET, CHETPET, CHENNAI 600 031	B.V.Sc/TNV&ASU /05	04-Aug-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
979	H. SRIDHARAN (A.HARIKRISHNAN)	TNSVC/2800 /05	113, KAMARAJ SALAI, KORADACHERI 613 703.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	01-Nov-52
980	H.ARIHARA THIRU RAJUMAR(P.HARIRAM)	TNSVC/2279 /05	20/A4, KANNADASANSTREET, INDIRA NAGAR, POLUR 606 803	B.V.Sc/TNV&ASU /00	30-Jun-77
981	H.G.S.JEBARAJ (P.HENRY DEVASAHAYAM)	TNSVC/3077 /05	H-58, KAMARAJAR SALAI, PERUMALPURAM, TIRUNELVELI 627007 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	15-May-58
982	H.K.M.REKHAR S/o H.K.MALLINATH	KARNASVC/ 3735/	RANGANATH HIGH SCHOOL, PANJIGANAHALLI GATT, LAKSHMISAGARA PO SIRA TALUK, TUMKUR DT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	25-May-83
983	H.M. DAYANANDA S/o MAHADEVIAIAH	KARNASVC/ 3770/	HETHANAHALLY VILLAGE, GULUR PO, TUMKUR TALUK AND DT - 572118, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	15-Jul-82
984	H.R. MUTHUSELVI (W/O C.ANBARASU)	TNSVC/2446 /05	NO.1, SOZHIA MUDALIAR STREET, MOHANUR 637 015, NAMAKKAL DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	24-Dec-77
985	H.S.MADHU SUDHAN S/o N.SLBBE GOWDA	KARNASVC/ 3813/	HONNENAHALLY PO, BELLUR HOBLI, NAGAMANGALA TALUK, MANDYA DT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	02-Jun-82
986	HANAMANTANYAMA GOUDA S/o NAGAPPA NYAMA GOUDA	KARNASVC/ 3721/	RONIHAL POST,BASAVANABAGEWADI TALUK,BIJAPUR DISTRICT., KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Jun-79
987	HANNAHJANE CORBETT S/o ROBERT ANTONY CORBETT	KARNASVC/ 3806/	CUPA,257, 1ST CROSS, HAL 2ND STAGE, INDIRANAGAR, BANGALORE - 560038, KARNATAKA	B.Vet.Med/UNI OF LONDON/01	21-Sep-77
988	HANS RAJ CHAUHAN S/o SUNDER LAL	RajSVC/3218 /06	NEAR POST OFFICE PILIBANGAN HANUMANGARH, RAJASTHAN	BVSC&AH/RAU/0 5	16-May-80
989	HANSRAJ JANGIR S/o HARJI RAM JANG	RajSVC/3201 /06	SUWADIA KA BASS POST JAYAL NAGOUR, RAJASTHAN	BVSC&AH/RAU/0 5	05-Sep-78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
990	HARESH CHOWBEY S/o SHREE RAJESHEE CHOWBEY	BiharSVC/22 96/03	VILL - BHADHI P.O + THANA - KAITYA SUB-DIV - HATHUA DIST - GOPALGANJ, BIHAR	BVSc&AH/CSKHP KVV/01	09-Dec-77
991	HARIHAR DHURUA S/O SH KABINDRA DHURUA	ORISSASVC /1978/05	SAHASPUR, VIA-LAIKERA, DIST JHARSUGUDA, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	09-Jun-78
992	HARINANDAN KUMAR S/o SHREE SATYA NARAYAN PRASAD CHAUDHARY	BiharSVC/22 84/03	VILL - BHAWANPURA TOLA P.O+ THANA - CHAUSA SUB - DIV -UDA KISHUNGANJ DIST - MADHEPURA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/9 9	16-Nov-68
993	HARIS GIRISH(G.GIRISH KUMAR)	TNSVC/1991 /05	NO.39 / 3, IIND STREET, I.C.F. EAST COLONY, I.C.F., CHENNAI 600 038	B.V.Sc/TNV&ASU /01	28-Feb-77
994	HARISH GOYAL S/o SH. RAMESH KUMAR GOYAL	PbSVC/2622/ 05	COAL DEPOT HOLDER, OPP PHC SHERPUR THANA, SANGRUR., PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	13-Sep-82
995	HARIVANSHI SINGH PARIHAR S/o SHRI DHAVAJ SINGH PRIHAR	MPSVC/2296 /05	F-113/60, SHIVAJI NAGAR BHOPAL, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /80	06-May-53
996	HARMANPREET SINGH DHALIWAL S/o SHRI HARDEV SINGH DHALIWAL	UVC/81/06	VETY OFFICER,GOVT.VETY HOSPITAL,BHANOLI,DT-ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/RAU/0 1	27-Jul-75
997	HARSIMRAN KAUR D/o SH. DIADAR SINGH	PbSVC/2631/ 05	TAGORE NAGAR, OPP BAJWA PETROL PUMP, HOSHIARPUR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	09-Mar-81
998	HARSIMRAN SINGH S/o SH JOGINDER SINGH	PbSVC/2599/ 05	113, STREET NO. 2, MITHAPUR CANTT ROAD, JALANDHAR.CITY, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	18-May-82
999	HARWINDER SINGH S/o SH. HARDEEP SINGH	PbSVC/2625/ 05	VPO GONEANA TEHSIL & DISTT MUKTSAR 152026, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	21-Jul-82
1000	HAZARIKA APURBA S/o MR. JAGNESWAR HAZARIKA	ASMSVC/22 10/05	B.V.F.C. NAMRUP, P.O. PARBATPUR, QTR.NO 124/A/A, DIST. DIBRUGARH, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	04-Aug-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1001	HEMA D/o SHRI KALYAN SINGH BANOLA	UVC/154/06	MAICHUN (BARACHHINA), ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/03	05-Jul-77
1002	HEMENDRA KUMAR SHARMA S/o SHRI LAKHAN LAL SHARMA	UVC/174/06	O/O CHILLING PLANT, KAMERI, DIST- BAGEHWAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/RAU/99	10-Nov-75
1003	HIREMATH BASAVARAJ S/o HIREMATH GURUBASAYYA	KARNASVC/3714/	O/O SWAMY TIMBER MERCHANT, NR WATER TANK, INDIRANGAR, TALIKOTE, MUDDEBIHAL TALLUK, BIJAPUR, DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	22-Jul-82
1004	HOWARD DEMONTE (ANTHONY DEMONTE)	TNSVC/780/05	10, T.V.K. NAGAR, PUTHUR - TIRUCHIRAPALLI 620 017 TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	27-Sep-47
1005	I. AMUTHAVALLI S/O LIYYATHURAI	TNSVC/3327/06	5-99, PALLUVILAI, PARAKKAI POST, KANYAKUMARI DISTRICT PIN 629 601, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	26-Jul-83
1006	I. CHINNA THURAI (C. SWARA MOORTHY)	TNSVC/1108/05	2/442, PARIJATHAM STREET, GOMATHIPURAM, MELAMADAI, MADURAI 625 020 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	10-May-56
1007	I. MOHAMED IRSATH (M.C.M ISMAIL)	TNSVC/524/05	3/2, DR. LUCAS STREET, PUDUPET, VRIIDHACHALAM 606 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	21-Nov-73
1008	I. PANDY (M. INNASIMUTHU)	TNSVC/1514/05	7/14, PARASAKTHI NAGAR, MUNDANGIAR ROAD, RAJAPALAYAM, VIRUDHU NAGAR DT 626117, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	06-Apr-66
1009	I. PONNU PANDIAN (I. IRULANDITHEVAR)	TNSVC/1211/05	95-E, REDDIAPATTI, ELAYIRAMPANNAI (PO), VIRUDHUNAGAR (DT) 626201 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	10-Apr-74
1010	I. PREMSHEELA (C. IRUDHAYAM)	TNSVC/368/04	5/398, TATA NAGAR, NALLAMPATTI (PO) DHARMAPURI (DT) 636807, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	29-Jul-80
1011	I. RAJAMATHANA GOPALAN (V. IRULAPPAN)	TNSVC/2767/05	61, MUDALIAR STREET, THALAVAIPURAM PO, RAJAPALAYAM VIA, VIRUDHUNAGAR DT 626 188, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	02-Feb-72

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1012 I. RAMA CHANDRAN (IYYAN PILLAI)	TNSVC/1094 /05	39 / 7-H, VALMIGI STREET, S.S. COLONY, MADURAI - 625 016TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/71 /03	15-Nov-44
1013 I. SENTHIL KUMAR (A.IRULANDY)	TNSVC/46/0 3	14 / 38, BRIYANT NR, TENTH STREET,SOUTH POLICE LINE, THOOTHUKUDI 628 ,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	20-Jul-78
1014 I. SURESH (S. IYYAPILLAI)	TNSVC/12/0 2	15 / 1, MURUGA BHAVANAM, FIRST STREET, KAKKAN NAGAR,PALAYAMKOTTAI 627 353,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	24-May-78
1015 I. SYED ALI (A.MOHAMED ISMAIL)	TNSVC/990/ 05	173-A, T.B ROAD, KAMARAJ NAGAR, 4TH STREET, VALLIOOR, TIRUNELVELI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89 /00	04-Feb-65
1016 I. THANABALAN (A.IRULANDI)	TNSVC/2904 /05	GRT GARDEN, NEAR LITTLE FLOWER CONVENT, PAVITHRAMANICKAM, THIRUVARUR,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85 /00	15-Jul-62
1017 I. VIJAYARAGAVAN (R.IRULAPPAN)	TNSVC/992/ 05	390.A, MUTHUPETTAI ROAD, NADIMUTHU NAGAR POST, PATTUKKOTTAI 614 602.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	01-Jul-76
1018 I.MURUGESAN (V.IRULAPPAN)	TNSVC/2344 /05	NEAR STATE BANK 8TH WARD, SAPTUR P.O. 625 705, PERAIYUR T.K. MADURAI DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	05-Nov-70
1019 I.S. JAYA SINGH (I. ISAIAH)	TNSVC/1555 /05	KANDALTHOTTAM, HOUSE, MEENACHIEL KALIYAKKAVILA, KANYAKUMARI DIST-629153,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79 /00	06-Oct-55
1020 IMRAN ALI S/o MD. SAHABUDDIN	BiharSVC/23 06/03	VILL - BAKARGANJ BAZAR P.O + THANA - BANKIPUR THANA - BIRBOHORE SUB-DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	09-Apr-77
1021 INDRA PRAKASH SHUKLA S/o SATYA NA	RajSVC/3227 /06	11/80 KAYASTHPARA BAJARIYA ROAD DHOLPUR, RAJASTHAN	BVSC&AH/KVA& FSU/05	10-Jun-80
1022 INDU TRIPATHI D/o W.O.S.N. TRIPATHI	KARNASVC/ 3814/	PMO OFFICE, HEAD QUARTER TRAINING COMMAND, J.C.NAGAR PO, HEBBAL, BANGALORE- 560006, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	14-Dec-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1023	ISHTIYAK AHMED S/o SIKANDER ALI	RajSVC/3234 /06	VPO NUA JHUNJHUNU, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	05-Apr-77
1024	ISLAM JOHIFUL S/o JOBEDUR RAHMAN	ASMSVC/22 14/05	MOFFIZUDDIN AHMED, P.O.SARTHEBARI, VILL. SARTHEBARI, PIN - 781307, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	21-Sep-80
1025	J. AMAN SHIV SHARMA S/o SH. JOGINDER PAL SHARMA	PbSVC/2626/ 05	ANAND NAGAR B-I, BOH ROAD P/O BOH,AMBALA CANTT,PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	27-Sep-82
1026	J. ANBALAGAN (V.JEYA)	TNSVC/1444 /05	130C, ARASU NAGAR, BACKSIDE OF DURAIYAPPA MILL, PALANICHETTYPATTI (PO) THENI DT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	17-Apr-65
1027	J. ANTO MANOHAR (S.M.JOSEPH)	TNSVC/2058 /05	20/5, ANTO COTTAGE, T.KALLIKULAM, TIRUNELVELI DIST 627 113.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	04-Jun-70
1028	J. BABY NIRMAL (M.JAYAPPAUL)	TNSVC/1627 /05	2 / 15A, BAJANAI MADAM STREET, PULIVALAM 621 006 TRICHY DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	10-Apr-67
1029	J. BALAMURUGAN (K.JEGANMOHAN)	TNSVC/3132 /05	13 / 1, SUGADOSS MONDY STREET, BABU ROAD, TRICHY 600 002.TAMILNAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	25-May-70
1030	J. CRUZ JAYASEELAN (M.JOSEPH)	TNSVC/297/ 04	35, MGR NAGAR, KUPPUCHIPALAYAM PO, VANGAL VIZ, KARUR DT 639 116.TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	14-Sep-79
1031	J. OAVID SAM GURUPATHAM(S.JOEL)	TNSVC/2646 /05	14, SECONO STREET, E.B.COLONY, GANOHI NAGAR, VELLORE 632 006,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	19-Mar-54
1032	J. ESWARAN (K.JEYABALAN,	TNSVC/3171 /05	29, IIIRO CROSS STREET, E.V.S. NAGAR, TIRUVARUR 610 002TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	07-Oct-65
1033	J. GULZAR PARVEEN (H.A. JAMIL AHAMEO)	TNSVC/181/ 03	68A, TNHB, VIRUPATCHIPURAM, OHARMAPURAI 636 705.TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	31-Oct-78

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1034 J. JAGADESAN (M.JAYARAMAN)	TNSVC/486/ 05	50 AIB GANDHI NAGAR, VELLANDIVALASAI (PO), IDAPPADI (TK), SALEM DTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	23-Jul-81
1035 J. JAYAKUMAR (R.P.JAYAPAL)	TNSVC/1884 /05	33, WEST COLONY STREET, RASIPURAM (PO), NAMAKKAL (DT) 637408, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	18-Jul-73
1036 J. JEBARANI (K.DUSHYANTHAN)	TNSVC/2923 /05	20, ARUL NAGAR, 1ST STREET, MMC POST, CHENNAI 600 051	B.V.Sc/TNAU/87	22-Apr-62
1037 J. JEYABALAN (G.JEBAMANI)	TNSVC/2318 /05	IDAICHIVILAI POST, OUTTHAN THARUVAI (VIA) TUTICORIN DT -628 656, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	14-Apr-71
1038 J. JEYASEKHARAN DAVID (D.JOHN ROSE)	TNSVC/2144 /05	335, JOSHUA STREET, NAGERCOIL, KK DIST, TAMIL NADU 629 001.	B.V.Sc/TNAU/86	25-Mar-61
1039 J. JOHN SURESH THASAN (K.JESUDASAN)	TNSVC/1986 /05	2 / 129, MUTHU RAMALINGAPURAM, KALLURANI POST, ARUPPUKOTTAI TK, VIRUDHU NAGAR DT, PIN : 626 105.	B.V.Sc/TNV&ASU /93	20-May-70
1040 J. JOSEPH DIXON (S.JAMES RAJ)	TNSVC/2850 /05	ST. MICHAEL STREET, T.KALLIKULAM 627 113, TIRUNELVELI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	01-Jun-60
1041 J. JUSTIN JEBA KUMAR (N. JOHN ROSE)	TNSVC/208/ 03	No. 1/67, J.T. VILLA, MATHAR, CHENKODI POST, KANYAKUMARI DT, PIN : 629 177. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	17-Aug-78
1042 J. LYDIA (D.JOTHI SINGH DAVID)	TNSVC/523/ 05	151, 2ND MAIN STRET, NESAMONY NAGAR, NAGAR COIL 629 001. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	03-Nov-81
1043 J. MAHINDIRAN (N.JANARTHANAM)	TNSVC/1914 /05	P. NADUPATTI (PO), SINGARAPETTAI (VIA), UTHANGARAI (TK), KRISHNAGIRI (DT) 635307, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	10-Jun-68
1044 J. MALLIGA (K.M.JAGANATHAN)	TNSVC/525/ 05	AVALANIKENPATTI PO, SELLAPPAMPATTI VIA, NAMAKKAL 637 019. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	24-Jun-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1045	J. MANOHAR SUNDER RAJ (S.JOEL)	TNSVC/2640 /05	338, M.G.C. NAGAR, ALAMELUMANGAPURAM, VELLORE 632 009, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	21-Dec-56
1046	J. NAGESWAR RAO (R.JAYARAMAN)	TNSVC/3067 /05	19, ALAMELU NAGAR, MADURAI - 17, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	11-May-57
1047	J. NAVANEETHA KRISHNAN (S.JEYARAMAN)	TNSVC/1074 /05	10, T.B. ROAD, BHARATHIDASAN SALAI, MADURAI - 10. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	31-May-66
1048	J. PANDIYAN (M.JAYARAMAN)	TNSVC/2975 /05	NO.1, CHAIRMAN MUNISWAMY STREET, ARCOT, VELLORE DISTRICT PIN 632 503 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	15-Oct-52
1049	J. PRASANNA (P.V.JOTHI)	TNSVC/1347 /05	99-A, 5TH CROSS, HAYATH NAGAR, TIRUPATTUR, VELLORE DISTRICT, PIN : 635 601. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	25-Mar-66
1050	J. RAGHULS/O D.JAYAPRAKASH NARAYAN	TNSVC/3496 /06	88, LAKSHMI NAGAR, NEMILICHERRY, THIRUNINRAVUR 602 024. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /051	5-Feb-77
1051	J. RAJAGOPAL (R.JAGANNATHAN)	TNSVC/970/ 05	C-98, 'HARINI NIVAS', BELL NAGAR, R.E.C.POST, TIRUCHIRAPPALLI 620 015, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	09-Jul-61
1052	J. RAJARATHINAPANDIAN (P.JANAHAMAHARAJAN)	TNSVC/1303 /05	A7B, 1ST FLOOR, GANDHIJI ROAD, NRT NAGAR, THENI POST, THENI DISTRICT, PIN : 625 531., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	27-May-69
1053	J. RAJESH KUMAR (K.JEGADEESAN)	TNSVC/911/ 05	3A, LGB COMPOUND, DINDIGUL 624 001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	15-May-73
1054	J. RAMESH (N.JAYABALAN)	TNSVC/1274 /05	E1, SHRIMATHI APARTMENTS, NO.7, JONEHAN LANE, SANTHOME, CHENNAI 600 028	B.V.Sc/TNV&ASU /00	02-Jun-75
1055	J. RAVI (K.JOTHI)	TNSVC/3185 /05	ANNAMALAI NAGAR, MALUMACHAMPATTI, SIDCO (P.O.) COIMBATORE 641 021 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	28-Jul-70

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1056 J. ROOBA (A.JAYAPRAKASHAM)	TNSVC/529/ 05	KAMARAJ NAGAR, RAMANAICKAN PALAYAM PO, ATTUR TK, SALEM DT PIN - 636 108. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-May-81
1057 J. RUTH SOPHILA S/O P.SATHYA KUMAR	TNSVC/3470 /06	13F/3, KELLYS ROAD, RANIPET 632 401, VELLORE DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	1-Oct-66
1058 J. SAMUEL JEBARAJ VEDAMUTHU (V.JESUDIAN) /05	TNSVC/1438 /05	12 / 25, IMMANUEL ILLAM, VOC NAGAR 3RD STREET, BODINAYAKANUR 625 513, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	14-May-60
1059 J. SENTHIL KUMAR (G.JAGANNATHAN)	TNSVC/475/ 05	MELPUDUR, CHENNAGUPPAM P.O., RHOSHA CAMPUS, VELLORE 632209 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	23-Jun-82
1060 J. SENTHIL KUMAR (R.JAGANATHAN)	TNSVC/851/ 05	6 / 3, BHARATHI NAGAR, KOTTATHUR POST, THURAIYUR TALUK, TIRUCHIRAPALLI DISTRICT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	14-May-77
1061 J. SHANMUGAM (JADAYAN)	TNSVC/2886 /05	294 / 2, H.I.G. "B" TYPE, BELLY COURT, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI 600 040.	B.V.Sc/TNAU/75	05-Jun-49
1062 J. SUDHAKAR (S.JEYAMANI)	TNSVC/384/ 04	MAIN ROAD, VARAGUR POST, NAMAKKAL DT, PIN : 637 021, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	01-Apr-81
1063 J. TALBERT DAWSON (V. JESUDAWSON)	TNSVC/3218 /05	NO.38 / 703A, 27TH STREET, SHANTHI NAGAR, PALAYMKOTTAI, TIRUNELVELI 627 002 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/75	10-Jun-51
1064 J. UMA MAGESWARI (N.JAYAKUMAR)	TNSVC/106/ 03	NO.6, VINAYAGAR STREET, TEACHERS COLONY, LAKSHMIPURAM, CHENNAI 600 , TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	16-Jun-80
1065 J. VIJAY ANAND S/O.S.JAYABAL	TNSVC/3379 /06	SOUTH STREET, AMMAPALAYAM POST, PERAMBALUR DIST 621 101. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-Oct-79
1066 J. VIJAYAKUMAR (G.JEYABALAN)	TNSVC/1503 /05	NO.23, PAVADI STREET, KAMUTHI 623 603, RAMNAD DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	31-May-78

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1067	J.AMAN SHIV SHARMA S/O SH JOGINDER PAL SHARMA	HARSVC/190 4	ANAND NAGAR, B (I), BOH ROAD, AMBALA CANTT, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/PAU /05	27-Sep-82
1068	J.CARLYLEJEGANATHAN (JOHN GNANAPRAGASAM)	TNSVC/1771 /05	X-17, KOVAI PUDUR, KUNIAMUTHOOR, COIMBATORE - 42TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	10-Mar-43
1069	J.DHANYA JOSEPH	PONDISVC/2 72/05	28, 7TH CROSS, KURINGI NAGAR, PONDICHERRY-8	B.V.Sc & AH/PU/05	13-Jun-82
1070	J.GOVINDARAJAN (V.JAYARAMAN)	TNSVC/1929 /05	M-98, 11TH CROSS, GANDHI NAGAR, NEW ASTC HUDCO, HOSUR - 635 109, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	28-Jul-68
1071	J.H. DANIEL RAJENDRAN (M.JOSEPH HENRY)	TNSVC/2434 /05	PLOT NO.38-39, ASHOK NAGAR EXTN. PUDUKOTTAI 622 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	14-Mar-53
1072	J.JESUDASON (M.JOHN)	TNSVC/2686 /05	C27, 11TH CROSS, THILLAI NAGAR, TRICHIRAPALLI 620 018, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/70	05-Aug-41
1073	J.K. NAGARAJAN (J.KRISHNAMOORTHY)	TNSVC/841/ 05	127 / 277, VENKAYAMMAL STREET, THUMMICHAMPATTI, ODDANCHATRAM 624 619, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	19-Apr-77
1074	J.KAMAL HUSSAIN (J.JABBAR)	TNSVC/1871 /05	98, FIFTH MAIN ROAD, C.I.T. NAGAR, NANDANAM, CHENNAI 600 035	B.V.Sc/TNV&ASU /94	15-Jul-71
1075	J.RAVICHANDRAN(A.JAG ADEESAN)	TNSVC/1766 /05	No.11, SRI MUNIYANDY NAGAR MAIN ROAD, ALANGANALLUR P.O. MADURAI DISTRICT 625 501, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	05-Oct-64
1076	J.SAI PRASANNA D/o NARSIMHA REDDY	APSVC/4415 /05	HNO. 4861, MIG PHASE II, BHEL, RAMACHANDRAPURA, HYDERABAD 502032, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	09-Sep-82
1077	J.VASANDHAN	PONDISVC/2 64/05	5, IIND CROSS, MULAI NAGAR, ORLIANPET, PONDICHERRY-5	B.V.Sc & AH/PU/05	28-Sep-80

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1078	J.VINU DAVID SAMUEL RAJKUMAR (D.JESUDASS)	TNSVC/1805 /05	36 / 31, 9TH STREET, NEW BETHLEHEM, AMBUR, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	22-Jul-68
1079	JAGADEESH.S.K. S/o KALIRAJU.S.R.	KARNASVC/ 3758/	SREERANGAPURA POST, PAVAGADA TALUK, TUMKUR DISTRICT - 572136, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Jun-82
1080	JAGADHEESH KUMAR. B S/o VENKAIAH	APSVC/4316 /05	C/O B.P.SARATHI, P.C.NO.140, D.NO.9- 239/12, POLICE QTR, TADEPALLI, GUNTUR DT- 522 501, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	04-Jun-82
1081	JAGANNATH BHAR S/O SRI NEPAL CH. BHAR	WBSVC/316 2/05	VILL & P.O. RAJBALHAT DT. HOOGHLY - 712408, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	28-Mar-82
1082	JAGDISH PRASAD YADAV S/o SHRI RADHE SHYAM YADAV	MPSVC/2289 /05	J.P. COLONY, AJNAS ROAD KHATEGAON DEWAS, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	17-Jul-67
1083	JAGMOHAN SINGH S/o SHRI BHAGI RAM	UVC/06/06	VILL FARI, P.O.GANGTARI, DISTT UTTARKASHI UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/05	06-Apr-68
1084	JAI PRAKASH YADAV S/o SHRI ALGOO YADAV	UVC/98/06	VILL PRATAPPUR, P.O. SARASARIA, DISTT UDHAM SINGH NAGAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/04	30-Jun-77
1085	JAI RAM S/o SH. SHOBHI RAM	HPSVC/750/ 05	VILL-RALABAG, PODEOTHI MAJGOON THE RAJGARH DT SIRMOUR -171226, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	13-Dec-80
1086	JAI SINGH RATHORE S/o VIKRAM SINGH	RajSVC/3217 /06	H.NO. 5-17 MAHAVEER NAGAR KOTA-5, RAJASTHAN	BVSc&AH/KVA& FSU/05	07-Nov-79
1087	JANAKI RAO MADASU S/o KOTESWARA RAO	APSVC/4320 /05	AMBEDKAR COLONY, DHARANIKOTA, AMARAVATHI (M), GUNTUR DT-522020, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	01-Jul-80
1088	JASPREET KAUR D/o SH. TARSEM SINGH	PbSVC/2586/ 05	H.NO. 2151-B, SECOR 42-C, CHANDIGARH., PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	16-Jul-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1089	JASPREET KAUR SOHAL D/o SH. BARJINDER SINGH SOHAL	PbSVC/2624/ 05	68, MANSARIA COLONY, PATIALA, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	26-Jul-81
1090	JASPREET SINGH ARORA S/o JITENDRA SINGH ARORA	MPSVC/2282 /05	56, PREM NAGAR, MADAN MAHAL JABALPUR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /03-04	17-Jul-79
1091	JATINDER PAL SINGH S/o MR. JASVIANT SINGH DODD	PbSVC/2640/ 06	200-B, BRS NAGAR, LUDHIANA, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/83	22-Jul-55
1092	JAY KUMAR TIWARI S/o SHREE DINANATH TIWARI	BiharSVC/23 51/03	VILL - BANGARA P.O. - NARHAWA SUKAL THANA - KUCHAIKOT SUB- DIV - DIST - GOPALGANJ, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	10-Feb-78
1093	JAYANTHI KANNAN BABU (W/O KANNAN BABU)	TNSVC/2104 /05	NEW NO.15, 18TH AVENUE, ASHOK NAGAR, CHENNAI-83.	B.V.Sc/TNAU/78	09-Apr-53
1094	JAY PRAKASH SINGH S/o SRI CHEDI PRASAD SINGH	BiharSVC/22 66/03	VILL - RANI DIYARA P.O. - RANI DIYARA THANA - PEERPAINTI SUB - DIV - KAHALGAON DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 0	06-Dec-74
1095	JEETENDRA NARAYAN MOHARANA S/O SH N.C. MOHARANA	ORISSASVC /1987/05	AT/PO-KANPUR, VIA-D.J. PUR, DIST - KEONJHAR, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	04-Jul-80
1096	JEETENDRA SHEKHAR NAYAK S/O TRIBIKRAM NAYAK	ORISSASVC /2035/05	AT/PO-DHANUPALL(RAJIB PALLI), SAMBALPUR,, 768100, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	30-Jun-79
1097	JEEVAN KUMAR SINGH S/o SRI SATISH PRASAD SINGH	BiharSVC/22 44/02	VILL-TANGORE PO-TANGORE THANA -AZAMNAGAR SUB-DIV- BARSOYE DT- KATIHAR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 0	20-Feb-76
1098	JESSY MATHEW	KERALA/304 2/05	PULIMOOTTIL HOUSE, AKG NAGAR, PEROORKADA, TRIVANDRUM - 695005, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	23-May-80
1099	JESTO GEORGE	KERALA/305 9/05	MANAVALAN HOUSE, ALANGAD P.O. ALUA, ERNAKULAM 883511, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	13-Jun-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1100	JEVYA.M. S/o SOOBYA.M	APSVC/4394 /05	VETY.ASST.SURGEON,VET DISPENSARY,GOPALPET, MAHABOONNAGAR DT. ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	02-Apr-79
1101	JHALA NILAMBEN B.	GUJSVC/262 4/06	B.NO. 1212, SHAKTI KUNJ SHIVAM SOCIETY, SECTOR 27 GANDHINAGAR, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	10-Jan-83
1102	JHALA SHIVRAJSINH K.	GUJSVC/262 5/06	NEW C-6, KHETIWADI CAMPUS ANAND PINCODE - 388110, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	25-Feb-83
1103	JHANSI RANI TAPASWI S/O SRI MANAMATH NTH TAPASWI	ORISSASVC /2004/05	AT: KANCHANIBAG VIA - SUNHOT DIST: BALASORE, PIN - 756002, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	04-Jan-74
1104	JIMCY JOSEPH.	KERALA/301 1/05	EMBRAM PURATH HOUSE, KUNDUKAD P.O. TRISSUR - 680028, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	06-May-82
1105	JINESH KUMAR N.S.	KERALA/302 5/05	J.J.BHAVAN, UZHUVA, PATTANAKKAD P.O, CHERTHALA, ALLEPPEY,KERALA	BVSc&AH/KAU/05	31-Oct-80
1106	JINJALA GHANSHYAMBHAI N.	GUJSVC/262 6/06	AT KOTADI PARA, TA. RAJULA, DIST AMRELI, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	01-Mar-81
1107	JINU MARY JOHN	KERALA/302 0/05	CHERIYANKUNNEL HOUSE,PADINJANTTINKARA PO,KADAPLAMATTAM (VIA),KOTTAYAM,KERALA	BVSc&AH/KAU/05	31-Mar-81
1108	JITENDRA KUMAR BHOLA S/o SRI RAM AYODHYA SINGH	BiharSVC/22 45/02	VILL-GOH (NEW AREA)PO-GOH THANA -GOH SUB-DIV-DAUDNAGAR DT AURANGABAD, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 0	15-Jun-78
1109	JITENDRA KUMAR SINGH S/o SHREE DINANATH SINGH	BiharSVC/23 41/03	VILL - MAHESUYA P.O. - KURASAN THANA - BHABUYA SUB-DIV - BHABUYA DIST - BHABUYA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	27-Jul-77
1110	JITENDRA SINGH GUSAIN S/o SHRI MOHAN SINGH GOSAIN	UVC/36/06	UPPAR KALA BARH. KOTDWAR, DISTT PAURI GARHWAL, UTTARANCHAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/96	05-Oct-70

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1111 JIVAN KUMAR S/o SHREE CHANDRESWAR RAM	BiharSVC/24 52/04	VILL/MUHALLAH - PRANPUR P.O. - SAWNA THANA - BARHARIA SUB- DIV SIWAN DIST - SIWAN, BIHAR	BVSc&AH/BAU/04	30-Nov-73
1112 JOHN BARNABAS SAMPSON S/o GEORGE JOSEPH SAMPSON	KARNASVC/ 3807/	CUPA, 257, 1ST CROSS, HAL 2ND STAGE, INDIRANAGAR, BANGALORE - 560038, KARNATAKA	B.Vet.Med/UNI OF LONDON/95	30-Jul-72
1113 JOJY ALBERT	KERALA/307 3/05	OTTAPANAVILA HOUSE, NR PLANTHOTTAM, THIRUPURAM PO. NEYATTINKARA TRIVANDRUM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	03-Feb-81
1114 JULIUS DANIEL (J.S.DANIEL)	TNSVC/1602 /05	20 / 103, SUPER GARDEN, VADAVALLI, P.N. PUDUR (PO), COIMBATORE - 641 041TAMIL NADU	B.V.Sc/M.U/62	30-Jul-39
1115 JYOTHILAKSHMI S/o H.E.VENKATARATHNAIAH	KARNASVC/ 3764/	KIRAN STOTES, SIRA, TAUMKUR DISTRICT, SIRA - 572137, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Jun-82
1116 JYOTHISH SANKAR	KERALA/303 1/05	KAZHUNGIL PADINJARETHIL, KURUMALA P.O. CHELAKKARA, TRISSUR-680586, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	19-Oct-80
1117 JYOTI S/o SHRI DEVENDRA KUMAR SHARMA	UVC/132/06	VILL NAGANI, P.O. NAGANI NEAR CLHAMBIA DISTT TEHRI GARHWAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/04	30-Dec-82
1118 JYOTINDRA NARAYAN S/o SHREE PARMANAND SINGH	BiharSVC/23 92/03	VILL - R.M.M. COLONY P.O. - LOHIAYANAGAR THANA - KANKARBAGH SUB-DIV - PATNA DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	02-Jan-76
1119 K. ALAGARASAN (N.KALIMUTHU)	TNSVC/2551 /05	11/A1, ANNA STREET, SOUTH UDAYAR PALAYAM, ATTUR TK, SALEM DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	22-Nov-55
1120 K. ALAGARSAMY (A.KARUPPASAMY)	TNSVC/2232 /05	SILARPATTY POST, T.KALLUPATTY VIA, MADURAI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	15-Apr-51
1121 K. ALAGUMURUGAN (K.KANAPATHY THEVAR)	TNSVC/577/ 05	S.SALUPPAPATTY KUDISERI POST, SAPTUR VIA, MADURAI DT, 625 705.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-May-82

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1122 K. AMBALAVANAN (S.KUPPUSAMY)	TNSVC/1336 /05	238, Y-BLOCK, 6TH MAIN ROAD, ANNA NAGAR, CHENNAI 600 040.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/64.	08-Jun-41
1123 K. ANBALAGAN (H.R. KULLAPPAN)	TNSVC/1957 /05	DN.O.35, BAZAAR STREET, HARUR POST, DHARMAPURI 636 903.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	15-Jun-50
1124 K. ANBALAGAN S/OM.KANDADAMY	TNSVC/3333 /06	KARAIKURICHIPUDUR, KARAIKURICHI P.O. NAMAKKAL (TK)&(DT) 637 014 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	9-Jun-82
1125 K. ANBARASAN (R.KANDASAMY)	TNSVC/510/ 05	KUTTA GOUNDAMPATTY POST GOVT ENGINEERING COLLEGE (VIA) OMLAUR (TK) SALEM (DT) 636011	B.V.Sc/TNV&ASU /05	16-Apr-81
1126 K. ANBUMALAR (A.KUNNIMALAI SAMY)	TNSVC/2924 /05	PLOT NO.12, KUMARAN KUDI, THURAIPAKKAM, CHENNAI 600 096	B.V.Sc/TNV&ASU /96	12-Mar-73
1127 K. ANDICHAMY(A.KAMU)	TNSVC/2091 /05	DIET QUARTERS, T.KALLUPATTY, PERAIYUR TK, MADURAI DT.,TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNV&ASU /01	12-Jun-77
1128 K. ANNADURAI (V.KATHAN)	TNSVC/563/ 05	MANATHAL POST, M.OLLAIPATTY, OMALUR TK, SALEM DT 636 503.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	11-Jun-81
1129 K. ANTON ROSELINE (S. JESUPACKIAM)	TNSVC/101/ 03	111 / 11 / 2B, STATE BANK COLONY, TUTICORIN - 2,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	08-Jun-79
1130 K. APPUSWAMY(KARUPPA MAISTRY)	TNSVC/33/0 2	NO.80C, GLEN ROCK, GIRIAPPA LAYOUT, OOTYNILGIRIS 643 00TAMILNDU	B.V.Sc/TNAU/77	19-Oct-48
1131 K. ARAVINDAN (A.KANDASAMY)	TNSVC/1361 /05	BOMMAI KUTTAI MEDU, SELLAPPAMPATTY P.O. NAMAKKAL DT. - 637 018,TAMIL NADU	BVScA.H/MPKV/9 3	25-Jul-70
1132 K. ARAVINTHAN (T.KASIRAJAN)	TNSVC/1320 /05	30, MUTHUSAMY PILLAI STREET, NEAR HEAD POST OFFICE, RAJAPALAYAM 626 117.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	03-Mar-71

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1133	K. ARIPRASATH (G.KARUMANIDHI)	TNSVC/273/ 04	147 / A, ARIYAPUTHIRA GOUNDAR NAGAR, KURULAGAM CHINA PUDUR , SALEM 636 007. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	10-Jun-80
1134	K. ARIVALAGAN (K.KARUPPASAMY)	TNSVC/3239 /05	12-A, THENDRAL NAGAR, RAJAPALAYAM TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/88	15-Feb-63
1135	K. ARJUNAN (N.P.KADRVEL)	TNSVC/2578 /05	NADUPALAYAM, METTUPALAYAM POST, VELLA KOVIL VIA, ERODE RMS 638 111. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	10-Apr-59
1136	K. ARUMUGA PERUMAL (A.KOLUSU PILLAI)	TNSVC/2188 /05	KULASEKARA PURAM & POST, (VIA) MYLAUDY, KK DIST, PIN : 629 403. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	28-Jul-62
1137	K. ARUMUGAM (P.KRISHNAN)	TNSVC/1314 /05	NO.88, SEEYAMANGALAM, DESUR POST, VANDAVASI TALUK, TIRUVANNAMALAI DT, PIN : 604 501.	B.V.Sc/TNV&ASU /02	03-Jun-79
1138	K. ATHINAMILAGI PANDIAN (K.KANDASAMY)	TNSVC/936/ 05	29 / 7, T.V.A. NAGAR, VATHALAGUNDA ROAD, BEGAMBUR, DINDIGUL 624 001 TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	08-Jan-48
1139	K. AYYAPPAN (K.KARIMUTHU)	TNSVC/662/ 05	THAMARANKOTTAI-WEST, PATTUKOTTAI T.K. THANJAVUR DIST. 614 613, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-May-77
1140	K. BALAJI (D.K.KESAVANAIDU)	TNSVC/590/ 05	NEW NO. 7 / 28, GANESH COLONY, KELAMANGALAM POST, DENGANIKOTTAI TK, KRISHNAGIRI DISTRICT 635 113.	B.V.Sc/TNV&ASU /05	12-Jun-80
1141	K. BALAJI S/O M.KRISHNAMOORTHY	TNSVC/3307 /06	SUBRAMANIYAR KOVIL STREET, KACHIRAYAPALAYAM PO. KALLAKURICHI T.K. VILLUPURAM DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	1-Jul-83
1142	K. BALASUBRAMANIAN (N.M.KARUPPANAN)	TNSVC/2538 /05	25; BHAGAVATHY STREET, THANNEER PANDAL PUDUR, KUGALUR POST, GOBICHETTY PALAYAM TK, ERODE DIST 638 313.	B.V.Sc/TNAU/85	26-Jul-62
1143	K. BASKARAN S/OV.V.KARUPPANAN	TNSVC/3389 /06	VELAM PALAYAM, SINGANALLUR POST, KAVINDAPADI VIA, ERODE DIST, 638 455. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-May-82

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1144 K. BHARATHI (K.NITHYIANANTHAN)	TNSVC/716/ 05	141, NUTRUMPALLI ROAD, JOLARPETTAI, VELLORE DISTRICT PIN 635 851, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	15-May-78
1145 K. BOOMINAATHAN (KAMATCHI)	TNSVC/3247 /05	19, POOLUR SANKARALINGAM CHETTIYAR STREET, CHOCKKALINGAPURAM, ARUPPUKOTTAI PO, VIRUDHU NR DIST. TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/78	11-Dec-54
1146 K. BOOPAL (P.KARUPPANNA GOUNDER)	TNSVC/342/ 04	KOVILUR KATTU KOTTAI, PULIKKARAI (PO), PALACODE (TK), DHARMAPURI (DT) 636808, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	01-May-80
1147 K. BOOPATHY (N.KRISHNASWAMY NAIDU)	TNSVC/1298 /05	KATTINAMCHEVAL THAYILPATTI P.O. SIVAKASI VIA, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	05-Jun-51
1148 K. BRINDHAW/o. (C.S.NARAYANAN)	TNSVC/1495 /05	2A, 'SWAGATHAM' SEETHARAM NAGAR II STREET, KODUNGAIYUR, CHENNAI 600 118	B.V.Sc/TNV&ASU /98	29-Mar-75
1149 K. CHELLASAMY (KURUSAMY)	TNSVC/1657 /05	464, BANKER'S COLONY, THIRUVALLUVAR NAGAR NORTH, RAJAPALAYAM 626 117, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	03-May-57
1150 K. CHINNASAMY (KANJA NACIKER)	TNSVC/2521 /05	21, PUDU MANJALA NAICKANUR, NAGALUR POST, ANTHIYUR VIA, BHAVANI TK, ERODE DIST 638 501.	B.V.Sc/TNV&ASU /96	12-Sep-72
1151 K. CHINNASAMY (M.KAVERI)	TNSVC/1901 /05	NO.2 / 602, MARIAPPAN GOUNDER ST, NELLINAGAR, KUMARASAMPETTAI (PO), DHARMAPURI	B.V.Sc/TNAU/88	03-May-62
1152 K. CHINNUSAMY (M.KALIAPPAN)	TNSVC/1177 /05	3 / 36, MUTHUGAPATTY, MUTHUGAPATTY POST, NAMAKKAL DIST, PIN : 637 405. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	30-Jul-67
1153 K. DEVAKI W/o. (K.SENTHILKUMAR)	TNSVC/1368 /05	E-4 / 12, FIRST MAIN ROAD, OTTERI EXTENSION, VANDALUR, CHENNAI 600 048, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	07-Oct-72
1154 K. DEVIPRIYA (P.A.KARUMALAISAMY)	TNSVC/3060 /05	PUDHUPALAYAM, KANNADIPALAYAM (P.O.) BHAVANI (T.K.) ERODE DISTRICT 638 314 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	06-May-82

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1155 K. DHANASEKARAN (M.KANDASWAMY)	TNSVC/1049 /05	3 / 131, SARASWATHI ILLAM, V.O.C. NAGAR, AMMAPET, SALEM636 014, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	12-Oct-51
1156 K. DHANASEKARAN (V.KOOTHAN)	TNSVC/938/ 05	LAKSHUMI NAGAR, PERIYAR COLONY, NILAKKOTTAI TALUK, DINDIGUL DT, 624 215.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	05-May-66
1157 K. DHAVAMANI (M.KAILASAM)	TNSVC/1102 /05	PLOT NO.3, NELLAIYAPPAPURAM, 7TH STREET, PANDIYAN NAGAR, THIRU NAGAR, MADURAI - 6. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	01-Jun-66
1158 K. DHINAKARBABU (O.A.KANAGASABAI)	TNSVC/1426 /05	13, III CROSS STREET EAST, SHENOY NAGAR, CHENNAI 600 030	B.V.Sc/TNAU/78	24-Jun-53
1159 K. ELAMURUGAN (K.KRISHNAMOORTHY)	TNSVC/290/ 04	KODANKUDI (N.ST), ANAIKKUDAM (PO, K.KARUPPUR (VIA), UDAYARPALAYAM TK, PEREMBALUR DT 612 902.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	25-May-80
1160 K. ELAYARASAN (P.KARUPPAN)	TNSVC/1921 /05	B-24, TAMILNADU HOUSING OARD QUARTERS, THERPET, HOSUR - 635 109, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	09-May-67
1161 K. ESWARI S/O R.KOLANDA	TNSVC/3315 /06	51/2, RAMAKRISHNA STREET, ADIPERAMANUR (PO) NATRAMPALLI (VIA), VELLORE DIST- 635 852 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	4-Jun-82
1162 K. GANAPATHIRAMAN (S.KANDASAMY)	TNSVC/1463 /05	PLOT NO.103, ALEXNAGAR, 'B' COLONY, MADHAVARAM MILK COLONY, CHENNAI 600 051	B.V.Sc/TNV&ASU /93	01-May-70
1163 K. GANESAN S/O M.KANDASAMY	TNSVC/3472 /06	8, MUNICIPAL COLONY, NEHRUJI NAGAR, DINDIGUL 624 001. TAMIL NADU	BVSc/MU/67	6-Apr-41
1164 K. GANESH KUMAR (S. KARUPPASAMY)	TNSVC/1423 /05	PARAKKIRAMA PANDY (PO) PETMANAGARAM (VIA), SRIVAİKUNTAM (T.K.) TUTICORIN - 628 620, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	20-Jan-73
1165 K. GEETHA (N.KALIAPERUMAL)	TNSVC/369/ 04	63, G, ARTHANAREE SCHOOL STREET Opp. To VALLIAMMAN KOIL SENDHAPATTI PUDUR P.O. NAMAKKAL DIST.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	23-Jan-81

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1166 K. GEETHA S/OR. KATHIRESAN	TNSVC/3538 /06	5/9, KANDIAN STREET, PATTUKOTTAI, TANJORE DISTRICT PIN 614 801, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	28-Jul-81
1167 K. GIRIRAJ (N.KUPPUSAMY)	TNSVC/2227 /05	KALICHIKKADU, 87, GOUNDAM PALAYAM, KUMARAMANGALAM POST, TIRUCHENGODE TK, NAMAKKAL DIST 637 205.	B.V.Sc/TNV&ASU /02	07-Feb-78
1168 K. GOBI (R.KANDASAMY)	TNSVC/3129 /05	20 / 65, DASA STREET, RASIPURAM TALUK, NAMAKKAL DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Jul-76
1169 K. GOPAL (V.KUPPUSAMY)	TNSVC/294/ 04	AVALAMPATTI, DASIRAHALLI PO, HARUR TK, DHARMAPUR DT 635 305. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	11-May-79
1170 K. GOPI (C. KANDASAMY)	TNSVC/171/ 03	PARAKADU, VELLALAPATTY POST, OMALUR TK, SALEM DT, PIN : 636 012 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	06-Apr-80
1171 K. GOVINDAN (A.KARUPPAN)	TNSVC/3165 /06	V / 8-26, ELANTHOPPU, NEIKKARAPATTY, SALEM - 10 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/83	30-May-60
1172 K. HARILAKSHMI (T.K.KANNAN)	TNSVC/2244 /05	D-1, SAI BABA COLONY, 1, KANNAGI STREET, TAMBARAM EAST, CHENNAI 600 089, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	16-Aug-76
1173 K. HEMALATHA (N.KUPPUSWAMY)	TNSVC/1709 /05	32G / 9, VETTAVALAM ROAD, TIRUVANNAMALAI 606 802, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	30-May-78
1174 K. ILAMBARITHI (R.KUNJITHAP 3 ATHAM)	TNSVC/97/0	AYAKKARANPULAM 3, VEDARANIYAM TALUK, NAGAI DISTRICT PIN : 614, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	12-Jul-79
1175 K. J. NALLABAMY (K.R.JAGADEESAN)	TNSVC/401/ 04	2 / 28, NORTH STREET, KULLAMPALAYAM POST, GOBI TK, EORDE DT, 638 476 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	29-Nov-78
1176 K. JAGATHESAN (N.KALIAPPAN)	TNSVC/2731 /08	CHINTHAMANI PATTY POST, KULITHALAI TK, KARUR DIST 621 301. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /83	10-Apr-70

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1177 K. JAISE RANI (S.SELVAKUMAR)	TNSVC/2892 /05	NO.5, NEELAMEGAM STREET, KAMARAJ NAGAR, AVADI, CHENNAI 600 071	B.V.Sc/TNV&ASU /91	25-Feb-66
1176 K. JAWAHAR (S.KANDASAMY)	TNSVC/706/ 05	6 / 6, NEW COLONY, ANAYAMPATTY P.O. GANGAVALLI TK., SALEM DISTRICT PIN 636 105TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	13-Jun-78
1179 K. JAYAGOPAI (M.KRISHNAMURTHY)	TNSVC/2973 /05	302 / 11, 13TH CROSS, PHASE II, TNHB, SATHUVACHARI, VELLORE DISTRICT PIN 632 009 TAMIL NADU	BVSc&AH/JNKVV /99	03-Jun-54
1160 K. JAYALAKSHMI S/O KONAPPAN	TNSVC/3415 /06	NEAR SARAVANA THEATOR, MADHEHALLI, PAUPARAPATTY POST, DHARMAPURI - 636609,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	2-Jun-62
1181 K. JAYANTHIW/o. (A.VIJAYAVELU)	TNSVC/1619 /05	7, ALAGIRISAMY SALAI, K.K.NAGAR, CHENNAI 600 076,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	18-Aug-68
1182 K. JAYARAJU (R.KUPPUSAMY)	TNSVC/275/ 04	MANIYANKADU CHINNAMANALI PO, T. GODU TK, NAMAKKAL DT, TRICHENGODU TK, - 637410TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	20-Jun-79
1183 K. JEBAGILARY (A.KANAKARAJ)	TNSVC/348/ 04	15 / 15, JEBAGAM, MALLANVILAI, VERKIZAMBHI POST, KANYAKUMARI DT. 629166TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	12-Aug-80
1184 K. JEGADEESON (A.R.KUPPUSAMY)	TNSVC/935/ 05	3A, L.G.R. COMPOUND, DINDIGUL -1, ANNA DISTRICT. - 624 001TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/71	01-May-45
1165 K. JEGANATHAN (K.KOMARASAMY)	TNSVC/264/ 04	MARI AMMAN KOIL STREET, KEDARAI 638 458, ERODE DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	20-May-79
1166 K. JEYARAJA (V.KRUBAKARAN)	TNSVC/1421 /05	10 / 403, KATTUPUTHUR MAIN ROAD, BALASAMUDRAM P.O. THOTTIYAM - 621 203TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	16-Oct-72
1167 K. KAJA MOHIDEEN (K.KATHER MOHIDEEN)	TNSVC/1112 /05	8-3-7, MOOKKAROWTHER STREET, GENGUVARPATTI POST, PERIYAKULAM TK, THENI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	14-Oct-53

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1188	K. KALPANA S/O S.KANNAN	TNSVC/3375 /06	VADAKKALUR POST, LABBAIKKUDIKADU VIA, KUNNAM TALUK, PERAMBALUR DIST, 621108, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-Jun-82
1189	K. KAMALESH THANAPPAN (T.KULASEKARAPERUMAL)	TNSVC/2129 /05	"ANISH BHAVAN" 70, BARATHI NAGAR, KEELARAMAN PUTHOOR, NAGERCOIL 2, KANYAKUMARI DIST.	B.V.Sc/TNAU/83	03-Dec-59
1190	K. KANNAN (D.KANDASAMY)	TNSVC/2959 /05	812, KORIYAMPATTI, ELAIYUR (P.O.) UDAIYARPALAYAM (T.K.) PERAMBALUR- 621 806, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	22-Jul-71
1191	K. KANNAN (M.C.KRISHNAN)	TNSVC/1695 /05	A. METTUPALAYAM, ALACHAMPALAYAM PO., EDEPPADI (VIA), SALEM DT., 637 101, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	10-May-74
1192	K. KANNAN(R. KAMATCHIYAPPAN)	TNSVC/1433 /05	79 / 24, N.K.P. RAJU STREET, CUMBUM - 825 518, THENI DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Jun-77
1193	K. KARTHIKEYA PRABHU (M. KANDASAMY)	TNSVC/306/ 04	12, TIRIPURAI SUNDARI AMMAN KOIL SANNATHI STREET, PETTAI, TIRUNELVELI 627 004 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	08-Nov-78
1194	K. KARTHIKEYAN (K.KALIYAPERUMAL)	TNSVC/2211 /05	1/231, KARMANGUDI, KARUVEPPILANKURICHI POST, VIRUDDHACHALAM TK - 606 110., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	30-May-77
1195	K. KARTHIKEYAN (T.KANAGARAJAN)	TNSVC/309/ 04	MAIN ROAD, URANIPURAM POST, ORATHANADU TALUK THANJAVUR DIST. 614 631 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Jun-80
1196	K. KARTHIKEYAN(KANNAN SUNDARRAJ)	TNSVC/185/ 03	1 / 536, BHAGATH SINGH STREET, BHARATI NR, COLLECTORATE P. RAMANATHAPURAM D- 623 503, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	03-May-79
1197	K. KARUNANIDHI (M. KARUPPASWAMY)	TNSVC/214/ 03	NO.10, VIVEKANANDA STREET, NEW SENTHIL NAGAR, CHENNAI 800 062. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	10-May-80
1198	K. KARUPPIAH (A.V.KARUPPIAH)	TNSVC/3072 /05	P.SUBBULAPURAM, VANNIVELAMPATTI (POST), T.KALLUPATTI (VIA), MADURAI - 625 702, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	09-Jun-75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1199	K. KATHIRVEL (R.KANDHASAMY)	TNSVC/260/ 04	KERAIKODI HALLI PO, KARIMANGALAM VIA, PALACODE TK, DHARMAPURI DT 635 111TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	02-Jul-80
1200	K. KIRUBANATH (K.KANAGARAJAN)	TNSVC/856/ 05	NO.C-2, TAMIL NADU GOVT, STAFF QUARTERS, MARUTHI NAGAR, NAMAKKAL 637 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	29-Jul-72
1201	K. KOMATHY (S.T.K.MANI)	TNSVC/332/ 04	6 / 355, MUGAPPAIR WEST CHENNAI - 600 058TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	06-Feb-81
1202	K. KOTHANDARAMAN (K.KRISHNASWAMY NAIDU)	TNSVC/839/ 05	110, BYE PASS ROAD, AVALOREPET, GINGEE TALUK, VILLUPURAM DISTRICT, PIN : 604 201.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	17-Jun-58
1203	K. KRISHNAMURTHI(S.KARUP 2 ANAN)	TNSVC/35/0	H 103, MALIGAI NAGAR, ANAIYURMADURAI 625 01TAMILNADU7	B.V.Sc/TNAU/76	15-Jun-50
1204	K. KUBENDIRAN (P.KUPPUSAMY)	TNSVC/1410 /05	19, VETS NAGAR, NEELAMANGALAM XROAD, KALLAKURICHI 606 202, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	05-Apr-63
1205	K. KULANDAI VELU (P.C.KALIANAN)	TNSVC/274/ 04	PICHANDAM PALAYAM, POLAVAKKALI PALAYAM PO, GOBI TK, ERODE DT 638 478TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	10-Jun-79
1206	K. KULANDAIVEL (P.KAILASAM)	TNSVC/487/ 05	NARIKIL KADU, O'PACHUDYAMPALAYAM (PO) RASIPURAM (TK) NAMAKKAL (DT)- 637 406.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	06-Sep-80
1207	K. KUMARAGURUBARAN (M.KUPPUSWAMY)	TNSVC/2773 /05	25 / 10, METTU STREET, NORTH CHEYYUR, CHEYYUR TALUK & POST, PIN : 603 302.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	12-Jul-71
1208	K. KUMARESAN (R.M.KAILASAM)	TNSVC/1533 /05	3 / 88, P.S. COLONY, NACHIPALAYAM ROAD, KODUVAI, TIRUPPUR TK CBE DT. PIN : 641 680.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	22-Jun-72
1209	K. LAKSHMI (KUMARAGURU)	TNSVC/2952 /05	25, KOIL STREET, AMMAYAPET, VANDAVASI TALUK, TIRUVANNAMALAI DISTRICT PIN 604 408, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	03-Jun-77

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1210 K. LAVANYA (A.KAILASAM (LATE))	TNSVC/7102 /05	ANAIPALAYAM (P.O.) ANDAGALUR GATE (VIA),RASIPURAM (TK), NAMAKKAL DT., 637 401,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	21-Jul-78
1211 K. MADHAVAN (M.KESAVA RAMANUJAM)	TNSVC/2507 /05	OPP AMUTHA PRIYA HOLLOW BRICKS, K.KULAM , ERODE - 4.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	10-Feb-68
1212 K. MAGENDIRAN (K.KRISHNAN)	TNSVC/2487 /05	23. SUBRAMANIAM NAGAR EXTENSION, RAGAVENPETTAI, PANAMPATTU POST, VILLUPURAM, TAMIL NADU 605 103.	B.V.Sc/TNAU/86	01-Jul-59
1213 K. MANI (A.KANNAPPA UDAYAR)	TNSVC/2172 /05	40, KOSA ANNA MALAI STREET, GUDIYATTAM 632602,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	10-Feb-59
1214 K. MANIKANDAN S/O S.KRISHNAN	TNSVC/3417 /06	METTU STRET, ANANTHAPURAM POST, VILLUPURAM DIST, PIN : 605 201.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	12-Mar-81
1215 K. MANIVANNAN (K.KRISHNAN)	TNSVC/2204 /05	SAI AISHWARYA NILIYAM, D73, HOUSING UNIT, PONVIZHA NAGAR, TRICHY ROAD, NAMAKKAL PIN 637 001.	B.V.Sc/TNV&ASU /02	20-May-77
1216 K. MANIVANNAN (KUNJIDHAPATHAM)	TNSVC/3177 /05	T.V.PUTHUR, VRIDHACHALAM, CUDDALORE DISTRICTTAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/75	15-Sep-50
1217 K. MANIVEL S/O V. KANDASAMY	TNSVC/3561 /06	MALAIKADU, MELKALPALAYAM (PO) RASIPURAM (TK) NAMAKKAL -637 403,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	26-Jun-80
1218 K. MANOKARAN (N.KRISHNASAMY)	TNSVC/1083 /05	4 / 748, POOSAREDDIPATTI STREET, MAIN BAZAAR, PANTHALGUDI (PO), ARUPPUKOTTAI (TK), VIRUDHUNAGAR (DT)	B.V.Sc/TNAU/78	19-May-55
1219 K. MARIAPPA (V.KASILINGAM)	TNSVC/2772 /05	MARAMADAKKI & POST, ARANTHANGI TK, SILATUR VIA, PUDUKKOTTAI DIST, PIN : 614 622.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	05-Jul-73
1220 K. MARIMUTHU (KATTIYA GOUNDER)	TNSVC/1058 /05	NO.68 / 29, SOWDESWARI NAGAR, KONDALAM PATTY BYE PASS, SALEM 636 010.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	16-May-55

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1221	K. MARIMUTHU (P.KARUPPANTHEVAR)	TNSVC/3281 /05	32.A, RMS NAGAR, SOUTH PONNAGARAM, RAJAPALAYAM, VIRUDHU NAGAR DIST, TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/77	05-May-55
1222	K. MATHI SEKAR (V.KANDASAMY)	TNSVC/1027 /05	151, MORAMBUKADU, OMALUR MAIN ROAD, KONGANAPURAM, EDAPADI (TK), SALEM (DT) - 637402	B.V.Sc/TNAU/88	23-Jun-64
1223	K. MOHAMED GANI (KASI. ALIAS KASIM)	TNSVC/976/ 05	18, MOSQUE STREET, AMMAPET 614 401, THANJAVUR DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	03-Jun-59
1224	K. MOHAMED UTHUMAN (M.KADER MOHIDEEN)	TNSVC/2794 /05	5 / 179, MAIN ROAD, POTTAL PUDUR 627 423, TIRUNELVELI DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	20-Mar-61
1225	K. MOHANA VARADHAN (V.KUPPANNAN)	TNSVC/1024 /05	10 / 403, VELLAR (PO) METTUR (TK), SALME (DT) 636451, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	23-Jul-66
1226	K. MOORTHY (M.KANNAIYAN)	TNSVC/2390 /05	DOOR NO.151, KAMARAJ COLONY BACK SIDE, PERAMANUR, SALEM 636 007.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	10-Jun-54
1227	K. MULLAINATHAN (A.KUPPUSAMY)	TNSVC/982/ 05	20, EAST CAR STREET, PENNADAM POST 606 105, CADDALUR DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	12-Jun-50
1228	K. MULLAISELVAN S/O U.P.KAVERI	TNSVC/3410 /06	7, SUBBURAYA MUDALIAR LAYOUT, HASTHEMPATY, SELAM 636 007.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	19-Jul-60
1229	K. MUNIASAMY (S.KADARKKARAI)	TNSVC/1649 /05	18 / 3, NALLAKUTTRALAPURAM STREET, SRIVILLIPUTTUR 626 125, VIRUDHUNAGAR DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	10-Feb-67
1230	K. MUNIYANDI (C.KAVERI)	TNSVC/1452 /05	A-87, KANDASAMY SALAI, 8TH STREET, PERIYAR NAGAR, CHENNAI 600 082	B.V.Sc/TNV&ASU /02	31-Mar-67
1231	K. MURALI SADANANDAM (P.KUPPUSAMY)	TNSVC/2311 /05	ANDIGOUNDANOOR, PUDUPET (VIA) TIRUPATTUR 635 651, VELLORE DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	15-Jul-68

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1232	K. MURTHY (K.KUMARASAMY)	TNSVC/3230 /05	185-Q1, M.S.M. GARDEN, UTHANGARAI (P), KRISHNAGIRI DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/MU/72	15-Mar-48
1233	K. MURUGANANDAN (V.KANDASAMY)	TNSVC/2714 /05	96D, SALEM MAIN ROAD, VELLANDI VALASAI P.O. IDDAPPADI 637 105, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	15-May-69
1234	K. MURUGESAN (S.S.P.KANDASAMY)	TNSVC/2459 /05	5/545, SAROJINI STREET, NGO COLONY EAST, VIRUDHUNAGAR., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	07-May-62
1235	K. MURUGU (M.KATHAMUTHU)	TNSVC/1869 /05	95F / 1A, V.O.C. NAGAR, KALLAKURICHI 606 202, VILLUPURAM DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	15-Jun-71
1236	K. MURUGU SELVAN (M.KALI GOUNDER)	TNSVC/1178 /05	H-19, TNHB COLONY, PONVIZHA NAGAR, TRICHY ROAD, NAMAKKAL DT 637 001. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	30-Jul-69
1237	K. MUTHALAGU (M.KATHALINGAM)	TNSVC/1482 /05	KUMMANGULAM ALANGUDI P.O. & T.K. PUDUKOTTAI DISTRICT - 622 301 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	08-Apr-78
1238	K. MUTHU KUMAR (M.KARUPPAIYAH)	TNSVC/293/ 04	SOMBIAR ST, MANGADU MAIN ROAD, MANGADU PO, ALANGUDI TK, PUDUKOTTAI DT, PIN : 822 304	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Apr-80
1239	K. MUTHUKRISHNAN S/O M.KUPPUSAMY	TNSVC/3350 /06	MARIAMMAN KOIL STREET, VADUGAPATTI P.O. SANKARI TK., SALEM DIST-637 301, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	8-May-82
1240	K. MUTHUKUMAR (S.KUNASEKARAN)	TNSVC/1040 /05	MARAPPAMPALAYAM, ILUPPILI (PO) ELACHIPALAYAM (VIA) NAMAKKAL (DT) 637 202 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	15-Oct-64
1241	K. NANDAGOPAL (S.KRISHNASAMY)	TNSVC/1304 /05	30 / 4, PERUMAL NAIDU STREET, KAMAYAGOUNDANPATTI POST, CUMBUM VIA, THENI DT, PIN : 625 521.	B.V.Sc/TNAU/82	15-May-67
1242	K. NATARAJAN (M.KOTHANDA M)	TNSVC/120/ 03	THENKOLAPPAKAM VILLAGE MAILAM POST, TINDIVANAM TALUKVILLUPURAM DTPIN : 604 TAMILNADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	27-Sep-79

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1243 K. NAVAMANI (R.M.GANESAN)	TNSVC/2177 /05	169, KUTCHERY ROAD, MYLAPORE, CHENNAI 600 004.	B.V.Sc/TNV&ASU /91	12-Jun-66
1244 K. NAVANEETHAN (G.KRISHNAN)	TNSVC/1026 /05	M.CHETTIPATTY(PO), OMALUR(TK), SALEM dt 636455, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-Mar-77
1245 K. OHRI (A.KRISHNAN)	TNSVC/2057 /05	76, BOARDING PET STREET, SHOLINGHUR 631 102, VELLORE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	03-Jul-71
1246 K. PALANI (N.KANTHAIYA GOUNDER)	TNSVC/2095 /05	H. DODDAMPATTI POST, HARUR TK, DHARMAPURI DT 636 903, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	26-Jul-75
1247 K. PALANICHAMY (K.KARUPPA GOUNDER)	TNSVC/2784 /05	52, A.P.P. NAGAR, OTTANCHATRAM P.C. 624 619, DINDIGUL DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/71	15-Jul-44
1248 K. PALANISAMY (A.KUPPUSAMY)	TNSVC/2758 /05	NASANKOTTAI, HARUR TK, DHARMAPURI DT 638 903, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	03-Jun-77
1249 K. PALANISAMY (KANDASAMY)	TNSVC/276/ 04	THUSUR PO, NAMAKKAL DT 637 002, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	04-Aug-75
1250 K. PALANISWAMI (KALIAPPA GOUNDER)	TNSVC/2556 /05	KUTTAYAKKADU, NICHAMPALAYAM POST, THINGALUR VIA, ERODE DIST, TAMIL NADU - 638 055.	B.V.Sc/TNV&ASU /89	05-Jun-66
1251 K. PALANIYANDI (P.KARUPPANA THEVER)	TNSVC/1442 /05	"EZHILAGAM" 4, MUTHU NAGAR, PALANICHETTIPATTI, THENI 625 531, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	24-May-53
1252 K. PANDIAN S/O P.KANAGASABAI	TNSVC/3367 /06	NEHRU NR, VAZHAKKOMBAL PO, THAMMAMPATTY VIA, GANGAVALLI TK, SALEM DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	30-May-83
1253 K. PARIMALARAJ KUMAR (P.KANNAIYAN)	TNSVC/3261 /05	D.NO.5, 4TH CROSS STRFET, J.G.NAGAR, KUMARANANTHAPURAM, TIRUPPUR, COIMBATORE DIST.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	27-Apr-67

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1254 K. PARTHASARATHI (G.KUPPUSAMY)	TNSVC/1461 /05	19 / 15, PERIANDAVARPURAM STREET, BODINAYAKANUR, THENI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	12-Jun-49
1255 K. PARTHIBAN (K.KARUNANANTHAM)	TNSVC/3154 /05	6, NORTH KARUPPA PILLAI LANE, NORTH CAR ST, TIRUPPARAN KUNDRAM, MADURAI 625 005.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	01-Dec-88
1256 K. PAVADIYAN (P.KARUPPASAMY)	TNSVC/1660 /05	1-1 / 82A, KARUNAIYANANTH NAGAR, E.B. OFFICE OPPOSITE, PERAIYUR P.O. & TK MADURAI 825 703	B.V.Sc/TNV&ASU /91	04-Jun-68
1257 K. PECHIMUTHU (K. KUMAR ASARIAR)	TNSVC/230/ 03	SILLAMARATHUPATTI PO, THENI DISTRICT, PIN : 826 528.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/69	18-Oct-43
1258 K. PERIASAMY (KARUPPUDAYAR)	TNSVC/1054 /05	MANIYAR THOTTAM, R.PATTANAM POST, RASIPURAM TALUK, NAMAKKAL DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	20-Nov-53
1259 K. PERIYASAMY (KARUPPA GOUNDER)	TNSVC/2677 /05	1/97, MAIN ROAD, MUDALAIPPATTI & POST, NAMAKKAL TALUK & DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	03-Jan-51
1260 K. PERIYASAMY S/OP KANNAN.	TNSVC/3549 /06	VAQURAMPATTY, VABANTHAPURAM (PO), NAMAKKAL DISTRICT - 537 002, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	19-Oct-79
1261 K. PONVELDURAI (V.KADERKARAI)	TNSVC/1835 /05	12 / 44-A, VALLUVAR STREST, THIMMARAJAPURAM POST, PALAYANKOTTAI TK, TIRUNELVELI DT.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	07-Apr-75
1262 K. PONVIJAY SIVAKUMAR (S.KOMBAIRAJU)	TNSVC/1335 /05	A2, L40, L BLOCK, ANNA NAGAR EAST, CHENNAI 600 102.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	24-Dec-74
1263 K. POONGODI (N.SATHEESH KUMAR)	TNSVC/1882 /05	2 / 89, MELACHATHRAM ST, PARAMAKUDI 623707, RAMNAD DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	13-Apr-78
1264 K. POOVIZHI(M.KANDHASAM Y)	TNSVC/126/ 03	16 / 2, NETHAJI STREET, CHENNIMALAI, ERODE DT, PIN : 636 05TAMIL NADU1.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	31-Mar-76

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1265	K. PRABU (K.V.KARUNA MOORTHY)	TNSVC/3010/05	6 / 27, KOSANAM ROAD, KONNAMADAI, NAMBIYUR P.O. ERODE DISTRICT PIN 638 458 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jun-82
1266	K. PRAKASAM (K.KOMARASAMY)	TNSVC/1038/05	CHETTIAR THOTTAM, KUPPANUR (PO), SANKARI TK, SALEM DT. - 637301	B.V.Sc/TNAU/81	05-Feb-57
1267	K. PRAKASAN (K.KARUMALAI GOUNDER)	TNSVC/494/05	SANTHI MALIGAI STORE, NAALROAD, PATLUR P.O. BHAVANI T.K. ERODE DIST. - 638 314, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	30-Dec-76
1268	K. PRAKASH (P.KALIMUTHU)	TNSVC/289/04	MUDACHIKKADU PO, PERAVURANI TK, THANJAVUR DT 614 804. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	01-May-80
1269	K. PUGAZHENTHI (T.KALIAPPAN)	TNSVC/2736/05	7, RAIL SENTHIL NAGAR, V CROSS STREET, URAPPAKKAM, CHENGALPET TALUK, KANCHEEPURAM DIST, PIN : 603 202.	B.V.Sc/TNAU/88	10-Jun-60
1270	K. PURUSHOTHAMAN (A.V.KATHAMUTHU)	TNSVC/993/05	2 / 23, EAST STREET, RADHANARASIMHAPURAM POST, MANNAR GUDI TK, TIRUVARUR DIST 614 020.	B.V.Sc/TNV&ASU /91	25-May-88
1271	K. PUSHPALATHA (D.KRISHNAN)	TNSVC/396/04	47K, KUMARASAMY PET, PENNAGARAM MAIN ROAD, DHARMAPURI 636 701. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	03-Nov-79
1272	K. R. SARAVANARAJAN (K.P. RAMAN)	TNSVC/554/05	7 / 217, A-JETTIIHALLI POST, VIANALLAMPALLI, DHARMAPURI 638 807, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	23-Nov-78
1273	K. RADHA S/O S.KANNAN	TNSVC/3467/06	63, AISHWARYA NAGAR, FIFTH STREET, GANDHI NAGAR POST, UDUMALPET 642 154. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	2-Jun-74
1274	K. RADHAKRISHNAN (A.KANDASAMY)	TNSVC/1051/05	M 7, TNHB COLONY PHASE IV, KOLLAPATTY, ANIMOOR (PO) THIRUCHENGODE (TK) NAMAKKAL (DT) 637 214	B.V.Sc/TNAU/86	31-May-82
1275	K. RAGU (M.KONDALSAMY)	TNSVC/480/05	12 / D, 4TH WARD, ALANGANALLUR(PO) MADURAI 625501 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-May-82

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1276	K. RAJA (A.KUPPA GOUNDER)	TNSVC/1163 /05	KOTTAVADI POST, SALEM DIST, PIN : 636 115.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	05-Apr-60
1277	K. RAJA (N.KUMARASAMY)	TNSVC/2411 /05	2/212, ANNA NAGAR, NORTH MADEVI POST, PERAMBALUR TALUK & DISTRICT 621 219, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	20-Jun-70
1278	K. RAJA (S.KOLANDAIVELU)	TNSVC/1036 /05	397 / A1, HOUSING UNIT, IDAPPADI (PO) SALEM DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	25-Mar-57
1279	K. RAJAGOPAL (C.KETHAYA GOUNDER)	TNSVC/1996 /05	5TH CROSS, H-28, R.M. COLONY, DINDIGUL 624 001. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	01-May-52
1280	K. RAJAGOPALAN(A.KRISHNA 3 SWAMY)	TNSVC/86/0	NO.7, BHARATHIDASAN STREET, SENTHIL NAGAR, THIRUMULLAIVOYAL POSTCHENNAI 600 0TAMILNADU	B.V.Sc/MU/54	05-May-30
1281	K. RAJAN (R.KANDASAMY)	TNSVC/3201 /05	SENGATTUR, ACHANGUTTAPATTY P.O. SUKKAMPATTY (VIA) SALEMTALUK & DISTRICTTAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/87	12-Nov-62
1282	K. RAJARAJAN (S.KUPPUSAMY)	TNSVC/835/ 05	NEW NO.81, OLD NO.31-B, MARKET STREET, THIRUKOILUR 605 757. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	16-Feb-73
1283	K. RAJASEKARAN (D.KRISHNAYYA)	TNSVC/1925 /05	NO. 10A. NEYVELI MAIN ROAD, VADALUR, CUDDALORE DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	03-Mar-58
1284	K. RAJASEKARAN (P.KANNUSAMY)	TNSVC/2684 /05	112-B, BALAN NAGAR, PEELAMEDU, COIMBATORE 641 004, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	20-Jan-71.
1285	K. RAJASEKHARAN (A.KONNAIYANDI)	TNSVC/1667 /05	101, MADATHUPATTI STREET, SRINILLIPUTTUR, VIRUDHU NAGAR DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/89.	09-Mar-45
1286	K. RAJASUNDAR (K.KARUTHAMALAI)	TNSVC/1417 /05	4-A, ARUMUGAM ROAD SOUTH, KAMATCHIAMMAN KOVIL STREET, RAILWAY FEEDER RD, TIRUMANGALAM 625 706, MADURAI DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	26-May-72

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1287 K. RAJEEVI (S. KITTU)	TNSVC/241/ 04	KARUNGULAM, MANJAVAYAL (PO) 614 613, THANJAVUR DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	28-Jul-79
1288 K. RAJENDRAN (V.KALIMUTHU)	TNSVC/2319 /05	6/496, PARAMATHY ROAD, E.B.COLONY, NAMAKKAL 637 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	26-Mar-73
1289 K. RAJESWARI (V.KALIAPPAN)	TNSVC/2570 /05	WEST STREET, VEERACHIMANGALAM PO, DHARAPURAM TK, ERODE DIST, PIN : 838 656.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	10-Jun-69
1290 K. RAJUKUMAR (L.K. KATHERUKAMEM)	TNSVC/2430 /05	1/5, NORTH CAR STREET, KAMAYA GOUNDAN PATTI, THENI DISTRICT, PIN 625 521TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	17-Jul-72
1291 K. RAJYAKODI (KARUTHAKKANNAN THEVAR)	TNSVC/2798 /05	AYYANARKULAM POST, USILAMPATTI TK, MADURAI DIST 626 537.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	07-May-66
1292 K. RAMACHANDRAN (R.KRISHNAN)	TNSVC/2361 /05	27/15, KUMARANANTHAPURAM, (OPP.) SIVAN THEATRE, TIRUPPUR 641 602.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	20-May-60
1293 K. RAMAKRISHNAN (K.KARUPAIAH)	TNSVC/3223 /05	T.S.NO.1849 / 5A, AMBALPURAM 1ST STREET, PUDUKKOTTAI 622 001 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/81	01-Jun-52
1294 K. RAMALAKSHMI (N.KANDASAMY)	TNSVC/315/ 04	20, NEHRU STREET JAIHINDPURAM II MAIN ROAD MADURAI -11TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	28-Jul-80
1295 K. RAMALINGAM (K.KUMARASAMY GOUNDER)	TNSVC/2573 /05	133-MULLAI NAGAR, OLD BUS STAND ROAD, PERUNDURAI 638 052., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	19-Jun-58
1296 K. RAMALINGAM (KOOLU ALIAS SUBRAMANIAM)	TNSVC/831/ 05	95 / H-70, R.M. COLONY, 7TH CROSS., DINDIGUL -1.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	14-Mar-58
1297 K. RAMASAMI (A.KAKKAN)	TNSVC/1135 /05	3 / 149-A2, SHANTHI ILLAM, NEHRU NAGAR, 5TH STREET, T. NALLOR PO, PARAMAKUD, RAMNAD DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	21-Nov-50

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1298 K. RAMASWAMY (KARUPPANNA GOUNDER)	TNSVC/2595 /05	190, VIJAYAMANGALAM ROAD, UTHUKALI, PERUNDURAI TK, ERODE DIST 638 751.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	06-Jun-53
1299 K. RAMESH (B.KARTHIKEYAN)	TNSVC/328/ 04	PANAVADALICHATHARAM POST SANKARANKOVIL TALUK TIRUNELVELI DIST -627956TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	16-Apr-80
1300 K. RAMESH (N.KRISHNAN)	TNSVC/2641 /05	7TH STREET, KUMARESAPURAM., RAJIV NAGAR, TIRUCHENGODU (TK) NAMAKKAL DISTRICT 837 211	B.V.Sc/TNV&ASU /01	07-Jun-76
1301 K. RAMESHKUMAR (M.KUPPUSAMY)	TNSVC/1153 /05	THOSAIKARAR THOTTAM, BELUKURICHY, NAMAKKAL 637 402.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	02-Jun-70
1302 K. RAMNARAYAN (R.KRISHNAMURTHI)	TNSVC/2108 /05	24/9, SUNDARESHWARAR KOIL STREET, TAMBARAM EAST, CHENNAI -600059.	B.V.Sc/TNAU/82	27-May-54
1303 K. RAMYA S/O P.KALAIVANAN	TNSVC/3388 /06	VELLAI, BEYAN KADU, VEPPAMPOONDI POST, GANGAVALLI TK, SALEM DIST, 636 101.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	1-Jun-83
1304 K. RATHINAVELU (K.KANNUSAMY)	TNSVC/2486 /05	VALARMATHI VETERINARY POLY CLINIC,MANIKOONDU STREET, KALLAKURICHI 606 202.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	23-Sep-60
1305 K. RAVEENDRAN (S.KUPPUSAMY SETHURAYER)	TNSVC/966/ 05	25, P.A.Y. NAGAR, PUDUKOTTAI ROAD, THANJAVUR 613 005.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	06-May-60
1306 K. RAVI S/O M.KARUPPIAH	TNSVC/3397 /06	2/130, JINNA HALL ROAD, ALANGIAM PO,DHARAPURAM TK, ERODE DT- 838 651.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	8-Jul-73
1307 K. RAVICHANDRAN (S.KANDASAMY)	TNSVC/1155 /05	1, OPPOSITE TO CANARA BANK, DEVASTHANAM PUDUR, NAMAGIRI PETTAI PO, NAMAKKAL DT TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/85	19-Apr-62
1308 K. RAVIKUMAR (C.KRISHNAN)	TNSVC/595/ 05	VADAKKUPALAYEM, THIRUMANGALAM POST, VILLUPURAM TAK 605 501.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	21-Apr-80

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1309 K. REVATHI S/O P.KUMARAVEL	TNSVC/3355 /06	METTUKATTAMPALAYAM, MONJANOR (PO) GURUSAMPALAYAM (VIA) THIRUCHENGODU TALUK, NAMAKKAL DT -637 403,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	2-Jun-82
1310 K. S. JEGAN MOHAN SANKAR (K.SENTHIVEL)	TNSVC/1977 /05	1 / 269 F2, NORTH STREET, DEVIPATTINAM POST, RAMANATHAPURAM DIST, PIN : 623 514.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	05-Jun-78
1311 K. S. VIJAYAKUMAR(K.G.SUBRA MANIAN)	TNSVC/4/02	27, CHELLA PERUMAL ST., SHOLINGHUR 631 102, VELLORE DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	01-Jun-78
1312 K. SAKTHI NAGARAJAN (L.KALIMUTHU)	TNSVC/768/ 05	KARPAKA VINAYAKAR STREET, PUNNAI NEMILI POST, ARAKONUM TALUK, VELLORE DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	09-Jun-76
1313 K. SAKTHIVEL (P.KARUTHAPILLAI)	TNSVC/1659 /05	PAGADAPPADI, VELLAIYUR POST, GANGAVALLI TALUK, SALEM DISTRICT 636 16,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	28-Jun-74
1314 K. SAKTHIVEL S/O K.KALIYANNAN	TNSVC/3354 /06	VEPPANKADU, METTUPALAYAM, KOKKALAI (PO) T.GODE (TK) NAMAKKAL DT.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	29-May-82
1315 K. SAMPATH (K.R.KARUNAKARAN)	TNSVC/5/02	# 220, METTU STREET, SAMPATH MANSION,NATHAM P.O., CHENGALPATTU 603 001 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	28-Sep-77
1316 K. SAMPATH KUMARAN S/O L.S.KUPPUSAMY	TNSVC/3435 /06	162, N.G.G.O. COLONY, GORI MEDU, SALEM - 8.TAMIL NADU	BVSc/UNI OF MADRAS/64	2-Sep-41
1317 K. SANGEETHAW/o. (C.SIVARAJAN)	TNSVC/1992 /05	PLOT NO.34, SIX STAR PARADISE, FLAT-E, IIND FLOOR, SANTHI NAGAR, CHIDAMBARAM 608 001.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	11-Jun-77
1318 K. SANKAR BHARATHI (L.KALAIMANI)	TNSVC/664/ 05	331, BHARANI ILLAM, VINAYAGAPURAM ATTUR P.O. SALEM DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	07-Jan-73
1319 K. SANKARARAMAN (K.KARUPPIAH THEVAR)	TNSVC/2842 /05	NO.37, INDRA GARDEN, KAMARAJAR ROAD, UPPILIPALAYAM POST, COIMBATORE 641 015.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	04-Jul-55

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1320 K. SANTHI S/O R. MANIMARAN	TNSVC/3520 /06	1/233A, THEEIPACHIYAMMAN KOIL STREET, POLLICHALLUR MAIN, POLLICHALLUR, CHENNAI 600 074	B.V.Sc/TNV&ASU /91	7-Jul-67
1321 K. SARAVANA KUMAR (C.KRISHNAN)	TNSVC/1313 /05	KUDIMENA HALLI, AGARAM POST, POCHAMPALLI TK, KRISHNAGIRI DISTRICT 635 204.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	15-Jun-77
1322 K. SARAVANA KUMAR (S.P.KANNAN)	TNSVC/782/ 05	5 / 636-A, PERIYAR STREET, N.G.O. COLONY EAST, VIRUDHUNAGAR 626 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	30-May-77
1323 K. SARAVANAN (A.KALIAPPAN)	TNSVC/1032 /05	KAPPARATHAM PATTI, DORAMANGALAM (PO) JALAKANDAPURAM(VIA) SALEM DT. 636 501,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	25-Jul-64
1324 K. SARAVANAN (M.KANDAGOUNDER)	TNSVC/1908 /05	181, MUTHUGOUNDER STREET, PALACODE POST, DHARMAPURI DT - 636808,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	19-Jan-74
1325 K. SATHEESH KUMAR S/O G.KUMARESAN	TNSVC/3449 /06	107, JAWAGAR STREET, PERAIYUR POST, MADURAI DIST 625 703.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	16-Jun-83
1326 K. SEENIVASAN (N.KRISHNASAMY)	TNSVC/1181 /05	5 / 215, TEACHERS COLONY WEST, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL, PIN : 637 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	15-Dec-53
1327 K. SEKAR (S.KARUPPIAH)	TNSVC/2391 /05	1/486, PALLAPATTI 626 130, THIRUTHANGAL POST, SIVAKASI TK; VIRUDHUNAGAR DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	31-Mar-62
1328 K. SELVAKUMAR (KARUPPUCHETTY GOUNDER)	TNSVC/1416 /05	CHINNATHIRUPATHI, KARUVALLI POST, OMALUR TALUK, SALEM DISTRICT, PIN 636 305,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	20-May-68
1329 K. SELVAM (M.KARUPPIAH)	TNSVC/1268 /05	23A, ALAMARAM STREET. KOOLATHEVAR ILLAM, CUMBUM - 625 516, THENI DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	04-Jun-77
1330 K. SELVARAJU (G.KANDASAMY)	TNSVC/1125 /05	354, C5, KANDASAMY NAGAR, NARASINGAPURAM POST, ATTUR 636 108.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	29-May-58

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1331 K. SENTHIL KUMAR (G.KUPPUSAMY)	TNSVC/1502 /05	11, MIDDLE STREET, KOTHAPPAN KUDI KADU, TITTAGUDI - 606 106, CUDDALORE DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	23-Aug-71
1332 K. SENTHIL KUMAR (P. KUPPUSAMY)	TNSVC/216/ 03	2, VELLALAR COLONY, RAJAGOUNDAMPALAYAM, SURIYAMAPALAYAM PO, THIRUCHENGODU TK, NAMAKKAL DT, TN	B.V.Sc/TNV&ASU /03	17-Aug-79
1333 K. SENTHIL SELVAM (A.KITTUSAMY)	TNSVC/527/ 05	SANARPALAYAM, THUDHUPATHI PO, PERUNDURAI TK, ERODE DT 638 057. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	11-Jul-81
1334 K. SENTHILKUMAR (K.S.KUPPUSAMY)	TNSVC/372/ 04	KALIPALAYAM, K.PUDUPPALAYAM POST, NAMAKKAL DT 637 017. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	27-May-61
1335 K. SENTHILKUMAR (M.KADIRVELU)	TNSVC/1367 /05	E-4 / 12, FIRST MAIN ROAD, OTTERI EXTENSION, VANDALUR, CHENAI 600 048, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	09-Apr-70
1336 K. SENTHILKUMAR (M.KRISHNAMOORTHY)	TNSVC/356/ 04	KATTUR, MORANGAM(PO), THIRUCHENGODU (TK) NAMAKKAL (DT) 637410, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	30-Jul-80
1337 K. SENTHILKUMAR (R.KRISHNAMOORTHY)	TNSVC/2300 /05	UNJANAI & P.O. TIRUCHENGODE TALUK, NAMAKKAL DISTRICT PIN 637 205 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	27-May-69
1338 K. SENTHILNATHAN(V.KANAK ASABAPATHY)	TNSVC/2735 /05	53, P.E.KOIL NORTH MADA STREET, AYANAVARAM, CHENNAI - 33.	B.V.Sc/TNV&ASU /89	04-May-67
1339 K. SERALATHAN (KAVERI GOUNDER)	TNSVC/210/ 03	44.M, NEDUMARAN NAGAR, DHARMAPURI TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	12-Jun-50
1340 K. SHANKAR (N.KATCHAPALAYAM)	TNSVC/959/ 05	75 / 24-A, KUMARAN STREET, CHEYYAR 604 407, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Jul-75
1341 K. SHANMUGA SUNDARAM (V. KANDAVEL)	TNSVC/2931 /05	200 NEW STREET II, VELLANDIVALASAI PO, IDAPPADI, SALEM 637 105. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	15-Mar-64

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1342	K. SHANMUGANATHAN S/OM. KARUPPAIAH	TNSVC/3543 /06	PERUMARUDU & POST AVUDAIYARKOVIL TALUK, PUDUKOTTAI DISTRICT PIN 614 618, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	26-May-77
1343	K. SHANMUGASUNDARAM (K.KARUPPUSAMY)	TNSVC/407/ 04	3 / 89, PARAYANGADU, IRRUGALUR PO, VEMANDAMPALAYAM VIA., GOBICHETTUPALAYM TK, ERODE 638 462.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	19-Oct-79
1344	K. SHANMUGAVEL (KOLANDAVEL)	TNSVC/2537 /05	10, GOPALAN THOTTAM, NORTH SIDE OF BUS STAND, NAMBIYUR POST, GOBICHETTIPALAYAM TK, ERODE DIST, TAMIL NADU, PIN : 638 458.	B.V.Sc/TNAU/83	03-Jul-59
1345	K. SHANTHI (W/O C.KANAGARAJ)	TNSVC/2205 /05	NO.15, BAJANAI KOODAM STREET, NEW BAZZAR, ARUPPUKOTTAI 626 101, VIRUDHUNAGAR DIST.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	02-Jan-73
1346	K. SHOBA (P.G.KULASEKARAN)	TNSVC/2874 /05	40, NEW THANDAVAROYA GRAMANI STREET, OLD WASHERMENPET, CHENNAI 600 021.	B.V.Sc/TNAU/88	03-Jun-66
1347	K. SIVAPRAKASAM (K.KUMARAVELU)	TNSVC/1165 /05	38A, II CROSS STREET, THILLAIPURAM, NAMAKKAL 637 002. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	30-May-62
1348	K. SIVAPRIYA W/o. (N.SENTHIL KUMAR)	TNSVC/1940 /05	C1, SREE PRASAD APARTMENTS, PLOT NO.7, ANA AVENUE, JESWANTH NAGAR, MOGAPPAIR WEST, CHENNAI - 600 058	B.V.Sc/TNV&ASU /01	30-Dec-77
1349	K. SIVASANKARI (D.V.KRISHNASWAMY)	TNSVC/286/ 04	NO.35A, V.C.P.STREET, BIG KANCHIPURAM 631 502. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	14-Jan-79
1350	K. SOMA-SUNDARAM (K.KARUPPUSAMY)	TNSVC/2598 /05	K.METTUPPALAYAM, PATTAMPALAYAM POST, NAMBIYUR VIA, GOBI TK, ERODE DIST, PIN : 638 458.	B.V.Sc/TNV&ASU /91	19-Jan-67
1351	K. SOORIAMANI W/o. (D.J.A.KIRUBAKARAN)	TNSVC/891/ 05	85, A5, ARUNACHALAM STREET., S.S.COLONY, MADURAI -10. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	14-Jul-67
1352	K. SRIDHARAN (R.KUPPUSAMY)	TNSVC/1193 /05	2, SCHOOL STREET, PERIYA KOLLAPATTY, MALLA SAMUDRAM POST, 637 503. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	10-Sep-76

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1353 K. SUGHENRAO S/o KUNTA UPENDER RAO	APSVC/4293 /05	BRIGH.K.S.RAO, BRIGH RAVS, HQ NORTHERN COMMAND C/O 56 APO, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/APAU/ 68	02-Sep-47
1354 K. SUDHA (W/o R.V.KANNAN)	TNSVC/878/ 05	14-B, SKY HOUSE, KABILARMALAI ROAD, PARAMATHY PO, PARAMATHY VELUR TALUK, 637 207.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	16-May-77
1355 K. SUDHA W/o. (K.ANEBARASAN)	TNSVC/829/ 05	1 / 48, KUMARAN KOIL NORTH EXTENSION, SEMBANAR KOVIL, TARANGAMBADI TALUK, 609 309.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-Jun-75
1356 K. SUGANTHI (A.KALIAPPAN)	TNSVC/58/0 3	15-C, AYYASAMY THOTTAM, MADHA KOIL STREETNAMAGIRIPET (P.O.)RASIPURAM TALUKNAMAKKAL DT. 637TAMILNADU 406	B.V.Sc/TNV&ASU /03	21-Jul-78
1357 K. SUGANTHI (S.R.KALIANNAN)	TNSVC/2239 /05	SENGAPPALLI, PALAPATTI POST, P.VELUR TK, NAMAKKAL DIST, PIN : 637 017.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	13-Mar-77
1358 K. SUGANTHI PRIYATHARSINIW/o. (L.MURUGESAN)	TNSVC/1894 /05	3 / 273-1, KATHIR ILLAM, RATHINASAMY ROAD, EX- SERVICEMAN COLONY, SALEM - 4,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	10-Apr-74
1359 K. SUGUNA (A.KALIYAPERUMAL)	TNSVC/338/ 04	MARIYAMMAN KOIL STREET, THATTOMPALAYAM POST, PANNUTI T.K. CUDDALORE DT. 607205	B.V.Sc/TNV&ASU /04	15-May-81
1360 K. SUKUMAR (K.KANDASAMY)	TNSVC/1266 /05	CHINNATHOTTAM, MUTHUKALIPATTY POST, RASIPURAM TALUK, NAMAKKAL 637 401,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	02-Jun-77
1361 K. SUKUMAR (V.KANDASAMY)	TNSVC/735/ 05	3 / 24, KATTUKOTTAI, THAYARAI, PANDIANKUPPAM P.O. KALLAKURICHI TALUKTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	05-Feb-77
1362 K. SUKUMARAN (T.V.KRISHNAN)	TNSVC/1021 /05	OPP. SARADHA HIGHER SECONDARY SCHOOL, NARASINGAPURAM (PO), ATTUR (TK) SALEM (DT)	B.V.Sc/TNAU/80	05-Feb-54
1363 K. SUMATHIW/o. (V.SURESH KUMAR)	TNSVC/1609 /05	NEW NO.2 / 1, (OLD NO.2 / 3) PUNGAMPATTY POST, AMBASAMUTRAM - TK, TIRUNELVELI DISTRICT PIN 627 415	B.V.Sc/TNV&ASU /01	07-Jun-77

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1364 K. SUMATHY S/O S.B. KALAPPAN	TNSVC/3563 /06	4/19A, II CROSS ST, KALAIVANAR NAGAR, GORIMEDU, VANU TALUK, VILLUPURAM DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	15-Dec-73
1365 K. SUNIL KUMAR SETTY S/o K. SUBRAMANYAM	APSVC/4358 /05	C.O.S.S.R. MEDIAL, VELDURTHI, KURNOOL DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	15-Mar-82
1366 K. SURESH BABU (M.KANNAN)	TNSVC/2219 /05	128/2, OLD POST OFFICE STREET, RANIPET 632 401, VELLORE DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	24-Mar-64
1367 K. SURESH KUMAR S/ON.KRISHNAN	TNSVC/3402 /06	NO.127, POST OFFICE STREET, SHOLINGHUR 631 102, VELLORE DISTRICT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /99	12-Sep-73
1368 K. SURESHKUMAR (R.KRISHNASAMY GOUNDER)	TNSVC/764/ 05	NAVITHAN KATTU THOTTAM, PERUMUGAI PUDUR POST, GOBICHETTIPALAYAM 638 505. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	15-May-78
1369 K. SURESHKUMAR S/O V.KRISHNAMOORTHY	TNSVC/3304 /06	46, RAMAPURAM KUTTAI MELA STREET, NAMAKKAL TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	4-Jan-82
1370 K. SWAMINATHAN (G.D.KALYANA SUNDARAM)	TNSVC/2054 /05	NEW NO.26, OLD NO.12, EAST CAR STREET, CHIDAMBARAM 608 001, CUDDALORE DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /83	31-Dec-59
1371 K. TAMIJI SELVAM (S.KANDAN)	TNSVC/2882 /05	VETY. ASST. SURGEON, VETY. DISPENSARY, PERAMBUR 609 406, NAGAI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	04-Sep-65
1372 K. THANGARAJ (G.KALIMUTHU)	TNSVC/1305 /05	ELANTHIRAI KONDAN, ZAMIN KOLLANKONDAN POST, RAJAPALAYAM VIA, (TK), VIRUDHU NAGAR DISTRICT, PIN : 626 142.	B.V.Sc/TNV&ASU /89	06-Mar-66
1373 K. THANGARAJU (KALIYAPERUMAL)	TNSVC/3205 /05	33, ANNAI NAGAR, NEW M.G.PURAM, PERAMBALUR DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/83	18-Jun-58
1374 K. THANGAVEL (C. KANDHASAMY)	TNSVC/218/ 03	KARATTUPALAYAM COLONY, ILUPPILI PO, ELACHIPALAYAM VIA, THIRUCHENGODU TK, NAMAKKAL DT, 637 202.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	10-Nov-79

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1375 K. THANGAVEL S/O KARUPPANA GOUNDER	TNSVC/3413 /06	120, NEW KALANJIPATTI, ODDANCHATRAM TK, DINDIGUL 624 619.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	9-May-83
1376 K. THANGAVELU (KALIANNAN)	TNSVC/2495 /05	33, VIDHYA NAGAR, MELTHINDAL, ERODE 638 009, TAMIL NADU.	B.V.Sc/MU/72	26-Sep-44
1377 K. THANGAVELU (P.KALIANNAN)	TNSVC/2531 /05	10, NAMACHIVAYAM STREET, POONDURAI ROAD, KOLLAMPALAYAM, ERODE 638 002.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	15-Apr-65
1378 K. THILAGAM (P.KATHIRVEL)	TNSVC/1582 /05	4 / 136 M, ANNA NAGAR, REDDIPATY POST,NAMAKKAL DT.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	28-Jun-76
1379 K. THIRUCHENGOTTAIYAN (KALIANNA GOUNDER)	TNSVC/2527 /05	83/2, BOYAR STREET, P.VELLALAPALAYAM POST, GOBI TK 638 476, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	15-Nov-47
1380 K. THIRUNAVUKKARASU (T.S.KAMALAKANNAN)	TNSVC/2019 /05	16, NABESHA NAGAR, VELLORE MAIN ROAD, ARCOT, VELLORE DT 632 503.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	09-May-72
1381 K. THIRUNAVUKKARASU (V.N.KUPPUSAMY)	TNSVC/388/ 04	MOOPAN KORAI THOTTAM, VADUGAPALAYAM, GOBICHETTIPALAYAM, ERODE DT 638 476.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	19-Nov-79
1382 K. THIYAGARAJAN (M.KANDASAMY)	TNSVC/689/ 05	NO.636, VICTORY STREET, SHIVAJI NAGAR, CHEYYAR 604 407, TN.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	21-Mar-76
1383 K. UDAYA SURIAN (K.M.KANDASAMY)	TNSVC/3270 /05	METTUKADU, PATTANAM POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DIST, PIN : 637 416.TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/79	03-Dec-55
1384 K. UDHAYAKUMAR (S.KARUPPANAN)	TNSVC/637/ 05	THOPPUKATTUR, MUKASIPUDUR, POST, OLAGADAM VIA, ERODE DT, PIN : 638 314,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	13-Jul-81
1385 K. UMA D/O R.KARUNAMURTHY	TNSVC/3328 /06	NO.7/155, ELURPATY (PO) THOTTIYAM (TK) TRICHY DISTRICT 621 215,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-Jun-82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1386	K. UMASANKAR (V.S.KRISHNAN)	TNSVC/1197 /05	88, SUBRAOPURAM STREET, ATTAYAMPATTY POST, SALEM DIST, 637 501.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	29-Jul-71
1387	K. UPENDRA KUMAR S/o SURYA JANARDHANA RAO	APSVC/4322 /05	ABOVE INDIAN BANK, PEDAPADU - 534 437. W.G.DT.,, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	09-Jul-82
1388	K. VADIVALAGAN S/OP.KALIMUTHU	TNSVC/3489 /06	PANCHAYAT UNION QUATRES, THIRUMANUR, PERAMBALUR DIST 621 715.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	24-Jul-83
1389	K. VAIRAVASAMY (K.KARIPPANATHEVAR)	TNSVC/2491 /05	NASARPULIYANKULAM, MUSTAKKURICHI POST, PIN : 626 106, KARIAPATTI VIA, KAMAJAJ DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	20-May-65
1390	K. VANEESWARIW/o. (R.MANOCHARAN)	TNSVC/1296 /05	3 / 54-C, K.S.V. NAGAR, NARASUTHIPATTY, SALEM 636 004,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	28-May-69
1391	K. VANITHA (T.RAGHUPATHY)	TNSVC/1642 /05	5 / 126, D-1, THIRUMAGAL ILLAM, TEACHERS COLONY, DHARMAPURI 636 701,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Dec-74
1392	K. VEDIYAPPAN (K.KANNAN)	TNSVC/1951 /05	2 / 13, V.S.K. NAGAR, KAVERIPATNAM, KRISHNAGIRI (DT) 635 112,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	02-May-62
1393	K. VELAYUDHA PERUMAL PILLAI (T.KUMARA PILLAI)	TNSVC/2752 /05	ELENGOMHOUSE, WEST STREET, PADMANABHA PURAM, THUCKALAY, KANYAKUMARI , 629175.	B.V.Sc/TNAU/83	30-Jun-60
1394	K. VENKATACHALAM S/O P.KRISHNAN	TNSVC/3346 /06	P. METTUPALAYAM, PILLANATHAM (PO) KUMARAMANGALAM (VIA) T.CODE (TK) NAMAKKAL (DT) PIN 637 205	B.V.Sc/TNV&ASU /05	22-Feb-83
1395	K. VENKATESAN (T.KANNAN)	TNSVC/3190 /05	285 / 1, BHARATHI NAGAR EXTENSION, OPP. TO BALAJI THEATRE, KATPADI, VELLORE - 7TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/76	20-May-59
1396	K. VENKATESH (K.KANAGARAJAN)	TNSVC/1366 /05	NO.100, 3RD CHEKKADI STREET, KOVILPATTI - 628 501, TUTICORIN DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	07-Jun-67

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1397 K. VENKATRAGAVAN (M.KANDASAMY)	TNSVC/1182 /05	9 / 12 / 7G, OPPOSITE TO ARTS COLLEGE, VIGNESWAR STREET, CHEYYAR 604 407, THIRUVANNAMALAI DT.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	02-Jun-76
1398 K. VIJAYABASKAR (M.KANDEEPAN)	TNSVC/2012 /05	1-2-4, KANDEEPAN ILLAM, THATHAMPATTI, T.VADIPATTI POST & TALUK 625 218.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	05-Jun-69
1399 K. VIJAYAKUMAR (C.KRISHNAN)	TNSVC/608/ 05	7, KUMARAN STREET, KOLLAM PALAYAM, ERODE 638 002.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jan-80
1400 K. VILVAM (KRISHNAN)	TNSVC/869/ 05	NAMBIPATTI, H.DODDAMPATTI POST, PAPPIVEDDIPATTI TALUK, DHARMAPURI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	09-Jun-62
1401 K. VINODHINI (N.KRISHNASAMY)	TNSVC/2240 /05	147/5, GEETHANJALI COLONY, 7TH AVENUE, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI 600 040.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	09-May-78
1402 K. VINOTH KUMAR (P.KANNAIYAN)	TNSVC/2791 /05	15, SOUTH FOURTH STREET, PUDUPET ROAD, TIRUPATTUR (VELLORE DIST) 635 601.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	24-Jul-73
1403 K. VISVANATH (K.KANAGARAJAN)	TNSVC/2757 /05	MUMMUDI, THALAIVASAL POST, ATTUR TK, SALEM DIST, PIN : 636 112.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	29-Jul-74
1404 K. YAMUNA (V.KRISHNAN)	TNSVC/654/ 05	53 / 5-Q, 5TH CROSS, JAKKAPPA NAGAR, KRISHNAGIRI 635 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	23-Jun-77
1405 K.ABIRAM W/o. (R.BALAJI)	TNSVC/1814 /05	73, KARIKALI AMMAN KOIL STREET, POLLACHI, PIN 642 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	02-Jun-77
1406 K.AMBASANKAR (P.KONDUSAMY)	TNSVC/2275 /05	BLOCK II, G-II, 4/834, FIRST JOINT STREET, SWAMINATHAN NAGAR, KOTTIVAKKAM, CHENAI 600 041	B.V.Sc/TNV&ASU /95	30-Jul-70
1407 K.ANANDAN(KANIAPPAN)	TNSVC/1666 /05	3 / 3A, THIRUVALLUVAR ROAD, KAMARAJ NAGAR, VIRUDHUNAGAR 626 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	17-Nov-65

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1408 K.ANGELA(P.KOILPILLAI)	TNSVC/1788 /05	4 / 2, GANDHI NAGAR, I STREET, MELUR, MADURAI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	19-Jan-65
1409 K.ANITHA D/o NARAYAN REDDY	APSVC/4404 /05	HNO. 8-2-75/1, ANSAR COLONY, NALGONDA 508001, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	05-Jan-81
1410 K.AYYAKKANNU (S.KALIANNAN)	TNSVC/1816 /05	KARUMAGOUNDAMPALAYAM, KOKKALAI (PO) VAIAPPAMALAI VIA, TIRUCHENGODE TK, NAMAKKAL DT 627 410 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	24-Apr-68
1411 K.BASKARA SETHUPATHY (P.KAMBAN)	TNSVC/1654 /05	A-9, TNHB COLONY, SINGANALLUR, COIMBATORE 641 005, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	30-Jun-71
1412 K.C. GOVINDHAN (B.CHINNAPPAN)	TNSVC/1941 /05	124, POONTHOTTAM, OPP. MUNICIPAL OFFICE, KRISHNAGIRI - 635 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/61	14-Apr-37
1413 K.C.S. ARUNABHARATHI (K.C.SUBRAMANIAN)	TNSVC/1471 /05	13, KATTABOMMAN STREET, SURMAPATTI, ERODE 638 009, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	23-Dec-76
1414 K.C.SHIVAGANAPATHI (K.CHINNUSAMY)	TNSVC/1807 /05	44-A, CO-OPERATIVE COLONY, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL - 637 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	16-Nov-75
1415 K.CHANDRA RAJESWARI S/O A.KATHIRVEL	TNSVC/3498 /06	92, KARUVELANGUNDU STREET, THIRUNELVELI TOWN, NELLAI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	18-Jun-74
1416 K.ESWARAN(P.KALIMUTH U)	TNSVC/1781 /05	PLOT NO.11, GOWTHAM NAGAR, PARASURAMPATTI, MOONDUMAVADI, K.PUDUR, MADURAI - 7 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	03-Jun-65
1417 K.GOVINDASAMY(G.KALIA NNAN)	TNSVC/1812 /05	OSAIPATTI V.VELLALAPALAYAM P.O. ERODE DISTRICT 638 315 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	04-Jun-77
1418 K.GOWRISANKAR (S.KAILASAM)	TNSVC/2688 /05	10C, PILLAIYAR KOIL STREET, KUMBAKONAM, TANJORE DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/69	12-May-44

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1419	K.GOWTHAMAN (K.KAILASAPATHI)	TNSVC/343/ 04	BHARATHI NAGAR, NARTHAMPATTY (PO), DHARMAPURI (DT) 636804TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	31-Jul-81
1420	K.GURURAJ	PONDISVC/2 75/05	25, SCHOOL STREET, PETHUCHETTYPET, PONDICHERRY-8	B.V.Sc & AH/PU/03	30-Oct-79
1421	K.K. VASHANTHA KUMAR (N.KARUPPANAN)	TNSVC/2549 /05	ATTUVAMPATTY, KODAIKANAL, PIN : 624 101.TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNAU/88	02-Oct-62
1422	K.K.GEETHA (K.KARUPPIAH)	TNSVC/1350 /05	ARUMUGAM COMPOUND, DEVIPATTINAM, RAMANATHAPURAM DT, PIN : 623 514.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	14-Apr-69
1423	K.KARUPPANAN (KAMATCHI)	TNSVC/2589 /05	137, SRI KAMATCHI ILLAM, THIRU NAGAR, PALANI 624 601.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	01-Jun-48
1424	K.KESAVAN (T.K.KALIAPPA CHETTIAR)	TNSVC/2349 /05	7/370A, SHANMUGA PRIYA ILLAM, SULTHANPET, COIMBATORE DISTRICT PIN 641 669,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	10-May-50
1425	K.KRISHNAMOORTHY (N.KOTHANDARAMAN)	TNSVC/2324 /05	41, SAVITHIRI GARDEN, TRICHY ROAD, CHINTHAMANI PUDUR, IRUGUR (VIA) COIMBATORE 641 103	B.V.Sc/TNAU/84	14-May-59
1426	K.KUMAR (K.KALIMUTHU)	TNSVC/2602 /05	PERUMARUDUR P.O. AVUDAIYAR KOIL (TK) PUDUKOTTAI DISTRICT PIN 614 618TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	20-Apr-77
1427	K.KUMARESAN (M.KULANDAIVEL)	TNSVC/443/ 05	GOVT PRIMARY HEALTH CENTRE, SIRUVACHUR (PO) THALAIVASAL (VIA) ATUHR (TK) SALEM DT 636112	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-Jun-79
1428	K.KUNTHAVAI (K.KANDASAMY)	TNSVC/432/ 05	5/2, THANGA SALAI STREET, KUMARASAMY PETTAI, DHARMAPURI 636 703.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	20-Jul-80
1429	K.M. CHANDRA SEKAR (K. MURUGESAN)	TNSVC/2833 /05	160, DOCTOR'S QUARTERS, VETERINARY HOSPITAL CAMPUS, COIMBATORE 641 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	28-Sep-55

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1430 K.M.SATYAMURTHI (K.P.MARAPPA GOUNDER)	TNSVC/2413 /05	M '8', PERIYAR NAGAR, ERODE - 638 009, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	02-Mar-49
1431 K.M.SIVAPRAKASAM(K.M. MANIKKAM)	TNSVC/1773 /05	3 / 292, KRISHNA NAGAR, THIRUPPALAI, MADURAI 625 014, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	04-Apr-57
1432 K.MADHAVA RAO S/o MALAKONDAIAH	APSVC/4364 /05	VASAKUNTAPADU, NELLORE, ANDHR A PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	25-Aug-79
1433 K.MURUGAN(A.KALIMUTH U)	TNSVC/1782 /05	WEST STREET, MANGALAM (P.O.) SIVAGANGA (TK) SIVAGANGA DISTRICT PIN 630 554, TAMIL NADU	BVSc/TNV&ASU/ 97	15-Feb-73
1434 K.MYTHILI W/o. (S.T.SELVAN)	TNSVC/1378 /05	A6, PLOT NO.109, 4TH WEST STREET, VEERAPANDIAN NAGAR, CHOO LAIMEDU, CHENNAI 600094	B.V.Sc/TNAU/88	25-Nov-64
1435 K.N. ARUMUGHAM (R.NACHIMUTHU)	TNSVC/3144 /05	3 / 829, SRI VIGNESWARA NAGAR, VITH STREET, PALLADAM ROAD, VEERAPANDI PO, TIRUPUR 641 605. TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/84	19-Dec-60
1436 K.N. RAJA (K.M.NACHIAPPAN)	TNSVC/794/ 05	KOLANDANOOR, ATTAYAMPATTY (VIA), SHENDHAGAMADEVU P.O., NAMAKKAL DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	16-May-74
1437 K.N. SELVAKUMAR (K.R.NALLASAMY)	TNSVC/741/ 05	2 / 2, THIRD STREET, JAI NAGAR, ARUMBAKKAM, CHENNAI 600 106. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	15-May-62
1438 K.NAGARAJAN (M.KUMARESAN)	TNSVC/692/ 05	NO.448, PRAKASH NAGAR, III CROSS STREET, TIRUNINRAVUR, 602 024. TIRUVALLUR DIST. TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	08-Jul-77
1439 K.NAGARAJAN (N.D.KATHIRESAN)	TNSVC/1624 /05	2530, BLOCK XVI, MRR NAGAR, SANKARA NAGAR, 2nd CROSS, BIKSHANDAR KOIL (POST) TRICHY DISTRICT 621 216	B.V.Sc/TNAU/83	30-May-58
1440 K.NAGARAJU S/o K.DATTATRI	APSVC/4399 /05	MRO'S OFFICE, BELLAMPALLY (P), ADILABAD DT 504251, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	22-Aug-81

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1441	K.P. JOHN SUBAS (K.PONNUMUTHU)	TNSVC/3260 /05	576.A, MAIN ROAD, ALANGULAM 627 851, TIRUNELVELI DIST, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	31-Jul-64
1442	K.P. SARAVANAN (G.PANNERSELVAM)	TNSVC/410/ 04	4 / 300, SOUTH STREET, KOPPAMPATTY PO, THURAIYUR TK.PIN - 621 012TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	15-Jul-81
1443	K.P.HARIDOSS (G.PERAREDDY)	TNSVC/2259 /05	MNO.9, REDDY STREET, THELLAR & POST 804 406, TIRUVANNAMALAI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	21-Jun-47
1444	K.PADMANATH (C.KRISHNAN)	TNSVC/693/ 05	NO.14, OTTTAIVADAI STREET, ACHARAPAKKAM & POST, KANCHEEPURAM DT, TAMIL NADU - 603301	B.V.Sc/TNV&ASU /01	01-Oct-76
1445	K.PALANISAMY (M.KARUPPAN)	TNSVC/1847 /05	PULLAGOUNBAMPATTI P.O. TIRUCHENGODE T.K. NAMAKKAL DISTRICT 637 202, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /99	15-May-74
1446	K.PANNEERSELVAM(KANN AN)	TNSVC/2290 /05	20-A, DIVERSION ROAD, INDRA NAGAR, POLUR TOWN, KANNADASAN STREET, TIRUVANNAMALAI DISTRICT PIN 606 803	B.V.Sc/TNAU/87	15-Apr-60
1447	K.PONNUSAMY (K.KUMARASAMY)	TNSVC/1842 /05	1 / 99, NORTH STREET, NADAYANUR (PO) KARUR DISTRICT PIN 639 117 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	25-Jul-72
1448	K.R. BASU (T.RAMASWAMY)	TNSVC/3188 /05	NO.90, MAIN ROAD, OPPOSITE TO POST OFFICE, SHENCOTTAI, TIRUNELVELI DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	15-May-69
1449	K.R. RAJAGOPALAN (K.R.RAJAGOPAL)	TNSVC/2909 /05	PLOT NO.41, DOOR NO.21, NETHAJI STREET, GANESH NAGAR, SELAIYUR P.O. CHENNAI 600 073	B.V.Sc/TNAU/73	30-Dec-47
1450	K.R. SENTHIL KUMAR (K.R.RAJAGOPALA KANDER)	TNSVC/1005 /05	5 / 830, L3 VALLIAMMAI STREET, SUBRAMANIA NAGAR, JAGIR AMMAPALAYAM PO, SALEM TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	31-Mar-66
1451	K.R. SRIHARI (K.C.RAJAGOPAL)	TNSVC/2630 /05	32, GOPALAPURAM EXTENSION, KATPADI, VELLORE - 8, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	10-Mar-64

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1452	K.R.BALASUNDARAM (K.RAMASAMY)	TNSVC/2271 /05	K.R. THOTTAM, KATTANACHAMPATTY, RASIPURAM T.K. POST, NAMAKKAL DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	19-Jun-54
1453	K.R.KULANDAIVEL (K.RATHINAVELU)	TNSVC/2831 /05	21, KULANDAIVEL STREET, MANAPPARAI 621 306, TIRUCHIRAPPALLI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	05-Oct-71
1454	K.S. GOPI S/OR.SENGAN	TNSVC/3381 /05	28, KULATHUMETTU STREET, KACHIRAYAPALAYAM PO, KALLAKKURICHI TK, VILLUPURAM- 606 207. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	20-Apr-83
1455	K.S. JAYARAJ (K.SEENIAPPAN)	TNSVC/1665 /05	WEST STREET, SUNDARAJAPURAM P.O. RAJAPALAYAM TALUK VIRUDHUNAGAR DT 626 142, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	01-Jan-68
1456	K.S. LATHA (W/O T.RAMASAMI)	TNSVC/2542 /05	46/2, KAMARAJAR COLONY, BHAVANI ROAD, APPUKOODAL 638 315, ERODE DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	04-May-71
1457	K.S. MANIVANNAN (M.SUNDARARAJ)	TNSVC/2376 /05	20, G.NAINAMPATTY, EDAPADY 637 105, SALEM DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	15-Jul-70
1458	K.S.SUNDARARAJAN (S.K.SIVAGNANAM)	TNSVC/1006 /05	6 / 15, MARIAMMAN KOIL STREET, DADAGAPATTY (PO), SALEM - 636 006 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	20-Mar-61
1459	K.S.VENKATARAMAN (K.SUBRAMANYAM)	TNSVC/1371 /05	OLD NO.2, NEW NO.7, III CROSS STREET, VENKATESAPURAM COLONY, AYANAVARAM, CHENNAI 600 023	B.V.Sc/TNAU/74	29-Sep-51
1460	K.SADAGOPAN(S.KANTHI)	TNSVC/2343 /05	15A/3, JAYALAXMI BHAVANAM, INAM MANIYACHI, KOVILPATTI 628 502. TUTICORIN DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	22-Mar-70
1461	K.SANDHYA (S.KESAVAN)	TNSVC/2261 /05	NO.3/31, (OLD NO.8) CHELLAPPA ST, BANTHOSHAPURAM, VISHALAKSHI NAGAR, GOWRIVAKKAM POST, CHENNAI 601302	B.V.Sc/TNV&ASU /94	12-Apr-68
1462	K.SELVAKUMAR (S.KALIANNAN)	TNSVC/2838 /05	GHAKKILI THOTTAM, MARURPATTY (P.O.) NAMAKKAL DISTRICT 637 019 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	03-Oct-76

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1463 K.SOUNDARAJAN (R.KOOTHAPERUMAL)	TNSVC/1456 /05	2-4-A2- COLONY NORTH STREET BUILDING SOCIETY - CHINNAMANUR, THENI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	21-Jun-64
1464 K.SRINIVASA S/o MANJAPPALIAH	KARNASVC/ 3704/	MUKTHIHARIHARAPURA, ARAGA PO, THIRTHAHALLI TALUK, SHIMOGA DT-577414, KARNATAKA	BVSc/UAS, B'lore/ 85	26-Jan-57
1465 K.SUBRAMANIAN (S.KARUPPIAN)	TNSVC/1218 /05	H-36, H.B. COLONY, THIRUNAGAR, THIRUNELVELI - 627007 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	05-May-55
1466 K.SUBRAMANIAN(V.KRISH NAN)	TNSVC/1752 /05	20 / 11, CHELLIAH STREET, MELUR, SENGOTTAI 627 809, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	25-Jul-69
1467 K.SUNDARAVADIVEL (S.KARUPPIAH)	TNSVC/1759 /05	V.MANGAMMALPPATTY, KARAIKENI P.O. PERAIYUR T.K. MADURAI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	27-May-71
1468 K.SUSITHA	PONDISVC/2 78/05	CHARUTHA, PANDAKKAL, MAHE - 673310, PONDICHERRY	BVSc&AH/PU/06	28-Sep-82
1469 K.T. KAVITHA (S.RAVI)	TNSVC/1250 /05	DHASAMPATTI, MITTAHALLI (P.O.) KAVERIPATTINAM (VIA) KRISHNAGIRI DT. - 635 112, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	01-Jun-77
1470 K.THANGARASU (n.KANDASAMY)	TNSVC/1190 /05	46 / 54, THILLAIPURAM 1st STREET, NAMAKKAL 637 001. TAMIL NADU	BVSc/TANUVAS/ 97	5-May-74
1471 K.THIRUMALESWARA REDDY S/o K.MANO HAR REDDY	APSVc/4397 /05	KOMMANAVARIPALLI, PULLAMPET (M), KADAPA DT 516107, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	12-Apr-81
1472 K.THIRUMURUGAN (M.KALIYANNAN)	TNSVC/1621 /05	AKKARAIPATTY P.O. MALLSAMUDRANI VIA, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DISTRICT 637 503 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	22-May-68
1473 K.V. SEKAR (K.VELAYUTHA NADAR)	TNSVC/2375 /05	190, CHAIRMAN P.K.S.A ARUMUGA NADAR ROAD, SIVAKASI EAST 628 189, VIRUDHU NAGAR DIST.	B.V.Sc/TNAU/85	05-Apr-62

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1474	K.V. VENKATESAN (K.VEERARAGHAVAN)	TNSVC/1413 /05	12B / 11, INDANE GAS GODOWN STREET, ANNA NAGAR, KALLAKURICHI, VILLUPURAM DISTRICT 606 202	B.V.Sc/TNV&ASU /92	10-Apr-69
1475	K.V.BHUVANESWARI (K.VENKATAPERUMAL)	TNSVC/2320 /05	5/383, MALAIKARAR THOTTAM, NAICKENPALAYAM P.O. COIMBATORE 641 020, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	20-Mar-63
1476	K.V.CHANDRA SEKAR (K.KRISHNAMURTHY)	TNSVC/2167 /05	118/5, AI BLOCK, SHANTHI APPARTMENTS, 8TH MAIN ROAD, (OFF SHANTHI COLONY) ANNA NAGAR, CHENNAI-40.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	01-Dec-76
1477	K.V.SANTHAKUMAR (N.KARIVALAVAN)	TNSVC/3006 /05	METTUPATTY POST, OMALUR TALUK, SALEM DISTRICT, PIN 636 455 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	25-Jun-70
1478	K.VAITHEESWARAN (S.KULANDAIVELU)	TNSVC/1768 /05	31A, THIRD STREET, SRINIVASAGA NAGAR, THIRUNAGAR, MADURAI 625 006, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	07-May-66
1479	K.VAMSHI KRISHNA REDDY S/o MALLA REDDY	APSVC/4407 /05	HNO 9-4-103, SRINAGAR COLDNY, KARIMNAGAR 505001, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	15-Aug-81
1480	K.VENKATACHALAM (R.KARUPPANA GOUNDER)	TNSVC/2695 /05	3/33, KRISHNAPURAM, VIJAYAMANGALAM, ERODE 638 056, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	03-Mar-63
1481	KAKA.MD.SHUAIB (KAKA.MD.AYOOB)	TNSVC/3202 /05	9, BAMBOO MANDI STREET, AMBUR 635 802 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	01-Jun-82
1482	KALARIA VINAYKUMAR A.	GUJSVC/262 7/06	TO.JAMVALI, TA. JAMJODHPUR VIA BALWA NR GANDHI CHOWK DT JAMNR, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	09-Apr-81
1483	KALISETTY SHILPA S/o K.SRINIVASA RAO	APSVC/4384 /05	HNO.2-2-120,VIJAYAPURI COLONY UPPAL HYDERABAD-39,ANDHRA PRADESH	BVSc&AH/ANGR AU/05	18-Aug-82
1484	KALITA KARUNA S/o MR. JAGAT KALITA	ASMSVC/22 27/05	UDAY NAGAR, KHANAPARA, GUWAHATI - 22, ASSAM	BVSc&AH/AAU/05	05-Feb-78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1485	KAMAL KISHORE S/o RAMCHANDRA SIND	RajSVC/3228 /06	CHANDRA BHAWAN, KHEMKA S WARD NO 24 CHURU, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	26-Oct-79
1486	KAMAL LOCHAN DAS S/O SH DURGA CHARAN DAS	ORISSASVC /1981/05	AT-RANIGODA PO-TURUNGA DIST- ANUGUL, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	08-Jul-80
1487	KAMALDEEP SHARMA S/o SH MANOHAR LAL SHARMA	PbSVC/2591/ 05	ST NO. 5, PREM BASTI, SANGRUR 148001, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	04-Feb-80
1488	KAMALESH MONDAL S/O SHRI SHIBPADA MONDAL	WBSVC/319 6/05	VILL & P.O. DULDULI MATHABARI DT. 24 PRGS - 743439, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	01-Feb-83
1489	KAMALJIT SINGH S/o SH. ROOP SINGH	PbSVC/2585/ 05	H.NO. 1757/29-A, ST. NO. 9A, HIRA BAGH, JAGRAON, LUDHIANA, PUNJAB	BVSc&AH/KAU/05	19-Nov-77
1490	KAMAN MANOJ KUMAR S/o BALIN CH.KAMAN	ASMSVC/22 21/05	C/O BALIN CH. KAMAN WARD NO. 3 TANGANAPARA, P.O. & DIST DHEMAJI., ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	01-Jan-8
1491	KAMISSETTI NAGENDER RAO S/o K. SEETHARAMULU	APSVC/4427 /06	2-133,SHIVALAYAM STREET,HUZURNAGAR,NALGODNA DT,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	15-Jun-80
1492	KAMLESH KUMAR DAHERIYA S/o SHRI RAMADHAR DAHERIYA	MPSVC/2292 /05	NEAR SUNIL ATA CHAKKI, NEAR CIVIL LINE BETUL, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	05-Feb-81
1493	KANCHARLA RAMA RAO S/o NAGABHUSHANAM	APSVC/4386 /05	HNO. 2-132/3, MAIN ROAD NEAR PETROL BUNK, ENKOOR, KHAMMAM, ANDHRA PRADESH	BVSc&AH/ANGR AU/05	01-Jul-80
1494	KANCHARLE SHILENDRA REDDY BHOOMREDDY S/o BHOOMREDDY	APSVC/4295 /05	C/OARLA SAYA REDDY,H.NO.8-101- 8,MOSRA,VARNI(M),NIZAMABAD,AND HRA PRADESH	B.V.Sc& A.H./BSKVV/01	12-Dec-76
1495	KANHAJYAL LAL DAMAR S/o SHRI MANGILAL DAMAR	MPSVC/2286 /05	V & P- KALYANPURA JHABUA, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	14-Jan-70

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1496	KANHU CHARAN SAHU S/O SRI SOMANATH SAHU	ORISSASVC /2027/05	C/O - BHASKAR CHANDRA SAHU MOSALIK KANTI STREET, BERHAMPUR DIST - GANJAM, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	01-Jul-80
1497	KANIKA KOSHAL S/O SH ANIL KUMAR KOSHAL	HARSVC/186 8	H.NO. 1479, URBAN ESTATE-2ND, HISAR, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	01-Nov-81
1498	KANSARA JIGAR D.	GUJSVC/262 6/06	MAHIVADO, NR HARIHAR LALJIS TEMPLE, VISNAGAR DIST MEHSANA- 384315, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	07-Apr 83
1499	KANTHARAJU.M.K. S/o KALEGOWDA	KARNASVC/ 3757/	MELEKOTE PO AND VILL, DODDABALLAPUR TALUK, BANGALORE RURAL DT.- KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	15-Jul-82
1500	KARAN SEHGAL S/o SH. R.C.SEHGAL	HPSVC/716/ 05	SEHGAL APARTMENT KASUMPATI SHIMLA-9, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	07-Feb-82
1501	KARANBIR SINGH S/o SH. HARJINDER SINGH	PbSVC/2600/ 05	VPO SARHALI KALAN, TEHSIL TARAN TARAN, DISTT. AMRITSAR., PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	24-Sep-82
1502	KARANBIR SINGH S/o SH. MONINDER SINGH	PbSVC/2635/ 06	VILL-KOTLA BATHUNGARH,P/O JABOWAL,TEH-BABA BAKALA,DT AMRITSAR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/06	09-May-80
1503	KARTIKEY KUMAR RAI S/o SHRI RAM JI RAI	UVC/159/06	J258, SHIVALIK NAGAR RANIPUR HARIDWAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/UAS,B' LORE/04	09-Jan-79
1504	KATHIRIYA GORDHAN VAJU	GUJSVC/268 6/06	ANANDBAG SOCIETY B/H GANESH CHOKADI ANAND 388001, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	01-Jun-71
1505	KAUSHAL KISHORE RAZAK S/o SHREE DINESHWAR RAZAK	BiharSVC/23 20/03	VILL - MISHRAWALIYA P.O - CHANDAN PATTI THANA - SAKRA SUB - DIV - MUZAFFARPUR DIST - MUZAFFARPUR, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/01	10-Dec-75
1506	KAUSHAL KUMAR S/o SHREE BHOLA SHARAN SINGH	BiharSVC/23 96/03	VILL - HASANPUR P.O. - DEHRU AKAUNI THANA - GOH SUB-DIV - BIRAU DIST - DAUDNAGAR, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	15-Oct-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1507	KAUSHALENDRA KUMAR SINHA S/o YADUNANDAN SINHA	BiharSVC/23 60/03	VILL - SARAIYAPAAR P.O. - PAITHANA THANA - ISHLAMPUR SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	01-Mar-77
1508	KAUSHLENDRA KUMARS/oRAM LAKHAN CHAUDHARY	BiharSVC/25 59/04	VILL/MUHALLAH - DUDHICKHAK P.O. - AMRAURA THANA - THARTHARI SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/04	01-Mar-80
1509	KAVITA DHIMAN O/o SHRI RAM NATH SINGH	UVC/160/06	V/1532, TA COLONY, PANTNAGAR, UDHAM SINGH NAGAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/04	27-Jun-82
1510	KAVITHA KANDIMALLA S/o VENKAT REOY	APSVC/4405 /05	VEMULAPALLY, NALGONOA DT 508217, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	04-Jun-81
1511	KEDARNATH KHAMARI S/O KSHETRA MOHAN KHAMARI	ORISSASVC /1997/05	AT/PO: SANKENDU GUOA, VIA: PARLA, DIST: KALAHANOI, PIN- 766103, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	08-Mar-80
1512	KEHAR SINGH S/o SH. KESHAV RAM	HPSVC/741/ 05	I/C V.O.V.D. PHAGWANA, BANJAR DISTT. KULLU, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	13-May-62
1513	KERNEL SINGH RISAM S/o SH. DHIRAJ SINGH RISAM	HPSVC/749/ 05	HEAD NORATH TEMPERATE REGIONAL STATION (CSWRI) GARSA KULLU, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc&A.H/ UNI OF UDIPUR/81	04-Apr-58
1514	KEZHAVITUO VUPRU S/O THEPPUHALIE	NSVC/209/0 6	MEDZIPHEMA TOWN, NAGALANO	BVSc&AH/AAU/97	15-Jun-71
1515	KHOKAN GHORAI S/O SH SUKUKAR GORAI	WBSVC/321 0/05	VILL-HAREKRISHNAPUR,PO- S.S.PATNA, OIST-MIDNAPUR- 721169, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	10-Aug-81
1516	KIJANARO AIER S/O Z.TUSHI AIER	NSVC/202/0 5	C/O MSAOMENAL AIER NAGALAND PUBLIC SERVICE COMMISSION, NAGALAND	BVSc&AH/AAU/05	04-Jun-79
1517	KINKAR KUMAR S/o SHREE VISHNU DEV YADAV	BiharSVC/23 05/03	VILL - BISHHHARIA P.O. - AMANDPUR THANA - ADA- KISHUNGANJ SUB-DIV - ADA- KISHUNGANJ DIST - MADHEPURA, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	02-Jan-79

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1518 KIRAN BHARTI D/o SH. HANS RAJ	PbSVC/2596/ 05	HOUSE NO. 102, VIKAS PURI, TANDA ROAD, JALANDHAR CITY, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	10-Feb-81
1519 KIRANDEEP KAUR D/o H. RANDEEP SINGH	PbSVC/2595/ 05	JUJHAR SINGH NAGAR, GALI NO.3 BATHINDA 151001, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	13-Jul-81
1520 KIRANDEEP S/o HARMEL SINGH	PbSVC/2598/ 05	VPO RAJINANA, TEHSIL BAGHAPURANA, DISTT. MOGA, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	18-Oct-80
1521 KIRANDEEP SINGH S/o RAVINDER SINGH	PbSVC/2618/ 05	NEAR VISAVKARMA DHARAMSHALA, MOGA ROAD, KOTKAPURA, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	09-Mar-81
1522 KISHOR. K.	KERALA/300 2/05	DEEFTHY, MULLAKKARA, MANNUTHY P.O, TRISSUR - 680651 KERALA	BVSc&AH/KAU/05	16-Dec-80
1523 KISHORE KUMAR K.J.	KERALA/310 2/05	KALAPURACKAL HOUSE, KADANAD P.O, KAVUMKANDAM, KOTTAYAM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	09-Jan-79
1524 KISHORE. S.	KERALA/305 5/05	KOASSERIL HOUSE, NEAR RAILWAY CROSS, MOOLEDAM, KOTTAYAM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	20-Jan-81
1525 KLEYOPHA PRATHIPATI S/o P.DAYARATNAM	APSVC/4326 /05	PRATHIPADU, GUNTUR DT - 522 019., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	17-Aug-82
1526 KODGANTI SRIDHAR BABU (K.RAGHAVULU CHETTY)	TNSVC/1531 /05	5, MAIN STREET, PALLIPAT. - 631207 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	05-Jun-63
1527 KOKILAPRABHAKARANW/o (V.PRABHAKARAN)	TNSVC/1593 /05	PLOT NO.15, BHARATHY NAGAR, RANIPET, VELLORE DIST 632 403. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	05-Feb-64
1528 KOMMURU DILL SANDEEP S/o K. SATYANARAYANA	APSVC/4374 /05	H.NO. 5-3-296, SHANTHI NAGAR KHAMMAM 507003, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	04-Mar-82

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1529	KDNETI HEMA KUMAR S/o K. SUBRAHMANYA RAJU	APSVC/4369 /05	H.NO. 1-80, SBR PURA, CHITTOOR DT - 517 571., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	10-May-80
1530	KDPPARAPU SUREKHA D/o K. SURYANARAYANA	APSVC/4336 /05	3/1245, CDDPERATIVE CDLONY, KADAPA - 516 001, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	12-Jun-82
1531	KDRADA ASHA KIRAN D/o VENKATESWARA RAD	APSVC/4414 /05	6-1-53, PALAKDNDA RDAD, SRIKAKULAM 532001, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	21-Nov-81
1532	KDRSAPATI LAKSHMI D/o JAYARAMAIAH	APSVC/4419 /05	HND. 3485, MIG PHASE II, BHEL, RAMACHANDRAPURAM, H'BAD 502032, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	18-Jul-82
1533	KDRUTH JDHNSI (M.KDRUTH)	TNSVC/1596 /05	8-48, TNHB QUARTERS, KARAI, RANIPET, VELLORE DIST 632 404.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	22-Dec-63
1534	KR. JAYANTHIW/o. (M.JEYAPRAKASH)	TNSVC/1608 /05	25, ETHIRAJ STREET, RAJAJI NAGAR, PALLAVARAM, CHENANI - 600 043 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	27-Apr-77
1535	KRISHAN KUMAR SINGH S/o SRI RANG BAHADUR SINGH	BiharSVC/25 78/06	VILL/MUHALLAH - AHINAURA P.O. - HARINATHPUR THANA - MDHANIYA SUB-DIV - MDHANIYA DIST - KAIMUR, BIHAR	BVSc&AH/JNKVV /04	21-Apr-74
1536	KRISHNA KUMAR SHARMA S/o SHRI SHIV CHARAN SHARMA	UVC/89/06	VETY OFFICER,GDVT.VETY HOSPITAL,JAINIT,DIST- ALMDRA,UTTARANCHAL	BVSc&AH/IGKVV/ 00	21-May-78
1537	KRISHNA PRASAD MURUGONDLA S/o VENKAIAH	APSVC/4368 /05	DPP: TO PLOT ND.54, RAMAKRISHNA NR, NAWABPET, NELLDRE - 2., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	19-Dec-80
1538	KRISHNA RAO SIGILEPELLI S/o NARAYANA RAO	APSVC/4313 /05	TELEPHDNE EXCHANGE, KOTABDMALI - 532 195, SRIKAKULAM DT.,, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	05-Jun-83
1539	KRISHNA. T S/o LINGAIAH	APSVC/4306 /05	FLAT NO. 111 , GAYATRY TDWERS, TARNAKA, SECUNDERABAD - 500 01,7 ANDHRA PRADESH	B.V.Sc/APAU/72	15-Jun-48

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1540 KRISHNAKANT SINGH S/o SHRI SINGESHWAR PRASAD SINGH	GUJSVC/262 9/06	VILL HARWA, PO. JAGDISHPUR, DIST BHAGALPUR, BIHAR 813105,	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	05-Sep-81
1541 KU. ARCHNA SHARMA S/o SHRI P.N. SHARMA	MPSVC/2302 /05	PENCH NO.-2 DEONAGAR COLONY BHIND, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	30-Dec-79
1542 KU. JYOTI MARKO D/o SHRI RAMKRIPAL MARKO	MPSVC/2300 /05	MIG-6, H.NO.-1605, CHANDNI ENCLAVE SOUTH CIVIL LINE JABALPUR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	02-Jun-80
1543 KU. MANISHA SHARMA D/o SHRI D.K. SHARMA	MPSVC/2295 /05	QTR. NO. H/8, IRRIGATION COLONY CHHATARPUR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	28-Jun-79
1544 KU. RAKHI SONEL D/o H.S. SONEL	MPSVC/2309 /05	313, VAISHNAV COLONY, SURENDRA PALACE BHOPAL, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	10-Jul-77
1545 KU. SARITA MANGAL D/o SHRI MAHESH CHAND MANGAL	MPSVC/2310 /05	BDHIND TOWN HALL, JIWAJI GANJ MORENA MORENA, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	01-Jul-80
1546 KU. SHIVA NEMA D/o SHRI SHARAD KUMAR NEMA	MPSVC/2301 /05	1986/1, RAMNIWAS, EKTA VIHAR COLONY, RATAN NAGAR ROAD JABALPUR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	05-Jul-81
1547 KU. SMITA PATEL D/o SHRI S.K. PATEL	MPSVC/2290 /05	G-9/9, SOUTH T.T. NAGAR BHOPAL, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	17-Aug-79
1548 KULDEEP SINGH S/O SHSUKHVIR SINGH	HARSVC/186 9	145/31, AZAD NAGAR, NEAR OLD HBC. ROHTAK, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	30-Dec-81
1549 KUMAR AMAN S/o SHREE MAHADEV YADAV	BiharSVC/25 48/04	VILL/MUHALLAH - BARIKHANJARPUR P.O. - BARIKHANJARPUR THANA - BARARI SUB-DIV - BHAGALPUR DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	02-Jan-81
1550 KUMAR ANANT SAGAR S/o SHREE ARBIND KUMAR	BiharSVC/24 92/04	VILL/MUHALLAH - USHMANPUR P.O. - TINA THANA - NAGARNAUSA SUB- DIV - NAGARNAUSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/IGKVV/ 04	01-Mar-78

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1551	KUMAR PRAFUL CHANDRA S/o SRI B.P MAHTO	BiharSVC/22 76/03	VILL- JADUPARAN PO -JAGDISH PARAN THANA - CHAKMEHASI SUB - DIV - SAMASTIPUR DIST - SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	04-Jan-79
1552	KUMAR PRASHANT S/o SAMARENDRA MISHRA	KARNASVC/ 3803/	C/O DWAKAR KUMAR SINGH, B.J.KRISHNAPPA BUILDING, ABBIGERE MAIN RD, JALAHALLI WEST, BANGALORE 560015, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	12-Mar-78
1553	KUMAR SANJIV S/o SHRE MANGAL CHANDRA SAH	BiharSVC/25 05/04	VILL/MUHALLAH - SHASTRI CHAUK, MATHERGHAT P.O. - KASWA SUB- DIV - PURNIA DIST - PURNIA, BIHAR	BVSc&AH/UAS,B' LORE/04	04-Dec-78
1554	KUMAR SHASHAK SHEKHER S/o SHREE RAMJEE PASWAN	BiharSVC/23 61/03	VILL - ABHANDA P.O. - LEHERIASARAI THANA - LEHERIASARAI SUB-DIV - LEHERIASARAI DIST - DARBHANGA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	14-May-77
1555	KUMARI ANJANA D/o SHREE DHARMDEO PODDAR	BiharSVC/25 01/04	VILL/MUHALLAH - PUNJABI COLONY GALI NO.1 P.O. - SAMASTIPUR THANA - SAMASTIPUR SUB-DIV - SAMASTIPUR DIST - SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc&AH/IGKV// 03	08-Feb-78
1556	KUNJ BIHARI SHARMA S/o SHRI PARSHU RAM SHARMA	UVC/16/06	VETY OFFICER,GOVT.VETY HOSPITALCAMPUS,GAUCHAR,CHAM OLI,UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /01	04-Feb-74
1557	KUSUM MALA RAJASEKHAR (E. RAJASEKHAR)	TNSVC/1590 /05	NO.66, DEFENCE OFFICERS COLONY, EKKADUTHANGAL, CHENNAI 600 032.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	04-May-57
1558	KUZENYI WIDEO S/O ZAUNYI WIDEO	NSVC/199/0 5	C/O RUYOSUYI WIDEO,NAGALAND ASSEMBLY SECY.KOHIMA,NAGALAND	BVSc&AH/AAU/05	08-Aug-80
1559	L. ANANDA PADMANABAN (R.LOGANATHA RAJ)	TNSVC/2173 /05	NEW NO.15, OLD NO.6/2, II STREET, DR.SUBURAYAN NAGAR, KODAMBAKKAM, CHENNAI 600 024.	B.V.Sc/TNAU/74	27-Feb-58
1560	L. ARESH(M.LAKSHIKAN)	TNSVC/1581 /05	2 / 89J, VALLALAR STREET, GOVINDARAJ NAGAR, BAGAYAM, VELLORE 632 002.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	22-Mar-73
1561	L. ARIEL BENHUR S/O LLOYD JAMES	TNSVC/3478 /06	NUTRICON ANIMAL HEALTH CARE, B4/24, INDUSTRIAL ESTATE, MARAIMALAI NAGAR, POST, CHENGELPET TK.	B.V.Sc/TNV&ASU /95	2-Jul-72

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1562 L. ARUN (P.LOGANATHAN)	TNSVC/639/ 05	TRICHY ROAD, VIRAGANUR POST, GANGAVALLI TK, SALEM DT, PIN : 636 116.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	27-Jun-82
1563 L. ARUN KUMAR (T.G.LAKSHMIPATHY)	TNSVC/642/ 05	DEVAKI ILLAM., ACHANUR, VAITHYANATHAN (PETTAI) (POST) THIRUVAIYARU (VIA), THANJAVUR 613 203.	B.V.Sc/TNV&ASU /96	20-Feb-72
1564 L. ARUNA RANI S/O K. LOGANATHAN	TNSVC/3510 /06	IB, YERCAUD MAIN ROAD, OPP TO CENTRAL JAIL, THIRU NAGAR, HASTHAMPATTY,SALEM 636 007TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	25-Apr-74
1565 L. DARWIN (C.LAWRENCE)	TNSVC/1804 /05	PLOT NO.11 / 16, M.L. PILLAI NAGAR, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI - 627 002,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	04-May-77
1566 L. DURAIMURUGAN (P.LAXMANAN)	TNSVC/445/ 05	SEPETTAI VILLAGE PO 604152, GINGEE TK, VILLUPURAM DTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	03-Jun-82
1567 L. GANESH VARADHARAJAN S/O M.LAKSHMANAN	TNSVC/3457 /06	931/19, 8TH STREET, ASHOK NAGAR, TUTICORIN 628 008.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84 /17	4-Feb-60
1568 L. GIGI KENDRALYNN (D.A. LOVESON)	TNSVC/116/ 03	MIG-18, NOLAMBUR SCHEME, 2ND MAIN ROAD,6TH CROSS STREET,MOGAPPAIR WEST,CHENNAI 60,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	14-Apr-80
1569 L. GUNASEKARAN (K. LAKSHMANAN)	TNSVC/1960 /05	2, NEHRU NAGAR, NORTH UDAIYARPALAYAM, ATTUR POST, TALUK, PIN : 636 102, SALEM DT.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	27-Feb-58
1570 L. JOHN PRABAHAR (A.LOUIS)	TNSVC/1099 /05	5, OLD KUYAVAR PALAYAM III STREET, MADURAI 625 009.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	11-May-62
1571 L. LOGANATHAN (K.A.LINGICHETTY)	TNSVC/1902 /05	4 / 662, TEACHER'S COLONY, DHARMAPURI - 636701,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	01-Feb-53
1572 L. MANIVANNAN (K.R.LAKSHMANAN)	TNSVC/1148 /05	THOTTIA PATTI, C.S.PURAM POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT, PIN : 63 7401.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	25-Jul-63

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1573	L. NAGARAJAN (J.LINGAN)	TNSVC/2827 /05	3 / 2, KANDIBIKKAI VILLAGE, KUNDAH - BRIDGE POST, THE NIL GIRIS 643 219.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	01-Jul-58
1574	L. PALANIVEL (S.LAKSHMANA GOWDER)	TNSVC/2857 /05	HIG-B-75, TNHB COLONY, GANDHIGRAMAM, KARUR, PIN 639 004TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	02-Mar-59
1575	L. RAJENDRAN (P.M.LAKSHMANAN)	TNSVC/1973 /05	2/233-B, THANDE KUPPAM, SKM FEED GODOWN BUILDING, CHENNAI BYEPASS ROAD, KRISHNAGIRI PIN - 635001	B.V.Sc/TNAU/87	13-May-64
1576	L. RAMA LINGAM (T.P.LAKSHMANAN)	TNSVC/2809 /05	THALIKKOTTAI POST, VASASERI SO, MANNARGUDI TK, THIRUVARUR DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	15-Mar-49
1577	L. RANGASAMY (P.LAKSH SUMANAN)	TNSVC/2859 /05	INDIRA NAGAR, KASIPALAYM POST, GOBI TK, ERODE DIST 638 454, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	03-May-66
1578	L. SAKTHIVEL (P.M.LAKSHMANAN)	TNSVC/2502 /05	PALAKKARAI POST, THUDUPPATHI VIA, PERUNDURAI TK, ERODE DT, TN 638 057.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	25-Mar-74
1579	L. STEPHAN (R. LAWRENCE)	TNSVC/223/ 03	KUZHAVILAI, CHEMPONVILAI, KANYAKUMARI DIST-629 177.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	15-Mar-80
1580	L. SUCHINDER (T.A.LAKSHMANASAMY)	TNSVC/2748 /05	B-2, THILAKESH APARTMENTS, NO.1, RENGANATHAN STREET, RADHA NAGAR, CHROMEPET, CHENNAI 600 044.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	23-May-78
1581	L.CHANDRARAJU(M.LING APPA GOUNDER)	TNSVC/1757 /05	KOLAKKADU, THATHAIYANGARPATTY (P.O) KARAIKURICHI (VIA) NAMAKKAL-637 014 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	20-Jun-51
1582	L.G. MANIVANNAN (L.S.GANESAN)	TNSVC/1322 /05	2 / 4, BAZZAR STREET, LALIGAM POST, DHARAMAPURI DISTRICT, PIN : 636 80TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	27-Jun-72
1583	L.HEMA S/O N.LOGANATHAN	TNSVC/3373 /06	POOSARIPATTI POST, PANNAPATTI VIA, OMALUR TK, SALEM DIST, 636 305TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	26-Oct-80

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1584 L.R. RADHAKRISHNAN (L.E.RAMASAMY)	TNSVC/2183 /05	2, KRISHNAN KOIL SOUTH STREET, PALAYAMCOTTAI, TIRUNELVELI 627 002.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/69	19-Jul-46
1585 L.S. MOHIDEEN PILLAI (L.K.SHEIKUDUMAN)	TNSVC/3081 /05	101 / 2 / 16, KALANDAR MASTHAN STREET, KADAYANALLUR 627 751, TIRUNELVELI DT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	07-Feb-62
1586 LAKSHMI PRAVEENA YARRU D/o RAJAGOPALA RAO	APSVC/4396 /05	DR NO. 7-4-20, BHAVANAM VARI ST,GANGANAMMAPET,TENALI 522201GUNTUR DT,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	11-Dec-63
1587 LAKSHMIKANT S/o SHREE RAJENDRA PRASAD	BiharSVC/23 97/03	VILL - KEWAI P.O. JAITHPUR THANA - CHANDI SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/JNAU/0 3	01-Mar-77
1588 LALAN KUMAR BAIDH S/o SHREE BALESHWAR BAIDH	BiharSVC/24 27/04	VILL + P.O. - SHIKKAT THANA - BARARI SUB-DIV - DIST KATIHAR, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	15-Nov-75
1589 LALIT KUMAR S/o LATE JAGDISH NARAYAN YADAV	BiharSVC/22 75/03	VILL - PADMA P.O - PADMA THANA - LADANIYAN SUB - DIV -JAYNAGAR DIST - MADHUBANI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 0	12-Mar-76
1590 LALITA UMARI D/o SHREE SHYAM SUNDAR SAH	BiharSVC/25 26/04	VILL/MUHALLAH - KASBA P.O. - KASBA THANA - KASBA SUB-DIV - PURNEA DIST - PURNEA, BIHAR	BVSc/TNV&ASU/ 04	14-Mar-80
1591 LALJI SINGH YADAV S/o SHRI BALI KARAN SINGH YADAV	UVC/59/06	VETY OFFICER,GOVT.VETY HOSPITAL,RAIMER,BARETH,DT- UTTARAKASHI,UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/98	10-Jul-70
1592 LALNUNTHANGA ROYTE. S/o SRI R.CHHUAHKHAMA	TripuraVC/16 2/05	VANGHMUN, JAMPUI HILLS, NORTH TRIPURA PIN NO 799269, TRIPURA	BVSc&AH/CAU/0 5	11-Jun-80
1593 LANCY MAMMEN (K.P.MAMMEN)	TNSVC/1597 /05	B-48, TNHB QUARTERS, KARAI, RANIPET, VELLORE DIST 632 404.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	07-Dec-63
1594 LAVKUSH KUMAR S/o SH SACHCHIDANAND SINHA	BiharSVC/25 73/04	VILL/MUHALLAH - DEKPURA P.O. MORE TALAB THANA - RAHUI SUB- DIV - BIHARSHARIF DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	04-Jul-75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1595	LAXMAN SINGH S/o LATE SHREE MULKRAJ SINGH	BiharSVC/24 51/04	VILL/MUHALLAH - NARAYANPUR P.O. - SAHIYAR THANA - SIMRI SUB-DIV - OUMRAON OIST - BUCXAR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	25-Dec-72
1596	LAXMI NARAYAN SANKHALA S/o OEEP	RajSVC/3213 /06	NATHUSAR KA BASS MALIYON KA MOHALLA BIKANER, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	16-Jul-79
1597	LHUVETA NYEKHA S/O LT PURUSA NYEKHA	NSVC/207/0 6	C/O N.AKOLA LDA PWD(R&B)CHIEF ENGINEER OFFICER,NAGALAND	BVSc&AH/AAU/06	13-May-80
1598	LIJU V.J.	KERALA/303 8/05	LIJU NIVAS, NEAR GOVT HOSPITAL CHITTUR P.O. PALAKKAD 678101, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	10-Dec-80
1599	LOHITH KUMAR.T. S/o THIPPESWAMY	KARNASVC/ 3773/	NEAR WATER TANK, VEOAVATHINAGAR,HIRIYUR TALUK,CHITRAOURGA - 572144, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	02-Jan-82
1600	LOKESH.L.V. S/o VENKATAPPA	KARNASVC/ 3701/	LAKSHMIPURA, BISALEHALLI PQ,KAOUR TALUK,CHIKKAMAGALORE DT, KARNATAKA	BVSc&AH/UAS,B' ore/04	06-May-80
1601	LONGER ONEN AO S/O LT TEMSU TOBA	NSVC/203/0 5	C/O A.YIANLA IMSANG TRACER(PWD)HOUSING NO.II SUB.OIVISION DMP,NAGALANO	BVSc&AH/AAU/05	02-Feb-74
1602	LOVE PREET SINGH S/o SH. FAJIR SINGH	PbSVC/2611/ 05	R.NO.17,H.NO.3,GURU ANGAO OEV VETY UNI. LUDHIANA, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	05-Apr-82
1603	LOZHOL RHETSO S/O VIPWEL RHETSO	NSVC/201/0 5	KIKROPOL JOHN IOC PETROL PUMP NH39,MOHONKHOLA,KOHIMA,NAGAL AND	BVSc&AH/AAU/05	15-Feb-75
1604	LT. COL. ASHWINI GOEL S/O SH PREM PRAKASH GOEL	HARSVC/189 7	1, HARYANA, R & V SQN. NCC, CCS, HAU, HISAR., HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/92	05-Jun-88
1605	M. A. RAVICHANORAN (M.ANNAMALAI)	TNSVC/371/ 04	NO.14, SHANKAR NAGAR, SHOLINGUR, WALAJA TK, VELLORE OT, PIN : 631 102.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	01-Jul-81

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1606 M. ABBAS(V. MDHAMED ISMAIL)	TNSVC/88/03	175-F/ 748, MAHMOODHA NAGAR, MELA KADAYANALLUR, KADAYANALLUR PDST, TIRUNELVELI DISTRICT 627 7TAMILNADU1.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	13-Mar-80
1607 M. ABDUL RAHMAN (M.MDHAMED MUSTAFA)	TNSVC/1460 /05	5, SARDJINI STREET, TAHSILDAR NAGAR, THAMARAIKULAM, PERIYAKULAM, THENI DISTRICT PIN 625 602	B.V.Sc/TNAU/88	10-Mar-66
1608 M. AKILAS/D (K.M.MUNUSAMY)	TNSVC/3414 /06	1/310, AKILA NILAYAM, KULLANDDR, CDLLECTDRATE PDST, DHARMAPURI 636 705.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	17-Jul-83
1609 M. AKILRAJ S/D M.MOOVENDAN	TNSVC/3452 /06	ALAMELUPURAM PDST, PAPIREDDIPATTY TK, DHARMAPURI DIST, TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNV&ASU /01	25-May-77
1610 M. ALAGUMUTHU S/D M.MUNDAN	TNSVC/3454 /06	MAPPILLAIURANI VETERINARY DISPENSARY MAPPILLAIMANI, THDDTHUKUDI DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	7-Jan-62
1611 M. ALAMELU S/D R.THANGARAJ	TNSVC/3462 /06	155, GANDHI STREET, DLAPALAYAM, NAGADEVANPALAYAM PD, GDBI TK, ERDDE DT, 638476, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	29-May-69
1612 M. ALEXANDER (A.MANDHARAN)	TNSVC/776/ 05	5 / 73, AMBEDKAR NAGAR, REDDIPATTI, SALEM 636 302TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	23-Jun-69
1613 M. ANANDA CHITRA W/o. (N.SUBBAIYAN)	TNSVC/948/ 05	228, ANNA GRAMAM, DPP. NEYVELI INDIRA NAGAR, GANDHI NAGAR, VADAKKUTHU VIA 607 308, CUDDALDRE DISTRICT.	B.V.Sc/TNV&ASU /97	14-Apr-74
1614 M. ANANDHI (A.MAILAPPAN)	TNSVC/43/0 3	No.5-1/ 175,NEW CDLDNY, SINGAMPUNARI 630502SIVAGANGAI D-TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	02-Jun-77
1615 M. ANBALAGAN (P.K.MARIMUTHU)	TNSVC/1028 /05	48, 10TH WARD, WEST CAR STREET, THARAMANGALAM (PD), SALEM (DT) DMALUR (TK) 636502	B.V.Sc/TNAU/89	01-May-64
1616 M. ANBARASU S/D M.MUTHU	TNSVC/3336 /06	K.K.NAGAR, DDNATHUR (P.D.) ATTUR (TK) SALEM DIST- 636 112TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	9-Jul-82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1617	M. ANBURAJA (V.MAHALINGAM)	TNSVC/417/ 04	PANDUVAKKOTTAI VILLAGE, MARUTHANKONE VIDUTHI POST, GANDARVAKKOTTAI TK, PUDUKOTTAI DT, PIN :622 302.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	16-Apr-81
1618	M. ANWARDEEN (M.MEERA HUSSAIN)	TNSVC/2569 /05	56, NETHAJI STREET, SANKAR MILL LANE, DHARAPURAM 638 656TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	01-May-64
1619	M. ARASU SARAVAMAN(M.MARAPPA N)	TNSVC/158/ 03	13, MAHENDRAPURI, SALEM 636 008.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	10-Aug-78
1620	M. ARAVINTHAN S/O T.MARIMUTHU	TNSVC/3442 /06	596, MATHI ILLAM, PERIYAR NAGAR, SATTUR 626 203, VIRUDHU NAGAR DIST, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /96	15-Jun-73
1621	M. ARULMANI (N.MOOKAN)	TNSVC/3208 /05	PERUMATHUR VILLAGE & POST VEPPUR (VIA) KUNNAM TALUK, PERAMBALUR DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/79	13-Apr-54
1622	M. ARUNA PANDA W/o (MANOJ MURALI)	TNSVC/251/ 04	63-B, VELACHERRY ROAD, CHENNAI 600 032.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	23-Jul-72
1623	M. ARUNBOSE (S.MARIADHAS)	TNSVC/774/ 05	NO.56, V.V.KOIL STREET, WALLAJABAD 631 805, KANCHEEPURAM DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	30-Jun-76
1624	M. ASAITHAMBI (T.MUTHUGOUNDER)	TNSVC/2596 /05	27A, PALLAR STREET, IDAPPADY POST, SALEM DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	03-May-54
1625	M. ASHOKKUMAR (S.MARIMUTHU)	TNSVC/2992 /05	MANVILUNDAN SOUTH PUDUR, MANVILUNDAN P.O. ATTUR TALUK, SALEM DISTRICT 636 121, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	07-Oct-82
1626	M. ASOKAN (N.MUTHUKKARUPPAN)	TNSVC/1136 /05	13, II BLOCK, KADHI NAGAR, DEVAKOTTAI RUSTA, KARAIKUDI 630 005.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	06-Apr-55
1627	M. AYYADORAI (S.MASANAM KARAYALAR)	TNSVC/2110 /05	PLOT NO.182, M.G. NAGAR, PART II & III, URAPPAKKAM WEST, KANCHEEPURAM 603 202.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	10-May-56

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1628 M. BABU (R.MARUDHAKASI)	TNSVC/579/ 05	KOTTIYAL POST, T. PALUR VIA, UDAYARPALAYAM TK, PERAMBALUR DIST-612 904.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	08-Jul-81
1629 M. BAGATH (MATHIYALAGAN)	TNSVC/23/0 2	THALAI NAGAR, THALUTHALAI POST, PERAMBALUR DISTRICT 621 103 TAMILNADU	B.V.Sc&AH/PU/02	27-Mar-80
1630 M. BALACHANDIRAN (MUTHANA MOORTHY)	TNSVC/87/0 3	NO.9, (OLD NO.49G2), FIFTH STREET, SUBRAMANIYA RAJA NAGAR, MADURAI ROADSIVAGANGAI PTAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/87	01-Jun-60
1631 M. BALAJI (M.MURUGESAN)	TNSVC/842/ 05	34, NORTH MOHAMEDIAR STREET, SENDAMANGALAM 637 409.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	19-Jun-74
1632 M. BALAMURUGAN (P.MATHESAN)	TNSVC/1431 /05	PERIAKADAMPATTI (P.O.) THARAMANGALAM (VIA) OMALUR (TK) SALEM DISTRICT - 636 502, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	10-Jun-74
1633 M. BALASUBRAMANIAN (S.MARUTHANAYAGAM)	TNSVC/2374 /05	PALAPATTI, PONNAMBALAMPATTI POST, VAIYAMPATTI VIA, MANAPARAI TK, TRICHY D 621 315.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	18-Feb-69
1634 M. BALU MAHENDIRAN(P.MANOHAR AN)	TNSVC/127/ 03	KARANUR, KUTHIRAICHANDAL POST, KALLAKURICHI TKVILLUPURA- 606 202TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	03-Jun-80
1635 M. BHARATHI (V.MANICKAM)	TNSVC/3079 /05	H50, HIG, PHASE VI TNHB, PONVIZHA NAGAR, MAHARAJANAGAR (P.O). TIRUNELVELI 627 011 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	24-Aug-59
1636 M. CHANDRA SEKAR (K.MARIAPPAN)	TNSVC/631/ 05	106/1, MARIAMMAN KOIL ST. PVR THEATRE EAST, NAMBIYUR, ERODE DIST. PIN - 638458, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	12-Nov-81
1637 M. CHANDRA SEKARAN (K.MUTHULINGAM)	TNSVC/1408 /05	216, THIRUNAVUKKARASU NAGAR, ATTUR (P.O. & TK) SALEM DISTRICT, PIN 838 102TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	05-Jan-48
1638 M. CHANDRAN (L.MANICKAM)	TNSVC/1037 /05	5 / 32 V, ARUMUGA NAGAR, ALAGAPURAM SALEM - 636 016TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	01-Jul-52

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1639 M. CHANDRASEKAR (P.MUNISWAMY)	TNSVC/2948 /05	PLOT 13, RAJAN NAGAR, INJAMBAKKAM, CHENNAI 600 041TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	04-Jun-70
1640 M. CHANDRASEKARAN (N.MARUTHANAYAGAM)	TNSVC/1631 /05	17, THENDRAL STREET, PARVATHIPURAM, MUSIRI, TRICHY DIST- 621 211, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	31-Dec-58
1641 M. CHANDRASEKARAN S/O K.MARAPPAN	TNSVC/3384 /06	THAMMANGALIPALAYAM, ERNAPURAM POST, NAMAKKAL TK & DIST, PIN : 637 003.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	5-Jun-82
1642 M. CHINNATHURAI PANDIAN (N.MADASAMY)	TNSVC/3047 /05	NO.2, IIIRD MAIN ROAD, I.I.T. COLONY, PALLIKARANAI, CHENNAI 601 302	B.V.Sc/TNV&ASU /94	09-May-67
1643 M. DAVID (P.A.MARIADOSS)	TNSVC/3149 /05	47, III CROSS, PARISUTHAM NAGAR, THANJAVUR 613 007.TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/81	05-Jan-58
1644 M. DEVENDIRAN (G.MUTHUSAMY)	TNSVC/1057 /05	NO.12, K.K. NAGAR, OPPTO. TAMIL NADU MERCANTILE Bank, GORI MEDU, YERCAUD MAIN ROAD, SALEM - 636 008.	B.V.Sc/TNAU/86	08-Apr-61
1645 M. DHAYANTHI (M.S.MUTHUSAMY)	TNSVC/1927 /05	F.M. QUARTERS, 'D' - 5, METTUR DAM 636 401, SALEM DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	16-Apr-65
1646 M. DURAI PANDIAN (N.MARIMUTHU)	TNSVC/2154 /05	4/412-3, KALAIVANI ILLAM, M.G.R. NAGAR, KULLANAICKEN PALAYAM POST, ERODE 638 008.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	03-Jun-70
1647 M. DURAISAMY (A.MURUGAN)	TNSVC/1728 /05	65, KRISHNAMOORTHY NAGAR, OPP. TO SIMCO METERS LTD., K.K.NAGAR, TRICHY - 21, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	01-Jun-59
1648 M. ELAIYABHARATHI (G.MANIVEL)	TNSVC/3337 /06	THAMMANAMPATTI, LALIGAM POST, DHARMAPURI DT & TK, - 636 804TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	5-Mar-83
1649 M. ELAIYARAJA (N.MANICKAM)	TNSVC/1993 /05	7 / 51A, KRISHNA NAGAR MAIN, AMMAPET, SALEM - 3.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	19-Jun-77

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1650 M. ELANCHELIAN S/O S.MARUDHAMUTHU	TNSVC/3406 /06	ANNAI ILLAM, 6, POONGA NAGAR, V.R. PURAM, COIMBATORE 641 015.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	5-Mar-54
1651 M. ELANGO VAN (N.MARIMUTHU)	TNSVC/2544 /05	DOOR NO.4/412-3, KALAI VANI ILLAM, M.G.R.NAGAR, KULLA NACIKEN PALAYAM POST, ERODE 638 008.	B.V.Sc/TNV&ASU /90	17-May-57
1652 M. ELANGO VAN (P.A.MANICKA MUDALIAR)	TNSVC/2080 /05	58, ATHANGARAI STREET, NEMILI 631 051, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	07-Mar-53
1653 M. ELAVARASU (P.MARI)	TNSVC/2466 /05	SEMBARAMPATTU POOTTAI POST, SANKARAPURAM TK, VILLUPURAM DIST, 606 401., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Jun-72
1654 M. ESAKKI RAJAN (P.MOOKKANDI)	TNSVC/257/ 04	42, UALAIYADS, NAZARETH 628 617, TUTICORIN DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	19-Sep-79
1655 M. ETHIRAJAN S/O G.MURUGAN	TNSVC/3484 /06	KODIPPATY VIA, KOUNDANOOR POST, POCHAMPALLI TK, KRISHNAGIRI.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	20-May-82
1656 M. GANAPATHI RAJ (R.MURUGESAN)	TNSVC/10/0 2	122, MAIN ROAD. OLAGADAM 638 314, ERODE DISTRICT ,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	06-May-78
1657 M. GANESAN (A.MEIYAPPAN)	TNSVC/3152 /05	15.A, KATTUR, ALACHEMPALAYAM POST, IDAPPADI TALUK, SALEM DIST, PIN : 637 101.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	20-Jul-70
1658 M. GANESAN (I.MURUGAIAN)	TNSVC/3254 /05	2 / 39, MARUDUR NORTH POST, VADARANIAM TK, NAGAPATTINAM DIST, PIN : 614 714.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	15-Mar-68
1659 M. GANESAN (S.MUTHUSAMY)	TNSVC/2729 /05	KOLATHUPALAYAM, M.PIDARIYUR POST, CHENNIMALAI, 638 051, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	03-Jun-73
1660 M. GOBI (D.MANICKAM)	TNSVC/2618 /05	NO.34, PAPPAN KULAM, OLD GINGER ROAD, VILLUPURAM 605 602,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	12-Jun-61

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1661	M. GOVINDASAMY (P.MANNAR GOUNDER)	TNSVC/1895 /05	MARIGOUNDER SOWLOOR, PANNESWARAMADAM (PO), KAVERIPATTANAM, KRISHNAGIRI DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80 /05	06-Apr-57
1662	M. GOVINDASWAMI (A.K.MANICKAM)	TNSVC/2592 /05	53, ATHANI ROAD, SATHYAMANGALAM, 638 401.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/68 /05	10-Jun-40
1663	M. GOWDHAMAN (L. MANICKAM)	TNSVC/239/ 04	DOOR NO.3, ANNA NAGAR, KADACHANALLUR PO, ERODE 638 008.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	04-Jan-80
1664	M. GUNASEKARAN (P.MUTHUSAMY)	TNSVC/1306 /05	AMMAPALAYAM PUDUR, AGRAHARAM POST, GURUSAMIPALAYAM VIA, NAMAKKAL 637 403, TN.	B.V.Sc/TNV&ASU /95	23-Apr-71
1665	M. HAJEE MOINUDEEN SIDDIQ(M.K. MASTHAN)	TNSVC/133/ 03	26, POLLACHI ROAD, ANAIMALAI 642 164POLLACHI TK, COIMBATORE DISTAMIL NADUT.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	05-Jun-79
1666	M. HARIHARAN (A.MADESWARAN)	TNSVC/383/ 04	B-6., TNHB, NARASINGAPURAM POST, ATTUR TK, SALEM DT. - 636108, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	20-Jan-80
1667	M. JAI ANANDH (S. MARIADOSS)	TNSVC/199/ 03	NO.56, V.V.KOIL STREET, WALAJABAD 631 605, KANCHEEPURAM DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	09-Sep-78
1668	M. JAYACHANDRAN (P. MARIAPPAN)	TNSVC/232/ 04	10.B, SANGILI PADAYACHI LANE, THURAIYUR 621 010, TRICHY DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81 /04	15-May-56
1669	M. JAYACHANDRAN (P.MARIAPPAN)	TNSVC/1629 /05	10B, SANGILIPADAYACHI LANE, THURAIYUR 621 010 TRICHY DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81 /05	15-May-56
1670	M. JAYAKUMAR (P.MARAPPAN)	TNSVC/295/ 04	THOTTA KADU, ERAYAMPATTI, BOMMAPATTI PO, T.GODU TK, NAMAKKAL DT 637 212.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	30-Jul-81
1671	M. JAYANTHI S/O P.MURUGESAN	TNSVC/3359 /06	THUTHIKULAM (P.O.) K,N,PATY (VIA) NAMAKKAL DISTRICT PIN 637 404.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	5-Jun-82

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1672 M. JAYAPRAKASH (G.E.MOORTHY)	TNSVC/1693 /05	DOOR NO. 1 / 3 / 29B, POOCHANKOTTAI LANE, KRISHNAN KOIL STREET, SALEM - 636 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	14-May-77
1673 M. JAYAVEL (R.MUTHUSAMY)	TNSVC/265/ 04	KANNAMPIL THOTTAM, ESAPARIYUR, NAGALUR PO, ANTHIYUR VIA, ERODE DT, PIN : 636 501.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	12-Jun-75
1674 M. JEYAKUMARI (W/O M.KARUPPIAH)	TNSVC/3176 /05	NO.36A, BHARATHI NAGAR, METTU STREET, MAIN ROAD, KOVILPATTI 628 501, THOTTHUKUDI DISTRICTTAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	25-May-75
1675 M. JEYAPRAKASH (M.MANI)	TNSVC/1510 /05	NO.25, ETHIRAJ STREET, RAJAJI NAGAR, PALLAVARAM, CHENNAI 600 043	B.V.Sc/TNV&ASU /01	29-May-75
1676 M. JEYARAMAN (K.MANIMUTHU)	TNSVC/1096 /05	KARISALPATTY, KARUMATHUR POST, USILANPATTY, MADURAI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	30-May-63
1677 M. JOTHI LAKSHMI(A.MANI)	TNSVC/136/ 03	7 / 41, PERUMAL KOIL STREET, SENDURAI TALUK, PERAMBALUR DT 621 71 TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	24-Mar-80
1678 M. K. SAMBOORNAM (M.P.KANDASAMY)	TNSVC/452/ 05	CLOTH MERCHANT, OTHAKUTHIRAI MAIN ROAD, ERODE 638455 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	09-Dec-60
1679 M. KALIRAJ (T.MURUGAN)	TNSVC/612/ 05	SAMPATH MATCH WORKS, DURGA NAGAR, KURUVIKULAM, SANKARAN KOVIL TK, TIRUNELVELI, PIN : 627 754.	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-May-79
1680 M. KAMALAKANNAN (C.MUTHUSAMY)	TNSVC/1887 /05	VEECHARI KARAI, ANAIPALAYAM (PO), RASIPURAM (TK), NAMAKKAL DT - 637401, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	09-Jun-73
1681 M. KANDASAMY (N.MUTHUSAMY)	TNSVC/1401 /05	87, RAMANCHANDRA NAGAR, EMAPPER, KALLAKURICHI PIN 606 202 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	10-May-67
1682 M. KANIYAPPAN (S.MADASAMY)	TNSVC/1129 /05	ARASARADI, BAGHAVATHIPURAM ROAD, PULYARAI PO, SHENCOTTAH TK, NELLAI DIST.-627 813. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	12-Mar-60

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1683	M. KARIKAL CHOLAN (S.MARIAPPAN)	TNSVC/991/ 05	150 / B1, NADIAMBAL PURAM, MUTHUPETTAI RDAD, PATTUKKOTTAI 614 602.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	06-Jul-60
1684	M. KARTHIKEYA RAJA (V.MUTHUSAMY)	TNSVC/1022 /05	5 / 74, THANAMOORTHYUR, VEERAPAM PALAYAM PO, IDAPPADI PO, SALEM DT.- 637105,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	17-Jul-73
1685	M. KARTHIKEYAN (A.MOHAN)	TNSVC/298/ 04	SINGIPURAM PO, VALAPPADY VIA, SALEMDT, 636 115.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	06-Jun-80
1686	M. KAVISHANKAR (M.MANICKKASUNDARAM)	TNSVC/344/ 04	KARAVALASU, VAZHAIHDTTAM, SIVAGIRI, ERODE - 638109TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	24-Feb-80
1687	M. KRISHNAMDORTHY (MUNIAN)	TNSVC/1575 /05	A.D. STREET, AKKAMAPET, AKKAMAPET POST, SANKARI TK, SALEM DT, 637 301.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	12-May-64
1688	M. KULASEKARAN (MUNISAMY GOUNDER)	TNSVC/3156 /05	240/1/1336, UDYARPALAYAM, USSOOR, PIN : 632 105, VELLORE TK & DIST.TAMILNADU	B.V.Sc/MU/73	01-Jul-47
1689	M. KUMAR (A.MUTHUSAMY)	TNSVC/2552 /05	262, BY-PASS ROAD, VEERAPPUM PALAYAM, THINDAL PDST, ERODE 638 009.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	15-Sep-59
1690	M. KUMAR (M.MARI KDUNDER)	TNSVC/3268 /05	NO.4 / 11, SANNATHI STREET, MAILAM 604 304, VILLUPURAM DIST.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	11-Feb-70
1691	M. KUMARASWAMY (S.MUNI)	TNSVC/2907 /05	13, LAKSHMI CDLONY, BAJANAMADAM STREET, KOTTAR, NAGERCOIL 629 002,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	05-Sep-52
1692	M. LOKMAN ALI (M.MDHAMEDHABEEB)	TNSVC/360/ 04	51-A / 13, 49 / 13, PULAVAR ST, CUMBUM 625516, THENI (DT),TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Apr-80
1693	M. LDURDUSAMY (S.MARIA ANTONIE)	TNSVC/975/ 05	NO.335, HIG, HDUSING UNIT TAMIL UNIVERSITY CAMPUS, MEDICAL COLLEGE ROAD, THANJAVUR -5.	B.V.Sc/TNAU/84	12-Feb-60

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1694 M. MADHANA GOPAL (K.MURUGESAN)	TNSVC/85/0 3	4 / 3, OLD HOUSING UNIT TANJORE 613 007 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/87	06-Feb-62
1695 M. MAGESWARI (T.MUNIAPPAN)	TNSVC/3088 /05	73, SRI SAKTHI NAGAR, TENKASI 627 811, TIRUNELVELI DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	14-Jun-67
1696 M. MAHENDRAN (C.MAHALINGAM)	TNSVC/476/ 05	THENKACHI PO, JAYAMKONDAM (TK), PERAMBALUR (DT) 612904TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-May-81
1697 M. MALARMATHY (S.MUTHUSAMY)	TNSVC/492/ 05	6 / 972, E.B. COLONY, PARAMATHI ROAD, NAMAKKAL - 637001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-Jun-81
1698 M. MANIGANDAN (T.P.MUTHURATHINAM)	TNSVC/2672 /05	12, UPSTAIRS, EAST GOWRIPURAM, KARUR 639 002, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	22-Jun-72
1699 M. MANIMARAN (G. MASILAMANI)	TNSVC/202/ 03	SERVILAGAM VILLAGE, KADAMPUR POST, GINGEE TK, VILLUPURAM DT 604 206.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	10-Sep-79
1700 M. MANIMARAN (N.MANAVALAN)	TNSVC/424/ 05	8B, RAJAPUTRA STREET, KALLAKURICHI 606 202, VILLUPURAM DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	10-Jul-80
1701 M. MANJULAW/o. (A.PREMKUMAR)	TNSVC/1725 /05	318-2, RAJIV NAGAR, MANAPPARAI, TRICHY DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	30-Jun-73
1702 M. MANOHARAN (K.MURUGESAN)	TNSVC/2776 /05	10, THALAIYATTAM, GUDIYATTAM 632 602 VELLORE DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /76	01-Jun-51
1703 M. MANU (V.K.MURUGESAN)	TNSVC/3170 /05	26, 12TH CROSS, THIRUMAGAL NAGAR, PEELAMEDU, COIMBATORE 641 004TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /99	07-Apr-73
1704 M. MATHESWARAN (A.MARIMUTHU)	TNSVC/1201 /05	6 / 266, GANDHI NAGAR, B. KOMARAPALAYAM, NAMKKAL 638183TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	15-May-59

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1705 M. MOHAMED AZI (DR.MOHAMED GHOUSE)	TNSVC/150/ 03	229, AMMAN KOIL STREET, CHENNAI 600 001 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	09-Apr-80
1706 M. MOHAMED ISMAIL (M.MOHAMED SHERIEF)	TNSVC/2197 /05	3/75, ZAMZAM NAGAR, SOUTH KANNAN KULAM, PARAKKAI 629 601, KANYAKUMARI DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	09-May-67
1707 M. MOHAMED KHALIDH (M.P.MOHAMED)	TNSVC/2200 /05	RHYTHM, OPP TO 7TH DAY ADVENTIST CHURCH, WATER TANK ROAD, NAGERCOIL - 629 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	05-Jul-64
1708 M. MOHAN (T.MANNANGATTY)	TNSVC/30/0 2	4/4, THOTTI STREET, P.S. PALAYAM & POST,PALLINELIANUR (VIA),VILLUPURAM T,TAMILNADU	B.V.Sc&AH/PU/02	09-Jul-80
1709 M. MOHANA SUNDARAM S/O T.S.MARAPPA GOUNDER	TNSVC/3319 /06	THOTTIPALAYAM, THORANAVANI POST, PERUNDURAI TAHSIL, ERODE 638110,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	2-Apr-81
1710 M. MOHANRAJ (K.MUTHUSAMY)	TNSVC/1175 /05	1 / 68, K.K. VALASU, P.METTUR POST, MALLUR VIA, PIN : 636 203., RASIPURAN TK, NAMAKKAL DT.	B.V.Sc/TNAU/85	12-Apr-62
1711 M. MURUGAN (T.MUTHIAH)	TNSVC/1696 /05	10, ELLA RAJA MANICKAM STREET, POLICHALLOOR, CHENNAI - 600 074	B.V.Sc/TNV&ASU /96	24-Feb-73
1712 M. MURUGAN (V.MUTHUSAMY)	TNSVC/1020 /05	ONDIKADAI, ESWARA MOORTHY PALAYAM (PO) MANGALAPURAM (VIA) RASIPURAM (TK) NAMAKKAL (DT) 636202	B.V.Sc/TNV&ASU /92	30-Jun-68
1713 M. MURUGAN S/O P.MANICKAM	TNSVC/3458 /06	MINAMPALLI DEVANDRA ST, VAIYAPPAMALLI PO, THIRUCHENGODU TALUK, NAMAKKAL- 637 410.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	3-Jan-83
1714 M. MURUGANANTHAM (L.MUNUSAMY)	TNSVC/511/ 05	NEW STREET, DEVAMANGALAM (PO), UDAIYARPALAYAM (TK), PERAMBALUR (DT) 612902TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	30-Jul-81
1715 M. MURUGAVEL (A.MUMTHUKUMARAN)	TNSVC/1013 /05	MUMMUDI THALAIVASAL, ATTUR TK, SALEM DT. 636112TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	25-Jul-69

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1716 M. MURUGESAN (K.MANI)	TNSVC/1707 /05	1141, MELA ERUTHIGOUNDANPATTY, POIKAIPATTY (POST), MANAPPARAI TK, TRICHY DISTRICT PIN 621 306	B.V.Sc/TNV&ASU /01	25-Apr-74
1717 M. MURUGESAN (K.MAVUTHU)	TNSVC/765/ 05	NORTH THILLAI NAGAR, NARASINGAPURAM POST, ATTUR TALUK, SALEM DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	18-Apr-69
1718 M. MURUGESAN (K.MUTHUSAMY)	TNSVC/1171 /05	1.A.5, BYE-PASS ROAD, GOUNDAM PALAYAM, P.VELUR POST, NAMAKKAL DT, 638 182.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	20-Apr-70
1719 M. MURUGESAN (S.MEIKKAM PERUMAL)	TNSVC/2166 /05	3/40, RAMANATHA PURAM PUDUR POST, SENDAMANGALAM VIA, NAMAKKAL DT,637 409.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	03-Jun-75
1720 M. MURUGESH (K.MEIYALAGAN) (LATE)	TNSVC/578/ 05	NO.9 / 1, MMM REDDY STREET, JOLARPETTAI 635 851, VELLORE DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	30-Dec-79
1721 M. MUSHTAQ AHMED (K.MUNEER AHMED)	TNSVC/2362 /05	2/1, NATIONAL NAGAR, KARUMANDAPAM, TIRUCHIRAPPALLI 620 001TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/67	21-Dec-39
1722 M. MUTHAMIL SELVAN (N.MADHAIYAN)	TNSVC/312/ 04	MOONGAMPATTI VILLAGE KULLAMPATTI POST POCHAMPALLI TALUK KRISHNAGIRI DT. 635 203TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	17-May-80
1723 M. MUTHUKUMARAN (N.MURUGADOSS)	TNSVC/581/ 05	KEERAMBER, SITHAIMOOR POST, PIN 610 203, THIRUKKUALAI TK, NAGAPATTINAM DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	09-Jul-82
1724 M. MUTHUKUMARASAMI (P.MURUGAIYAN)	TNSVC/2881 /05	22-A, NORTH METTU STREET, ERUKKATTANCHERRY POST, THARANGAMBADI TK, NAGAPATTINAM DIST.	B.V.Sc/TNV&ASU /92	01-May-66
1725 M. MUTHULAKSHMI (C.MUTHUSAMY)	TNSVC/589/ 05	MALAYALAPATTY, MULLUKKURICHI POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT, PIN : 636 142.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jun-80
1726 M. MUTHUMEENAL (M.MUTHIAH)	TNSVC/1699 /05	KASTHURI METAL MART, OPP. TO BUS STAND, SINGAMPUNARI 630 502, SIVAGANGAI DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	02-Jun-76

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1727	M. MUTHURAMALINGAM (S. MAHALINGAM)	TNSVC/167/ 03	33, NAGUNAGAR, SAMIKKANNU STREET, PETHANIAPURAM, MADU RAI 625 0TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	04-May-78
1728	M. MUTHURAMAN (R.MALAIYANDI)	TNSVC/568/ 05	4, KALIYAMMAN KOVIL STREET, ANAIYUR, ANAIYUR POST, MADURAI 625 017. MADURAI NORTH TALUK	B.V.Sc/TNV&ASU /05	05-May-77
1729	M. NACHIAPPAN (M.MUTHUMANI)	TNSVC/2976 /05	KADAMUTHANPATTY VILLAGE, ALAGAMANAGARI P.O. SIVAGANGAI TALUK & DT.- 623 553,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	02-Jun-68
1730	M. NAGARAJAN(R.MURUGES AN)	TNSVC/164/ 03	D.NO.32, W/12, THOTTIAR STREET, GUDALUR POST, 625 518THENI DISTRITAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	23-Jun-79
1731	M. NANDAKUMAR (M.MURUGAN)	TNSVC/1881 /05	17-7 / 48, TEACHERS COLONY, THARAMANGALAM (PO), SALEM DT. 636502, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	01-Jun-76
1732	M. NATARAJAN (P.MUTHUSAMY)	TNSVC/1189 /05	M1 / 22, MULLAI NAGAR, TNHB COLONY, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL 637 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	12-Jun-64
1733	M. NAZEER (K.MOHIDEEN PILLAI)	TNSVC/2139 /05	3/74, N.J.COTTAGE, ZAM ZAM NAGER, PARAKKAI ROAD, PARAKKAI PO, KANYAKUMARI DT 629601.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	07-Apr-60
1734	M. NISTHAR S/O K.A.E.MOHAMED HANIFA	TNSVC/3473 /06	17-A, SOUTH STRET, TIRUPALAI KUDI POST, RAMNAD DIST, 623 535.TAMIL NADU	BVSc/MU/73	8-May-46
1735	M. OMMURUGAN (M.MOOKAGOUNDER)	TNSVC/1984 /05	NO.19, LOGANATHAN STREET, TAMBARAM WEST, CHENNAI 600 045.	B.V.Sc/TNAU/85	02-Jan-62
1736	M. P. NARAYANSAMY(M.PERUM AL GOUNDER)	TNSVC/79/0 3	33, KENNEDY STREET, SAKTHI NAGARERODE DISTRICTERODE 638 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/76	09-May-45
1737	M. PADMA (W/O A.LAKSHMANAN)	TNSVC/2418 /05	5/928, SENTHIL NAGAR, DHARMAPURI 636 705, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	21-Jul-77

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1738	M. PADMINI (P.SARAVANA PANDIAN)	TNSVC/1093 /05	B-33 / 1, DEANS COMPOUND, NEW NATHAM ROAD, MADURAI - 2TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	10-May-67
1739	M. PALANIAPPAN (V.M.MUTHULINGAM)	TNSVC/2817 /05	3 / 215-1, THIYAGARAJA NAGAR, VILAMAL, AMMAIYAPPAN POST, THIRUVARUR 613 701.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/77	10-Jul-54
1740	M. PALANIVELRAJAN S/O S.MUTHUSAMI	TNSVC/3529 /06	P.K. PUDUR (PO) BHAVANI (TK) ERODE 638 504TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	21-Mar-82
1741	M. PANEERSELVAM (R. MARAPPAN)	TNSVC/267/ 04	111, NANGAVALLI MAIN ROAD, THARAMANGALAM PO, PIN 636 502. SALEM DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/77	02-Jun-53
1742	M. PANNEER SELVAM (A.MANI)	TNSVC/54/0 3	DOOR NO.1 / 141, NEAR POWER HOUSE, SALEMMAIN D, IDAPADIKURUMBAPATTY P.O.SA;EM DT., 637TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	15-Apr-77
1743	M. PANNEERSELVAM (R.MARAPPAN)	TNSVC/1130 /05	111, NANGAVALLI MAIN ROAD, THARAMANGALAM POST, PIN : 636 502, SALEM DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/77	02-Jun-53
1744	M. PARAMASIVAM (S.MURUGAIYAN)	TNSVC/2526 /05	189, POYYERIKATTUR, VUNJALUR POST, ERODE DIST 638 152.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	29-May-67
1745	M. PARTHIBAN (MANOHARAN)	TNSVC/2150 /05	W-644/B2, PANDIAN APARTMENT, ANNA NAGAR WEST EXTENSION, CHENNAI 600 101.	B.V.Sc/TNAU/88	29-Jul-66
1746	M. PRABAKARAN (R.MOORTHY)	TNSVC/2124 /05	NEWNO.12, OLD NO.6, NEW BANGARU COLONY, WEST KK NAGAR, CHENNAI-78.	B.V.Sc/TNAU/78	10-Mar-54
1747	M. PRABAVATHI (M.MURUGESAN)	TNSVC/2925 /05	M.209, TNHB PHASE II, KRISHNAGIRI 635 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	07-Sep-76
1748	M. PRABHAVATHI S/O C.MANIVANNAN	TNSVC/3299 /05	SPUDUPPALAYAM P. VELUR TK, NAMMAKAL DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	24-Jun-83

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1749 M. PRABU (K. MURUGAN)	TNSVC/743/ 05	C12 / 5, GOVERNMENT QUARTERS, ANNA NAGAR WESTERN EXTENSION, CHENNAI -101	B.V.Sc/TNV&ASU /94	23-May-71
1750 M. PREETI S/O R.MUNIYANDI	TNSVC/3421 /06	NO.7, INDRA SOUTH STREET, RAYAGIRI, SIVAGIRI TALUK, TIRUNELVELI DIST 627 764.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	11-Mar-83
1751 M. PUSHPALATHA (R. MUTHUKANNU)	TNSVC/205/ 03	F.C.I. NEAR, PUDHUR PO, ORATHANAD TK, THANJAVUR DT, 614 625.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	21-Jun-78
1752 M. RADHAKRISHNAN (N.MATHIALAGAR)	TNSVC/3228 /05	D.74, 7TH CROSS, THILLAI NAGAR, TRICHY - 620 018 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/84	25-May-59
1753 M. RAHMATULLAH (K.MOHAMEDALI)	TNSVC/1281 /05	279, N.G.O. 'A' COLONY, SANKARANKOIL P.O. 627 756, TIRUNELVELI DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	05-May-67
1754 M. RAJA MOHAMMED (S.MADASAMY)	TNSVC/1528 /05	425, MAIN BAZAAR, KADAYANALLUR POST, TIRUNELVELI DISTRICT 627 751.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	09-May-63
1755 M. RAJANGAM (S.MOOKAIAH)	TNSVC/2832 /05	15-7-19B, BHARATHI NR, CHOCKKALINGA PURAM, ARUPPUKOTTAI , VIRUDHUNAGAR DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	20-May-66
1756 M. RAJENDIRAN (M.MANNARSAMY)	TNSVC/1341 /05	NO.8, KAVERI STREET, ELLAPPA NAGAR, CHEYYAR, PIN : 604 407.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	09-Mar-55
1757 M. RAJENDRAN (C.MUTHUKKUTTY)	TNSVC/2163 /05	93-B, GANDHIJI ROAD, KEERAMANGALAM POST, PUDUKKOTTAI DIST, PIN : 614 624.,TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/76	11-May-53
1758 M. RAJENDRAN (G.MUTHAIAH PILLAI)	TNSVC/3127 /05	PLOT NO.22, ABIRAMI NAGAR NAGANKUDI, SOZHASAKKARANALLUR (P.O.) MAYILADUTHURAI 609 118 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	01-Jun-58
1759 M. RAJENDRAN (M.C. MUNUSAMY)	TNSVC/653/ 05	NO.3 / 1676, NEW COLONY, DHARMAPURI 636 701TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	08-Jul-51

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1760	M. RAJENDRAN (M.MURUGESAN)	TNSVC/2666 /05	61-A, CHETTY STREET, GANESAPURAM WEST, PULIYUR P.O. KARUR DISTRICT 639 114, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	13-Apr-63
1761	M. RAJESH FRANCIS JEYASELVAN (A.MARIA ANTONY)	TNSVC/946/ 05	147A, RAJI LODGE, TIRSAIYEN VILLAI, TIRUNELVELI DISTRICT 627 657, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	29-Aug-74
1762	M. RAMA MOORTHY (M.GANGADARAM)	TNSVC/2122 /05	63/40, BIG STREET, TRIPPLICANE, CHENNAI-5.	B.V.Sc/TNAU/81	01-Jun-54
1763	M. RAMAN (C.MUTHUSAMY)	TNSVC/3037 /05	1-F, PERUMAL KOIL STREET, TENKASI 627 811, TIRUNELVELI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	11-Apr-60
1764	M. RAMANATHAN (K.MEENAKSHISUNDARAM)	TNSVC/3111 /05	PHASE VI, HOUSING UNIT, PONVIZHANAGAR, TIRUNELVELI 627 011 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	26-Aug-58
1765	M. RAMASAMY (M.MANI)	TNSVC/881/ 05	DOOR NO.4, WARD NO.15, CHURCH BACK, KARUPPUR POST, OMALUR TALUK, SALEM DISTRICT, PIN : 636 012.	B.V.Sc/TNV&ASU /96	21-Jun-71
1766	M. RAMCHANDERAN (G.MUNIAPPA NAIDU)	TNSVC/625/ 05	2 / 170, CHATRAM MEL STREET, DHARMAPURI 636 701. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	20-Jan-61
1767	M. RAMESH (S.MANICKAM)	TNSVC/465/ 05	DEVARAPPANPATTI (PO), AYYAMPALAYAM (VIA), DINDIGUL (DT) 624204 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	16-Jun-81
1768	M. RAMESH S/O P.MUTHUSAMY	TNSVC/3409 /06	5-117, BTR NAGAR, MASINAIKANPATHY PO 636 103, AYOTHIAPATTANAM, SALEM DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	7-May-71
1769	M. RAMKUMAR (A.MURUGESAN)	TNSVC/2708 /05	2/336, SRINIVASA NAGAR, KURALKUTTI (P.O.) UDUMALPET (T.K.) COIMBATORE DT PIN 642 154, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	20-Oct-70
1770	M. RAMU (R.MAYALAGU)	TNSVC/701/ 05	12 / 400 E, THIRUVALLUVAR NAGAR, PARAMAGUDI 623 707 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	08-Jun-59

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1771 M. RANGA REDDY S/o RAM REDDY	APSV/4421 /05	309/2RT, P.S. NAGAR, VADAYANAGAR COLONY HYDERABAD 500057, ANDHRA PRADESH	A.H.,/OSMU/60	19-Mar-33
1772 M. RANJITH KUMAR (K.MUTHUSAMY)	TNSVC/615/ 05	PALA KUTTAI, G.S.COLONY PO, ANTHIYUR VIA, ERODE DT 638 501.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	30-Jul-81
1773 M. RAVI SANKAR (M.G.MUTHU)	TNSVC/2778 /05	PLOT NO.12, D.NO.38, M.G.NAGAR, PART I.A., GUDUVANCHERRY, KANCHEEPURAM DIST 603 202.	B.V.Sc/TNAU/82	01-Oct-55
1774 M. RAVICHANDRAN (C.MUNIYANDI)	TNSVC/341/ 04	NORTH COLONY, ALAMPATTI (PO) THIRUMANGALAM (TK), MADURAI (DT.) 625706TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	13-May-80
1775 M. RAVIKUMAR S/O S.MARUTHAI VEERAN	TNSVC/3345 /06	3/151, R-26-A, VOC NAGAR, N.KOSAVAMPATTY PO- NAMAKKAL (DT) - 637002,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	11-Jul-82
1776 M. S. PREETHY (K. SASIDHARAN NAIR	TNSVC/226/ 03	DAMODHAR BHAVAN, PERUMPUZHY, UNNAMALAKKADAI PO, KANYAKUMARI D- 629179,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	04-Dec-77
1777 M. SABAPATHI (S.MUTHUCHAMY)	TNSVC/34/0 2	EAST STREET, ARANMANI, PUDUR, THENI DT., 625 531TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	17-Jan-79
1778 M. SACKUMAR (P.MARAPPAN)	TNSVC/665/ 05	6 / 1024, KARUKATTUTHOTTAM, MARAPPAMPALAYAM, L.M. PALAPPALAYAM;POST KAVANDAPADI VIA ERODE DIST 638 455	B.V.Sc/TNV&ASU /02	24-May-78
1779 M. SAKTHIVEL S/O V.MANICKAM	TNSVC/3365 /06	KETHUREODIPATT9 (POST) PAPPIREDDIPATTI TALUK, DHARMAPURI DT- 635 302,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	11-Mar-82
1780 M. SALEEM BASHA (MAHMOOD BASHA)	TNSVC/3109 /05	NO.13 / 34, KRISHNADOSS,3RD LANE, PERAMBUR, CHENNAI 600 012	B.V.Sc/MU/71	06-Nov-44
1781 M. SALIM (T.M.MOHAMED HANEEF)	TNSVC/2180 /05	NO.22-66, "PUNCHIRI", METTUCKADI, THUCKALAY, KANYAKUMARI DISTRICT 629 175.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	02-Dec-61

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1782	M. SAMPATH (M.MARIMUTHU)	TNSVC/974/ 05	3 / 32.B, THIRU NAGAR, SINGAPERUMAL KULAM, EST, THANJAVUR.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	25-Dec-64
1783	M. SAMUNDEESWARI (A. MURUGAN)	TNSVC/185/ 03	E.1.B. ICL COLONY, SANKARI WEST, SALEM DT,PIN 637 303TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	12-Jun-80
1784	M. SANDHYA ALIAS HAJRA BEGUM (M. CHINNATHURAI PANDIAN)	TNSVC/3046 /05	NO.2, IIIRD MAIN ROAD, I.I.T. COLONY, PALLIKARANAI, CHENNAI 601 302	B.V.Sc/TNV&ASU /97	14-Dec-72
1785	M. SANKAR (M. MURUGAIYAN)	TNSVC/16/0 2	2 / 104, MAIN ROAD, URANIPURAM & POST, ORATHANADU TALUK, TANJORE DIST 614 631.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	22-May-77
1786	M. SANKAR(V.MUTHU)	TNSVC/956/ 05	MANAM GATHAN, AUTHIKULAM POST, KAYATHAR VIA, TUITICORIN DT. 627 952.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	13-Jan-74
1787	M. SANKARANARAYANAN S/O S.MUTHUSAMY	TNSVC/3399 /06	PAPPUNAYAKKANPATTI POST, KUNNATHUR VIA, PERAYUR TK, MADURAI DT, 625 708.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	20-Sep-66
1788	M. SANTHANAM (S.MUTHURATHINAM ACHARI)	TNSVC/2786 /05	75, CHETTIYAR BAZAR, KAMUTHI POST & TALUK, PIN : 623 603, RAMNAD DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	14-Jun-59
1789	M. SARASWATHI (S.MADASWAMY)	TNSVC/13/0 2	NO.17 & 19, FOURTH STREET, GOVINDA SWAMY NAGAR, KANDANCHAVADI, MADRAS 600 096.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	19-Aug-77
1790	M. SARAVANA JAYAM (P.MAYIL VAGANAM)	TNSVC/954/ 05	EZHUTHUKKAL PARAI, THUSUR POST, NAMAKKAL 637 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	21-Jun-77
1791	M. SARAVANA KUMARI (B.RAMKUMAR)	TNSVC/1564 /05	B.41, TNHB QUARTERS, KARAI, RANIPET 632 404, VELLORE,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	14-Oct-68
1792	M. SARAVANAN (K.MARIAPPAN)	TNSVC/2515 /05	589/244-B, G.D.ROAD, KOLAPPALUR POST, 638 456, GOBI TK, EORDE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	23-May-76

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1793 M. SARAVANAN (K.MURUGAN)	TNSVC/440/ 05	SEMBOOTHAM PALAYAM, SAKTHY MAIN ROAD, PERIYAPULIYUR PO. KAVANDAPADI VIA ERODE DIST. 638455TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	04-May-80
1794 M. SARAVANAN (P. MOHAN)	TNSVC/197/ 03	3/331, T.N.PATTI CLONLY, VADUGAM POST, RASIPURAM T.K., NAMAKKALDIST - 637407TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	27-May-80
1795 M. SARAVANAN (P.MUTHALAGU)	TNSVC/941/ 05	HOSPITAL 1ST STREET, MUDUKULATHUR, RAMNAD DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	14-Jun-70
1796 M. SARAVANAN S/O M.MANI	TNSVC/3335 /06	THALATHALA MEDU, SATHYA NAGAR, KOTTAPALAYAM P.O.T.GODE TALUK, NAMAKKAL DIST 637 503 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	24-May-82
1797 M. SASIKALA S/O M.MANICKAM	TNSVC/3383 /06	AUTHIKADU, MUNJANUR POST, THIRUCHENGODU TK, NAMAKKAL DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	3-Sep-82
1798 M. SASIKUMAR (V.MUTHUSAMY)	TNSVC/157/ 03	25, CHEKKARA STREET, MOHANUR POST, NAMAKKAL DISTRICTPIN : 637 0TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	05-Jun-79
1799 M. SATHEES (R.MANOKARAN)	TNSVC/2712 /05	U354/216, KAMBAR CROSS STREET, VINAYAGA NAGAR, PASUMALAI POST, MADURAI - 4, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	11-May-74
1800 M. SATHISH KUMAR S/O G.MURUGAIYAN	TNSVC/3530 /06	ANNIMANGALAM, ARANMANAIKURCHI (PO) ARIYALUR T.K., PERAMBALUR DT, 621 851, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	20-Jun-83
1801 M. SEKAR (T.S.MANICKAM)	TNSVC/3000 /05	5 / 30A, NEW NO.5 / 288, RAJAJI NAGAR, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL 637 001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	07-Jun-77
1802 M. SELLAPPAN(K.MUTHU)	TNSVC/2387 /05	PUTHUPATTY NAGAR, CHOCKANATHA PURAM POST, ATTUR TK, SALEM DIST 636 108.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-Apr-75
1803 M. SELVA MAHESWARI (MUTHUSAMY)	TNSVC/604/ 05	989, BALAJI NAGAR, KOMALAVALLI PET, SAKKOTTAI POST, KUMBAKONAM 612 401.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	12-Jan-82

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1804 M. SELVAKUMAR (M.MUNUSAMY GOUNDER)	TNSVC/75/0 3	SENNI KADU, NICHAM PALAYAM PDSTTHINGALUR VIZ, ERODE DISTRICTPIN : 63, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	09-May-76
1805 M. SELVAKUMAR (R.MUNUSAMY)	TNSVC/1042 /05	A 28, TNHB, EZHIL NAGAR, PRAKASAM NAGAR IIND AVENUE, IYYAN THIRUMALIGAI, SALEM 636 008	B.V.Sc/TNV&ASU /91	12-May-68
1806 M. SELVAM (S.K.MUTHU)	TNSVC/1203 /05	47 B, SANARPALAYAM ROAD, SOORIAMPALAYAM (PO), TIRUCHENGODE (TK), NAMKKAL DT. - 637209	B.V.Sc/TNAU/79	08-May-55
1807 M. SELVI S/O A. MARIAPPAN	TNSVC/3528 /06	139/12A, LENIN NAGAR, MANTHITHOPPU ROAD, KOVILPATTI 628 501, TUTICORIN DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	20-Jun-82
1808 M. SEMMARAN (M. MUTHURAMALINGAM)	TNSVC/235/ 04	2 / 39A, AYAKKARANPULAM, 4, PANNAL (PO), VEDARANIAM TK, NAGAPATTINAM, TN 614 707.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	01-Jun-79
1809 M. SENGOTTAIAN (M.MUTHUSAMY)	TNSVC/1141 /05	NEW NO.38, MARAPPAN STRET, S.P.PUDUR, NAMAKKAL 637 001. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	12-Mar-60
1810 M. SENRAYAN (C.MARAPPAGOUNDER)	TNSVC/2822 /05	THALAKULAM, ERIKKARAI, VARADHANALLUR 638 302, BHAVANI TALUK, ERODE DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	12-Jun-76
1811 M. SENTHAMARAI (K.MARUTHAMUTHU)	TNSVC/588/ 05	EAST STREET, MALATHANKULUM, ARIYALUR TK, PERAMBALUR DTPIN - 627707. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	19-Apr-80
1812 M. SENTHIL KUMAR (K. MARIAPPAN)	TNSVC/177/ 03	15, SOUTH CAR STREET, SATHANKULAM, PIN - 628704 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	21-Mar-80
1814 M. SENTHIL KUMAR (R.MARIMUTHU)	TNSVC/2621 /05	1, ASOKAR STREET, NEHRU BAZAAR, SIVAGANGAI TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	01-Jun-75
1813 M. SENTHIL KUMAR (R.MARIMUTHU)	TNSVC/77/0 3	5 / 202, ANDAGALUR PO KASIPURAM TKNAMAKKAL DT 637 40 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	26-Jul-75

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1815 M. SENTHIL KUMAR (S.MUTHUSAMY)	TNSVC/2020 /05	NAVAKKURICHI POST, ATTUR TK, SALEM DIST 636 112.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Apr-73
1816 M. SHANMUGA VADIVU (C.MUTHUKRISHNAN)	TNSVC/694/ 05	AS-2, VINOTH VESTA APARTMENT, 15, JAINAGAR 1ST STREET, ARUMBAKKAM, CHENNAI 600 106.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	06-Apr-76
1817 M. SHARMILA (P.MUTHUKANNAN)	TNSVC/330/ 04	B-13/6, TNHB ORS, TRURAIMANGALAM P.O. PERAMBALUR TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	15-Mar-80
1818 M. SHIJU (A.SIMON)	TNSVC/504/ 05	SHINU COTTAGE, VELLACHIPARAI (PO) K K DT 629152,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-Jun-81
1819 M. SINTHYA PEARL (C.MUTHAIAN)	TNSVC/44/0 3	95, KENNEDY STREET, NAGERCOIL 629 001KANYAKUMAI DIST-TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	23-Jan-77
1820 M. SIVACHANDRAN (S.MAHALINGAM)	TNSVC/3338 /06	9, MUDALIAR STREET, JAYAKONNAM 621 802 PERAMBALUR DIST,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	05-10-19981
1821 M. SIVAGAMA SUNDARI (D.MURUGESAN)	TNSVC/2789 /05	54, JOTHI TALKIES WEST STREET, AMMAPET, SALEM 636 003,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	27-May-72
1822 M. SIVAGAMASUNDARI (V.MAHALINGAM)	TNSVC/610/ 05	MERPANNAI KADU ROAD, KEERAMANGALAM PO, ALANGUDI TK, PUDUKKOTTAI DIST, 614 624.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	28-Jun-80
1823 M. SIVASUBRAMANIAN (A.MUNISAMY)	TNSVC/1437 /05	9 / 5, THIYAGI AYYAMPERUMAL STREET, WARD 7, CHINNAMANUR, THENI DT - 625 515,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	10-Jun-72
1824 M. SOMASUNDARAM (V.MARIMUTHU GOUNDER)	TNSVC/1932 /05	ATHIKKATTANOOR, KONAGAPPADI PO, THARAMANGALAM (VIA), SALEM DT - 636 502,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	23-May-57
1825 M. SRINIVASAN (MARIMUTHU)	TNSVC/1406 /05	51, SALEM MAIN ROAD, CHINNASALEM, KALLAKURICHI,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	09-Apr-56

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1826	M. SRINIVASAN (R.MUTHUSAMY)	TNSVC/1548 /05	407-8, TOWN PLANNING NAGAR, NARAJOTHI PATTY SALEM DIST, PIN : 636 004.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	15-Jun-60
1827	M. SRUESH BABU S/o M.KASAIHA	APSVC/4370 /05	H.NO.1/129A,CHITTALURI VARI VEDDHI,NANDYAL,KURNOOL DT,ANDHRA PRADESH	BVSc&AH/ANGR AU/05	30-Dec-72
1826	M. SUBBAIYAN (MURUGESAN)	TNSVC/3253 /05	5 / 1, MANNAPAIYANKATTALAI, NEIVILAKKU POST, PIN : 614 808, VEDARANIAM TALUK, NAGAPATTINAM DIST.TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/88	21-Mar-65
1829	M. SUBRAMANI (R.MUNUSAMY)	TNSVC/2078 /05	NO.36, ADL NAGAR, NEAR THEIVANAI AMMAL WOMEN'S COLLEGE, VILLUPURAM 605 401,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	05-Jun-67
1830	M. SUBRAMANIAN (V.MEYYAN)	TNSVC/2864 /05	THIRUNALUR SOUTH & POST, ARANTHANGI TK, PUDUKKOTTAI DT 614 624.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	13-Mar-77
1831	M. SUMARAN (V.MADHAVAN)	TNSVC/3263 /05	17 / 18, T.R. BAZAAR POST, THE NILGIRIS DIST, TAMIL NADU, PIN : 643 224.TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/84	01-Jun-60
1832	M. SUMATHI (W/O N.VISWANATHAN)	TNSVC/2674 /05	1/50, R.N. PALAYAM PUTHUR, ERANAPURAM (P.O.) NALLIPALAYAM (VIA) NAMAKKAL 637 003,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-Feb-73
1833	M. SUNDARALINGAM S/O T.MARCHAN NADAR	TNSVC/3461 /06	EDAYEN VILAI, CHANTHAADY POST, KANYAKUMARI 629 703.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	25-May-83
1834	M. SUNDARAMOORTHY (L.MUTHUSAMY)	TNSVC/1132 /05	125-I- SELVIAMMAN KOVIL STREET, MUDUKULATHUR 623 704, RAMNAD DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	10-Jun-73
1835	M. SUNDARAVADIVELU (R.K.MUTHUSAMY)	TNSVC/1187 /05	MONJANUR POST, THEENELAI VIA, KARUR DIST,TN- 639 206.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	25-Jun-69
1836	M. SURESH KUMAR (H.MURUGESAN)	TNSVC/1732 /05	6 / 16TH CROSS, KUMARAN NAGAR, VAYALLOR ROAD, TRICHY,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	27-Jul-59

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1837 M. SURULICHAMY(K. MALLINGAM CHETTIAR)	TNSVC/1458 /05	5-2-58, IVTH STREET, P.T.R.COLONY, UTHAMAPALAYAM, THENI DISTRICT 625 533,TAMIL NAQU	B.V.Sc/MU/71	05-Apr-43
1838 M. SWAMINATHAN (S.MUTHU KRISHNAN)	TNSVC/2845 /05	3 / 319, AYYA SAMI GARDEN AVENUE, PERUR CHETTIPALAYAM, COIMBATORE 641 010.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	15-Jun-55
1839 M. TAMIL ARASU(K.MANI)	TNSVC/2861 /05	NO.48, ANNA STREET, NARRIPALLAM, VELUR ROAD, TIRUCHENGODE 637 211.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	04-Jun-70
1840 M. TAMILARASI (K.MARIAPPAN)	TNSVC/1702 /05	24C, KANOASAMY VATHIYAR STREET, DHARMAPURI 636 701, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	02-May-78
1841 M. THAMIZHARASU (M.MUTHUSAMY)	TNSVC/1412 /05	17-J / 9, SERALI NAGAR, KALLAKURICHI P.O. & T.K. VILLUPURAM OISTRICIT PIN 606 202,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	14-Apr-66
1842 M. THANGARASU (V.MURTHI)	TNSVC/2501 /05	NAGAMANAICKAM PALAYAM, AVUOJAR PARAI POST, KODUMUDI 638 151., ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	23-Oct-56
1843 M. THENMOZHI (P.MOHANKUMAR)	TNSVC/1302 /05	NO.15, METTARI STREET, RAJENDRA SOLAGAN POST, KATTUMANNAR KOIL TK, CUDDALORE DISTRICT, PIN : 608 301.	B.V.Sc/TNV&ASU /94	02-May-71
1844 M. THIRUKUMAR (R.MARAPPAN)	TNSVC/1923 /05	THOTTIVALASU POST, ATTHANUR (VIA), NAMAKKAL DT - 636301,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	05-May-72
1845 M. THIRUMAL(A.MACHENORA N)	TNSVC/93/0 3	32, PILLIAR KOIL STREET, MARANDAHALLI POST, OHARMAPURI DT PIN : 630 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	03-Feb-80
1846 M. THIRUNAVUKKARASU (A.NAGARAJAN)	TNSVC/263/ 04	2, UNNAPALLA THOTTAM, R.N. PUDUR PO, ERODE 838 005.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	09-Jun-80
1847 M. THIRUNAVUKKARASU (K.MARIMUTHU)	TNSVC/732/ 05	F2, HAPPY HOMES, 18,KAMARAJAR STREET, AYANAVARAM, CHENNAI 600 023TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	22-Apr-63

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1848 M. THIYAGEESWARAN (G.MUTHURAMAN)	TNSVC/398/ 04	218, PRAKASAM ST. SENDILNAGAR THIRUMULLAIVOYAL, CHENNAI - 600 062TAMIL NADU	B.V.Sc&AH/PU/04	18-Jan-82
1849 M. UTHIRAKOTTI (M.MUNIYAN)	TNSVC/1403 /05	NO.109, "NAL AYAN KUDIL", KOTTAIMEDU, KALLAKURICHI, VILLUPURAM DIST. PIN 806 202,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	10-Dec-53
1850 M. VEERASELVAM (V.MUTHUSAMY)	TNSVC/801/ 05	MATTANGAL POST, GANDARVAKKOTTAI DT, PUDUKKOTTAI DT 613 301.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	03-Mar-82
1851 M. VELMURUGAN (K.MARI)	TNSVC/592/ 05	AD STREET, POCHAMPALLI PO & TK, KRISHNAGIRI DT, PIN : 635 206.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	08-Apr-81
1852 M. VENKATESAN (C.MANNARSAMY)	TNSVC/521/ 05	VELUNGANANDAL PO, T.V. MALAI DT 606 802.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	05-May-79
1853 M. VENKATESH(A.N.MANI)	TNSVC/2398 /05	ANTHIYUR COLONY, MICHAEL PALAYAM POST, ANTHIYUR VIA, ERODE DIST, PIN : 838 501.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	17-Jul-77
1854 M. VENKATESWARAN (K.MUNIAPPAN)	TNSVC/2800 /05	3/251, VIGANGATTUR, THIRUCHENGODU TK, ERODE, NAMAKKAL DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	28-May-70
1855 M. VIDHYA(A.MAHALINGA NAINAR)	TNSVC/113/ 03	10 / 14, SANNADI STREET, THIRUVATEESWARANPETTRIPLI CA NE, CHENNAI, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	15-May-80
1856 M. VIDJAYACOMAR (T.MUTHUKUMARASAMY)	TNSVC/3251 /05	VETY. ASST. SURGEON, VETY. DISPENSARY, ENANGUDI, NAGAI DISTRICTTAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	15-Sep-67
1857 M. VIJAY (T.C. MUNUSWAMY)	TNSVC/186/ 03	THELLUR, VIA USSOOR, VILLAGE & POST, VELLORE 632 105.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	31-Mar-79
1858 M. VIJAYA KUMAR (S.P.MUNUSAMY)	TNSVC/2221 /05	NO.17, L.F. ROAD, BURMA COLONY, KARAI, RANIPET, 632 404.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	28-Jun-61

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1859 M. VIJAYAKUMAR (P.MUTHUSAMY GOUNDER)	TNSVC/2509 /05	6- THINGALUR ROAD, NASIYANUR OST, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	01-Apr-81
1860 M. VIJAYAKUMAR S/OM. MANI	TNSVC/3545 /08	2/107, PALAPATTI VILLAGE, ALANGANATEM POST NAMAKKAL DISTRICT PIN 637 013, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	3-Jul-79
1861 M. VISWANATHAN (V.MUTHUSAMY)	TNSVC/1123 /05	4 / 75 C2, RAMASAMY NAGAR, NARASOTHIPATTI, SALEM 636 004. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	02-Jun-53
1862 M. VITHYASHANKAR (P.MOORTHY)	TNSVC/2226 /05	18, NADAR STREET, KURINJIPADI POST, CUDDALORE 607 302. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	26-Dec-77
1863 M.A. HAMSHA MOHIDEEN (M.ABDULGANI)	TNSVC/3080 /05	9, NORTH AYYAPURAM STREET, KADAYANALLUR - 627751, TENKASI TALUK, TIRUNELVELI DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	26-May-58
1864 M.A. JOHNSON CHARLES (V.J.MICHAEL AZARIAH)	TNSVC/2963 /05	103, NH COLONY, PERUMALPURAM, TIRUNELVELI 627 007 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	19-May-62
1865 M.A. SHANMUGAM (A.ANNAMALAI)	TNSVC/1017 /05	12 / 18, MALAYAMPALAYAM, JALAKANTAPURAM 638501 SALEM DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	15-Sep-61
1866 M.A. CHINNADURAI (S.ANNAMALAI)	TNSVC/2689 /05	WEST STREET, MANNANKADU, PATTUKOTTAI (T.K.) TANJORE DISTRICT PIN 614 613, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	19-Apr-72
1867 M. ARUMUGAM (A.MANICKAVASAGAM)	TNSVC/2331 /05	12A, K.K.NAGAR, NANNILAM, TIRUVARUR 610 105, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	03-Jun-74
1868 M. BALACHANDRAN (M. MUT HANAMOORTHY)	TNSVC/1785 /05	NO.9, (OLD NO.49G2) FIFTH STREET, SUBRAMANIA RAJA NAGAR, MADURAI ROAD, SIVAGANGAI (PO) 630 561, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	01-Jun-60
1869 M. BHUVANA	PONDISVC/2 58/05	27, KAMARAJ SALAI, THATTANCHAVADY, PONDICHERRY- 9	B.V.Sc & AH/PU/05	12-May-83

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1870 M.DEENA DAYALAN (S.MUNUSAMI)	TNSVC/446/ 05	PARAYAM PATTU VILLAGE POST, VANAPURAM (VIA), TIRUVANNAMALAI (POST & TK) 606753	B.V.Sc/TNV&ASU /05	05-Jun-82
1871 M.E.KRISHNAKUMAR(M.K.E THIRAJ)	TNSVC/1800 /05	16 / 18, NETAJI STREET, SAIDAPET, CHENNAI 800 015	B.V.Sc/MU/89	15-Jun-48
1872 M.G. THAMIZHVALAVAN (M.V.GANGATHARAN)	TNSVC/2266 /05	A-13, MADHURAM APARTMENTS, 147, MOHANRAM NAGAR, MOGAPPAIR, CHENNAI 600 038	B.V.Sc/TNV&ASU /89	01-Jun-67
1873 M.G.S. RANJINIDEVI S/OS. RAVIKUMAR	TNSVC/3552 /06	4/33, KACHAKARANOOR, PALLIPATTY POST, METTUR DAM 636 458, SALEM DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	6-Feb-82
1874 M.G.SUDHA (M.K.GURUNATHAN)	TNSVC/641/ 05	10, MUNIYAPPAN KOIL STREET, C.K.R. NAGAR, SOOLAI, V. CHATHRAM, ERODE 638 004. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	09-Jun-80
1875 M.GANANARASEGARAN	PONDISVC/2 67/05	113, KAVUNDAN PALAYAM, VAZNUDAVUR RD, PONDICHERRY-9	B.V.Sc & AH/PU/05	09-Oct-82
1876 M.GOVINDASAMY (MUTHUKKARUPPA PILLAI)	TNSVC/2469 /05	PLOT NO.1428, 13TH MAIN ROAD, ANNA NAGAR WEST, CHENNAI 600 040.	B.V.Sc/MU/84	07-May-39
1877 M.J. MUTHIAH (S.M.MALAYALA THEVAR)	TNSVC/1068 /05	124 / 8, GANDHIJI 5TH CROSS STREET, THIRUNAGAR, MADURAI 625 006. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	10-Sep-57
1878 M.K. MOHAN KUMAR (M.KASIRAJAN)	TNSVC/2038 /05	41, "MOHAN VILLA", NEELA KANDAN KOIL STREET, PASUM PON NAGAR, MADURAI 625 003., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	05-Dec-66
1879 M.K. SEETHALAKSHMI (M.KUPPAMUTHU)	TNSVC/1316 /05	97-A, YADAVA STREET, VELIPPATTANAM, RAMANATHAPURAM, REMNAD DISTRICT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	10-May-78
1880 M.K. SHANMUGA SUNDARAM (M.KANNAPPAN)	TNSVC/2790 /05	87 / 190, GANDHI ROAD, (METHU STREET) CHENGAL PATTU 603 002. TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	18-Oct-46

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1881 M.K.VENKATESH HEGDE S/o LATE M.K.KRISHNAPPA HEGDE	KARNASVC/ 3805/	NO.32, LAXMANA MODALIYARSTREET, CONTONMENT, BANGALORE - 560001, KARNATAKA	BVSc/UAS,B'LOR E/68	18-Feb-42
1882 M.KANNAN (M.K.MANICKAM)	TNSVC/2328 /05	34, INDRA GANDHI NAGAR, VYASARPADY, CHENNAI 600 039	B.V.Sc/TNV&ASU /00	14-Oct-75
1883 M.KARTHIK (C.MANICKAM)	TNSVC/428/ 05	540, PARVATHY NAGAR, KULLAMPALAYAM PO, GOBI TK, ERODE DT, 638 476.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Dec-79
1884 M.KEELARAJAKULARAMAN (R.MARIAPPAN)	TNSVC/2065 /05	7/21, NORTH STREET, PANDIYAPURAM, SENDAMARAM POST, SANKARANKOVIL TK, TIRUNELVELI DT, PIN : 627 857.	B.V.Sc/TNV&ASU /93	21-Jul-70
1885 M.KIRUPASANKAR (C.MALAIAPPAN)	TNSVC/382/ 04	INDIRA NAGAR, VALAPPADY PO, SALEM DT, PIN 636 115.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	21-Jun-80
1886 M.KUMARASAMY (R.MUNIYAN)	TNSVC/1651 /05	SURANAM, SALAIGRAMAME VIA, ILAIYANKUDI TK, SIVAGANGAI DISTRICT PIN 623 713, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	18-May-73
1887 M.KUMARASWAMY (M.NARAYANA RAJU)	TNSVC/1360 /05	M.K.S. NIVAS, NO.23, NAGATHAMMAN KOVIL EXTN. 12TH AVENUE, ASHOK NAGAR, CHENNAI 600 083	B.V.Sc/TNAU/76	20-Sep-54
1888 M.LOGANATHAN (MOORTHY)	TNSVC/392/ 04	14 / 1, SENGUNTHAR NEW STREET, SHOLINGHUR 631 102, VELLORE DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	09-Jul-80
1889 M.MANO HARAN (C.MANICKAM)	TNSVC/2347 /05	24/12-D, CHINNA VADIYAR STREET, DHARMAPURI 636 701, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	04-Feb-74
1890 M.MANO HARAN (M.MAHALINGAM)	TNSVC/2341 /05	1F/1, M.G. PURAM, PERAMBALUR POST, PERAMBALUR DISTRICT PIN 621 212, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	14-Mar-62
1891 M.MARIMUTHU (S.MARUTHAMUTHU)	TNSVC/2340 /05	KUNNAM POST, KUNNAM TALUK, PERAMBALUR DISTRICT PIN 621 708TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	30-Apr-61

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1892 M.MOHAN	PONDISVC/2 62/05	14-A MAIN ROAD, P.S.PALAYAM & PO- PONDICHERRY-7	BVSc/TNVASU/04	09-Jul-80
1893 M.MUTHUKUMAR (M.A.MUTHUPALANI)	TNSVC/1809 /05	246, ASIRIYAR NAGAR, KULLAMPALAYAM, GOBI, ERODE, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	15-May-73
1894 M.MUTHURAMA KRISHNAN	TNSVC/1748 /05	6-2, MUTHUSAMY NAIDU STREET, MAIN ROAD, T.KALLUPPATTI (P.O.) MADURAI DT 625 702, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	10-Mar-68
1895 M.N. SARAVANA SELVAN (M.NAGESWARA RAO)	TNSVC/2083 /05	3/686-3, 5TH CROSS, KALIAPPA CHETTY COLONY, PIDAMANERI, DHARMAPURI 636 703, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-Aug-77
1896 M.NIVEDITA S/o SUDHARSHAN REDDY	APSVC/4401 /05	HNO. 9-4-447, SAPTAGIRI COLONY, KARIMNAGAR 505002, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	14-Apr-81
1897 M.NOOR MOHAMMED (M.MOHAMEDALI)	TNSVC/1794 /05	36 / 119, MOHAMMADSHAPURAM II STREET, THIRUMANGALAM 625 706, MADURAI DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	27-May-76
1898 M.P. VISWANATHAN (R.PERIASAMY)	TNSVC/1060 /05	PLOT NO.19, PERIASAMY NAGAR, BEHIND SARADACOLLEGE, SALEM - 636016 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	16-Jun-47
1899 M.R. BALAKRISHNAN (M.V.RAMASWAMY)	TNSVC/3139 /05	5 / 3, GANDHI ADIGAL SALAI, KUMBAKONAM, PIN : 612 001, THANJAVUR DIST. TAMILNADU	B.V.Sc/MU/67	21-Jun-47
1900 M.R. DHAYALEESWARAN (M.R.RAJAGOPALAN)	TNSVC/3234 /05	88 / 192, THIAGARAYA NEW ST.NO.II, COIMBATORE 641 001 TAMILNADU	B.V.Sc/MU/73	03-Apr-51
1901 M.R. GOPINATHAN (M.RAMASWAMY)	TNSVC/1297 /05	15, MOOVENDER NAGAR EAST, OLD NATHAM ROAD, VISWANATHAPURAM, MADURAI - 14, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	03-Dec-52
1902 M.R. MADHAVAN (M.RANGARAJ)	TNSVC/359/ 04	NEW NO. 498, (OLD NO.339, 'A')6TH STREET B.V. COLONY VYASARPADI CHENNAI - 600039	B.V.Sc/TNV&ASU /04	31-Jan-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1903	M.R. NAGARAJAN (M.R. KRISHNASWAMY PANT)	TNSVC/3158 /05	55 / 3, I CROSS JAKKAPPAN NAGAR; KRISHNAGIRI 835 001, TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/83	23-Aug-53
1904	M.R. NATARAJAN (M. RETHINAPATHAR)	TNSVC/1327 /05	22, SAKTHI NAGAR, ALANGUDI ROAD, THIRUKKATTALAI POST, PUDUKKOTTAI, PIN : 622 303. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	25-Jan-59
1905	M.R. RAMAKRISHNAN (M. RAMAN)	TNSVC/1576 /05	NO.2, 8TH STREET, IYER LAYOUT, SINGANAILLUR, COIMBATORE - S, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	11-May-77
1906	M.R. RANGASWAMY (RAMASWAMY GOUNDER)	TNSVC/2524 /05	21, EALASUBRAMANIAN STRET, PUNJAI PULIAMFATTI 638 459, ERODE DIST, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/76	13-Aug-46
1907	M.R. RAJAGANAPATHY (M.K. RAMAMOORTHY)	TNSVC/2035 /05	1/88, NADU STREET, MALLUPATTI POST, PALACODE TK, DHARMAPURI DIST, PIN : 636 805. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	30-Jul-70
1908	M. RAVINDRAN (V. MARIMU THU)	TNSVC/1760 /05	IRUKKANGUDI (P.O) SATTUR T.K. VIRUDHUNAGAR DISTRICT PIN 626 202, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	18-Feb-72
1909	M.S. KANNADHASAN (M. SHANMUGAM)	TNSVC/1523 /05	1 / 71-A, ANDIYUR 635 307, UTHANGARAI TALUK, KRISHNAGIRI DISTRICT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	02-May-79
1910	M.S. MEENAKSHI SUNDARAM (M. SUBRAMANIAM)	TNSVC/2628 /05	NEW NO.6, TENTH EAST CROSS ROAD, GANDHI NAGAR, VELLORE 632 006, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	04-Oct-49
1911	M.S. MURUGESAN (K.M. SENGOTTUVEL)	TNSVC/2692 /05	324/206A, ALGUVINAYAGAR STREET, P&T COLONY (WEST) ALAGAPURAM PO. SALEM 636 018, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	25-Oct-63
1912	M.S. SAKTHIVEL (V.M. SHANMUGAM)	TNSVC/2043 /05	VADAKKU MELUR VILLAGE, VADKKUTHU POST, VIA VADALUR 607 303., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	10-Sep-56
1913	M.S. SARAVANAN (M.S. MANI)	TNSVC/1077 /05	4465, TAMIL NADU, HOUSING BOARD, VILLAPURAM, MADURAI - 625 011 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	28-Mar-68

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1914 M.S. SELVAKUMAR (M.V.SOKKANATHAN)	TNSVC/1975 /05	4 / 184, BHARATHI NAGAR, KAVERI PATTINAM 635 112, KRISHNAGIRI DIST.,TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/72.	01-Jan-48
1915 M.S. THIRUMURTHI S/O M.SANTHALINGAM	TNSVC/3533 /06	NO.3, 25TH CROSS STREET, BESANT NAGAR, CHENNAI 600 090,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	23-Jul-54
1916 M.S.MOHAMED NAZAR SAIT (M.SYED ALI JAMAL)	TNSVC/1783 /05	19 / 1, VIRUTHACHALAM STREET, NATARAJ NAGAR, MADURAI - 16,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	07-Mar-61
1917 M.S.MURALIDHARAN (M.SUBRAMANIAN)	TNSVC/2254 /05	NO.109, EAST AGRAHARAM, ANGARAI P.O. LALGUDI TK, TRICHY DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	10-May-61
1918 M.S.RAJA S/OMANICKAM	TNSVC/3490 /06	SEERAPPALLI POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DIST, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/88	16-Jun-65
1919 M.S.S PUGALENTHI (M.SUNDARAMOORTHY)	TNSVC/2668 /05	2/13B, NEW COLONY, KAKKAVERI (PO) RASIPURAM (TK) NAMAKKAL DISTRICT PIN 637 415,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	13-Jul-65
1920 M.SAKTHI PRIYA (T.R.MUTHUSAMY)	TNSVC/497/ 05	4, BALAJI COMPLEX, RAMLINGA NAGAR, PILLANALLUR, VANDIPAT, GURUSAMY PALAYAM, RASI PURAM T.K. NAMAKKAL DIST. PIN - 637403	B.V.Sc/TNV&ASU /05	27-Dec-81
1921 M.SELVARAJ(C.MAYAVAN)	TNSVC/1841 /05	PAPPANAPATTU VILLAGE, PANAYAPURAM POST, VILLUPURAM TALUK, PIN 605 601,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	15-Jan-68
1922 M.SHANMUGAM (A.MANICKAM)	TNSVC/1810 /05	AIYAN KADU, PERIYA SATHAPADI POST, CHAMRAJ PET VIA, METTUT TK, SALEM DT, 636 451TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	30-May-78
1923 M.SIVAEZHILAN(R.P.MEGA NATHAN)	TNSVC/2280 /05	5/30-1A, JUSTICE VIJAYARANGAN STREET, SAIDAPET, ARNI, TIRUVANNAMALAI DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	29-May-66
1924 M.SIVAKUMAR (C.MASILAMANY)	TNSVC/1849 /05	108, BAPSU NAGAR, ARAPPAKKAM VIA PUTTUTHAKU, VELLORE DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	07-Mar-51

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1925 M.STALIN	PONDISVC/2 66/05	18, PILIYARTHOPPU ST, THONDAMANATHAM & PO- PONDICHERRY 605502, PONDICHERRY-605502	B.V.Sc & AH/PU/05	23-Sep-81
1926 M.SUBRAMANIAN(P.M.MAR UDHANAYAGAM)	TNSVC/2288 /05	MIG, 246/811, TAMARAI NAGAR, 25TH CROSS STREET, TIRUVANNAMALAI 606 601, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	25-Aug-53
1927 M.SURESH(A.K.MUTHURAJ)	TNSVC/1829 /05	NORTH STREET, VAYALPATTY, VEERPANDI P.O. THENI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	29-Apr-76
1928 M.T.EDWARD THOMAS (M.THOMAS)	TNSVC/2151 /05	10-90A, RETNAVIL, HILLWARD, KUZHITHURAI POST, PIN : 629 163, KANIYAKUMARI DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	27-Apr-68
1929 M.TAKHELLAMBAM SOBITADEVI (W.MEETEI)	TNSVC/519/ 05	41, PLOT No.13, SEASHELL FLAT, 11nd STREET, MURUGAPPA NAGAR, PUZHUDHIVAKKAM, CHENNAI - 600091	BVSc&AH/BAU/99	01-Jan-72
1930 M.THINESHKUMAR (K.MANICKAM)	TNSVC/421/ 05	L.N. PURAM, ANAVAYAL PO, ALANGUDI TK, PUDUKKOTTAI DT 622 304, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	18-Jun-79
1931 M.THIRUMARAN(K.MAHALI NGAM)	TNSVC/1835 /05	NO.58, ANNA NAGAR, NEAR TVS SHOW ROOM, MADURAI ROAD, SRIVILLIPUTHUR, VIRUDHUNAGAR DISTRICT PIN 626 125	B.V.Sc/TNV&ASU /91	05-May-68
1932 M.UMAPATHY (P.MOHAN)	TNSVC/1824 /05	18, MELAKAYAROGANA SAMY SANNATHI, NAGAPATTINAM 611 001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /99	10-Jul-75
1933 M.V. RAMMOHAN (C.K.VENKATAPATHY)	TNSVC/3207 /05	127, KAMARAJ NAGAR, K.R.PURAM, COIMBATORE 641 006 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/75	09-Mar-50
1934 MADAN GOPAL S/o SH. KRISHAN KUMAR	HPSVC/745/ 05	H-NO.296 DEFONCE COLCHHATTWAL P.O.JANDWAL TEH.PATHANKOT 145001, PUNJAB	B.V.Sc & AH/CSKVV/05	08-Apr-80
1935 MADESH.S. S/o SANNAIAH	KARNASVC/ 3760/	MADDUR, YELANDUR TQLUK, CHAMARAJNAGAR DISTRICT PIN 571441, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	05-Jul-82

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1936	MADHAVI NEMILLA S/o RADHA KRISHNA	APSVC/4378 /05	HNO.11-23-1195,TELECOM COLONY L.B.NAGAR WARANGAL- 002,ANDHRA PRADESH	BVSc&AH/ANGR AU/05	31-Jan-79
1937	MADHAVI VIDYALA S/o SATHYANARAYANA	APSVC/4398 /05	HNO.6- 240,SHABUNAGAR,MIRYALGUDA,NA LGONDA DT,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/WANG RAU/05	13-Jun-81
1938	MADHAVILATHA SUDINI D/o S. LAXMA REDDY	APSVC/4418 /05	HNO. 6-103/1, GANDHINAGAR, KALWAKURTHY, MAHABUBNAGAR DT 509324, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/WANG RAU/05	10-Aug-81
1939	MADHU SUDAN MONDAL S/O SHRI KALIPADA MONDAL	WBSVC/320 7/05	VILL MADHUBATI, P.O. SRIPUR DIST HOOGHLY - 712812, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	12-Aug-82
1940	MADHU.A.N. S/o NAGARAJU	KARNASVC/ 3753/	AWERAHALLI, KOPPA HOBLI, MADDUR TALUK, MANDYA DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	05-Mar-83
1941	MADHU.B.P. S/o PUTTASWAMY.B.R.	KARNASVC/ 3775/	1397, BHDESHWARA NILAYA,SHANKARIPURAM HASSAN - 673201, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	12-Jan-83
1942	MADHUKAR LOHANI S/o SHRI N.B.LOHARI	UVC/08/06	VILL- LOHNA, P.O. PUAUU, TEHSIL - JAITI ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/05	22-Mar-81
1943	MADHUKAR S/o SHIVAJI RAO	KARNASVC/ 3706/	MADHUKAR. S.DHAMA, RAJESHWAR PO, BASAVAKALYAN TALUK, BIDAR DT, KARNATAKA	BVSc&AH/UAS,D harward/04	19-Jul-82
1944	MADHULAL V. S/o VELAYUDHAM V.	RajSVC/3215 /06	DURGAPURA,JAIPUR,RAJASTHAN	BVSc&AH/ANGR AU/02	09-Nov-77
1945	MADHURITA GUPTA D/o NIRAPADA GUPT	RajSVC/3230 /06	TYPE V/2 CSWRI AVIKANAGAR TONK, RAJASTHAN	BVSc&AH/TNV& SU/05	20-Dec-80
1946	MADHUSUDANAN C.S.	KERALA/308 1/05	ABHAYAM KOLATHERI ROAD, POONITHURA P.O. ERNAKULAM 682038, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	09-Sep-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1947	MADHUSUDANAN M.K	KERALA/307 4/05	AYODHYA PATHAIKARA P.O. PERINTHALMANNA, MALAPPURAM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	08-Oct-80
1948	MAGHOUM (M.A.GAFFAR)	TNSVC/3200 /05	923, D.K. COMPLEX, TVS AVENUE, MAIN ROAD, ANNA NAGAR (W) EXTENSION CHENNAI 600 101TAMILNADU	B.V.Sc/MU/69	10-Feb-42
1949	MAHABOOB SAHEB KHAJI S/o KHAJESA	KARNASVC/ 3821/	MARALBHAVI, MALNOOR POST, SURPUR TALUK, GULBARGA DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/UAS DHARWAD/04	09-Dec-80
1950	MAHADEVAPPA KOUJALAGI S/o GURUNATH	KARNASVC/ 3718/	C.J.S.NO.1885, CHARANTHIMATH,SOMWARPETH,G OKAK - 591307, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	13-Mar-82
1951	MAHANTESH.M.T. S/o THIPPESWAMY.M.R.	KARNASVC/ 3778/	YARAVANAGATHIHALLY,KOLKUNTE POST,DAVANAGERE TALUK & DIST., KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Jan-81
1952	MAHAVEER PRASAD RATHORE S/o SH. MAN	RajSVC/3238 /06	VPO KANWAS KOTA, RAJASTHAN	BVSc&AH/JNKVV /05	02-May-77
1953	MAHEDRA PRASAD DWIVEDI S/o MALARAM DWIVEDI	MPSVC/2312 /06	VILLAGE & POST PADARYA REWA, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /76	01-Apr-51
1954	MAHENDRA KUMAR S/o SHRI RAM DAYAL MAURYA	UVC/64/06	VETY OFFICER,GOVT. VETY HOSPITAL,CHAKA,DT-TEHRI GARHWAL,UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/01	25-May-77
1955	MAHESHWARAPPA.G S/o ONKARAPPA.G.	KARNASVC/ 3801/	KATHIGE POST, HONNALI TALUK, DAVANAGERE DISTRICT 577223, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	30-Aug-81
1956	MAHIPAL SINGH THAKUR S/o LAKMAN SINGH THAKUR	KARNASVC/ 3820/	HALBARGA - 585413, BHALKI TALUK, BIDAR DIT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Sep-77
1957	MAKRANI SAIYEDHUSAN A.	GUJSVC/264 6/06	KASBA, KAWANT ROAD TA.PO. CHHOTAUDEPUR DIST BARODA, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	14-Apr-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1958	MAKWANA VINODKUMAR N.	GUJSVC/265 5/06	BLOCK NO F-33/, SDAU, S.K.NAGAR DANTIWADA 385506 DIST BANASKANTHA, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	08-Apr-81
1959	MALARVIZHI, R. (W/o. P. SELVARAJ)	TNSVC/63/0 3	161/52 KODIVERU ROAD, DG PUDUR - 638503 GOBI T.K.ERODE DIST.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	16-May-78
1960	MALINI. K.	KERALA/302 7/05	MUKALUVILA VEEDU, CHEPRA P.O. KOTTARAKKARA, KOLLAM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	21-May-82
1961	MALLIKARJUNA .G. S/o NAGI REDDY. G.	KARNASVC/ 3723/	CHANNABASAVA NILAYA, SADASHIVANAGAR, SIRUGUP PA TALUK, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	02-Jan-83
1962	MAMATHA NAIR . A.K. D/o MADHAVA NAIR.A. K.	APSVC/4338 /05	D.NO.39-6-73/2, MURALINAGAR, VISAKHAPATNAM-7., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	01-Jun-79
1963	MANAS KUMAR MISHRA S/O SH S.C. MISHRA	ORISSASVC /1983/05	PLOT NO-181/809 ANANTA VIHAR POKHARIPUT BBSR-20, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	01-Jul-82
1964	MANDAVI KUMARI D/o SRI KAMALNAYA SINGH	BiharSVC/25 79/05	VILL/MUHALLAH - SHERPUR P.O. - MALPUR SUB-DIV - BARTH DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/AAU/03	10-Apr-76
1965	MANDEEP MINI D/o SH. JASWANT SINGH	PbSVC/2817/ 05	H.NO. 35, SUNDER BUILDINGS, SHOWK FARID, AMRITSAR., PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	03-Aug-82
1966	MANIK LAL HEMBRAM S/O SHRI RAMCHAND HEMBRAM	WBSVC/320 6/05	VILL PITHAGARIA P.O. RANIBANDH, DIST. BANKURA, WEST. BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	06-Dec-80
1967	MANISH DUBEY S/o MR. VISHNU KUMAR DUBEY	MPSVC/2321 /06	JARI PATKA-1, PHALKA BAZAR GWALIOR GWALIOR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	14-Jan-81
1968	MANISH KUMAR S/o SHREE CHANDRA BHUSAN PRASAD	BiharSVC/24 15/04	VILL + P.O. - MAKER THANA - MAKER SUB-DIV - DIST - SARAN, BIHAR	BVSc&AH/OUAT/ 03	20-Feb-77

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1969	MANISH PATEL S/o SHRI B.S.GAUR	UVC/139/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, BACHHUWABAN CHAMOLI, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/02	06-Jul-77
1970	MANISH S/o SHRI RAJKUMAR	UVC/140/06	C-11, NEW DHIRWALI JWALAPUR, DISTT HARIDWAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/02	03-Jul-77
1971	MANISHA DOGRA S/o SH. LEKH RAM	HPSVC/742/ 05	MALHAT NAGAR NEW RAILWAY LINE TEH. & DISTT. UNA 174303, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	24-Jul-82
1972	MANJAPPA. R. S/o RAMAPPA.M.	KARNASVC/ 3742/	B.DURGA POST, HOLALKERE TALUK, CHITRADURGA DIST 577518, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	30-Oct-77
1973	MANJU SINHA D/o SHREE RAM NARESH PRASAD	BiharSVC/23 23/03	VILL + P.O. - CHORSUYA THANA - GIRIYAK SUB - DIV. - RAJGIR DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	01-Mar-73
1974	MANJUNATH.K.M. S/o MUNIYAPPA. S.	KARNASVC/ 3750/	KHAJIHOSAHALLI, KATTIGENAHALLI PO, JADIGENAHALLI VILL, HOSAKOTE TALUK, BANGALORE - 562114, KARNATAKA	BVSc&AH/UAS,B' LORE/05	04-Dec-79
1975	MANJUNATHA.B.N. S/o NARAYANAPPA	KARNASVC/ 3727/	BELAGANAHALLI, HUTHUR POST, KOLAR TALUK & DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	15-Jul-81
1976	MANJUNATHA.B.S. S/o B.V. SUBBARAYAPPA	KARNASVC/ 3771/	BATLAHALLY POST, CHINTHAMANI TALUK, KOLAR DISTRICT - 563123, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	18-Jun-80
1977	MANJUNATHA.J. S/o LATE I.JOOLAPPA	KARNASVC/ 3766/	#60, SANJAYANAGAR POST, BHOOPASANDRA, BANGALORE - 560094, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	19-Sep-82
1978	MANMOHAN SINGH DARDI S/o SH RAM PARKASH	HPSVC/709/ 05	COLLGEG OF VETY ANIMAL SCIENCE, CSKHPKV, PALAMPUR, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc&AH/PAU/0 0	01-May-75
1979	MANNE VENKATA RANGA LAHARI D/o M. SATYANARAYANA	APSVC/4333 /05	H.NO. 66-101/1A, INOIRA GANDHI ST, NARASANNA NR, KAKINADA-3 E.G. OT, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	31-Dec-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
1980	MANOHAR VANGRU S/o V.YADAGIRI	APSVC/4299 /05	PLOT NO. 200, MADHAV NAGAR COLONY, KARMANGHAT, BAIRAMALGUDA,, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H./ANG RAU/05	05-Jan-80
1981	MANOJ KUMAR S/O SH FAKIR CHAND BHAMBU	HARSVC/186 5	VPO KALIRAWAN, T. MANDI ADAMPUR, HISAR, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	25-Nov-80
1982	MANOJ KUMAR BHARTI S/o SHREE NARAYAN JHA	BiharSVC/23 30/03	VILL - SHARANPUR P.O. - DAVRA THANA - TARABARI SUB-DIV - ARARIA DIST - ARARIA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	08-Feb-74
1983	MANOJ KUMAR BHARTI S/o SHREE RAM BACHAN RAM	BiharSVC/24 57/04	VILL/MUHALLAH - BHAGWABARI WARD NO.4 SUB-DIV - KATHAR DIST - KATIHAR, BIHAR	BVSc&AH/BAU/04	30-May-79
1984	MANOJ KUMAR BHARTI S/o SHREE RAM DEO RAZAK	BiharSVC/23 33/03	VILL + P.O.- KHARA THANA - UDAKISHUNGANJ SUB-DIV - UDAKISHUNGANJ DIST - MADHEPURA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	06-Jan-77
1985	MANOJ KUMAR GDSWAMI S/O SRI SUDHIR CH. GOSWAMI	WBSVC/317 6/05	TATA ROAD, DULMI, NADIHA PURULIA-723102, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	15-Nov-82
1986	MANOJ KUMAR S/o LATE SITA RAM SINGH	BiharSVC/22 85/03	VILL - BALIYA P.O - BHAWANIPUR THANA - GOPALPUR SUB-DIV - NAUGACHHIA DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	06-Jan-75
1987	MANOJ KUMAR S/o SH. DAYA NAND	HPSVC/747/ 05	VILL. & TEH. NIRMAN DISTT. KULLU, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	29-Sep-79
1988	MANOJ KUMAR S/o SHREE RAMNARESH PRASAD CHAUDHARY	BiharSVC/23 09/03	VILL - JAMUNI CHOWK P.O. - BARH (R.S) THANA - BARH SUB-DIV - BARH DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	01-Mar-74
1989	MANOJ KUMAR S/o SHREE RATANA RAM	BiharSVC/25 97/05	VILL/MUHALLAH - VISHNUPURA P.O. - SONHULA THANA - GOPALPUR SUB-DIV - GOPALGANJ DIST GOPALGANJ, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	25-Dec-76
1990	MANOJ KUMAR S/o SRI SATYANARAYAN LAL DED	BiharSVC/22 71/03	VILL -JAFRA P.O - SONWI THANA - DARBHANGA SUB - DIV - DARBHANGAR DIST DARBHANGA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	19-Oct-78

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
1991	MANOJ KUMAR SAHU S/O SH RAMACHANDRA SAHU	ORISSASVC /1992/05	AT: TAMABAKHURI, PO: MD. NAGAR, DIST-MAYURBHANJ, - 756030, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	09-May-80
1992	MANOJ KUMAR SINGH S/o SHREE KULDEEP CHAUDHARY	BiharSVC/23 08/03	VILL - NEW AREA P.O. - SASARAM THANA - SASARAM SUB-DIV - DIST ROHTAS, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	01-Mar-77
1993	MANOJ KUMAR SINHA S/o SHREE SATYA NARAYAN PRASAD	BiharSVC/23 00/03	VILL - CHAKAJ MERI P.O - CHANDAN PATTI THANA - SAKRA SUB-DIV - EAST MUZAFFARPUR DIST MUZAFFARPUR, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	06-Jun-78
1994	MANOJ KUMAR TIWARI S/o SHRI MATA BADAL TIWARI	UVC/145/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, PAROGI, TEHRI GARHWAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /99	01-Jul-75
1995	MANOJ KUMAR TONI S/o DR. SHREE CHOTE LAL PASWAN	BiharSVC/24 48/04	VILL/MUHALLAH - DILAWARPUR P.O. - MILKYCHAK THANA - BAHADURPUR SUB-DIV - DARBHANGAR SADAR DIST - DARBHANGA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	05-Jan-78
1996	MANOJ SARKAR S/O LATE MADHU SUDAN SARKAR	WBSVC/317 4/05	VILL SHARATPOLLY P.O. BERHAMPURE, DT. MURSHIDABAD-742101, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	28-Feb-82
1997	MANPREET KAUR D/o SH. AVTAR SINGH	PbSVC/2630/ 05	H.NO. 477, PHASE-3B-I, MOHALI, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	07-Sep-81
1998	MARJORIE RAJ (W/O B.ASHOKKUMAR)	TNSVC/2990 /05	472 / 5, WEST WOOD APARTMENTS, R-7-A, NORTH MAIN ROAD, ANNA NAGAR WEST EXT., CHENNAI 600 101	B.V.Sc/TNAU/86	03-Feb-83
1999	MARY PRIYA (K.R.UMMAN)	TNSVC/797/ 05	1 / 266, SINGARATHOTTAM, VANDALUR, CHENNAI 600 048 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	21-May-72
2000	MATHAKIYA RAFIYUDDIN A.	GUJSVC/263 0/06	TO. RASIKGADH, TA. WANKANER, DIST RAJKOT PIN 383621, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	03-Nov-82
2001	MAURYA (MS) PADMA D/o R.S.MAURYA	ASMSVC/22 15/05	TRAINING CENTRE, SIXMILE, P.O. KHANAPARA, GHY - 22, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	15-Jul-81

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2002	MAYEKEL SOREN S/o SHREE BRNARD BARKA SOREN	BiharSVC/22 34/02	VILL-POWAL.PO APROL THANA - BORIO SUB-DIV-SAHEBGANJ , BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	11-May-76
2003	MD IMRAN S/o SHREE MD. MAZHARUL ALIM	BiharSVC/24 89/04	VILL/MUHALLAH - MOHNAPUR P.O. - BARSOIGHAT THANA - BARSOI SUB- DIV - BARSOI DIST KATIHAR, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/04	21-Jun-77
2004	MD. JYAUH HODA S/o MD. AMIRUDDIN ANSARI	BiharSVC/25 84/05	VILL/MUHALLAH - DUMDUMA P.O. - LEHERIYASARAI THANA - LAHERIYASARI SUB-DIV - DARBHANGA SADAR DIST - DARBHANGA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	01-Mar-79
2005	MD. PARWEJ AKHTAR S/o ABDUL MAJID	BiharSVC/28 06/05	VILL/MUHALLAH - PURANDARPUR P.O. - BANKIPUR THANA - PEERBAHOR SUB-DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	28-Feb-79
2006	MD. SHAHBAJUL HAQUE S/o MD. ISRARUL HAQUE	BiharSVC/25 35/04	VILL/MUHALLAH - JALKAURA P.O. - JALKAURA THANA - KHAGARIA SUB- DIV - KHAGARIA DIST - KHAGARIA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	01-Mar-80
2007	MD. SHIBLEE NOMANI S/o MD. SAFIRUDDIN	BiharSVC/22 98/03	VILL - MIRZAPUR DIYARI P.O. - MIRZAPUR THANA - BAUSI BASAIRI SUB-DIV - ARRARIA DIST- ARRARIA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 0	02-Apr-76
2008	MEHER SINGH S/o SHRI JAGDISH SINGH	MPSVC/2305 /05	108, GARGAJ COLONY, BAHODAPUR GWALIOR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /03	14-May-76
2009	MILI BRASAD D/o SHREE RAM RAJ PRASAD	BiharSVC/24 42/04	VILL - GOLGHAR P.O.- G.P.O. THANA -KOTWALI SUB-DIV - PATNA DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	20-Jul-80
2010	MITALI SENAPATI D/O SHRI R.SENAPATI	MEGHSVC/2 36/05	THE PET BIOTICS SAMVILLA LABBAN MAIN RAOD, SHILLONG-4., MEGHALAYA	BVSc&AH/AAU/00	01-Oct-74
2011	MITHILESH KUMAR RAI S/o SHREE AJEET KUMAR RAI	BiharSVC/24 96/04	VILL/MUHALLAH - RAMAPUR P.O. RATANPUR THANA - MUFFASIL SUB- DIV - ARRAH DIST - BHOJPUR, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/04	05-Jan-76
2012	MITHILESH KUMAR S/o SHREE TEJNARAYAN YADAV	BiharSVC/25 81/05	VILL/MUHALLAH - BAIDI P.O. - BHAWDEWK THANA - SIMRI BAKHTYARPUR SUB-DIV - SIMRI BAKHTYARPUR DIST - SAHARSA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	01-Jan-80

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2013	MITHLIESH KUMAR S/o SHREE JWAHAR PRASAD	BiharSVC/24 81/04	VILL/MUHALLAH - SALKHUYA P.O. - SALKHUYA BAZAR THANA - SALKHUYA BAZAR SUB-DIV - SIMRI DIST - SAHARSA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	01-Jul-76
2014	MITU SETH D/o SHREE SIDDIHI NATH SETH	BiharSVC/24 43/04	VILL - COTTAGE COMPOUND P.O. - BHAGALPUR THANA - KOTWALI SUB- DIV - BHAGALPUR DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	05-Mar-76
2015	MOHAMED ABDULLA.K.H. S/o HONNUR SAB.H.	KARNASVC/ 3819/	NAVILEHAL POST, CHANNAGIRI TALUK, DAVANAGERE DT 577544, KARNATAKA	BVSc&AH/UAS,B' LORE/04	20-Jul-77
2016	MOHAMED FARAMAN.F S/o S.G.MOHAMED FIAZ S.G.	KARNASVC/ 3772/	ONION MERCHANT, LORDPURA, SIRA,TUMKUR DIST - 572137, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	14-Feb-81
2017	MOHAMED GHOUSE (SHAIK HYDER SAHEB)	TNSVC/1825 /05	228, AMMAN KOIL STREET, BROADWAY, CHENNAI 600 001TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/72	28-Jan-47
2018	MOHAMED SHAFIUZAMA (SHAHOUL ABDUL HAMEED)	TNSVC/2774 /05	NO.10, STAFF QUARTERS (MADRAS VETERINARY COLLEGE) CHENNAI 600 007	B.V.Sc/TNV&ASU /93	24-Oct-68
2019	MOHAMMAD HASIB S/o SHREE MOHAMMAD KASIM	BiharSVC/24 65/04	VILL/MUHALLAH - ARTHAILI P.O. - NANDLALPUR SUB-DIV - VAISHALI DIST - VAISHALI, BIHAR	BVSc&AH/AAU/04	13-Apr-76
2020	MOHAMMAD NISAR P.U	KERALA/308 5/05	POKKALATH HOUSE, PAZHUVIL P.O. TRISSUR 680564, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	07-Dec-80
2021	MOHAMMED ASIF KHAN S/o IKRAM ALI	RajSVC/3237 /06	STATE BANK OF INDIA JHUNJHUNU, RAJASTHAN	BVSc&AH/CCSH AU/05	12-Dec-76
2022	MOHAMMED NAWAZISH S/o SHRI ABDUL MANNAN	UVC/70/06	HN-IV/1121/F JHA COLONY, PANT NR, DISTT U.S NAGAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/00	27-Dec-76
2023	MOHAMMED RAFI G.H. S/o G.T.HUSSAIN PEER	KARNASVC/ 3810/	GOLLARAHALLI, UPPARAGENAHALLI PO, HOLLELKERE TALUK, CHITRADURGE DT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	20-Jul-78

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2024 MOHAMOOD ABBAS S/o KAREEM ABBAS	KARNASVC/ 3794/	NO.15,2ND MAIN ROAD, GANGANAGAR EXTENSION, BANGALORE -32, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	03-Apr-80
2025 MOHAN LAL SHARMA S/o SHRI PARMA NAND SHARMA	UVC/126/06	31-GARHI CANTT NIMBUWALA ROAD, DEHRADUN, UTTARANCHAL	BVSc&AH/PAU/67	23-Nov-43
2026 MOHAN.H.V. S/o VENKATAPPA.H.S.	KARNASVC/ 3761/	Y.HOSAKOTE (V) AND POST, SRINIVASAPURA TALUK, KOLAR DIST - 563125, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	10-May-82
2027 MOHAN.K. S/o A.KRISHNAPPA	KARNASVC/ 3786/	KODIGALAHALLI, HUNASEMARANAHALLI, BANGALORE- 57, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	09-Nov-81
2028 MONIKA TEHLAN S/O SH DHARAMVIR TEHLAN	HARSVC/187 4	857/30, SRI NAGAR COLONY, ROHTAK,HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	04-Oct-81
2029 MORAPAKA RAVINDAR S/o VEERAAIAH	APSVC/4412 /05	ALAIR, NELLIKUNDUR (M), WARANGAL DT.,, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	10-Apr-81
2030 MRITUNJAY KUMAR S/o SHREE RAM PRAVESH PRASAD SINGH	BiharSVC/25 56/04	VILL/MUHALLAH - GULNI P.O. - BHOKILAPAT THANA - HILSA SUB- DIV - HILSA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/04	01-Mar-79
2031 MRITUNJAY KUMAR S/o SHREE UMACHARAN PRASAD	BiharSVC/23 65/03	VILL - HORILANIGDHA P.O. - YOGIPUR THANA - HILSA SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	02-May-78
2032 MRITUNJAY KUMAR SINGH S/o SHREE SITA RAM SINGH	BiharSVC/23 32/03	VILL - DAYALPUR P.O.- SANGITA BAITA THANA - KAHALGAON SUB- DIV KAHALGAON DIST BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	16-Feb-79
2033 MRITUNJAY PRASAD SINGH S/o SHREE MAHESH PRASAD SINGH	BiharSVC/23 53/03	VILL - LAGMA P.O. - AMRATH THANA - JAMUI SUB-DIV - JAMUI DIST - JAMUI, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	20-Oct-72
2034 MRITYUNJAY MANDAL S/O LATE RAMRISHNA MANDAL	WBSVC/315 4/05	VILL&POGOVINDAPUR P.S. SHYAMPUR, DT.HOWRAH-711314, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUIA &FS/05	25-Jul-82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2035	Mu. DHANASEKARAN (M.A.MUTHUSAMY)	TNSVC/3161 /05	NO.45, RAJIV GANDHI NAGAR, WEST CIRCLE STREET, II PHASE, SOWRIPALAYAM, COIMBATORE 641 028TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/81	08-Jun-57
2036	MUKESH CHANDRA S/o SHRI GANESH DUTT PANDEY	UVC/07/06	VILL-BAIRTI, TAH-CHOKHATIA, ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/05	20-Dec-81
2037	MUKESH GURJAR S/o SH. DHARAM SINGH	RajSVC/3218 /06	SHIV COLONY G.K. ROAD, BANDIKUI DAUSA, RAJASTHAN	BVSC&AH/JNKVV /05	07-Nov-60
2038	MUNDUR. VENKATESWARLU S/o RAMAKRISHNAIAH	APSVC/4300 /05	GOGULAPADU, ROMPICHERLA(M), GUNTUR DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H./ANG RAU/01	04-Apr-74
2039	MURALIDHARA.H.T. S/o LATE THIMMARAJU.K.	KARNASVC/ 3754/	NEAR DURGAMBA TEMPLE KALAHALLI VILLAGE HALLI MYSORE HOBLI HOLENARASIPURA TALUK HASAN DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	26-Mar-83
2040	MURALIKRISHNA REDDY KONDA S/o K.SIVA REDDY	APSVC/4328 /05	6-1, INTUR(C.P.O), GUNTUR DT - 522 341., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H./ANG RAU/05	03-Aug-62
2041	N. AGILAN.(K.NACHALI)	TNSVC/2737 /05	OLD NO.133, NEW NO.46, KATHAN STREET, PERIA NATHAM, CHENGALPATTU 603 002.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	13-May-72
2042	N. AMANDAN (R.NAGARAJAN)	TNSVC/1330 /05	3-F, SETHU ROAD, MIMISAL POST, PUDUKKOTTAI DISTRICT, PIN : 614 621.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	15-Mar-69
2043	N. AMANDARAJ (V.NAMPERUMAL)	TNSVC/3150 /05	NEAR AGRI CO-OPERATIVE BANK, LAKSHMIPURAM POST, PERIYAKULAM TK, THENI DIST, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	10-May-71
2044	N. AMBALAGAN (C.NATARAJA GOUNDER)	TNSVC/3104 /05	NEELAMPOONDY VILLAGE, KADALI P.O. GINGEE TALUK, 604 210, VILLUPURAM DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	13-Jul-57
2045	N. AMBALAGAN (M.NARAYANAN)	TNSVC/2257 /05	NO.89, NEW FORT STREET, VANDAVASI, TIRUVANNAMALAI DISTRICT PIN604408,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	10-Jul-48

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2046 N. ANITHA (M. NAGATHEVAN)	TNSVC/321/ 04	KUMARAGAM, ANNANJI P.O. THENI DISTRICT - 625531TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-May-81
2047 N. APPAVU (NACHIMUTHU)	TNSVC/1888 /05	ERAMANAICKENPATTI POST, PALANI TALUK, DINDIGUL DISTRICT 624 613 TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/69	07-Feb-42
2048 N. ARCHIMEDES (P.NACHIMUTHU)	TNSVC/1969 /05	2 / 46-F, DOCTORS COLONY, JAGIR REDDIPATTY, SALEM -5., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	04-Jul-62
2049 N. ARULANANTHAM (NEVVAN)	TNSVC/247/ 04	4 / 283, CYCLONE COLONY, MELUR PO, MADURAI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	02-Apr-75
2050 N. ARUNACHALAM (P.NACHIMUTHU GOUNDER)	TNSVC/2583 /05	307, SATHY MAIN ROAD, KAVINDAPADI POST, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	01-Dec-48
2051 N. BABU PRASATH (R.NATARAJAN)	TNSVC/3057 /05	VADA KARINGALI PADI, SORAKULATHUR (P.O.) TIRUVANNAMALAI TALUK & DIT - 606 802,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	30-May-83
2052 N. BABU(A.NATESAN)	TNSVC/2547 /05	1366, III STREET, K.K. NAGAR, VASAVI COLLEGE POST, ERODE 638 316.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	08-Oct-70
2053 N. BALAN (N.NAGALINGAM)	TNSVC/1905 /05	2 / 706, GOVINDA VARMA STREET, PIDAMANERI, DHARMAPURI - 636703,TAMIL NADU	B.V.Sc/UNI OF MADRAS/71	28-Apr-48
2054 N. BALASUBRAMANIAN (NAMASIVAYAM)	TNSVC/623/ 05	27, DIWAN NARAYANASAMY WEST STREET, RAMANATHAPURAM 823 501.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	17-Apr-45
2055 N. BHARATHY (K.NARASIMHAN)	TNSVC/1001 /05	NO.7, EXTENSION PILLAYAR KOIL STREET, TIRUPATHUR 635601 VELLORE (DT)TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	19-May-65
2056 N. BHARATHY (R.NALLATHAMBI)	TNSVC/2995 /05	53 / 6, GANAPATHY NAGAR, COLLECTORATE POST ERODE - 11,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	03-Jun-82

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2057 N. CHANDRA SEKARAN (S.NARAYANASAMY)	TNSVC/967/ 05	KORATTUR, KALANIVASAL, PERAVURANI TK, THANJAVUR 814 804.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84 /05	15-Apr-58
2058 N. CHANDRASEKARAN (R.NALLASAMY)	TNSVC/2565 /05	4/359, NANJAPPA NAGAR, KULLAMPALAYAM POST, GOBI TK, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89 /05	03-May-56
2059 N. CHINNAAMY (NALLAMUTHU)	TNSVC/573/ 05	PILIMI SAI POST, RAJAJI NAGAR VIA, KUNNAM TK, PERAMBALUR DT, PIN : 621 713,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	13-Jun-79
2060 N. CHITHIRAI THIRUMAL (V.A.NAGAMONI MARTHANDAM)	TNSVC/2389 /05	1/251, SOUTH STREET, ITTAMOZHI POST, TIRUNELVELI DIST 628 652.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75 /05	06-May-53
2061 N. GANESAN (M. NATARAJAN)	TNSVC/98/0 3	ARASANPATTI POST, DHARMAPURI DTPOCHAMPALLI TALUKPIN : 635 2TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	29-May-80
2062 N. GANESH (K.NAINAR)	TNSVC/1270 /05	15, STATE BANK COLONY, 4TH STREET, MELAGARAM, TENKASI T.K. 627 818,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	12-Jun-77
2063 N. GORIKRESHNA S/O N.RAMACHANDRA RAJU	TNSVC/3445 /06	EGUVARPALAYAM VILLAGE AND POST, GUMMIDIPOONDI TK, TIRUVALLUR DIST,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88 /06	20-May-66
2064 N. JAGANNATHAN (N.NACHAPPAN)	TNSVC/1955 /05	200, NEW STREET, VELLANDIVALASU PO, EDAPPADI TK, SALEM DT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84 /05	14-Dec-57
2065 N. JAYASATHYA S/OV.C.NATESAN	TNSVC/3310 /08	PALLATHATHANOR, C.P.VALASAI P.O.BALUR (VIA) SALEM DIST- 636 104TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	7-May-82
2066 N. JEEVANANDAM (K.M.NATARAJAN)	TNSVC/2993 /05	KALARAMPATTY POST, MALLIKARAI VIA, ATTUR TALUK, SALEM DISTRICT PIN 636 107,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	20-Jun-81
2067 N. JEYARAM (R.NARAYANA NADAR)	TNSVC/2181 /05	"ASHIJEY" 724, NESAMONY NAGAR, NAGERCOIL -1, KANYAKUMARI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82 /05	13-Apr-58

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2068 N. KALAIVANAN (P.NALLUSAMY)	TNSVC/1858 /05	KAVARPANAI P.O. VEERAGANOOOR (SO), GANGAVALLI TK., SALEM DISTRICT 636 116 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	15-Jul-77
2069 N. KALIYAMOORTHY(N.NATE SAN)	TNSVC/144/ 03	VELLAMPUTHUR VIA, VADAGARAI THAZHANUR POST, THIRUKOVILUR TKPIN : 605 75TAMIL NADU2.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	20-Jan-80
2070 N. KARTHIKEYAN (P.NACHIMUTHU)	TNSVC/2880 /05	12, LOHIA STREET, KATTUPALAYAM, SWAMINATHAPURAM POST, MODAKURICHI VIA, ERODE DIST, TAMIL NADU, PIN : 638 104.	B.V.Sc/TNV&ASU /97	03-Feb-74
2071 N. KATHIRAVAN (V.NARAYANASWAMY)	TNSVC/2229 /05	40-F, GANDHI NAGAR, VELLANDI VALASU POST, IDAPPADI TK, SALEM DT, PIN : 637 105.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	19-May-69
2072 N. KAVITHA S/O G.NATARAJAN	TNSVC/3303 /06	NO.4/109, AMBEDKAR ST, OTTANTHANGAL, KANDIPEDU, KATPADI, VELLORE- 6 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	11-Nov-61
2073 N. KRISHNA KUMAR (P. NEELAMEGAN)	TNSVC/211/ 03	2/407, GANDHI STREET, JAWHARLAL NAGAR, REDHILLS, CHKENAI - 600 052, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	14-Jul-79
2074 N. KRISHNASAMY (N.V.NARASIMALU)	TNSVC/2530 /05	18E-6B, V.V. GIRI COLONY, PANCHAYAT OFFICE ROAD, SANKARI 637 301, SALEM DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	07-May-49
2075 N. KULANDASAMI (A.NALLASAMY)	TNSVC/2571 /05	VILAYANGADU, SILUVAMPALAYAM, VAZHATHOTTAM POST, SIVAGIRI VIA, ERODE DIST, 638109, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/86	20-May-62
2076 N. KUMAR (V.NARAYANASAMY)	TNSVC/2031 /05	43-B1, PAVIRUSUN KULAM, VELLANDIVALSAI POST, 637 105, IDAPPADI TK, SALEM DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	26-Apr-69
2077 N. KUMARA RATHINAM (NATRAYASAMY)	TNSVC/2582 /05	KOLATHURPALAYAM POST, DHARAPURAM TK, ERODE DSIT 638 661.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	03-Feb-64
2078 N. LAKSHMINARAYANAN (NAGAMANICKKAM)	TNSVC/2525 /05	181, BAZAAR STREET, SATHYAMANGALAM POST, ERODE DIST 638 401.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	13-Jul-77

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2079 N. LALITHA (S.P.NATARAJAN)	TNSVC/123/ 03	SANKAMPALAYAM-POYYERI, KOMARIPALAYAM POSTMOHANUR VIA,NAMAKKAL DT TAMILNADU- 637,	B.V.Sc/TNV&ASU /03	14-Aug-79
2080 N. LATHA (K.NATESAN)	TNSVC/1893 /05	12 / 3, FOREST ROAD, BOMMIDI, DHARAMAPURI (DT) 635301, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	16-Jun-73
2081 N. MANIKANDAN (B.N. NARAYANAN)	TNSVC/228/ 03	36, KAMARAJ STREET, THIRUVALLUVAR NAGAR, AYANAVARAM, CHENNAI 600 023. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	04-Dec-79
2082 N. MANJULA (W/O N.CHANDRASEKARAN)	TNSVC/2563 /05	105, BABU FERTILIZERS, AMMAPETA, METTUR MAIN ROAD, BHAVANI TK, ERODE DIST 638 311. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	20-May-74
2083 N. MANOHARAN (NATESAN)	TNSVC/1718 /05	AMMANKUDI, KOLLAKKUDI, MUSIRI T.K. TRICHY DIST., PIN 621 208 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	30-May-61
2084 N. MANOHARAN (S.NARAYANASAMY)	TNSVC/2162 /05	PERUMAGALUR & POST, LENIN NAGAR, PERAVURANI TK, THANJAVUR DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	15-Oct-51
2085 N. MEGANATHAN (V.NAGARATHINAM)	TNSVC/742/ 05	21E, KANAKARAYA MALAIAPPAN STREET, MANDAVELIPAKKAM, CHENNAI 600 028. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	07-Dec-51
2086 N. MOHAMED FAROOK (P.K.M. NAINA MOHAMED)	TNSVC/1990 /05	PLOT NO.9, A,B, SEVUGAN CHETTIAR COLONY, 1ST STREET, RESERVE LINE POST, MADURAI 625 014.	B.V.Sc/MU/65	07-Oct-40
2087 N. MOHANRAJ (NATARAJAN)	TNSVC/2074 /05	139-10, PANNEER SELVAM STREET, KAVERIPATNAM POST, KRISHNAGIRI DT 635 112, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	09-Oct-48
2088 N. MUGUNDHAN (P.NATARAJA N)	TNSVC/132/ 03	91, RAYAPALAYAM PUDUR, CHITHODE 638 102. ERODE DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	23-Jul-79
2089 N. MUNIAPPAN (M. NATARASAN)	TNSVC/236/ 04	ARASAMPATT (VIZ & PO), POCHAMPALLI TK, DHARAMAPURI DT, PIN : 635 201. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	07-Dec-78

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2090 N. MURUGAN (A.NATARAJAN)	TNSVC/1075 /05	21 / 4, MAHATMA GANDHI ST, BALAJI NAGAR, THIURPARAKUNTRAM PO, MADURAI 625 005.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	21-May-61
2091 N. MURUGAN (K.NALLAPPAN)	TNSVC/1059 /05	2 / 188, PAALIKADU, A.C. KONDALAMPATTI, KONDALAMPATTI POST, SALEM -836010TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/77	04-Apr-54
2092 N. MURUGARAJAN (S.NATARAJAN)	TNSVC/1393 /05	1 / 371, NEHRU NAGAR, COLLECTROATE (P.O.) RAMANATHAPURAM 623 503, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	04-Feb-73
2093 N. MUTHUKUMAR (R.NATESAN)	TNSVC/1176 /05	6 / 387 A, THIRUVALLUVAR NAGAR, BODHUPATTI ROAD, NAMAKKAL 637 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	17-Nov-74
2094 N. NAGANATHAN (K.NAGESWARAN)	TNSVC/1131 /05	"SASTHA-SOUNDHARA NIVAS", DOOR NO.3 / 99, KASI NAGAR, OPP TO "AAVIN" T. NALLUR PO, PARAMAKUDI 623 707.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	16-Aug-63
2095 N. NATESAN (K.NARAYANASAMY)	TNSVC/2040 /05	NO.9, GANESH NAGAR, ANNA NAGAR EAST, CUDDALORE 607 001., TAMIL NADU,	B.V.Sc/MU/77	15-Aug-52
2096 N. NIRMALKUMAR (A.NATESAN)	TNSVC/262/ 04	PLOT NO.32, NGGO COLONY, NEAR RANI ANNA NAGAR, CHANDIRAN GARDEN, CHINNATHIRUPATHI, SALEM 636 008.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	30-May-79
2097 N. PAHALAVAN (A.NATESAN)	TNSVC/1891 /05	1 / 209, PALAYAKOTTAI, NATHAKKADAIYUR POST, ERODE DT, TAMILNADU 638108	B.V.Sc/TNV&ASU /96	25-Jul-73
2098 N. PALANI S/OM.NATARAJAN	TNSVC/3455 /06	60, KUTHUKKAL, SEYDUNGANALLUR POST, PALAYAMKOTTI TK, TIRUNELVELI DIST, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /92	24-Apr-69
2099 N. PARAMASIVAN (S.R. NAGALINGAM)	TNSVC/1091 /05	469, BYE PASS ROAD, SATTUR, VIRUDHUNAGAR DT 626 203TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	07-Oct-51
2100 N. PARTHIBAN (N.NAVALAN)	TNSVC/3269 /05	17 / 4, PLOT C3, SURYA APARTMENT, KARPAGAVINAYAGAR KOVIL STREET, EAST THAMBARAM, CHENNAI, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	17-Nov-75

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2101 N. PARTHIBAN (V.NARAYANSAMY PADAYATCHI)	TNSVC/39/0 3	9, SENGAMETTU STREET, MAYILADUTHURAI 609 001TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/76	25-May-47
2102 N. PONRAJ S/O S.NAVANEETHA KRISHNAN	TNSVC/3416 /06	SENTHILATHIPURAM, KARISALPATTI PO, ELAYIRAMPANNAI VIA. SATTUR TK, VIRUDHU NAGAR- 626 201, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	20-May-82
2103 N. PRADEEPA (K.NATRAJAN)	TNSVC/352/ 04	MARIAMMAN KOIL STREET, EDUTHAVAINATHAM (PO) KALLAKURICHI(TK) VILLUPURAM(OT)TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	24-Sep-79
2104 N. PRAKASH (V.P.NALLASAMY)	TNSVC/2366 /05	VELLANKOVIL POST, GOBICHETTIPALAYAM TK, EROOEE DIST 638 059. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	12-Mar-61
2105 N. PREMA (A.NATARAJAN)	TNSVC/1244 /05	GMK NAGAR, TRICHY ROAD, NAMAKKAL, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	10-Sep-72
2106 N. PREMALATHA (G.NAINAPPAN)	TNSVC/548/ 05	DOOR NO.1, NATARAJAPURAM FIRST STREET, NAMAKKAL 637 001. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	28-Feb-81
2107 N. PREMALATHA (R.NARAYANASWAMY)	TNSVC/3055 /05	OLD NO.21 / 2, NEW NO.18 / 1, BUDDY BEGUM STREET, THOUSAND LIGHTS. CHENNAI 600 086	B.V.Sc/TNV&ASU /92	03-May-69
2108 N. PREMKUMAR (NAGARAJAN)	TNSVC/1864 /05	NO.11, YAMUNAI STREET, BHARATHI NAGAR, ADAMBAKKAM, CHENNAI 600 088	B.V.Sc/TNV&ASU /91	31-May-68
2109 N. RADHAKRISHNAN (P.NATESAN)	TNSVC/3141 /05	64, RAJAGOUNDAM PALAYAM, SOOREYAM PALAYAM POST, TIRUCHENGODU TK, NAMAKKAL DIST.TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/75	01-Jun-48
2110 N. RADHAKRISHNAN S/O K.NARAYANASAMY	TNSVC/3495 /06	4/1197D AMUDHAM COLONEY, INOIRA NAGAR, NEAR VENNAMPATTI RAIL ROAD, DHARMAPURI 636 701.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	11-Mar-77
2111 N. RAJENDRAN (T.NATARAJAN)	TNSVC/1672 /05	NO.4 / 6, MASINAICKENPATTY, AYODHIYAPATTANAM POST, SALEM DIST- 636 103, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	01-Mar-53

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2112 N. RAJENDRAN (V.P.NARAYANAN)	TNSVC/81/0 3	WEST STREET, VENGARAI PDSTP. VELUR TALUKNAMAKKAL DISTRICTPIN : 637 208.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	07-Jun-77
2113 N. RAJKUMAR S/DS.S. NATARAJAN	TNSVC/3559 /06	ND.204, AZHAR MASON, 142, BIG STREET, TRIPPLICANE, CHENNAI 600 05, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	29-May-71
2114 N. RAMAPATHI (T.MARAYANASAMY)	TNSVC/1467 /05	PLDT ND.71,72, (DDDR NO.2) 4TH CRDSS STREET, DM SAKTHI NAGAR, MANGADU, CHENNAI 602 101	B.V.Sc/TNV&ASU /98	11-Feb-48
2115 N. RAMASAMY (R.NATARAJAN)	TNSVC/2063 /05	10/987, MAIN RDAD, PAVDDRCHATRAM, TIRUNELVELI DT, PIN : 627 808. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	25-Jul-60
2118 N. RAMESH (G.NATARAJAN)	TNSVC/2883 /05	184, MAIN RDAD, GANDHI PURAM, SENDAMANGALAM POST, NAMAKKAL DIST, - 837 409, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	07-Jun-73
2117 N. RAMKUMAR (P.NATARAJAN)	TNSVC/817/ 05	ERUMIYAMPATTY, KDKKARAPATTY PDST, PAPPIREDDIPPATTY TALUIK, DHARMAPURI DT., PIN : 636 905	B.V.Sc/TNV&ASU /01	06-Jul-78
2118 N. RANI (K.NATARAJAN)	TNSVC/3022 /05	KEELATHENKALAM, THENKALAM P.D. SANKAR NAGAR (VIA) TIRUNELVELI DISTRICT 627 357 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	
2119 N. RASHIA BANU (K.NAGARAJAN)	TNSVC/418/ 04	MERCY CDTTAGE, K-3 / 471, MUTHAIYA NAGAR, KUMBAKDNAM 612 001. TAMIL NADU	B.V.Sc&AH/PU/04	03-Jan-82
2120 N. RAVI SUNDARESAN (S.NAGALINGAM)	TNSVC/1264 /05	AUTDDR VIA, SRIVAIKUNTAM TALUK, UMARIKADU 628 151 TUTICDRIN DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	05-May-79
2121 N. S. JAYALAKSHMI (K.SUBRAMANIAM)	TNSVC/292/ 04	NALLAMPATTY, MARAVADI PD, DHARMAPURI 635 205. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	11-Jan-79
2122 N. S. GANESH BABU (N.S.SATHYA MODRTHY)	TNSVC/327/ 04	BABAJDHN ILLAM, ANGAMUTHU UDAIYAR STREET MARANDAHALLI 636 806 DHARMAPURI DT.,	B.V.Sc/TNV&ASU /04	03-Sep-79

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2123 N. SADHASIVAN (T.P.NARAYANAN)	TNSVC/2049 /05	27A, TYPE III QUARTERS, BLOCK25, KERALA SALAI, NEIVELI 607 803.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	15-Oct-59
2124 N. SANTHIW/o. (K.SURESH)	TNSVC/1170 /05	THERKKU THOTTAM, MAROORPATTI, NAMAKKAL DT 637 019.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	25-May-71
2125 N. SARAVANAN (T.NAGARAJ)	TNSVC/427/ 05	SOVULU PATTY VIZ, SOGATHUR POST, DHARMAPURI DT.PIN - 636 703TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	19-May-78
2126 N. SATHYAMOORTHY (P.NARAYANAN)	TNSVC/2594 /05	NO.30. OPP TO RAILWAY STATION, NORTH STREET, KODUMUDI POST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	06-May-63
2127 N. SELVA RAJU S/O A.NATESAN	TNSVC/3401 /06	PILLAYAR KOIL STREET, GOLLA MANGALAM POST, PALLIKONDA VIA, VELLORE DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	7-Oct-54
2128 N. SELVAKUMAR (K.NATESAN)	TNSVC/466/ 05	88 / 12, VALLUVAR NAGAR 1ST STREET, ANNADHANAPPATTY SALEM - 636002TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	23-May-79
2129 N. SELVARAJU (A.NAGAPPAN)	TNSVC/1064 /05	3-21A, STAFF QUARTERS, NEAR 7TH STOP, THIRU NAGAR, MADURAI 625 006.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	25-Jul-61
2130 N. SELVENDRAN (C.NAGARATHINAM)	TNSVC/661/ 05	D / 26, MEENA ILLAM, VAITHYANATHAPURAM, VADAGARAI, PERIYAKULAM 625 601,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	25-May-78
2131 N. SEMBIAN (M.K.D.NATARAJAN)	TNSVC/1650 /05	10, NEW STREET LANE, EAST ANDAR STREET, TRICHY - 2 TAMIL NADU	BVSc/MU/71	15-Jul-47
2132 N. SENTHIL (C.NALLATHAMBI)	TNSVC/2997 /05	13 / 67A, SUBBIYA NAIDU COMPOUND, VELAR STREET, SHOLAVANDAN, MADURAI 625 214,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	04-Jul-83
2133 N. SENTHIL KUMAR (P.NATARAJAN)	TNSVC/1016 /05	117-E, KANDASAMY NAGAR, CHAMRAJPET (po), MECHAI METTUR (TK) SALEM DT. 636451TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	27-May-68

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2134 N. SHAILAJA (K.NATARAJAN)	TNSVC/416/ 04	NO.18, PSK NAGAR, OPP.to , DSP KALYAN MANDABAM, SEVILIMEDU PO. KANCHIPURAM DT 631 501.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	07-Jul-78
2135 N. SHANMUGAPRIYA(S.NATA RAJAN)	TNSVC/147/ 03	135, 7TH STREET, PUMPUGAR NAGAR,KOLATHUR, CHENNAI 00 0TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	16-Nov-79
2136 N. SIVANANDHAM (C.NALLA KUTTALAM PILLAI)	TNSVC/2149 /05	9/5, SOUTH STREET, PARAKKAI, KK DIST, 629 601.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76 /04	07-May-53
2137 N. SOUNDARARAJULU (K.NARAYANAN)	TNSVC/2052 /05	12/36, PONNAMBALA NAGAR, CHIDAMBARAM 608 001, CUDDALORE DIST, TAMIL NADU.	B.V.Sc/MU/60 /04	16-Jan-34
2138 N. SRIKUMAR (M.NARAYANASAMY)	TNSVC/1429 /05	ARIANKUPPAM, VELIANUR POST, TINDIVANAM TALUK, VILLUPURAM DISTRICT PIN 604 303TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	13-May-70
2139 N. SUGAVANAM (C.NARAYANAN)	TNSVC/436/ 05	69B, OLD PALLI STREET, VELLANDI VALASAI (PO) IDAPPADI (TK), 637 105 SALEM DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	09-Dec-77
2140 N. SUMATHI (W/o.K.KALIMUTHU)	TNSVC/1954 /05	1/ 128 A, GANDHI NAGAR, NEAR ESSA YOGA NILAYAM, MOHANUR MAIN ROAD, NAMAKKAL -1, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	16-Mar-74
2141 N. SUNDARAVELU (K.N.NANJAPPA CHETTY)	TNSVC/1048 /05	3 / 167 G, KAMARAJ COLONY, NEAR HOLY CROSS SCHODL Behind IOB, SALEM - 636 014, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79 /04	05-Jun-50
2142 N. SURESH KUMAR (M.NAGAMUTHU)	TNSVC/255/ 04	3 / 129, BUDDHAR NEW STREET, ELAIYUR PO, PERAMBALUR DT, 621 806.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	13-Apr-79
2143 N. SURESH KUMAR S/OK. NARAYANAN	TNSVC/3537 /06	7/16, EAST STREET, METTU ATHUR, ATHUR PO,ULUNDURPET TALUK, VILLUPURAM- 606102, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	25-May-83
2144 N. THIRUNAVUKKARASU (A.NARAYANASAMY)	TNSVC/2533 /05	M-234, ANNAYAGAM, MANIKKAMAPALAYM HOUSING UNIT, ERODE 638 011. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83 /04	27-Mar-55

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2145 N. THIYAGARAJAN (K.NARASIMHAN)	TNSVC/1464 /05	B-342, T.N.H.B., PHASE II ARCOT 632 503, VELLORE DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	17-Sep-77
2146 N. VADIVELAN (A.NATESAN)	TNSVC/496/ 05	NEAR CHURCH, RPUDUPALAYAM (PO), RASIPURAM (TK), NAMKKAL (DT) 637408, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	13-Jul-81
2147 N. VADIVUKKARASI (A.P.NATESAN)	TNSVC/1245 /05	PLOT NO.2, E.B.ENGINEERS COLONY II, ALAGAPURAM KATTUR, SALEM - 636 016, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	23-May-77
2148 N. VENKATESAN (T.NATARAJAN)	TNSVC/256/ 04	4/168D, MAIN ROAD, JAYA RICE MILL, PERIYAMPATTI PO, DHARMAPURI DT, PIN : 635 205; TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	12-Jun-79
2149 N. VENUGOPALA REDDY S/o N. VENKATA SUBBA REOY	APSVC/4360 /05	NANDIMANDALAM, B.V.Sc&A.H/ANG PENOLIMARRI(M), KADAPA DT... ANDHRA PRAOESH	RAU/05	01-Jul-79
2150 N. VIJAYASUNDARAM (S.NALLAIYAN)	TNSVC/1806 /05	161, MADHARSHA COLONY, KANDAR NAGAR, VELUR (TK&POST), NAMAKKAL OIST-638 182; TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-Apr-76
2151 N.ANBUCHEZHIAN (S.P.NADARAJA)	TNSVC/2950 /05	30A, COLLEGE ROAD, AGASTEESWARAM, KANYAKUMARI, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	16-Aug-69
2152 N.BALAGURU (P.NATARAJAN)	TNSVC/1764 /05	13-A, MAISTRY SANKARAYYA STREET, ARUPPUKOTTAI 626 101; TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	16-Apr-65
2153 N.BASKAR (V.NALLIAH)	TNSVC/2653 /05	78, BUNGALOW NAGAR, CHINNAMUNIAPPAN KOIL, KANNANKURUCHI, SALEM 636 008; TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	02-Sep-75
2154 N.C. MEENAKSHI (N.K.CHOKKALINGAM)	TNSVC/1043 /05	1 / 24-A, SUKKAMPATTI POST, SALEM DT 636 122, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	05-Jun-67
2155 N.C. SEKHAR (R.NAGARAJAN)	TNSVC/1337 /05	D-38, THANGAMANI STREET, THIRU NAGAR, MADURAI 625 006, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	29-Jun-67

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2156 N.DHAYALAN (V.NAMASIVAYAM)	TNSVC/1008 /05	NO.6, GANDHI NAGAR, PANAMARATHUPATTY POST, SALEM 636204TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	27-Jul-70
2157 N.E. DHEENADAYALAN (N.G.ETHIRAJULU NAIDU)	TNSVC/2072 /05	43B, ARUMPERUMSELVI STREET, BIG KANCHEEPURAM 631 502.,TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	20-Jun-49
2158 N.JAYARAMAN (M.NARAYANASWAMY)	TNSVC/2292 /05	53/1, SOUNDARYA COLONY, ANNA NAGAR WESTERN EXTENSION, CHENNAI 600 112	B.V.Sc/TNAU/78	06-Jun-56
2159 N.K. BUDDHAN (K.NATARAJA KUPPUSAMY)	TNSVC/3255 /05	3 / 63, NEHRU NAGAR, OPP. GOVT ARTS COLLEGE, COLLECTORATE POST, DHARMAPURI 636 705, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/81	15-Jul-56
2160 N.K.SUDEEP KUMAR (N.V.KUMARAN)	TNSVC/1741 /05	NO.111, 3RD MAIN ROAD, RAM NAGAR, CHENNAI 600 082	B.V.Sc/TNAU/88	11-Jan-66
2161 N.KANDASAMY (K.R.NATARAJAN)	TNSVC/2707 /05	NO.22, ARKESWARAR COLONY, 5TH STREET, NAGALKENI, CHROMEPET, CHENNAI 600 044	B.V.Sc/TNV&ASU /98	13-Apr-75
2162 N.NAKAJOTHI(N.NATARA JAN)	TNSVC/1778 /05	MI-35, R.M.NAGAR, DINDIGUL - 1,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	05-Jun-77
2163 N.P. GEETHA S/O K.S.PALANISAMY	TNSVC/3360 /06	7, PILLAIYAR KOVIL STREET, FORT, NAMAKKAL, NAMAKKAL DISTRICT 637 01,TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNV&ASU /05	8-May-82
2164 N.PANNEERSELVAM (NATESAN)	TNSVC/1399 /05	NO.5, BARATHI NAGAR, CHINNATHIRUPATHI POST, SALEM - 8TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	10-Jun-56
2165 N.PERIASAMY(NATESAPIL LAI)	TNSVC/3074 /05	VENKATACHALAPURAM, THURAIYUR TALUK, TRICHIRAPALLI DISTRICT 621 01 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	04-Jun-60
2166 N.R. SARAVANAN (S.N.RAMANATHAN)	TNSVC/1097 /05	22 / 19, FUND OFFICE COLONY, ALAGAPPAN NAGAR MADURAI - 3.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	05-Jun-67

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2167 N.R. SREEKANTHAN (N.S. RAJAN)	TNSVC/2419 /05	NO. 21, 14TH STREET, VINOBAJI NAGAR, ASTHINAPURAM, CHITALAPAKKAM P.O. CHENNAI 600 064	B.V.Sc/TNAU/79	12-Sep-55
2168 N.RAGHUNATHAN NAIR	KERALA/310 4/06	T.C. 29/1050(B) APRA 52A, PALKULANGARA THIRUVANANTHA PURAM, KERALA	BVSc&AH/JNAU/6 5	01-Jun-40
2169 N.RAJASEKARAN (S.V.NAVEENA CHANDRAN)	TNSVC/2328 /05	16, FIFTH CROSS STREET, C.I.T. COLONY, MYLAPORE, CHENNAI 600 004, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	02-Jun-61
2170 N.RAMACHANDRAN (NATESAN)	TNSVC/2352 /05	KILUMATHUR & POST KUNNAM TALUK PERAMBALUR DISTRICT, PIN 621 717, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	01-Jan-54
2171 N.S. LAKSHMANAN (N.B.SEVANA GOWDER)	TNSVC/2851 /05	310, VEVEKANANDA NAGAR, NEAR HILL BUNK, UDHAGAMANDALAM 643 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	23-May-56
2172 N.S. MANOHARAN (R.N.SADAYAPPAN)	TNSVC/2843 /05	PLOT NO.37, SIVARAM NAGAR, SONGAM BY PASS, RAMANATHA PURAM, COIMBATORE 641 045.	B.V.Sc/TNAU/85	03-Oct-61
2173 N.S. PALANISWAMY (S.N.SABAPATHY)	TNSVC/2494 /05	55, SAKTHI NAGAR, THINDAL, ERODE 638 009, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	06-Apr-49
2174 N.S. SAMRAT ASHOKAN (N.SATYA SEELAN)	TNSVC/2135 /05	401, PALANIAPPA MUDALIAR STREET, PONNAPPA NADAR NAGER, NAGERCOIL -629 004, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	15-May-54
2175 N.S. SELVAN (R.SUBRAMANIAN)	TNSVC/1183 /05	D.NO.10 / 486, P.W.D. QUARTERS, VARNATHEERTHAM HARUR POST & TALUK, DHARMAPURI DT 636 903.	B.V.Sc/TNV&ASU /98	31-Jul-70
2176 N.SRINIVASAN (NARAYANASAMY)	TNSVC/1948 /05	2 / 25, MELAGRAHARAM VILLAGE, VARATANAPALLI (PO), KRISHNAGIRI (TK & DT) 635120, TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNAU/83	12-Mar-60
2177 N.SUMATHI ALIAS MUTHUSELVI (A.PERIYASAMY)	TNSVC/1833 /05	56B / D, SKAVING CLUB ROAD, PERUMALPURAM, TIRUNELVELI 627 007, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-May-74

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2178 N.SURESH (NATESAN)	TNSVC/531/ 05	SEMBARAI PUDUR, MUDHALAI PATTI PO, INALIPALAYAM VIA, NAMAKKAL. - 637003, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jun-81
2179 N.THIRUPATHY(M.NARAYA NASAMY)	TNSVC/1775 /05	EARIKODI, MADAVALAM POST, TIRUPATTUR (T.K.) VELLORE DISTRICT PIN 635 653, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	01-Jun-82
2180 N.V. RAJESH (P NAKULA PERUMAL)	TNSVC/484/ 05	PALLICHEL PUTTHEN VEEDU, KARAVILI, VILLUKURU POST, KANYAKUMARIDT 629180 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	30-Oct-81
2181 N.VEERAMANI KANDAN (K.NALLAMUTHU)	TNSVC/363/ 04	2 / 7B, MELATHIRUMANICKAM (PO) ELUMALAI (VIA) PERAIYUR (TK) MADURAI (DT) 625535, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	04-Jun-80
2182 NABIN KUMAR OASH S/O SRI KRUTARTHA DASH	ORISSASVC /2021/05	AT/PO-GODBHAGA, DIST - BARGARH, PIN - 768111, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	05-Jul-80
2183 NAGA PRASAD MUPPALA S/o NAGA BHUSHANAM	APSVC/4301 /05	VET INDIA PHARMACEUTICALS (PVT) LTD., 1-7-187/D-16, KAMALANAGAR, ECIL 'X' ROADS, H'BAD- 500 062., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H./JNK VV/05	05-Aug-83
2184 NAGALEELAVATHI.S.P. S/o M.PAPAREDDY	KARNASVC/ 3780/	SOMPURA VILLAGE, SARJAPURA POST, ANEKAL TALUK, BANGALORE- 25, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	23-Mar-83
2185 NAGARAJ.M. S/o MUNIRATHNAIAH SETTY	KARNASVC/ 3779/	D.NO.3826, BRAHMINS STREET, NELAMANGALA, BANGALORE RURAL DT.-562123, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	22-Jul-81
2186 NAGESH.H. S/o HANUMANTHAIAH.B.C.	KARNASVC/ 3802/	BELLARE POST, C.N.HALLY TALUK, TUMKUR DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	03-Jan-81
2187 NAHEEL C.M.	KERALA/303 0/05	CHAKKITAYIL HOUSE, PUNNAYOORKULAM P.O. TRISSUR- 679561 KERALA	BVSc&AH/KAU/05	18-Sep-78
2188 NAMITA KUMARI D/o SHREE RAVINDRA PRASAD	BiharSVC/25 34/04	VILL/MUHALLAH - MAHADIPUR P.O. - TELHARA THANA - TELHARA SUB- DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	14-Mar-80

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2189	NAMITA SHARMA D/o SH. MADAN LAL	HPSVC/732/05	TYPE - 4 SET. ND.10 BLOCK-2 UPPER KAITHU DISTT. SHIMLA, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	22-Dec-81
2190	NAMRATA SHUKLA S/o SRI C.K. SHUKLA	UVC/172/06	VETY OFFICER, (ULDB) DFS LAB, PASHULDK, RISHIKESH, DEHRADUN, UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /00	04-Nov-76
2191	NAND KISHORE PRASAD S/o SHREE VISHNU DEO PRASAD	BiharSVC/25 15/04	VILL/MUHALLAH - BELBANWA P.D. - MOTIHARI THANA - MOTIHARI SUB-DIV - MOTIHARI SADAR DIST - EAST CHAMPARAN, BIHAR	BVSc&AH/KAU/04	01-Mar-76
2192	NANTU SARDAR S/D SHRI BUDU SARDAR	WBSVC/321 5/06	VILL&PO-MALANCHA, DIST-24 PRGS (N), WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	18-Sept-81
2193	NARAYANA BANAKARA S/o NEELAPPA.B.	KARNASVC/ 3759/	LINGANAYAKANAHALLI THANDA, KURUVATTI POST, HUVINAHADAGALI TALUK, BELLARY DISTRICT 583217, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Jun-81
2194	NARENDRA KUMAR S/o SHREE RAGHUNATH PRASAD	BiharSVC/24 87/04	VILL/MUHALLAH - CHAKWAI P.D. - CHAKWAI THANA - WARISLIGANJ SUB-DIV - NAWADA DIST - NAWADA, BIHAR	BVSc&AH/AAU/04	01-May-77
2195	NARENDRA KUMAR S/o SHRI SITA RAM GARG	UVC/20/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, KAMALPUR, PARUI GARHWAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/RAU/9 9	08-Dec-75
2196	NARENDRA TIWARY S/o SHREE MAHESHWAR TIWARY	BiharSVC/24 61/04	VILL/MUHALLAH - MKHAR P.D. - BHAURGAR THANA - NANPUR SUB-DIV - PUPRI DIST - SITAMARHI, BIHAR	BVSc&AH/AAU/04	04-Jan-77
2197	NARESH KUMAR S/O SH BANWARI LAL	HPSVC/708/05	DEPTT OF VETY. BIDCHE-MISTORY COVAS, CSKHPKV, PALAMPUR, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc&A.H/PAU/ 79	14-Jun-57
2198	NARMADA SHANKAR AGARWAL S/o LATE SHRI RAM KRISHAN AGARWAL	MPSVC/2278 /05	SANT NAGAR CDLONY, 613, JAGMOHAN DAS WARD KATNI, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /64	01-Jul-38
2199	NARUGOPAL DAS S/O SRI KANAILAL DAS	WBSVC/316 5/05	VILL & P.D. CHANDANPUR DIST. MIDNAPUR(EAST), WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	02-Jan-8?

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2200	NASEERA.A.P.	KERALA/302 8/05	AMBATTUPARAM BIL HOUSE, THAZHEKOD P.O,PERINTHALMANNA (VIA), MALAPPURAM - 679352. KERALA	BVSc&AH/KAU/05	03-Jul-80
2201	NAVEEN KUMAR S/o SRI SURENDRA PRASAD SINGH	BiharSVC/22 69/03	VILL - BARUMTAR P.O - SALIMPUR THANA - HARNAUT SUB - DIV - BIHAR SHARIF DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	27-Mar-78
2202	NAVEEN NISCHAL S/o SHREE VISHNUDEO PRASAD	BiharSVC/25 74/04	VILL.MUHALLAH - MIRIJAPUR P.O. - MIRIJAPUR THANA - LANIYAN DIST - MADHUBANI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	01-Mar-77
2203	NAVEEN.P.N.	KERALA/300 9/05	PERUMANGAT MANA, MARANCHERY P.O, MALAPPURAM - 679581, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	20-May-81
2204	NAVPEET KAUR D/o SH. GOBINDER SINGH	PbSVC/2612/ 05	H.NO. 6/78, MATA RANI STRET, DHURI GATE, SANGRUR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	19-Sep-83
2205	NAZIR HUSSAIN (M.M.HUSSAIN)	TNSVC/3110 /05	NEW NO.60, OLD NO.42, NARAYANA NAICKEN STREET, PUDUPET, CHENNAI 600 002	B.V.Sc/MU/72	17-Jul-48
2206	NDANGKIE NDANG S/O ATUMBE	NSVC/204/0 5	C/O PAGAI AWANG ASSEMBLY SECRETARIATE KOHIMA,NAGALAND	BVSc&AH/AAU/05	12-Nov-76
2207	NEEL KAMAL NILU S/o SHREE SIKANDAR PRSAD SINGH	BiharSVC/23 80/03	VILL + P.O. - RAMNAGAR THANA - BELDAUR SUB-DIV - GOGRI DIST - KHAGARIA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	30-Mar-78
2208	NEEL KAMAL S/o SHREE NAWAL KISHORE PRASAD	BiharSVC/24 35/04	VILL + P.O. - KADAMKUAN THANA - KADAMKUAN SUB-DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	10-Jan-76
2209	NEELAMMA.R. S/o RAMANNA	KARNASVC/ 3711/	TALAMADAGI POST, HUDUGI VILLAGE, HUMNABAD TALUK, BIDAR DT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	20-Jun-82
2210	NEELES SINDHU S/O SH RAJINDER SINGH SINDHU	HARSVC/186 4	100/14, KIRPAL NAGAR, ROHTAK,HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	26-Nov-82

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2211 NEELUR HARI KRISHNA S/o N. KESAVULU	APSVC/4366 /05	H.NO. 6-405,RAGHAVENDRA COLONY, BUGGA RD,YADIKI(P), ANANTAPUR DT - 515 408.,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	01-May-79
2212 NEERAJ AGARWAL S/o SHRI J.N.AGARWAL	UVC/61/06	WARD NO-2, P.O.TANAKPUR DISTT CHAMPAWAT, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/05	01-Jul-81
2213 NEERAJ BHARGAV S/o NARENDRA KUMAR BHARGAV	MPSVC/2311 /06	C/O SHRI R.P.DUBEY, CHOTI BAZAR CHINDWARA, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /94	23-Aug-71
2214 NEERAJ KATOCH S/o SH. K. R. KATOCH.	HPSVC/734/ 05	H.NO. 37. WARD NO 1 HAMIRPUR, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	02-Nov-83
2215 NEERAJ KUMAR PACHORI S/o SHRI DAUDAYAL PACHOURI	UVC/166/06	VETY OFFICER,GOVT.VETY HOSPITAL,TEJAM,DT- PITHORAGARH,UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/95	01-Jul-68
2216 NEERAJ KUMAR RANJAN S/o SHREE SHAMBHU PRASAD	BiharSVC/26 14/05	VILL/MUHALLAH - PUSTAKALYA ROAD P.O. - FARBISGANJ SUB-DIV - FARBISGANJ DIST - ARERIA, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/05	01-Feb-82
2217 NEETA JAIN D/o SHRI NEMRAJ JAIN	MPSVC/2304 /05	JAIN, SUNAR GALI, COURT ROAD SHIVPURI, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	26-Jul-80
2218 NESAR AHMED S/o MD. ASHRARUL HAQUE	BiharSVC/22 82/03	VILL - BASAULI P.O + THANA - SINGHIA SUB-DIV - ROSERA DIST - SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc&AH/KAU/02	07-Jan-74
2219 NIHAR RANJAN SAMANTARAY S/O SRI BISWANATH SAMANTARAY	ORISSASVC /2011/05	AT- BARABARI, PLOT NO. 2880/1, PO: KHANDAGIRI, BHUBANESWAR, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	24-Jun-81
2220 NIKEE KUMARI D/o SRI SOMARI BAITHA	BiharSVC/22 50/02	VILL-CHAKRI PO-NANDPUR AMWARI THANA-AANDAR SUB-DIV DT- SIWAN,BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	02-Jan-78
2221 NILAI PRASAD S/o SHREE LALESWAR PRASAD	BiharSVC/24 34/04	VILL - DAMUCHAK P.O. - BIHAR UNIVERSITY THANA - KAZIMOHOMMADPUR SUB-DIV - TIRHUT DIST - MUZAFFARPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	27-May-75

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2222 NIMISHA. K.N.	KERALA/302 3/05	KRISHNA KRIPA, NEAR NIRMALA COLLEGE, CHALAKKUDY, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	09-Apr-81
2223 NIMMY A GEORGE	KERALA/300 3/05	ASSARIPARAMBIL HOUSE KOZHA PO, KURUVILANGAD, KOTTAYAM- 686640, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	01-Nov-80
2224 NINGAPPA HAKARI S/o HONNAPPA HAKARI	KARNASVC/ 3795/	C/O KARIYAPPA HAKARI, MEDLERI POST, RANEBENNUR TALUK, HAVERI DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Aug-79
2225 NIPUM KHUGER S/o SH. CHANDER MOHAN KHUNGER	PbSVC/2628/ 05	H.NO. 1513, KHUNGER STREET FAZILKA-152123, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	14-Oct-82
2226 NIRAKAR JENA S/O SH SRI GHANTESWARE JENA	ORISSASVC /1995/05	AT: DOLAPADI, PO-ODANG, DIST- BHADRAK, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	02-Feb-80
2227 NIRANJAN KUMAR S/o SHREE BHOLA PRASAD SINGH	BiharSVC/24 44/04	VOLL - BELA P.O. - BELA M.I.C. THANA - BELA SUB-DIV - MUZAFFARPUR DIST - MUZAFFARPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	28-Jan-79
2228 NIRMAL DAVID BARA S/o SHREE NICOLUS BARA	BiharSVC/24 63/04	VILL/MUHALLAH - BENDORA, KIRTO TOLI P.O. - BENDORA SUB-DIV - GUMLA SADAR DIST - GUMLA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	08-Apr-79
2229 NISHA D/O SHRI RAM KUMAR GUPTA	GUJSVC/263 2/06	PRADHAN BHAVAN, MOHALLA BHIKUPURA, SIKANDARPUR, DT BALLIA U.P.	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	02-Dec-83
2230 NISHA VALSAN	KERALA/306 1/05	DALIA, KALLUVILA NEYYATTINKARA- P.O, TRIVANDRUM 695121, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	25-May-81
2231 NISHANT S/o SHREE MAHENDRA PRASAD SINGH	BiharSVC/24 74/04	VILL/MUHALLAH - DHORHUAN P.O. - DHORHUAN THANA - MASOURHI SUB-DIV - MASOURHI DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/JNAU/0 4	31-Dec-76
2232 NISHANT SHARMA S/o SH. ONKAR SHARMA	HPSVC/748/ 05	VILL. BUSAL, P.O. OIE TEH. BAROH DISTT. KANGRA, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	25-Mar-82

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2233	NISHANTH P.	KERALA/300 8/05	PRABANTHI, TC 48/30, PNO- 31, ASWATHY GARDENS, AMBALATHARA, TRIVANDRUM - 695026, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	08-Nov-80
2234	NITIKA SHRAMA D/o SH. Y.P.SHARMA	HPSVC/715/ 05	VILL-BANUTI, PO-RAURI THE&DT- SHIMLA HIMACHAL PRADESH.	B.V.Sc & AH/AAU/05	22-Apr-80
2235	NONIGOPAL SHIT S/O SRI GOBINDA PRASAD SHIT.	WBSVC/321 2/06	VILL-BARABHAGIA, PD- HATBAINCHA, DT-P/MIDNAPUR- 721422, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	04-Mar-82
2236	NULAKA NAGARJUNA REDDY S/o HANIMI REDDY	APSVC/4387 /05	C/ORAJAIAH SAGAR ROAD, HALIYA ANUMALA(M)NALGONDA 508202, ANDHRA PRADESH	BVSc&AH/ANGR AU/05	13-Mar-82
2237	NUTAN CHAND JAIN S/o SHRI MOTILAL	MPSVC/2307 /05	MADHUVAN COLONY, UKHARI ROAD, BALDEOBAG JABALPUR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /75	23-Oct-49
2238	O.M. SHEIK UDUMAN (O.M.MASOOD)	TNSVC/2965 /05	86 / 106, ATTAKULAM STREET, KADAYANALLUR - 627 751 TIRUNELVELI DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	25-Mar-60
2239	OM PRAKASH SINGH S/o SHREE LADDULAL SINGH	BiharSVC/25 91/05	VILL/MUHALLAH - PAHARPUR P.O. - AALAMPUR THANA - BIBHUTIPUR SUB-DIV - RDSRA DIST - SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	06-Mar-78
2240	OM PRAKASH SINGH S/o SHREE MADAN MOHAN SINGH	BiharSVC/24 39/04	VILL + P.O. - SAHIYAR THANA - SIMRI SUB-DIV - DUMRAON DIST - BUKKAR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	08-Oct-76
2241	ONEN AO LONGER S/o LATE TOMSUTOBA	ASMSVC/22 03/05	SIGGAL ANGAMI, BLOCK II, DIMAPUR, NAGALAND, ASSAM	B.V.Sc&A.H/AAU/ 05	02-Jan-74
2242	P. ALAGURAJAN (A. PONNAH)	TNSVC/2014 /05	OLD NO.14/16, SRI RAM NAGAR, T.KALLUPATTI, MADURAI DT, 625 702.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	12-Jun-76
2243	P. ALAMARATHAN (PICHAN)	TNSVC/644/ 05	VARAGUR POST, THALAIVASAL (VIA), ATTUR TK, SALEM DISTRICT, PIN : 638 112.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-Apr-79

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2244 P. ALBERT AROCKIA RAJ (S.PARISUTHAM)	TNSVC/3038 /05	38, E.B.COLONY, PANAMPATTU, VILLUPURAM 605 602, TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNV&ASU /05	12-Jul-82
2245 P. ANAND SEBASTIN (M.PANIMAYA MARYRAJ)	TNSVC/1521 /05	7, GANDHI NAGAR, KUMBAKONAM 812 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	10-Jan-79
2246 P. ANANDHAKUMAR (C.PONNUSAMY)	TNSVC/1469 /05	74 / A-8, ALAGAPPA NAGAR, III CROSS, ARIYALUR 621 704, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	25-Jul-75
2247 P. ANBALAGAN (S.PALANICHAMY)	TNSVC/3167 /05	P.VELUR, PARUTHIYUR (POST) ODDANCHATRAM (TALUK) DINDIGUL DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	10-Jan-69
2248 P. ANBARASI(A.PERIYASAMY)	TNSVC/141/ 03	3 / 44, WEST STREET, MARUVATHUR POST, SENDURAI TK, PERAMBALUR DTPIN : 621 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	06-May-78
2249 P. ANITA (M.PAULPANDIAN)	TNSVC/834/ 05	C-64, MAHARAJA NAGAR, IV MAIN ROAD, TIRUNELVELI 627 011, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	03-May-73
2250 P. ANNALAKSHMI (V.PATTABIRAMAN)	TNSVC/71/0 3	31, PUNJUPET, WALAJAPET, VELLORE DT, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	11-Feb-79
2251 P. ANURADHA (S.PURUSHOTHAMAN)	TNSVC/31/0 2	METTU STREET, P.S. PALAYAM & POST, VILLUPURAM DISTRICT, TAMIL NADU 605 , TAMILNADU	B.V.Sc&AH/PU/02	24-Aug-79
2252 P. ANURADHA S/O A.PARAMASIVAM	TNSVC/3316 /06	5/607, RAILWAY STATION ROAD, THIRUCHULI 626 129, VIRUDHUNAGAR DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	16-Jun-80
2253 P. ARAVINTHAN (V.PONNAPPAN)	TNSVC/380/ 04	153/251C, THIRUNAVUKKARASU NAGAR, CHELLA PILLAI KUTTAI PO, OMALUR TK, SALEM DT. 636 304	B.V.Sc/TNV&ASU /04	01-Jun-79
2254 P. ARTHANAREESWARAN (K.PALANISAMY)	TNSVC/303/ 04	57 / 1, V.S COLONY, ANNA NAGAR, SOORYAMPALAYAM PO, TIRUCHENGODE TK, NAMAKKAL 637 211, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	29-Jun-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2255	P. ARULMURUGAN (T.M.PONNUSAMY)	TNSVC/586/ 05	26, NETHAJI STREET, THAVITTUPALAYM, ANTHIYUR 638 501, ERODE DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	07-Jun-78
2256	P. ARUMUGAM (K.PETCHIPPAN)	TNSVC/1490 /05	DEVAVINAYAGAR KOIL STREET, VASUDEVANALLUR P.O. 627 758 TIRUNELVELI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	31-May-69
2257	P. ASAITHAMBI (M.P.PALANI)	TNSVC/2209 /05	MAKKANUR POST, INDUR VIA, DHARMAPURI DT. PIN : 636 803., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	15-Jul-76
2258	P. AZHAHIA NAMBI (S.PALAVESAM)	TNSVC/1311 /05	AMBALAVANA PURAM, AVARANKULAM POST, KAVALKINARU VIA, TIRUNELVELI DISTRICT, TAMIL NADUR 627 105.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	07-May-77
2259	P. BALAKUMAR (M.PULLIAPPA GOUNDER)	TNSVC/1883 /05	PERIAKADU, NAVALUR(PO), ATTUR (TK), SALEM (DT) 636116 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	21-May-70
2260	P. BALAMURUGAN (P.POOVALINGAM)	TNSVC/3135 /05	4 / 18A, S.R. NATARAJ NAGAR, KALANGAL ROAD, SULUR, COIMBATORE. TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	25-Jul-72
2261	P. BALAMURUGAN (T.PALANISAMY)	TNSVC/580/ 05	THUTHUR POST, AMPAPUR VIA, ARIYALUR TK, PERAMBALUR DT, PIN : 621 701. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	29-May-81
2262	P. BALASUBRAMANIAM (PALANIYANDAY)	TNSVC/925/ 05	PERUMAL MALAI ADIVARAM, SOORATHUR POST, THURAIYUR TALUK, THICHY DISTRICT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	20-Oct-52
2263	P. BALASUBRAMANIAN (N.PONNUSAMY MUDALIAR)	TNSVC/2518 /05	311, 4TH STREET, KAMADHNEU NAGAR VASAVI COLLEGE POST, ERODE 638 316. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	06-Feb-52
2264	P. BHARATH (N.PALANI SAMI)	TNSVC/2454 /05	29-E, L.S. PURAM, 2ND STREET, METTUPALAYAM 641 301, COIMBATORE DIST., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	27-Apr-76
2265	P. BOOPATHI (K.PERIASAMY)	TNSVC/2627 /05	NATHA KADU, ODUVANKURICHI POST, RASIPURAM TALUK, NAMAKKAL DISTRICT 637 406, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	27-May-74

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2266 P. CHANDRAN (S.V.PERIYASAMY NADAR)	TNSVC/2064 /05	15-3-69, VALAN STREET, SAMBAVAR VADAKARAI POST, TENKASI TK, TIRUNELVELI DT. 627 856.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	13-Apr-67
2267 P. CHELLADURIA (V.PERUMAL)	TNSVC/2808 /05	22, A CHOLAN NAGAR, PODMPUKAR SALAI, KUMBAKDNAM, (NEAR HOTEL TAMIL NADU 612 002.	B.V.Sc/TNAU/88	01-Jun-64
2268 P. CHINNADURAI (A.PERIYAIYA)	TNSVC/1325 /05	836, PERIYAR NAGAR, RAJAGOPALAPURAM, PUDUKKDTTAI.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	09-Apr-58
2269 P. CHOCKALINGAM (S.POOTHATHAN)	TNSVC/3242 /05	17, PILLAIAR KOVIL STREET, NANNAGARAM, MELAGARAM POST, TENKASI TK, TIRUNELVELI DIST 627 818.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	03-May-69
2270 P. DAYALAN (PATTABIRAMAN)	TNSVC/2081 /05	AP.10, L BLOCK, 12TH MAIN ROAD, ANNA NAGAR, CHENNAI -40.	B.V.Sc/TNAU/79	27-Jan-55
2271 P. DEEPA W/o. (R.BALAKRISHNAN)	TNSVC/1922 /05	KUPPICHIPALAYAM, MARAPPARAI (PO), TIRUCHENGODE (TK), NAMAKKAL (DT),TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNV&ASU /97	16-Jul-73
2272 P. DEIVENDRAN (R.PALANI BOMMU GOWDER)	TNSVC/1473 /05	DOOR NO.3 / 137, PLOT NO.C3, NAIANARKUPPAM ROAD, SUDHANANDAPURAM, UTHANDI, CHENNAI 800 119	B.V.Sc/TNAU/81	05-May-55
2273 P. DEVADOSS (G.PERUMAL)	TNSVC/1117 /05	MATTANGAL POST, GANDARVAKOTTAI TK, PUDUKKDTTAI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	04-May-61
2274 P. DEVENDRAN (R.PALANIAPPAN)	TNSVC/806/ 05	PLOT NO.21, DOOR NO.57, PALANIAPPA NAGAR, SURAMANGALAM P.O. SALEM 636 005,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	01-Jun-72
2275 P. DHANALAKSHMI (T.PERIYASAMY)	TNSVC/683/ 05	LII 42, ALAGU NAGAR, TNHB, TRICHY ROAD, NAMAKKAL -1,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	21-May-74
2276 P. DHANAVEL (P.PONNUSAMY)	TNSVC/1198 /05	3 / 131, MADAKASAMPATTY, K.PUDUPALAYAM POST, P.VELUR TK, NAMAKKAL DIST. 637 017.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	04-May-77

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2277 P. DHANUSHIA S/O P. YESUNASAN	TNSVC/3465 /06	ECHEN VILAI, ATTOOR, ATTOOR POST, TIRUVATTAR VIA, KANYAKUMARI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	8-Oct-78
2278 P. DURAIARASAN (R. PERUMAL)	TNSVC/3280 /05	10.A, BHARATHIDASAN NAGAR, THANTHONIMALAI, IVTH STREET, KARUR 639 005, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	11-May-67
2279 P. DURAI RAJAN (L. PAVADAI)	TNSVC/2010 /05	NO.5, VETS NAGAR, NEELAMANGALAM POST, KALLAKURICHI 606 202. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	20-May-53
2280 P. DURAISAMY (K. PONNUSAMY)	TNSVC/146/ 03	VETTUVANKATTU THOTTAM, KOMAIVVALASU, KOVILPALAYAM POST, KANJI KOVIL VIA, ERODE DISTRICT PIN 638 116.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	20-Jun-80
2281 P. ELANGO (A. PALANIYANDI)	TNSVC/1357 /05	11 / 9, 4TH MAIN STREET, RANGA NAGAR, K.K. NAGAR P.O. TRICHY - 21, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	11-Jun-77
2282 P. ELANGO (A. PERUMAL)	TNSVC/2669 /05	26, THIRU NAGAR, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL DISTRICT PIN 637 001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	02-Jun-68
2283 P. ELANTHALIR (W/o. C. VIJAYA VISHNU)	TNSVC/301/ 04	No. 14, INDRANI NAGAR, NARASOTHIPATTI, SALEM - 4 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	01-Dec-79
2284 P. ELAYARAJA S/OA. PACHAMUTHU	TNSVC/3305 /06	60-A, MIDDLE STREET, RAYAMPURAM (PO), ARIYALUR (TK), PERAMPALUR DT.- 621 718 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-Oct-82
2285 P. EZHIL PRAVEENA S/O P.V. SINGH	TNSVC/3344 /06	168, DEVADASON STREET, NAGERCOIL 629 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /99	20-Feb-75
2286 P. GANAPATHI (G. PALANISAMY)	TNSVC/593/ 05	G.S. COLONY POST, ANTHIYUR VIA, BHAVANI TK, ERODE DT 638 501. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	08-May-81
2287 P. GANESAN (R. PONNUSAMY)	TNSVC/2932 /05	ESWARAN KOIL STREET, MECHERI PO METTUR TK, SALEM DT 636453. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	10-Jun-52

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2288 P. GEETHA S/OR. PALANI	TNSVC/3539 /06	MSM THOTTAM, OPP. TO PANCHAYAT OFFICE, UTHANGIRI, KRISHNAGIRI DT - 635 207, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	1-Jun-80
2289 P. GEETHA(P.PICHANDI)	TNSVC/485/ 05	NO.205-B, ANBU STREET, NGGO COLONY, BACK SIDE, KATPADI ROAD, GUDIYATHAM 632602	B.V.Sc/TNV&ASU /05	04-Sep-81
2290 P. GIRIDHARAN (N.PALANI)	TNSVC/957/ 05	68, RADHAKRISHNAN STREET, ARCOT 632 503, VELLORE DISTRICT, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	05-Jan-75
2291 P. GNANA PRAKASAM (S.D.PALAMALAI)	TNSVO/2146 /05	47/20, CORPORATION COLONY, ARCOT ROAD, KODAMBAKKAM, CHENNAI-24.	B.V.Sc/MU/72	30-Dec-46
2292 P. GOVINDARAJ (N.PERIYASAMY)	TNSVC/2512 /05	APPACHI THOTTAM, NERINGIPETTAI POST, BHAVANI TK, ERODE DIST, PIN : 638 311. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	18-May-85
2293 P. GOVINDASAMY S/O A.PALANISAMY	TNSVC/3353 /06	INDIRA NAGAR MAIN ROAD, P.METTUPALAYAM (PO) SAKTHI NAGAR (VIA) GOBI (T.K.) ERODE DT- 638 315, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jul-80
2294 P. GUNASEKARAN (PALANIVELU)	TNSVC/1195 /05	151, CHB COLONY WEST, TIRUCHENGODE 637 211, NAMAKKAL DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/73	18-Oct-48
2295 P. GUNASEKARAN (PERIYASAMY)	TNSVC/191/ 03	EAST STREET, SENGUNAM VILLAGE, PERAMBALUR TALUK AND DIST- 621 220. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	04-Aug-53
2296 P. GURUSAMY (G.PAULPANDI)	TNSVC/336/ 04	NALLIATHEVANPATTI, SOLAIPATTI POST, PERIYUR T.K. MADURAI (DT.) TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	07-Jun-79
2297 P. GURUSAMY (V.N.PONNUSAMY)	TNSVC/2572 /05	188, K.P.C.NAGAR, VELLAKOVIL, 638 111. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	31-Dec-51
2298 P. INBASEKARAN (V.PERUMAL)	TNSVC/2457 /05	1/601, GANDHI NAGAR, MALLAN ROAD, VIRUDHUNAGAR 626 001., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	15-May-53

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2299	P. IYASAMY (M.PATTAYA GOUNDER)	TNSVC/2517 /05	1-1 OLD MARIAMMAN KOIL STREET, AMMAPETTAI, BHAVANI TK, ERODE DIST, PIN : 638 31TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	27-Jul-67
2300	P. JANARTHANAN (P.PARASURAMAN)	TNSVC/1280 /05	STATE BANK COLONY, MELAGARAM P.O. TENKASI TK., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	15-Oct-51
2301	P. JAYABALAN (M.PONNUSWAMY)	TNSVC/2478 /05	9/20, PERIYAR NAGAR, KEELPERUMBAKKAM, VILLUPURAM.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	30-Oct-66
2302	P. JAYAGANTHAN (S.PONNUSAMY)	TNSVC/308/ 04	THEETHANVIDUTHI VILLAGE, KARAMBAKKUDI (POST) PUDUKOTTAI DISTRICT 622 302TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	02-Jul-81
2303	P. JAYAMANIW/o. P. MUTHUKUMAR	TNSVC/402/ 04	186-A, MAIN ROAD, R.P. PUDUR P.O. NAMAKKAL DIST. PIN - 637001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	10-Jul-75
2304	P. JAYANTHI (PASUPATHY)	TNSVC/2125 /05	H-5, JAINS EIFFEL GARDENS, 90, ARCOT ROAD, VADAPALANI, CHENNAI 600 026.	B.V.Sc/TNAU/89	25-Jul-66
2305	P. JAYARAMAN (R.PONNUSAMI)	TNSVC/1936 /05	4 / 497, ADHIYAMAN NAGAR, (MELSOMARPET), VENKATAPURAM, KRISHNAGIRI (TK), NEAR NEW BUS STAND, KRISHNAGIRI DT - 635002	B.V.Sc/TNAU/80	02-Feb-57
2306	P. JAYASREE (S.MOHANDAS)	TNSVC/2639 /05	HOUSE NO.3, 9TH CROSS ROAD, BHARATHI NAGAR EXTENSION, KATPADI, VELLORE - 7TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	26-May-68
2307	P. JEEVARATHINAM (R.PERUMAL)	TNSVC/2792 /05	20, ARAYAPURAM, PAPANASAM TK, TANJAVUR DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/77	28-Mar-51
2308	P. JEGADEESAN (S.PONRAMU)	TNSVC/1447 /05	7 / 9, WEST ASARIMAR STREET, CUMBUM 625 516,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	10-May-60
2309	P. JEGANATHAN (S.PERUMAL)	TNSVC/2030 /05	THEVANKURUCHI, T.KALLUPPATTI POST, PERAIYUR TK, MADURAI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	03-May-75

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2310 P. JENIFER(S.PARISUTHAM)	TNSVC/140/ 03	38, E.B. COLONY, PANAMPATTU POSTVILLUPURAM 605 602.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	04-Oct-79
2311 P. JEYAKRISHNAN (V.PERUMALSAMY)	TNSVC/448/ 05	VPS ILLAM, NACHIARPATTI (PO), SRIVILLIPUTTUR (TK), VIRUDHUNAGAR (DT) 626125TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	29-Jul-82
2312 P. JOHNSON PONRAJA (S.PAUL RAJ)	TNSVC/3273 /05	61E / 2, POL.PETTAI, TUTICORIN -2 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/77	17-Apr-53
2313 P. KALAI SELVAN (R.PONNUSAMY)	TNSVC/1692 /05	5 / 20, ERUKKATTU VALASU, MULLAMPATTI (PO), NASIYANUR 0 638 107, EROOE DT.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	25-Jul-78
2314 P. KALAISELVI (K.PERIYASAMY)	TNSVC/394/ 04	SANARTHUTTAM, NADU THOLUR, THOLUR POST, NAMAKKAL TK & OT, 637 017.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	14-Mar-81
2315 P. KALIANNAN (K.PERUMAL)	TNSVC/1664 /05	KARUPPANAR KOVIL THOTTAM,TATHAYANGARPATTI P.O. 637 014, NAMAKKAL T.K. & D.T.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	11-May-66
2316 P. KAMALANATHAN (T.G. PERUMAL)	TNSVC/1/02	ERANTHANGAL MOTTUR , VELLORE SUGARS, VELLORE OT. 832519 ,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	10-Nov-76
2317 P. KAMARAJAN (M.PALANISAMY)	TNSVC/1462 /05	11, SELLANDIAMMAN KOIL STREET, CUMBUM POST THENI DISTRICT PIN 626 516,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	15-Jul-50
2318 P. KANAGARAJ (PERIATHAMBI)	TNSVC/2003 /05	KALLAPALAYAM, VELLARIVELLI POST, EDAPPADI VIA, SALEM DT, TAMIL NADU 637 101.	B.V.Sc/TNV&ASU /98	10-Jun-74
2319 P. KANAGARAJU (S.PAZHANIYANDI PILLAI) (LATE)	TNSVC/945/ 05	2 / 19, MARIYAMMAN KOVIL STREET, VALAYAPPATTY POST, NAMAKKAL DISTRICT, TAMIL NADU 637 020.	B.V.Sc/TNV&ASU /95	26-Jun-72
2320 P. KANAGARAJU(P.PERUMAL)	TNSVC/562/ 05	ADHANUR POST, PAGALAVADI VIA, THURAIYUR TK, TRICHY DT, TN, PIN : 621 014.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	01-Jun-82

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2321 P. KANAKASABAI (PONNUSAMY)	TNSVC/1897 /05	418-5, V.T. EXTENSION, KATCHERY MEDU, HARUR (PO, TK), DHARMAPURI DT - 636903, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	09-Jun-71
2322 P. KANMANI (R.PALANISWAMY)	TNSVC/3001 /05	PUDHUPATTIYANKADU, ARASAMPALAYAM, MORANGAM PO, THIRUCHENGODE TALUK, NAMAKKAL- 637 410, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	17-Apr-82
2323 P. KANNAN(S.PALSAMY)	TNSVC/994/ 05	MARAVANVAYAL, RENDAMPULIKKADU POST, PATTUKKOTTAI TK, THANJAVUR DT 614 723. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	20-May-72
2324 P. KARTHICK (M.PANDIARAJAN)	TNSVC/2460 /05	8/173, MIDDLE STREET, OLO ELAYIRAM PANNAI 626 201, SATTUR VIA, VIRUOHUNAGAR DIST, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	01-Jun-77
2325 P. KARTHIK (S.POYYAMOZHI)	TNSVC/429/ 05	ALLAMPATTY, ATHANOR POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT 636 301, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	13-Jun-80
2326 P. KARUNAKARAN (M.PONNUSAMY)	TNSVC/2011 /05	KANDEEPAN ILLAM,, 1-2-4, THATHAMPATTI, T.VADIPATTI POST & TALUK, MADURAI DT 625 218. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	05-Apr-69
2327 P. KARUNAKARAN (S.PALANIKUMAR)	TNSVC/1285 /05	47-1, VIJAY COTTAGE, ROUND ROAD, PUDUR, DINDIGUL 624 005, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	10-Jun-71
2328 P. KASIRAJAN (P.PIRAMUTHU NADAR)	TNSVC/2826 /05	NORTH STREET, VEPPLODAI POST, KULATHUR VIA, TUTICORIN DIST, PIN : 627 903. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	07-Jan-67
2329 P. KAVITHA (C.PONNUSAMY)	TNSVC/505/ 05	5/152, SWAMY NAGAR, III STREET MOHANUR ROAD, NAMAKKAL DIST. PIN - 637001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	05-Jun-82
2330 P. KAVITHA (R.PALANIAPPAN)	TNSVC/2504 /05	9/236, SAMIAMPALAYAM POST, B.KUMARAPALAYAM VIA, 638 183, SALEM DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	12-Aug-72
2331 P. KUMAR (M.PALANI)	TNSVC/1018 /05	289, MUTHAMPATTI (PO), SESHANCHAVADI (VIA) VLALAPPADI (TK), SALEM (DT) PIN - 636111, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	09-May-73

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2332	P. KUMAR(N.PARAMASIVAM)	TNSVC/142/ 03	2 / 71-1, MIN NAGAR, ARIYALUR POSTPIN 621 704TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	07-Mar-79
2333	P. KUMARAN (L.PERIYASAMY)	TNSVC/1930 /05	7 / 469, METTUPATTI, HARUR - 636903 PO, DHARMAPURI DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	08-May-70
2334	P. LAKSHMI PRASATH(K.POSARAJAN)	TNSVC/152/ 03	NO.48, SRIMARIAMMAN NAGAR, NOCHIAM, TRICHY 621 216.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	28-Dec-79
2335	P. LOGANATHAN (S.PARIJATHAM)	TNSVC/2301 /05	11, VIVEKANANOHA STREET, ANNA NAGAR, CHEYYAR 604 407 TIRUVANNAMALAI DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	16-Jun-76
2336	P. MAHALINGAM (K.PERUMAL)	TNSVC/3274 /05	9 / 11-A, KOLUKARANUR, MECHERI, 636 453, SALEM DIST.TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/87 /01	01-May-60
2337	P. MANIMARAN S/O M. PERIYATHAMBI	TNSVC/3526 /06	VEERAMBAKKAM VILLAGE & PO (VIA) VANDAVASI, CHEYYAR TALUK, TIRUVANNAMALAI DISTRICT - 604 408.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	7-Jun-82
2338	P. MANIMUTHU (A.PERIYIAIAH)	TNSVC/2420 /05	AMBEDKAR NAGAR, KOTHAMANGALAM (EAST)&PO, KEERAMANGALAM VIA PUDUKOTTAI DT 614 624	B.V.Sc/TNV&ASU /01	02-Oct-75
2339	P. MANIRAJAN (D.PONNUSAMY)	TNSVC/656/ 05	L3 / 38 - ALAGHU NAGAR, TRICHY ROAD, NAMAKKAL 637 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	04-Apr-77
2340	P. MANIVANNAN (M.PALANIAPPAN)	TNSVC/617/ 05	ALAMPALAYAM POST, ANTHIYUR VIA, ERODE DT, PIN : 638 501.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	29-Jul-81
2341	P. MANIVEL (S.PITCHAMUTHU)	TNSVC/526/ 05	3 / 10, PERUMAL KOIL STREET, MANJINI PO, ATTUR TK, SALEM DT, 636 141.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	09-Oct-81
2342	P. MANOGAR (R.PONNAIAH)	TNSVC/1731 /05	30, RAMALINGA NAGAR WEST EXTENSION, TRICHY 620 003, TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNAU/75 /01	02-Jan-52

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2343	P. MAREESWARAN (R.M.PECHIAPPAN)	TNSVC/1999 /05	#19, SAKTHI ILLAM, MEHABOOBKHAN LAYOUT, NEAR KERALA SAMAJAM, NR UNION OFFICE, OHALI ROAD, UOUMELPET PO 642 126.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	05-Apr-75
2344	P. MARIAMMAL (P.PERUMAL)	TNSVC/73/0 3	38E, N.S. VALAN STREET, PULI ANGUDI POST, SIVAGIRI TALUKTIRUNELVELI DT 627 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	13-Feb-71
2345	P. MARIAPPAN (S.PALANIKUMAR)	TNSVC/1256 /05	47 / 1, VIJAY COTTAGE, ROUND ROAD/PUDUR, DINDIGUL 624 005 TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNV&ASU /96	19-Apr-73
2346	P. MASILAMANTIN (M.R.PITCHAI)	TNSVC/1519 /05	6-1 / 2, NARAYAN AMBALAM STREET, KOTTAIYUR, KARAİKUDI TK, 630 106, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	18-May-60
2347	P. MATHAN (K.PONNURAM)	TNSVC/1260 /05	WEST STREET, KATTUNAICKANPATTY, VENKATACHALAPURAM POST THENI DIST. 625 572 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	08-May-76
2348	P. MATHI (K.PALANIYANDI)	TNSVC/2828 /05	236-A, OLD BALAMBIKA PRESS STREET, TURAIYUR 621 010, TRICHY DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	07-Jul-76
2349	P. MATHIALAGAN (PERUMAL)	TNSVC/1246 /05	THANNAMBIKKAI ILLAM, PONNAR SANKAR NAGAR, PERIYAPATTI ROAD, NAMAKKAL - 637 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	29-Aug-59
2350	P. MAYAN(T. PANNER SELVAM)	TNSVC/76/0 3	CHINNAPARALI, AMMALLAPURAM POSTPALACOE TKOHARMAPURI DT 636 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	10-Jun-76
2351	P. MEIANATHAN (P.POLAIYANDI)	TNSVC/1326 /05	42, S.S. NAGAR, PUDUKKOTTAI, TAMIL NADU, PIN : 622 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	06-Oct-61
2352	P. MICHEAL RAJ (M.PERIATHAMBI)	TNSVC/27/0 2	Or. No. 8, ROAD No.V ALAIMAGAL ILLAM, VOC NAGARRASIPURAM P.O - 637408, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	09-Jul-78
2353	P. MOHAN (C.PICHANDY)	TNSVC/2483 /05	9, MUTHIYAL NAGAR, (VIA) GANAPATHY NAGAR, K.K.ROADM, VILLUPURAM 605 602.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	18-Oct-59

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2354 P. MOHANRAJ (P.R.PARAMASIVAM(GURU JI)	TNSVC/1634 /05	3A, S.P.G. LANE, THURAIYUR 621 010 TRICHY DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	17-Nov-50
2355 P. MURUGAN (M.PALVANNAN)	TNSVC/2002 /05	36/11, SENTHIL NAGAR, PALAYAMCOTTAI, TIRUNELVELI 627 002.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	26-Feb-75
2356 P. MURUGAN (V.PITCHIAH)	TNSVC/3196 /05	155, SHRUTHI BHAVANAM, GANAPATHIYAPURAM, THIMMARAJAPURAM (PO) PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI OT- 627 853	B.V.Sc/TNV&ASU /89	05-May-66
2357 P. MURUGANANTHAM (M.PALANIAPPAN)	TNSVC/559/ 05	ALAMPALAYAM POST, ANTHIYUR VIA, 638 501, EROCE DT.TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	07-May-78
2358 P. MURUGAVENI (C.V.SENTHIL KUMAR)	TNSVC/2485 /05	174, MAIN ROAO, MELPATHY, NELLIKUPPAM, CUDDALORE.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	13-May-72
2359 P. MURUGESAN (K.PALANISAMY)	TNSVC/1348 /05	NEIKKARAM PALAYAM, KOKKALAI POST, VAIYAPPAMALAI VIA, TIRUCHENGODE TALUK, NAMAKKAL DIST, PIN : 637 410.	B.V.Sc/TNV&ASU /99	16-Apr-74
2360 P. MURUGESAN (N.PERUMAL)	TNSVC/1689 /05	DOOR NO. 475, NEAR LAKSHMI THEATRE, GANDHIPURAM, SENDAMANGALAM MAIN ROAD, NAMAKKAL	B.V.Sc/TNV&ASU /93	07-May-70
2361 P. MURUGESAN (P.PUTHIYAVAN)	TNSVC/1652 /05	49, VAIRAVASAMY KOIL STREET, METTUPATTY, SEITHUR, VIRUDHUNAGAR OT PIN 626 121, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	02-Jun-63
2362 P. MURUGESAN (S.PANOARAM)	TNSVC/2006 /05	KEELA MARAVAR STREET, PATEMANAGAVAM PO, SRIVAİKUNTUM TK, THUTHUKUDY DT, 628 620.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	06-Jul-71
2363 P. MUTHU (PERUMAL)	TNSVC/2730 /05	19, DEAVRAJANAR STREET, OPP TO RADHA MAHAL, VEOACHALAM NAGAR, CHENGALPATTU 603 001.	B.V.Sc/TNAU/85	12-Apr-54
2364 P. MUTHU S/OS. PACHIAPPAN	TNSVC/3551 /06	BHARATHIPURAM, PAUPARAPATTI P.O. DHARMAPURI DISTRICT PIN 636 809, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	15-Jun-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2365	P. MUTHURAMALINGAM (A.PALANICHAMY)	TNSVC/520/ 05	MARIAMMAN KOIL STREET, T.RAMAMATHAPURAM, THIRUNELVELI DT 627 760.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-May-82
2366	P. MUTHUSAMY (S.PALANIAPPAN)	TNSVC/2111 /05	3/185, MOHANUR ROAD, KANDICHETTIPATTY NEAR EMPLOYMENT OFFICE, PERIYAPATTY PO, NAMAKKAL - 637 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	08-Apr-52
2367	P. MUTHUVEERAPANDIAN (V.S.PONNAMBALAM)	TNSVC/3244 /05	292, CHIDAMBARAM NAGAR, MELAKKAL MAIN ROAD, KOCHADAI, MADURAI -16, PIN :625 016.TAMILNADU	B.V.Sc/MU/67	12-Apr-44
2368	P. NAGARAJAN (M.PERUMAL)	TNSVC/2380 /05	PULLAMPATTI, METTUPATTI POST, SALEM ROAD, SALEM DIST, PIN : 636 455.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	16-Apr-69
2369	P. NAGARAJAN S/O A.PONNUSAMY	TNSVC/3448 /05	PERIA KATTU VEEDU, VADASITHUR POST, POLLACHI TK, PIN 641 202, COIMBATORE DIST.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	24-May-60
2370	P. NANTHA DEVI (S.PALANISAMY)	TNSVC/748/ 05	NO.32, MAHAMAKKADAI STREET, KAMUTHI 623 603, RAMNAD DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	15-Jun-78
2371	P. NANTHA KUMAR (R.PERUMAL)	TNSVC/2371 /05	MANGANNALPATTI, KARAIKENI POST, PERAIYUR TK, MADURAI DIST 625 702.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	02-Jun-77
2372	P. NATARAJA KUMAR (N.PANDIAN)	TNSVC/1386 /05	1 / 98A, EAST STREET, KALLOORANI P.O. ARUPPUKOTTAI TALUK VIRUDHUNAGAR - 626 105.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	25-Apr-64
2373	P. NATARAJAN (M.PERUMAL THEVER)	TNSVC/3133 /05	224 / B, INDIRA GANDHI NAGAR, SANKARAN KOVIL ROAD, RAJAPALAYAM 626 117.TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/77	06-Jun-50
2374	P. NATARAJAN S/OA. PALANIAPPA MUDALIAR	TNSVC/3541 /06	2/139, P. VADUGAPALAYAM POST, PALLADAM 641 664,COIMBATORE DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	15-Jun-59
2375	P. NIRMALA (S.PURUSHOTHAMAN)	TNSVC/3215 /05	NO.92, M.G.R. NAGAR, (V.A.K. NAGAR) ARNI, TIRUVANNAMALAI DISTRICTTAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	01-Nov-76

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2376 P. NITHYA (K.R.PERIASWAMY)	TNSVC/408/ 04	KALKURICHI POST, BELUKURICHI VIA, NAMAKKAL DT 63 7402.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	03-Oct-81
2377 P. PALANIAPPAN (K.P.PONNUSWAMY)	TNSVC/3174 /05	PLOT NO.31, S.SAMIAPPA NAGAR, SEELANAICKENPATTY, SALEM CITY, SALEM DISTRICT 636 201TAMILNADU	B.V.Sc/MU/64	02-Apr-40
2378 P. PALANISAMI (P.PERIATHAMBI)	TNSVC/2799 /05	KUTTIGOUNDAN STREET, DHARAMANGALAM POST, JALAKANDAPURAM VIA, SALEM DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	15-Apr-62
2379 P. PALANIVEL (K.PALANISAMY)	TNSVC/2678 /05	29, ANNA SALAI, CHINMANDAN KOIL EXTENSION, KARUR 839 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	04-Jan-50
2380 P. PANDIYAN (R.PALANISAMY)	TNSVC/1174 /05	29.C. BATHRAKALI STREET, S.P.PUDUR, NAMAKKAL 637 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	07-Jun-60
2381 P. PARI(C.PALANI)	TNSVC/1591 /05	49 / 47, AMMAN KOIL STREET, RANIPET 632 401, VELLORE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	30-Apr-75
2382 P. PARIVENDAN (V.PONNIAH)	TNSVC/3147 /05	42, MAHALAKSHMI NAGAR, T.KOTTAMPATTI, POLLACHI, COIMBATORE DIST.TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/89	06-Jun-66
2383 P. PARTHIBAN (V.M. PRAKASAM)	TNSVC/249/ 04	43, THALAGAIMUNISWAMY STREET, PICHANONPET, VELLORE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	13-Apr-78
2384 P. PARTHIBHA S/O R.PRABHAKAR	TNSVC/3420 /06	N1, MRC STAFF QTS, RACE COURSE ROAD, (INTERIOR), GUINDY- 600 032,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	1-Mar-83
2385 P. PARVADY DEVY (R.PASUPATHY)	TNSVC/284/ 04	41, VINAYAKAR KOVIL STREET, SINGIRIKUDI CUDDALORE DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/AH/PU/02	12-Feb-79
2386 P. PERUMAL (M.PATTAIA GOUNDER)	TNSVC/1474 /05	MAMARATHU THOTTAM, NAGALUR P.O. ATHANI (VIA) BHAVANI (T.K.) ERODE DISTRICT 638 502,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	27-Jun-71

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2387	P. PERUMAL (T.PONRAJ)	TNSVC/633/ 05	VIRUVEEDU POST, NILAKKOTTAI TK, DINDIGUL DT, PIN : 624 220, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	11-Jul-82
2388	P. PONNUSAMY S/O S. PERIYASAMY	TNSVC/3370 /06	19, PILLAIYAR KOIL STREET, THOTTAKURICHI POST, KARUR DIST 639 113, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	16-May-82
2389	P. POTHYAPPAN S/O A. PONNUSAMY	TNSVC/3340 /06	SITHUKKADU, KALATHUR (PO) PATTUKOTTAI (TK) TANJORE (DT) - 614 804, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	14-Jun-82
2390	P. PRASANNA (A. PATHROSE)	TNSVC/632/ 05	THOLAYAVATTAM POST, KANYAKUMARI DISTRICT, PIN : 629 157, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	30-Apr-81
2391	P. PRASANNA KUMAR (K. PERIASAMY)	TNSVC/3043 /05	16 / 21, ANNA NAGAR, JAYANKONDAM, PERAMBALUR DISTRICT PIN 621 802, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-Feb-82
2392	P. RADHA (PALANIYANDI)	TNSVC/42/0 3	C-1, KALKI APPARTMENTS, NO-21, BAZULLAH ROAD, T. NAGAR, CHENNAI 600 01 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Jul-75
2393	P. RADHA KRISHNAN (P. PERUMALSAMY)	TNSVC/2854 /05	PULIPPARAI PATTI, KAKKIVADAN PATTI POST, SIVAKASI (VIA), VIRUDHU NAGAR, 626 124, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	02-Nov-53
2394	P. RAGHAVUN (S. PREM KUMAR)	TNSVC/100/ 03	M-35, PHASE VII, TNHB QRS, BAGALUR ROAD, HOSUR, 635109, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	29-Mar-78
2395	P. RAGUNATHAN (PERUMAL)	TNSVC/2564 /05	51, CHELLAMMAL NAGAR, GOBICHETTIPALAYAM, ERODE DIST, PIN : 638 452, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	27-Mar-62
2396	P. RAHTINA VELU (PERIYAPAIYAN)	TNSVC/2898 /05	MARUR PUDUR, KADAMBUR POST, SANKARAPURAM TK, VILLUPURAM DIST, PIN : 605 802, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	07-Aug-55
2397	P. RAJA (M. PERUMAL)	TNSVC/1071 /05	SRI VENKATESWARA ILLAM, NO.27, ASHOK NAGAR, MADURAI 625 018, MADURAI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	11-Mar-60

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2398 P. RAJA S/O M. PALANISAMY	TNSVC/3501 /06	19, MADURAI VEERAN KOVIL STREET, KUMALAN KUTTAI, ERODE - 638011TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	30-Jul-77
2399 P. RAJA SEKARAN (S.PANDIAN)	TNSVC/1109 /05	PALLAVARAYAN PATTY 626 524, (VIA) PANNAIPURAM, UTHAMAPALAYAM TK, THENI DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	25-May-56
2400 P. RAJAKUMAR (K.V.A.PERUMAL)	TNSVC/769/ 05	SOLAIPATTY POST, PERAIYUR TALUK, MADURAI DISTRICT 625 708.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	03-May-75
2401 P. RAJASEKARAN (S.PERUMAL)	TNSVC/3045 /05	THIYAGARAJA PILLAI STREET, KATTUMANNAR KOIL, CUDDALORE DISTRICT PIN 608 301, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	25-Sep-63
2402 P. RAJENDRAN (K.PERIYAKARUPPAN)	TNSVC/1836 /05	CHELLAM PILLAI STREET, NATHAM T.K. DINDIGUL DISTRICT 624 401, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	02-Jun-70
2403 P. RAJENDRAN (V.PERUMAL)	TNSVC/2617 /05	122, PONNAGAR EXTN. ARAVAKKURICHY 639 201, KARUR DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	15-Aug-65
2404 P. RAJENDRAN(PERUMAL)	TNSVC/175/ 03	33, MEENACHI STREET, NEHRU NAGER, MADURAI 10TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	01-Jun-58
2405 P. RAJESH KANNA (A.PERIASAMY)	TNSVC/307/ 04	MUTHUMAHAL ELANGO NAGAR, ARUMBAVUR (P.O) PERAMBALUR DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Aug-80
2406 P. RAJU(PERUMAL)	TNSVC/2575 /05	L361, PERIYAR NAGAR HOUSING UNIT, ERODE 638 009.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	03-Jun-52
2407 P. RAMAR (PONNUSAMY)	TNSVC/1223 /05	1031-A, CRESCENT NAGAR, K.T.C NAGAR, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	09-Jan-62
2408 P. RAMASAMY (R.POLIAHNAICKER)	TNSVC/1224 /05	55, THILAGAR NAGAR, KOVILPATTI, TUTICORIN (DT) 628502TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	26-Mar-59

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2409	P. RAMESH (A.PALANISAMY)	TNSVC/739/ 05	PERIYAKALATHUPATTY, KEELAVELLYUR POST, THOGAMALAI, KARUR DISTRICT, 621 313.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	24-May-78
2410	P. RAMESH (C.PERIYASAMY)	TNSVC/583/ 05	AKKARAIPATTI PO, MALLASAMUDRAM VIA, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT, PIN : 637 503, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	21-Feb-81
2411	P. RAMESH BABU (M.PARADESH)	TNSVC/2873 /05	NO.5, R.S. ROAD, SEDUKKARAI, GUDIYATTAM, VELLORE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	12-Jun-70
2412	P. RAMESH KUMAR (A.PERUMAL)	TNSVC/1988 /05	NO.26, MADHI HUSSAIN KHAN STREET, ROYAPETTAH, CHENNAI 600 014.	B.V.Sc/TNV&ASU /97	13-Jun-73
2413	P. RAMESH KUMAR (C.PALSAMY)	TNSVC/761/ 05	48, WEST STREET, PATTUKKOTTAI, THANJAVUR DISTRICT, PIN : 614 601.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	06-Dec-76
2414	P. RAMESH(V.PERUMAL)	TNSVC/1328 /05	1257, NORTH THIRD STREET, PUDUKKOTTAI, 622 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	30-Jul-69
2415	P. RAVI (G.PANNNEERSELVAM)	TNSVC/658/ 05	THOPPU KADU R.PUDUPPALAYAM (P.O) RASIPURAM (T.K.) NAMAKKAL DT. 637 408, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	07-Jun-76
2416	P. RAVI (PACHAYAPPAN)	TNSVC/2744 /05	183C, SANTHAPURAM, KAVERIPATTINAM POST, KRISHNAGIRI 635 112.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	29-May-64
2417	P. RAVICHANDRAN (D.PERIYAKARUPPAN)	TNSVC/1061 /05	7 / 988.A, VAITHIALINGAM STREET, MEELAKUJIKUDI ROAD, NAGAMALAI PUDUKOTTAI, MADURAI -19.	B.V.Sc/TNV&ASU /91	02-May-69
2418	P. RAVICHANDRAN S/D R.PONNUSAMY	TNSVC/3427 /06	2/15, VADAPUDUR, ELUR POST, OTHAKKAL MANDAPUM VIA, COIMBATORE 641 032.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	29-Jun-68
2419	P. RAVINCHANDRAN (P.PAKKIRISAMY PILLAI)	TNSVC/921/ 05	5 / 177, GANESH NAGAR, NANDHAVANAPATTY, DINDIGUL - 624001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	28-Jun-60

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2420	P. RAVINDRAN (P.A.R.PARAMASIVAM)	TNSVC/1107 /05	SABARI ILLAM, PLOT NO.3990, T.N.H.B. COLONY, VILLAPURAM, MADURAI 625 011.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	25-Apr-57
2421	P. RAVINDRAN (PERUMAL)	TNSVC/808/ 05	PLOT NO.25, KARPAGAVINAYAGAR NAGAR, NEAR SIVANANDHA MAHAL, FIRST STREET, KARAIKUDI, SIVAGANGA DISTRICT.	B.V.Sc/TNAU/88	10-Apr-63
2422	P. RENUKA (W/O A.B.PRABAKARAN)	TNSVC/2633 /05	NO.34, NEW STREET, AYANAVARAM, CHENNAI 600 023	B.V.Sc/TNAU/89	16-Jun-64
2423	P. SADHANANDHAN (G.PARTHASARATHI)	TNSVC/596/ 05	ODIYATHUR POST, TIRUKOVILUR TK, VILLUPURAM DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	17-Mar-81
2424	P. SAKTHIVEL (K.PERIYASAMY)	TNSVC/1636 /05	2 / 29, THIPRAMAHADEVI PUTHUR, VALAYAPATTY P.O. NAMAKKAL DIST. 637 020 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	24-Jun-72
2425	P. SAKTHIVELU (M.C.PALANISAMY)	TNSVC/2667 /05	1. TAMIL NAGAR, THANTHONIMALAI (POST) KARUR 639 005, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	03-Jun-59
2426	P. SAMINATHAN (P.PALANIAPPAN)	TNSVC/629/ 05	VADUGAPATTI, KONDAMANAICKEN PATTI PO, NAMAKKAL TK & DT, PIN : 637 405.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jun-81
2427	P. SAMPOORNAM (P.K.PALANIAPPAN)	TNSVC/833/ 05	667, PADAMUDIPALAYAM, VELUR POST, P.VELUR TALUK, NAMAKKAL DISTRICT, PIN : 638 182.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	05-Jun-77
2428	P. SAMY (T.PETCHIMUTHU)	TNSVC/1653 /05	3, KALIAMMAN KOIL STREET, MUTHUSAMIPURAM - MUHAVUR - 626 111, RAJAPALAYAM (T.K.) VIRUDHUNAGAR DISTRICT	B.V.Sc/TNAU/79	13-Jun-55
2429	P. SANGEETHA W/o. (A.PRABHU)	TNSVC/1913 /05	KOTTAIMARUDHUR ROAD, MANAMPOONDI (PO), TIRUKOILUR (TK), VILLUPURAM (DT),TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-Jul-76
2430	P. SANKAIAH (M.PACKIAM)	TNSVC/2086 /05	NORTH STREET, KALLIKUDI ROAD, T.KALLUPATTI POST,625 702, PERAIYUR TK, MADURAI DT.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	04-May-74

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2431	P. SANKAR GANESH (N.PANDIAN)	TNSVC/570/ 05	15 TAMIL ILLAM, ANNA NAGAR (EAST) TUN ROAD, ULUNDURPET, PIN:606 107.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	05-May-79
2432	P. SANKAR S/O M.PALANISAMY	TNSVC/3374 /05	VEGUVAMPATTY, VASANTHAPURAM POST, NAMAKKAL DIST 637 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	17-Jun-82
2433	P. SANKAR S/O S.PALANISAMY	TNSVC/3382 /05	PALAPATTI POST, MATTAPARI THOTTAM, P.VELUR TK, NAMAKKAL DIST, PIN : 637 017.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	2-Jun-82
2434	P. SANKAR KUMAR (S.PARAMASIVAN)	TNSVC/3100 /05	34-B-1, TB ROAD, FIRST STREET, KAMARAJNAGAR,VALLIYUR 627 117 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	06-Apr-62
2435	P. SANTHANAM (S.PERUMAL)	TNSVC/844/ 05	ALAGANERI POST, (VIA), KURUVIKULAM SANKARAN KOVIL TALUK, THIRUNELVELI DISTRICT 627 754.	B.V.Sc/TNV&ASU /93	06-Feb-47
2436	P. SARATH BABU (R.PURUSHOTHAMAN)	TNSVC/270/ 04	73, RADHAKRISHNAN STREET, ARCOT VELLORE DISTRICT., PIN 632 503.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	16-Dec-78
2437	P. SARAVANA KUMAR (N.PADMANABHAN)	TNSVC/3056 /05	NO.8, SIXTH STREET, KAMARAJ NAGAR, AVADI, CHENNAI 600 071	B.V.Sc/TNV&ASU /00	29-Dec-76
2438	P. SASIKUMAR (P. PARAMASIVAM)	TNSVC/2304 /05	MINNAMPALLI, VAYAKKADU, VAIYAPPAMALAI (POST), THIRUCHENGODE (T.K.) NAMAKKAL DISTRICT PIN 637 410	B.V.Sc/TNV&ASU /02	23-Jul-78
2439	P. SASIKUMAR (S.PERIYASAMY)	TNSVC/1331 /05	3 / 293, POTTI REDDI PATTI POST, NAMAKKAL TK & DT, PIN : 637 013.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	25-Jul-75
2440	P. SATHIYAVANI (W/O P.NAGARAJAN)	TNSVC/2381 /05	30B, SABARI APARTMENT, WEST LINK ROAD, CO.OP. COLONY, KRISHNAGIRI 635 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	25-May-71
2441	P. SATHYA W/o. (V.SARAVANAN)	TNSVC/877/ 05	A-84, FLAT NO.4, 3RD ST, ANNA NAGAR EAST, CHENNAI -102.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	06-Jun-77

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2442 P. SELVAGANAPATHY (G. PANNEER SELVAM)	TNSVC/242/ 04	PALLATHUR PDST, PATTUKKOTTAI TALUK, THANJAVUR DT, PIN : 614 803TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	01-Jun-80
2443 P. SELVAKUMAR (A.PERIYASAMY)	TNSVC/619/ 05	MARUVATHUR PDST, SENDURAI TK, PERAMBALUR DT, PIN : 621 710.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-May-80
2444 P. SELVARAJ (C.PERIANNAN)	TNSVC/2023 /05	AGRAHARAM, VAIKUNTHAM POST, SANKAGIRI TK, SALEM DIST, PIN : 637 103.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	27-May-73
2445 P. SELVARAJ (G.PERUMAL)	TNSVC/915/ 05	JARIUSILAMPATTI P.O. THIRUMANGALAM T.K. MADURAI DIST. 626 702	B.V.Sc/TNAU/88	10-May-61
2446 P. SELVARAJ (K.PALANISAMY)	TNSVC/2425 /05	89-C, NKR NAGAR, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL 637 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	03-May-65
2447 P. SELVARAJ (M.PARAMANA GOUNDER)	TNSVC/2516 /05	IYYAR VADAKKU THOTTAM, BUNGALOW PUDUR, 638 512, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	12-Apr-74
2448 P. SELVARAJ (M.PARAMASIVAM)	TNSVC/3164 /05	NO.7, SOUTH THROVPATHI AMMAN KOVIL STREET, PUTHUR, TRICHY 620 017TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	27-May-69
2449 P. SELVARAJ (S.PERIASAMY)	TNSVC/810/ 05	29/5, SRISAMY ILLAM, Dr. AMBETHKAR Iind ST. BOSE ROAD, SIVAGANGA - 630560TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	02-May-62
2450 P. SELVARAJ S/OS.PONNAMBALAM	TNSVC/3378 /06	JEEVA NAGAR, ANAVAYAL POST, ALANGUDI TK, PUDUKKOTTAI DIST 622 304.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	7-Jun-81
2451 P. SELVARANI (W/O V.VASANT KUMAR)	TNSVC/2812 /05	D-73, SARKKARAI CHEETTIAR STREET, NEELIKONAM PALAM POST, COIMBATORE - 33.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	19-Apr-74
2452 P. SELVI S/O K. PALANIYAPPAN	TNSVC/3494 /06	NATHAMADU STREET, MAVURETTI, PARAMATHI POST, NAMAKKAL DIST,PIN : 637 207.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-Apr-82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2453	P. SENAPATHI (K.PALANIVEL)	TNSVC/2943 /05	ALLAMPATTI, ATHANUR POST, NAMAKKAL PIN 636 301TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	15-Jun-67
2454	P. SENDILKUMAR(M.PALANIA 3 PPAN)	TNSVC/78/0	10, F2, BALAJI APARTMENTS, JOTHI NAGAR II St., EKKADUTHANGAL, CHENNAI 600 097.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	04-Jun-74
2455	P. SENTHIL KUMAR (P.PALANISAMY)	TNSVC/1188 /05	MATTAKARADU THOTTAM, VETTAMBADI, NAMAKKAL 637 405.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	30-May-75
2456	P. SENTHIL KUMAR (P.PERUMAL)	TNSVC/2954 /05	KAMARAJ NAGAR, ELAIYUR (P.O.) UDAIYARPALAYAM (T.K.), PERAMBALUR DT - 621 806,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	03-Jun-77
2457	P. SENTHIL KUMAR (P.PONNUSAMY)	TNSVC/2429 /05	NO.3, VIJAYA RENGAM STREET, PALANI 624 601, DINDIGUL DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	16-May-73
2458	P. SENTHILKUMAR (K.PANNEERSELVAM)	TNSVC/375/ 04	MARUVATHUR POST, SENDURAI T.K, PERAMBALUR DT 621 710.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	10-Feb-81
2459	P. SENTHILKUMAR (M.PALANIYANDI)	TNSVC/812/ 05	20-E, ANNAI NAGAR, Y.M.R. PATTI, DINDIGUL 624 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	01-Jun-76
2460	P. SENTHILKUMAR (P.S.PALANISAMY)	TNSVC/370/ 04	ELUR PO , E. PUDUPATTI NAMAKKAL TK & DT, PIN : 637 018.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	27-Jun-81
2461	P. SHANMUGAM (A.PALANISAMY)	TNSVC/898/ 05	NANDAVANATHOTTAM, AVAL POONDURAI POST, ERODE& TALUK.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	01-May-51
2462	P. SHANMUGAM (S.PERIYASAMY)	TNSVC/2836 /05	46, TYAGI KUMARAN STREET, PAPPANAICKEN PUDUR, COIMBATORE 641 041.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	25-Nov-55
2463	P. SHANMUGAM (V.PALANISAMY)	TNSVC/1967 /05	2 / 966, SRI RAM NAGAR, ELLISCHATRAMROAD, VAZHUDHAREDDY, VILLUPURAM 605 602, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/74	30-Dec-48

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2464	P. SHANMUGARAJA (C. PALANISAMY)	TNSVC/1755 /05	S/o. PALANISAMY, POSTAL ASST., NAMBIYUR, ERODE DIST. - 638458, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	21-Feb-76
2465	P. SHANMUGAVADIVU (M. PERIYASAMY)	TNSVC/403/ 04	VADIVU AUTO WORKS NAKIANOOR ROAD, A. SAKTHI NAGAR, BHAVANI T.K. ERODE DISTPIN - 638 315	B.V.Sc/TNV&ASU /04	11-Jan-81
2466	P. SHANTHI (S.PONRAJ)	TNSVC/1081 /05	3 / 189, KAVIMANI STREET, INDIAN BANK COLONY, NARAYANAPURAM, MADURAI - 14TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	19-Apr-74
2467	P. SILAMBARASAN (A. PARAMASIVAM)	TNSVC/287/ 04	NORTH STREET, SIRUKALATHUR PO, SENDURAI TK, PERAMBALUR DT, PIN"621 710. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	22-May-81
2468	P. SIVA S/O K. PANNEERSELVAM	TNSVC/3311 /06	SOUTH KARAI PATTI (St) 3/74, PONPARAPPI (PO) SENDURAI TK, PERAMBALUR DT. 621 710, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-May-83
2469	P. SIVA SUBRAMANIAN (S. PACKIAM)	TNSVC/522/ 05	4, INDRA BAAVAN, SHUNMUGANATHAPURAM IIND STREET, MANINAGARAM, ARUPPUKOTTAI 626 101.	B.V.Sc/TNV&ASU /05	28-Apr-78
2470	P. SIVAKUMAR (C. PONNIAH)	TNSVC/1135 /05	PERIA MANAKULAM, SENGULAM POST, KAMUTI TK, RAMANATHAPURAM DIST 626 114. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	03-Jun-63
2471	P. SIVAKUMAR (P. PERIASAMY)	TNSVC/848/ 05	WESTERN GARDEN, PUTHUR POST, ATTUR TALUK, SALEM DISTRICT, TN 636 112. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	15-May-76
2472	P. SIVAKUMAR (PERUMAL)	TNSVC/161/ 03	6 /1041, E.B. COLONY, PARAMATHY ROADNAMAKKAL DISTRICTPIN : 637 0TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	06-Jun-79
2473	P. SIVAKUMAR S/OU.V.PICHAIMUTHU	TNSVC/3436 /06	UNNIYUR POST, KATTUPUTHUR VIA, THOTTIYAM TK, TIRUCHIRAPALLI - 621 207. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	5-Jun-70
2474	P. SIVANESAN (K. PALANICHAMY)	TNSVC/92/0 3	M.GANDHI STREET, P.T.R. COLONY, UTHAMPALAYAM POST & TKTHENI DISTRICT 625 5TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	26-May-80

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2475 P. SIVARATHINA W/o. (S.ANANDAN)	TNSVC/1439 /05	16 / 32, RAJEEV GANDHI NAGAR I STREET, NEAR KANNAN SHOP, CUMBUM P.O. THENI DISTRICT	B.V.Sc/TNV&ASU /96	03-Mar-73
2476 P. SOMASUNDARAM (V.PALANIMALAI)	TNSVC/2676 /05	PALVARPATTI, MANAVADI P.O. KARUR 639 004, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	19-May-52
2477 P. SORNAKUMAR (S.PAPANASAM)	TNSVC/3189 /05	SORNA BHAVAN, 11, PERUMAL NORTH CAR STREET, PALAYAMKOTTAI 627 002, TIRUNELVELI DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	15-Jun-69
2478 P. SRIDEVI IW/O (S.A.SOKAN)	TNSVC/2438 /05	NO.68, IV STREET, SECRETARIAT GOLDNY, LAKSHMIPURAM, KOLLATHUR, CHENNAI 800 099	B.V.Sc/TNV&ASU /89	13-Jan-67
2479 P. SRINIVASAN (C.PALANI)	TNSVC/2985 /05	KEERANOOR VALASU (AVARANGURAI) P. METTUR (P.O.) RASIPURAM (T.K.) NAMAKKAL- 636203 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	15-Jul-70
2480 P. SRIVIDHYA (R. PANDIAN)	TNSVC/114/ 03	NO.5 / 3, UDAYASURIANFIRST STREET, SATHUMANAGAR, TOLLG ATE, CHENNAI 600 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	22-Jan-79
2481 P. SUBRAMANIAN (PERUMAL)	TNSVC/248/ 04	2 / 90, OTHAPATTY, KARUPPAYARANI PO, MADURAI -625 020. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	01-Mar-53
2482 P. SUBRAMANIAN (S.PALNIVEL)	TNSVC/853/ 05	16, VIJAYAGANAPATHY NAGAR, 3RD STREET, ULLAGARAM, CHENNAI 600 091	B.V.Sc/MU/68	25-Jun-43
2483 P. SUBRAMANIAN (S.PARAMASIVAM)	TNSVC/552/ 05	V. AGARAM, VADAKKALUR PO, KUNNAM TK, PERAMBALUR DT, PIN : 621 108. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	22-May-79
2484 P. SUBRAMANIYAN (PARAMASIVAM)	TNSVC/1405 /05	SOUTH STREET, E.B. COLONY, ANNA NAGAR, KALLAKURICHI (P.O.) VILLUPURAM DT 606 202, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	12-Jun-62
2485 P. SUGANTHI(A.PALANISAMY)	TNSVC/162/ 03	17.F., KARUPPANNAN STREET, R.P. PUDUR, NAMAKKAL 637 001 TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	13-Apr-60

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2486 P. SUKUMAR (K.PALANIVELU)	TNSVC/3157 /05	PAITHUR I WARD POST, ATTUR TK, SALEM DIST, TN, PIN : 636 141.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	11-Jul-78
2487 P. SUMATHI (M.PALANISAMY)	TNSVC/431/ 05	SALEM MAIN ROAD, KADATHUR POST, DHARMAPURI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	09-Jul-80
2488 P. SUMATHI (V.PUKKARANDI)	TNSVC/1557 /05	3 / 14A, 15A, KATTU STREET, MELAPALAPATTI, PALAPATTI POST, NAMAKKAL DT. 637 017,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	10-Jun-78
2489 P. SUNDARA MAHALINGAM (V.PALANICHAMY)	TNSVC/425/ 05	POTTAL KALIAMMAN KOVIL STREET, ELUMALAI, PERAIYUR TK, MADURAI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	07-Jun-78
2490 P. SURESH KUMAR (E.PALANIYANDI)	TNSVC/2663 /05	5/278, ANNA NAGAR 8TH CROSS, KULITHALAI, KARUR DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	15-Sep-73
2491 P. SURESH KUMAR (M.PARAMASIVAM)	TNSVC/439/ 05	52, VANNAMPARAI, ERODE ROAD, PERUNDURAI 638052 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05.	01-Jul-80
2492 P. SURESH KUMAR (P.PERIYASAMY)	TNSVC/455/ 05	109-B. DHEERAN NAGAR, THURAIMANGALAM (PO), PERAMBALUR DT 621220TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	06-Oct-80
2493 P. SURESH S/o ANJANEYULU	APSVC/4303 /05	18-1-560, HAREKRISHNA ROAD, SRIPURAM COLONY, TIRUPATHI - 517 507., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc& A.H./APAU/88	12-Feb-86
2494 P. TAMILARASI (T.PERUMAL)	TNSVC/433/ 05	REDDIPATTI POST & COLONY, NAMAKKAL DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	06-Jun-80
2495 P. TAMILMANI (P.PARAMASIVAM)	TNSVC/313/ 04	NEW STREET, MARUDUR POST, PONPARAPPI VIA, PERAMBALUR DT. PIN 621 710TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	30-Jun-80
2496 P. THANGAMANI (P.BALASUBRAMANIYAN)	TNSVC/2427 /05	MELAPALAPATTI, PALAPATTI P.O. KATHIRMALAI NAGAR, P.VELUR (T.K.) NAMAKKAL DISTRICT PIN 637 017	B.V.Sc/TNV&ASU /02	07-Jun-78

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2497	P. THANGARAJU (S.PALANISAMY)	TNSVC/1643 /05	SINGA GOUNDAN PUDUR, ARIYUR (P.O.) NAMAKKAL TALUK, NAMAKKAL DT -637 015, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	27-Jul-78
2498	P. THILLAIKKARASI (T.KRISHNAMOORTHY)	TNSVC/1613 /05	55 / 10, ANDIAPPAN THOTTAM, BELUKURICHI (P.O.) NAMAKKAL (T.K.) & DT. PIN 637 402 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	05-Mar-73
2499	P. THIRUMARAN (R.PETHI)	TNSVC/1090 /05	7.1.54 A3.A2, TRMS CDMPOUND, T.B. ROAD, USILAMPATTI, MADURAI DT. 628 572 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	12-Apr-61
2500	P. THIRUMURUGAN (K.PERIYAMARAN)	TNSVC/373/ 04	KEELMDRAPPUR, PARAYAPATTI PO, HARUR TK, DHARMAPURI DT, PIN:635 305.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	07-Jun-80
2501	P. THIRUNAVUKKARASU (M.PALANISAMI)	TNSVC/699/ 05	SERAN SENGUTUVAN STREET, BALASAMUDRAM POST, THOTTIAM TALUK, TRICHY DT, PIN : 621 203.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	05-Apr-78
2502	P. UMASANKAR (K.PARAMASIVAN)	TNSVC/3256 /05	55 / 25, KOTTAI VINAYAGAR KOIL STREET, RAYAGIRI 627 764, SIVAGIRI TK, TIRUNELVELI DIST.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	06-May-67
2503	P. UMESH CHANDERPA (R.PADMANABHAN)	TNSVC/40/0 3	DR.A.T. VENUGOPAL. 30, 70 FEET ROAD, JAWAHAR NAGARCHENNAI 600 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/73	26-Oct-49
2504	P. V. LAKSHMINARAYANAN (P.A. VARADHARAJALU)	TNSVC/283/ 04	NO.6E, RAM MANSION, 385, PANTHEON ROAD, EGMORE, CHENNAI-8.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	07-Apr-51
2505	P. VADIVEL (K.PERIYASAMY)	TNSVC/2756 /05	E.B.OFFICE BACK SIDE, DEVIYAKURICHI POST, THALAIVASAL VIA, ATTUR TK, SALEM 636 112., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	05-Jun-75
2506	P. VADIVELU (T.PALANISAMY)	TNSVC/537/ 05	PALAYAMETTUR, ANTHIYUR P.O. ERODE DT., PIN 638 501 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	11-Jan-81
2507	P. VAHETHA MENON (T.V.B.KRISHNA RAO)	TNSVC/1000 /05	14, SUNDAR RAJ NAGAR, SUBRAMANIPURM, TRICHY 620 020.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	03-Nov-70

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2508 P. VANANGAMUDI (PANDARINATHAN)	TNSVC/1916 /05	3 / 332, ANNANAGAR EXTN., PIDAMANERI, KUMARASAMPET (PO), DHARMAPURI - 636 703, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	17-Dec-55
2509 P. VASAN (M.PALANISAMY)	TNSVC/1549 /05	PILIKKAL PALAYAM, PARAMATHY VELUR TK, NAMAKKAL DT 637 213. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	13-Jan-71
2510 P. VASANTHAKUMAR (K.PERIYANNAN)	TNSVC/1397 /05	NO.50 / 2, MASAKKALIPATTY POST, RASIPURAM TALUK NAMAKKAL DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	21-May-69
2511 P. VELLINGIRI (P.S.PERIASAMY)	TNSVC/430/ 05	EARI KARAI THOTTAM, KOOTHAM POONDI PO, SAKTHINAGAR 638 315, BHAVANI TK, ERODE DT.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	07-Nov-78
2512 P. VELMURUGAN (P.PONNUSAMY)	TNSVC/1152 /05	B1-7, MULLAI NAGAR, MOHANUR ROAD, TNHB, NAMAKKAL TK, NAMAKKAL DT 637 002. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	09-Jun-87
2513 P. VENKATESAN (M.PERIASAMY)	TNSVC/2584 /05	138/2, MULLAI NAGAR, ELLIS NAGAR (PO), DHARAPURAM 638 657, ERODE DIST TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	26-May-68
2514 P. VIDYASAGAR S/DV.PERIASAMY	TNSVC/3343 /06	18/B, ANGEL'S COLONY, RASIPURAM POST, NAMAKKAL DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	2-Aug-81
2515 P. VIJAYAKUMAR (S.P.PACKIYANATHAN)	TNSVC/2665 /05	NO.5, MATHA KOVIL STREET, THENKARAI, PERIYAKULAM TALUK, THENI DISTRICT 625 801. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	23-Jul-68
2516 P. VIKRAMA CHAKRAVARTHI (M.A.PERIYASAMY)	TNSVC/389/ 04	MINNAMPALLI POST, SELLAPPAMPATTY VIA, NAMAKKAL DT. 637 019 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	30-May-81
2517 P. VISWANATHAN (N.PERIYASAMY)	TNSVC/830/ 05	THOTTAMPATTI, VILLARASAM PATTI POST, ERODE 638 107. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	29-Apr-79
2518 P. YASOTHA (A.PONNUSAMY)	TNSVC/3007 /05	3 / 73, SOUTH STREET, RAYAMPALAYAM, AVANASHI, COVAI 641 654 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	30-Jun-82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2519	P.A. GOVARDANRAJ (P.M.ANANTASAYANAM)	TNSVC/2680 /05	38B(OLD), 53 (NEW) "G" BLOCK, 1ST MAIN ROAD, ANNA NAGAR (E) CHENNAI 600 102	B.V.Sc/TNAU/82	06-Jan-54
2520	P.ANBARASI(S.THANGADU RAI)	TNSVC/2297 /05	348/1, COLONY KADU, MARAVANATHAM, V.P.AGARAM (P.O.), CHINNASALEM (VIA) KALLAKURICHI T.K. VILLUPURAM DISTRICT PIN 606 201	B.V.Sc/TNV&ASU /97	20-May-74
2521	P.BALAPOOBATHI(S.PAR AMASVAN)	TNSVC/1767 /05	NO.2, AAVIN QUARTERS, SIVAGANGAI MAIN ROAD, SATHAMANGALAM, MADURAI 625 020, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /82	13-May-65
2522	P.BHARATHI D/o P. RAJESWARA RAO	APSVC/4410 /05	2-2-1166/1/2, TILAK NAGAR, HYDERABAD 500044, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	11-Jul-81
2523	P.C. CHANDRAN (A.CHINNAKKAN)	TNSVC/2694 /05	5/117, POOLANGULAM, KADAYAM VIA, TIRUNELVELI 627 415, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	19-May-73
2524	P.C. PRABU (P.R.CHINNASWAMY)	TNSVC/660/ 05	37-A, I FLOOR, II CROSS, SAKTHI NAGAR, THINDAL POST ERODE 638 009, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	17-Aug-78
2525	P.CHELLAN(M.PACHIAPPA N)	TNSVC/2285 /05	D.NO.1261, THENDRAL NAGAR, (SOUTH) VENGIKKAL (V) & (PO) TIRUVANNAMALAI DT 606 604	B.V.Sc/TNAU/84	15-Apr-60
2526	P.CHENGUTTUVAN (POOMALAI)	TNSVC/1974 /05.	M.193, IIND PHASE, TAMIL NADU HOUSING BOARD, KRISHNAGIRI POST & DISTRICT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	13-Jul-57
2527	P.CHINNAMARUTHUPANDY (K.P.PERUMAL)	TNSVC/1354 /05	POST OFFICE STREET, ELUMALAI (P.o.) PERAIYUR (T.K.) MADURAI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	01-May-75
2528	P.DEVARAJAN (K. PERIASAMY)	TNSVC/2332 /05	375, SRI SAKTHI NAGAR, PUTHUMARIAMMAN KOIL POST, SALEM 636 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	29-Dec-57
2529	P.DHANAPATHI (R.PIRAMANAYAGAM)	TNSVC/2623 /05	NO.0-1-25 T 5, PARUTHI VILAI STREET, MUTHU KRISHNAPURAM, KADAYANALLUR - 627 751, TENKASI TALUK, TIRUNELVELI DISTRICT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	12-Mar-70

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2530 P.DHANDAYUTHAPANI S/OK.POONNUSWAMY	TNSVC/3512 /06	ARICHANDRANOOR, EARUPALLI (P.O.), DHARMAPURI DISTRICT PIN 636 813TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-May-83
2531 P.GOPAL (R.PALANI GOUNDER)	TNSVC/1618 /05	MORAMBUKADU, KONGANAPURAM (P.O.) EDAPPADI T.K. SALEM DISTRICT, PIN 637 102, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	02-Jan-55
2532 P.J. BALASUBRAMANIAM (M.JAYARAMAN)	TNSVC/1910 /05	21C, BALAJI ILLAM, SOUTH NARASIMMACHARI STREET, DHARMAPURI - 636701, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	09-Jun-55
2533 P.JANANI JEGA PRIYA (R.M.POUNRAJU)	TNSVC/2356 /05	NO.100, KONERIPATY EXTENSION, NO.2, RASIPURAM TALUK, NAMAKKAL DT 837 408 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	09-May-75
2534 P.JAREDJABAKUMAR (V.C.PONNURANGAM)	TNSVC/1845 /05	91, PERIYAR NAGAR, VANAPADI ROAD, RANIPET 832 402, VELLORE DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	25-Sep-54
2535 P.JAYABHARATHI (R.POTHANAIGKER)	TNSVC/489/ 05	6 / 147, PERIYATHOTTIPATTI, KALYANI (PO), PUDUCHADRAM (VIA) NAMAKKAL (PO)- 837018TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-May-82
2536 P.JAYAKUMAR (A.PILAVANTHIRAN)	TNSVC/2288 /05	PUNALVASAL P.O. PATTUKOTTAI TK, THANJAVUR DISTRICT, PIN 614 803 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	03-Apr-76
2537 P.K.SHANTHI (W/o. G.SANKARRAJ)	TNSVC/781/ 05	PLOT NO.5, NEHRUJI STREET, D.NO.6 / 681 / 2, LAXMI NAGAR, VIRUDHUNAGAR 626 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	09-Jun-73
2538 P.KAMALAKANNAN (K.PERUMAL)	TNSVC/2350 /05	32-C, KATTU KOTTAI COLONY STREET, RASIPURAM (P.O.&T.K.) NAMAKKAL DT- 837408, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	30-Jul-70
2539 P.KANNAN (K.PALANIYANDI)	TNSVC/2913 /05	28-A, LAKSHMI NAGAR II STREET, PERAMBUR, CHENNAI 800 011, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	17-May-75
2540 P.KRISHNAMOORTHY (V.PARAMANANDHAM)	TNSVC/678/ 05	NO.40, THIRD STREET, V.R.PURAM, SALIGRAMAM, CHENNAI 600093, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	14-Jul-77

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2541 P.M. IBRAHIM (MOHAMED YOUSUF)	TNSVC/1729 /05	79, E.B.COLONY, KAJAMALAI, TRICHY - 620 023, TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNAU/76	09-Jun-53
2542 P.M. RAMESH BABU (P.N. MOTHILAL)	TNSVC/3204 /05	37/11, OLD NATHAM ROAO, VISHALAKSHIPURAM, MADURAI 625 014 TAMILNAOU	B.V.Sc/TNAU/80	10-Apr-54
2543 P.M. SRINIVASAN (P.MUNISAMY CHETTY)	TNSVC/2310 /05	AMANIMALLAPURAM P.O. DHARMAPURI DISTRICT PIN 636 801, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	02-Jan-52
2544 P.M.K. VIJAYAKUMAR (P.M.KRISHNAN)	TNSVC/1315 /05	MURUGARKOIL STREET, HARUR TALUK, OHARMAPURI DISTRICT, PIN : 636 803. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	06-May-78
2545 P.M.THANGAVEL (P.MUNIA GOUNDER)	TNSVC/2508 /05	277, DHARMAPURI SALANGAPALAYAM POST, KAVINDAPADI VIA, ERODE DIST, TAMIL NADU 636 455.	B.V.Sc/MU/89	10-Jul-45
2546 P.MAHENDRAN (R.PARAMASIVAM)	TNSVC/1652 /05	1-5-9, KARUPPANNA SERVAI STREET, AYYAMPALAYAM P.O. DINDIGUL DISTRICT 624 204 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /84	24-Sep-70
2547 P.MARUTHAIVANAN(M.PERIASAMY)	TNSVC/1780 /05	WEST STREET, A.KALAYAMPUTHUR &POST, PALANI T.K. OINDIGUL DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	21-Apr-53
2548 P.MURUGAN (V.PERIYANNAN)	TNSVC/1840 /05	114, 6TH CROSS, SIVAN KOVIL STREET, KUMARAN NAGAR, TRICHY DISTRICT, TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNAU/86	01-Nov-82
2549 P.MUTHURAMALINGAM (M.PALANIVEL)	TNSVC/1837 /05	SITHAKANNI VILLAGE, SUBRAMANIAPURAM P.O. ARANTHANGI T.K. PUDUKKOTTAI OISTRICT PIN 614 605	B.V.Sc/TNV&ASU /93	05-Jan-55
2550 P.N. SHANMUGAM (P.M.NALLASAMY)	TNSVC/2574 /05	40/161, OLD BUS STAND ROAO, PERUNDURAI 638 063, ERODE OIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/72	20-Jan-49
2551 P.PANDIAN(P.PACKIAM)	TNSVC/2263 /05	56, ASIRIYAR NAGAR, TIRUPATTUR, ASIRIYAR NAGAR (P.O.) VELLORE DISTRICT 635601	B.V.Sc/TNV&ASU /93	25-May-67

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2552 P.PRAKASAM (T.PAPPUSAMY)	TNSVC/423/ 05	GANDHI NAGAR, JTC VIA, ANTHIYUR PO, BHAVANI TALUK., ERODE DIST. 638 501TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Dec-79
2553 P.R. CHELLADURAI (P.S.RAMAIYENGAR)	TNSVC/2605 /05	43/25, OLD POST OFFICE, STREET, F9, SASTHA FLATS, VENKATAPURAM, CHENNAI 600 053	B.V.Sc/MU/72	03-Jun-44
2554 P.R. MOHAN (P.R.RAMACHANDRAN)	TNSVC/1538 /05	5, THIRUVALLUVAR STREET, MEHTA NAGAR, SELAIYUR, CHENNAI 600 073.	B.V.Sc/TNAU/82	01-Jun-59
2555 P.R. PALANISAMY (A.RAKKIYANNAN)	TNSVC/2818 /05	15 / 37, MUTHU NAGAR EXTENSION, TIRUPPUR, PIN : 641 607, COIMBATORE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	28-Jan-58
2556 P.RAJENDRAN (S.PUGALENTHI)	TNSVC/2710 /05	NO.34, VEPERY HIGH ROAD, VEPERY, CHENNAI 600 007	B.V.Sc/TNV&ASU /91	10-Mar-68
2557 P.RAMKUMAR(R.R.PAND YAN)	TNSVC/1784 /05	A-87 / 4, TNHB QUARTERS, MARUDU PANDYAR NAGAR, SIVAGANGAI 630 562,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	26-Feb-66
2558 P.S. MANOHAR S/O P.R. SUBRAMANIAM	TNSVC/3521 /06	36, VASAGA SALAI STREET, SHEVAPET, SALEM 636 002TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	13-Mar-53
2559 P.S. NATARAJAN (P.M.SENNIAPPAN)	TNSVC/2496 /05	1.B, AYYAPPA NAGAR, GOBICHETTIPALAYAM 638 452, ERODE DIST, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/85	10-Jun-62
2560 P.S. SHIVA (K.SELLAPPAN)	TNSVC/1711 /05	97B-24, OPP.MURUGAN THEATRE, P.VELUR, NAMAKKAL DT. - 638 182,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	26-Aug-76
2561 P.S. VINOD (V.SIVADASAN)	TNSVC/1737 /05	FLAT G3, MAS CLASSIC, NEW NO.23, FIRST MAIN ROAD, THILLAI GANGA NAGAR, CHENNAI 600 061	B.V.Sc/TNV&ASU /92	22-May-68
2562 P.S.PARAMESHWARA GUPTA S/o SRI P.NARAYANA	KARNASVC/ 3822/	P.S.P.GUPTA NIANA. ADUGODI, BANGALORE - 560030, KARNATAKA	BVSc&AH/APAU/ 86	14-Aug-64

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2563	P. SATYA SREEHARI S/o H.S. NARA PRASAD	APSVC/4355 /05	H.NO. 10-9231, NEAR OLD BUS STAND, KOILKUNTLA, KURNDOL DT - 518 134., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	01-Jul-81
2564	P.SENTHIL KUMAR (S.PERIYATHAMBI)	TNSVC/2716 /05	103, ANAVAYAL NORTH, ANAVAYAL POST, ALANGUDI TALUK, PUDUKOTTAI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	13-Jul-74
2565	P.SIRISHA D/o P.SATYANARAYANA REDDY	APSVC/4406 /05	HNO. 6-4-69, NAGARJUNA COLONY, NALGONDA 508001, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	28-Nov-80
2566	P.SUBRAMANIAN (P.PALANISAMY)	TNSVC/1047 /05	3 / 42, KAVETTYPATY VALLIPURAM, NAMAKKAL (TK) SALEM DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/77	20-Jun-53
2567	P.SUNDARAVADIVELU (M.V.PALANISAMY)	TNSVC/2351 /05	85-R, KOMARAPALAYAM. RASIPURAM TALUK, NAMAKKAL DISTRICT PIN 637 403, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	25-May-68
2568	P.SURESH (V.PARAMASIVAM)	TNSVC/454/ 05	KALAIMAGAL STREET, MAURNGULAM (PO), THANJAVUR DT 613006TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-Jun-81
2569	P.T.R. THEOPHILUS ROGER (S.PACKIANATHAN)	TNSVC/2820 /05	107J / 184C, MILLER PURAM, TUTICORIN - 8. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	10-Jan-65
2570	P.TAMILSELVAN (T.PERIYASAMY)	TNSVC/441/ 05	4, ANNAI ILLAM EAST STREET, NAMAGIRIPET (PO), RASIPURAM (TK), NAMAKKAL (DT)TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	03-Apr-81
2571	P.THAYANITHI (K.PERIANNAN)	TNSVC/2359 /05	284/28, "VARMA GARDENS", CHINNAKOLLAPATTI, KONNANKURICHI POST, SALEM DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	17-May-52
2572	P.THERESA RANI W/o. (M.MUTHURAMAKRISHNAN))	TNSVC/1749 /05	6-2, MUTHUSAMY NAIDU STREET, MAIN ROAD, T.KALLUPPATTI (PO) MADURAI DT- 625 702, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	10-May-69
2573	P.VADVELAN	PONDISVC/2 61/05	7, HOSPITAL QUARTERS, KARIKALAMPAKKAM, PONDICHERRY-7	B.V.Sc & AH/PU/05	27-Aug-79

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2574 PADMA SINGH D/o DR. B. S. THAKUR	MPSVC/2323 /06	V.&P. SALON - B, VIA DATIA DATIA 475336, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	22-Aug-81
2575 PAKALA CHIRANJEEVI S/o KOTESWARA RAO	APSVC/4315 /05	PAKALA (P) SINGARAYAKONDA(M), PRAKASAM DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	29-Aug-81
2576 PANAKI SAHA S/OSHRI SUNIL KUMAR SAHA	WBSVC/315 9/05	DESHBANDHUPARA P.O.BAKSHIRHAT,DT-COOCHBEHAR-736131, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	22-Oct-82
2577 PANCHAL JAYESHKUMAR R.	GUJSVC/264 7/06	AT & PO TARVADIYA BHAU, TA.DIST DAHOD PIN 389151, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	31-Aug-82
2578 PANDURANGAN S/o A.NATARAJAN	KARNASVC/ 3809/	L-40, L.I.C. COLONY, 25TH MAIN, J.P.NAGAR, 1ST PHASE, B'LORE-560078, KARNATAKA	BVSc/UNI OF MADARS/64	09-May-41
2579 PANKAJ KUMAR CHAUDHARY S/o SH R.S.CHAWDHURY	BiharSVC/23 95/03	VILL - MIRZAPUR P.O. - JAGGANNATHPUR THANA - BIRAU L SUB-DIV - BIRAU DIST - BARBHANGA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	15-Oct-76
2580 PANKAJ KUMAR D/o SHREE NAWAL KISHORE THAKUR	BiharSVC/26 10/05	VILL/MUHALLAH - NANDANI P.O. - SIWAUSINGHPUR THANA - MOHIUDDIN NAGAR SUB-DIV - SHAHPUR PATORI DIST - SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/05	20-Feb-80
2581 PANKAJ KUMAR MANDAL S/o SHREE BHARAT KUMAR MANDAL	BiharSVC/22 93/03	VILL - RAMPUR P.O + THANA - JAMALPUR SUB -DIV - MUNGER DIST - MUNGER, BIHAR	BVSc&AH/CCSH AU/02	15-Jul-77
2582 PANKAJ KUMAR S/o RAJKUMAR PRASAD	KARNASVC/ 3796/	HAIDERNAGAR POST, PALAMAU DISTRICT, JHARKAND STATE 822115., KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	21-Nov-80
2583 PANKAJ KUMAR S/o SHREE AWADH KISHORE SINHA	BiharSVC/25 12/04	VILL/MUHALLAH - BENUGADH P.O. - MATIYARI THANA - TEDHAGACH SUB-DIV - KISHANGANJ DIST - KISHANGANJ, BIHAR	BVSc/TNV&ASU/ 03	05-Apr-77
2584 PANKAJ KUMAR S/o SHREE RAM SWARUP PRASAD YADAV	BiharSVC/23 88/03	VILL - BAILUTIKAR P.O. - JAUMDIHA THANA - BANKA SUB-DIV - BANKA DIST - BANKA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	01-Jan-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2585	PANKAJ KUMAR S/o SRI SURENDRA NATH SINGH	BiharSVC/22 64/03	VILL - GHANAUTI P.O - GHANAUTI THANA - DARAUNDA SUB - DIV - MAHARAJGANJ DIST SIWAN, BIHAR	BVSc&AH/RAU/9 3	30-Oct-69
2586	PANKAJ KUMAR SINGH S/o SH S.K SINGH	BiharSVC/23 58/03	VILL - C3, ROAD NO-2 CHITRAKUT NAGAR P.O - DIGHA THANA - DANAPUR SUB-DIV - DANPUR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	01-Feb-77
2587	PANKAJ KUMAR SINHA S/o SHREE SURENDRA KUMAR SINGH	BiharSVC/23 99/03	VILL - GAINI P.O. - TUTURKHI THANA - GOH SUB-DIV - DAUDNAGAR DIST - AURANGABAD, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	14-Oct-76
2588	PANKAJ MOR S/o D.D.MOR	RajSVC/3206 /06	AGARWAL COLONY CIVIL LINES AJMER, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	06-Mar-79
2589	PANKAJ SUMAN S/o RAGHUNANDAN PRASAD	BiharSVC/25 62/04	VILL/MUHALLAH - SAUR P.O. - RAJAPUR SAUR THANA - WARISHLIGANJ SUB-DIV - NAWADA OIST - NAWADA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	04-Jan-80
2590	PAPPU KUMAR S/o SHRI VIJAY SHARMA	UVC/178/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, KHETIKHAN, DT- CHAMPAWAT, UTTARANCHAL	BVSc&AH/MAU/0 1	14-Jan-75
2591	PAPPU RAM S/o SHREE LAXMI RAM	BiharSVC/24 78/04	VILL/MUHALLAH - NAWTOLIA P.O. - ARAJPUR THANA - RUPAULI SUB-DIV - DHAMDAHA DIST - PURNEA, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/04	31-Jan-80
2592	PARAVAKAR KUMAR S/o SHREE SURENDRA PRASAD	BiharSVC/22 99/03	VILL - BOKANEY BRITA P.O - BOKANEY KALA THANA - PATAHI SUB-OIV - PAKRI DAYAL DIST - EAST CHAMPARAN, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	31-Dec-78
2593	PARDESHI SATISH JYOTIRAM	GUJSVC/261 3/89	SURESH PARK SOC, OPP. NOVINO BATTERY, MAKARPURA RD, BARODA-09, GUJRAT	BVSc&AH/KKVP/ 89	
2594	PARKH RAKESHKUMA C.	GUJSVC/265 7/06	78/42/5, RAMCHANDRA COLONY ASARWA KALAPINAGAR, AHMEDABAD 380016, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	04-Sep-81
2595	PARMAL PARUYA S/O RABINDRANATH PARUYA	WBSVC/316 6/05	VILL & P.O. OEBNIBAS P.S.NAMKHANA, DT.24 PRGS PIN 743357, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	05-Jan-82

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2596 PARMAR KIRANKUMAR H.	GUJSVC/263 3/06	AT. CHANCHIPA, P.O. ARANDI, TA. GODHARA, DIST PANCHMAHAL, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	15-Jun-83
2597 PARMAR PRAKASHCHANDRA D.	GUJSVC/265 6/06	BLOCK NO 139, SHARDAKUNJ SOC. MOTIPURA, HIMATNAGAR (S.K.), GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	28-May-81
2598 PARTHA BISWAS S/O SRI BINOY KUMAR BISWAS	WBSVC/319 0/05	A-10X/74 KALYANI DT. NADIA, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	28-Jul-81
2599 PARTHA KARMAKAR S/O SRI GOPI NATH KARMAKAR	WBSVC/317 7/05	JOGIPARA, P.O. KALNA DT. BURDWAN-713409, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	03-Jan-82
2600 PARTHA PRATIM DEY S/ODR. PRABHAT KUMAR DEY	WBSVC/315 6/05	PARAM, SARADA PALLI P.O. SRIPUR, DT. HOOGHLY-712612, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	23-Sep-81
2601 PARVIZ PASHA S/o SAMIULLA	KARNASVC/ 3785/	VYSHYA BANK BUILDING, B.C.M.HOSTEL, DINNUR MAIN ROAD, R.T.NAGAR, BANGALORE- 32, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	20-Jun-82
2602 PATEL ARVINDKUMAR P.	GUJSVC/264 8/06	VILL NARSHIPUR, TA KAPADWANJ, DIST KHEDA, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	14-Jan-81
2603 PATEL ASISHKUMAR C.	GUJSVC/266 6/06	AT & PO VAGHAROTA TA. PRANTIJ DIST SABARKANTHA PIN 383210, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	29-Aug-83
2604 PATEL DASHRATHBHAI G.	GUJSVC/266 7/06	AT & PO KESHARGARIJ, TA VADALI DIST SABARKANTHA, PIN 383235, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	22-Jul-83
2605 PATEL GOVINDBHA N.	GUJSVC/266 8/06	AT & PO. VASNIREL TA BAYAD DIST SABARKANTHA PIN 383325, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	28-Jul-83
2608 PATEL JATIN V.	GUJSVC/266 9/06	28, SIDDRAJ NAGAR NR KANAK PARK MEHSANA 2, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	12-Mar-83

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2607 PATEL JATINKUMAR H.	GUJSVC/267 0/06	AT KUKARWADA TA VIJAPUR DIST MEHSANA PIN 382830, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	21-Mar-82
2608 PATEL JIGNESHKUMAR M.	GUJSVC/267 1/06	E-17/3 SDAU, TA DANTIWADA S.K.NAGAR DIST BANASKANTHA, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	10-Jul-83
2609 PATEL KETANKUMAR S.	GUJSVC/263 4/06	C-7, SHANTINAGAR SOCIETY B/H, SAHYOG SOCIETY, REFINAY ROAD GORVA, VADODARA 390016, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	13-Jun-83
2610 PATEL LAJIBHAI R.	GUJSVC/267 2/06	AT & POST SUIGAM, TA.VAV, DIST BANASKANTHA PIN 385570, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	01-Jun-82
2611 PATEL SMITABEN	GUJSVC/267 3/06	A-22 TIRUPATI TOWNSHIP, DEESA PALANPUR HIGHWAY PALANPUR DT BANASKANTHA, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	01-May-83
2612 PATEL SUBHASHKUMAR B.	GUJSVC/267 4/06	AT & PO. KARANPUR TA HIMATNAGAR DIST SABARKANTHA PIN 383030, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	20-Dec-82
2613 PATEL UMESHKUMAR A.	GUJSVC/267 5/06	AT & PO KAPODA TA IDAR DIST SABARKANTHA PIN 383010, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	09-Apr-81
2614 PATEL VIPULKUMAR A.	GUJSVC/263 5/06	46, TEJENDRAPARK SOCIETY, PART 2 VIRANTNAGAR ROAD, ODHAV, AHMEDABAD 382415, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	15-Apr-83
2615 PATHAN MASRULLAH KHAN S/O P.M KHAN	TNSVC/3524 /06	GOVT. STAFF QTRS, 4/187, ARIGNAR ANNA ZOOLOGICAL PARK, VANDALUR- 600048, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	12-Feb-54
2616 PAUL SUBHRADEEP S/o SRI MANOJ KR. PAUL	ASMSVC/22 31/05	221, SIMAN HOUSE, OPP. NEPALI MANDIR, PALTAN BAZAR. GHY - 8, ASSAM	BVSc&AH/WBUA FS/99	08-Sep-76
2617 PAULINE FELCITA SUGANTHI (W/O B.KOMAGAN)	TNSVC/2455 /05	7, THIDAL MIDDLE STREET, MUDUKULATHUR, RAMANATHAPURAM DIST 623 704., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	26-Feb-73

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2618	PAWAN KUAMR S/o SHREE PARMANAND MISHRA	BiharSVC/25 60/04	VILL/MUHALLAH - KRISHNANAGAR P.O. - KOSHI COLLEGE THANA - KHAGARIA SUB-DIV - KHAGARIA DIST - KHAGARIA, BIHAR	BVSc&AH/CSAA& TU/04	05-Jan-78
2619	PAWAN KUMAR S/o SHREE GOBARDHAN MANDAL	BiharSVC/23 89/03	VILL - TAPUYA P.O. - BUDHCHAWAK THANA - PIRPAUTI SUB-DIV - KAHALGAON DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	01-Jan-79
2620	PAWAN KUMAR SUNIA S/o MOOL CHAND	RajSVC/3225 /06	VPO-PANTHARIA VIA - PILANI JHUNJHUNU, RAJASTHAN	BVSC&AH/RAU/0 5	15-Jan-78
2621	PAYHAK KALYAN S/o SRI DEBEN CH. PATHAK	ASMSVC/22 16/05	P.O. & VILL. HEKRA DIST KAMRUP, PIN - 781127, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	03-May-76
2622	PINAKI PRASAD SENGUPTA S/o DAKSHNINARANJAN	KARNASVC/ 3818/	#170, N. HIG, D BLOCK, NO. 1, KHB, 5TH PHASE, YELAHANKA NEW TOWN, B'LORE - 560064, KARNATAKA	BVSc&AH/BCKVV /87	02-Feb-64
2623	PIYUSH KUMAR GOYAL S/o SH MUKUT L	RajSVC/3239 /06	SH. MUKUT LAL GOYAL OLD ANAJ MANDI, KHERLI ALWAR, RAJASTHAN	BVSC&AH/RAU/0 5	04-Jul-77
2624	PIYUSH KUMAR SINGH S/o LATE PREM NARAYAN SINGH	UVC/156/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, KATHURBARA, DT-PAUR GARHWAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/RAU/0 2	23-Oct-73
2625	PK. ANDAVAN S/OP. KRISHNAN	TNSVC/3553 /06	H35/T3, SEASHORE APARTMENTS, THIRUVALLUVAR NAGAR, THIRUVANMIYUR, CHENNAI 600 041	B.V.Sc/TNAU/79	4-Aug-54
2626	POMKAM RAJU S/o AMBAlAH	APSVC/4371 /05	C/O M. KONDAIAH, D.NO.12- 646/1, SUNDARAYYA NAGAR KATTA, TADEPALLI, GUNTUR DT, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	31-Aug-77
2627	PON. KOOTHAN (PONNAN)	TNSVC/3105 /05	THUTHIPATTLI, PONNANKUPPAM P.O. ANANTHAPURAM S.O. GINGEE TALUK TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	20-May-51
2628	POOJA GUPTA D/o DR. D.C. GUPTA	RajSVC/3240 /06	93/36 AGRAWAL FARM, MANSAOVAR, JAIPUR, RAJASTHAN	BVSC&AH/MA&F SU/05	09-Mar-82

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2629	POOJA PATEL D/o SHRI MOHAN LAL PATEL	UVC/155/06	C/O SHRI BHOOPAL SINGH, BAGWALI (POKHAR), ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /04	28-Dec-76
2630	POOJA SAHANI D/o SHRI A.K. SAHANI	UVC/158/06	EWS - 424, NEAR DR ARORA'S RUDRAPUR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/04	14-Dec-81
2631	POONAM YADAV D/o SHRI YADRAM YADAV	UVC/119/06	VETY OFFICER, VIKAS BHAWAN, A.H. DEPTT. DT-ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/00	28-May-77
2632	PRAASHANTHA GOUDA.M. S/o CHANNAPPA.M.	KARNASVC/3710/	NEAR VASAVI TEMPLE, RAMNAGAR, HAGARIBOMMANAHALLI, BELLARY DT - 583212, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	20-Jun-83
2633	PRABEEN KUMAR S/o SHREE LAXMAN PRASAD	BiharSVC/25 14/04	VILL/MUHALLAH - KAYEL GAON TOLA P.O. KHAWASPUR THANA - PEERPAINTI SUB-DIV - KAHALGAON DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/BAU/04	25-May-73
2634	PRABHA BHARIT D/o SHREE UMESH MOCHI	BiharSVC/23 14/03	VILL - SAMTAPATH NEW BANGALI TOLA P.O. - G.P.O. PATNA THANA - JAKKANPUR SUB-DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	30-Sep-77
2635	PRABHAT KUMAR PANDEY S/o SHRI RAM SAKHA PANDEY	UVC/74/06	VETY OFFICER, GOVT. VETERINARY HOSPITAL, BOHALA, DIST- BAGESHWAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/BAU/01	09-Dec-75
2636	PRABHAT KUMAR S/o SHREE B.K. PRASAD	BiharSVC/25 94/05	VILL/MUHALLAH - LALGANJ P.O. - CHANDI THANA - CHANDI SUB-DIV - HILSA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	24-Jan-80
2637	PRABHAT RANJAN KUMAR S/o SHREE RAMSHARAN SAHU	BiharSVC/23 94/03	VILL - PIRHAULI P.O. - ALINAGAR THANA - BEHERA SUB-DIV - BENIPUR DIST - DARBHANGA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	10-Nov-76
2638	PRABHU NARAYAN YADAV S/o LATE RISHI YADAV	BiharSVC/22 56/02	VILL-KAMLA KUND PO-KAMLA KUND THANA-SAYEDPUR (NEW ISMAYELPUR) SUB-DIV - NAWGACHIA DT-BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	30-Oct-74
2639	PRADEEP KUMAR S/O SH BHOOP SINGH	HARSVC/188 0	V. SHAHAPUR, PO. BHUSAN KALAN, N/NAUL, M/GARH, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	15-Jul-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2640	PRADEEP KUMAR JENA S/O SH NARENDRA KUMAR JENA	ORISSASVC /1977/05	TULASIPUR, VIABRAHMAKUNDI, DIST PURI, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	02-May-79
2641	PRADEEP KUMAR MENON	KERALA/310 3/05	AJITHA NIWAS KANJOOR P. O. ERNAKULAM KERALA 683575, KERALA	BVSc&AH/AAU/89	19-Jun-63
2642	PRADEEP KUMAR RAI S/o LATE SHREE LAXMAN RAI	BiharSVC/25 45/04	VILL/MUHALLAH - REWA P. O. - AKHTIYARPUR THANA - KARGAHR SUB-DIV - SASARMA DIST - ROHTAS, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/04	15-Feb-80
2643	PRADEEP KUMAR S/o SATYANARAYAN PRASAD	BiharSVC/24 91/04	VILL/MUHALLAH - RENDY P. O. CHAMARBIGHA THANA - HILSA SUB- DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	12-Dec-79
2644	PRADEEP KUMAR S/o SHREE RAM SAGAR YADAV	BiharSVC/23 16/03	VILL - POKHARIA P. O. - DANAULI PHOOLBARIA THANA - BALIA SUB- DIV - BALIA DIST - BEGUSARAI, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	13-Dec-74
2645	PRADEEP KUMAR.P.G. S/o GOVINDRAJU.K.	KARNASVC/ 3768/	NR SHAMBHULINGESHWARA TEMPLE, PALAHALLI PO, SRIRANGAPATNA TALUK, MANDYA DT- 571438, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	23-Apr-82
2646	PRADEEP.B. S/o BALARAJU.M.	KARNASVC/ 3799/	GOPALAGOWDA EXTN., 2ND CROSS, E-67,SHIMOGA, 577201, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	25-Dec-81
2647	PRAFUL RANJAN S/o SHREE SUSIL KUMAR DAS	BiharSVC/22 80/03	VILL - BEHERA P.O + THANA - BEHERA SUB-DIV - BENIPUR DIST - DARBHANGA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/02	01-Mar-79
2648	PRAGYAN BHARATI S/O SRI KESAB CHANDRA MOHAPATRA	ORISSASVC /2013/05	AT: BADAGADA BRIT COLONY, LB- 20, BHUBANESWAR - 18, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	31-Dec-79
2649	PRAJAPATI AASHISHKUMAR P.	GUJSVC/264 9/06	50, KRISHNANR, BAMROLI RD, GODHRA 389001 DT PANCHMAHALS, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	11-Nov-81
2650	PRAJAPATI NARENDRAKUMAR T.	GUJSVC/263 7/06	7, KAILASHKRUPA SOCIETY, OPP JALARAM SOCIETY, SARDARNAGAR, AT & PO. VIJAPUR, DIST MEHSANA, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	23-Sep-82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2651	PRAKASH CH. SAHOO S/O SRI PANDAB CHARAN SAHOO	ORISSASVC/2006/05	AT/PO- TOLANKAPADA VIA- SALAPADA DIST: KEONJHAR, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T/05	02-Jul-80
2652	PRAMOD KUMAR MISHRA S/o SRI CHANDRIKA MISHRA	BiharSVC/22/60/02	VILL - SOWI BHERYANHI P.O - HARIDASPUR THANA - KANTI SUB - DIV - MUZAFFARPUR DIST - MUZAFFARPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/7/4	15-Jan-52
2653	PRAMOD KUMAR S/o SHREE ARJUN PRASAD	BiharSVC/25/41/04	VILL/MUHALLAH - RAMPUR P.O. - AOP THANA - EKANGERSARAI SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/99	05-Jul-71
2654	PRAMOD KUMAR S/o SHREE DAMODAR PRASAD	BiharSVC/24/13/04	VILL - CHANDPUR BELA P.O - G.P.O. PATNA THANA - JAKKANPUR SUB-DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0/3	25-Mar-79
2655	PRAMOD KUMAR S/o SHREE GANESH PRASAD	BiharSVC/24/59/04	VILL/MUHALLH - RAGHUBIGHA P.O. SABBATH THANA - NALANDA SUB-DIV - RAJGIR DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/UAS,B' LORE/04	21-Feb-76
2656	PRAMOD KUMAR S/o SHREE RAJENDRA KUMAR VERMA	BiharSVC/25/07/04	VILL/MUHALLAH - GAIBI P.O. - ITASANG SUB-DIV - RAHUI DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc/TNV&ASU/03	20-Sep-77
2657	PRAMOD KUMAR SINGH S/o SHRI KRISHAN BAHADUR SINGH	UVC/18/06	VETY OFFICER,GOVT.VETY HOSPITAL,DURGADHAR,DT- RUDRAPRYAG,UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/92	05-Oct-68
2658	PRAMOD PRABHAKAR S/o SHREE KAPILDEO RAJAK	BiharSVC/25/93/05	VILL/MUHALLAH - RATANPURA P.O. - RATANPURA THANA - DHAILADH SUB-DIV - MADHEPURA DIST - MADHEPURA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0/5	01-Mar-79
2659	PRAMOD S.	KERALA/301/7/05	MUTTIARA, THOZHUKKAL, NEYATTINKARA P.O, TRIVANDRUM- 695121, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	02-Apr-80
2660	PRANAB CHINYA S/O SRI DILIP KUMAR CHINYA	WBSVC/316/8/05	VILL SAHAPUR(SUKANTAPALLY) P.O. & P.S.TARAKESWAR DT. HOOGHLY - 712410, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBQA &FS/05	28-Jan-83
2661	PRASAD THOMAS.	KERALA/309/3/05	PRAKASH BHAVAN NEMMARA P.O. PALAKKAD 678508, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	02-Apr-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2662	PRASANT KUMAR JHA S/o SHREE HARSH NARAYAN JHA	BiharSVC/23 87/03	VILL - AYACHI NAGAR BEINTA P.O. - D.M.C. LEHERIASARAI THANA - LEHERIASARAI SUB-DIV - DARBHANGA SADAR DIST - DARBHANGA, BIHAR	BVSc&AH/OUAT/ 03	08-May-79
2663	PRASANTH BABU ANKERU S/o A. KANAKAIAH	APSVC/4309 /05	YELETIPALEM, NAGARAM(M), GUNTUR DT., ANDHRA PRADESH	BVSc&A.H/ANGR AU/05	01-Jun-81
2664	PRASEED C.P.	KERALA/305 3/05	CHERIYATH HOUSE, KAPRASSERY, NEDUMBASSERY P.O, ERNAKULAM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	03-Nov-75
2665	PRASHANATHA NAYAKA.G. S/o N.G.GURUVAIAH	KARNASVC/ 3783/	"PANCHAMUKHI NILAYA" NR SANDESH RASTAURANT, CHALLAKERE PO,CHITRADURGA- 577522, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	26-Nov-82
2666	PRASHANT ARORA S/O SH RAMESH ARORA	HARSVC/189 4	64-C, ARAVALI HOSTEL, CCS, HAU, HISAR,HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	17-Nov-81
2667	PRASHANTH KUMAR. C S/o DAYAKAR REDDY	APSVC/4373 /05	H.NO. 4-1, TARNIKAL, KALWAKURTHY(M), MAHABOONAGAR DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	25-May-81
2668	PRASHANTI GUMMI REDDY D/o RAMANJANEYA REDDY	APSVC/4428 /06	T2-296, 8 INCLINE CDLONY, GODAVARI KHANI, KARIMNAGAR DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	24-Jan-82
2669	PRASOON DUEY S/o LATE DEVI DATT DUBEY	LVC/114/06	VETY OFFICER,GOVT.VETY HOSPITAL,MANILA, DT-ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /02	17-Mar-78
2670	PRATAP KUMAR GOKAVARAPU S/o RAMANJANEYULU	APSVC/4365 /05	COLLEGE ROAD, AMARAVATI, GUNTUR DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	13-May-80
2671	PRATIBHA KUMARI D/o PROF JAWAHAR LAL JHA	BiharSVC/26 02/05	VILL/MUHALLAH - JAYAJPATTI P.O. - DALSINGHSARI THANA - DALSINGHSARAI SUB-DIV - DALSINGHSARARI DIST - SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	01-Mar-77
2672	PRAVAT KUMAR PADHI S/O SH BENUDHAR PADHI	ORISSASVC /2036/05	306-B, IMPERIAL MANSION APARTMENT, BARAMUNDA, BBSR-3, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	28-Jun-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2673	PRAVEEN BHYARI S/o NAGABHUSHANA RAO	APSVC/4319 /05	MILK COLOLING CENTRE COL. PEDDAPADU, SRIKAKULAM DT. ANDHRA PRADESH	BVSc&AH/ANGR AU/05	19-Aug-82
2674	PRAVEEN KUMAR PANDEY S/o SHREE JAGTANAND PANDEY	BiharSVC/23 66/03	VILL + P.O. - MALUUR THANA - CHARPOKHRI SUB-DIV - PIRO DIST. - BHOJPUR, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	02-Feb-76
2675	PRAVEEN KUMAR S/o SHREE SHAMBHU SINGH	BiharSVC/23 17/03	VILL - P.O. - KARHARI THANA - KINIJAR SUB-DIV - JAHANABAD DIST JAHANABAD, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	03-Sep-76
2676	PRAVEEN KUMAR. D S/o D. RUSHENDRANATH	APSVC/4330 /05	H.NO. 22-1132/A, SBI COLONY, CHITTOOR., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	04-May-81
2677	PRAVEEN RANJAN S/o SHREE RAJENDRA PRASAD	BiharSVC/23 52/03	VILL - GOSAIDIH P.O. - SIYATAND THANA - SUB-DIV - DIST - GIRIDIH, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	09-Apr-75
2678	PRAVEEN SINGH PARIHAR S/o SHRI UDAY NARAYAN S. PARIHAR	MPSVC/2288 /05	B-22/10, VED NAGAR UJJAIN, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	08-Sep-70
2679	PRAVEENA BABAU	KERALA/300 4/05	POOCHALIL HOUSE, OLIYAPURAM PO, KODTHATTUKULAM, ERNAKULAM -686679, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	08-May-81
2680	PREETI PANT D/o SHRI UMESH CHANDRA PANT	UVC/02/06	III/1683, JHA COLONY, PANTNAGAR, U.S. NAGAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/05	12-Dec-82
2681	PREM NATH SINGH S/o SHREE DAYA SHANKAR SINGH	BiharSVC/25 47/04	VILL/MUHALLAH - MALIK MUHALLAH P.O. SERDIHA THANA SIMRI BAKHTIYARPUR SUB-DIV - SIMRI BAKHTIYARPUR DIST - SAHARSA, BIHAR	BVSc&AH/JNKVV /04	31-Aug-79
2682	PREM PRAKASH HIMANSHU S/o SH. S. P. SINHA	BiharSVC/23 69/03	VILL - MOJKARA P.O. - WARDIH THANA - ISHLAMPUR SUB-DIV - HISA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	01-Mar-77
2683	PREM RANJAN S/o KRISHNANANDAN PRASAD	BiharSVC/23 70/03	VILL - KISHANPUR P.O. - BELAUR THANA - VARNIGDHA SUB - DIV - SHIEKHPURA DIST - SHIEKHPURA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	14-Dec-79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2684	PREMCHANDRA PRASOA SINGH S/o KISHORI PD SINGH	BiharSVC/26 00/05	VILL/MUHALLAH - SUBHASH NAGAR P.O. - PURNEA THANA - K. HAT SUB- DIV - PURNEA SADAR DIST - PURNEA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	05-May-73
2685	PREMLATA SINGH O/o SHREE SRIRAM SINGH	BiharSVC/25 99/05	VILL/MUHALLAH-UTARI PATELNARAR P.O. - KESRI NAGAR THANA - PATLIPUTRA SUB-DIV - PATNA SADAR DIST PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	10-Jul-79
2686	PRINCY AGNES JOHN	KERALA/309 2/05	CHERUPARAMBIL HOUSE, KALLOORLKKAO P.O. ERNAKULAM 686668, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	03-Mar-82
2687	PRITI MANYA D/o SHREE MADAN MOHAN MISHRA	BiharSVC/24 41/04	VILL - SRIKRISHNAPURI I.M.A. PATH P.O. + THANA - BEGUSARAI SUB- DIV - BEGUSARAI DIST - BEGUSARAI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	01-Mar-79
2688	PRIYA A.R.	KERALA/306 4/05	AISWARYA, NAYARKUZZHI P.O. NIIT CAMPUS KOZHICKOO 673601, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	09-Jul-80
2689	PRIYABRATA PATRA S/O SRI HAREKRUSHNA PATRA	ORISSASVC /1996/05	AT: MANSINGH BAZAR, PO: MOTIGANZ, DIST: BALASORE, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	29-Jun-82
2690	PRIYANKA SHARMA S/o SHRI V.P. SHARMA	UVC/151/06	OPP SANSKAR SCHOOL BAORIPUR ROAD OEHRADUN, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/03	24-Jun-82
2691	PSM MOHAMEO IBRAHIM S/OPSM. MOHAMEO SULAIMAN	TNSVC/3300 /05	NO. 19, BASHEER APPA ST., MELAPALAYAM, TIRUNELVELI DIST 627 005. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	4-Jun-83
2692	PUJA BASU O/o T.K. BASU	KARNASVC/ 3817/	#8. ANUGRABHA, NEAR FOOD WORLD, 100 FT. ROAD, B.T.M. LAYOUT, KORAMANGALA, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	09-Feb-81
2693	PULAKESH DEBBARMA S/o SRI SUKUMAR OEBBARMA	TripuraVC/16 0/05	HARIJOYCHOWDHURY PARA POMAJALISHPUR PS. JIRANIA. TRIPURA	BVSc&AH/WBUA &FS/05	23-Apr-82
2694	PUNEET MALHOTRA S/o SH. SARAN DASS	PbSVC/2606/ 05	H.NO. 5973/20, OPP ST. NO. 23, NAWAN KOT, AMRITSAR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	25-Jan-82

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2695 R AZHAGAMMA	PONOISVC/2 57/05	10, NEW STREET, PAVAZHANAGAR, PONDICHERRY-5	B.V.Sc & AH/PU/05	28-Nov-82
2696 R. NITHIASSELVAM N.RAMASAMY	TNSVC/3323 /06	58, (57A) NEW HOUSING UNIT, (CSI OPP.) TRICHY ROAD, THURAIYUR 621010, TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	2-Jul-83
2697 R. ALAGAMMAL (S.RAVI)	TNSVC/1258 /05	20 / 1G, STERLING GARDENS, B- BLOCK, KARUNANIDHI 3RD STREET, KOTTUR, CHENNAI 600 085	B.V.Sc/TNV&ASU /93	13-Jun-70
2698 R. AMARNATH S/O P.RAJMOHAN	TNSVC/3499 /06	ANIMAL NUTRITION DIVISION, NATIONAL INSTITUTE OF ANIMAL NUTRITION & PHYSIOLOGY, AUOUGODI, BANGALORE.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	2-Apr-76
2699 R. AMMAIYAPPAN (S.RAMALINGAM)	TNSVC/1546 /05	ESSAR ILLAM, NO.80, SUBARAMANIAM STREET, EXTN, VASANTHAPURAM, VELLORE 632 003. TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNAU/79	09-Sep-57
2700 R. ANANDA KUMAR (A.K.RAMASAMY)	TNSVC/802/ 05	4 / 100, C.VAOAMBACHERRY P.O. PALLAOAM TK. COIMBATORE OIST. PIN 641 669 TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	06-Sep-75
2701 R. ANANDAN (A.RADHAKRISHNAN)	TNSVC/3004 /05	SEPETTAI POST AND VILLAGE, GINGEE TALUK, VILLUPURAM DISTRICT 604 152 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	07-Jun-82
2702 R. ANANTHI(W/o. T. ANANO SEBASTIAN)	TNSVC/67/0 3	7, GANDHI NAGAR, KUMBAKONAM - 612001 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	15-Jun-78
2703 R. ANBAZHAGAN (K.RAJENDRAN)	TNSVC/57/0 3	81, RAMACHANDRAPURAM, KEELA STREETS RIVILLIPUTTUR TALUK VIRUDHU NAGAR T- 626 126 TAMILNAOU	B.V.Sc&AH/PU/02	14-Jul-80
2704 R. ANGELA SORNAMATHI (W/o K.RUBAN)	TNSVC/986/ 05	45, THULAJAPURAM COLONY, FIRST STREET, THANJAVUR, TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	01-Nov-72
2705 R. ANTONY IGNATIUS SURESH (I.RAFEL)	TNSVC/2682 /05	KARUNA BHAVAN, ETTANI, KARINGAL PO, KANYAKUMARI DT. 629 157, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	31-May-69

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2706 R. ANTONY RAJ(Y.RAYAPPAN)	TNSVC/163/ 03	KALLATHUPATTI, THAMARAIPADI POSTDINDIGUL 624 005.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	17-May-80
2707 R. ARTHI (R.RAJU)	TNSVC/365/ 04	3, GKM BUILDING, 70, SALEM MAIN ROAD, KALLAKURICHI PIN - 606202, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	14-Mar-81
2708 R. ARUL (P. RANGASAMY)	TNSVC/234/ 04	7 / E1, RAMALINGAM STREET, DHARMAPURI 636 701.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	08-Jul-79
2709 R. ARUNADEVI (A.RATHINAM)	TNSVC/1310 /05	VALLUVAR STRET, NANGAVALLI POST, SALEM DISTRICT, TAMIL NADU 626 454.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	25-Jul-76
2710 R. AYYALUSAMY (A. RAMACHENDURAPPAN)	TNSVC/2373 /05	86, VADAMBOKI STREET, VELLAKOTTAI, ARUPPUKOTTAI POST, VIRUDU NAGAR DIST, TAMIL NADU STATE, 626 101.	B.V.Sc/TNAU/75	05-Jun-53
2711 R. AZHAGUVEL (T.RAMASAMY)	TNSVC/1971 /05	EAST RAJAPALAYAM POST, VEERAGANUR VIA, GANGAVALLI TK, SALEM DISTRICT 636 116., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	04-Mar-65
2712 R. BALAKRISHNAN (A.RAMASAMY PILLAI)	TNSVC/3085 /05	179, V MAIN ROAD, ARUNACHALA NAGAR, KTC NAGAR, TIRUNELVELI 627 011 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	15-May-65
2713 R. BALAMURUGAN (K.C.RAJU)	TNSVC/791/ 05	KILIAMPATTI, T.METTUPALAYAM POST, V.VELLUDU (VIA) ERODE DT. TAMILNADU 638 112	B.V.Sc/TNV&ASU /02	20-May-79
2714 R. BALAMURUGAN (S.RAMANATHAN)	TNSVC/3092 /05	12, ANU RAGAM, VALLAM ROAD, ILANJI POST, TENKASI TALUK, TIRUNELVELI- 627 805, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	25-May-60
2715 R. BALAMURUGAN S/OP. RAMASAMY	TNSVC/3532 /06	ANDHUR - KILIYUR, VARAGOOR POST, KUNNAM TALUK PERAMBALURE- 621 708, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	23-Jul-82
2716 R. BALASUBRAMANIAN (S.RAJAMANI)	TNSVC/1690 /05	57C, RAJALAKSHMI BHAVANAM, SRIRAM NAGAR, 1ST STREET, MANTHITHOPPU ROAD, KOVILPATTI - 628 501	B.V.Sc/TNV&ASU /93	20-Feb-70

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2717	R. BHARATHI (M.RASALINGAM)	TNSVC/2661 /05	42, EAST STREET, UPPIDAMANGALAM, PULIYUR C.F. (VIA) KARUR DISTRICT 639 114TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	10-Jun-52
2718	R. BHASKAR (K.RAMIAH)	TNSVC/3084 /05	9, NGO 'B' COLONY, MINNAGAR, MELAGARAM 627 818, TENKASI TALUK TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	02-May-58
2719	R. BHUVANESWARI (T.VENKATESAN)	TNSVC/557/ 05	595-A, SALEM MAIN ROAD, VANGAPALAYAM, KARUR 639 006.TAMIL NADU	B.V.Sc&AH/PU/00	14-Jun-77
2720	R. BINU W/o. (P. ELANGO)	TNSVC/558/ 05	11 / 9, 4TH MAIN STREET, RENG NAGAR, K.K. NAGAR PO, TRICHY 620 021.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	26-Jan-77
2721	R. CHANDRAMOHAN (RAJAPPAN NADAR)	TNSVC/2156 /05	SITANIVAS, THIRUVATTUR POST, K.K. DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	31-Jul-57
2722	R. CHANDRAN (V.RAJARAM)	TNSVC/2785 /05	REDDIAPATTY POST, ARUPPUKOTTAI TK, VIRUDHU NAGAR DIST, PIN : 626 118.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	06-Jun-69
2723	R. CHANDRASEKARAN (N.RAMASAMY)	TNSVC/3286 /05	1542, ANAND NAGAR, NO. 1, TOLGATE, BIKCHANDAR KOIL POST, TRICHY 621 216.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /78	06-Jan-54
2724	R. CHANDRU (D.RAMAKRISHNAN)	TNSVC/1625 /05	FLAT NO.B-1, SRI GANESH DHARSHAN APARTMENTS, 4-A, SANKARAN PILLAI ROAD, TRICHY - 2	B.V.Sc/TNV&ASU /89	31-Aug-67
2725	R. CHANTHIRASEKARAN (S.RAJU)	TNSVC/1494 /05	23, VILLARASAMPATTI POST, NASIYANUR (VIA) ERODE DISTRICT PIN 638 107,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	21-May-69
2726	R. CHELLAPPA S/O RAMANATHAN	TNSVC/3404 /06	KALAYARKURICHI, M.PUDUPATTI POST, SIVAKASI VIA. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	20-Jun-52
2727	R. CHITRADEVI (V.RAMASAMY)	TNSVC/803/ 05	20A, EAST STREET, PANCHEMPATTI, POTTALPATTI, P.O. MUHAVOOR - VIA, RAJAPALAYAM - TK, VIRUDHUNAGAR DT. 626 1	B.V.Sc/TNV&ASU /99	15-Apr-75

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2728 R. CHOCKALINGAM (S.RAMALINGAM)	TNSVC/2505 /05	2/83, KIDARAKULAM POST, NETTUR VIA, TIRUNELVELI DIST 627 854.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	14-May-69
2729 R. DATCHINAMOORTHY (K.RAMASAMY)	TNSVC/488/ 05	PACHAGOUNDANVALASU, KALAPPARAİKADU, SOLASIRAMANI (PO), NAMAKKAL DT 637210, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	03-May-82
2730 R. DEVARAJAN (R.RAJARAM)	TNSVC/2126 /05	OLD NO.12, NEW NO.27, VEERASAMY STREET, PURASAIWALKAM, CHENNAI 600 007.	B.V.Sc/TNAU/85	30-May-82
2731 R. DHANDAPANI (T.RAMALINGAM)	TNSVC/682/ 05	K.KUMAREDDAYAPURAM, ARUNGALAM POST, VILATHIKULAM TK, TOOTHUGUDI 628 712., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	18-Apr-75
2732 R. DHAYANITHI (R.RAJAMANICKAM)	TNSVC/129/ 03	BOYAR COLONY, PAPPIREDDIPATTI PO & TKDHARMAPURI DTPIN : 636 9TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	13-Jul-80
2733 R. DURAIRAJAN S/O P. RAMACHANDRAN	TNSVC/3527 /06	PARUKKAL (P.O.) UDAYARPALAYAM (T.K.) PERAMBALUR DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	13-May-82
2734 R. EDITH (M.BALAGANGATHARA THILAGAR)	TNSVC/3231 /05	34, CHELLIAMMAN KOIL STREET, THIRUKKALUKUNDRAM 603 109 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-Jun-75
2735 R. ETHIRAJAN (S.B.RAMAMDORTHY)	TNSVC/1149 /05	34 A / 7, THIRU NAGAR, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL 637 001. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	15-Jun-69
2736 R. GANESAMOORTHY (S.RASAIHAH)	TNSVC/1541 /05	NAMBIVAYAL PDST, PATTUKKOTTAI TK, TANJORE DT 614 615. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	05-Jan-69
2737 R. GEETHA (T.RAJU)	TNSVC/638/ 05	6 / 183, K.G. BOSE POSTAL NAGAR, BODHUPATTI POST, NAMAKKAL DT, PIN : 637 003., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	23-Jul-81
2738 R. GEETHA LAKSHMI (S.MATHANKUMAR)	TNSVC/2114 /05	39A, CHINNA KADAI STREET, KOSAPPALAYAM, ARNI 632 301, T.V. MALAI DISTRICT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	28-May-78

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2739 R. GOPNATH (K.RAMACHANDRAN)	TNSVC/1359 /05	A21 / 2, D.R.O. COLONY, PUDUR, MADURAI 625 007,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	21-Feb-58
2740 R. GOPNATH (S.RAMALINGAM)	TNSVC/737/ 05	PLOT NO.90, GANESH NAGAR, VENGIKKAL, TIRUVANNAMALAI 606 604TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	20-Jun-78
2741 R. GOVINDARAJ (P.RAMASUBRAMANIAM)	TNSVC/2447 /05	6, SENGUTTUVAN STREET, SENTHIL NAGAR, CHENNAI 600 062	B.V.Sc/TNV&ASU /98	22-May-75
2742 R. GOVINDARAJU (M.RAMASAMY)	TNSVC/2576 /05	ARUL ILLAM, 244-A, KAMARAJ NAGAR, CHENNIAMALAI 638 051, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	12-May-55
2743 R. GUNALAKSHMI(V.RATHINA VEL)	TNSVC/154/ 03	1 / 116C, NEW STREET, T. VELLORE ROAD,THANIDADI,THIRUVANNAM ALAI TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	08-Aug-79
2744 R. GUNASEELAN S/O M A.RAMASAMY	TNSVC/3479 /06	53,NEHRUJI RD,ALLINAGARAM,THENI,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	19-Oct-70
2745 R. GUNASEKARAN (S.RAJU)	TNSVC/1434 /05	W-12, D 49A, BOMMACHIAMMAN KOIL STREET, GUDALUR 625 518 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	01-Apr-59
2746 R. GURUMOORTHY (V.K.BALASUBRAMANIAN)	TNSVC/2901 /05	292, MAIN ROAD, VILANTHIDASAMVARAM, SIRKALI TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	06-Apr-61
2747 R. HARINDRAN (A.RENGARAJ)	TNSVC/1475 /05	OLD NO.66, NEW NO.42, PANCHALI AMMAN KOIL STREET, ARUMBAKKAM, CHENNAI 600 106	B.V.Sc/TNAU/79	22-Jun-53
2748 R. JASMINE (S. SHEEJU SELVA ROJI)	TNSVC/1963 /05	89, CHRISTOPHER NAGAR, PERUVILAI POST, VIA, VVETTOORNIMADAM, NAGERCOIL, KANYAKUMARI DIST 629 003.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	17-Dec-75
2749 R. JAYA KRISHNAN (T. RAJIAH NADAR)	TNSVC/243/ 04	16 / 30, T.R.J.K. BHAVAN, OTTRYALVILAI, KANYAKUMARI PO & DT., PIN : 629 702.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	11-Jun-77

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2750 R. JAYAGANDHI (N.SUKUMAR)	TNSVC/2939 /05	678, SAMATHUVAPURAM (VIA), AMMIYAGARAM, CHINNA SALEM, KALLAKURICHI VILLUPURAM DISTRICT	B.V.Sc/TNV&ASU /00	13-May-76
2751 R. JAYAKUMAR (R.K.RAMASAMY)	TNSVC/3071 /05	91 / 16B / 4, DR.DEVADOSS ROAD, PERAVURANI 614 804, THANJAVUR DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	13-Jan-53
2752 R. JAYAKUMAR (S.RAJUNAICKER)	TNSVC/1998 /05	283, PERIYAKULAM ROAD, THENI 625 531, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /94	02-May-71
2753 R. JAYARATCHAGAN (S.RAMACHANDRA REDDI)	TNSVC/1995 /05	127, WEST ADAYAVLANIJAM STREET, SRIRANGAM POST, THIRUCHI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/67	06-Jan-42
2754 R. JEEVANANDAN (R.RANGASAMY)	TNSVC/271/ 04	5 / 205, NGGOS COLONY, NEAR NAAR MILL, SALEM ROAD, NAMAKKAL DISTRICT, 637001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	02-May-72
2755 R. JEYAGANESAN S/O L.RAJA	TNSVC/3446 /06	RAMANATHAPURAM POST, AATHU VALI VIA, THIRUNELVELI DIST 627 760. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	4-May-66
2756 R. JEYAPPAUL (E.RAMASAMY)	TNSVC/1663 /05	61 / 6, M.PALANICHAMY STREET, THIRUTHANGAL, VIRUDHUNAGAR DISTRICT. 626 130, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	11-Jul-53
2757 R. JEYAPRAKASH (D.RAJAGOPAL)	TNSVC/1126 /05	97-C, YADHAVA STREET, VELIPATTANAM, RAMANATHAPURAM 623 504. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	21-May-74
2758 R. JOHN CHRISTY (S.ROBERT)	TNSVC/1385 /05	9C, UDAYAMAMBATTU ROAD, THIYAGADURGAM, VILLUPURAM DISTRICT, PIN 606 206, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	01-May-74
2759 R. JOTHI (K.S.JEGANMOHAN SHANKAR)	TNSVC/1976 /05	1 / 289 F2, NORTH STREET, DEVIPATTINAM POST, RAMANATHAPURAM DIST, PIN : 623 514., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	11-Jun-77
2760 R. JYOTHIPRIYA D/o SHRI M. RAJU	AND&NICVC /94/06	D/O M. RAJU, GOVT CONTRACTOR, KAMORTA, NANCOWR IE, ANDMAN & NICOBAR	B.V.Sc/TNV&ASU /2005	08-Jan-83

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2761 R. KALAIMATHI (S.SUKUMAR)	TNSVC/1866 /05	Q-35, AGATHIAR NAGAR, VILLIVAKKAM, CHENNAI 600 049	B.V.Sc/TNAU/74	26-Jul-52
2762 R. KALIYAPPAN (V.RAMASAMY)	TNSVC/2223 /05	3/88, NALLI CHETTIPALAYAM POST, ANNUR VIA, COIMBATORE DIST, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /97	02-May-73
2763 R. KAMAL RAJ (R.RENGABASHIYAM)	TNSVC/971/ 05	97 / A, 4TH CROSS, TPS NAGAR, M.C.ROAD, TANJORE 613 007.TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNAU/82	04-Dec-57
2764 R. KAMALAKANNAN (V.RAJAVELU)	TNSVC/2039 /05	NO.4, S.S.R. NAGAR, THIRUPPAPULIYUR, CUDDALORE 607 002.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	24-Sep-73
2765 R. KANCHANA(R.RAJU)	TNSVC/419/ 04	EAST STREET KARAIKURICHIPUDUR POST, NAMAKKAL DT 637 014, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	10-Apr-80
2766 R. KANDASAMY (K.RAJAGOPAL)	TNSVC/2926 /05	MADURAPURI, SUNDARAPANDIAN POST, SRIVILLIPUTHUR TALUK, VIRUDHUNAGAR DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	12-Mar-71
2767 R. KANDASENAN (K.RAJASEKARAN)	TNSVC/790/ 05	15-A, PITCHAIKUTTY NADAR STREET, ARUPPUKOTTAI, VIRUDHUNAGAR 626 101TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-Jul-72
2768 R. KANNAN (K.V.RAMASAMY GOUNDER)	TNSVC/2511 /05	3/115, MARIYAMMAN KOIL STREET, PALAYAPALAYAM POST, NAMAKKAL TK, NAMMAKL DIST, PIN : 637 405.	B.V.Sc/TNV&ASU /91	11-Feb-68
2769 R. KANNAN (T.RAMACHANDRAN)	TNSVC/973/ 05	BUDHALUR SALAI, THIRUKKATTUPPALLI SALAI, THIRUKKATTUPPALLI 613 104, THANJAVUR DIST.	B.V.Sc/TNV&ASU /91	28-May-68
2770 R. KARPAGAVALLI (W/OG.GURUPRABHAKAR)	TNSVC/1085 /05	5-14-11-J, MURUGAN KOIL STREET, PERAIYUR - 625 703 MADURAI DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	07-Jun-73
2771 R. KARTHIKEYAN (P.RAMACHANDRAN)	TNSVC/576/ 05	KANAKKAM PALAYAM POST, KALLIPPATTI VIA, GOBI TK, ERODE DT, PIN : 638 505.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Nov-79

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2772 R. KARUNANIDHI (V.RAMU)	TNSVC/613/ 05	ETTIYAMPATTY POST, HARUR TK, DHARMAPURI DT, PIN : 636 903.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	29-Jul-82
2773 R. KAVITHA (K.RANGASAMY)	TNSVC/390/ 04	33A 11 INDIRA NAGAR, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL, NAMAKKAL DT 637 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	24-Jun-80
2774 R. KAVITHA (M.RADHAKRISHNAN)	TNSVC/404/ 04	NO.72, NEW STREET, 3RD LANE, AYANAVARAM, CHENNAI 600 023.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	29-Jun-79
2775 R. KESAVAN (RAMASAMY)	TNSVC/894/ 05	9D, MASIMALAI LANE, OLD DHARAPURAM ROAD, PALANI, DINDIGUL DISTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	15-Nov-67
2776 R. KISHOR KUMAR (S.RAJENDRAN)	TNSVC/599/ 05	KASANKADU, MALIYAKKADU POST, PATTUKKDTTAI TK, TANJORE DIST- 614 602.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	09-May-81
2777 R. KRIPA (J.GANAPATHI SUBRAMANI)	TNSVC/56/0 3	C-2A, PARSN NAGAR, 36, VGP ROAD, SAIDAPETCHENNAI 600 01TAMILNADU	B.V.Sc&AH/KAU/9 9	30-May-74
2778 R. KRISHNA KUMAR(M. RANGANATHAN)	TNSVC/105/ 03	39A, CHINNA KADAI STREET, KOSAPPALAYAM,ARANI 632 301TAMILNADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	05-Dec-79
2779 R. KULANTHAIVEL (M.RAJU)	TNSVC/2506 /05	MERKU THOTTAM, CHINA KARATTUR, BRAHMADESAM POST, ANTHIYUR 638 501, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	22-May-75
2780 R. KUMARAN (P.RAMASAMY)	TNSVC/1023 /05	B 81, TAMILNADU HOUSING BOARD, IDAPPADIPO, SALEM DT.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	13-May-73
2781 R. KUMARAN(RAMIAH)	TNSVC/1989 /05	C-2, QUARTERS, HUMAN BIOLOGICALS INSTITUTE, PUDUMUND, KUZHIPANNAI, OOTY- 7.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	13-May-67
2782 R. KUMARASAMY (S.RAMASAMY)	TNSVC/515/ 05	SEMMANTHOTTAM, PERUNTHALAIYUR (PD), GOBI (TK), ERODE (DT) 638315,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-Jul-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2783	R. KUMARESAN (K.RAMAN)	TNSVC/752/ 05	ANNA STREET, ADHIYAMAN KOTTAI POST, DHARMAPURI DISTRICT 636 807.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	24-Jun-78
2784	R. LALITHA DEVESENA W/o. (T.SARAVANAKUMAR)	TNSVC/1424 /05	II-B, BLOCK I, SANSKRUTI APARTMENTS, 27, SANTHANALAKSHMI STREET, RAJESWARI NAGAR, SELAIYUR, TAMBARAM, CHENNAI 600 073	B.V.Sc/TNV&ASU /00	22-Jan-77
2785	R. LATHA (W/O V.KARUNAKARAN)	TNSVC/2763 /05	P.NO.19 / DOOR NO.47, KAMARAJ NAGAR, ASHOK NAGAR EXTENSION, KANCHIPURAM PIN 631 502	B.V.Sc/TNV&ASU /89	23-Mar-65
2786	R. LEELAVATHI (J.PAULGUNASEKARAN)	TNSVC/2400 /05	NO.63, OLD NO.34, TEACHER'S COLONY, ADYAR, CHENNAI 600 020.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/63	18-Sep-42
2787	R. LILLY INDIRA (A.RAJAMANICKAM)	TNSVC/3052 /05	NO.10 / 156, J.J.NAGAR, MOGAPPAIR EAST, CHENNAI 600 037	B.V.Sc/TNV&ASU /05	19-May-83
2788	R. MAGESH (A.V.RAMAN)	TNSVC/1721 /05	S-3, SAPTHAGIRI HOMES, PULIMANDAPAM ROAD, SRIRANGAM, TRICHY 620 006TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	20-Jun-66
2789	R. MAHA PRABHU (E.RAMALINGAM)	TNSVC/536/ 05	23 / A, KEELA KRISHNAN KOVIL STREET, KAJAPET, TIRCHY620 001TAMIL NADU.0..0..	0.	000000
2790	R. MAHADEVI (K.RAJASEKARAN)	TNSVC/792/ 05	15A, PICHAIKUTTY NADAR STREET, ARUPPUKOTTAI, VIRUDHU NAGAR DIST. 626 101 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /99	30-Jun-74
2791	R. MAHALINGAM (O.RAJUREDDY)	TNSVC/3219 /05	MARIYAMMAN KOIL STREET, KOLATHUR, SALEM DISTRICT 636 303TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/87	20-May-60
2792	R. MANI (K.RAJU)	TNSVC/2597 /05	NO.34, EAGLE GARDEN, NEAR KAIKATTIVALASU, ERODE 639 009TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	12-Jan-67
2793	R. MANI (M.RAMASAMY)	TNSVC/1015 /05	163 / 13, ATTUR MAIN ROAD, GANGAVALLI PO &TK SALEM DT. 636105TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	20-May-70

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2794 R. MANI (V.RAMASAMY)	TNSVC/2312 /05	604/5A, THILLAI NAGAR, PACHAL VILLAGE, TIRUPATHUR TALUK, VELLORE DISTRICT 635 601, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	15-May-67
2795 R. MANI(K.RETHINASAMY)	TNSVC/2816 /05	105, EVS NAGAR, TIRUVARUR. TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	12-Dec-45
2796 R. MANIVEL (P.RAMASAMY)	TNSVC/1199 /05	42, COLLEGE ROAD, SOUTH NALLIAMPALAYAM, PARAMATHI VELUR PO & TK, NAMAKKAL DT, PIN : 638 182.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-Mar-77
2797 R. MANOHARAN (L.RAMASAMY)	TNSVC/2807 /05	NO.55, 56, YADAVA STREET, KUMBakonAM 612 001, TANJORE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	22-Apr-62
2798 R. MARIAPPAN (C.RENGANATHAN)	TNSVC/3180 /05	22-C / 5-E, MAIN ROAD, KULAVANIGARPURAM, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI 627 002TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	12-May-71
2799 R. MOHAN (D.RAJAGOPAL)	TNSVC/2048 /05	NO.10, AIBEA NAGAR, IIIIRD CROSS, KOOHAPAKKAM, CUDDALORE 607 002., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	22-Dec-64
2800 R. MOHANARANGAN S/O K.RAMASAMY KUNAR	TNSVC/3469 /06	D.NO.8, 6TH CROSS, PARAMASIVAPURAM, LALGUDY, TIRUCHY DSIT 621 601.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	23-Oct-57
2801 R. MURUGAN (S.RANGASAMY)	TNSVC/1459 /05	W-10, KAKKILCHIKKAMPATTY STREET, GUDALUR 625 518, THENI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	03-Jun-68
2802 R. MURUGANANTHAM S/O D.RATHINAM	TNSVC/3324 /06	M.G.R. NAGAR, SENDURAI (T.K.) PERAMBALUR DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	20-May-82
2803 R. MURUGASAN (M.RENGASAMY)	TNSVC/720/ 05	MUNIYAPPAR KOVIL IIIIRD CROSS, MELA AGRAHARAM, ARIYALUR 621 704, PERAMBALUR DISTRICT	B.V.Sc/TNV&ASU /96	01-May-71
2804 R. MURUGESAN (P.RAMASAMY)	TNSVC/584/ 05	KADAMBUR POST, AMBAPOOR VIA, UDAYARPALAYAM TK, PERAMBALUR DT, 621 701.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	01-Apr-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2805	R. MUTHU RAMALINGAM S/OM.RAMASAMY	TNSVC/3531 /06	SILLUKAPATTI, M.REDDIAPATTI (P.O.) ARUPPUKOTTAI (T.K.) VIRUDHUNAGAR- 626 118, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	24-Dec-82
2806	R. MUTHUKAMANAN (S.RAMASAMY)	TNSVC/809/ 05	56 / 1, RAJAMANI HOUSES, SWAMINATHA AZARI STREET, SEKKALAI ROAD, KARAIKUDISIVAGANGAI DISTRICT 630 002,	B.V.Sc/TNV&ASU /91	16-Apr-64
2807	R. MUTHUMANI (T.K.RAJAGOPAL)	TNSVC/1944 /05	48, MANIKKAVASAGAR STREET, AMMAPET, SALEM - 636003, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	05-Mar-58
2808	R. MUTHUSAMY (K.RAMASAMY)	TNSVC/2715 /05	370-C, KARUR MAIN ROAD, MULANUR P.O. DHARAPURAM (T.K.) ERODE DISTRICT PIN 638 106, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	01-Jul-72
2809	R. MUTHUSELVI (K.RAJASEKARAN)	TNSVC/788/ 05	15A, PICHAIKUTTY NADAR STREET, ARUPPUKOTTAI, VIRUDHUNAGAR DIST. 626 101 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	25-Jul-70
2810	R. NALLATHAMBI (K.RAMASAMY GOUNDER)	TNSVC/1411 /05	NO.3, KASTHURIBAI STREET, KALLAKURICHI P.O. & T.K. VILLUPURAM DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	09-May-59
2811	R. NATARAJAN (S.RAJAVELU)	TNSVC/2051 /05	68/165, BAZZAR STREET, VRIDDHACHALAM 606 001, CUDDALORE DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	04-Aug-53
2812	R. NAVANEETHAKRISHNAN S/O A.RAMASAMY	TNSVC/3522 /06	111/33/E1, RAJESH BHAVAN, NATARAJ NAGAR, STATE BANK COLONY, TUTICORIN 628 002, TAMIL NADU	BVSc/MU/66	15-Jun-41
2813	R. PACHAI (RAJA)	TNSVC/1946 /05	VALLUR, ANNA COLONY (VIA), PAPPARAPATTI (PO), DHARMAPURI (DT)636809, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-Jun-70
2814	R. PALANISAMY (C.RAMANA GOUNDER)	TNSVC/2532 /05	NALLA GOUNDEN PALAYAM, M.ANUMAN PALLI POST, ERODE DIST 638 101 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	10-Feb-63
2815	R. PALANIVELU (S.RATHINAVELU)	TNSVC/1065 /05	56 / 7.A, BALAJI COMPLEX, DOAK NAGAR EXTENSION, MADURAI - 16. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	14-Jun-65

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2816	R. PANDIAN (L.RAMASAMY)	TNSVC/1154 /05	41, BHARATHI NAGAR, S.S. SALAI, RASIPURAM 637 408, NAMAKKAL DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80 /04	12-Jun-56
2817	R. PARTHEEBAN (P.RAJAN)	TNSVC/381/ 04	153/251-C, THIRUNAVUKKARASU NAGAR, 186, GANDHI PURAM, INDIRA NAGAR, SOUTH VDAIYAR PALAYAM, ATTUR PO & DT, SALEM DT, 636 102.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	30-Jul-80
2818	R. PARTHIBAN (V.RAJASEKARAN)	TNSVC/49/0 3	230 E / 4, GANDHIPURAM, ATTUR SALAM DISTRICT, PIN : 636 102 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	15-Jun-78
2819	R. PAVAI S/O A.RAMASAMY	TNSVC/3342 /06	THIRUNALUR NORTH, ARANTHANGI (TK) PINCODE 614 624, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-Mar-82
2820	R. PERUMAL SWAMY (RANGASAMY)	TNSVC/2558 /05	28.B. SAKTHI ILLAM, MIN NAGAR, NEAR AMALA MATRIC SCHOOL, GOBICHETTIPALAYAM 638 452, ERODE DIST.	B.V.Sc/TNAU/88	20-May-64
2821	R. PONNAMBALAM S/O P.RAJAMANI	TNSVC/3424 /06	2/81, DOWLATH NAGAR (EXTN), SEMMANDDAM, CUDDALORE - 1. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	24-Dec-65
2822	R. PONSINGH(P.RAMALINGA M)	TNSVC/22/0 2	2 / 27, THERADI STREET, VIRALIMALAI, PUDUKOTTAI DISTRICT 621 316 TAMILNADU	B.V.Sc&AH/PU/02	10-Dec-79
2823	R. POONGUZHALI (W/O T.RAJASEKARAN)	TNSVC/1674 /05	14, 'A' BLOCK, SNEHAM APARTMENTS, 3, PARK ROAD, ANNA NAGAR WEST EXTN. CHENNAI 600 050	B.V.Sc/TNV&ASU /91	21-Apr-88
2824	R. PRABAHAR S/O B.RAMACHANDRAN	TNSVC/3483 /06	12, KULLAMA NAIDU STREET, ALLINGARAM, THENI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	16-Apr-70
2825	R. PRABURAM SANKAR (I.RAMACHANDRAN)	TNSVC/1095 /05	39 / 7-H, VALMIGI STREET, S.S. COLONY, MADURAI - 625 016 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	05-May-74
2826	R. PRAKASAM (P.RANGASAMY)	TNSVC/2568 /05	176, NATHAKADAIYUR, NATHAKADAIYUR POST 638 108, ERODE DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	10-Apr-66

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2827 R. PRAKASH KRUPAKARAN (A.M.RAJA)	TNSVC/3192 /05	4 / 374, SRI VINAYAGA COLONY, THURAIYUR MAIN ROAD, KOSAVAMPATTI POST, NAMAKKAL DIST- 637001TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	31-Jul-70
2828 R. PRIYADHARSINI (A.RAJU)	TNSVC/506/ 05	LDC, B15, II AVENUE, BHAVANISAGAR, ERODE DT. 638451TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	28-Nov-81
2829 R. RADHA KRISHNAN (R.RAMACHANDRAN)	TNSVC/1133 /05	7A, VAKKIL SOUNDIAH STREET, ARUPPUKOTTAI 626 101, VIRUDHUNAGAR DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	04-Dec-64
2830 R. RADHAKRISHNAN (A.RAMASWAMY)	TNSVC/3095 /05	16, JAWAHAR STREET, MUTHUKRISHNAPURAM, KADAYANALLUR, TIRUNELVELI DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	30-Apr-65
2831 R. RADHAKRISHNAN(RAJU)	TNSVC/1968 /05	7 / 129, OPP. TRAVELLER'S BUNGALOW ATTIYAMANKOTTAI, A.JETTIHALLI POST, DHARMAPURI DT.	B.V.Sc/TNAU/88	23-May-63
2832 R. RAGHAVAN (D.T.RAMUNaidu)	TNSVC/1933 /05	16 / 175, THOMSANPET ST., KAVERIPATANAM (PO), KRISHNAGIRI (DT) 6351 12, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	15-May-52
2833 R. RAGHUNANDAN (V.RAMACHANDRA RAO)	TNSVC/1633 /05	FLAT NO.6, 2ND FLOOR, 'A' BLOCK, PARSN GARDENS, MELUR ROAD, SRIRANGAM, TRICHY 620 006	B.V.Sc/TNAU/80	01-Dec-54
2834 R. RAHDAKRISHNAN (G.RAJAGOPAL)	TNSVC/1232 /05	KAZHUGACHALAPURAM, KURUMALAI (PO), KOVILPATTI(TK), THOOTHUKUDI (DT), TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	13-Jun-60
2835 R. RAJA (A.RAJAMANICKAM)	TNSVC/745/ 05	NINTH CROSS, INDIRA NAGAR, MANNACHANALLUR 621 005, TRICHY DISTRICT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	26-Feb-77
2836 R. RAJA GOPAL (K.RAMAMIRTHAM)	TNSVC/2514 /05	MAMAHARISHI ESWARAYA GURUDEVAR, THABOVANAM, PUNJAI PULIYAMPATTI, ERODE DIST 638 459.	B.V.Sc/TNAU/75	05-Jan-53
2837 R. RAJASEKARAN (N.RENGARAJULU)	TNSVC/2673 /05	NO.333, IIIIRD CROSS, SHANMUGANAGAR, VAYALUR ROAD, U.T.MALAI, TRICHY600 102, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	02-Aug-56

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2838 R. RAJASEKARAN (T. RAJAMANIKKAM)	TNSVC/397/ 04	BECKKADU, R.PUDUPPALAYAM POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT, PIN : 637 408.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	19-Jul-81
2839 R. RAJASEKARAN (T.N.RENGARAJU)	TNSVC/1630 /05	242/115, NORTH STREET, THURAIYUR P.O. TRICHY DISTRICT- 621 010,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	05-Jun-61
2840 R. RAJATHILAGAN (K.RAMAI AH)	TNSVC/1962 /05	THUMBAIPATTY, MELUR TK, MADURAI DIST. 625 105..TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	05-May-62
2841 R. RAJENDRAN (G.RAMASAMY)	TNSVC/1284 /05	AARVEE COTTAGE, 998 / 6, 4TH STREET, RAJIV NAGAR, KDVILPATTI, TUTICORIN DISTRICT,TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNAU/83	25-Mar-60
2842 R. RAJENDRAN (V.RAMASAMY)	TNSVC/1207 /05	4 / 716, NAGARAJAPURAM, VASANTHAPURAM (PO), NAMAKKAL - 2TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	19-Jan-65
2843 R. RAJESH KUMAR (DR.V.N. RAJAN)	TNSVC/339/ 04	2-6 / 4, SARASWATHY NIVAS, VAIGAI STREET, KOODAL NAGAR, MADURAI - 18TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	07-Nov-79
2844 R. RAJESH KUMAR (V. RAJARAM)	TNSVC/184/ 03	34-L3, VELLORE MAIN ROAD, ARCOT 632 503TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	20-Jun-80
2845 R. RAJESWARI (L. RAMAN)	TNSVC/201/ 03	THEETHANDEPET POST, CHENGAM TALUK, TIRUVANNAMALAI DIST 606 701.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	25-Jun-78
2846 R. RAJKUMAR (G.RAMASAMY)	TNSVC/1334 /05	NORTH STREET, LATHUVADI POST, GANGAVALLI TK, SALEM 636 116.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	31-May-78
2847 R. RAMARAJU (P.RAMASAMY)	TNSVC/1363 /05	B / 5, SRI DEVI APARTMENT, 102, G.S.T. ROAD, CHROMEPET, CHENNAI 600 044,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	01-Dec-52
2846 R. RAMASUBBIA (RENGASAMY)	TNSVC/1646 /05	26, THILAKAR NAGAR I STREET, KALADIPET, THIRUVOTRIYUR, CHENNAI 600 019	B.V.Sc/TNV&ASU /93	12-May-68

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2849	R. RAMASWAMY (M.RAJAVELU)	TNSVC/3178 /05	55 / 2, MALAIKATTI STREET, CHIDAMBARAM 608 001, CUDDALORE DISTRICTTAMILNAOU	B.V.Sc/TNAU/80	24-Sep-56
2850	R. RAMESH (A.RAMASAMY)	TNSVC/697/ 05	22 / 15, K.K.V. MUDALI STREET, KUMARASAMY PET, OHARMAPURI 636.703, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	01-Jun-75
2851	R. RAMESH (K.RADHAKRISHNAN)	TNSVC/2234 /05	NO.7, NEW NO.13, AZIZ MULK, III STREET, THOUSAND LIGHTS, CHENNAI -8.	B.V.Sc/TNV&ASU /92	19-Nov-68
2852	R. RAMESH (K.RATHINAM)	TNSVC/1915 /05	SEMBUVARAYAN KOIL STREET, '1 PAPPIREDOIPATTY (PO) (TK), DHARMAPURI (DT), TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	15-Jul-71
2853	R. RAMESH S/O P.RAMASAMY	TNSVC/3437 /06	11, T.B. ROAD, THENPATHY POST, SIRKALI TK, NAGAI OIST, PIN : 609 111, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	2-Jun-72
2854	R. RAMYA (M. RAJENDRAN)	TNSVC/190/ 03	13, MARAPPAN THOTTAM, PATTANAM ROAD, RASIPURAM PO, NAMAKKAL DI 637 408, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	03-Jul-80
2855	R. RANGANATHAN (S.RANGASWAMY)	TNSVC/2555 /05	27, T.VEERAPATRA STREET, SATHY ROAD, ERODE 638 003, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/82	21-Jun-58
2856	R. RANGASWAMI (A.RAMAN)	TNSVC/2837 /05	187, VAANCHINATHAN STREET, P.PULIAMPATTI, EROOE DIST 638 459, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	04-Apr-60
2857	R. RANGEGOWDU (R.RANGEGOWDU)	TNSVC/1978 /05	NO.118, OLD TEMPLE LAND, HUDCO, HOSUR, KRISHNAGIRI DIST., TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	01-Jul-48
2858	R. RAVEENDRAN (M.RAMALINGAM)	TNSVC/3278 /05	THIRUPPATHISARAM EAST, VIA- THAZHAKUDY, THIRUPPATHISARAM POST 629 901, KANYAKUMARI OIST, TAMILNAOU	B.V.Sc/TNAU/78	05-Jun-50
2859	R. RAVIS/O K.RANGANATHAN	TNSVC/3425 /06	16/14-A, PILLYAR KOVIL ST, PANDIYAN NAGAR, GUDIYATHAM, VELLORE DIST 632 602, TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNAU/88	19-Feb-58

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2860 R. RAVIKUMAR (R.RENGASAMY)	TNSVC/871/ 05	255 DA 56 / 9 NORTH MADHAVI ROAD, NEAR N.S.K. MAHAL, PERAMBALUR 621 212.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	31-Jul-75
2861 R. RENGANATHAN (M.RAMALINGAM)	TNSVC/1226 /05	1 / 81, MELAARUNACHALAPURAM, KELA ARUNACHALAMPURAM (PO), PUDUR (VIA), VILATHIKUALM (TK), TUTICORIN (DT) 628905	B.V.Sc/TNV&ASU /95	02-Jun-72
2862 R. RENGASAMY (C.RAMALINGAM)	TNSVC/99/0 3	SOUTH STREET, SIRUKADAMBUR,VNJINI POST,SENDURAI TALUK & VIAPERAMBALUR DT 62,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	25-Apr-80
2863 R. RICHARD RAJ (M.RAJARETNA MONY)	TNSVC/2134 /05	3-100 B2/3, ARUL ROAD, SCOTT NAGAR., NAGERCOIL-3, KANYAKUMARI DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	22-May-66
2864 R. RISHI KESAVAN(P.RAMACHANDR AN)	TNSVC/166/ 03	23C. WEST STREET, NO.7, JOHNSON NAGAR,SALEM 636 007TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	29-May-80
2865 R. SAGUNTHALA (S.RAJANGAM)	TNSVC/3059 /05	OPP. TO VETERINARY DISPENSARY, MEENSURUTTY (PO) 612 903, UDAIYARPALAYAM (T.K.),TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	09-Jun-83
2866 R. SAKTHIVADIVU S/O S.RATHNASAMY	TNSVC/3298 /05	25, THIRU NAGAR, MALLASAMUDRAM, NAMAKKAL DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	1-Jul-82
2867 R. SAMUNDEESWARI (V.RAJENDRAN)	TNSVC/530/ 05	14 D / 2, RAMASAMY ST -2, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	30-Jul-81
2868 R. SANKAR (S.RENGASAMY)	TNSVC/1374 /05	M-1, MAY FLOWER GARDENS, SRINIVASA AVENUE ROAD, RAJAANNAMALAIPURAM, CHENNAI 600 028	B.V.Sc/TNV&ASU /93	02-Jul-70
2869 R. SANTHI (R.SEKAR)	TNSVC/1031 /05	1-17-10 S2, THIRUNAGAR COLONY, SANKARI SALEM DT.,	B.V.Sc/TNAU/88	29-Jun-66
2870 R. SARAVANA BAVAN (RAMALINGAM)	TNSVC/2806 /05	1-38 / 24, VEDHATHRI NAGAR, PASUPATHIKOIL POST, THANJAVUR DIST. TAMIL NADU 614 206.	B.V.Sc/TNAU/85	12-Jul-61

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2871 R. SARAVANAN (A.RAMACHANDRAN)	TNSVC/609/ 05	KATHALAM PATTU VILLAGE, MEKKALUR POST, THIRUVANNAMALAI 604 601.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	16-Apr-82
2872 R. SARAVANAN (V.RAMAKRISHNAN)	TNSVC/847/ 05	3 / 678, OPPOSITE GOVT.HR.SEC. SCHOOL, B. THURINJIPATTY POST, PAPIREDIPATTY TALUK, DHARMAPURI DT. PIN : 635 301.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-Jun-71
2873 R. SATHISHKUMAR (P.RAMASAMY)	TNSVC/1658 /05	15.V.R. PURAM MAIN ROAD, EXTN.II UPPILIPALAYAM, COIMBATORE DIST. PIN:641 015,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	10-Mar-77
2874 R. SATHIYA (V.S.RAJAGOPAL)	TNSVC/333/ 04	CHENDATHUR VILLAGE, MAILPATTI POST, VELLORE DT. 636 008TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	11-Apr-80
2875 R. SATHYA (L.JAYASHANKAR)	TNSVC/717/ 05	KOODAPATTU, RAJAPALAYAM P.O. (VIA) VENGALAPURAM, TIRUPATTUR TK. VELLORE DISTRICT 635 653	B.V.Sc/TNV&ASU /95	21-Jun-74
2876 R. SEKAR (RAMAKRISHNAN)	TNSVC/1540 /05	KONAMANGALAM VILLAGE, THALUDALI POST, TINDIVANAM TK, VILLUPURAM DT, TN, PIN : 604 304.	B.V.Sc/TNV&ASU /91	09-Apr-65
2877 R. SEKAR(G.RENGASAMI)	TNSVC/2548 /05	1, ELLAPALAYAM RDAD, PERIYA SEMUR, ERODE 638 004, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/87	03-Jun-64
2878 R. SEKAR(RAMANATHAN)	TNSVC/2463 /05	RAJANTHANGAL VILLAGE, SANIPOONDI POST, AVOOR VIA, TRIVANNAMALAI DIST 606 755.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	09-Jul-58
2879 R. SELLADURAI (G.RETHINA VELU)	TNSVC/2804 /05	B-3, CAUVERY NAGAR, RAILADY, MAYILADUTHURAI 609 003.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	10-May-58
2880 R. SELLADURAI (M.RAJAGOPAL)	TNSVC/2897 /05	2 / 309, SDUTH STREET, THIRUVENGADU POST, 609 114, SIRKALI TK.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	19-Apr-64
2881 R. SELLEESWARA MOORTHY (M.RAJU)	TNSVC/386/ 04	A. SEMBOLIMIRAM PALAYM, BHAVANI TK, ERODE DT 638 501TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	13-Mar-80

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2882 R. SELVAKUMAR (C.RAMASAMY)	TNSVC/335/ 04	3 / 9 KONDI CHETTI PATTI (KADAKLA) PERIYAPATTI (P.O.) NAMAKKAL T.K. (DT.) 637001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Jun-80
2883 R. SELVAKUMAR S/O S.RAJUPANDARAM	TNSVC/3412 /06	137, VMR NAGAR, MEYYANUR, SALEM - 4, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	28-Jul-69
2884 R. SELVAM (A. RAMASAMY)	TNSVC/212/ 03	1 / 12, T. GOUNDAMPALAYAM, THIDUMAL PO, PARAMATHI VELUR TK, NAMAKKAL DT.637213.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	06-Jun-80
2885 R. SELVAM (P.RASU)	TNSVC/1534 /05	KEEZHAMALIGAI POST, PONPARAPPI VIA, SENDURAI TK, PERAMBALUR DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	11-May-75
2886 R. SELVAM (S.RAMASAMY)	TNSVC/1164 /05	1 / 112, MINNAM PALLI, VAIYAPPAMALAI PO 637 410, NAMAKKAL DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	01-May-63
2887 R. SELVARAJ (C.RAMANUJAM)	TNSVC/2957 /05	BIG PONNERI, MANDALAVADI P.O. (VIA) JOLARPET, VELLORE DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	06-Oct-51
2888 R. SELVARAJ (K. RAMASAMY)	TNSVC/1856 /05	11 / 20, NORTH STREET, THOLURPATTI P.O. THOTTIYAM TK TRICHY DISTRICT 621 215 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	12-May-77
2889 R. SELVARAJ (V. RAJU)	TNSVC/539/ 05	17, NEHRU STREET. ANTHIYUR 638 501 ERODE DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-Jul-80
2890 R. SELVARAJAN S/O S.P.RATHINAM	TNSVC/3405 /06	6/3/31, MUTHAMIL STREET, OPPOSITE TO V.V.V.WOMEN'S COLLEGE, VIRUDHUNAGAR.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	16-Apr-52
2891 R. SELVARAJAN(A,RAMASAM Y)	TNSVC/2363 /05	PAPPAYAPURAM POST, T.KALLUPATTI VIA, MADURAI OIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	01-Jan-55
2892 R. SELVARAJU (K.RENGASAMY)	TNSVC/2393 /05	G-3, N.J. SHELTER, 16, OFFICERS COLONY, PHUTHUR, TRICHY 620 017.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	08-Jan-52

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2893 R. SENTHIL KUMAR (K.RAMASAMY)	TNSVC/618/ 05	VADAKUMARAI, THENKUMARAI POST, ATTUR TK, SALEM DT, PIN: 636 121.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jun-82
2894 R. SENTHIL KUMARAN (K.R.RAMAN)	TNSVC/1486 /05	6 / 372, KOTHAMANGALAM(P.O.) KEERAMANGALAM (VIA) PUDUKOTTAI DISTRICT 614 624,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	17-May-77
2895 R. SENTHILRAJAPRABU (P.RAJAMANI)	TNSVC/1265 /05	97A / 1, FOREST ROAD, FIFTH STREET, THENI 625 531,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	13-Apr-78
2896 R. SENTHILRAMANAN (S.RAMAMOORTHY)	TNSVC/3122 /05	KAILAPURAM (V),MAMPATTI (PO) HARUR (T.K.) DHARMAPURI DISTRICT, PIN 636 902TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	22-Jul-77
2897 R. SHANMUGA BHARATHI (S.RAJAMANICKAM)	TNSVC/1124 /05	313, CHINNA PACHAI KADU, SEELANAICKEN PATTI, SALEM 636 201.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	07-Nov-54
2898 R. SHANMUGAM (K.RAMASAMY)	TNSVC/572/ 05	EALAVAMPALAYAM (KOVIL KADU), KACHIPALLI POST, IDAPPADI TK, SALEM DT- 637 102.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	18-May-80
2899 R. SHEIK DAWOOD (M.S.RAJA)	TNSVC/1392 /05	8-AI. THARMAR KOVIL STREET, KEERAMANGALAM, PUDUKOTTAI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	11-May-73
2900 R. SHIVAKUMAR (S.RANGASAMY)	TNSVC/80/0 3	14,1044, 73RD.ST, XII SECTOR, K K NAGAR, CHENNAI 600 078 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	20-May-78
2901 R. SIVA S/O V.RAJAGOPAL	TNSVC/3500 /06	50.A, METTU STREET, SENDAMANGALAM POST, NAMAKKAL DIST 637 409.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	3-Feb-79
2902 R. SIVAKUMAR (M.M.RAMASAMY)	TNSVC/1928 /05	1 / 14, PALKARAKUTHIYAPPA KONAR ST., MACHAMPALAYAM, SUNDARAPURAM PO, COIMBATORE - 641024	B.V.Sc/TNV&ASU /96	07-Jun-72
2903 R. SIVANANDAM S/OM.D. RAJARATHINAM	TNSVC/3557 /06	PLOT NO.2, DOOR NO.24/C,VEMBACHI APTS.,C.R.RAMAKRISHNAPURAM,VI RUGAMBAKKAM- 600 092,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	4-May-44

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
2904 R. SRIDEVI (R. RAJANGAM)	TNSVC/82/0 3	2 / 75A, PERIYAKRISHNAPURAM, UDAYARP ALAYAM TALUK, VARADARAJANPET VIA, PERAMBALUR	B.V.Sc&AH/PU/02	02-Sep-79
2905 R. SRIDEVI(P.RAMASAMY)	TNSVC/2241 /05	2/101, MOSQUE STREET, SANNIYASIPATTY, SANKARI WEST, SALEM DIST 637 303.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	10-Dec-76
2906 R. SRINIVASAN (G.RADHAKRISHNAN)	TNSVC/2368 /05	SITE NO.B, MOOVENDHAR NAGAR, CRYSTAL GARDEN, NOOMBAL ROAD, PILLIYAR MADAN THANGAL, IYYAPPAN THANGAL POST, CHENNAI 600 056.	B.V.Sc/TNAU/80	07-Jun-56
2907 R. SRINIVASAN (K.RAJARAMAN)	TNSVC/1939 /05	NO.51, WEST MADA STREET, THIRUVOTTIYUR, CHENNAI 600 019	B.V.Sc/TNV&ASU /01	29-Apr-76
2908 R. SUBBARAYALU (L.RAMASAMY)	TNSVC/3054 /05	PLOT NO.1, NEW NO.26, BHARATHY COLONY. ALWARTHIRUNAGAR, CHENNAI 600 087	B.V.Sc/MU/65	15-Jul-40
2909 R. SUBRAMANI (RANGASAMY GOUNDER)	TNSVC/2471 /05	NAMASIVAYAPURAM, THOTTIYAM POST, KALLAKURICHI TK, VILLUPURAM DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/75	20-Oct-51
2910 R. SUBRAMANIAM (S.V.RAMAMIRTHAM PILLAI)	TNSVC/1033 /05	NO.5 / 88P, SHANMUGAM ST., ALAGAPURAM KATTUR, SALEM - 636016TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	02-Apr-47
2911 R. SUBRAMANIAN (M.RAMAR)	TNSVC/288/ 04	135, PRC NAGAR, PTC POST, MADURAI 625 022.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	23-Jul-80
2912 R. SUBRAMANIAN (N.RAJAGOPALAN)	TNSVC/2248 /05	FLAT NO.37, NEW NO.11, RAJALAKSHMI NAGAR, 7TH CROSS STREET, VELACHERRY, CHENNAI 600 042.	B.V.Sc/MU/66	16-Sep-41
2913 R. SUBRAMANIAN (R.RANGASWAMY GOUNDER)	TNSVC/2566 /05	KUPPANDAMPALAYAM POST, ATHANI VIA, PIN : 638 502, BHAVANI TK, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	19-Jan-50
2914 R. SUDHA (R.RAMANATHAN)	TNSVC/528/ 05	PACHANOR, PULLAGOUNDAMPATTI PO, THIRUCHENGODU TK, NAMAKKAL DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-Jun-81

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2915 R. SUDHA(N. RANGANATHAN)	TNSVC/102/ 03	NO.470, V STREET, VENKATESHPURAM, ARAKKONAM 631 0, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	11-Aug-80
2916 R. SUJATHA (W/O T.SARAVANAN)	TNSVC/3163 /05	27, PONNAMBALA NAGAR, CHIDAMBARAM, CUDDALORE DISTRICT PIN 608 001 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /99	17-May-74
2917 R. SUKUMAR (A.RAMACHANDRAN)	TNSVC/1457 /05	AYYAKKANNOOR, GUZILIAMPARAI (P.O.) VEDASANDUR TALUK, DINDIGUL - 624 703, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	02-Jun-76
2918 R. SUKUMAR (K.S.RAMAIAH)	TNSVC/3098 /05	4TH STREET, KARUKKURICHI, TIRUNELVELI 627 417 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	04-May-59
2919 R. SUKUMAR (M.RAJACHANDRA SEKAR)	TNSVC/1045 /05	10, VIJAYARAGAVA CHARRIAR ROAD, KOMARASAMPATTI, SALEM - 636007 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	23-Oct-61
2920 R. SUMAN (T.RATHINASAMY)	TNSVC/3019 /05	MAIN ROAD, KOOTHUR(PO) THIRUKKATTUPALLI VIA, THIRUVAIYARU TALUK, THANJAVUR DT 613 104 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	08-Sep-82
2921 R. SUNDARAM (S.RENGANATHAN)	TNSVC/2611 /05	156/1, SOUTH STREET, PILAKKURICHY PO, VARIYANKAVAL VIA, SENDURAI TALUK, PERAMBALUR DISTRICT 621 806	B.V.Sc/TNV&ASU /00	05-Jun-77
2922 R. SURESH (P.RAJA)	TNSVC/626/ 05	NO.7, BAZAR STREET, HARUR PO & TK, DHARMAPURI DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-May-81
2923 R. SURESH KUMAR (C.RAJU)	TNSVC/1487 /05	20A, KAMBAR STREET, CHINNATIRUPATHI POST SALEM 636 008, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	25-Dec-75
2924 R. SURESHKUMAR (K.RAJARAM)	TNSVC/2988 /05	M.7, THIRUVALLUVAR NAGAR, RAJAPALAYAM, VIRUDHU NAGAR DISTRICT PIN 626 117 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	26-May-69
2925 R. SWAMINATHAN (T.RENGADURAI)	TNSVC/3094 /05	21, RAM VILAS NAGAR, N.G.O. 'B' COLONY, TIRUNELVELI 627 007 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /87	04-Jul-64

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2926	R. THANGADURAI S/O M. RAJARATHINAM	TNSVC/3387 /06	PACHAKOIL KADU, KATTANACHANPATTY PO, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	2-May-82
2927	R. THANGATHURAI S/O P. RAMASAMY	TNSVC/3486 /06	2A, KRISHNAN KOVIL STREET, KADAYANALLUR, TENKASI TK, TIRUNELVELI DIST, 627 751. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	9-May-75
2928	R. THATCHINAMOORTHY (K. RENGASAMY)	TNSVC/459/ 05	94-B, NARANGIYAPATTU (NORTH), KARAMBAKKUDY (PO), PUDUKKOTTAI DT. 622302 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	16-Jun-78
2929	R. THIAGARAJAN (V. RAMASAMY)	TNSVC/3166 /05	NO.10, PETHAPERUMAL STREET, TRICHY ROAD, THANJAVUR 613 007 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	11-May-68
2930	R. THILLAI GOVINDAN (S.A. RANGANATHAN)	TNSVC/2464 /05	18, SOUTH STREET, VIRUDHACHALAM, CUDDALORE DIST., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	19-May-56
2931	R. THIRUGNANAM (RAJARATHINAM)	TNSVC/2764 /05	19, THIRUVALLUVAR STREET, EDIYAMPATTI, JOLARPET 635 851, VELLORE DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	26-Jun-74
2932	R. THIRUMALAI SELVI (A. RAMAMOORTHY)	TNSVC/691/ 05	NO 52, (OLD NO 98), ER. GOVINDARAJ APARTMENT, GENGU REDDY ROAD, EGMORE, CHENNAI-8.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	21-Apr-75
2933	R. THIRUMOOLAN (P. RANGANATHAN)	TNSVC/2643 /05	33/19, FOURTH WEST CROSS ROAD, GANDHI NAGAR, VELLORE 632 006, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	31-Jul-65
2934	R. THIRUMURUGAN (K. RAJARATHNAM)	TNSVC/734/ 05	KAMANDAPPATTI, PACHANAMPATTI, POST, OMALUR TALUK, SALEM DIST. 636 455 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	21-Aug-77
2935	R. THIRUNAVUKKARASU (RENGASAMY)	TNSVC/1110 /05	36 / 54, BHARATHIYAR IIND STREET, S.S. COLONY, MADURAI -10. TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/69	07-May-45
2936	R. THIRUPATHI S/O G.L. RANGAN	TNSVC/3485 /06	GIDDAMPATTI POST, PENNAKARAM TK, DHARMAPURI DIST, PIN : 636 809. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	7-Jun-82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2937	R. THIRUTHALINATHAN (R. RENGAMANNAR)	TNSVC/2614/05	34, KAMBAR STREET, EAST TAMBARAM, CHENNAI 600 059	B.V.Sc/TNAU/78	10-Feb-52
2938	R. THIRUVALLUVAN (A.RATHINAM)	TNSVC/1067/05	35, II STREET, PUDHU NAGAR, TIRUMANGALAM 625 706, MADURAI DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	20-May-63
2939	R. THIRUVENGADAM (M. RAJU)	TNSVC/219/03	VEPPAMPALAYAM, VELLANKOVIL PO, GOBI TK, ERODE DT, PIN :638054TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/03	20-Jul-80
2940	R. THIYAGARAJAN (T.R.RAGUNATHAN)	TNSVC/2314/05	NO.5, LAKSHMI NAGAR, COLLECTORATE POST, NAGAPATTINAM 611 003, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	06-May-47
2941	R. UDHAYA CHANDAR (M.RADHAKRISHNAN)	TNSVC/472/05	2 / 25A / 1, BALAJI NAGAR, IIIRD CROSS, RAJAGOPALAPURAM, KUTTALAM 609801TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/05	11-Jun-82
2942	R. UMAPATHY (C.RAJAGOPAL)	TNSVC/2834/05	16 / 69, THEPPAAKULAM STREET, NO.4, COIMBATORE 641 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	04-Feb-52
2943	R. USHA (M.RENGARAJU)	TNSVC/451/05	KALAGAM (VILLAGE & PO) PERAVURANI (TK) THANJAVUR DT 614804TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/05	22-Sep-80
2944	R. VASANTH S/O K.RAJAMANICKAM	TNSVC/3477/06	48, EAST THOTIPALAYAM, KADACHANALLUR POST, ERODE, NAMAKKAL DIST, TAMIL NADU 638 008.	B.V.Sc/TNV&ASU/02	10-Jan-79
2945	R. VELAYUTHAM (V.RAMALINGAM)	TNSVC/1727/05	717, THIRUVALLUVAR AVENUE, No.1, TOLEGATE, BIKSHANDAR KOIL (PO) MANACHANALLUR (TK) TRICHY DISTRICT PIN621 216	B.V.Sc/TNAU/76	01-Jun-52
2946	R. VEIMURUGAN (P.C.RAMALINGAM)	TNSVC/666/05	27, R.M. ILLAM, V.N.R. NAGAR, VIRUDHACHALAM, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/01	27-Jun-77
2947	R. VENKATA SUBRAMANI S/O T.S.RAMASAMY	TNSVC/3326/06	97, VALLUVAR NAGAR, COLLECTORATE (PO) DHARMAPURI - 5, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU/05	19-Jul-82

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2948 R. VENKATARAMANAN (V.RAGOTHAMAN)	TNSVC/2875 /05	256 / 1, VALLUVAR NAGAR (MIDDLE) INDU NAGAR POST, OOTY 643 005.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	19-Sep-73
2949 R. VENKATESAN S/O P.RANGASWAMY	TNSVC/3433 /06	M-57, PHASE IV, TNHB, SATHUVACHARI, VELLORE DIST 632 009.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	5-Feb-82
2950 R. VIDHYA (S. RAMANATHAN)	TNSVC/178/ 03	30, KAMARAJ NAGAR, KORANAD, MAYILADUTHURAI.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	08-Jun-80
2951 R. VIDYASAGAR (M.RAJIAH)	TNSVC/2061 /05	51, R.C. SOUTH STREET, SATTUR 626 203, VIRUDHUNAGAR DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	08-Jun-71
2952 R. VIJAYA KUMAR (V RAMASAMY)	TNSVC/2750 /05	14A. WARD NO.5, NATTANIKKOTTAI NORTH, PERAVURANI 614 804.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	25-Jul-72
2953 R. VIJAYAKUMAR (M.RAMALINGAM)	TNSVC/3036 /05	GOD HOUSE, KAGAM & POST, SIVAGIRI (VIA) ERODE DISTRICT PIN 638 109,TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-Mar-82
2954 R. VIJAYAN (V.RAJAN)	TNSVC/2696 /05	NUCLEUS JERSEY AND STUD FARM QTRS NO.2, AAVIN, FINGERPOST, UDHAGAMANDALAM 643 006	B.V.Sc/TNAU/82	04-May-55
2955 R. VIJAYASRI W/o.(S.ANBU KATTARY)	TNSVC/1278 /05	VIJAYA'S COMPOUND, 81-3, A.K.S. THEATRE ROAD, KOVILPATTI 628 502	B.V.Sc/TNV&ASU /92	30-Jul-69
2956 R. VIJI (A.RAMALINGAM)	TNSVC/3034 /05	5, PETTAI GANAPATHY NAGAR, KUMBAKONAM,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	06-Apr-81
2957 R. VINODH (M.RAJAGOPALAN)	TNSVC/340/ 04	NATESAN PILLAI STREET, PERAMBALUR 621212 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	14-Jun-80
2958 R. YOGESHWARI S/O.V.RAGAVAN	TNSVC/3491 /06	109, KALAIVANI NAGAR, MOHANUR 637 015, NAMAKKAL DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	19-Nov-82

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2959 R.BABU (R.RAJAIAH)	TNSVC/2334 /05	11/74, T.K.C. NAGAR, NEAR T.V.S.NAGAR, MAHARAJA NAGAR, (P.O.) TIRUNELVELI 627 011, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	25-May-67
2960 R.BALADHANDAYUTHAPA NI (M.RAMACHANDRAN)	TNSVC/2685 /05	19,4TH CROSS, RAMALINGA NAGAR SOUTH, TRICHY 520 017, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/67	03-Mar-43
2961 R.BALAJI (A.RAMASWAMY)	TNSVC/1815 /05	73, KARIKALI AMMAN KOIL STREET, POLLACHI, PIN 642 001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	14-Jun-76
2962 R.BALAMURUGAN (E.RAMASAMI)	TNSVC/789/ 05	21, SOUTH NALLIYAMPALAYAM, PARAMATHY VELUR, NAMAKKAL DIST PIN 638 182 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	12-Apr-76
2963 R.C. ARIVAZHAGAN (R.CHANDRASEKARAN)	TNSVC/2152 /05	15/3, VIOLET FLATS, MUGAPPAIR WEST, CHENNAI 600 037.	B.V.Sc/TNAU/71	20-Nov-54
2964 R.CHANDRASEKARAN(T. RAMASAMY)	TNSVC/24/ 2	S. KULATHUR & POST, SANKRAPURAM TALUK, VILLUPURAM DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/80	25-Jan-56
2965 R.EZHILRAJ (P.C.RAMAMOORTHY)	TNSVC/575/ 05	24, KAMARAJAR NAGAR, II ND ST, CHINNATHIRUPATHI, SALEM -636008 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	06-May-82
2966 R.GURUSAMY (V.RATHINASAMY)	TNSVC/1832 /05	3, SRI VINAYAGA AVENUE, RAHMATH NAGAR EXTENSION, TIRUNELVELI 627 011, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	11-Dec-61
2967 R.ILAYARAJA (P.RAJAMANICKAM)	TNSVC/422/ 05	THENKACHI PERUMAL NATHAM P.O., T.PALUR VIA, PERAMBALUR DIST 612 904, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	27-May-81
2968 R.K. KANIMOZHI (R.KANAGARAJAN)	TNSVC/2377 /05	H-34/A, MANTHOPPU COLONY, ASHOK NAGAR, CHENNAI-83, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /96	02-Sep-72
2969 R.K. SHAKTHI DEVAN (P.KATTURAJA)	TNSVC/1710 /05	138D, VELLAIYUR P.O. GANGAVALLI TK. SALEM DISTRICT PIN - 636 116, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	20-May-76

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2970 R.K.RANGANATHAN (RANGASAMY KONDU SAMY)	TNSVC/2656 /05	3/30, KALIAMMAN KOIL STREET, T.KUNNATHUR MADURAI DISTRICT, PIN 626 708TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	16-Oct-50
2971 R.KALIMUTHU (A.RAMASAMY)	TNSVC/2441 /05	4, NARAYANSAMY KOVIL STREET, ALWARTHIRUNAGAR P.O. THOOTHUKUDI DISTRICT 628 612TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	11-May-73
2972 R.KARTHIKEYAN (N.RAMARAJ REDDIAR)	TNSVC/2327 /05	1/94A, SOUTH STREET, SUKKILANATHAM P.O. ARUPPUKOTTAI PIN 626 101, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	08-Apr-65
2973 R.KRISHNAMURTHY (K.RAMASAMY)	TNSVC/2709 /05	32/1, RAMALINGA NAGAR, OLD SURAMANGALAM, SALEM 636 005, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/73	04-Sep-46
2974 R.M. KARTHIKEYANI (W/O R.SHANMUGAKANI)	TNSVC/3044 /05	10 / 1, PALANI AMMAL LAYOUT, UDUMALPET, COIMBATORE DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	24-May-75
2975 R.MANIMEKALAI (A.RAMASAMY)	TNSVC/2601 /05	PERUMARUDUR P.O. AVUDAIYAR KOIL (TK) PUDUKOTTAI DISTRICT PIN 614 618TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	02-Jun-78
2976 R.MURUGESAN (K.RAMAN)	TNSVC/2358 /05	VANNAR STREET, KUPPAMPATTI P.O. THURAIYUR TALUK, TRICHY DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	12-Apr-74
2977 R.NAVANEETHAKANNAN (P.RAMASAMY REDDY)	TNSVC/1850 /05	POOCHAMPATTY, KATCHAIKATTY (PO), T.VADIPATTY (T.K.) MADURAI DT, -625 218 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	15-Feb-70
2978 R.P. JOHN SAMUEL (S.PADMANABHAN)	TNSVC/2199 /05	14/82, JOHN VILLA, KALLUKATTI, KUZHITHURAI POST, KANYAKUMARI DT, PIN : 629 163. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	24-May-65
2979 R.P.ARAVINDHABU (K.R.PARTHIBAN)	TNSVC/317/ 04	92B, REVENUE NAGAR, RN PUDUR POST, SOTTAIYAMPALAYAM, ERODE 638 005TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	25-Aug-80
2980 R.PALANIAPPAN (K.RAMASAMY)	TNSVC/1050 /05	KATTIPALAYAM, ELANAGAR (PO), THIRUCHENGODE (TK), NAMKKAL (DT) 637 212, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	10-Apr-59

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2981	R.RACHARLA SOLOMAN RAJKUMAR	PONOSVC/2 74/05	7-328, JAIL STREET, YANAM- 533464, PONDICHERRY	B.V.Sc & AH/PU/05	17-Feb-83
2982	R.RAJAKUMAR (M.RAMALINGAM)	TNSVC/1144 /05	KOLLAN KADU, R.PUDUPALAYAM POST, RASIPURAM TALUK, PIN : 637 408, NAMAKKAL DISTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	15-Jun-71
2983	R.S.D. ABDUL RAHIMAN (R.SHEIK DAVOOD)	TNSVC/1029 /05	A-4, NEW HOUSING UNIT, COLLECTOR BUNGALOW QUARTERS, SALEM 638007, TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNAU/75	28-Mar-48
2984	R.S.D. BABU (R.SHEIKDAVOOO NIZAMI)	TNSVC/1002 /05	C-123, PERIYAR COLONY, OHADAGAPATTY, SALEM 636006TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	20-May-67
2985	R.SANKARASUBRAMANIAN (S.RAMIAH)	TNSVC/3099 /05	2, PILLAIMAR STREET, V.R. PURAM, KALAKAD 627 501, TIRUNELVELI DIST TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	03-May-59
2986	R.SARADA D/o R. CHINNA KONDAIAH	APSVC/4346 /05	NEGEPALLI, NARPALA(M), ANANTAPUR DT., ANOHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	09-Oct-79
2987	R.SELVA VINAYAGAM (A.RAMAKRISHNAN)	TNSVC/1855 /05	NO.7 / 12, SOUTH EDA STREET, ARIYALUR 621 704, PERAMBALUR DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	03-Apr-59
2988	R.SELVARAJ (I.RAKKAPPAN)	TNSVC/1839 /05	21, CHURCH COLONY 3RD STREET, VAYALUR ROAD, PUTHUR, TIRUCHIRAPALLI 820 017, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	30-Jun-59
2989	R.THANGAMUTHU(M.RAJA RAM)	TNSVC/1796 /05	A93 / 1, MARUDUPANOIAN NAGAR, SIVAGANGAI, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	02-May-74
2990	R.THANKODI(K.RAMAN)	TNSVC/1798 /05	(SOUTH) KOTTAIYUR, (NORTH) KOTTAIYUR P.O. ILAIYANGUDI (VIA) SIVAGANGAI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	03-Jun-59
2991	R.THEOGARAJAN (S.RATHINAM)	TNSVC/1601 /05	23-A, MARIAMMAN KOIL STREET, RAMANATHAPURAM - 623501 RAMANATHAPURAM DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/M.U/71	15-Jan-45

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
2992 R. THIRUPATHY VENKATACHALAPATHY S/O R.R.L. PILLAI	TNSVC/3468 /06	CHOKKALINGAPURAM, VEDASANDUR POST, DINDIGUL DIST 624 710. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	15-Apr-69
2993 R.V. KANNAN (R.VENKATESAN)	TNSVC/879/ 05	14-B, SKY HOUSE, KABILARMALAI ROAD, PARAMATHY POST, PARAMATHY VELUR TALUK, 637 207.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-May-77
2994 R.VELAYUTHAM (K.RAMASAMY)	TNSVC/1820 /05	KURAVANKUTTAIKADU, KARADYANOUR, THENGALPALAYAM P.O. RASIPURAM TK., NAMAKAL DISTRICT	B.V.Sc/TNV&ASU /94	19-Mar-71
2995 R.VISWANAATHAN(RAMALI NGAM)	TNSVC/1788 /05	NO.1076, PARTHASARATHY ILLAM, FIRSTMAIN STREET, KARPAGAVINAYAGAR NAGAR, KARAIKUDI - 2	B.V.Sc/TNAU/82	27-Mar-59
2996 RABI NARAYAN SAHU S/O SRI LAXMI DHAR SAHU	ORISSASVC /2028/05	C/O- RAMCHANDRA SAHU AT/PO - GILAJODI, VIA - JAMSULI OIST- BALASORE, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	02-Jul-80
2997 RABI RANJAN S/o SHREE AJEET NARYAN	BiharSVC/24 98/04	VILL/MUHALLAH - BARIYARPUR (BASTI) P.O. - BARIYARPUR THANA - BARIYARPUR SUB-DIV - MUNGER DIST - MUNGER, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	11-Dec-79
2998 RABINORA NATH PRASAO S/o SRI BEER BAHOUR RAM	BiharSVC/22 68/03	VILL - KUKUR MUKAN P.O NAWA NAGAR THANA - NAWA NAGAR SUB DIV - DUMRANW DIST BUXAR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 1	19-Jan-72
2999 RABISHANKAR S/o SHREE JAGGANNATH SAH	BiharSVC/24 45/04	VILL/MUHALLAH - P.M.C.H. P.O. - BANKIPUR THANA - PIRBHORE SUB- DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	16-Jan-77
3000 RADHA LAKSHMI KOTTA D/o K. V. SUBBAIAH	APSVC/4342 /05	D.NO. 25-2937, GAYATHRI NAGAR - I LANE, A.K. NAGAR (P), NELLORE 524 004., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	25-Jul-81
3001 RADHIKA KAKANI O/o UMAMAHESWARA RAO	APSVC/4334 /05	D.NO. 1-225, PRATHIPADU, GUNTUR DT - 522 019., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	30-Aug-80
3002 RAGA SUDHA MEOICHERLA D/o SREE HARI	APSVC/4335 /05	SRI RANGA&CO., LAKKAVARAM, MALIKIPU RAM(M), E.G.DT, ANDHRA PRADESH.	BVSc&AH/ANGR AU/05	26-Aug-82

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3003	RAGHAVAN PREETHA NARAYANAN	KERALA/310 1/05	THAZHATHETHIL HOUSE, EDAPPON, ARIYANIKUDY P.O PANDALAM (VIA) ALLEPPEY KERALA	BVSc&AH/MA&FS U/05	08-Jan-85
3004	RAGHAVENDRA.M.T. S/o LATE THOPPANNA	KARNASVC/ 3787/	ROOM NO. C-7, BCM HOSTEL, DINNUR MAIN RD, R.T.NAGAR, BANGALORE, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	13-May-82
3005	RAGHU RAM AMBADIPUDI S/o LASKSHMI NARAYANA SARMA	APSVC/4352 /05	D.NO. 1-45, DASARI PLOTS, KATHERU, RAJAHMUNDRY - 533 105., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	27-May-81
3006	RAGHUBAR DAYAL SINGHAL S/o MR. MURARI LAL SINGHAL	MPSVC/2317 /06	JAWAHAR MARG KAILARAS MORENA, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	30-Jun-81
3007	RAGHUBEER RANJAN S/o SHREE JAGDISH PRASAD SINGH	BiharSVC/26 16/05	VILL/MUHALLAH - PATEL NAGAR P.O. - BARBIGHA THANA - BARBIGHA SUB-DIV - SHEKHPURA DIST - SHEKHPURA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/05	01-Mar-79
3008	RAGHVENDRA SHARMA S/o SHRI RAMSNEHI SHARMA	MPSVC/2277 /05	V & P - SONI, TEH.- MEHGAON, BHIND, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/IGKVV/ 03-04	11-Aug-80
3009	RAGI RAJAN.M.	KERALA/306 7/05	MANIYAMPARAM BIL HOUSE, MALA P.O. KAVANADU, TRISSUR , KERALA	BVSc&AH/KAU/05	10-May-77
3010	RAHMAN AMINUR S/o LATE MD. OWAZ UDDIN S.K.	ASMSVC/22 17/05	VILL. ATGHARITARI, P.O. DIGHALTARI. P.S. GOLAKGANJ,DT- DHUBRI,ASSAM	B.V.Sc.& A.H/AAU/05	17-Dec-78
3011	RAHMAN UBAIDUR S/o MD. ABDUL JABBAR	ASMSVC/22 11/05	DHING GAON, P.O. DAGAON, VIA - JURIA, DIST NAGAON., ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	01-Apr-77
3012	RAHUL NAIR	KERALA/309 9/05	ATTUPURATHU HOUSE, PANNIYALI OMALLUR P.O, PATHANAMTHITTA, KERALA	BVSc&AH/JNKVV /05	30-Sep-82
3013	RAHUL ARYA S/o SHREE BAIDYANATH PRASAD ARYA	BiharSVC/23 46/03	VILL - PURANDIH P.O. -URMAL THANA - CHANDIL SUB-DIV - CHANDIL DIST - SARAIKELA- KHARSAWA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	21-Sep-79

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3014	RAHUL SHANKAR S/o SHREE UMA SHANKAR PRASAD	BiharSVC/26 11/05	VILL/MUHALLAH - MOHMADPUR P.O. JHITKAHI THANA - PATAHI DIST - EAST CHAMPARAN, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/05	18-Oct-80
3015	RAJ GURU KANG S/o SH. NIRANJAN SINGH KANG	PbSVC/2603/ 05	102, RANJIT VIHAR SIRHIND ROAD, PATIALA, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	31-Jan-80
3016	RAJA BABU GUPTA S/o SHRI OM PRAKASH GUPTA	UVC/76/06	VETY OFFICER, GOVT, VETY HOSPITAL, KARMI, DT- BAGESHWAR, UTTARACHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/00	08-Oct-75
3017	RAJA KISHORE KONKA S/o KOTESWARA RAO KONKA	APSVC/4351 /05	H.NO. 14-690 A, KC WORKS, KRISHNA NAGAR, TADEPALLI(M), GUNTUR DT-522 502, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	05-Jan-81
3018	RAJA MANDEEP SINGH S/o SH. JASWINDER SINGH	PbSVC/2616/ 05	C/OTHIND HOSPITAL, MAIN BAZAR, MALSIAN, DT- JALANDHAR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	20-Jan-81
3019	RAJALAKSHMI S.	KERALA/301 4/05	RAJASRI, MERRA 25, PONNINCHIRA ROAD, EDAPPALLY, COCHIN- 24, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	05-Dec-80
3020	RAJAN C. ANTONY (C. A. ANTDNY)	TNSVC/1309 /05	NO.6, GANDHI NAGAR, 1st MAIN ROAD, KILKATTALAI, CHENNAI 600 117.	B.V.Sc/TNALI/83	31-Dec-59
3021	RAJANI KESAVAN.	KERALA/307 0/05	KESAV LAND NALLILA P.O KOLLAM 691515, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	15-Jan-80
3022	RAJBONGSHI (MS.) GITIKA D/o MR. PRABIN RAJBONGSHI	ASMSVC/22 04/05	VILL&PO.TAMULPUR, DT NALBARI - 781367, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	01-Mar-81
3023	RAJEEV BHARATI S/o SHREE VIJAY KUMAR SINGH	BiharSVC/25 37/04	VILL/MUHALLAH - BABAN BIGHA SABANHUA P.O. - HARNAUT THANA - HARNAUT SUB-DIV - BIHARSHARIF DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	01-Mar-79
3024	RAJEEV KUMAR S/o SHREE BRIJNANDAN PRASAD	BiharSVC/25 31/04	VILL/MUHALLAH - MEYAR P.O. - KAIRIMEYAR THANA - NOORSARAI SUB-DIV - BIHARSHARIF DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/OUAT/ 04	09-Dec-75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3025	RAJEEV KUMAR S/o SRI SURYUG PRASAD	KARNASVC/3815/	VETY COLLEGE, BIDAR, KARNATAKA VETY. ANIMAL & FISHERIES SCIENCES, BIDAR - 585401, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Mar-79
3026	RAJEEV RANJAN KUMAR S/o SHREE YOGANAND PRASAD SINGH	BiharSVC/23 49/03	VILL + P.O. - AYACHINAGAR THANA - MADHUBANI SUB-DIV - MADHUBANI DIST - MADHUBANI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	25-Mar-76
3027	RAJEEV RANJAN S/o SHREE JAGDISH PRASAD	BiharSVC/23 67/03	VILL - SAIDIH P.O. - PYAREPUR THANA - GIRIYAK SUB DIV - RAJGIR DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	06-Jan-77
3028	RAJEEV RANJAN SINHA S/o SHREE RAMNARAYAN SINHA	BiharSVC/24 95/04	VILL/MUHALLAH - SONMAI P.O. - SONMAI THANA - DHANRUVA SUB-DIV - MASAUHI DIST - PATNA, BIHAR	BVSc/TNV&ASU/03	16-Jan-79
3029	RAJEEVSEN VERMA S/Ochandrasen VERMA	RajSVC/3211 /06	C/D RAJESH SHARMA C-146 KA LALGARH PLACE BIKANER, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	04-Nov-76
3030	RAJENDER PARSAD S/o AMAR SINGH NY	RajSVC/3212 /06	V.P.O. NINAN TEH BHADRA HANUMANGARH, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	12-Nov-76
3031	RAJENDRA N. BELAKERE S/o NAGARAJA	KARNASVC/3725/	K B RANGAPPA LECTURER 365/4 8TH MAIN LENIN NGR BEHIND MANJUNATH FLOOR MILL NITUVALLI NEW DAVANAGERE, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Apr-82
3032	RAJENDRO PRASAD PANDA S/O SRI TRINATH PANDA	DRISSASVC /2002/05	AT/PO: PARK STREET, CHIKITI DIST - GANJAM, PIN - 761010, DRISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	07-Sep-81
3033	RAJESH KUMAR S/o DHARM PAL CHAUDH	RajSVC/3221 /06	VPD-BHOJASAR TEH-BHADRA HANUMANGARH, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	15-Sep-77
3034	RAJESH KUMAR S/o LATE JAGGANNATH PRASAD	BiharSVC/23 04/03	VILL - HETAMPUR MIRZAPUR P.O. - PARMANANDPUR THANA - BALIA SUB-DIV - BALIA DIST BEGUSARAI, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	05-Sep-78
3035	RAJESH KUMAR S/o SHREE BHOLA PANDIT	BiharSVC/23 76/03	VILL - GHARPAR P.O + THANA - NAWADA SUB-DIV - NAWADA DIST - NAWADA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	30-Nov-73

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3036	RAJESH KUMAR S/o SHREE GANGA RAM SAHU	BiharSVC/26 05/05	VILL/MUHALLAH - BALUA P.D. - BALUA THANA - FULPARAS DIST - MADHUBANI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	01-Mar-82
3037	RAJESH KUMAR S/o SHREE JWALA PRASAD YADAV	BiharSVC/24 06/03	VILL + P.D. - LATRA THANA - GOPALPUR SUB-DIV - NAUGACHIYA DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	15-Nov-76
3038	RAJESH KUMAR SHARMA S/o SHRI BRIJ BHUSHAN SHARMA	UVC/138/06	H.ND. 32, LANE ND - 2, PREM NAGAR, JAWALAPUR DISTT HARIDWAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/HPKV /04	20-Jun-74
3039	RAJESH KUMAR SINGH S/o SHREE BRAHMDEO PRASAD SINGH	BiharSVC/24 04/03	VILL - BARBIDHI P.O. - HUSAINA THANA - BALIA SUB-DIV - BALIA DIST - BEGUSARAI, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	25-Jan-79
3040	RAJESH S/O SH RANMAL SINGH	HARSVC/189 5	VPO. BIBIPUR, T. & DISTT. JIND, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	02-Sep-79
3041	RAJESWARI R.	KERALA/308 6/05	KALAYIL HOUSE, DEVIAR COLONY VALARA P.D. ADIMALI IDUKKI 685561, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	20-May-77
3042	RAJGOR NAVINKUMAR SONAJI	GUJSVC/267 6/06	31 NAVDEEP SHAKTINAGAR 1, MANSAROVAR RDAD PALANPUR PIN 385001, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	20-Jun-83
3043	RAJIB DEB S/o SRI RATAN KR. DEB	TripuraVC/16 3/05	C/O SRI RATAN KR. DEB NDRTH JOYNAGAR, AGARTALA, TRIPURA WEST., TRIPURA	BVSc&AH/CAU/0 5	05-Apr-81
3044	RAJIV KUMAR GOYAL S/o REMESHWAR DAS	PbSVC/2588/ 05	H.ND. 19, WARD NO. 16, ANI DI KOTHI, GAUSHALA ROAD, SANGRUR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	23-Mar-83
3045	RAJKUMAR KOYARI S/o SHREE SITA KOYARI	BiharSVC/23 47/03	VILL - SRINAGAR P.D. - KHADDA- KUNJLAHI THANA - NAUTAN SUB- DIV - BETIAH DIST - WEST CHAMPARAN, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	26-Mar-76
3046	RAJKUMAR SHAH S/o SRI SHIV SHANKAR SHAH	BiharSVC/22 51/02	VILL-SATWAR PO-SATWAR (MUSTFABAD)THANA-GAUTAMBUDH NR (TARWARA)SUB-DIV- MAHARAJGANJ SIWAN, BIHAR	BVSc&AH/RAU/9 9	25-Jan-73

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3047	RAJNEESH KUMAR SINHA S/o SHREE BIRENDRA KUMAR SINHA	BiharSVC/24 31/04	VILL - MAHAVIR STHANN P.O. - SASARAM THANA - SASARAM SUB- DIV - SASARAM DIST - ROHTAS, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	01-Jan-70
3048	RAJNEESH LALS/O SH MANI MOHAN LAL	BiharSVC/24 99/04	VILL/MUHALLAH - PARBATII P.O. - BHAGALPUR CITY THANA - TATARPUR SUB-DIV - BHAGALPUR DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/JNAU/0 4	01-Mar-78
3049	RAJNEESH S/O SHREE RAMESHWAR PRASAD	BiharSVC/24 60/04	VILL/MUHALLAH - ANANDPURI P.O. C/O PATLIPUTRA RESIDENCY GREEN HOUSE, G-2, ANANDPRUI SUB-DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/UAS,B' LORE/04	02-Mar-77
3050	RAJNISH KUMAR S/O SH L.BAIDEV KRISHAN	HARSVC/186 3	14, SARASWATI NAGAR, SINGHAWALA ROAD A/CITY, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	15-Mar-81
3051	RAJPAL SINGH S/O SHRI JAGMAL SINGH	UVC/144/06	VETY OFFICER,GOVT.VETY HOSPITAL,DHUMAKOT,PAURI GARHWAL,UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/98	10-Nov-69
3052	RAJPURA RAISBHAI M.	GUJSVC/267 7/06	AT & POST, MUMANWAS TA VADGAM,DIST BANASKANTHA- 385120, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	23-May-83
3053	RAJU DAS S/O SHRI PARIKSHIT DAS	WBSVC/320 5/05	22/2G, GANGULYPARA LANE KOLKATA - 700037, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	05-Jan-82
3054	RAJVIR SINGH PAWAIYA S/O SH INDER SINGH PAWAIYA	HARSVC/190 3	514, P.L.A. NEAR TOWN PARK, HISAR, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/JNN VV/89	08-Jun-65
3055	RAKESH KUMAR S/O SH MAHA. NAND	HARSVC/187 7	H.NO. 180, LAJPAT NAGAR, HISAR., HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	15-Sep-78
3056	RAKESH KUMAR S/O SH MAHA NAND	HARSVC/190 2	513, SEC-I, SANGRIA, HANUMANGARH,HARYANA	B.V.Sc.&A.H/RAJ KVV/02	20-Jul-78
3057	RAKESH KUMAR S/o SH INDERJEET KUMAR	PbSVC/2604/ 05	GREWAL STREE, WARD NO. 10, NEAR KHALSA TAILOR, MANSA, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	20-Oct-81

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD.</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3058 RAKESH KUMAR S/o SH. BALDEB SINGH	HPSVC/740/ 05	ANU KALAN, TEH. & P.O. HAMIRPUR DISTT. HAMIRPUR, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	07-Sep-81
3059 RAKESH KUMAR S/o SHREE RAMYATAN PRASAD SINGH	BiharSVC/25 25/04	VILL/MUHALLAH - BALTARA P.O. - FULWARIA THANA - GOGRI SUB- DIV - GOGRI DIST - KHAGARIA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	09-Oct-80
3060 RAKESH KUMAR SINGH S/o SHREE RAM KISHORE SINGH	BiharSVC/24 01/03	VILL - KARSAR P.O. - KARSAR THANA - RAGHUNATHPUR SUB-DIV- DIST-SIWAN, BIHAR	BVSc&AH/JNAU/0 3	30-Mar-76
3061 RAKESH KUMAR SINGH S/o SHREE SUPRIYA KUMAR SINGH	BiharSVC/25 19/04	VILL/MUHALLAH - SALEHPUR THANA - AKANGASARAI SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/04	12-Jul-76
3062 RAKESH KUMAR SINHA S/o SRI AJIT KUMAR SINHA	BiharSVC/22 73/03	VILL - MUNENDU NAGAR P.O - MUNENDU NAGAR THANA - FULWARISHARIF SUB - DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 0	11-Jun-73
3063 RAKESH MISHRA S/o SHREE CHIRANJIVI MISHRA	BiharSVC/24 71/04	VILL/MUHALLAH - JAGAYE P.O. + THANA - BANKA SUB-DIV - DIST - BANKA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/04	26-Jan-75
3064 RAKESH MITTAL S/o SH KEWAL KRISHAN MITTAL	PbSVC/2608/ 05	H.NO. 864, ST. NO.8, GANESHA BASTI, BATHINDA., PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	17-Aug-80
3065 RAKESH PRASAD KAVI S/o LATE SHRI MAHAVEER PRASAD KAVI	UVC/73/06	KAVI SADAN, NEAR POST OFFICE, NARENDRA NAGAR, TEHRI GARHWAL,	BVSc&AH/GBPU A&T/83	30-Jun-60
3066 RAKESH RANJAN S/o SHREE LAL DEV SINGH	BiharSVC/22 92/03	VILL - LODIPUR P.O - PATAR-HIYA THANA - JAHANABAD SUB-DIV- DIST - JAHANABAD, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/02	02-Mar-78
3067 RAKESH SAHARAN S/o SH M.R.SAHARAN	HARSVC/185 5	H. NO. 251, DEFENCE COLONY, HISAR., HARYANA	B.V.Sc.&A.H/RAJ KVV/98	3-Sept-73
3068 RAM NARESH RAMAN S/o SHREE RAJI LAL MAHARA	BiharSVC/23 48/03	VILL + P.O. - SUKKI THANA - KHAJALI SUB-DIV - MADHUBANI DIST - MADHUBANI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	14-May-74

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3069	RAM NIWAS S/O SH BHANWAR LAL	HARSVC/188 6	SUNDARIWAL LEATHER MERCHANT, BEGU ROAD, SIRSA, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	31-Jan-79
3070	RAM PRAKASH S/o SRI RAM SEWAK SHARMA	BiharSVC/25 76/05	VILL/MUHALLAH - BIRLA COLONY, HOUSE NO. A/72 P.O. - FULWARI SHARIF THANA - DANAPUR SUB- DIV - DANAPUR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/04	23-Jan-75
3071	RAM RAJ SINGH S/o SHREE RAJENDRA PRASAD SINGH	BiharSVC/25 63/04	VILL/MUHALLAH - BANDIHA P.O. - RANIPARTI THANA - ROSERA SUB- DIV - ROSERA DIST - SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc&AH/CSAA& TU/04	16-Nov-76
3072	RAM SHARAN RAM S/o SRI DASAY RAM	BiharSVC/22 55/02	VILL-SIMRAHA PO-SAROJAVELA THANA-MARAUNA SUB-DIV-NIRMALI DT-SUPAUL, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 0	25-Feb-76
3073	RAM BABU KALAKA S/o LAKSHMAIAH	APSVC/4323 /05	KAKARANAI(P.O), VATSAVAI(M), KRISHNA DT - 521 402., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc.&A.H/ANG RAU/05	10-Jun-82
3074	RAMAN KUMAR THAKUR S/o SHREE SUBHASH CHANDRA THAKUR	BiharSVC/23 56/03	VILL - TOWN THANA ROAD P.O - DUMKA THANA - DUMKA SUB-DIV - DUMKA DIST - DUMKA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	24-Mar-78
3075	RAMAVTAR DIXIT S/o SHRI VEDRAM DIXIT	UVC/118/06	CHIEF TECHNICAL OFFICER,C/O CVO OFFICE,ALMORA,UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/91	16-Aug-66
3076	RAMESH CHANDRA JOSHI S/o SHRI GOPAL DUTT JOSHI	UVC/124/06	ST NO-1,EKTA ENCLAVE, PO.NATTHANPUR, JOGIWALA,DT- DEHRADUN,UTTARANCHAL	BVSc&AH/AU/63	15-Jul-41
3077	RAMESH HEBBALLI S/o CHANDRA SHEKHAR	KARNASVC/ 3722/	BASAVA NILAYA,DENA BANK COLONY,KUMRESHWARANAGAR DHARWAD., KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	05-Oct-81
3078	RAMESH KUMAR S/O SH KISHNA RAM	HARSVC/188 9	P.O. KALANWALI, DISTT. SIRSA,HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	05-May-79
3079	RAMESH KUMAR NIRALA S/o SHREE JUDAGI RAM	BiharSVC/25 86/05	VILL/MUHALLAH - SARAIYA P.O. - SHORAMPUR THANA - JANIPUR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	02-Sep-82

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3080 RAMESH KUMAR S/o SHREE HAZARI THANKUR	BiharSVC/25 50/04	VILL/MUHALLAH - BHAKHARA P.O. - BHAKHARA THANA - SINGHWARA SUB-DIV - DARBHANGA DIST - DARBHANGA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	02-Jan-80
3081 RAMESH TIWARI S/o SHREE ASHOK KUMAR TIWARI	BiharSVC/23 07/03	VILL + P.O. - ROCKY KALA THANA - MANIKA SUB-DIV - LATEHAR DIST - LATEHAR, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	17-Jan-77
3082 RAMJEET S/o SUKH RAM	RajSVC/3204 /06	V/P ROL NAGOUR, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	10-May-79
3083 RAMKESH YADAV S/o SHRI RAGHUVIR SINGH YADAV	MPSVC/2284 /05	H-1, GOVT. POULTRY FARM CAMPUS, MOG LINE INDORE, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	10-Jun-72
3084 RAMKISHAN CHHIMPA S/o OM PRAKASH	RajSVC/3199 /06	VPO DABRI TEH - BHADRA HANUMANGARH RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	13-Jun-79
3085 RANA RANJIT SINGH S/o SHREE MAHESH SINGH	BiharSVC/24 05/03	VILL + P.O. - DENG THANA - MAJORGANJ SUB-DIV - BAIRGANIA DIST - SITAMARHI, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	26-Mar-77
3086 RANDHEER CHAUDHARY S/o SRI PRAHLAD CHAUDHARY	BiharSVC/22 41/02	VILL-TAREGANA GOLA PO- MASAUDHI THANA-MASAUDHI SUB- DIV-MASAUDHI DT-PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/7 9	05-Jan-53
3087 RANDHIR SINGH S/o SRI CHANDRA BOSE SINGH	UVC/149/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, DANGOLI, DT- BAGESHWAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /00	25-May-77
3088 RANEET KUMAR SINHA S/o BAIDH NARENDRA KR SINHA	BiharSVC/24 90/04	VILL/MUHALLAH - DARIYAPUR P.O. - CHAKANWADA THANA - BARH SUB- DIV - BARH DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/GAU/0 3	01-Mar-79
3089 RANJAN KUMAR SETHI S/O SRI PARMESHWAR SETHI	ORISSASVC /2001/05	AT/PO: SUJANPUR, DIST JAJPUR PIN - 755017, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	28-May-81
3090 RANJEET KUMAR S/o SHREE DEONANDAN PRASAD SINGH	BiharSVC/25 72/04	VILL/MUHALLAH - GADANPURA P.O. - DAYALPUR THANA - CHANDI SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	15-Jan-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3091	RANJINI A.R.	KERALA/306 6/05	ALAKKANDY HOUSE,VIJAYA HOTEL,THALASSERY RD,MANANTHAVADY PO WAYANAD,KERALA	BVSc&AH/KAU/05	05-May-78
3092	RANJIT SAM STANLEY (J.A STANLEY)	TNSVC/3197 /05	57A, RAM NAGAR, MAHARAJA NAGAR P.O. TIRUNELVELI 627 011TAMILNADU	B.V.Sc/APAU/84	20-Feb-60
3093	RAS BIHARI PRASAD YADAV S/o LTE RAMASISH PRASAD YADAV	BiharSVC/22 81/03	VILL - JAHANGIRPUR PATERA P.O + THANA - SARAI SUB-DIV - HAZIPUR DIST - VAISHALI, BIHAR	BVSc&AH/MAGA DH UNI/67	03-Jan-43
3094	RASHMI RANJAN MOHANTY D/O SRI SIBA PRASAD MOHANTY	ORISSASVC /2026/05	AT- NARUA, MAHAJAN SAHI, PO- CHARIRAKABA, VIA - KENDUPATNA, PS- SALEPUR, CUTTACK, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	10-Jul-81
3095	RASHMI RANJANNAYAK S/O SRI KUNJA MOHAN NAYAK	ORISSASVC /2023/05	AT - KUSAMBI, PO- SUNGRA DIST - CUTTACK, PIN - 754221, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	03-Jul-80
3096	RASHMI REKHA KUMARI D/o SHREE NAWAL KISHORE CHAUDHARY	BiharSVC/23 78/03	VILL - A.G. COLONY P.O. - ASHIYANA NAGAR THANA - SHASTRINAGAR SUB-DIV - WEST PATNA DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	02-Feb-79
3097	RASHMI SHUKLA D/o SHRI RAMESH KISHOR SHUKLA	UVC/17/06	VETY OFFICER,GOVT.VETY HOSPITAL,CAMPUS,GAUCHAR,CHAM OLI,UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /99	24-Feb-74
3098	RASHMI THAKUR D/o SH. RAJ KUMAR THAKUR	HPSVC/735/ 05	DIVYA NIWAS NEAR MAJITHA HOUSE CHOTTA SHIMLA, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	03-Dec-80
3099	RASHMI.S. S/o C.SHANKARAPPA	KARNASVC/ 3762/	S/O LATE CHENNEGOWDA,MAGODU POST, SIRA TALUK, TUMKUR DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	17-Jun-82
3100	RATAN DEEP SINGH	GUJSVC/267 8/06	B-34/130 13 B-1 BRAMHANANAD COLO DURGAKUND, VARASANI (U.P) 221005	BVSc&AH/SKDAU /06	17-Sep-83
3101	RATAN KUMAR CHAUDHARYS/oMURLIDHA R CHAUDHARY	BiharSVC/25 58/04	VILL/MUHALLAH - MOTIYA P.O. - MOTIYA THANA - GODDA, BIHAR	BVSc/TNV&ASU/ 04	05-Oct-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3102	RATHOD PRATAPSIKH T.	GUJSVC/263 8/06	PLOT NO. 1241/2, SECTOR - 2 'A' GANDHINAGAR 382007, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	11-Nov-82
3103	RATIYA BHARAT BABUBHAI	GUJSVC/263 9/06	"JAY BHADRAI KRUPA" B/H SWASTIK MILL, CHHANYA, PORBANDAR, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	19-Dec-82
3104	RAUSHAN S/o LATE KAMAL KUMAR SRIVASTAVA	BiharSVC/25 13/04	VILL/MUHALLAH - PATLIPUTRA COLONY P.O. - PATLIPUTRA COLONY THANA - PATLIPUTRA COLONY SUB-DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/04	12-Oct-78
3105	RAVAL JEETENDRAKUMAR K.	GUJSVC/265 8/06	C-1 SNEHKUNJ SOC.SHOP.COMP.BRAHMANI KIRANA STORE KALOL(NG)GANDHINAGAR 384230, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	29-Jan-82
3106	RAVAT PRAVINKUMAR V.	GUJSVC/267 9/06	R.NO.341,BLOCK NO 57, POLICE HEAD QTR PALANPUR,DT BANASKANTHA,GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	13-Jul-81
3107	RAVI INDER SINGH S/o SH. TEJA SINGH	PbSVC/2621/ 05	SBJ NAGAR, NANAKSAR ROAD, BARNALA, SANGRUR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	11-Dec-81
3108	RAVI KUMAR KILLI S/o K.SHANKAR RAO	APSVIC/4297 /05	D.NO.21-206,KAKANI NAGAR,NAD PO,VISAKHAPATNAM-830 009,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H./OUA T/05	04-May-81
3109	RAVI KUMAR SIKHAKOLANU S/o NAGESWARA RAO	APSVIC/4380 /05	C/O SRI MALLIKARJUN SHOE MART, MAIN ROAD SATTENAPALLI GUNTUR, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/01	25-Jul-79
3110	RAVI SHANKAR JHA S/o SHRI RAM AYODHYA JHA	UVC/135/06	OPP TEACHERS COLONY,DEGREE COLL RD KHATIMA, DT U.S.NR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/98	05-Jan-76
3111	RAVIKANT NIRALA S/o BRI PUNYADEO SINGH	BiharSVC/22 47/02	VILL-DHODHI PO-BELA WARISH THANA -GOH SUB-DIV-DAUDNAGAR DT AURANGABAD, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2.	07-Mar-76
3112	RAVIKUMAR HUKKERI S/o GANGAPPA HUKKERI	KARNASVC/ 3713/	KANKANWADI POST, RAIBAG TALUK, BELAGAUM DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	14-Jul-82

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3113 RAVINDER S/O SH RAJINDER	HARSVC/189 3	C.V.H. LADWA CKKRI, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	25-Sep-82
3114 RAVINDER TANEJA S/O SH NARAIN DASS TANEJA	6	93-1, D BLOCK, NEW MANDI NEAR MOH, TOWN SIRSA, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	03-Feb-83
3115 RAVIRANJAN KUMAR SINHA S/o SHREE PARMANAND SINGH	BiharSVC/25 61/04	VILL. MÜHALLAH - MAI P.O. - MAI THANA - HILSA SUB-DIV - HILSA DIST NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/04	01-Mar-80
3116 RAVISHANKAR KUMAR S/o SHREE SATRUGHAN PRASAD	BiharSVC/23 72/03	VILL - KHARJAMA P.O. - BARA KURDH THANA - NURSARAI SUB- DIV - BIHAR SHAREIF DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	05-Dec-74
3117 RAYAVARAPU S.V.V.S.S.R AO S/o SATHIRAJU	APSVC/4354 /05	BENDAPUDI, THONDANGI(M), E.G.DT - 533 406, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	15-Jul-82
3118 REKHA P RAGHAV	KERALA/305 2/05	CHITHIRA, TEMPLE AVENUE, AYYANTHOLE, TRISSUR., KERALA	BVSc&AH/KAU/05	24-Apr-79
3119 REMYA R NAIR	KERALA/304 1/05	PANCHAVADI, THRISSILERI P.O. MANANTHAVADY, WAYANAD., KERALA	BVSc&AH/KAU/05	23-May-81
3120 RENJINI. P.	KERALA/301 3/05	MADATHIL HOUSE, NAMBARUVIKALA ALUMKADAVU P.O, KARUNAGAPPALLY, KOLLAM- 690573 KERALA	BVSc&AH/KAU/05	15-Apr-81
3121 RESHMI R CHANDRAN	KERALA/301 5/05	RESHMI VIHAR (KOPPARA), KURUMANNA, MUKHATHALA P.O. KOLLAM - 691577, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	16-May-80
3122 REVATHI MUS MURTHY D/o RAJESH GOTETY	KARNASVC/ 3703/	G-4, C BLOCK, SHANTINIKETHAN LAYOUT, AREKERE, B-G RD, B'LORE, KARNATAKA	BVSc&AH/KKVP/ 94	13-Apr-72
3123 RICHA SINGH D/o SHRI ALOK KUMAR SINGH	UVC/169/06	VILL ANANDPUR P.O. GOKUL NR DT- UDHAM SINGH NAGAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /02	26-Jun-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3124	RIJULA SARKAR S/O SRI RAMESH CH. SARKAR	WBSVC/318 8/05	583, PURBASINTHI ROAD MADHUGARH, KOKATE - 700030, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	01-Jan-8~
3125	RINKI KUMARI D/o SHREE JAYRAM SHARMA	BiharSVC/25 98/05	VILL MUHALLAH - PAHLEJA P.O. - JAYPUR THANA - MEHANDIYA SUB- DIV - ARWAL DIST - ARWAL, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	19-May-80
3126	RISHAV RANJAN S/o SHREE K.N. CHAUDHARY	BiharSVC/25 18/04	VILL/MUHALLAH - M.T.P.S. P.O. - KATI THANA KATI SUB-DIV - MUZAFFARPUR DIST - MUZAFFARPUR, BIHAR	BVSc&AH/GBPU A&T/04	05-Aug-81
3127	RITESH KUMAR SRIVASTAVA S/o SH A.K SRIVASTAVA	BiharSVC/24 17/04	VILL - BAKHRI BAZAR P.O. - BAKHRI THANA - PATAHI SUB-DIV - DIST - MOTIHARI, BIHAR	BVSc&AH/AAU/03	01-Mar-77
3128	RITESH SOOD S/o SH. J. K. SOOD	HPSVC/748/ 05	VILL. AHEJU TEH. JOGINDER NAGAR DISTT. MANDI, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	14-Aug-81
3129	RIYAS M.A	KERALA/308 0/05	MANAKKATTU HOUSE, ERATTUPETTA, NADACKAL P.O KOTTAYAM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	30-Apr-80
3130	RM. RAVI CHANDRAN (M.RAMANATHAN)	TNSVC/2392 /05	SENTHI ILLAM, 595B, KRISHNA COLONY, SRIRENGAPAYAM, RAJAPALAYAM 626 117.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	15-May-62
3131	RODY LALRINFELI FANAI D/o F VANLALVAWNA	MIZSVC/154/ 05	REPUBLIC VENGHLUN, PO AIZAWAL, MIZORAM, MIZORAM	BVSc&AH/CAU/0 5	09-Sep-80
3132	ROHIT SHARMA S/o SH SATISH SHARMA	HPSVC/719/ 05	SUNVEIW COTTEGE CEMETARY ROAD, SANJauli SHIMLA-6, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	25-Jan-81
3133	ROHTAS S/O SH NIHAL SINGH	HARSVC/188 1	VPO. BALSAMAND T.DISTT. HISAR,HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	14-Nov-81
3134	ROKO ROSE S/O RUPFUHU RSOE	NSVC/205/0 8	BILLY GRAHAM ROAD, NEAR D.B.S.HR.SCHOOL,KOHIMA	BVSc&AH/AAU/08	16-April-82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3135	RONDA VENNKATESWARLU S/o R. TIRUPATHAIAH	AP SVC/4292 /05	PAPIREDDYALLI(V), VELIGANDLA(M), PRAKASAM DT - 523 224, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc/TNVASU/0 5	01-Jul-81
3136	RONGSEN WATI AO S/D TEMSUKABA	NSVC/200/0 5	SPEDID COTTAGE PURANA BAZAR, DIMAPUR, NAGALAND	BVSc&AH/AAU/05	14-Mar-76
3137	ROYMON JACOB.	KERALA/305 7/05	VALIYAPARAMBIL HOUSE, VEMPALLY P.O, KURUVILANGAD KOTTAYAM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	13-Mar-81
3138	RUDRAGOWDA S/o CHANNAPPANAVAR	KARNASVC/ 3708/	TUMMARAMATTI POST, BILGI TALUK, BAGALKOTE DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Jun-82
3139	RUDRAPPA S.M. S/o MAHESHWARAPPA.S.	KARNASVC/ 3751/	ANURANJESU, DOOR NO 1689/18A, 6TH CROSS ANJANEYA BADA VANI BEHIND HEMAVATHI HOSTEL DAVANAGERE 577004, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	13-Jun-79
3140	RUMNI SENGUPTA D/O GAUTAM SENGUPTA	WBSVC/314 7/05	TYPE IV/1, 18, MALL RD ESTATE KOLKATE-700080, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	12-Aug-82
3141	RUPA BORAL S/O MR. MRITYUNJOY BORAL	WBSVC/321 3/06	43, CRRIK ROW, KOLKATA-700 014, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	19-Jan-82
3142	RUPAM CHATTERJEE S/O SRI RABINDRA CHATTERJEE	WBSVC/317 9/05	VILL & P.O. DASPUR DT. MIDNAPORE, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	19-May-83
3143	RUPESH KUMAR S/o SHREE JAI KISHORE PURBE	BiharSVC/23 42/03	VILL - ISHMAILGANJ P.O. - LEHARIASARAI THANA - LEHARIASARAI SUB-DIV - LEHARIASARAI DIST- DARBHANGA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	09-Jul-77
3144	RUPESH KUMAR SRIVASTAVA S/o SH.D.K.SRIVASTAVA	BiharSVC/24 79/04	VILL/MUHALLAH - TAKHNUPUR P.O. - TAKHNUPUR THANA - LAURIA SUB-DIV - NARKATIAGANJ DIST - WEST CHAMPARAN, BIHAR	BVSc&AH/JNAU/0 2	27-Jul-77
3145	RUPINDER KUMAR S/o SH. SONI RAM	PbSVC/2623/ 05	NEAR B.M.D. STORE, BARETA DISTT. MANSA, PUNJAB	BVSc&AH/JNKVV /05	17-Aug-81

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3146 RUPINDER PAL SINGH S/o SH. MOHINDER SINGH	PbSVC/2607/ 05	H.NO. 24, PARTAP NAGAR, G.T. ROAD, AMRITSAR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	02-Oct-80
3147 RUPINDER S/O SH SUKHBIR SINGH	HARSVC/188 7	10/21, OLD CAMPUS, CCS HAU, HISAR, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	23-Jan-83
3148 S. BALARAMAN (M.SUBBIAH)	TNSVC/850/ 05	7 / 3, GOVINDASAMY STREET, PERAMBUR, CHENNAI 600011TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/65 .	13-Jun-37
3149 S. A. SIVAKUMAR (S.ARUNACHALAM)	TNSVC/616/ 05	393 / 22, EAST PDNDY ROAD, MAHARAJAPURAM, VILLUPURAM 605 602.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	01-May-80
3150 S. ABDUL HAKEEM (S.SHEIK LEBBAI)	TNSVC/893/ 05	7 / 197A, ANNA SALAI, KODAIKANAL 624 101.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	06-Jan-62
3151 S. AKILANDESWARI S/OA.K.BALAMURUGHAN	TNSVC/3407 /06	A-4, SARASHA MAHAL, 60, BHUJANNA ST, WALAJAPET 632 513, VELLORE DIST, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	30-May-66
3152 S. ALBERT (C. SELVARAJ)	TNSVC/229/ 03	3 / 305, PHASE III, SATHUVACHARI, VELLORE, 632 009.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	02-Oct-51
3153 S. ALWAR (M.SUBRAMANIA PILLAI)	TNSVC/2830 /05	88, POONGA STREET, ELIM NAGAR, PERUNGUDI, CHENNAI - 96.	B.V.Sc/TNAU/80	01-Mar-57
3154 S. AMUDHA (W/O V.SURESH)	TNSVC/2554 /05	9/451, SENAPATHY NAGAR, OODAIAM ROAD, MUTHUR POST, KANGAYAM TK, ERODE DIST 638 105.	B.V.Sc/TNV&ASU /96	13-Mar-72
3155 S. ANANDAGIRI (V.SUBBIAH)	TNSVC/3224 /05	NO.9, PARAMASIVAM STREET, MELAKALKANDAR KOTTAI, TRICHY - 11TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	01-Apr-53
3156 S. ANANDHA KUMAR (K.SUNDARESAN)	TNSVC/2797 /05	KARUPPUR.SURAIKKAIYUR POST, PALAIYUR VIA, NAGAPATTINAM DIST, PIN : 612 203.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	07-May-72

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3157	S. ANANDHI (R.SUNDARAM)	TNSVC/2610 /05	156/1, SOUTH STREET, PILAKKURICHY PO, VARIYANKAVAL VIA, SENDURAI TALUK, PERAMBALUR DISTRICT 621 806, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	04-Jul-77
3158	S. ANBU CHEZHIAN (T.SIVAVADIVELU)	TNSVC/1828 /05	1 / 85, MULAPPAKKAM, MANNAMPANDAL, MAYILADUTHURAI 609 305 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	15-Jul-67
3159	S. ANITHA GNANA RANI W/o. (P.JAYASINGH)	TNSVC/1259 /05	156A, ROJA STREET, AMBAL NAGAR, PORUR, CHENNAI 600 116 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	05-Apr-70
3160	S. ANNADURAI (P.SHUNMUGAVEL)	TNSVC/3089 /05	SIVAN KOIL STREET, VEERASIGAMANI, SANKARANKOIL (T.K.) TIRUNELVELI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	30-May-58
3161	S. ANNAMALAI (SENTHILVINAYAGAM)	TNSVC/1379 /05	13, EASWARI NAGAR, EAST TAMBARAM, CHENNAI 600 059, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	12-Apr-56
3162	S. ANTHONYRAJ (E.SELVARAJ)	TNSVC/3032 /05	DOOR NO.8 / 88C, CHEKKADI STREET, KURUVIKULAM 627 754, SANKARANKOIL-TK, TIRUNELVELI DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-Feb-81
3163	S. ANUSUYA(P.SARAVANAN)	TNSVC/66/0 3	4 / 138-M, NGO COLONY THAYILPATTI, SIVAKASIPIN 626 1, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	29-Oct-77
3164	S. ARJUNAN (K. SUBRAMANIAM)	TNSVC/172/ 03	BANGALA THOTTAM, ENNAMANGALAM POST, ANTHIYUR VIA, ERODE 638 501. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	11-Sep-77
3165	S. ARJUNAN (P.SITHANNADAR)	TNSVC/534/ 05	AYAMARATHOTTAM, VELLITHIRUPPUR PD, BHAVANI TK, ERODE DT 638 314. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	09-May-81
3166	S. ARUL MANOHARAN (A.SANJEEVI)	TNSVC/1063 /05	OPP. R.C. CHURCH MAIN ROAD, CHELLAMPATTI, MADURAI DT, TN, PIN : 625 568. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	31-May-58
3167	S. ARUL PRAKASH RAJ (S.A.SATHYAPILLAI)	TNSVC/1011 /05	17 / 12, DR. RATHNAM STREET, ARISIPALAYAM, SALEM 636009 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	06-Jun-68

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3168 S. ARUMUGAM PILLAI (A.SIVATHANU PILLAI)	TNSVC/2185 /05	44, V.N. COLONY, BEACH ROAD, IRULAPPAPURAM, KOTTAR PO, NAGERCOIL 629 002, KANYAKUMARI, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	09-Jun-49
3169 S. ARUN S/O SATHYASEELAN	TNSVC/3440 /06	METTUR, KODAYAM VIA, TIRUNELVELI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	20-Apr-71
3170 S. ARUNACHALAKANI (R.SANKARASUBBU)	TNSVC/1214 /05	NORTH STREET, CHEMBOOR, ALWARTHIRUNAGARI - 628612, THOOTHUKUDI (DT) TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	05-Apr-63
3171 S. ASOKAN (K.SURULIKAMU)	TNSVC/2636 /05	NANTHAGOPAL KOIL STREET, ODAIPATTY P.O. THENI DISTRICT PIN 625 540 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	13-Mar-67
3172 S. BABU KOLAPPAN (A.SUBRAMONIUM)	TNSVC/2194 /05	"DWARAKA" 21/III SANKARAN STREET, P.N. NAGAR, NAGERCOIL, KK DIST. 629 004 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	24-Jun-59
3173 S. BAGAVATHI (G.K.SIVASUBRAMANIAM)	TNSVC/2536 /05	5, NORTH PARK STREET, GOBICHETTI PALAYAM POST, ERODE DIST, PIN : 638 452. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	16-Jun-69
3174 S. BAKYARAJ (R.SANNIYASI)	TNSVC/326/ 04	KALLAI MAIN ROAD MOORASPALAYAM POST SANKARAPURAM TALUK VILLUPURAM DT. 606 208	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Aug-81
3175 S. BALAGURUNATHAN (G.SIVASHANMUGAM)	TNSVC/1003 /05	32, MARIAMMAN KOIL STREET, MANAKADU, SALEM 636007 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	01-May-64
3176 S. BALAGURUNATHAN (V.P.S.SUBBANAICKER)	TNSVC/937/ 05	PALLNATHAM, MALLAPURAM POST, GUZILIAMPARAI VIA, VEDASANDUR TALUK, DINDIGUL DISTRICT.	B.V.Sc/MU/74	04-Jul-49
3177 S. BALAJI (V.SAMIKANNU)	TNSVC/1708 /05	40-A, MEL KANGHEYANKUPPAM, PANRUTI TK. CUDDALORE DISTRICT 607 805, TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNV&ASU /02	07-Jan-77
3178 S. BALAKRISHNAN (SEVUGAN)	TNSVC/1139 /05	3 / 135C, NEHRU NAGAR, 5TH STREET, T. NALLUR, PARAMAKUDI, RAMANATHAPURAM DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	29-May-65

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3179	S. BALAMURUGAN (K.SANTHANAM)	TNSVC/1317 /05	DANISHPET POST, OMALUR TALUK, SALEM DISTRICT, PIN : 636 354.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	11-Jul-77
3180	S. BALAMURUGAN (S SUNDARARAJAN)	TNSVC/2155 /05	NO.2, RANGASWAMY SERVAI LANE, NORTH AVANI MADA STREET, MADURAI.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	30-May-71
3181	S. BALASUBRAMANIAN (S SRINIVASAN)	TNSVC/1861 /05	29, VALLALAR STREET, MANGALAMPET & POST, VRIDDHACHALAM T.K. CUDDALORE- 606 104TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	10-Mar-70
3182	S. BASKAR (N.SADHASIVAM)	TNSVC/1204 /05	L-151, KOTTAPPALI COLONY, TIRUCHENGODE, NAMAKKAL DT. - 637214TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	04-Apr-66
3183	S. BASKARAN (A.SUBRAMANIYAM)	TNSVC/1453 /05	191 / 3, MIDDLE STREET, NARAYANATHEVANPATTI (P.O.) UTHAMAPALAYAM TALUK THENI DISTRICT	B.V.Sc/TNV&ASU /97	11-Apr-72
3184	S. BHARATHIDASAN S/O P.SETHURAMAN	TNSVC/3351 /06	AMARADAKKI (P.O.)A. KOVIL (T.K.)PUDUKKOTTAI DISTRICT, PIN 614 618,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	11-May-63
3185	S. BHARATHIDHASAN (M.SELVARAJU)	TNSVC/304/ 04	10, V.O.C. NAGAR, VIKRAVANDI, VILLUPURAM DT, PIN: 605 652.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	22-May-80
3186	S. BOGANATHAN (P.I.SUBRAMANIAM)	TNSVC/1532 /05	NO.15, IST STREET, KGYE'S APARTMENT, BAKTHAVATCHALAM NAGAR, ADYAR, CHENNAI 600 020.	B.V.Sc/TNAU/79	15-Sep-49
3187	S. BOOTHALINGAM S/O B.SIVASUBRAMANIAM	TNSVC/3456 /06	16-D, EYAR PAGAI MAYAMAR STREET, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI 627 002.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	19-Apr-64
3188	S. CHANDIRA LEKHA (S. SUNDARAM)	TNSVC/244/ 04	2-E, No. 9, AMBEDKAR NAGAR, Ist STREET, SANKARAN KOVIL, NELLAI DIST- 627 756.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	09-Feb-78
3189	S. CHANDRABOSE (S.SHUNMUGAM)	TNSVC/1614 /05	HIG 13, JACULIN ILLAM, TIRUNAGAR, PALAYAMKOTTAI TIRUNELVELI 627 007TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	10-Apr-55

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3190 S. CHANDRAN (A.S.SWAMINATHAN)	TNSVC/1345 /05	ELAGIRI VILLAGE AND POST, JOLARPET VIA, VELLORE DT 635 853.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76 /04	06-Jun-52
3191 S. CHANDRAN (R.SUNDARAM)	TNSVC/2562 /05	206/1, NATARAJAPURAM, METTUR MAIN ROAD, BHAVANI 638 302, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88 /04	26-Mar-53
3192 S. CHANDRASEKAR (P.SELVARAJ)	TNSVC/376/ 04	III / 3-648, PERIYAKALAM, MEICKARAPPATTY, SALEM 636 010.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	15-Mar-80
3193 S. CHANDRASEKAR (S.SHANMUGAM)	TNSVC/447/ 05	6A, PASUNKAYAMANGALAM ROAD, KALLAKURUCHI 606202TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-Apr-82
3194 S. CHINNAMARIAPPAN (M.SELLAMUTHU)	TNSVC/1485 /05	BODINAIYAKKANPATTI, VELLANDI VALASU (VIA) EDAPPARI TALUK SALEM DISTRICT-637 105,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	28-Jun-76
3195 S. CHITRA (W/O E.BUVANENDRA BABU)	TNSVC/2116 /05	22-A, BAZAAR STREET, KURUMBALUR POST 621 107, PERAMBALUR DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	13-Jun-69
3196 S. CHITRADEVI(K.SOMASUND ARAM)	TNSVC/143/ 03	KARUTHIPALAYAM, THAMARAIPALAYAM POST,ERODE DT-638 152.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	23-Jun-79
3197 S. DEVI KANAGAMBIGAI (W/O K.KENNADY)	TNSVC/3093 /05	NO.5, MAHALAKSHMI STREET, NEHRU COLONY, PALAVANTHANGAL, CHENNAI 600 114	B.V.Sc/TNV&ASU /96	07-Jun-72
3198 S. DHAMODHARAN (M.SAMBANDHA REDDY)	TNSVC/2107 /05	33/7A, DHARMARAJA KOIL STREET, TIRUTTANI 631 209.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	07-May-68
3199 S. DHAMOTHARAN (D.SOMASUNDARAM)	TNSVC/3103 /05	NO.44 / 84, PONDY ROAD, NAGALAPURAM, TINDIVANAM, VILLUPURAM DISTRICT PIN 604 002 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	03-May-76
3200 S. DHANALAKSHMI S/O L.SUDALAIMUTHU	TNSVC/3320 /06	ATHITHAPURAM, VELLAMADAM, KANYAKUMARI 629 305TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	26-Aug-83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3201	S. DHANAPALAN (V.SELVAM)	TNSVC/3222 /05	30, VASANTHAM COLONY, MAHARAJANAGAR (PO) TIRUNELVELI 627 011TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	20-Jul-69
3202	S. DHANASEKARAN (S.SAMINATHAN)	TNSVC/2912 /05	NO.29, E.B. NAGAR, MANNARGUDI, THIRUVARUR DISTRICT 614 001,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	20-May-71
3203	S. DHANASEKARAN (T.P.R.SUBBANCHETTIAR)	TNSVC/1441 /05	15-1-15, SWAMY MUTHIAH NAGAR, MEENATCHI ILLAM, T.KALLIPATTI (P.O.) 625 605 PERIAKULAM TALUK THENI DISTRICT	B.V.Sc/TNAU/82	09-Dec-57
3204	S. DHARANI S/O M. SUNDARALINGAM	TNSVC/3513 /06	BALAJI DIGITAL PHOTO STUDIO, K.V.KUPPAM, VELLORE DISTRICT PIN 632 201TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	5-Jun-83
3205	S. DHAYALA MOORTHY (R.SIDHIYAN)	TNSVC/2847 /05	NO.3&4, VIVEKANDA ROAD, SINGANALLUR POST, COIMBATORE 641 005.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	20-Sep-50
3206	S. DURAISAMY (K.SENGODA GOUNDER)	TNSVC/1012 /05	14, VEERAPPA CHETTIYAR COLONY, SIVANANDHA SALAI, RASIPURAM T.K., NAMKKAL DT. 637408	B.V.Sc/TNAU/75	01-Jun-50
3207	S. DURAISAMY (R.SENGODA GOUNDER)	TNSVC/2510 /05	14, NETHAJI STREET 2, SUKAMPATTIVALASU, ERODE 638 009.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	12-Jan-62
3208	S. DURAISAMY (SENGOAN)	TNSVC/1918 /05	ARAMAHTAPALAYAM, ALAVAIPATTI (PO), VENNANDUR (VIA), NAMAKKAL DT - 637505,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	01-Jun-61
3209	S. EASWARAN (C.SAMANDY)	TNSVC/1436 /05	104 / 20, KONDITHOZHU STREET, CUMBUM 625 516 THENI DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-May-76
3210	S. ELANGO VAN (S.SIVASAMY)	TNSVC/2479 /05	186, N.G.G.O. NAGAR, VALLALAR ST, THIRUKOILUR 605 757.TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNAU/83	30-May-56
3211	S. ELANGO VAN (T.SITHAN)	TNSVC/1956 /05	4 / 1270-A, III STREET, NORTH CROSS, E.B. COLONY, DHARMAPURI - 5,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	24-May-66

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3212 S. ESTHER SHEELA W/o. (D.SURESH CHRISTOPHER)	TNSVC/1716 /05	17 / 2, THATHACHARIAN ARCADE, MAMBALA SALAI, TRICHY 620 005TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	14-Jan-65
3213 S. ESWARI S/O P.GNANA SHANKAR	TNSVC/3447 /06	NEW NO.117, AMBALAM THODDA, MALLAPPA CHETTIAR STREET, ARUPPUKOTTAI 626 101, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	6-Jul-71
3214 S. EZHILVELAN (P.SUBRAMANIAN)	TNSVC/855/ 05	16, VIJAYA GANAPATHY NAGAR III STREET, ULLAGARAM, CHENNAI -91	B.V.Sc/TNV&ASU /96	04-Aug-70
3215 S. GANAPATHI MARAN (S.SHANMUGANATHAN)	TNSVC/1451 /05	139 / W3, WEST STREET, KODUVILARPATTI (P.O.) PERIYAKULAM TALUK MADURAI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	29-May-65
3216 S. GANESH KUMAR (M.SOUNDARARAJAN)	TNSVC/3042 /05	29 / C, AVVAIYAR STREET, SUBRAMANIYAPURAM, TRICHY 620 020, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-Sep-81
3217 S. GAYATHRI(K.SUNDARAM)	TNSVC/159/ 03	116, SAVADI STREET, RAMAPURAM PUDUR, NAMAKKATAMILNADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	04-Jun-80
3218 S. GAYATHRI(S.SUKUMARAN)	TNSVC/130/ 03	1, K6, T.A.M.S. COLONY, BHARATHIYAR ITI BEHIND, DHARMAPURI 636702TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	14-Dec-78
3219 S. GOBINATH(M. SHANMUGASUNDARAM)	TNSVC/91/0 3	NEAR THIRUVALLUVAR SOCIETY, NO.3, KOMARAPALAYAM PO, MALLUR VIA, RASIPURAM TALUK, NAMAKKAL D- 636 203. TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	15-Jul-79
3220 S. GOKULAKRISHNAN S/O A.SENGOTTAIYAN	TNSVC/3391 /06	46, POOLUVAPATTI, AYYAMPALAYAM POST, ERODE DIST, PIN : 638 455. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-May-82
3221 S. GOPALAKRISHNAN (G.SANTHANA RAGHAVAN)	TNSVC/1308 /05	PLOT NO.4, 5TH CROSS, AMMAYAPPA NAGAR, VAYALUR ROAD, TRICHY 620 017. TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	23-Jun-48
3222 S. GOPALSWAMY (A.SUBBAMOOPPAN)	TNSVC/2522 /05	MURUGA GOUNDEN PUTHUR, NOCHIKKUTTI POST, P.PULIYAMPATTI VIA 638 459. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	10-May-61

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3223	S. GOVARDHANAN (N.SRIRAMULU)	TNSVC/2132 /05	NEW NO.40, OLD NO.36, VARADHARAJAN STREET, T. NAGAR, CHENNAI-17.	B.V.Sc/TNAU/82 /05	14-May-57
3224	S. GUNASEKARAN S/O A.SHANMUGAM	TNSVC/3372 /06	NO.177, PERUMAL KOIL STREET, ALAPPAKKAM, PORUR DIST, CHENNAI 600 116.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	2-Jul-81
3225	S. GUNAVATHI (V.SUNDARAM)	TNSVC/3008 /05	50, ELANGO STREET, ARUMBAVUR P.D. 621 103, VEPANTHATTAI (T.K.) PERAMBALUR DT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	03-May-82
3226	S. GURUVIAH (R.SUNDARAM)	TNSVC/2481 /05	30/257A, SURIYA GANDHI STREET, K.V.R. NAGAR, VILLUPURAM, VILLUPURAM DIST, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/85 /05	10-May-80
3227	S. HANSA PRIYA (S.SUNDARESAN)	TNSVC/366/ 04	NO.3, GANGAI STREET, SAMUNDEESWARI NAGAR, ANAKAPUTHUR CHENNAI - 70, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	18-May-80
3228	S. ILANGOVAN (V.SUNDARESAN)	TNSVC/979/ 05	NAMBIVAYAL POST, PATTUKOTTAI TALUK, THANJAVUR DISTRICT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88 /05	22-Apr-65
3229	S. ILAYARAJA (N. SELVARAJ)	TNSVC/237/ 04	NO.11, MEENAILLAM, MATTUSANDHAI ROAD, MANNAI NAGAR, PATTUKOTTAI 614 601TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	05-Jun-80
3230	S. JAGANATHAN (P.SUBRAMANI)	TNSVC/828/ 05	278 / 158, GANDHI NAGAR, ATTUR POST, SALEM DISTRICT, TAMIL NADU, PIN : 636 102. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	01-Jul-78
3231	S. JAISANKAR (S.SIVASANKARAN)	TNSVC/2067 /05	17, SURVEYOR CHOKKALINGAM STREET, M.D.R. NAGAR, CHOKKALINGAPURAM, ARUPPUKOTTAI 626 101.	B.V.Sc/TNV&ASU /97	20-May-73
3232	S. JAISREE (N.T.SRINIVASAN)	TNSVC/391/ 04	SLT FEETS UPSTAIR KODAIKAL, KDNDICHETTYPATY MOHANUR ROAD, NAMAKKAL DT.- 63700, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	25-Jul-81
3233	S. JAYACHANDRAN (N.SANTHANAM)	TNSVC/2422 /05	335/4, AMARJOTHI GARDEN, GANDHIGRAMAM NDRTH, KARUR - 639 004 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	21-Jul-74

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3234 S. JAYACHITHRA (C.SATHYANARAYANAN)	TNSVC/1382 /05	NO.18 / 28, PERIASWAMY PILLAI STREET, FATHIMA NAGAR, KRISHNAGIRI - 635 001 KRISHNAGIRI DISTRICT	B.V.Sc/TNV&ASU /00	12-Jul-74
3235 S. JAYACHITRA S/O A.SENGOTTUVEL	TNSVC/3295 /05	THALATHALA MEDU,METTUPALAYAM, MALLASAMUDRAM PO.T.GUDE TK,NAMAKKAL DIST- 637503.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	9-Jun-82
3236 S. JAYAKUMAR (J.SURENDRADOSS)	TNSVC/2085 /05	PLOT NO.E2-A, DOOR NO.6A, MADURAI PERUMAL NAGAR, VALASARAVAKKAM, CHENNAI 600 087.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	10-Sep-78
3237 S. JAYAKUMAR (M.SIVALINGAM)	TNSVC/2863 /05	20 / 45, DMM STREET, KUMARASAMPET, DHARMAPURI 636 703.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	06-Jun-77
3238 S. JAYAKUMAR (P.R.SATAGOPAM)	TNSVC/2625 /05	154, SINGANNA CHETTY STREET, CHINDADRIPET, CHENNAI 600 002	B.V.Sc/TNAU/76	15-Jun-49
3239 S. JAYAKUMAR (S.SADHANANDHAN)	TNSVC/560/ 05	No.138,BAZAAR STREET, VALAPANDAL,PIN:632 318.Vellore Dist.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	15-Jun-76
3240 S. JAYANTHI (V.S.S. SUBRAMANIAN)	TNSVC/920/ 05	44, THIRUNAGAR. P.O. AMBATHURAI (R.S.) DINDIGUL DISTRICT 624 302TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	07-Apr-76
3241 S. JAYASANKAR (R.SABAPATHY)	TNSVC/266/ 04	NORTH STREET, VEGAKKOLLA PO, KURINJIPADI VIA, PANRUTI TK, CUDDALORE DT, PIN 607 302.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	07-May-78
3242 S. JAYAVEL (V.P.SUBRAMANI)	TNSVC/2212 /05	PILLIYAR KOVIL KADU, PATTANAM POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT,TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /97	25-May-74
3243 S. JEEVANANTHAM (N.SINGARAVELU)	TNSVC/582/ 05	DOOR NO:50A, I.P.KOVIL NORTH STREET, VIJAYAPURAM, THIRUVARUR DT, PIN: 610 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jul-81
3244 S. JEGA VEERAPANDIAN (P. SANKARIAH)	TNSVC/217/ 03	3 / 1308, V. JETTI HALLI ROAD, DHARMAPURI 636 701.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	09-Jul-77

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3245	S. JEYAKUMAR (S / SUBBIAH)	TNSVC/3193 /05	6, SEVENTEENTH SOUTH STREET, THIYAGARAJA NAGAR, TIRUNELVELI - 627 011TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/85 /05	26-Feb-61
3246	S. JOHN SAMUEL (K.A.SELVAMONY)	TNSVC/2178 /05	659, MERIBA, BENJAMIN STREET, NESAMONY NAGAR, NAGERCOIL.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85 /05	18-May-58
3247	S. JOTHI KUMAR (K.P. SIVAMAN)	TNSVC/207/ 03	402 / A, KOVAI MAIN ROAD, NAMBIYUR 638 458 , GOBI TK ERODE DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	24-Mar-79
3248	S. KABILAN (V.SHANMUGAM)	TNSVC/461/ 05	AYAKKARANPURAM II, (PO) VEDARANIYAM (TK) NAGAI (DT) 614707TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	01-Oct-80
3249	S. KALA (M. OMMURUGAN)	TNSVC/1958 /05	NO.19, LOGANATHAN STREET, TAMBARAM WEST, CHENNAI 600 045.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88 /05	12-May-65
3250	S. KALAIMANI (R.SUBRAMANI)	TNSVC/334/ 04	PANAKADU, KALLANGULAM, R.PUDUPALAYAM (P.O.), NAMAKKAL DT. 637408TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	20-Jul-80
3251	S. KALEESWARAN (P.SAMPATH)	TNSVC/277/ 04	36 / 19, KUPPANDAR STREET, 4, PUDUPALAYAM PO, GOBICHETTIPALAYAM, ERODE DISTRICT, PIN : 638 452.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	11-Jul-80
3252	S. KALIAPERUMAL (K.SOMASUNDARAM)	TNSVC/2609 /05	MALAIYARNATHAM, N.V. KUDIKADU P.O. POONDI VIA, THANJAVUR DISTRICT 613 502,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	28-Jul-71
3253	S. KALPANA (W/o S.HEMANT)	TNSVC/442/ 05	76, METTU STREET RASIPURAM T.K., NAMAKKAL DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	11-Apr-80
3254	S. KANAGALAKSHMI (V.SANKARAPANDIAN)	TNSVC/3013 /05	37-1, SOUTH PUTHUGRAMAM, ODAI THERU NO.1, KDVILPATTI TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-Apr-82
3255	S. KANAGARAJ S/OV.K.SUBRAMANIAN	TNSVC/3358 /06	8/129-Z, MUNIAPPANKOVIL, PALLAKKAPALAYAM (PO) SANKARI WEST 637 303 NAMAKKAL DT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	22-Jun-80

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3256 S. KANNAN (P.SENGOTTAIYAN)	TNSVC/254/ 04	NALLA THANNIR THOTTAM, THOPPAPATTI PO, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT, 637 408.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	10-Jun-79
3257 S. KANNAN (SARANGAPANI UDAYAR)	TNSVC/1143 /05	776 / 3, (3 / 424 B), SELVA NAGAR, THATHAMPATTY POST, NEAR HOLY CROSS SCHOOL, SALEM TK & DT 636 014.	B.V.Sc/TNAU/78	24-Jun-53
3258 S. KANNIAPPAN (K.SIVASUBRAMANIAM)	TNSVC/2616 /05	26, BALARAJAPURAM, VEERARAKIAM P.O., KULITHALAI TALUK, KARUR DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	16-Jun-76
3259 S. KARUPPIAH(S.SANKAR)	TNSVC/1318 /05	T.KRISHNAPURAM POST, SAPTUR VIA, MADURAI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /84	19-May-71
3260 S. KATHIRESAN (A.SELVAM)	TNSVC/640/ 05	KATTI GOUNDER HOUSE, VELLAKKAL PATTI PO,NAMAGIRIPET VIA, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT- : 637 406.TAMIL NADU	B.V.Sc&AH/PU/05	05-May-82
3261 S. KATHIRVEL (SELLAPPAN)	TNSVC/1200 /05	12, FIRST STREET, C.H.B. COLONY, VELUR ROAD, TIRUCHENGODU 637 211, NAMAKKAL DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	06-Apr-60
3262 S. KAVITHA (M.SANJEEVI)	TNSVC/464/ 05	3 / 9, POST OFFICE STREET, R.K. PET 631303, THIRUVALLUR DTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	20-Jun-82
3263 S. KAVITHAW/o. (S.SIVAKUMAR)	TNSVC/1440 /05	6, TELEPHONE EXCHANGE NORTH STREET, THENDRAL NAGAR, BODINAYAKANUR, THENI DISTRICT	B.V.Sc/TNV&ASU /97	22-Jul-74
3264 S. KEERTHIKA (R.SHANMUGAM)	TNSVC/314/ 04	ATTAVANI PUDUR, MUKKASI PUDUR P.O. BHAVANI TALUK ERODE DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	11-Apr-80
3265 S. KOKILA S/O G.SWAMY	TNSVC/3419 /06	NO.167, THIRUNEERMALAI ROAD, WEST TAMBARAM, CHENNAI 600 045.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	4-Dec-82
3266 S. KRISHNA KUMAR (K.SUBBIAH)	TNSVC/1168 /05	15 / 126, K.S.R. NAGAR, THENI.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	09-Sep-74

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3267 S. KRISHNAMANI (S.SUBRAMANIA NADAR)	TNSVC/2726 /05	2 / 38A, EAST STREET, A.P.NADARROOR, POTTAL PUDUR VIA, ALANGULAM TK, 627 423., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	07-Jan-66
3268 S. KRISHNAMURTHY (K.K.SUBRAMANIAN)	TNSVC/2519 /05	12, KALAMEGAM STREET, GOBICHETTIPALAYAM, PERIYAR DIST, PIN : 638 452. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/65	09-Jan-61
3269 S. KUZHANTHAIVELU (T.V.SUBRAMANIAM)	TNSVC/1202 /05	OHM SAKTHI MURUGAN ILLAM, TEACHER'S COLONY, ALAMPALAYAM, ERODE - 636008 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /69	01-Jun-67
3270 S. LAKSHMANAN (V.SANTHANAM)	TNSVC/3248 /05	4 / 22, ELANGO NAGAR, KARIYAPPATTINAM SOUTH & POST, VEDARANYAM TALUK NAGAPATTINAM DIST 814 606.	B.V.Sc/TNAU/75	10-Jan-46
3271 S. LAVANYA S/OP. SUBBARAJU	TNSVC/3556 /06	"JAMUNA ILLAM", 32, IYYANAR KOIL STREET, THEKKATHIR (OPP.) MADURAI 625 018, TAMIL NADU	BVSc&AH/PU/05	9-Feb-83
3272 S. LOGA SUNDARI (W/O D.SOTHI SELVAM)	TNSVC/2120 /05	35, NAPALAYA STREET, VILLUPURAM 605 602. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/67	04-Jun-64
3273 S. LOGANATHAN S/O M.SENGODAN	TNSVC/3394 /06	10, MAHENDRAPURI, BALAJI NAGAR, KANNANKURICHI POST, SALEM - 8. TAMIL NADU	BVSc/TNAU/63	25-Apr-60
3274 S. LOGESWARI (K.SRINIVASAN)	TNSVC/490/ 05	3 / 16, LDGESWARI ILLAM, KONDICHETTIPATY, PERIYAPATY (PO), NAMAKKAL - 637001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	06-Jun-62
3275 S. LOKANATHAN (SIVASUBRAMANIAM)	TNSVC/1723 /05	6, MARUTHI SALAI. ANNAMALAI NAGAR EXTENSION, TRICHY - 18 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	24-Feb-51
3276 S. MADHAN MDHAN (B.SOUNDARA KRISHNAN)	TNSVC/2404 /05	NO.231, MASILAMANIPURAM, DINDIGUL 624 005, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/73	01-Jun-50
3277 S. MADHAN S/O R.SUBRAMANIAN	TNSVC/3321 /06	32, SAKTHI NAGAR, GANDHIGRAMAM, PASUPATHIPALAYAM (PO) KARUR 639 004 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	7-Oct-81

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3278 S. MADHURI (G.SUBBAIH)	TNSVC/551/ 05	D-192, SUNDARAR STREET, ALAGAPPAN NAGAR, MADURAI 825 003.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	19-Dec-8:
3279 S. MAHALAKSHMI (G.SELVARAJ)	TNSVC/324/ 04	No.9, PENNAGARAM ROAD PAUPARAPATTI PO DHARMAPURI DT 836 809TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	11-Apr-80
3280 S. MAHALINGOM (M.SORIMUTHU)	TNSVC/2179 /05	VELAHAM, 1, KOLLAVILAI STREET, VADASERY, NAGERCOIL 629 001, KK DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	20-Jul-66
3281 S. MAHENDIRAN	PONDISVC/2 68/05	35,THIRD ST. KATTABOMMAN ST,MANAVELI ARIYANKUPPAM, PONDICHERRY-7	B.V.Sc & AH/PU/05	20-Oct-8:
3282 S. MAHESH (K.SUBRAMANIAN)	TNSVC/1356 /05	POONTHOTTAM, MAKKALPUDUR, V.VELLALAPALAYAM P.O., SAKTHI NAGAR, ERODE DT -638 315,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	05-Jun-76
3283 S. MALMARUGAN (V.SHANMUGASAMY)	TNSVC/2742 /05	590, PERIYAR NAGAR, SATTUR 626 203, VIRUDHU NAGAR DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	10-Jun-72
3284 S. MANI (P.SENGOTA GOUNDER)	TNSVC/1877 /05	MAIN KADU, SIRUVACHUR (PO), ATTUR (TK) SALEM DT 636112TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	24-Jun-7:
3285 S. MANIGANESH(C.SRINIVAS AN)	TNSVC/2210 /05	117-4, M.S.G. STREET, KOLATHUR POST, METTUR TK, SALEM DIST., PIN : 636 303.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	31-May-73
3286 S. MANIMARAN (V.SELLAMUTHU)	TNSVC/1903 /05	5 / 1705, PERUMAL GOUNDER, STREET. ELAKKIAMPATTI, DHARMAPURI - 5,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	10-May-64
3287 S. MANIMEKALAI (S. SATHASIVAM)	TNSVC/245/ 04	DOOR NO:3 / 259, THUMBAIPATTY RO, MELUR TK, MADURAI DT, PIN : 625 108TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	11-Feb-78
3288 S. MANIVANNAN (K.T. SINGARAVELU)	TNSVC/2475 /05	2/83, NEDUN THIRU KOLIANUR 605 103, VILLUPURAM TK.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/62	05-May-58

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3289	S. MARICHAMY (M. SHANMUGAIAH)	TNSVC/2867 /05	NO.1 / 15A, KADARMEERAN NAGAR, THERMAL NAGAR, I (OPP) TUTICORIN 628 006. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	20-Jul-72
3290	S. MARIMUTHU (A. SUBBIAH)	TNSVC/1477 /05	474B, ARUMUGAMPATTI EAST, SIVANTHIPURAM, VICKRAMASINGAPURAM 627 425 TIRUNELVELI DISTRICT	B.V.Sc/TNV&ASU /91	09-Jan-68
3291	S. MARIMUTHU (S. SUNDARAM)	TNSVC/919/ 05	628, THIAGI MUTHUKUMARASAMY NAGAR, GANDHI MARKET NORTH ODDANCHATRAM P.O. DINDIGUL DIST. 624 819	B.V.Sc/TNAU/87	08-Feb-61
3292	S. MATHIVANAN (V. SUBBAYAN)	TNSVC/2795 /05	167, SRINIVASA NAGAR, SAKUTTAI, KUMBAKKONAM 612 001, THANJAVUR DT, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/80	30-May-56
3293	S. MEENAKSHI SUNDARAM (G. SUBRAMANIAN)	TNSVC/2891 /05	NO.2 / 1036, MANI AMMAL STREET, RAJA RAJESWARI NAGAR, MADIPAKKAM, CHENNAI 600 091.	B.V.Sc/TNV&ASU /95	12-May-66
3294	S. MEENALOHANI (M. SUBRAMANIAN)	TNSVC/727/ 05	11, PERIYATHOTTAM, NASARATHPETTAI, KANCHIPURAM PIN -631 501 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	14-Sep-78
3295	S. MEY TIRU ANNAL (D.D. SATHIADAS)	TNSVC/2309 /05	"MIZPAH", 100-ABBAS GARDEN, T.V.S. NAGAR, COIMBATORE 641 025 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	04-Mar-52
3296	S. MOHAMED ABDUL KADHAR (A. SHEIK MOHAMED)	TNSVC/906/ 05	17 / 177C, PONNAPPA NADAR LANE, DINDIGUL - 3 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	31-Mar-65
3297	S. MOHAMED KHAN (Y. SAMASKHAN)	TNSVC/1108 /05	OLD DOOR NO.16A, NEW DOOR NO.43, KAZIMAR MAIN STREET, MADURAI -1 PIN: 625 001. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	01-Jul-66
3298	S. MOHAMED SHAFEE (M.P. SEYED AHAMED)	TNSVC/3078 /05	H-147, ANBU NAGAR, IIIRD MAIN ROAD, TIRUNELVELI 627 011 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	28-Jan-57
3299	S. MOHAN (S. SUBBIAH)	TNSVC/3130 /05	NO.2, MUTHUSAMY STREET, VIRUDHU NAGAR - 626 001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	05-Feb-53

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3300 S. MOHANRAJ (K.SUBRAMANIAN)	TNSVC/815/ 05	26, KOVALAN STREET, CHENNIMALAI, ERODE 638 051.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	19-Apr-78
3301 S. MOHANRAJ (S.SARANGAN)	TNSVC/1428 /05	PLOT NO.44, 8TH CROSS, ARULANANDA NAGAR, THANJAVUR 613 007TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	02-Jul-56
3302 S. MOHANRAJ (S.SUNDARAM)	TNSVC/491/ 05	PERAMALAI KADU, MUNJANUR (PO), TRICHENGODU (TK), NAMAKKAL (DT) 637403TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-Jun-81
3303 S. MOHIDEEN ABDUL QUADIR JAILANY (SULAIMAN)	TNSVC/2690 /05	1B, SUBRAMANIAPURAM STREET, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI 627 002.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	01-Jun-56
3304 S. MURALI (T.SAMIKKANNU)	TNSVC/2620 /05	AMMAPALAYAM, ALAPURAM (PO.) MENISI (VIA), PAPPIREDDIPATTI (T.K.) DHARMAPURI DT 636 904TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	02-Jun-76
3305 S. MURUGAIAH (V.SHUNMUGAVEL)	TNSVC/3087 /05	79, AMMAN KOIL STREET, MELAGARAM P.O. TENKASI TALUK, PIN 627 818 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	08-Feb-62
3306 S. MURUGAN (A.SUBBIAH)	TNSVC/1277 /05	11A / 20, BHARATHIAR 3RD STREET, SANAKARANKOVIL 627 756, TIRUNELVELI DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	29-May-71
3307 S. MURUGAN (P.K.V.SANKARAN)	TNSVC/3082 /05	24, SOUTH CHOKKAR STREET, TENKASI 627 811, TIRUNELVELI DISTRICT-TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/74	25-Apr-49
3308 S. MURUGAN (SUNDARA RAJAN)	TNSVC/1449 /05	51, MAISTRY SANKARIAH STREET, SOUTH STREET, ARUPPUKOTTAI, VIRUDHUNAGAR DT 626101,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	10-May-65
3309 S. MURUGAN S/O S.SUBBIAH	TNSVC/3488 /06	PLOT NO.72, KIRUBA NAGAR, KIZHANATHAM POST, TIRUNELVELI 627 353.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	17-Jun-78
3310 S. MURUGANANTHAM (E.SIVAPERUMAL)	TNSVC/2721 /05	241, THOPPUR NEW VILLAGE, TIRUCHENDUR POST, TUTICORIN DT.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	29-Dec-70

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3311 S. MURUGESAN (S.SUNDARA VELAYUTHAM)	TNSVC/3066 /05	432 / 1, SORNA MALAR STREET, GOMATHIPURAM 6TH MAIN ROAD, MADURAI 625 020 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	07-Oct-60
3312 S. MURUGESAN (T.SUBBIAH)	TNSVC/2396 /05	4, NALLATHANNER KIINARU STREET, THIRUMALAPURAM, BODINAYAKANUR, THENI DT 625 513. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	09-May-61
3313 S. MURUGIAH (SUBBIAH)	TNSVC/934/ 05	H6, R.M. COLONY, MAIN ROAD, DINDIGUL 824 001. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	06-Apr-48
3314 S. MUTHUSAMY (N.SRI RANGA GOUNDER)	TNSVC/3009 /05	KADAPPANALLUR P.O. BHAVANI TALUK, PERIYAR DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/64	15-Jan-40
3315 S. MUTHUSAMY (S.SETHRAMASAMY)	TNSVC/1632 /05	10, SANKARASITHI VINAYAGAR KOIL STREET, SANKARANKOVIL POST TIRUNELVELI DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/77	11-Jun-52
3316 S. MUTHUSAMY PANDIAN (S.SEENIPANDI)	TNSVC/928/ 05	123 / 4, AYYANAPURAM, CHATRAPATTI PDST 626 102, RAJAPALAYAM VIA. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	13-Mar-72
3317 S. MUZAMIL RAFAEK (M.SHEIK MANSOOR)	TNSVC/2637 /05	PLOT NO.11, FIRST STREET, RAM SAIT NAGAR, THORAPADI, VELLORE 632 002 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	02-Apr-61
3318 S. NAGALAKSHMI S/OK. SELVARAJ	TNSVC/3536 /06	65.B, VEERAVANCHINAGAR IST STREET, KOVILPATTI, TUTICORIN DISTRICT 628 501, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	26-Dec-81
3319 S. NAGALINGAM (A.SUNDARESA RAMALINGAM)	TNSVC/1263 /05	AUTOOR VIA, SRIVAIKUNTAM TALUK, UMARIKADU 628 151 TUTICORIN DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	04-Mar-52
3320 S. NAGARAJAN (N.SUBBAIAN)	TNSVC/2213 /05	KANDIAR STREET, NORTH AMBALAPATTU POST, PAPPANAD VIA, ORATHANAD TK, TANJORE DIST 614 626.	B.V.Sc/TNV&ASU /91	12-May-68
3321 S. NALAYBENI(N.SUNDARAJA N)	TNSVC/124/ 03	VALASAKADU, THIRUCHITRAMBALAM POSTPATTUKOTTAI TALUK THANJAVUR DIST 614 62 TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	29-Oct-76

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3322 S. NALINI (S.SANGARALINGAM)	TNSVC/121/ 03	NANTHAVANA THOTTAM, NR BALAMUNIAPPAN KOVITHIRUMALAIGIRI (SOUTH)K.N. PATTY -NAMAKKAL T&OT- 637404,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	25-May-79
3323 S. NAMAGIRILAKSHMI (L.SRINIVASAN)	TNSVC/119/ 03	80, MURUGAN KOVIL STREET, GANDHI NAGAR,NAMAKKAL 637 001TAMILNADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	15-Jun-79
3324 S. NANDA KUMAR (A.SUNDARAM)	TNSVC/533/ 05	VELLITHIRUPPUR PO, BHAVANI TK, EROOE DT 638 314.TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	01-May-82
3325 S. NANTHAGOPAL (G.SANKARAPPAN)	TNSVC/2394 /05	3/2125, S.N. PURAM POST, THIRUTHANGAL VIA, VIRUDHUNAGAR OIST, PIN : 626 130.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	20-Apr-86
3326 S. NATARAJAN (R.SENRAYAN)	TNSVC/2698 /05	N.S.K. NAGAR, THENGALVARAI, METTUR DAM - 2, SALEM DISTRICT 636 402,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	10-Feb-87
3327 S. NATESAN (M.SEVI GOUNDER)	TNSVC/2520 /05	64-2, KAMARAJ STREET, AMMAPETTAI POST, BHAVANI TK, EROOE DIST, PIN : 838 311TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNAU/79	15-Aug-82
3328 S. NELSON SAM S/O D. SAMRAJ	TNSVC/3523 /06	12/8, MUDALIMAR NORTH STREET, KOTTAR, NAGERCOIL 629 002,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	8-Jun-73
3329 S. NIMALESAN (S.SUNDARAM)	TNSVC/412/ 04	SENTHANGUOI, NAGALAM PO, ALANGUDI TK, PUDUKKOTTAI OT, PIN 614 624.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	15-Jun-79
3330 S. NITHYA (R.SHANMUGAM)	TNSVC/566/ 05	THOTTIYAPATTI POST, VAIYAPPAMALAI VIA, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT, 637 410.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	04-Jun-82
3331 S. PALANI SWAMY (L.SUBBIAH GOWDER)	TNSVC/3264 /05	5 / 87, SUNOAKKARAI PUOUR, VELLINANGADURPOST, KARAMADAI VIA, COIMBATORE - 641104.TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/84	10-Mar-80
3332 S. PALANIAPPAN (PR. SUNDARAM)	TNSVC/3284 /05	P-9, 3RD MAIN ROAD, RAMALINGA NAGAR, WORIUR, TRICHY 620 003.TAMILNAOU	B.V.Sc/TNAU/83	12-Apr-57

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3333 S. PALANICHAMY (G.SUBRAMANIAN)	TNSVC/1661 /05	371, ALAGAI NAGAR, RAJAPALAYAM, VIRUDHUNAGAR DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	01-May-69
3334 S. PALANISAMY (K.SUBBARAYAN)	TNSVC/1159 /05	2 / 82, EACHAWARI, BOMMASAMUDRAM POST, NAMAKKAL TK, SALEM DIST.- 637001 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	21-Apr-58
3335 S. PANNEERSELVAM (V.SIVASUBRAMANIYAM)	TNSVC/2242 /05	RAMANATHAPURAM POST, (VIA), SENDAMANGALAM 637409, NAMAKKAL DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	03-Jul-75
3336 S. PARTHASARATHI (S.SUBRAMANIAN)	TNSVC/1142 /05	KALKATTANUR POST, VENNANDUR VIA, NAMAKKAL DIST. 637 505. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	10-Jun-71
3337 S. PARTHASARATHY (G.SRINIKRISHNAN)	TNSVC/3125 /05	K.DURAISAMPURAM, ARUNGULAM (P.O.) VILATHIKULAM (T.K.) TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/83	07-May-66
3338 S. PARTHIBAN (C.SENGODEN)	TNSVC/516/ 05	PULLIPALAYAM, MORUR PO, SANGAKIRI TK, SALEM DT 637 304., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-May-79
3339 S. PARTHIBAN (P.SADAGOPAN)	TNSVC/567/ 05	OLD NO.50, NEW NO.3, PAMBATTY STREET, THANJAVUR 613 001. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	13-Sep-77
3340 S. PARTHIBAN (R.SIVAMURTHY)	TNSVC/634/ 05	2 / 112, ELLAI AMMAN KOIL STREET, CHINNA BABU SAMUDRAM & POST, VILLUPURAM TK, PIN : 605 102.	B.V.Sc&AH/PU/05	16-May-83
3341 S. PERUMALSAMY (K.V.SRINIVASAN)	TNSVC/2472 /05	MSR ILLAM, GOVINDANAGARAM POST, GANDAMANUR VIA, THENI, THENI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/84	30-Nov-41
3342 S. PERUMALSAMY (SUBBIAH)	TNSVC/3108 /05	8, THENDRAL NAGAR, BHARATHI NAGAR EAST, PERUMALPURAM, PALAYAMKOTTAI- 627 007, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	07-Jun-51
3343 S. PHANI KUMAR POTHULA S/o PRASADA RAO. P	APSVC/4356 /05	2ND LANE, L.R. PETA, PALAKOL, W.G. DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	24-Nov-79

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3344 S. PIRAMANAYAGAM (T.SHANMUGASUNDARAM)	TNSVC/3096 /05	43, P&T COLONY, THYAGARAJANAGAR, TIRUNELVELI 627 011 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78 /03	21-May-55
3345 S. PONPANDI (K.SURYLIYANDI)	TNSVC/1087 /05	133 / 1, KUPPANCHETTIAR STREET, KARUKATTANPATTI ROAD, USILAMPATTI, MADURAI (DT)	B.V.Sc/TNAU/83 /03	05-Jul-58
3346 S. PRABAHARAN (I.SOOSAIRAJ)	TNSVC/61/0 3	NO.80, MOONAMCHAVADI UMAREDDIYUR P.O.BHAVANI TK, ERODE DT. 638311TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	21-Mar-73
3347 S. PRABAKARAN (S.P.SEMBA GOUNDER)	TNSVC/1014 /05	PERIOKODAMPATTY P.O. SIKKAMPATTY. OMALUR TK, SALEM DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/77 /03	02-May-50
3348 S. PRABHU (R.SOOSAI)	TNSVC/892/ 05	6-144-1, DAVY LAND, CINNUPATTY, REDDIAPATTY POST, BATLAGUNDU 624 202.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	08-Mar-68
3349 S. PRADEEPA (K.A.SOMASUNDARAM)	TNSVC/310/ 04	NAILKENKOTTAI POST KAMBAINALLUR VIA DHARMAPURI DIST - 635 202TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	03-Mar-83
3350 S. PRASAD (M.SHANMUGAM)	TNSVC/1425 /05	MUMUMAKKADU, KURUVIKKARAMBAI (P.O.) PERAVURANI (T.K.) THANJAVUR DISTRICT PIN 614 602	B.V.Sc/TNV&ASU /02	26-Apr-77
3351 S. PREMA (N.NEELAKANDAN)	TNSVC/1607 /05	51 / 65, STATE BANK COLONY EXTN., NANGANALLUR, CHENNAI - 600 061TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	22-Feb-73
3352 S. PREMKUMAR (K.SRINIVASAN)	TNSVC/514/ 05	NO.21, 4TH CROSS RDAD, CHATTIRAM SCHOOL STREET, PATTABIRAM, CHENNAI 600072	B.V.Sc/TNV&ASU /05	16-Mar-82
3353 S. PREMKUMAR (R.SOUNDARARAJAN)	TNSVC/1506 /05	385, SIXTH MIDDLE STRET, THIYAGARAJA NAGAR, TIRUNELVELI - 627 011,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	19-May-71
3354 S. PRISCILLA RANI (S.D.SIMEON)	TNSVC/1472 /05	36J, PAULRAJ APARTMENTS, GANAPATHIRAJ NAGAR SALAI, VIRUGAMBAKKAM, CHENNAI 600 092	B.V.Sc/TNV&ASU /97	24-May-74

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3355	S. PRIYA (C.S.SATHYANANTHAN)	TNSVC/98/0 3	5, BALAJI NAGAR, R.V. NAGAR POST, KODUNGAIYUR, CHENNAI 600, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	09-Jan-80
3356	S. PRIYADHARSINI S/ON.M.SOUNDARARAJAN	TNSVC/3331 /06	NEERMULLIKUTTAI P.O. SALEM DISTRICT PIN 636 139TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	6-Oct-80
3357	S. PUGALENTHI (R.SOMASUNDARAM)	TNSVC/2119 /05	278/B1, KALAYAN NAGAR, THURAIUR ROAD, PERAMBALUR 621 212.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	25-Jul-61
3358	S. PUNITHAVALLI (C.SIVAGANESAN)	TNSVC/3063 /05	SENGUNTHAR NAGAR, MARUTHUR POST, PORIPARAPPI (VIA) PERAMBALUR- 621 710 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-Jul-81
3359	S. PUNNIA MOORTHY (K.SETHURAMAN)	TNSVC/852/ 05	NO.2A., BHARATHI THASAN STREET, VEDACHALAM NAGAR, SEVELIMEDU POST, KANCHIPURAM 631 502.	B.V.Sc/TNV&ASU /96	04-May-71
3360	S. PURUSHOTHAMAN (M.K.SWAMINATHAN)	TNSVC/3225 /05	18, CHINNA AYYAVU LAYOUT, SOWRIPALAYAM RD,(OPP.TO SAMS SCHOOL),SOWRIPALAYAM,COIMBAT ORE 641 028 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/75	18-Jan-54
3361	S. RADHAKRISHNAN (T.S.SATHURAPPANAICKE R)	TNSVC/3216 /05	100 / 5, MEENAKSHI NAGAR, SALAIPUDUR, KOVILPATTI - 628 503, TUTICORIN DISTRICTTAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/78	19-Sep-53
3362	S. RAGHU (V.SELVARAJ)	TNSVC/2649 /05	172, M.B.T. ROAD, NARASINGAPURAM, THIRUVALAM POST, PIN 632 515,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	19-Jun-75
3363	S. RAJA (M. SENGODAN)	TNSVC/1055 /05	24 / 39, PONNANDI GOUNDER STREET, NEAR CLUNY SCHOOL, SIVASAMY PURAM PUDUR, SALEM-7.	B.V.Sc/TNAU/86	17-Jul-60
3364	S. RAJAGOPAL (S.SITHAIYAN)	TNSVC/2927 /05	22 / A, MAILAMPATTI, THERUR (PO) SALEM DISTRICT 637 104 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	24-Jul-73
3365	S. RAJAMEENA (S.SHANMUGAM)	TNSVC/477/ 05	44 / 1, RAILWAY FEEDER ROAD, VIRUDHUNAGARTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	29-Aug-81

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3366 S. RAJAMUTHU(R.SRINIVASA N)	TNSVC/149/ 03	28 / 18A, NORTH KRISHNAN KOIL STREET, MADURAI 625 001. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	24-Apr-80
3367 S. RAJAN (R.SRINIVASAN)	TNSVC/1407 /05	NO.4, AMMU RAJAN ILLAM, KACHIRAPALAYAM ROAD, KALLKURICHI 606 202, VILLUPURAM DIST.	B.V.Sc/TNAU/88	01-Jun-65
3368 S. RAJAPANDI (S.SERUVAN)	TNSVC/1684 /05	DR. PALRAJ STREET, KATHIGUDICHATRAM, THIRUMANGALAM (TK), MADURAI (DT) 625 701, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	10-May-66
3369 S. RAJARAJAN (M.CHINNAIAN)	TNSVC/1484 /05	PLOT NO.41, PON NAGAR, ASHOK NAGAR EXTENSION, PUDUKOTTAI 622 303 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	21-May-70
3370 S. RAJARAJESWARI (M.R.SUBBIAH)	TNSVC/799/ 05	81, IDAIYYAPOTTAL STREET, SRIVILLIPUTHUR, VIRUDHUNAGAR DIST. - 626 125 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	26-Jun-66
3371 S. RAJARETHINAM (M.SELAMBAN)	TNSVC/933/ 05	KOTTANATHAM & POST, VEDASANDUR TALUK, DINDIGUL DT 624 620. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	
3372 S. RAJASEKAR (K.SEERANGAN)	TNSVC/444/ 05	2 / 39, VAGURAMPATTY, VASANTHAPURAM(PO) NAMAKKAL 637002TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	31-Jul-81
3373 S. RAJASEKARAN (G.SAMINATHAN)	TNSVC/479/ 05	PAPPAMPADI VILLAGE SINNAPPAMPATTI (PO), SALEM (DT) OMULUR (TK) PIN - 636306TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	07-Mar-79
3374 S. RAJATHI (C. SHUNMUGAM)	TNSVC/192/ 03	1 / 3, V.V.D. ROAD, TOOVEEPURAM, TUTICORIN 628 003. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	21-Jan-80
3375 S. RAJE EZHIL (K.SIGAMANI)	TNSVC/2734 /05	5 / 87, DR. AMBEDKAR NAGAR, JAGIR REDDIPATTY, AMMAPALAYAM POST, SALEM. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	18-May-72
3376 S. RAJENDRAN (K.SUBRAMANIAN)	TNSVC/746/ 05	5 / 148A, BEHIND MARIAMMAN KOVIL JAGIR REDDY PATTY, SALEM 636 302. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	31-Jul-56

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3377 S. RAJENDRAN (R.SUNDARA NAIDU)	TNSVC/2910 /05	BANK STREET, KALIYAMPOONDI VILLAGE & POST, KANCHEEPURAM DISTRICT PIN 603 402,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	04-Mar-52
3378 S. RAJENDRAN (S.SUBRAMANIAM)	TNSVC/3160 /05	13, THIRU VI KA STREET, VEERAPPAN CHATRAM, ERODE 638 004.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	26-Aug-75
3379 S. RAJENDRAN (SUBBARAYA MOOPER)	TNSVC/1404 /05	37, TANK STREET, KALLAKURICHI, VILLUPURAM DIST. PIN 606 202TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	20-Jul-60
3380 S. RAJESH KUMAR (S. SOMASUNDARAM)	TNSVC/203/ 03	16, K.K. SAMY NAGAR, SULUR 641 402, COIMBATORE DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	04-Apr-80
3381 S. RAJESHWARAN S/O N. SELVARAJAN	TNSVC/3514 /06	38, V. VANNIA NADAR STREET, VIRUDHU NAGAR 626 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	28-Feb-59
3382 S. RAJU (S. SUBBIAH)	TNSVC/1295 /05	36, LEVENGIPURAM, SOUTH STREET, THIRUKKURUNGUDI P.O. NANGUNERI TALUK, TIRUNELVELI DISTRICT PIN 627 115	B.V.Sc/TNV&ASU /96	15-May-70
3383 S. RAJU S/o SAGI SRINIVASA RAO	APSVC/4305 /05	H.NO.13- 228,T.B.AREA,MANCHEIRAL,ADILABA D DT,ANDHRA PRADESH	BVSc& A.H./MASFSU/05	15-Apr-81
3384 S. RAMA SUBRAMANIAN (L.SUBRAMANIAN)	TNSVC/2024 /05	79, PONNURANGAM STREET, OLD DOOR NO.70, RAJAPALAYAM 626 117, VIRUDHUNAGAR DISTRICT.	B.V.Sc/TNV&ASU /95	14-May-72
3385 S. RAMACHANDRAN (R.SINNA PAPPILLA)	TNSVC/1079 /05	37 / 17, VARADARAJAPURAM STREET, CUMBUM.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	05-Jun-65
3386 S. RAMAKRISHNAN (K.SUBRAMANIAN)	TNSVC/1961 /05	2 / 311, RADHAKRISHNAN STREET, NARAYANAPURAM, MADURAI - 14., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	06-May-54.
3387 S. RAMAKRISHNAN (R.SUBBIAH)	TNSVC/2399 /05	MELAPUTHUKKUDI POST, (VIA) AMMANPURAM, THIRUCHENDUR TK, TUTICORIN: 628 201.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	19-Jan-70

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3388 S. RAMALINGAM (R.SENTHILNATHAN)	TNSVC/1640 /05	1 / 112, THENDRAL ILLAM, TOWN- PLANNING NAGAR, NARASOTHIPATTY, SALEM 636 004, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	05-May-76
3389 S. RAMESH (A.SUBBARAYAN)	TNSVC/3138 /05	2 / 205, KONGU NAGAR, KOVAI ROAD, ANDANKOVIL EAST POST, KARUR, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	02-Jun-77
3390 S. RAMESH (P.SUBRAMANIAN)	TNSVC/350/ 04	KAMARASAVALLI (PO), ARIYALUR (TK), PERAMBALUR (DT) 621715 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	10-Apr-81
3391 S. RAMESH (R.SWAMINATHAN)	TNSVC/2458 /05	NO.2, IIND CROSS ROAD, IIRD MAIN ROAD, AZEEZ NAGAR, ARUPPUKOTTAI 626 101, VIRUDHUNAGAR DIST.	B.V.Sc/TNV&ASU /92	03-May-69
3392 S. RAMESH BABU (P.SUBRAMANIAN)	TNSVC/1100 /05	21, SOLAI ILLAM, 8TH CROSS STREET, THIRUVALLUVAR NAGAR, PALANGANATHAM, MADURAI- 3, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	06-Jun-65
3393 S. RAMESH(R.SUYAMBU)	TNSVC/3/02	25 / 32A, KUNJAN VILAI, MANIKATTIPOTTAL (P.O.), NAGERCOIL 629 501 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	15-Jun-78
3394 S. RANGASAMY (P.SEERANGAN)	TNSVC/763/ 05	COMPOUNDER THOTTUM, ANTHIYUR COLONY, MICHAELPALAYAM POST, ANTHIYUR VIA., BHAVANI TALUK, ERODE DISTRICT.	B.V.Sc/TNV&ASU /02	21-Apr-76
3395 S. RATHANAVEL (K.SENGODAGOUNDER)	TNSVC/1160 /05	ERANKADU KARADIANOOR, THENGALPALAYAM POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT. - 636 318. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	03-May-63
3396 S. RAVI (V.E.SETTIBACTHAR)	TNSVC/2230 /05	137-I / 43B, 13A, GANDHI NAGAR, VELLANDI VALASAI POST, IDAPPADI TK, 637 105 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	26-Jul-69
3397 S. RAVICHANDIRAN (T.V. SUBRAMANIAN)	TNSVC/213/ 03	22, NANJAPPA STREET, THAVITTUPPALAYAM, ANTHIYUR, ERODE 638 501. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	31-Jul-77
3398 S. RAVICHANDRAN (A.M.SUBRAMANIAN)	TNSVC/981/ 05	PLOT NO.96, RAHMAN NAGAR NEAR RAJMAHAL KALYANA MANDAPAM, MEDICAL COLLEGE ROAD, THANJAVUR 613 004.	B.V.Sc/TNAU/85	17-Jul-62

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3399 S. RAVICHANDRAN (A.SIVALINGAM)	TNSVC/760/ 05	SENGAPADUTHANKADU POST, PATTUKKDTTAL TALUK, THANJAVUR DISTRICT 614 613.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	30-Jul-74
3400 S. RAVICHANDRAN (M.SAMBASIVAREDDIAR)	TNSVC/2858 /05	NO.77, MIDDLE STREET, KURUMBALUR POST, PERAMBALUR DIST.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	25-May-57
3401 S. RAVINDRAN (C.SIVAMANI)	TNSVC/3121 /05	16, MIDDLE WHITE BETAL STREET, TRICHY 620 008,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	26-Jun-77
3402 S. RAVISANKAR(G.SANKARA RAMAN)	TNSVC/926/ 05	DOOR NO.8-1-451F, BACKSIDE DF CANARA BANK, RAILWAY STATION, VADAMADURAI 624 802, DINDIGUL DISTRICT.	B.V.Sc/TNAU/87	13-May-81
3403 S. RENGAMATHAN (K.SRINIVASACHARI)	TNSVC/766/ 05	G1, MUTHU PADMINI TOWERS, 5 / 3, KUMARAN COLONY I STREET, SAIDAPET, CHENNAI 600 015.	B.V.Sc/MU/70	30-Aug-46
3404 S. RENUKADEVI(W/O S.ANANDA MURUGAN)	TNSVC/2493 /05	8, ANDAL LAYOUT, SARDAR STREET, UDAMPALPET 642 126.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	01-Jul-75
3405 S. REVATHI S/O G.SELVARAJAN	TNSVC/3356 /06	UDAYANTHAKARAI (NEAR) KONUR (PO) METTUR (TK) SALEM DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	7-May-82
3406 S. SAIRABANU (P. SAMSUDEEN)	TNSVC/2/02	F8, DR.AMBEDKAR, TELEPHONE QUARTERS, TAYLOR'S ROAD, KILPAUK- 600 010,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	10-Jun-78
3407 S. SAJAYAN (K. SAHADEVAN)	TNSVC/259/ 04	23 / 8, NELLISSERY HOUSE, KALIYAL & PO, K.K. DIST, 629 101TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	02-May-79
3408 S. SAKTHIVEL (K.SUDALAI)	TNSVC/1890 /05	9 / 1B, SENAIYUR STREET, MUTHUKRISHNAPURAM, KADAYANALLUR, TIRUNELVELI DT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	11-Jan-79
3409 S. SAKTHIVEL (P. SUBRAMANIAM)	TNSVC/168/ 03	5 / 167, SELLIAMPALAYAM, FRONT OF STL,ATTUR,SALEM, PIN : 636 10TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	24-Mar-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3410	S. SAM RICHERD (SAM KARUNAKARAN)	TNSVC/265/04	PUTHEN PARAMBU, SARAL VILAI, MUTTAKADU, KUMARAPURAM PO, KANYAKUMARI DT. PIN 629 189,	B.V.Sc/TNV&ASU /04	01-Mar-80
3411	S. SAMARASAM (K. SEENI)	TNSVC/977/05	NO.452 / 2, 4TH STREET, VICTORIA COLONY, MEDICAL COLLEGE POST, THANJAVUR 613 004.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	05-May-60
3412	S. SAMUEL ARUL NAYAGAM (S.SWAMINATAN)	TNSVC/2206/05	SETTIKULAM POST, VIA, THERKU KARUNGULAM, NELLAI DIST 627 124.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	17-Jul-72
3413	S. SANJEEVIRAJ S/ON.SUBBIAH THEVAR	TNSVC/3400/06	21B/1, PONNAGARAM, NR AIRCEL TOWER, RAJAPALAYAM 626 108, VIRUDHU NR DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	1-May-66
3414	S. SANKARA SUBRAMANIAN (K.A.SUBBIAH)	TNSVC/3069/05	119D, GANDHI VEEDHI, KALAKAD, TIRUNELVELI DISTRICT PIN 627 501,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	03-Mar-60
3415	S. SANKARRAJ (S. SIVANIAH KARAYALAR)	TNSVC/173/03	DOOR NO.359, SLC II, ANNA NAGAR, MADURAI 625 020.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	23-Jan-46
3416	S. SANMUGHAM (R.SUBRAMANIAN)	TNSVC/1481/05	H.G.C. -2, PARK ROAD, METTURDAM - 1 SALEM DISTRICT PIN 636 401TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	02-Aug-77
3417	S. SARASWATHI S/O V.K.SHANMUGAM) (LATE	TNSVC/3393/06	VEPPUR VILLAGE & POST, KATPADI TALUK, VELLORE DIST 635 803.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	21-Nov-66
3418	S. SARAVANAMUTHU (M.SANKAR)	TNSVC/1388/05	NO.28, MARIYAMMAN SANNATHI STREET, THENKARAI, PERIYAKULAM, THENI DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	27-May-68
3419	S. SARAVANAN (C.SUNDARAM)	TNSVC/3020/05	ALISUKUDI, PARUKKAL (PO) UDIYARPALAYAM (TK) PERAMBALUR (DT) PIN 621 804TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	09-May-82
3420	S. SARAVANAN (G.SUBRAMANIAN)	TNSVC/47/03	30 / 20D, SUGALAYAM, SAKTHI NAGAR ANNEX, JUDGE ROAD, SALEM 636 0,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	05-Jun-77

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3421 S. SARAVANAN (M.SAMPATH)	TNSVC/253/ 04	4/618, J.J. NAGAR, MOGAPPAIR EAST, CHENNAI - 600 037, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	02-Aug-77
3422 S. SARAVANAN (M.SEVANTHILINGAM)	TNSVC/850/ 05	THANDALAI POST, MUSIRI TALUK, TRICHY DISTRICT 621 217. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	05-May-77
3423 S. SARAVANAN (O.SANKARAN)	TNSVC/2622 /05	100C, MURUGAN ILLAM, THONDI ROAD, SIVAGANGAI 630 560 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	26-Nov-75
3424 S. SARGURUNATHAN S/O G.SUBASHCHANDRABOSE	TNSVC/3471 /06	57, KALYANI NAGAR, UDAMALPET, 642 154 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-Aug-82
3425 S. SAROTHAMAN (L.SEETHAPATHY)	TNSVC/1598 /05	ND.7, REDHILLS ROAD, BHARATH NAGAR, KOLATHUR - 99 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	16-Oct-74
3426 S. SASIKUMAR (K.SENGODEN)	TNSVC/2652 /05	KUPPANGADU, APPYAPATTY, VATTUR POST, TIRUCHENGODE 637 205, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	02-Jul-74
3427 S. SATHASIVAM (K.SAMIAPPAN)	TNSVC/886/ 05	38 / 21, KANNIKA PARAMESWARI STREET, GOBICHETTIPALAYAM, ERODE DISTRICT 638 452. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	25-Oct-77
3428 S. SATHIANARAYANAN (M.SANJEEVI)	TNSVC/930/ 05	285, KATTUNAICKEN STREET, MALAYADIPATTI, RAJAPALAYAM, VIRUDHUNAGAR DT. - 626117, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	15-Dec-64
3429 S. SATHISH BABU S/OM.SELVARAJ	TNSVC/3463 /06	NO.13-B, LINGAPPAN STREET, ARNI 632 301, TIRUVANNAMALAI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	6-May-78
3430 S. SATHYA (M.MAKESH)	TNSVC/1648 /05	12 / 18, VEERAPPAN STREET, R.P.PUDUR, NAMAKKAL 637 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	30-Mar-75
3431 S. SATHYA (W/O R.RAMESH)	TNSVC/2235 /05	1E, SECOND FLOOR, RICHY DALE APARTMENT, 131, M.H,ROAO, PERAMBUR, CHENNAI 600 011.	B.V.Sc/TNV&ASU /92	11-May-69

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3432 S. SATHYAMOORTHY S/OG.SUNDARAVEL	TNSVC/3363 /06	THOPPUVELI, T.SOLANKURICHY (PO) UDAIYARPALAYAM (TK) PERAMBALUR DT- 621 804, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	21-Oct-80
3433 S. SEENIVASAGAN (V.SUBBIAH)	TNSVC/3257 /05	1-3-8H KAMARAJ NAGAR, ANAIPATHI ROAD, NILAKOTTAI, DINDIGUL DIST. TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/85	01-Jun-62
3434 S. SEETHALAKSHMI (G.SAMUDI)	TNSVC/458/ 05	2 / 30, V.S.K.N NAGAR, KAVERIPATTINAM 635112 KRISHNAGIRI (DT)TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	06-Dec-81
3435 S. SELVAGANESH (S.SUBASH)	TNSVC/1249 /05	NO.2 / 82, GURUSAMIPALAYAM (P.O.), RASIPURAM (T.K.) NAMAKKAL DIST. PIN 637 403, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	05-Jun-78
3436 S. SELVARAJ (B.SUNDARAM)	TNSVC/1662 /05	31-IIIRD MAIN ROAD, PONNAGAR, TRICHY 620 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	10-Jul-60
3437 S. SELVARAJ (K. SRINIVASAN)	TNSVC/179/ 03	28, VASANTHAPURAM, TINDIVANAM 604 001 VILLUPURAM DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	24-Dec-79
3438 S. SELVARAJ (S.SHANMUGAVELU)	TNSVC/1282 /05	266A, VEERAMAMUNIVAR STREET, NGO 'C' COLONY, SANAKARAN KOVIL 627 756, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	15-May-60
3439 S. SELVARAJ (V.SATHIYANARAYANAN)	TNSVC/1496 /05	32, M.V. CHETTY STREET, PALACODE P.O. 636 808 DHARMAPURI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	15-Aug-55
3440 S. SELVARAJU (A.SELLAPPAN)	TNSVC/2699 /05	JARATHAL, MURALI (PO), BHAVANI (TK), ERODE (DT), PIN 638 504, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	01-Apr-72
3441 S. SELVARAJU (M.SELLAPPA GOUNDER)	TNSVC/1700 /05	VELTUVAPPATTI, VELLARIVELLI PD., EDAPPADI (VIA), SALEM DT. - 637 101, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	08-Apr-75
3442 S. SELVAVINAYAGI (N.SUBRAMANIAN)	TNSVC/126/ 03	SALT ROAD, T. MARAVAKKADU POSTPATTUKKOTTAI TKTANJORE DT PIN : 614 TAMIL NADU04	B.V.Sc/TNV&ASU /03	22-Apr-79

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3443 S. SELVI (G.SELAMUTHU)	TNSVC/569/ 05	8/96, CHIDAMBARA NAGAR, SENDURAI TK, PERAMBALUR DT, PIN : 621 714.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	11-Jul-81
3444 S. SETHIL KUMAR (N.C.SADASIVAM)	TNSVC/1010 /05	5-151-49-1, DR. SUBARAYAN NAGAR, METTUR DAM, SALEM DT. 636401TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	30-May-61
3445 S. SETHILKUMAR (K.SUBRAMANIAN)	TNSVC/1733 /05	69, DEVAR COLONY, THILLAI NAGAR 1 CROSS, TRICHY 620 018,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	18-Nov-66
3446 S. SENGOTTUVELU (P.S.SUBRAMANIAM)	TNSVC/1517 /05	11, A.K.E. ROAD, NO.3M TIRUCHENGODE - 637 211, NAMAKKAL DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/70	20-Nov-46
3447 S. SENTHIL (R.SUTHANTHIRA KUMAR)	TNSVC/2059 /05	PLOT NO.8, DOOR NO.5, F-3, SARATH CHANDER APT, 7TH STREET, KUMARAN COLONY, VADAPALANI, CHENNAI-26.	B.V.Sc/TNV&ASU /94	30-Jul-71
3448 S. SENTHIL KUMAR (A.SADASIVAM)	TNSVC/36/0 2	VARAGUR TEACHER'S COLONY, VARAGUR POST, NAMAKKAL PIN:637 021TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	31-Jul-78
3449 S. SENTHIL KUMAR (K.S.SANTHANA KRISHNAN)	TNSVC/770/ 05	NO.23H, KUMARAPPA NAGAR, 3RD STREET, KATPADI 632 007., VELLORE DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	13-Nov-75
3450 S. SENTHIL KUMAR (K.SIVALINGAM)	TNSVC/2075 /05	57, A.G. PATTY ROAD, NAMAGIRIPET POST, NAMAKKAL DIST, PIN : 637 406.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	14-Jul-72
3451 S. SENTHIL KUMAR (P.SHANMUGAM)	TNSVC/1966 /05	4 / 369, SRI RAM NAGAR, VALUTHAREDDY, VILLUPURAM 605 401.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	27-Mar-75
3452 S. SENTHIL KUMAR (V.SUBRAMANIAM)	TNSVC/1053 /05	KALARAMPATTY PO, MALLIYAKARA (VIA), ATTUR (TK) SALEM DT 636 107TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	21-Jun-63
3453 S. SETHILKUMAR (V.SHANMUGAM)	TNSVC/1098 /05	B65 / 1, NEW DRO COLONY, K.PUDUR, MADURAI 625 007.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/89	03-Feb-64

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3454 S. SENTHILSELVAKUMAR(R. SUTHANTHIRA MANI)	TNSVC/378/ 04	131A, MDR NAGAR, 7TH STREET, ARUPPUKOTTAI, VIRUDHU NAGAR DT 626 101.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	24-May-81
3455 S. SENTHURAN (R.SINGARAM)	TNSVC/1739 /05	774, S.K.C. ROAD, ERODE DISTRICT PIN 638 001,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	20-May-77
3456 S. SHANMUGAM (S.M.SEMBA GOUNDER)	TNSVC/1127 /05	4 / 3-14, OPP. R.C. PLANT, RAMAN NAGAR, SALEM DT, PIN : 636 403.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	12-Aug-48
3457 S. SHANMUGAN (P.SUBRAMANIAN)	TNSVC/2528 /05	REDDIAPALAYATHAR THOTTAM, AMMAPETTAI POST, BHAVANI TK, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	04-Jun-71
3458 S. SHANMUGASUNDARAM (K.P.SENNIAPPAN)	TNSVC/2372 /05	6/1-2, CHURCH STREET, PUNJAI PULIAMPATTI POST, ERODE DIST, PIN : 638 459.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	11-Dec-50
3459 S. SHARMILA PRIYA (R.RENGANATHAN)	TNSVC/1225 /05	1 / 81, MELAARUNACHALAPURAM, KELA ARUNACHALAMPURAM (PO), PUDUR (VIA), VILATHIKUJALM (TK), TUTICORIN (DT) 628905	B.V.Sc/TNV&ASU /95	20-Jan-72
3460 S. SHENBAGAM S/O V.SANKAR	TNSVC/3380 /06	NO.9, NEHRU NAGAR GANAPATHI KOIL STREET, KAMARAJ NAGAR, AVADI, CHENNAI-71.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jun-83
3461 S. SHRIVIDYA (K.SUBRAMANIAN)	TNSVC/415/ 04	NO.1 / 35, II STREET, MADAGUPATTI, SIVAGANGAI DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc&AH/PU/04	12-Oct-81
3462 S. SINDHU S/O P.SUBRAMANIAN	TNSVC/3366 /06	126, KALAIVANI NAGAR, MOHANUR, NAMAKKAL DIST 637 015.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	5-Jun-83
3463 S. SIVAKUMAR (M.SHANMUGAM)	TNSVC/754/ 05	SRI ABIRAMI ILLAM, AVALPOONDURAI ROAD, MODAKKURICHI, ERODE DIST- 638 104.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-Apr-76
3464 S. SIVAKUMAR (P.SUBRAMANIAN)	TNSVC/268/ 04	VAIYANGUDI VILLAGE, SATHANATHAM POST, THITTAGUDI TK, CUDDALURE DT 606 111TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	26-Aug-79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3465	S. SIVAKUMAR (P.SUNDARAM)	TNSVC/2888 /05	KOVIL KADU, SEMBAMPATTI, KALYANI POST, PUDUCHATRAM VIA, NAMAKKAL TK, NAMAKKAL DIST.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	26-Jun-75
3466	S. SIVAKUMAR S/O M.SAKTHIVELU	TNSVC/3451 /06	8/A, ODAI STREET, CHINNAPULIYAMPATTI, ARUPPUKOTTAI 626 101, VIRUDHUNAGAR DIST, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /94	22-Mar-71
3467	S. SIVAKUMAR S/O S.SINGARAVELU	TNSVC/3376 /06	2, ULAVER STREET, VANNIYAR STREET, KUMARASWAMY PET, DHARMAPURI 636 703.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-Jun-76
3468	S. SIVASANKAR (N.SIVASUBRAMANIAN)	TNSVC/2588 /05	9/23, ELUGAMVALASU, PONNIVADI POST, DHARAPURAM TK, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	11-Jul-73
3469	S. SRIDEVI(N. SUNDARAM)	TNSVC/587/ 05	354, RAJU REDDY STREET, JOTHI NAGAR, ATTUR TK, SALEM DT, PIN : 636 102.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jun-82
3470	S. SRIDHAR (D.V.SRINIVASAN)	TNSVC/667/ 05	OLD NO.18, NEW NO.65, JAGIRDHAR ROAD, FORT DHARMAPURI 636 702, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	16-Jan-77
3471	S. SRINIVASAN (M.SHUNMUGAM)	TNSVC/2133 /05	35/3, OLD SBI COLONY, MELARAMAN PUDUR, NAGERCOIL 629 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	10-Jun-66
3472	S. SRINIVASAN S/OM.SELVARAJ	TNSVC/3361 /06	D.NO.13B, LINGAPPAN STREET, ARNI, ARNI 632 301,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	23-May-83
3473	S. STALIN VELLADURAI (V. SEENI)	TNSVC/170/ 03	E-133, PWD QUARTERS, TODHUNTER NAGAR, SAIDAPET, CHENNAI-15.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	20-Oct-79
3474	S. SUBA (N.SUBRAMANIAN)	TNSVC/156/ 03	A4, DHARSHAN, AYYAVU NAIDU COLONY, 11, RANGARAJALU ST., AMINIJIKARAI, CHENNAI - 600 029TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	19-Feb-80
3475	S. SUBAPRIYA(K.SUBRAMANI AN)	TNSVC/18/0 2	NO.5, LALITHALAYA APARTMENTS, ARUMBAKKAM, CHENNAI,TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	30-Nov-77

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3476 S. SUBBIAH PANDIAN (S.SIVANIAH THEVAR)	TNSVC/1222 /05	7-25, VEERAPANDIA PULIKULAM, ILAVELANGAL PO, KADAMBUR (VIA), TUTICORIN (DT) 628723 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	17-May-63
3477 S. SUBRAMANIAN (S.SIVAKUMAR)	TNSVC/2193 /05	"MANIKANDAN", KAVIMANI NAGAR, SUCHINDRUM 629 704.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	25-Jun-74
3478 S. SUBRAMANIAN (T.SWAMINATHAN)	TNSVC/1062 /05	FLAT NO.870, KARPAGGA NAGAR, K.PUDUR, MADURAI 625 007.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	08-Apr-67
3479 S. SUDALAI (T.SUBBIAH)	TNSVC/3241 /05	ANNA STREET, VALLAM POST, TENKASI TALUK TIRUNELVELI DISTRICT PIN 627 817 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	22-Apr-69
3480 S. SUDHA(SAMA SEENIVASAN)	TNSVC/29/0 2	OLD NO.18B-31, NEW NO.69, KAKKAN R.IVTH,SANKARAN KOIL 627 756TIRUNETAMDU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	17-Jun-78
3481 S. SUDHAHARAN S/O(LATE)K.SHANMUGAM	TNSVC/3339 /06	73, MUDALIAR STREET, JAYANKONDAM 621 802, PERAMBALUR DIST,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	20-May-82
3482 S. SUGALESINI (SUBRAMANIAM)	TNSVC/556/ 05	730, S.N.R. LAYOUT, NEW SIDHAPUDHUR, COIMBATORE 641 044.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	20-Nov-80
3483 S. SUGANTHY W/o. (P.SRINIVASAN)	TNSVC/1680 /05	VADAKKUKADU, R.S.CHINNAGOUNDANOOR, SANGAKIRI (VIA), SALEM - 637 302,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	15-Mar-74
3484 S. SUKUMAR (S.SETHURAJAN)	TNSVC/1719 /05	D-15, IST CROSS NORTH EAST EXTN. THILLAI NAGAR, TRICHY 620 018TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	31-Jul-66
3485 S. SUMATHI (P.SORNAKUMAR)	TNSVC/3101 /05	11, PERUMAL NORTH CAR STREET, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI - 2 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	20-Jun-69
3486 S. SUMATHI (V. SUBRAMANIAN)	TNSVC/182/ 03	PLAGUE QUARTERS OPP. MEERAMAHAL, RAILWAY STATAN RD., HOSUR - 635109TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	21-Oct-79

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3487 S. SUMATHI (W/O S.KARTHIKEYAN)	TNSVC/2237 /05	19/53A, SALAIYUR, SALANGAPALAYAM POST, KAVINDAPADI, ERODE DIST. PIN 638 455 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	24-Feb-77
3488 S. SUMITHA GRACE (M.A.JOHNSON CHARLES)	TNSVC/2964 /05	103, NH COLONY, PERUMALPURAM, TIRUNELVELI 627 007TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	03-Aug-65
3489 S. SUNDAR RAJAN (N.SUBRAMANIAN)	TNSVC/2835 /05	9B, SAI NAGAR, CHINTHAMANI BACK SIDE, RAMANATHA PURAM, COIMBATORE - 18, TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNAU/81	10-Oct-57
3490 S. SUNDARARAJ (R.SUBRAMANIAM)	TNSVC/2996 /05	AKKAMANAYAKKANPATTI P.O. VELLAKOIL VIA, KANKAYAM TALUK, ERODE DISTRICT 638 111, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	26-Sep-80
3491 S. SURESH (M.SUBBIAH)	TNSVC/917/ 05	7 / 158, MULLAI NAGAR, KALKKANAIKEN PATTY ROAD, PALANI- 624 601TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	30-Jul-68
3492 S. SURESH (P.V.SUBRAMANIAN)	TNSVC/1526 /05	PLOT NO.5, DOOR NO.30, 13TH CROSS STREET EXTENSION, NEW COLONY, CHROMEPET, CHENNAI-44.	B.V.Sc/TNAU/87	01-Jun-64
3493 S. SURESH (S.SANKARAN)	TNSVC/1537 /05	2 / 46, SECOND BLOCK, MOGAPPAIR WEST, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	30-May-66
3494 S. SURESH (S.SUBBIAH)	TNSVC/1329 /05	NO.16E, VMC COMPOUND, BUNGALOW STREET, KOVILPATTY 628 501, THOOTHUKKUDI DISTRICT.	B.V.Sc/TNV&ASU /97	18-Jun-72
3495 S. SURESH BABU (K.SRINIVASAN)	TNSVC/2962 /05	2 / 200, MOODUPALIPATTI, KULIVALAVU P.O. KOLLI HILLS, NAMAKKAL 637 411 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	10-Jul-78
3496 S. SUTHA (W/O K.THIRUNAVUKARASU)	TNSVC/2015 /05	16, NABESHA NAGAR, VELLORE MAIN ROAD, ARCOT, VELLORE DT 632 503.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	25-May-74
3497 S. SUVACINI (A.SUBRAMANIAN)	TNSVC/463/ 05	25, THIRU-V-KA STREET, KUMARASAMPET, DHARMAPURI 636703TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	27-Dec-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3498	S. SWAMINATHAN (R.SUBBIAH)	TNSVC/983/ 05	KANNANGUDI POST, DEVAKOTTAI VIA, SIVAGANGAI DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	09-May-68
3499	S. TAMIZHARASAN (V.P. SUNDARARAJAN)	TNSVC/215/ 03	23, O.P, KULAM STREET, KANCHIPURAM TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	28-Nov-78
3500	S. THAMIZH SELVAN (M.K.SUBBIAH)	TNSVC/1283 /05	69, PILLAYAR KOVIL STREET, MAVADICKAL, KADAYANALLUR - 627 751, TIRUNELVELI DISTRICT	B.V.Sc/TNAU/88	08-Mar-62
3501	S. THANABALAN (M.SAMINATHAN)	TNSVC/1113 /05	2 / 304, KURINJI MAIN STREET, AYYAVU THEVAR NAGAR, IYAR BUNGALOW, MADURAI 625 014. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	02-Dec-53
3502	S. THANAPPAN (P.SIVARAMAN)	TNSVC/2145 /05	NO.44, BIG STREET, VADIVEESWARAM, NAGERCOIL 629 002, KANYAKUMARI DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/KU/70	29-May-46
3503	S. THANGAPANDIAN (S.SADAIYANDI)	TNSVC/409/ 04	SAMBOORTHY PILLAI LANE, WEST CAR STREET, ELUMALAI 625 535, MADURAI DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	04-Jun-81
3504	S. THATCHINAMOORTHY (N.SENGOTTAIYAN)	TNSVC/643/ 05	ODATHURAI POST, ODATHURAI, BHAVANI TALUK, ERODE DISTRICT, PIN : 638 455. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	21-May-81
3505	S. THIRUKUMARAN (S.SANAKARANARAYANAN)	TNSVC/3206 /05	20, AMMAN NAGAR, MANIAKARAN PALAYAM, GANAPATHY, COIMBATORE 641 006 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/88	19-Nov-65
3506	S. U. ABDUL LATHEEF (S.S. UDUMAN)	TNSVC/174/ 03	198, EAST BAZAAR ROAD, KADAYANALLUR 627 751, THIRUNELVELI DISTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	06-May-76
3507	S. UDHAYAPERUMAL (M.SHANMUGANATHAN)	TNSVC/1483 /05	PANANGULAM (NORTH) P.O. KEERAMANGALAM (VIA) ALANGUDI TALUK PUDUKOTTAI DISTRICT 614 624	B.V.Sc/TNV&ASU /01	20-Jun-77
3508	S. UMAMAHESWARI (E.A.SUBRAMANIYAM)	TNSVC/657/ 05	385, KOVAI MAIN ROAD, NAMBIYUR, ERODE DIST. 638 458 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	12-May-76

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3509 S. USHA (M.SUBRAMANI)	TNSVC/1498/05	WEST VALASU, PUDUKKADU, P.METTUR (P.O.) RASIPURAM (TK) NAMAKKAL DT- 636203, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	19-May-77
3510 S. V. THAMBIDURAI (S.VELAYUDAM)	TNSVC/1529/05	5, MAIN ROAD, PALLIPAT 631 207, THIRUVALLUR DISTRICT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	15-Jul-63
3511 S. VADIVELU (C.SENGODAN)	TNSVC/2733/05	10 /13A, PULLIAMPATTI, CHITTOOR POST, IDAPADI TK, SALEM DIST, TAMIL NADU 637 101.	B.V.Sc/TNV&ASU /93	23-Feb-69
3512 S. VARALAKSHMI(S.SENGUTTUVAN)	TNSVC/112/03	12 A / 3, VAIGUNDA PERUMAL KOIL STREET, KANCHIPURAM 631 502, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	12-Jun-80
3513 S. VEERAMANI (V.V.SAMINATHAN)	TNSVC/996/05	1 / 56, EAST STREET, SOORAPPALLAM, PATTUKKOTTAI TK, THANJAVUR DT 614 601. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	12-Nov-76
3514 S. VELMURUGAN (P.SHANMUGA SUNDARAM)	TNSVC/50/03	4, ARIKKARAN KATTUR, VELLOTTAM PARAPPU (PO) PASUR (VIA), ERODE (TK & DT) PIN : 638 1 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	24-Jan-77
3515 S. VELUCHAMY (SUBBAJAHKONAR)	TNSVC/3243/05	MIDDLE STREET, MELANEELITHANALLUR 627 953, TIRUNELVELI DIST. TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	04-Dec-64
3516 S. VENGADALAKSHMI (W/O P. SARAVANAN)	TNSVC/2044/05	47/3, MAIN ROAD, DPP. GOVT HOSPITAL, TITTAGUDI, CUDDALORE DIST 606 106., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	20-Jul-75
3517 S. VENKATA RAMA RAO S/o NAGABHUSHANAM	APSVC/4381/05	PROJECT DIRECTOR ON POULTRY RAJENDRANAGAR HYDERABAD 500030, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/APA U/87	10-Mar-64
3518 S. VENKATACHALAM (R.SHANMUGAM)	TNSVC/2903/05	KANNIYAKUDI, THIRUPPANGUR P.O. SIRKALI TALUK, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	07-May-50
3519 S. VENKATESAN (K.SOMASUNDARAM)	TNSVC/2741/05	ASIRIYAR THOTTAM, LADDIVADI POST, GANGAVALLI TK, SALEM DIST 636 116. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	27-May-73

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3520 S. VENKATESWARAN (K.SUBRAMANIAN)	TNSVC/2848 /05	40, VIMAL NAGAR, VADAVALLI, COIMBATORE 641 041. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	18-Jun-62
3521 S. VENNILA (W/O G.SHANMUGAVELU)	TNSVC/2333 /05	2/77, SOMANDURAI P.O. POLLACHI TALUK, COIMBATORE TALUK 642 134, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	01-Mar-76
3522 S. VICTOR JEBARAJ (A.SUNDARARAJ)	TNSVC/2190 /05	KARUVACHANKUZHI VILAI, KANNANOR POST, KANYAKUMARI DIST 629 158. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	25-Jul-57
3523 S. VIDHYA (P.SENGOTTUVELU)	TNSVC/118/ 03	AMMAPALAYAM PUDUR, AGRAHARAM POST, GURUSAMIPALAYAM VIA, NAMAKKAL TK 637 403 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	21-Jun-80
3524 S. VIJAYAKUMAR (E.SRIRANGAN)	TNSVC/1885 /05	3 / 195, MARIAMMAN KOVIL STREET, VENGALAM (PO), VEPPANTHATTAI (TK), PERAMBALUR (DT) 621103	B.V.Sc/TNV&ASU /96	02-Aug-72
3525 S. VIJAYAKUMAR (S.SINGARAVELU)	TNSVC/2902 /05	KARUPPAMPULAM SOUTH & POST, VEOARANYAM TALUK, NAGAPATTINAM DISTRICT 614 707 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	02-Jun-75
3526 S. VIJAYAKUMAR (S.SUBRAMANIAN)	TNSVC/1712 /05	W-6, 3 / 15, INDRA NAGAR, UTHAMAPALAYAM, THENI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Jul-76
3527 S. VIJAYAMOORTHY (M.SINGARAM)	TNSVC/1205 /05	KANAKKANKADU, ELLAPALAYAM, MALLASAMUDRAM (PO), TIRUCHENGODU (TK), NAMKKAL (DT) - 637503	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-May-76
3528 S. VIMALI GRACYW/o (SATHISH VERGHESE)	TNSVC/361/ 04	MIG 107, 2ND CROSS STREET, ERI SCHEME, MOGAPPAIR WEST, CHENNAI - 600037	B.V.Sc/PU/02	17-Sep-78
3529 S. VINODINI (K. SUBRAMANIAN)	TNSVC/222/ 03	AG-8, SHANTHI COLONY, ANNA NAGAR, CHENNAI 600 040 TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	19-Oct-70
3530 S. VINOCHKUMAR (V.SOMASUNOARAM)	TNSVC/603/ 05	PERAMBUT POST, TIRUPATTUR TK, VELLORE DISTRICT, PIN : 635 652. TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-Jul-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3531	S. VISHNU KANDAN (V.P.SUBRAMANIAN)	TNSVC/2560 /05	13/98, MIN NAGAR, NEAR AMALA GOBICHETTIPALAYAM POST, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	01-May-66
3532	S. VISNU VINAYAGAM (M.SIVAM)	TNSVC/107/ 03	10, OLD TEMPLE STREET, PAPPARAPATTHI P.O. DHARAMAPURI DIST - 636809 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	26-May-79
3533	S. XAVIER SWAMYDOSS (S.J.J.SEBASTIAN)	TNSVC/2442 /05	A-15, ALPHA BLOCK, AMIRTHAVARSHINI, SUNDARRAMI ROAD, MOGAPPAIR EAST, CHENNAI 600 037	B.V.Sc/TNV&ASU /92	08-Jun-69
3534	S. YUVARAJ (S.K.SHANMUGAM)	TNSVC/400/ 04	SWAMINATHA PURAM PO, MODAKKURUCALL VIA, ERODE 638 104.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	17-Sep-80
3535	S. YUVARAJA S/OC, SENGODAN	TNSVC/3418 /06	K.S.S.BLUE METALS NEAR, BUDABADI POST 638 311, BHAVANI TK, ERODE.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	21-Jan-80
3536	S.A. FRANCIS XAVIER (S.ARJLSAMY)	TNSVC/1103 /05	47, RAMALAKSHMI NAGAR, LOURD NAGAR EXTENSION, K.PUDUR, MADURAI 625 007.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	08-Apr-65
3537	S.A.SYED SHAMEEN (S.A.SYEDKAREEM)	TNSVC/980/ 05	5, SYRONG STREET, CUDDALORE - 607 003.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	09-Sep-55
3538	S.AMIRTHAVALLI(P.SUBRA MANIAN)	TNSVC/1790 /05	NO.9 /11, KOLKARANUR, SALEM MAIN ROAD, MECHERI POST, METTUR (TK) SALEM DISTRICT 636 453	B.V.Sc/TNAU/85	15-May-61
3539	S.B. KOMATHI (S.BCSEPONNAMBALAM)	TNSVC/1248 /05	49C, NEDUMARAN NAGAR, DHARMAPURI - 636 701, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	25-Apr-77
3540	S.BAGAVATHSINGH(A.SUB RAMANIAN)	TNSVC/2281 /05	ATHINATHAPURAM, ALWARTHIRUNAGIRI (P.O), TIRUCHENDUR (TK), THOOTHUKUDI DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /88	15-Mar-66
3541	S.BALAJI (A.SUBRAMANIAM)	TNSVC/2655 /05	RASIPURAM MAIN ROAD, GOVT.H.S. SCHOOL (OPPOSITE) VAIYAPPAMALAI P.O. THIRUCHENGODU TALUK, NAMAKKAL DISTRICT	B.V.Sc/TNV&ASU /96	09-May-73

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3542 S.BALAYOKINI W/o. (R.VENGATASAMY)	TNSVC/1769 /05	NO.7 / 34, IIIRD STREET, NEHRU NAGAR, T.V.S.NAGAR, MADURAI - 3,TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNV&ASU /92	31-Jul-69
3543 S.BARATHIRAJA	PONDISVC/2 63/05	204, INDIRA NAGAR PUDHU NR-2 NETTAPAKKAM & PO- PONDICHERRY-605106, PONDICHERRY-6	B.V.Sc & AH/PU/205	20-Jan-83
3544 S.C. EDWIN (Y.SOOSAIMARIAN)	TNSVC/1551 /05	8-A2, ARULPRAKASH STRET, RAMANPUTHOOR, NAGERCOIL 629 004., KANYAKUMARI DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	30-Jul-69
3545 S.C. KARUNANITHY (S.P.CHINNASWAMY)	TNSVC/2857 /05	23-A3, JAGANNATH COLONY, FOXEN STREET, PERAMBUR, CHENNAI - 11.	B.V.Sc/TNAU/76	21-Oct-50
3546 S.C.CHANDRASEAKARAN (V.CHINASAMY)	TNSVC/2585 /05	NO.6, M.S.P. NAGAR, DHARAPURAM, ERODE DIST, PIN : 638 656.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	20-Mar-61
3547 S.E.THIAGARAJAN (ETTIYANNA GAUNDER)	TNSVC/1046 /05	PLOT NO. 40, G.R. NAGAR, SELLANAICKANPATTY PO, SALEM 636 201TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/70	09-Nov-47
3548 S.GEORGE PARADIS	PONDISVC/2 77/05	17, THIRUNALLAR RD, KARAICAL - 609602,PONDICHERRY	B.V.Sc/TNVASU/9 2	04-May-66
3549 S.H. SYED ASLAM (S.K. SYED HALIM)	TNSVC/1497 /05	19-C, MUSLIM STREET, PARAMATHY - 637 207, NAMAKKAL DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	02-Jun-76
3550 S.JAYABABU(S.SURIANAR AYANA MOORTHY)	TNSVC/1758 /05	567 / 7TH SOUTH STREET, THIYAGARAJAN NAGAR, MAHARAJA NAGAR P.O. TIRUNELVELI 627 011	B.V.Sc/TNV&ASU /95	25-Jun-69
3551 S.JAYAKUMAR(V.SIVAGNA NAM)	TNSVC/2287 /05	117, TIRUVANNAMALAI ROAD, KILPENNATTHUR, TIRUVANNAMALAI DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	21-Mar-69
3552 S.K. BALASUBRAMANIAM (KOLANDAVEL)	TNSVC/2545 /05	SELLIPALAYAM, KOSANAM POST, NAMBIYUR VIA, ERODE DIST 638 458.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	10-Jul-68

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3553	S.K. BASKAR (S.G. KRISHNAMOORTHY)	TNSVC/2225 /05	NO. 8, NEELAKANDAN STREET, NUNGAMBAKKAM, MADRAS -600 034.	B.V.Sc/TNAU/87 /05	01-Jun-59
3554	S.K. MAGUDESWARAN S/O S. KULANDAIVELU	TNSVC/3352 /06	1/85, NARAYANAPALAYAM, MORUR (PO) THIRUCHENGODE (TK) NAMAkkAL DT- 637 304, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	27-Jul-83
3555	S.K. RAMESH (S.KARUPPIAH)	TNSVC/3017 /05	25 / 23, P.H. ROAD, NEAR VETRI THEATRE, BODINAYAKKANUR, THENI DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	10-May-72
3556	S.K.R. VARUN (S.K. RAMASAMY)	TNSVC/611/ 05	757, M.G.R. NAGAR, IIND STREET, VIRALIMALAI, PUDUKOTTAI DIST. PIN - 621316 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	12-May-81
3557	S.K. SEENIVELAN (S. KRISHNASWAMY KARAYALAR)	TNSVC/2175 /05	20/3, POORANI ILLAM, VISHWAKARMA FLATS, VENKATARATHINAM STREET, TEYNAMPET, CHENNAI-6.	B.V.Sc/TNAU/88 /05	31-Jan-66
3558	S.KANDASAMY (K. SEERANGAN)	TNSVC/1931 /05	4 / 54, C1 ENGINEERS COLONY, JAGIR REDDIPATTI, SALEM - 636 302, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83 /05	08-Apr-59
3559	S.KANNAN (M. SIVASHANMUGAM)	TNSVC/1854 /05	7 / 790, SIVAGAMI ILLAM, PONGALUR 641 667, TIRUPPUR TK, COIMBATORE DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	30-Jun-72
3560	S.KARTHIKEYAN (K. SUBR AMANIAN)	TNSVC/1765 /05	C-29, THIRUNAVUKARASAR STREET, ALAGAPPAN NAGAR, MADURAI - 3 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	07-May-70
3561	S.LAVANYA	PONDISVC/2 65/05	332, SATHANI STREET, KUYAVARPALAYAM, PONDICHERRY- 13	B.V.Sc & AH/PU/05	09-Feb-83
3562	S.M. BALASUBRAMANIAN (S.P. MUTHU)	TNSVC/1234 /05	78 / 16A, STATE BANK COLONY EAST, KADALAYUR MAIN ROAD, KOVILPATTI - 628501, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	06-Mar-69
3563	S.M. CHAKLA BABU (L.S. MAHABOOB BATCHA)	TNSVC/2364 /05	49, MELAPALAYAM WEST CAR STREET, AMBASAMUDRAM, TIRUNELVELI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	22-Apr-66

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3564	S.M. SELVARAJ (G.SINGARA VELU)	TNSVC/2779 /05	6A / NEW NO.19, VEERARAGHAVAN STREET, SRINIVASA NAGAR, PERUNGALATTUR, CHENNAI 600 063.	B.V.Sc/TNAU/84	22-Dec-55
3565	S.M. SUDHA ROSE (A.SOOSAI MARIYAN)	TNSVC/2370 /05	3/282, MAIN ROAD, THIRUVONAM POST, ORATHANADU TALUK, THANJAVUR DIST, PIN : 614 614.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	31-May-78
3566	S.M.ARAVIND KUMAR (M.S.V.R.PANDIAN)	TNSVC/1802 /05	175-6, KURINGI COLONY, FOURTH AVENUE, ANNA NAGAR, CHENNAI 600 040	B.V.Sc/TNV&ASU /97	04-Feb-73
3567	S.M.K. THRUMARAN (S.M. KUPPUSAMY)	TNSVC/362/ 04	58, NANGOORAM NAGAR, NANDHIVARAM, GUDUVANCHERY, KANCHIPURAM, DT- 603202,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	19-Aug-80
3568	S.MAHENDRAN (T.SRINIVASAN)	TNSVC/1641 /05	NO.16, ARUNACHALAPURAM C COLONY, KTC NAGAR, TIRUNELVELI,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	09-May-74
3569	S.MARIMUTHU S/o SUBRAMANI	KARNASVC/ 3808/	"ANIL SUNIL NILAYAM" AMARAVATHY LAYOUT, BANGARPET, KOLAR DT, KARNATAKA	BVSc/UAS,B'LOR E/77	28-Nov-52
3570	S.MOOKAN (M.SUBBAN)	TNSVC/2337 /05	SENGUNAM POST, PERAMBALUR TALUK, PERAMBALUR DISTRICT, PIN 621 220,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	10-Sep-74
3571	S.MUTHUSAMY (K.SHANMUGASUNDRAM)	TNSVC/2325 /05	67, R.S.PURAM, MAHALINGAPURAM P.O. POLLACHI TK. COIMBATORE DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	04-Sep-48
3572	S.N. JAYAPRAKASH (S.S.NARAYANASAMY)	TNSVC/1726 /05	19, LUSKAR STREET, TRICHY 620 008,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	29-Dec-62
3573	S.N. SUTHAGAR (S.NAMASIVAYA MOORTHY)	TNSVC/1997 /05	221, MUNDAGA NADAR STREET, SIVAKASI 626 123.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	12-Mar-72
3574	S.P. GOWTHAMAN (P.S.PALANIVELU)	TNSVC/1892 /05	5 / 872, ANNAI THERASA ST, SENTHIL NAGAR, COLLECTORATE (PO), DHARMAPURI - 636705,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	05-Jun-56

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3575 S.P. MUTHUKUMAR (S.PEDDHARAMAN)	TNSVC/1559 /05	32, CHINNAGOLLAPPATTY, MALLASAMUDRAM 637 503, NAMAKKAL DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	07-Nov-71
3576 S.P. OM MURUGAN (S.PALANICHAMY)	TNSVC/1448 /05	W-20 / D-5, THENDRAL NAGAR, EAST STREET, BODINAYAKKANUR, THENI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	29-Jan-68
3577 S.P. SUBRAMANIAN (PALANIAPPA GOUNDER)	TNSVC/60/0 3	VETTUKADU, THETHUKADU P.O., NAMAKKAL TALUK & DIST. PIN 637 404TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/78	10-Dec-52
3578 S.P.SIVAKUMAR (S.PANDARA MUDALIYAR)	TNSVC/3005 /05	IDAICAL POST, TENKASI TALUK, NELLA DISTRICT, PIN 627 804 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	24-Feb-80
3579 S.PARAMESWARAN (K.SENGODAN)	TNSVC/759/ 05	GANDHI NAGAR, G.S.COLONY POST, ANTHIYUR VIA, ERODE DISTRICT 638 501. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	08-May-75
3580 S.PARTHIBAN	PONDISVC/2 76/05	10/442 IST CR, THULUKATHAMMAN NG, MURUNGAPAKKAM, PONDICHER RY	B.V.Sc & AH/PU/05	16-May-83
3581 S.R. BEENA S/O MAJ. K. ANNESUDHAN	TNSVC/3511 /06	C/O.MR.A. KAYAVARNAM, S.PADMANABHAN STREET, SRIDEVI NAGAR, KAMARAJ NAGAR, CHENNAI 600 071	B.V.Sc/TNV&ASU /97	3-May-77
3582 S.R. S. SELVAKUTHALINGAM, (S.R.SIVASUBRAMANIAN)	TNSVC/434/ 05	MADATHUR VILLAGE, GUNARAMANALLUR PO. THENKASI TIRUNELVELI DIST. PIN - 627 814TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	20-May-69
3583 S.R. SURESH (S.S.RAJAMANICKAM)	TNSVC/2082 /05	15/44, UPSTAIRS, KARUR MAIN ROAD, KARUMANDAMPALAYAM 638 154, ERODE DIST., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	28-May-68
3584 S.R. THANAMMAL W/o.S.RAVICHANDRAN	TNSVC/555/ 05	1 / 437, NARANAPURAM VILL.PO, SIVAKASI EAST VIRUDHU NAGAR DT, TN 626 169. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	04-May-75
3585 S.R.MURUGAN (S.RAMASAMY)	TNSVC/2439 /05	55, HUSSAIN STREET, KOVILPATTI 628 501TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	30-Apr-69

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3586 S.RADHAKRISHNAN (N.SIVASANKARAN)	TNSVC/2353 /05	81, RATHNA SCHOOL STREET, MUTHUKRISHNAPURAM, KADAYANALLUR 627 751, TENKASI TALUK, TIRUNELVELI DISTRICT	B.V.Sc/TNV&ASU /00	19-Apr-73
3587 S.RAJAMOHAN (O.SARASAKSHAN)	TNSVC/2138 /05	32-A, KALMADA STREET, VADIVEESWARAM, NAGERCOIL, K.K. DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	12-Jun-72
3588 S.RAJATHI (P.R.SOUNDAPPAN)	TNSVC/679/ 05	SEERAPPALLI P.O. RASIPURAM TK NAMAKKAL DIST. 637 406,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	27-Dec-71
3589 S.RAM (P.SAMBANDAM)	TNSVC/2255 /05	45, SANNADHI STREET, VANDAVASI, TIRUVANNAMALAI DISTRICT PIN 604408TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/69	07-Jul-43
3590 S.RAMAKRISHNAN (R.SAMBATHAIYA)	TNSVC/1747 /05	NO.3, PARVATHI NILAYAM, RAJAJI NAGAR, ARIYALUR, PERAMBALUR DISTRICT 621 713,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	15-Jan-76
3591 S.RAMAMOORTHY(R.SUN DARAM)	TNSVC/1777 /05	R.J. HOSPITAL, BHARATHIDASAN SALAI, RASIPURAM T.K. NAMAKKAL DISTRICT PIN 637 408,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	14-Jun-74
3592 S.RAMESH (M.SUBRAMANIAM)	TNSVC/545/ 05	3 / 41.A, MATTAIPARAI PUDUR, KADHAPPALLI PO, NAMAKKAL, PIN 637 019, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Apr-82
3593 S.RAVICHANDRAN (N.K.SANKARAN)	TNSVC/1210 /05	151 / B3, MEENACHI ILLAM, KOKKARAYAN PETTAI ROAD, KOLLAPATTI, ANIMOOR POST, THIRUCHENGODE (TK), NAMAKKAL (DT)	B.V.Sc/TNAU/88	06-Apr-65
3594 S.S. MURUGESH (B.SIVANANAINTHA PERUMAL)	TNSVC/2207 /05	2/408, C.T.M. PURAM, PARAKKAI POST, KANYAKUMARI DIST.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	30-May-75
3595 S.S.SENTHIL KUMAR (S.SINRAJ)	TNSVC/1793 /05	PLOT NO.16, VOC STREET, ARUL NAGAR, ELLIS NAGAR EXTN. MADURAI 625 010 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	11-Jun-77
3596 S.SAKTHIVEL PANDI (D.SETHURATHINAM)	TNSVC/923/ 05	7 / 1, DR.KALIMUTHU NAGAR, IDUMBANMALAI ROAD, PALANITAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	09-May-66

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3597 S.SATHYAPRABA (W/O P.SELVARAJAN)	TNSVC/2348/05	31, MALAIARASAN KOVIL ROAD, ARUPPUKOTTAI 626 101 VIRUDHUNAGAR DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	23-Jul-72
3598 S.SELLANDI (SELLANDI THEVAR)	TNSVC/1450/05	7-6-38A, SANJAI GANDHI STREET, JEGANATHAPURAM SOUTH, PALANICHETTYPATTI, THENI, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	12-Apr-59
3599 S.SELVINJOSE (S.SATHIANESAN)	TNSVC/680/05	1-169, VADASERY VILAI, CHERUKOLE, KATTATHURAI P.O. KANYAKUMARI DT. 629 158, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	21-Jun-76
3600 S.SENTHILKUMAR(R.SUB RAMANI)	TNSVC/1750/05	KEERANUR, NO.3, KUMARAPALAYAM POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DIST. PIN 636 203, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	10-Jul-77
3601 S.SENTHILMUTHUKKUMARAN (P.SHANMUGAM)	TNSVC/2670/05	6/35A, KANKAYAM ROAD, KODUMUDI 638 151, ERODE DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	23-May-74
3602 S.SHANMUGAM(SELLAPPA GOUNDER)	TNSVC/1817/05	AKKARAI PATTY P.O. MALLSAMUDRANI VIA NAMAKKAL DISTRICT 637 503 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	02-Jun-70
3603 S.SHANTHI (W/O R.BABU)	TNSVC/2335/05	11/74, T.K.C. NAGAR, NEAR T.V.S.NAGAR, MAHARAJA NAGAR, (P.O.) TIRUNELVELI 627 011, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	14-Mar-72
3604 S.SIVAGNANAM (P.SANTHAL)	TNSVC/2277/05	1172, THENDRAL NAGAR, VENGICKAL, TIRUVANNAMALAI, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	09-Apr-66
3605 S.SMITHA	PONDISVC/260/05	28, AMIRTHA NIVAS, IV CROSS STREET, RAJAJI NAGAR, PONDICHERRY-8	B.V.Sc & AH/PU/05	23-Oct-82
3606 S.SREEGEETHA (K.SUBRAMANIAN)	TNSVC/469/05	130A, MARUDHAM COMPLEX, BAZAAR STREET, GOBICHETTIPALAYAM TK, ERODE DT 638452	B.V.Sc/TNV&ASU /05	16-May-82
3607 S.SREEJSHA	PONDISVC/271/05	20, VEERIYAH STREET, GUNDUPALAYAM, PONDICHERRY-9	B.V.Sc & AH/PU/05	05-Sep-82

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3608 S.T. BINO SUNDAR (P.SUNDARARAJ)	TNSVC/2109 /05	15/13B, KOOTTAPULIVILAI, PALLIYADY POST, KANYAKUMARI DT, TAMIL NADU 629 169.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	02-Jul-76
3609 S.T. RAJKUMAR (S.THANGAVEL)	TNSVC/2546 /05	103, KULALAR STREET, ELANDAKUTTAI POST, ERODE 638 008.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	25-Mar-70
3610 S.T. SELVAN (R.N.SHANMUGAM)	TNSVC/1380 /05	A6, PLOT NO.109, 4TH WEST STREET, VEERAPANDIAN NAGAR, CHOOCLAIMEDU, CHENNAI 600 094	B.V.Sc/TNAU/88	07-Jul-66
3611 S.THIRUNAVUKKARASU (V.SELLAMUTHU)	TNSVC/2298 /05	64/A8, M.V.K. NAGAR, PERAMBALUR P.O. & DISTRICT PIN 621 212 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	04-Apr-77
3612 S.U. BASAVARAJA (S.UMAPATHY)	TNSVC/3186 /05	HIG 31, TNHB, ERRENAHALLI PO PALACODE 636 808TAMILNADU	BVSc/UAS B.LORE)87	01-Jun-62
3613 S.V. SINGARAVELAN (S.VENKATESAN)	TNSVC/2632 /05	NO.270, JEEVANANDAM STREET, GANDHI NAGAR, VELLORE 632 006	B.V.Sc/TNAU/87	27-May-63
3614 S.V. SUJATHA S/OS. KRISHNAN	TNSVC/3507 /06	NO.48, SATHYA DEV AVENUE, MRC NAGAR, CHENNAI 600 028,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	1-Jun-68
3615 S.VELLAIPANDI(V.SEENIVA SAGAM)	TNSVC/1753 /05	MAIN ROAD, VELAYUTHAPURAM POIGAI (PO) TENKASI T.K. TIRUNELVELI DISTRICT PIN 627 856,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	11-Sep-65
3616 S.VENKADESAN(N.R.SAMY)	TNSVC/1789 /05	NO.9, RAJARAM STREET, PUDU NAGAR POST, THIRUMANGALAM, MADURAI DISTRICT	B.V.Sc/TNAU/89	01-Sep-65
3617 S.VIJAYA KUMAR RAO S/o NARAYANA RAO	APSVC/4422 /06	2-101, GOPALAPURAM, HANAMKONDA (M), WARANGAL DT 506015, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc./APAU/79	06-Mar-56
3618 SABIHA HAYATH BASHA (K.HUSSAIN SHERIFF)	TNSVC/2246 /05	NO.4/6, GRACE COURT APTS, AKBARABAD II STREET, KODAMBAKKAM, CHENNAI 600 024.	B.V.Sc/TNV&ASU /92	13-Feb-68

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3619	SABITA KUMARI D/o SHREE SHREEKRISHN RAM	BiharSVC/24 62/04	VILL/MUHALLAH - GADPUR P.O. - BIHARSHARIEF SUB-DIV - DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/04	08-Mar-79
3620	SACHIN SOUNDALAGI S/o NANASAHEB	KARNASVC/ 3744/	CHINCHALI RAIBAG TALUK, BELAGAUM - 591217, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	22-Aug-82
3621	SACHIN UPADHAYAY S/o SHRI S.S. UPADHAYAY	MPSVC/2303 /05	A-24, VIJAYNAGAR COLONY, AMKHO LASHKAR GWALIOR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	28-Sep-78
3622	SADANAND DIWAKAR S/o LATE MUNSHI TANTI	BiharSVC/25 87/05	VILL/MUHALLAH - KANAN P.O.- KAISHOPUR DIST - JAMUI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	15-Jan-77
3623	SADINENI SREE LAXMI S/o S MALLAIAH	APSVC/4385 /05	QNO 588-D, GANDHINAGAR, GODAVARIKHANI KARIMNAGR- 500209, ANDHRA PRADESH.	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	04-Jun-81
3624	SAFNA ISAAC. M.	KERALA/301 9/05	MATTAMMELMOUSE, MULANTHURUTHY, ERNAKULAM 682314, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	02-Jan-80
3625	SAHAD S.	KERALA/306 8/05	KHADEEJA MANZIL, KANNANALLOR P.O., KERALA	BVSc&AH/KAU/05	25-Sep-79
3626	SAHAYA PRATAP FONGLAN (A.M.G.FONGLAN)	TNSVC/1612 /05	18-B, HENRY ROAD, NAGERCOIL 629 001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	03-Nov-80
3627	SAIEDMUSTHafa (YEHASHANALLAH)	TNSVC/2216 /05	11/A, JAILANI STREET, LABBAI KUDI KADU POST, PERAMBALUR DIST, 621 108.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	10-Jun-70
3628	SAIKIA (MS.) DEBANITA D/o LATE DEBANANDA SAIKIA	ASMSVC/22 29/05	C/O MRS.ANITA SAIKIA, ARYA NAGAR, ARYA PATH - 2, GHY-16, ASSAM	B.VSc&A.H/AAU/0 3	16-Apr-77
3629	SAIKIA BINANOBA BIKASH S/o MR. BENUOHAR SAIKIA	ASMSVC/22 26/05	MAYANG NARAH PATH, STATION ROAD, P.O. & DIST DHEMAJI, PIN- 787057, ASSAM	B.V.Sc& A.H/AAU/05	01-Mar-81

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3630 SAILESH KUMAR MOHANTY S/O SH. P.K. MOHANTY	ORISSASVC /1986/05	AT/PO-TITIRA, PS-BALIKUOA, DIST JAGATSINGHPUR, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	07-May-80
3631 SAMBANGI RAMBABU S/o APPALA SWAMY.S	APSVc/4367 /05	PLOT NO. 277, PHASE II, SAKET, KAPRA, SECUNDERABAO - 500 062,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	03-Aug-82
3632 SAMEER KUMAR MANOAL S/o SHREE JWAHAR PRASAD	BiharSVC/24 82/04	VILL/MUHALLAH - BEBLI P.O. - JUNGALPUR THANA - GOBINDPUR SUB-DIV - DHANBAD DIST - DHANBAD, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	16-Apr-77
3633 SAMIRAN MONDAL S/O SHRI JALESWAR MONDAL	WBSVC/315 7/05	VILL KAJICHAK PO. KHANYADIHI, DT, PURBA MIONAPUR- 721641, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	02-Sep-81
3634 SAMRAT KHURANA S/o SHRI SOHAN LAL KHURANA	UVC/129/06	VETY OFFICER,GOVT.VETY HOSPITAL,TUNI,DISTT- DEHRADUN,UTTARANCHAL	BVSc&AH/PAU/02	30-Nov-77
3635 SANDEEP BHATIA S/O SH DEVKI NANOAN BHATIA	HARSVC/186 7	H.NO. 1426, SECTOR - 14, HISAR,HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	18-Feb-80
3636 SANDEEP GUPTA S/o SH. DES RAJ GUPTA	HPSVC/737/ 05	NR SANSKIRT COLLAG PURANA BAZAR SUNDER-NR DT. MANOI- 174402,HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	26-Jun-79
3637 SANOEOP KHIMTA S/o SH. KAHAN SINGH	HPSVC/710/ 05	VILL-BAGHAL,PO-KIARVI THE.KOTHAI,DISTT- SHIMLA,HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc&AH/CSKK VV/05	16-Feb-81
3638 SANDEEP KUMAR S/o SHREE SURESH SHARMA	BiharSVC/25 44/04	VILL/MUHALLAH - JALALPUR P.O. - SOHSARARY THANA - SOHSARAY SUB-DIV - BIHARSHARIF DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/UAS,D HARWAD/04	15-Feb-79
3639 SANDEEP SREEVALSAN S/o SREEVALSAN.M.K.	KARNASVC/ 3777/	F2,13/14, CORONET CASTLE,RMV NAIDU LAYOUT, SANJAYANAGAR STAGE,BANGALORE-24, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	08-Nov-82
3640 SANOEOP YADAV S/O SH SHER SINGH YADAV	HARSVC/188 8	1163/9, SHASTRI NAGAR, LADOT ROAD ROHTAK, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	10-Aug-82

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3641	SANDHYA P D/o BIXA REDDY.P	APSVC/4402 /05	HNO. 29-73, EDULAGUDA MIRYALGUDA 508207 NALGONDA DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	10-Jul-82
3642	SANDHYA T.P.	KERALA/305 1/05	THAZHEPARAMBATH HOUWE, MEPPADAM P.O. MAMPAD (VIA), MALAPPURAM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	23-Mar-79
3643	SANDIGDHA SENAPATI S/O MR. SAROJ SENAPATI	ORISSASVC /1998/05	AT: MAKALPUR, PO: MOTIGUNJ, DIST: BALASORE., ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	04-Sep-73
3644	SANGEETA BERMAIYA D/o SHRI S.L. BERMAIYA	MPSVC/2306 /05	H. NO. 1608, SIDH BABA ROAD, GOPAL HOTEL, LALMATI JABALPUR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	16-May-82
3645	SANJAY KUMAR S/O SH. RAM NIWAS	HARSVC/188 5	AMAR NAGAR, HANUMAN DHANI, BHIWANI, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	28-Jul-79
3646	SANJAY KUMAR BHARTI S/o SHREE SHRAWAN PASWAN	BiharSVC/23 22/03	VILL + P.O.- SAHARI THANA - GHOSEBARI SUB-DIV - BARH DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/GBPU A&T/03	09-Mar-76
3647	SANJAY KUMAR PRADHAN S/O SRI R.C PRADHAN	ORISSASVC /2030/05	AT/PO- SAHARGURUJANG VIA- PALLAHARA, DIST - ANGUL - 759119, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	21-Jun-81
3648	SANJAY KUMAR S/o SHREE BHAGWAN SAO	BiharSVC/24 29/04	VILL - CHABAIL P.O. - MAHAPUR THANA - KAUYAKOL SUB-DIV - NAWADA DIST - BAWADA, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	08-Aug-78
3649	SANJAY KUMAR S/o SHREE DEONANDAN PRASAD	BiharSVC/25 67/04	VILL/MUHALLAH - PANATI P.O. - PANATI THANA - BELAGANJ SUB- DIV - GAYA DIST - GAYA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	04-Jun-77
3650	SANJAY KUMAR S/o SHREE RADHA KRISHNA RAZAK	BiharSVC/23 91/03	VILL + P.O. - MORE THANA - MOKAMA SUB-DIV - BARTH DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	28-Nov-77
3651	SANJAY KUMAR SHARMA S/o LATE PURUSHOTTAM LAL SHARMA	UVC/153/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, THALNADI, (YAMKESHWAR), DT-PAURI GARHWAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/98	30-Jul-71

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3652	SANJAY KUMAR VERMA S/o SHREE RAM HARI PRASAD	BiharSVC/25 54/04	VILL/MUHALLAH - BHALUYA P.O. - KACHIYAWAN THANA - BODH GAYA SUB-DIV - DIST GAYA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	01-Mar-77
3653	SANJAY SARKAR S/O SHRI SUSHIL CHANDRA SARKAR	WBSVC/320 1/05	VILL SHERPUR, P.O. BUNIADPUR DIST. D/DINAJPUR-733121, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	30-Apr-83
3654	SANJAY SOOD S/o D.P. SOOD	PbSVC/2582/ 05	3124/3, SEC 44-D, CHANDI, RAMAL MEDICAL HALL, SCF 202, SEC24 D, CHANDI, PUNJAB	BVSc&AH/RAU/9 1	26-May-68
3655	SANJAY.M.P. S/o M.T.PUTTARAJU	KARNASVC/ 3789/	MULEPETTALU, MARENAHALLI POST, K.R.NAGAR, MYSORE DT- 571441, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	19-Jul-82
3656	SANJEET KUMAR S/o SHREE DHANESHWAR PRASAD MEHTA	BiharSVC/24 86/04	VILL/MUHALLAH - MANIKPUR P.O. KAWADPUR THANA - SURAJGARHA SUB-DIV - DIST - LAKHISARAI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	25-Feb-80
3657	SANJEET KUMAR S/o SHREE RAM NARESH RAY	BiharSVC/25 33/04	VILL/MUHALLAH - PANCHRUKHI P.O. - RATANPUR BELA THANA - SAMASTIPUR SUB-DIV - SAMASTIPUR DIST - SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc/TNV&ASU/ 04	10-Oct-79
3658	SANJEEV KUMAR JOHRI S/o LATE R.C.JOHRI	UVC/176/06	VETY OFFICER, BREEDING FARM, BHARARISAIN, DT- CHAMOLI, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/92	05-Jul-69
3659	SANJEEV KUMAR S/o SHREE SHEETAL PRASAD YADAV	BiharSVC/23 18/03	VILL - SUKHASAN KHOTHI P.O - LAUKAHI THANA - BARRHARA KHOTHI SUB - DIV - DHAMDAHA DIST - PURNEA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	25-Sep-74
3660	SANJEEV KUMAR S/o SH. DARSHAN SINGH	PbSVC/2610/ 05	VILL. SADARPUR P/O BAJACHAK, TEHSIL DASUYA, DISTT HOSHIARPUR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	10-Jan-79
3661	SANJEEV KUMAR S/o SHREE BINDO KUMAR MISHRA	BiharSVC/25 55/04	VILL/MUHALLAH - MANIHARI P.O. - MANIHARI THANA - MANIHARI SUB- DIV - MANIHARI DIST - KATIHAR, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	10-Dec-82
3662	SANJEEV KUMAR S/o SHREE VIJAY KUMAR	BiharSVC/26 01/05	VILL/MUHALLAH - BEGAM KI HAVELI P.O. - KHJEKALAN THANA - KHAJEKALAN SUB-DIV - PATNA CITY DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	17-Jan-79

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3663	SANJEEV KUMAR S/o SRI SURENDRA PRASAD SINGH	BiharSVC/22 62/02	VILL - HATHIYANWA P.O. - HATHIYANWA THANA - HATHIYANWA SUB - DIV - SHEKHPURA DIST - SHEKHPURA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/9 9	14-Nov-76
3664	SANTANU PANDA S/O SHRI SHYAMAL KUMAR	WBSVC/316 7/05	VILL KESHIARY BHUNIABAR P.O.PROTAPPUR DT. PURBA MIDNAPUR, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	02-May-83
3665	SANTHA SIVA REDDY. U S/o U. GALI REDDY	APSVC/4312 /05	VENKATA REDDYAPALLI, PULLALACHERUVU(M), PRAKASAM DT., ANDHRA PRADESH	BVSc&A.H/ANGR AU/05	15-Jul-79
3666	SANTHINAGARAJAN(W/O S.NAGARAJAN)	TNSVC/2282 /05	NO.39, SIVARATHRA NADA STREET, TIRUVANNAMALAI,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	27-Apr-65
3667	SANTHOSAM MUTHUKUMAR (S.SANTHOSAM NADAR)	TNSVC/710/ 05	9 / 4, GAYLING BHAVAN, ASIRVATHAPURAM STREET, SATTANKULAM, THOOTHUKUDI 628 704,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	04-Nov-62
3668	SANTOSH HADIMANI S/o GIRIMALAPPA HADIMANI	KARNASVC/ 3712/	C/O G.A.HADIMANI,ADHYAPAK NAGAR, NARGUND - 582207, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	22-Jul-82
3669	SANTOSH KUMAR S/o SH. LEKH RAM	HPSVC/720/ 05	VILL & P.O. BASSI TEH. SADAR DISTT. BILASPUR, HP 174002, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	08-Dec-80
3670	SANTOSH KUMAR S/o SHREE JANARDHAN PRASAD	BiharSVC/24 50/04	VILL.MUHALLH - POKHARMINDA P.O. - SASAMUSA THANA - KUCHAIKOT SUB-DIV - GOPALGANJ DIST GOPALGANJ, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	03-Jun-78
3671	SANTOSH KUMAR S/o SHREE LAL BABU MANJHI	BiharSVC/23 15/03	VILL - SIRISTAPUR P.O. - BANPURA BAZAR THANA - JANTA BAZAR SUB- DIV - CHHAPRA DIST - CHHAPRA, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/03	01-Mar-78
3672	SANTOSH KUMAR S/o SHREE NARSINGH PRASAD BHAGAT	BiharSVC/22 79/03	VILL LATRAHA P.O - AMHA THANA- SUPAUL SUB - DIV - SUPAUL DIST - SUPAUL, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/02	24-Mar-77
3673	SANTOSH KUMAR S/o SHRI HARISHANKAR YADAV	UVc/173/06	SBI(ADB),KASHIPUR,UDHAM SINGH NAGAR,UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/03	30-May-80

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3674	SANTOSH KUMAR S/o SRI AMRENDRA NARAYAN YADAV	BiharSVC/22 61/02	VILL - FULKIYA P.O - FULKIYA THANA - ISMAYEILPUR SUB - DIV - NAWGACHIA DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	01-Jan-79
3675	SANTOSH KUMAR.H.T. S/o THIPPESWAMY.H.T.	KARNASVC/ 3792/	RTD. POSTAL CLERK, BHARMAPPA ST. MOLAKALMUR TALUK,CHITRADURGA DT., KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	25-May-81
3676	SANTOSH RAWANI S/o SHREE KALACHAND RAWANI	BiharSVC/24 77/04	VILL/MUHALLAH - CHOTA NAGRI P.O. - TETULMARHI (SIJUJA) THANA - TETULMARHI SUB-DIV - DHANBAD DIST - DHANBAD. BIHAR	BVSc&AH/BAU/04	03-Feb-76
3677	SANTWANA PALAI S/O SH PREMANANDA PALAI	ORISSASVC /1988/05	AT- 247/2, AEROD RUM AREA, BHUBANE SWAR, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	23-Jul-80
3678	SANY THOMAS	KERALA/304 6/05	KIZHAKKEKARA HOUSE, ANTHINADU P.O, PALA, KOTTAYAM- 686651, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	16-Mar-81
3679	SARITA JENA S/O SRI SURESH CH. JENA	ORISSASVC /2009/05	AT: MAHIMA NAGAR, PO: NUABAJAR DIST: CUTTACK, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	29-Jun-81
3680	SARITA KANKORIYA D/o MR. SHIV CHARAN LAL KANKORIYA	MPSVC/2324 /06	NAKA CHANDRAVADANI NAHARWALI MATTA ROAD LASHKAR GWALIOR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	12-Feb-79
3681	SARITA YADAV D/O SH S.R. YADAV	HARSVC/189 2	H.NO. 639, SECTOR - 15 A, HISAR,HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	01-Feb-80
3682	SARITHA A.L.	KERALA/303 7/05	KAVUVILA SABU SADANAM, VENNIYOOO, NELLIVILA P.O, TRIVANDRUM - 695523, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	10-May-82
3683	SARITHA ANUGU D/o A. HANUMANTH RAO	APSVC/4417 /05	MIG I NO.17,NEW APHB COLONY,VINAYAK NAGAR,NIZAMABAD,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc.&A.H/ANG RAU/05	09-May-82
3684	SARITHA KRIHNA	KERALA/305 8/05	SAKALYA, TC 10/588, PEROORKADA P.O, TRIVANDRUM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	10-Apr-81

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3685 SARITHA.S.	KERALA/306 9/05	AZHIKAKATHU (SARITHA SADANAM) PANANGAD PO. KOCHI ERNAKULAM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	31-Dec-79
3686 SARMA DHRUBA JYOTI S/o LATE JAGAR CH. SARMA	ASMSVC/22 05/05	C/O MRS. NIRUPAMA SARMA H.B.ROAD, WARD NO.11 SIBSAGAR, PIN - 785640, ASSAM	B.V.Sc&A.H/AAU/ 05	01-Jan-81
3687 SARMA NABA KUMAR S/o LATE RAJANI KANTA SARMA	ASMSVC/22 34/05	NAMGHAR PATH, KHANAPARA, GUWAHATI - 22, ASSAM	BVSc&AH/AAU/81	01-Mar-58
3688 SAROJ KUMAR D/o SHREE RAPHYAR SINGH	BiharSVC/26 12/05	VILL/MUHALLAH - ISRPURA P.O. - NATWAR THANA - BIKRAMGANJ SUB-DIV - BIKRAMGANJ DIST - ROHTAS, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	15-Nov-82
3689 SAROJ KUMAR MOHANTY S/O SH B.K MOHANTY	ORISSASVC /1994/05	VILL/PO: KAMARSHALIA, VIA NAMPO, DIST: BALASORE, PIN 756034, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	23-May-78
3690 SAROJ KUMAR RAZAK S/o SHREE SHEO PRASAD RAZAK	BiharSVC/23 24/03	VILL+ P.O.- BARUN THANA - BARUN SUB-DIV - AURANGABAD DIST - AURANGABAD, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	09-Nov-79
3691 SAROJ KUMAR SINGH S/o SHREE KRITYANAND SINGH	BiharSVC/25 00/04	VILL/MUHALLAH - KHAMARI P.O. - KAKWARA THANA - BANKA SUB- DIV - BANKA DIST - BANKA, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/04	31-Jul-75
3692 SAROJA RAMESHW/o. (P.RAMESH KUMAR)	TNSVC/1987 /05	NO.26, MADHI HUSSAIN KHAN STREET, ROYAPETTAH, CHENNAI 600 014.	B.V.Sc/TNV&ASU /99	11-Jun-75
3693 SARVAN SINGH S/o HARI SINGH JI	RajSVC/3229 /06	H-27 KANTA KHATURIYA COLONY BIKANER, RAJASTHAN	BVSc&AH/MLSU/ 84	02-Aug-55
3694 SASHI BHUSAN SUDHAKAR S/o SH B.K.DAS	BiharSVC/23 03/03	VILL + P.O - GUMHA THANA - PANDAUL SUB-DIV- MADHUBANI DIST - MADHUBANI, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	01-Mar-80
3695 SASHI KALA D/o LATE RAMCHARITRA	BiharSVC/23 12/03	VILL - BASAUNI P.O -GHARHARA THANA - SURYAGADA SUB-DIV - LAKHISARAI DIST LAKHISARAI, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	05-Oct-76

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3696	SATISH CHANDRA JOSHI S/o SHRI P.R.JOSHI	UVC/24/06	VILL MUNDHOL, TEHSIL TUNI DISTT DEHRADUN, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/96	19-Jul-72
3697	SATISH CHANDRA S/o SHRI JITENDRA SINGH	UVC/133/06	58/14, CANAL ROAD, NEAR VALLEY GAS GODOWN, DEHRADUN, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/04	19-Jul-79
3698	SATISH.V. S/o VAJJINATH	KARNASVC/ 3729/	H.NO: 19-04-133, NAUBAD TALUK, AND DISTRICT - BIDAR-585401, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	06-Oct-82
3699	SATYA PRIYA S/o SHREE SATYENDRA NARAYAN SINGH	BiharSVC/23 86/03	VILL - SHEIKH ALI P.O.- BESHBAK THANA -ISHLAMPUR SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	01-Mar-79
3700	SATYANARAYAN A ACHANTA S/o A. GOVINDARAJU	APSVC/4329 /05	C/OMANI ACHANTA,CORINGA- 533461,TALLAREVU(M),E.G.DT,ANDH RA PRADESH	BVSc&AH/ANGR AU/05	21-Jun-79
3701	SAVI S/O SH OM PARKASH	HARSVC/185 8	838/11, RAM NAGAR COLONY HANSI, DISTT. HISAR., HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	15-Feb-82
3702	SEEMA D/o SHREE VYASDEV TIWARI	BiharSVC/23 93/03	VILL - BHATWARUP P.O. - KUCHALKOT THANA - KUCHALKOT SUB- DIV - DIST - GOPALGANJ, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	15-Jan-79
3703	SENTIRENLA LONGKUMAR S/D PANGJUNG KINGKUMAR	NSVC/208/0 6	C/O TIAMENLA DIRECTOR OF INDUSTRY NAGALAND,KDHIMA	BVSc&AH/AAU/06	16-Sept-81
3704	SHAGUFTA PRAVEEN D/o MD. TAUFIQUE AHAMAD	BiharSVC/25 80/05	VILL/MUHALLAH - BHARTHAULI P.O. - BHARTHAULI THANA - AURANGABAD DIST - AURANGABAD, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	20-May-80
3705	SHAH NIRAJKUMAR A.	GUJSVC/265 0/06	2/14, GOVT 'G' COLONY, B/H. LAL MILL RAKHIAL, AHMEDABAD 380021, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	31-Aug-81
3706	SHAHID ANWAR KHAN S/o LATE MR. BASHARAT KHAN	MPSVC/2325 /06	75, RAMNAGAR, SANJEEVNI HOSPITAL ADHARTAL JABALPUR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /92	28-Nov-67

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3707	SHAHNAWAJ IMAM S/o SHREE ZAFAR IMAM	BiharSVC/23 26/03	VILL - PANCHMAHALLAH P.O. + THANA - JAHANABAD SUB-DIV - JAHANABAD DIST - JAHANABAD, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	05-Feb-78
3708	SHAIBY THOMAS.	KERALA/300 7/05	KADAPLACKAL HOUSE, ERATTUPETTA P.O. KADUVAMUZZHI, KOTTYAM - 686121., KERALA	BVSc&AH/KAU/05	26-Apr-79
3709	SHAIKH M.I.J.	GUJSVC/265 1/06	3, MUNSIPARK SOC NR. TRANSPORT NR SOC DUNGARWADA RD MODASA, DT SABARKANTHA, PIN 383315, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	26-Sep-82
3710	SHAIKENDRA KUMAR S/o SHREE RAJ DEO SINGH	BiharSVC/23 36/03	VILL + P.O. - JAMUYARA KHURD THANA - RAUSHANGANJ SUB-DIV - SHERGHATI DIST - GAYA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	05-Jan-78
3711	SHAILESH KUMAR S/o LATE BISHSHWAR PRASAD	BiharSVC/25 23/04	VILL/MUHALLAH - KASWAN P.O. - KASWAN THANA - KINZER SUB-DIV - JEHANABAD DIST-JEHANABAD, BIHAR	BVSc&AH/CSAA& TU/04	16-Dec-78
3712	SHAJU DEVAKUMAR (PAUL SAM CHANDRASEKARAN)	TNSVC/2269 /05	PLOT NO.1, DOOR NO.3/488/9, MADHA NAGAR EXTN - IV, MADANANDHAPURAM, PORUR, CHENNAI 600 116	B.V.Sc/TNV&ASU /92	29-Oct-65
3713	SHAKUNTALA YADAV S/o SHRI R.D. YADAV	UVC/157/06	H.N. 22 ST NO 02 JAIN COLONY, RUDRAPUR DT U.S.NR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/04	15-Feb-82
3714	SHAMBHU NATH S/o SRI RAM PRASAD YADAV	BiharSVC/22 72/03	VILL- SISWA BARHI P.O - FULPARAS THANA - FULPARAS SUB - DIV - FULPARAS DIST - MADHUBANI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	07-Aug-73
3715	SHAMBHU PRASAD S/o SRI TARA NAND YADAV	BiharSVC/22 57/02	VILL-MUJIYASI PO-PARSA THANA- GHOGHARDIHA(NEW ISMAYELPUR)SUB-DIV-DT- MADHUBANI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 0	07-Sep-72
3716	SHAMBHU SHARAN SINGH S/o SHREE DEONATH SINGH	BiharSVC/26 07/05	VILL/MUHALLAH - DULARBIGHHA P.O. - RAMPURCHAP THANA - DEOKUND SUB-DIV - DAUDNAGAR DIST - AURANGABDAD, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	08-May-80
3717	SHAMNA.M.	KERALA/304 0/05	ARADIKUZHIZHIL HOUSE NATIAMANGALAM, CHUNDAMBATTA PO KULKALLOOR (VIA) PALAKKAD 679337, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	20-Apr-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3718	SHANKAR DAYAL S/o SHREE DIN DAYA PRASAD	BiharSVC/22 78/03	VILL - MAHDEVA P.O + THANA - BARIARPUR SUB- DIV - MUNGER SADAR DIST - MUNGER, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/02	03-Jul-77
3719	SHANKAR DAYAL VERMA S/o SHREE BRAHMDEO VERMA	BiharSVC/25 04/04	VILL/MUHALLAH - ARURI P.O. - ARURI THANA - PAKARI BARANWA SUB-DIV - NAWADA DIST - NAWADA, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/04	07-Sep-77
3720	SHANTANU KUMAR S/o SHREE DEONANDAN YADAV	BiharSVC/25 39/04	VILL/MUHALLAH - GANGSAGAR, BHAWANIPUR P.O. - PRATAPGANJ THANA - VIRPUR SUB-DIV - VIRPUR DIST - SUPAUL, BIHAR	BVSc&AH/MA&FS U/04	28-Feb-80
3721	SHARATH.N. S/o NAGASETTY	KARNASVC/ 3782/	SRI. VENKATESHWARA NILAYA, 2ND MAIN, 5TH CROSS, HEMAVATHI NR, HASSAN, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	26-Oct-81
3722	SHARMA SANJIB S/o MR. K.SHARMA	ASMSVC/22 30/05	PROFESSOR COLONY, BOHOTIA GAON, JORHAT, DIST JORHAT., ASSAM	BVSc&AH/CSAUA &T/98	15-Dec-71
3723	SHASHI PRAKASH S/o SHREE RAMSHARAN PRASAD	BiharSVC/26 04/05	VILL/MUHALLAH - MOHUDDINPUR P.O. - DESWAK THANA - ISLAMPUR SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	11-Jan-82
3724	SHASHI RANA S/o SH. KARAM SINGH .	HPSVC/739/ 05	VILL. BAGWAL, P.O. ADHWANI, TEH. DEHRA DISTT. KANGRA, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	14-Dec-81
3725	SHASHI SINHA S/o SRI B.P. SINHA	BiharSVC/22 40/02	VILL-NORTH KUSAYE PO-DORANDA THANA-DORANDA SUB-DIV-RANCHI SADAR DT-RANCHI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	24-Mar-77
3726	SHASHIDHAR S/o KASHINATH	KARNASVC/ 3731/	DHUMMANASURE, TEACHERS COLONY, KALLUR ROAD, HUMNABAD, BIDAR - 585330, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	15-Jun-82
3727	SHASHIKANTH S/o SHIVARUDRAYYA	KARNASVC/ 3743/	DHUMMANASURE, HIREMATH COLONY BASAVAKALYAN TALUK, BIDAR DIST 585327, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	30-Aug-82
3728	SHAVETA SOOD D/o SH BHARAT CHAND SOOD	HPSVC/730/ 05	VILL. GAUR TANDA TEH. PALAMPUR DISTT. KANGRA, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	07-May-82

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3729	SHEEJA V.M.	KERALA/301 2/05	KAIMUKKU ILLAM, KUZHIMATTOM P.O, KOTTAYAM - 686533, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	23-May-80
3730	SHEFALI GUPTA S/o DR O.P.GUPTA	UVC/93/06	V/1429, TA COLONY, PANTNAGAR, UDHAM SINGH NAGAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/03	17-Jun-81
3731	SHIB SANKAR SAREN S/O SHRI NANDALAL SAREN	WBSVC/320 4/05	VILL ATISARA, P.O. SHALIDAHA DIST.24 PRGS-743145, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	15-Jun-79
3732	SHIBA PRASAD SHIT S/O SHRI EKADASHI SHIT	WBSVC/320 0/05	VILL SAIBONI, P.O. KALASBARH DT. W/MIDNAPORE-721467, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	05-Nov-82
3733	SHIBU C THANKACHAN	KERALA/309 5/05	CHACKALACKAL HOUSE, THONDANKULAN GARA, ALLEPPEY KERALA	BVSc&AH/KAU/05	10-Jan-81
3734	SHIRLY CHERIYAN	KERALA/306 2/05	KOTTAKKAKATHU PUTHEN VEEDU, HOSPITAL JN. KUNDARA P.O. KOLLAM-691501, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	31-May-81
3735	SHIVANAND PATHAK S/o SHRI YASHQANANO PATHAK	UVC/71/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, BACHELIKHAL, DT-TERI GARHWAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/01	12-Jul-72
3736	SHIVANI D/o SH. SURINDER KUMAR BHALLA	PbSVC/2633/ 06	37, SURYA VIHAR, NEAR OAV COLLEGE, JALANO HAR CITY, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	09-Jul-82
3737	SHIVARAM S/o NINGANAGOUDA PATIL	KARNASVC/ 3798/	C/D G.N.PATIL, H.NO. F-16, TLC COLONY, NETAJINAGAR, T.B.DAM, HOSPET, BELLARY DT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	23-Mar-81
3738	SHIVARAMU.K.V. S/o VEERAPPA	KARNASVC/ 3774/	KEELARA VILLAGE & POST, KERAGODU HOBLI, MANDYA TALUK & DT., KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	22-Nov-82
3739	SHIVASHANKAR S/o PANOT RAO	KARNASVC/ 3732/	WALLAPURE AT POST BELKONE, AURAO TALUK, BIDAR DIST - 585401, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	05-Jun-82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3740	SHIVESH SINGH SENGAR S/o SHRI PRABHAKAR SINGH	UVC/134/06	VILL KISHANPUR P.O. KICHCHA, DISTT UDHAM SINGH NAGAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/05	03-Oct-80
3741	SHOBHA SAJJAN S/o SHIVARANGAPPA	KARNASVC/ 3726/	LAKSMI CHOWK, JEWARGI POST & TQ, GULBARGA DIST., KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Jun-80
3742	SHREEKANTH S/o SURYAKANT	KARNASVC/ 3746/	S. S. TATTI SHARAN NAGAR, ALAND TALUK, GULBARGA - 585305, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Feb-83
3743	SHREERAM S/o SHREE AMBIKA PRASAD SINGH	BiharSVC/24 49/04	VILL/MUHALLAH -DAYALPUR P.O. - SANGITBAITA THANA - KAHALGAON SUB-DIV - KAHALGAON DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	15-Mar-79
3744	SHRIMALI ASHWIN GIRDHARLAL	GUJSVC/268 1/06	PRAKASH NAGAR TAJPURA ROAD PALANPUR, DIST BANASKANTHA,, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	29-Sep-81
3745	SHRIMALI KAMLESHKUMAR A.	GUJSVC/268 2/06	B-32,MADHAV TENAMENT, I.O.C RD CHANDKHEDA DIST GANDHINR, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	06-Aug-83
3746	SHRUTIKESH KUMAR S/o SHREE BALESHWAR PRASAD	BiharSVC/23 37/03	VILL - SHIEKH ALI P.O. - BESHWAK THANA - ISHLAMPUR SUB-DIV - ISHLAMPUR DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	03-Jan-77
3747	SHWETA KUMARI D/o SHREE DEVENDRA KUMAR	BiharSVC/25 90/05	VILL/MUHALLAH - BIRAYE P.O. - ARAYE THANA - DAUDNAGAR DIST - AURANGABAD, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	23-Oct-78
3748	SHYAMESH KUMAR S/o GANGADHAR SINHA	APSVC/4308 /05	FLAT 154, BLOCK 19, RAJENORA NAGAR, PATNA - 800 016,, ANDHRA PRADESH	BVSc&A.H/ANGR AU/05	15-Jan-82
3749	SHYLAJA MIDIDODDI S/o NARASAI AH	APSVC/4376 /05	HNO. 16-4-94, L.B. NAGAR, GODAVARI KHANI KARIMNAGAR DT.ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	14-Jan-80
3750	SIDDARAJU.N. S/o NINGAIAH	KARNASVC/ 3790/	MADDUR, YELANDUR TALUK, CHAMARAJANAGAR, 571441, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	14-Feb-82

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3751 SILPA VISWAM.	KERALA/304 5/05	MENAMPLAVIL HOUSE, AZHOOR P.O. PATHANAMTHITTA 689645, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	10-May-81
3752 SIMI. G.	KERALA/303 3/05	SMITHA BHAVAN, SPACE COTTEGES, KAZHAKUTTOM P.O. TRIVANDRUM-695582., KERALA	BVSc&AH/KAU/05	18-May-80
3753 SINCY JOSEPH.O.	KERALA/302 2/05	OLAKKENGIL HOUSE, JESON VILLA, NR CONVENT CHITTATTUKARA PO, TRISSUR-KERALA	BVSc&AH/KAU/05	30-May-81
3754 SINHA (MS) CHANDRIMA D/o SRI C.D.SINHA	ASMSVC/22 35/05	FLAT NO. A3, SPANDAN, AMBICAPATY, SILCHAR, CACHAR., ASSAM	BVSc&AH/AAU/06	29-Dec-81
3755 SIREESHA PULLA D/o NANCHARA RAO	APSYC/4339 /05	D.NO. 298/2, SUJATHA GOLD COVERING WORKS, CHILAKALAPUDI, MACHILIPATNAM- 02, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	29-Aug-82
3756 SIRIGI REDDY KAMESH REDDY S/o GURIVI REDDY	APSYC/4429 /06	HNO. 31-436, RAJA REDDY STREET, KADAPA, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/01	01-Mar-77
3757 SIVENDRA KUMAR S/o SHREE SHYAM SUNDAR YADAV	BiharSVC/24 08/03	VILL - KUSMAR P.O. - BAGHA KUSMAR THANA - KHUTAUNA SUB- DIV - KHUTAUNA DIST - MADHUBANI, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	31-Mar-75
3758 SMIJISHA A.S	KERALA/307 8/05	AMBATT HOUSE, THAIKKATTUSER Y P.O. TRISSUR, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	02-Oct-81
3759 SMITA SINHA D/o LATE RAGHAV SHARAN SRIVASTAVA	BiharSVC/23 27/03	VILL - KASHIPUR, TAJPUR ROAD P.O. + THANA - SAMASTIPUR SUB- DIV - SAMASTIPUR DIST - SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	01-Mar-79
3760 SMITHA THOMAS P.	KERALA/308 9/05	POOVATHUSSERY HOUSE, VADASSERY IRON BRIDGE P.O ALLEPPEY, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	22-May-81
3761 SMITHA P.K.	KERALA/303 5/05	PARAMBETHUKUD HOUSE NAYATHOD PO, ANGAMALI, ERNAKULAM - 683572, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	25-May-81

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3762	SMRITI RANA D/o SH. BUDHI SINGH	HPSVC/729/ 05	VILL. & P.O. DURGDA TEH SHAHPUR DISTT. KANGRA, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	04-May-81
3763	SMRTIKANA PANDA S/O SH CHITTARANJAN PANDA	WBSVC/321 1/08	VILL&PO-SIMLAPAL, DIST-BANKURA- 722151, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	08-Mar-82
3764	SOBHA S.S.	KERALA/304 3/05	KUZHIVILA, VELAVOOR, KOLIAKODE P.O, VENJARAMOODU, TRIVANDRUM 695807, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	19-May-81
3765	SOJA AUGUSTIN	KERALA/300 0/05	MALARVADI, OLA THANNI NEYATTINKARA, TRIVANDRUM- 695121, KERALA	BVSc./TNV&AS/0 5	25-May-81
3766	SOMNATH PATRA	ORISSASVC /2010/05	AT: PLOT NO1328, BHIMATANGI, KAPIL PD EKAMRA COLL ROAD BHUBANESWAR, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	04-Jul-75
3767	SOMNATH RAHA S/O LATE SWAPAN KUMAR RAHA	WBSVC/316 7/05	40/41, DANES SK. LANE HOWRAH- 711109, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	11-Nov-82
3768	SOMSUVRA MOI S/O SRI MATHUR CH. MOI	WBSVC/316 3/05	210/E/4, SCHOOLDUNGA BANKURA, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	31-Oct-80
3769	SOMVEER SINGH S/O SH SUBE SINGH DHANKAR	HARSVC/187 9	VPO. GOPALWAS, PO. BADRAI, T. CH. DADRI, BHIWANI, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	03-Mar-82
3770	SONU RABI S/o SHREE DINESH SINGH YADAV	BiharSVC/24 32/04	VILL + P.O. - MAHENDRU THANA - PIRBAHORE SUB-DIV - PATNA SADAR DIST PATNA, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/03	02-Aug-77
3771	SOUMEN CHATTERJEE S/O BANSHI BADAN CHATTERJEE	WBSVC/317 5/05	VILL & P.O. MONTESWAR DT. BURDWAN - 713145, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	06-Jan-81
3772	SOUMEN CHOUDHURY S/o SRI GOPAL KRISHNA CHOUDHURY.	TripuraVC/16 1/05	C/O G.K.CHOUDHURY, K.B.RD, DHARMAN R, NORTH TRIPURA, TRIPURA	BVSC&AH/CAU/0 5	20-Apr-82

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3773	SOUMITRA PANDIT S/O SHRI RAMKRISHNA PANDIT	WBSVC/319 2/05	VILL & P.O. BHUBANNAGAR DT. 24 PRGS - 743347, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	14-Mar-82
3774	SOURABH DHAAN S/o SH. SURINDER KUMAR DHAWAN	PbSVC/2605/ 05	55, TURI BAZAR, DEVI DWARA ROAD, FEOZEPUR CITY, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	22-Jul-81
3775	SOURAV MONDAL S/O DR. SUSANTA KR. MANDAL	WBSVC/317 8/05	G.C. 223, FLAT NO.4 SALT LAKE, KOLKATE-700106, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	12-Apr-83
3776	SDUVIK PAUL S/O SH SHYAMAL KUMAR PAUL	WBSVC/321 4/06	FLAT-4B,BLOCK-N,BHAWANI COMPLEX,BAROARITIALA,KRISHNAP UR,KOLKATA-12	BVSc&AH/WBUA &FS/05	24-Jan-82
3777	SREEJA. S. NAIR	KERALA/306 0/05	3/86, KARIPPAYI SUNDARAGIRI RDAQ, KALAMASSERY P.O. ERNAKULAM 683104, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	20-Feb-81
3778	SREENIVASA BHARATH M.S. S/o SHESHADRI M.S.	KARNASVC/ 3812/	THITTUMAL STREET,MELKOTE,PANDAVAPURA TALUK,MANDYA DT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	05-Sep-83
3779	SRIDEVI. T. S/o RAJASHEKHARAPPA. T.	KARNASVC/ 3748/	DOOR. NO. 4/328, BANADAR ONI, R/O HIREHADAGALI, HADAGALI TALUK BELLARY - 583216, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	18-Jul-82
3780	SRINIVAS GANDAM S/o HANMANDLU	APSVC/4383 /05	HNO. 2-11 C/O G/RAMAIAH, MALLAPUR DHARMAVARAM (M) KARIMNAGAR DT,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	14-Apr-82
3781	SRINIVAS RAO S/o OMKAR	KARNASVC/ 3740/	S.O. PATNAIK, AT POKAMALAPUR, H.NO. 9-10, GULBARGA TALUK & DT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	05-Jun-83
3782	SRINIVAS SRIIRAMULA S/o RAJA	APSVC/4296 /05	VEMPET, METPALLY(M), KARIMNAGAR DT-505 331., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc& A.H/ANGRAU/01	01-Aug-7
3783	SRINIVASA RAO MUNUVATHU S/o SAMBASIYA RAO	APSVC/4314 /05	ANANTHAVARAM(P.O), THULLUR(M), GUNTUR DT - 522 238,, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	25-Feb-83

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3784 SRINIVASA REDY VENNA S/o VENKATA REDDY	APSVC/4348 /05	BRAHMANAPLLI, PIDUGURALLA(M), GUNTUR DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	05-Jul-81
3785 SRIRANGA.H.K. S/o KESHAVAMURTHY.H.S.	KARNASVC/ 3781/	C/O MYSORE VELNADU SABHA, NO.29, RAILWAY COLONY, RMV 2ND L.G.HALLY, BANGALORE-94, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	02-Oct-82
3786 SSUNIL KUMAR K.M. S/o MANJAPPA. P.	KARNASVC/ 3733/	SIDDESHWAR KRUPA SHANTHINR, 2ND CROSS, SHIKARIPUR SHIMOGA, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Aug-82
3787 STANLY JOHN	KERALA/305 4/05	THUNDIL VEEDU, KARICKOM P.O, KOTTARAKKARA, KOLLAM - 691531, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	26-Nov-77
3788 STEPHEN SOREN S/O SHRI ROSEN SOREN	WBSVC/319 5/05	VILL SAHARPUR, P.O. CHILIMPUR DT. BIRBHUM, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	15-Jul-82
3789 SUBARNA GHOSH S/O DR. SUBHASH CH. GHOSH	WBSVC/318 4/05	SRINAGAR PALLY, GOBINDANAGAR DT. BANKURA - 722102, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	10-Dec-80
3790 SUBHA GANGULY S/O SWAPAN GANGULY	WBSVC/314 9/05	4/6, B KATU KUTHI LANE BHOWANIPUR, KOLKATE-25, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	29-Jun-82
3791 SUBHANKAR JOARDAR S/O BHAIRAB KR. JORADAR	WBSVC/318 6/05	HOUSE NO. 53, ALIPURDUAR COUR, PIN - 736122, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	02-Jan-82
3792 SUBHAS KUMAR TIWARY S/o JAGAT NARAYAN TIWARY	BiharSVC/24 83/04	VILL/MUHALLAH - BARJA P.O. BARJA THANA - BIHIYA SUB-DIV - DIST BHOJPUR (ARRAH), BIHAR	BVSc&AH/BAU/04	01-Mar-79
3793 SUBHASH BABU S/o SHRI TULSI RAM	UVC/102/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITA, BETALGAHT, DT- NANINTIAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/00	31-Dec-76
3794 SUBHASHIS MOHAPATRA S/O SRI CHHANDA CHARAN MOHAPATRA	ORISSASVC /2024/05	HOUSE NO. - EB - 356, AT- BADAGADAA BRIT COLONY, PO- BHUBANESWAR, PIN - 751018, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	05-Jul-81

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3795	SUBHASHREE PARIDA S/O SH SRICHANDAN PARIDA	ORISSASVC /1989/05	AT-SATSANG LANE, PO-KALYANI NAGAR. DIST-CUTTACK, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	09-Feb-81
3796	SUBHRANSU KUMAR PATTNAYAK S/O SH S.C. PATTNAYAK	ORISSASVC /1982/05	AT/PO-PANCHAB HUTI DIST- GANJAM, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	20-Jun-78
3797	SUBODH KUMAR S/o SHREE NAND KHSORE PD. SINHA	BiharSVC/25 85/05	VILL/MUHALLAH - RAMCHAK P.O. - NAGRNAUSA THANA - NAGARNAUSA SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	29-Aug-80
3798	SUBRAT MOHAPATRA S/O SRI BRAJA KISHORE MOHAPATRA	ORISSASVC /2003/05	AT: NALADIA SASHAN, PO: GATANAI, DIST : KENDRAPARA, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	26-Jun-79
3799	SUBRATE KARATI S/O LATE ARABINDA KARATI	WBSVC/314 805	VILL & P.O. SONATALA DIST HOWRAH PIN 711412, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	20-Jan-82
3800	SUCHITA KUMARI D/o LATE NARENDRA PRASAD	BiharSVC/25 89/05	VILL/MUHALLAH - MILKI MOHALLA P.O. - CHOWK ARRAH THANA - TOWN THANA SUB-DIV - ARRAH DIST - BHOJPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	21-Mar-81
3801	SUDARSHAN KUMAR S/o SHREE ARUN KUMAR GUPTA	BiharSVC/24 11/04	VILL + P.O. - AMAUR THANA - AMAUR SUB-DIV - BAYASHI DIST - PURNEA, BIHAR	BVSc&AH/GBPU A&T/03	10-Jan-79
3802	SUDEEP SINGH SAHLA S/o SH. LAKHA SINGH WAHLA	PbSVC/2593/ 05	25-B,MAND NIWAS GURU TEG BAHADUR NR, P/O KHALSA COLLEGE, AMRITSAR, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	07-Oct-81
3803	SUDHA RANI S/o G.RAMAKRISHNAPPA	KARNASVC/ 3767/	N.G.HULKUR,SRINIVASAPPA, BANGARPETE TALUK, KOLAR DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	02-Jun-81
3804	SUDHA.S.K. S/o NAGAPPA.S.K.	KARNASVC/ 3765/	H.B.HALLI POST AND TALUK,BELLARY DISTRICT - 583212, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	22-Feb-83
3805	SUDHANSHU MISHRA S/o SHRI BHARTENDU MISHRA	UVC/148/06	VETY OFFICER,GOVT.VETY HOSPITAL,JHULAGHAT,DT- PITHORAGARH,UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/98	28-Sep-72

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3806	SUDHANSHU SHEKHAR S/o SRI HARISHANKAR PRASAD	BiharSVC/22 63/02	VILL - PATRAUN P.O. FUDKICHAK THANA - GOGRI JAMALPUR SUB - DIV - GOGRI DIST - KHAGARIA, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	01-Mar-77
3807	SUDHANSU SEKHAR PATEL S/O SH DUBARAJ PATEL	ORISSASVC /1993/05	AT- PANCHAYAT HIGH SCHOOL, KANSBAHAL, PO: KANSBAHAL, DIST SUNDARGARH, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	08-Jun-79
3808	SUDHANSU SHEKHAR S/o SHREE RAMBALAK PANDEY 'PRAKHAR'	BiharSVC/25 83/05	VILL/MUHALLAH - DACHINI CHAKKAR MAIDAN P.O. - MUZAFFARPUR THANA - KAZI MOHAMADPUR SUB-DIV - EAST MUZAFFARPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	01-Mar-78
3809	SUDHARKAR THAKUR S/o SHREE DEENANATH THAKUR	BiharSVC/25 16/04	VILL/MUHALLAH - LAHSANGANJ P.O. - KHAWASPUR THANA - RENUGANW SIMRAHA SUB-DIV - FARBISGANJ DIST - ARARIA, BIHAR	BVSc&AH/KAU/04	05-Feb-75
3810	SUDHIR KUMAR JAIN S/o MR. VIMAL KUMAR JAIN	MPSVC/2320 /06	C/O ASHOK MEDICAL STORE TADA SAGAR 470235, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/IGKVV/ 05	09-Jul-79
3811	SUDHIR KUMAR S/o GOPI CHANDER	RajSVC/3231 /06	VPO - 15-Z SRI GANGANAGAR, RAJASTHAN	BVSc&AH/CCSH AU/05	09-Dec-80
3812	SUDHIR KUMAR S/o SHREE JAGANNATH PRASAD	BiharSVC/22 89/03	VILL - GOPALGANJ P.O + THANA - IMAMGANJ SUB-DIV - SHERGHATI DIST - GAYA, BIHAR	BVSc&AH/AAU/02	03-Dec-75
3813	SUDHIR KUMAR S/o SHRI MUKHDEO SINGH	UVC/41/06	VETY OFFICER, SHEEP BREEDING FARM, DUNDA, UTTARKASHI, UTTARA NCHAL	BVSc&AH/RAU/0 0	12-Jan-72
3814	SUDHIR KUMAR S/o SHRI SURAT SINGH	UVC/162/06	VILL & P.O. NANHERA. ANANTPUR, ROORKEE, HARIDWAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/04	28-Dec-76
3815	SUDHIR KUMAR TIWARY S/o SHREE SAILESH KUMAR TIWARY	BiharSVC/22 94/03	VILL - ANSHA PARRI P.O. - ANSHA PARRI THANA - SIMRI SUB-DIV - DUMRAON DIST - BUCXAR, BIHAR	BVSc&AH/GAU/0 2	28-Aug-77
3816	SUJATA SAHOO S/O SH NABA KISHOR SAHOO	ORISSASVC /1979/05	C/O NABA KISHOR SAHOO AT- BANIKANTHA PO-ATHAGARH DIST CUTTACK, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	20-May-81

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3817	SUJEET KUMAR S/o LATE MAHENDRA PRASAD SINGH	BiharSVC/23 79/03	VILL + P.O. - GONAWA THANA - HARNAUTH SUB-DIV - DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	16-Feb-78
3818	SUJEET KUMR S/o SHREE SURENDRA PRASAD SINGH	BiharSVC/22 90/03	VILL - SHEKHPUR P.O- SHEKHPUR THANA - AFRIYAPUR SUB-DIV - MUZAFFARPUR DIST - MUZAFFARPUR, BIHAR	BVSc&AH/WANGR AU/02	01-Mar-78
3819	SUKHJINDER SINGH NAGRA S/o SH. GURDEV SINGH NAGRA	PbSVC/2627/ 05	VPO SRI HARGOBINDPUR TEHSIL BATALA, DISTT. GURDASPUR., PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	16-Aug-81
3820	SUMAN UPPADA S/o U.MOHANA RAO	APSVC/4359 /05	J.T.O., H.NO 6-1-101, RAMAGIRI, NALGONDA,, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	21-May-82
3821	SUMANTA DE S/O SHRI FATICK CHANDRA DE	WBSVC/318 2/05	VILL DANGAPARA, P.O. KULIARA DT. BIRBHUM - 731218, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	02-Apr-83
3822	SUMEERA IBRAHIM	KERALA/302 9/05	MANGALASSERIL HOUSE, MULLARINGAD P.O, KODIKULAM (VIA), IDUKKI - 685582, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	19-May-80
3823	SUMIT KUMAR S/O SH MANMOHAN LAL	HARSVC/188 3	13/520, KHANNA COLONY, SIRSA, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	19-Jun-82
3824	SUNDERLAL RATHORE S/o SHIR BABU LAL RATHORE	MPSVC/2275 /05	168, CHANAKYA PURI COLONY, ANNPURNA ROAD INDORE, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /03-04	22-Aug-75
3825	SUNIL KUMAR BAITHA S/o SRI DHARM NATH BAITHA	BiharSVC/22 70/03	VILL- BANAUTA MUKUND P.O - SALIMPUR THANA - PARSA SUB - DIV - PARSA DIST SARAN CHAPRA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/9 9	06-May-75
3826	SUNIL KUMAR CHAUDHARY S/o BINOD PD CHAUDHARY	BiharSVC/25 11/04	VILL/MUHALLAH - JAGDISHPUR P.O. - JAGDISPUR SUB-DIV - JAGDISHPUR DIST - BHOJPUR, BIHAR	BVSc/TNV&ASU/ 03	01-Mar-78
3827	SUNIL KUMAR GUPTA S/o SRI VIRENDRA KUMAR GUPTA	UVC/152/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, BAGWAN, DT-TEHRI GARHWAL, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/02	05-Apr-76

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3828	SUNIL KUMAR S/o SHREE RAJENDRA PRASAD	BiharSVC/24 85/04	VILL/MUHALLAH - CHINTAMANPUR P.O. - GHAURAR THANA - SASARAM SUB-DIV - SASARAM DIST - ROHTAS, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	01-Mar-78
3829	SUNIL MANDA S/o PURUSHOTHAM	APSVc/4393 /05	VANGAPAHAD, HASANPARTHY (M) WARANGAL DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	11-Jul-78
3830	SUNIL S/o SHANKAR	KARNASVC/ 3749/	S/O SHANKAR CHIDRI, AT POST KADWAD, BIDAR TALUK & DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Jun-82
3831	SUNITA KUMARI D/o SHREE RAJNATH SINGH	BiharSVC/24 54/04	VILL.MUHALLAH - NAWADA P.O. - BELWAI THANA - KARAKAT SUB- DIV - VIKRAMGANJ DIST - ROHTAS, BIHAR	BVSc&AH/BAU/04	30-Jan-80
3832	SUNITA RAWAT D/o SH. RAMESH SHWAR OAY	RajSVC/3235 /06	19 ROOP NGR II SWAIMADHOPUR RLY.LINE,TONK PHATAK, JAIPUR, RAJASTHAN	BVSc&AH/IGKV /05	09-Jun-77
3833	SUPANTHA MANDEL S/OSHRI KALIPRASAO MANDAL	WBSVC/315 8/05	VILL & P.O. KOLSUR DT. NORTH 24 PRGS - 743438, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	01-Mar-83
3834	SUPRIYA BAKSI S/OSHRI JARADHAN BAKSI	WBSVC/319 1/05	KATJURIDANGA, P.O. KENOJADIHI DT. BANKURA, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	08-Apr-82
3835	SURAJ KUMAR S/o SHREE VIJAY KUMAR LAL	BiharSVC/25 36/04	VILL/MUHALLAH - KALYANPUR, BASTI TANRA, P.O. - MAHIUDDIN NAGAR THANA - MOHIUDDIN NAGAR SUB-DIV - PATORI DIST SAMASTIPUR, BIHAR	BVSc&AH/JNKVV /04	15-Dec-78
3836	SURAJIT NATH S/o SHRI S.C.NATH	UVC/109/06	152/1/2, JAKHAN, RAJPUR ROAD, DEHRADUN	BVSc&AH/AAU/99	25-Dec-73
3837	SURANI RAJESHKUMAR A.	GUJSVC/264 0/06	AT. GANESHPURA KAMPA, PO. BOLUNDR, TA. MODASA, DT- SABARKANTHA-383250, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	06-May-82
3838	SURENOER KUMAR NAIN S/O SH CHUNNI LAL NAIN	HARSVC/189 8	VPO. KHARIA, T. RANIA, DISTT. SIRSA., HARYANA	B.V.Sc.&A.H/RAU /95	22-Mar-67

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3839	SURENDER KUMAR S/O SH GIRIRAJ SINGH	HARSVC/186 6	V. VAZIPUR TITANA, PO. DIDWADI, T. ISRANA PANIPAT, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	14-Jul-78
3840	SURESH BABU BATT A S/o NAGABHUSHANAM. B	APSV C/4363 /05	NR OLD P.O, INDRAPET, CHIRALA(M), PRAKASAM DT - 523 165., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	24-May-82
3841	SURESH BABU. T	KERALA/307 9/05	MANIKANDA BHAVAN, KANDACHIRAVILA PAMPALIL PERINAD PO. KOLLAM, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	14-May-81
3842	SURESH BHAJANTRI S/o YAMANAPPA BHAJANTRI	KARNASVC/ 3736/	WADAWADAGI POST, BASAVANA BAGEWADI TALUK, BIJAPUR DT., KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Jul-80
3843	SURESH CHAND SHARMA S/o SH. JAGDIS	RajSVC/3210 /06	SHARMA MEDICAL & PROVISIO LAWAN DAUSA, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 4	02-Apr-76
3844	SURESH KUMAR GAUD, S/o SHRI GIRDHARI LAL GAUD	MPSVC/2287 /05	VILLAGE & POST BILANJI MANDSOUR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	07-Feb-73
3845	SURESH KUMAR GEDDAVALASA S/o TRINADHA RAO	APSV C/4357 /05	D.NO. 5-3-38, PENTAYYA QUARTERS, AMADALAVALASA, SRIKAKULAM DT. ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	27-Aug-82
3846	SURESH KUMAR THANKUR S/o SH. PREM RAJ THAKUR	HPSVC/718/ 05	MOHALLA LAHRI, HARDASPURA, TEH & DT. CHAMBA, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKVV/05	05-Jan-82
3847	SURESH.M. S/o MUDDAPPA	KARNASVC/ 3793/	NALLEKAMANAHALLY, BEDATUR POST, MADHUGIRI TALUK, TUMKUR DT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	10-Jan-82
3848	SURINDER THAKUR S/o SH. LAXMI CHAND	HPSVC/722/ 05	VILL. SERI-BHATWAS P.O. KILLAR, PANGI, DISTT. CHAMBA,, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKVV/05	25-Feb-82
3849	SURYA NARAYANAN D.R	KERALA/308 7/05	DODDAMANA KARU-KULANGARA, IRINJALAKUDA P.O. TRISSUR 680121.KERALA	BVSc&AH/KAU/05	23-Jan-79

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3850 SURYA SANKAR	KERALA/307 7/05	SURYA NADUVATTOM P.O. PALLIPPAD ALLEPPEY, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	15-Mar-81
3851 SUSAN ALEX (SHAJU DEVAKUMAR)	TNSVC/2270 /05	PLOT NO.1, DOOR NO.3/488/9, MADHA NAGAR EXTN - IV, MADANANDHAPURAM, PORUR, CHENNAI 600 116	B.V.Sc/TNV&ASU /92	21-Sep-68
3852 SUSANTA KUMAR SETHI S/O SRI NAKULA SETHI	ORISSASVC /2012/05	VILL: JUNA PADIA, PO: SAMPUR, VIA- PIPLI, DIST - PURI, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	08-Oct-82
3853 SUSHIL KUMAR S/o SH BIDHI CHAND	HPSVC/724/ 05	VILL. MERI, P.O. BANI, TEH. BADSAR DISTT. HAMIRPUR, 174304, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	20-Feb-80
3854 SUSHIL KUMAR S/OSH MAHAVIR SINGH	HARSVC/186 1	VPO BUANA LAKHU, T.ISRANA DISTT. PANIPAT, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	20-Sep-81
3855 SUSHIL KUMAR SARANGI S/O SH KAILASH CHANDRA SARANGI	ORISSASVC /2038/06	M-37, BARAMUNDA H. B. COLONY, BHUBANESWAR-3, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /71	23-Jun-49
3856 SUSHIL KUMAR YADAV S/o DULI CHAND	RajSVC/3219 /06	VILL KUSHALPURA POST JAKHOD JHUNJHUNU , RAJASTHAN	BVSc&AH/KVA& FSU/05	01-Dec-80
3857 SUSIL KUMAR TOPNO S/O DHARAM DAS TOPNO	ORISSASVC /2034/05	H.A.L TOWNSHIP, SUNA BEDA-2, QTR-LA/482, KORAPUT, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	22-Dec-05
3858 SUSMA KUMARI D/o SHREE S.N. SHARMA	BiharSVC/23 83/03	VILL + P.O. - HATHIYAWA THANA - SHIEKHPURA SUB-DIV - SHIEKHPURA DIST - SHIEKHPURA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	19-Jul-73
3859 SUTHAR VISHAL S.	GUJSVC/264 1/06	NEW C/4 STAFF QT, KHETIWADI AGRI. UNI CAMPUS, ANAND 388110, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	30-Nov-82
3860 SWAPNESWAR NAIK S/O SRI KESHABA NAIK	ORISSASVC /2022/05	AT - NUHAMALIA (KALIASHOL) PO- SARBANAGHATI, VIA - NUDADIHA, DIST MAYURBHANJ - 757074, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	03-Jun-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3861	SWARUPMAY MAJUMDAR S/o KAMAL KANTI MAJUMDAR	KARNASVC/ 3804/	#19,5TH MAIN, MARUTHI EXTENSION, SRIRAMPURAM, BANGALORE-21, KARNATAKA	BVSc/TNUVAS/01	25-Dec-76
3862	SWATI D/o SHREE BINOD SHARMA	BiharSVC/23 11/03	VILL + P.O - SABNIMA THANA - ATHIMALGOLA SUB-DIV- BARH DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	09-Jan-80
3863	SWEDEVITO NEKHA S/O LT KEHODEL NEIKHA	NSVC/206/0 6	KIKROPOL JOHN IOC PETROL PUMP NH.39,MOHANKHOLA KOHIMA,NAGALAND	BVSc&AH/AAU/06	02-Oct-79
3864	T. ANDAVAR S/O R.THIRUMAL CHETTIAR	TNSVC/3444 /06	107*14W, OLD HOSPITAL STREET, BODINAYAKANUR 625 513, THENI DIST.TAMIL NADU	BVSc/MU/73	5-Oct-50
3865	T. ARULKUMAR (M.THANGAMANI)	TNSVC/311/ 04	VENKATASAMUDRAM P.O. PAPPIREDDIPATY T.K. DHARMAPURI DT. 636 905TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	14-Oct-79
3866	T. ARUMUGAM (THANGAVELU CHETTY)	TNSVC/2071 /05	HIG 80, DINNUR TNHB, OPP. RAILWAY STATION ROAD, HOSUR PO & TK, DHARMAPURI DIST.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/74	31-Oct-51
3867	T. ARUNANAND(P.THANGAVE L)	TNSVC/437/ 05	459, MIG, TNHB COLONY, VENNAMPATTI, DHARMAPURI TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	14-Aug-80
3868	T. ASOKAN (V.THAGARAJAN)	TNSVC/904/ 05	1199, THAMILOSAI VEETHI 5TH STREET, THANTHAI PERIYAR NAGAR, SEKKALAIKOTTAI, KARAIKUDI, SIVAGANGAI DIST.	B.V.Sc/TNAU/87	04-May-63
3869	T. BALAKUMAR (K.P.THIRUMALAISAMY)	TNSVC/922/ 05	B-47, KURINJI NAGAR, NEW HOUSING BOARD, ODDANCHATRAM POST, DINDIGUL DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	17-May-70
3870	T. BALASUBRAMANIAN (P.THAMILARASAN)	TNSVC/1172 /05	30, THERKURATHINA SABAPATTIPURAM STREET, THIRUNAGARAM, ARUPPUKOTTAI.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	11-May-74
3871	T. BASHINI (W/o P.BALAMURUGAN)	TNSVC/3138 /05	47 18A, S.R. NATARAJ NAGAR, KALANGAL ROAD, SULUR, COIMBATOR TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	23-Nov-70

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3872 T. BASKARAN (K.THANGARAJU)	TNSVC/3146 /05	5, NATAJAPURAM SOUTH COLONY, M.C.ROAO, THANJAVUR.TAMILNAOU	B.V.Sc/TNAU/84	02-Sep-60
3873 T. BHUVANESWARI (A.THANGAVELU)	TNSVC/940/ 05	5A / 67, BHARATHIDHASAN NAGAR, PERAMBALUR 621 212.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	21-Feb-78
3874 T. DEVI RANJANI S/O K.THANGAVELU	TNSVC/3322 /06	24, KAMALAMBAI NAGAR, THIRUVARUR,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	4-Mar-82
3875 T. DHATCHINAMURTHY (K.M.THANGAVEL)	TNSVC/2473 /05	40/9C, GOVINDASAMY STREET, KEELPERUMPAKKAM, VILLUPURAM 605 602.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	17-Jul-58
3876 T. GEETHA S/O P.THANGAVEL	TNSVC/3317 /06	13/109, WEST STREET, INGUR, INGUR P.O. ERODE DISTRICT PIN 638 058TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	3-Apr-83
3877 T. GNANA SUBRAMANIAN (THIRUVETTAI)	TNSVC/907/ 05	ILUPPAKULAM, MARUDHANGUOI POST, KALLIKUDI (VIA) THIRUMANGALAM TALUK, MADURAI DISTRICT PIN 626 701	B.V.Sc/TNV&ASU /91	25-Jun-67
3878 T. GOVINOARAJAN (M.THANGAVELU)	TNSVC/21/0 2	87 / 2, THIRUVALLUVAR NAGAR, NO.1, NAGAI ROAD, THANJAVUR 613 001TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	27-May-78
3879 T. GUNASEKAR (P.TAMILARASU)	TNSVC/296/ 04	CHETTIKADU, VALNAICKEN PALAYAM, KANDAMPALAYAM PO, P. VELLUR TK, NAMAKKAL DT, 637 203.	B.V.Sc/TNV&ASU /04	29-May-81
3880 T. HARIHARAN (A.THIRUVENGADACHETT Y)	TNSVC/823/ 05	47, PALANIYAPPA STREET, CROSS 3, THAVITTUPALAYAM, ANTHIYUR POST, ERODE DISTRICT, PIN : 638 501.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	02-May-78
3881 T. ILLANGO (S.THANGARAJ)	TNSVC/3153 /05	MOUNTZION, SOLAPURAM SOUTH POST, VIRUDU NAGAR DIST, PIN : 626 139.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	14-Apr-69
3882 T. JAYABAL (P.TAMILARASAN)	TNSVC/2258 /05	KEELAMALIGAI (P.O.) PONPARAPPI (VIA) SENDURAI (T.K.) PERAMBALUR DISTRICT, PIN 621710, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	17-Apr-78

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3883	T. JAYALAKSHMI (K.THANGARAJAN)	TNSVC/300/ 04	28 / 3, WEAVERS COLONY, TIRUCHENGODE, NAMAKKAL DT, PIN:637 211TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	21-May-80
3884	T. JAYANTHI W/o. (C.MOHAN)	TNSVC/1917 /05	POONGOTHAI ILLAM, IVth PERIYARNAGAR, HARUR (TK), DHARMAPURI (DT),TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	07-May-73
3885	T. JEEVAGAN (V.THİYAGARAJAN)	TNSVC/1772 /05	1199, THAMILOSAI STREET, THANTHAI PERIYAR NAGAR 5TH STREET, SEKALAIKOTTAI, KARAIKUDI 630 002	B.V.Sc/TNAU/74	09-Oct-50
3886	T. JOHN CHRISTOPHER S/O A.THANKIAH	TNSVC/3423 /06	HANORA BHAVAN, MAMOODU, KULASEKHARAM 629 161, KANYAKUMARI.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	2-Jun-62
3887	T. KANNAN (M.THESINGRAJAN)	TNSVC/3229 /05	H.NO.5 / 79, EAST STREET, NORTH SALIGRAMAM P.O. ILAYANGUDI (TK) SIVAGANGAI DISTRICT 623 710 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	30-Aug-66
3888	T. KARTHICK (V.THANGAVELU)	TNSVC/628/ 05	A99, TNHB, IDAPPADI PO, SALEM DT, PIN : 637 101.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	01-Jul-81
3889	T. KARTHIK (K.THİYAGARAJAN)	TNSVC/84/ 3	AP 1334, 33RD STREET, 7TH SECTOR, K.K. NAGAR,CHENNAI 600 078TAMILNADU	B.V.Sc&AH/UAS' DHARWAD/02	04-Oct-78
3890	T. KAVERI SELVAN (K.THANGASAMY)	TNSVC/1128 /05	2 / 404, GANDHI ROAD, PARAMAKUDI, RAMMAD DIST, 623 707.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	02-Oct-55
3891	T. KOKILAVANI (N.THANGAVELU)	TNSVC/291/ 04	5 / 1201 PRAKASH ILLAM, ADHIYAMAN STREET, SENTHIL NAGAR, DHARMAPURI 636 705.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	20-Jun-80
3892	T. KOLSALYA DEVI (W/O PON.PARIVENDAN)	TNSVC/3148 /05	42, MAHALAKSHMI NAGAR, T.KOTTAMPATTI, POLLACHI, COIMBATORE DIST.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	13-Sep-65
3893	T. KRISHNAN (THIRU MANGAI MANNAN)	TNSVC/2073 /05	21, MANGAPETHI STREET, CHINDATRIPET, CHENNAI 600 002.	B.V.Sc/MU/73	02-Apr-51

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3894	T. LAKSHMI DEVI D/o RAMA KONDA REDDY	AP SVC/4337 /05	MORAGUDI, 7/107, JAMMALAMADUGU (M), KADAPA DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	03-Nov-80
3895	T. LAKSHMI NARAYANA REDDY S/o T. LAXMI REDDY	AP SVC/4347 /05	KESHAPURAM, MITTOMORUPALLI, MY DUKUR(M), KADAPA DT., ANDHRA PRADESH	BVSc&AH/ANGR AU/05	11-Jun-80
3896	T. MAHESWARAN (A.THANGAVEL)	TNSVC/51/0 3	4, PALACE WEST STREET, RAMANATHAPURAM 623 501 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	20-Jun-73
3897	T. MANICHANDRAN (P.THIRUVENGADAM)	TNSVC/972/ 05	NO.60, SATHYAKRISHNA NAGAR, VENNAR BANK, THANJAVUR 613 003.TAMIL NADU	BVSc& AH/HAU/90	11-Jul-64
3898	T. MANOHARAN (J.THANDEVAMOORTHY)	TNSVC/3217 /05	NO.26, MUNICIPAL COLONY, GANDHI NAGAR EAST, VELLORE 632 006TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/87	12-May-62
3899	T. MATHESWARAN (P.THANGAVELU)	TNSVC/1880 /05	18A, ARTHANARI MUDALIAR STREET, ATTAYAMPATTY (PO), SALEM (DT) 637501, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	14-Oct-73
3900	T. MEERAW/o. (A.GOKULAKANNAN)	TNSVC/880/ 05	21 / 74, CAUVERY NAGAR, METTUR DAM 636 401, SALEM DISTRICT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	05-Jun-77
3901	T. MOHAN (G.THIRUMALAI)	TNSVC/2013 /05	OLD NO.1/15/23, THIRUKKUMARAN NAGAR, NEW NO.1/43/9, PALAYAMPATTI ARUPPUKOTTAI, VIRUDHUNAGAR DIST.	B.V.Sc/TNAU/83	18-May-60
3902	T. MOHAN (THIRUNAVUKKARASU)	TNSVC/1543 /05	2, G.S.T. ROAD, GANDHI NAGAR, ACHIRUPAKKAM 603 301.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	16-Jan-67
3903	T. MURUGA LAKSHMI (W/O NAHA. SARAVANAN)	TNSVC/1076 /05	PLOT NO.25, TAGORE NAGAR, 3RD STREET, THIRUPPALAI, MADURAI - 14.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /90	17-Apr-68
3904	T. MURUGESAN (M.THANGA NADAR)	TNSVC/2141 /05	MURUGHA BHAVAN, VADUGAN PATTU (SOUTH) AGAS TEE SWARAM PO 629 701, KANYAKUMARI DT.	B.V.Sc/TNAU/88	20-May-63

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3905	T. MUTHUKKAN (THANGAVEL)	TNSVC/2056 /05	AR.CHITTIPATTI POST, IDAPPADI VIA, SALEM DT, SANKAGIRI TK, PIN : 637 101.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	30-May-66
3906	T. MUTHURAMALINGAM (P.THANGASWAMY)	TNSVC/549/ 05	37, NAIDU WEST STREET, MUDUKULATHUR 623 704, RAMNAD DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	05-Apr-82
3907	T. NAGARAJAN (S.THIGARAJAN)	TNSVC/1088 /05	2 / 309, SAKTHI NAGAR, 3RD STREET, IYAR BUNGALOW, MADURAI 625 014,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	15-Apr-57
3908	T. NAGARATHINAM (T.S.THIGARAJAN)	TNSVC/2777 /05	3 / 2, ESWARAN KOIL STREET, TEMPLE VIEW APARTMENTS, CHENGALPATTU.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	10-Jui-59
3909	T. NATARAJAN (D.THILLAI GOVINDAN)	TNSVC/3050 /05	IIND MAIN ROAD, JAYAPRIYA NAGAR, ABATHARANAPURAM,VADALUR, CUDDALORE DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	08-Jun-74
3910	T. PAKHIRISAMY (S.THANGAVELU)	TNSVC/2055 /05	E-17, MURUGAN KOIL STREET, BLOCK -20, NEYVELI, CUDDALORE DISTRICT 607 803.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	28-Sep-72
3911	T. PALANISAMY (M.THIRUMALAI)	TNSVC/1384 /05	6 / 95A, KARUMAPURAM POST, SANKARI VIA, THIRUCHENGODE TALUK, NAMAKKAL DIST. 637 302	B.V.Sc/TNV&ASU /98	13-May-75
3912	T. PALANISAMY (THODDANA GOUNDER)	TNSVC/2540 /05	1/275, SATY MAIN ROAD, BUNGALOW PUDUR 638 512, GOBI TK, ERODE DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	20-Jun-56
3913	T. PALANIVEL (N.THANAKKAN)	TNSVC/2092 /05	NORTH STREET, ELANDAUKUDAM POST, ARIYALUR TK, PERAMBALUR DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	02-May-69
3914	T. PANDIYAN (D.THANJI)	TNSVC/2644 /05	NO.37, VINAYAGAPURAM, PERIYA ALLAPURAM, VELLORE - 2,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	30-May-71
3915	T. PARAMESHWARAN (K.C. THIYAGARAJAN)	TNSVC/1889 /05	17 / 5, VALAYALKARAR STREET, TIRUMANGALAM, MADURAI - 625 706,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	08-Aug-77

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3916 T. PAULRAJ (P.THANGAVELU)	TNSVC/605/ 05	86 / A4, BETHLEGAM ILLAM, NEAR UPPODAI ELAMBALUR ROAD, PERAMBALUR DI & PO. PIN - 621212	B.V.Sc/TNV&ASU /05	06-May-81
3917 T. PETER NOLOSCO (R.THANKKARAJ)	TNSVC/351/ 04	AMMANVILAI, CHANKAI, KANJIRACODE POST, KNAYAKUMARI DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	28-Feb-79
3918 T. PONRAJ (P. THIRUMALAISAMY)	TNSVC/564/ 05	KARUMAN KINARU, KOOTHAMPONDI POST, KALLIMANDAYAM VIA, ODDANCHATRAM TK, DINDIGUL TK. PIN - 624616	B.V.Sc/TNV&ASU /05	21-Jun-82
3919 T. POONKUZHALI (S.THANAPAL)	TNSVC/325/ 04	SIRPATHANALLUR P.O KADAMPUR VIA SANKARAPURAM TK VILLUPURAM 605 802 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	02-Jun-80
3920 T. PUGAZHENTHI (M.THANGARAJU)	TNSVC/468/ 05	SOUTHVELI, ELAIYUR (PO) UDAYARPALAYAM (TK) PERAMBALUR (DT) TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	13-Jun-81
3921 T. R. KANNAKI (M.RAMASAMY)	TNSVC/117/ 03	C/o/ THATTAN THOTTAM, VETTAMBADI, NAMAKKAL 637 405. TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	18-Jul-80
3922 T. RAJAMANOCHARAN (A.THAUMANAVAN)	TNSVC/2691 /05	1/J, BALAJI NIVAS, MADHANAGOPALAPURAM, PERAMBALUR 621 212	B.V.Sc/TNAU/85	06-Jun-61
3923 T. RAJARAM (V.THIYAGARAJAN)	TNSVC/2732 /05	2 / 504A, VELU NAGAR, SEEL NAICKEN PATTY, SALEM 636 201. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	20-Jun-74
3924 T. RAJASEKARAN (P. THIRUPPATHI GOWDER)	TNSVC/1454 /05	5 / 20, NORTH STREET, JEEVA NAGAR, BODINAYAGANUR P.O. THENI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	06-Apr-57
3925 T. RAJASEKARAN (T.S.S. THIRUGNANASAMB ANDAM)	TNSVC/1621 /05	14, 'A' BLOCK, SNEHAM APARTMENTS, 3, PARK ROAD, ANNA NAGAR WEST EXTN. CHENNAI 600 050	B.V.Sc/TNV&ASU /91	27-May-68
3926 T. RAMAN (P. THANGAVEL)	TNSVC/1878 /05	SELLIYAMM PALAYAM VILLAGE, MELNARIYAPPANUR PO, KALLAKURICHI TK, VILLUPURAM DT PIN - 606 201	B.V.Sc/TNV&ASU /96	13-Apr-71

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3927 T. RAMASAMI (R. THASA . GOUNDER)	TNSVC/2543 /05	46/2, KAMARAJAR COLONY, BHAVANI ROAD, APPUKOODAL 638 315, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	12-Mar-66
3928 T. RAMASAMY S/OV.THANGAMALAI	TNSVC/3385 /06	VEMBANERI POST, VELLANDI VALASU VIA, IDAPPAI TK, SALEM DIST, PIN : 637 105.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	15-Apr-81
3929 T. RANJITH (C.THEVACHIAN)	TNSVC/108/ 03	PLOT NO.148, AVM. NR-I,ATHANOO VIL,MAADAMBAKKAM POGUDUVANCHERY VIA,KANCHEEPURAM DT 60,TAMILNADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	17-Dec-79
3930 T. RAVICHANDRAN (S.THIRUNARAYANASAMY)	TNSVC/3181 /05	27 / 14-22, LENIN NAGAR, MANTHITHOPPU ROAD, KOVILPATTI 628 501, TUTICORIN DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/85	14-Jul-62
3931 T. RENGARAJU (P. TAMILSELVAN)	TNSVC/194/ 03	ENADHI WEST, PATTUKOTTAI TK, TANJORE DT, PIN : 614 615.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	21-Feb-79
3932 T. SAMRAJ (THIRUPATHY)	TNSVC/2021 /05	184, T.N.H.B, PHASE II TIRUPATTUR, DHARMAPURI ROAD, VELLORE DIST 635 601.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	05-Aug-51
3933 T. SAMUEL GUNASEKHAR THANGARAJ (J.THOMPSON)	TNSVC/3182 /05	111 / 11F / 29, GOMATHIBAI COLONY, TUTICORIN 628 002TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/84	25-Apr-61
3934 T. SANKAR (L. THANGAVEL)	TNSVC/53/0 3	GHS SCHOOL ST.,LALIGAM (PO)DHARMAPURI DT., 636 804TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	16-Jun-76
3935 T. SANTHAKUMARI (W/O D.K.ARSU)	TNSVC/2136 /05	NEW NO.19, OLD NO.3, REDDIKUPPAM ROAD, WEST MAMBALAM, CHENNAI-33.	B.V.Sc/TNAU/85	07-Feb-62
3936 T. SARATH (P.THULASIRAMAN)	TNSVC/731/ 05	MANIAMBADI P.O. PAPPIREDDIPATTI TK. DHARMAPURI DISTRICT 635 303TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	06-Jun-78
3937 T. SARAVANAKUMAR (N. THANGAVELU)	TNSVC/385/ 04	172/5, NTR ILLAM, THIRUCHENGODU MAIN ROAD, ANDAGALORE GATE P.O. RASIPURAMNAMAKKAL DIST. 637401	B.V.Sc/TNV&ASU /04	20-Jun-75

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3938	T. SARAVANAN (K.THIYAGARAJAN)	TNSVC/1422 /05	43, VINAYAGAR KOVIL STREET, E.B. COLONY, BEHIND TNSTC HEAD OFFICE, COLLECTORATE (POST) DHARMAPURI - 636 705	B.V.Sc/TNV&ASU /97	30-Jun-74
3939	T. SARAVANAN(M.THIRUPAT HY)	TNSVC/204/ 03	3 / 81, BAJANAI KOVIL ST, ERRAPPATTY, A. JETTIHALLI PO, DHARMAPURI 636 807.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	15-Jun-78
3940	T. SENTHIL (C.THANGARASU)	TNSVC/614/ 05	REDDIPALAYAM POST, ARIYALUR TK, PERAMBALUR DT, PIN : 621 704.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	13-Mar-81
3941	T. SENTHIL KUMAR (T.THIRUMENI)	TNSVC/2433 /05	MAIN ROAD, URANIPURAM 614 631, TANJORE DISTRICTTAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /00	05-Jun-79
3942	T. SENTHILKUMAR (R.THANGARAJU)	TNSVC/345/ 04	40-A, NEW No, 49 VINAYAGAR STREET, THURAIYUR (PO), TRICHY (DT) 621010TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	14-Jun-80
3943	T. SHANKAMI(M.THANGAVEL U)	TNSVC/32/0 2	1B, AKMEY PARK APARTMENTS, MOUNT POONAMALLEE ROAD, PORUR, CHENNAI - 600116 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	24-Dec-78
3944	T. SHYAMALA (THIRUNAVUKKARASU)	TNSVC/2635 /05	NO.3, BHARATHIDASAN ROAD, FIRST CROSS STREET, V.O.C. NAGAR, PAMMAL, CHENNAI 600 075	B.V.Sc/TNV&ASU /01	16-Apr-77
3945	T. SIVASAMY (P.THANGAVEL)	TNSVC/544/ 05	6 / 7, VAIRAMPATTI, KOTTANATHAM P.O. PALAYAM VIA DINDIGUL DT. PIN 624 620,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	04-May-82
3946	T. SRIKANTH REDDY S/o T. OBUL REDDY	APSVC/4349 /05	D.NO. 15/113-1, SRI PADMAVATHI NAGAR, TIRUPATI, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	02-Aug-82
3947	T. SRINIVASA RAO.S/o T. PANDURANGAM	APSVC/4391 /05	HNO. 19-5-82/1/11/A,NANDI MUSLAIGUDA,KISHAN BAGH,BAHADURPURA,H'BAD,ANDHR A PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	24-May-81
3948	T. SUBRAMANI (THANDAVAN)	TNSVC/698/ 05	42, KALAIVANAR STREET, MANDAVELY, PUDUPET POST, ATTUR TALUK, SALEM DT, 636 141, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	29-May-67

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3949	T. SUBRAMANIAN (S.THANGAVEL)	TNSVC/876/ 05	118 / 8 ARAYEEPALAYAM, C. AYYAMPALAYM POST, MANCHANALLUR TK, TRICHY DT, PIN : 621 005.	B.V.Sc/TNV&ASU /96	15-Mar-73
3950	T. SUBRAMANIAN S/o V. THANGAVEL	AP SVC/4294 /05	C/O R.R. AUTOMOBILES, 10-87, OPP: GOVT. HOSPITAL, GAJWEL-5022 78, MEDAK DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc/TNVASU/9 7	10-May-72
3951	T. SURESH (L.THANIKODI)	TNSVC/2941 /05	W-4, ODAI STREET, ODAIPATTY P.O. PIN 626 540, UTHAMAPALAYAM (TK), THENI DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	17-Jul-70
3952	T. THAMILSELVAN (V.THANGARAJAN)	TNSVC/1567 /05	A-45, NEW HOUSING UNIT, BY PASS ROAD, MANNARGUDI 614 001, THIRUVARUR DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	10-Sep-59
3953	T. THENKARTHIGAI (W/O V.S.SUBRAMANIAN)	TNSVC/2523 /05	POTHAPALAYAM, KOSANAM POST, NAMBIYUR VIA, ERODE DIST, TAMIL NADU 638 458.	B.V.Sc/TNV&ASU /97	04-Dec-72
3954	T. THILAKAVATHI (P.RAJASEKARAN)	TNSVC/2009 /05	B-49, TNHB, KARAI, RANIPET, 632 404. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	05-May-66
3955	T. THIRUNAVUKARASAN (K.THANGASAMY)	TNSVC/1299 /05	102, MOOVENTHAR SOUTH STREET, KILAPAVOOR 627 806, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	07-Apr-71
3956	T. THIYAGESAN (K.P.THANJAN)	TNSVC/3191 /05	KATTUPUTHUR VILLAGE & POST, VELLORE DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/82	21-May-55
3957	T. UMAKANTHAN (K.THANGARAJU)	TNSVC/1242 /05	DURAIRAJAPURAM COLONY, ANAICKARAIPATTY (PO), BODINAYAKKANUR (TK), THENI (DT), TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	20-Jul-60
3958	T. VADAMALAI CHETTY (V.THAMBAN CHETTIYAR)	TNSVC/1676 /05	110 / 13, II CROSS, PON NAGAR, TRICHY 620001, TAMIL NADU	BVSc/TNAU/80	19-Feb-52
3959	T. VENKATESHWARAN (K.THIMMACHI)	TNSVC/535/ 05	VADUGAMPALA+D536YAM, NINNAKKAL PO, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DT. PIN - 637505 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	13-Apr-81

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3960 T. VICTOR JOHN BOSCO (S.THASAN)	TNSVC/2140 /05	LITTLE COTTAGE, 175, A.R. CAMP ROAD, P.N. COLONY, KONAM POST, NAGERCOIL 629 004, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	17-Feb-57
3961 T. VINOTH(R.THANARAJ)	TNSVC/354/ 04	S / O P. INBHARANI, ELLISPET, PALLAPALAYAM(PO), KANJIKOVIL (VIA) ERODE - 638116, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	03-Jan-80
3962 T. YASOTHA (V.THIRUPPATHI)	TNSVC/450/ 05	14-C, ALEXANDER STREET, RANIPET, Attur tk, salem dt 636102TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	19-Apr-80
3963 T.C. MAHENDRABOOPATHI (T.S.CHINNUSAMY)	TNSVC/3172 /05	E27 / 1, KOOTTAPALLI COLONY, TIRUCHENGODE (TK) NAMAKKAL DISTRICT 637 214TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/80	04-Jun-49
3964 T.GUNASEKAR (R.THANGARAJ)	TNSVC/1635 /05	2 / 259, EAST STREET, KEERAMBUR P.O. THURAIYUR TK. TRICHY DISTRICT PIN 621 02 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	22-Jun-68
3965 T.K.NAGARAJAN (K.KALIYAPERUMAL)	TNSVC/2671 /05	SOUTH MARIYAMMAN KOVIL STREET, THACHANKURICHI, LALGUDI TALUK, TRICHI DT 627712, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	21-May-58
3966 T.K.PADMAVATHI (R.KUMARASWAMY)	TNSVC/873/ 05	248, ANNA NAGAR ROAD, BUNGALOW PUDUR POST, GOBICHETTIPALAYAM TALUK, ERODE DISTRICT, PIN : 638 512.	B.V.Sc/TNV&ASU /02	05-Feb-78
3967 T.M. MAHENDRAN (T.V.MOHANAN)	TNSVC/3199 /05	PLOT NO.19, SRI BALAJI NAGAR, ALWARTHIRUNAGAR, CHENNAI 600 087TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/86	23-Oct-61
3968 T.M.DURAI KUMAR (T.D.MUTHUSAMY)	TNSVC/1734 /05	1 / 74, A.V.M. AVENUE, 3RD STREET, VIRUGAMBAKKAM, CHENNAI 600 092	B.V.Sc/MU/72	25-May-49
3969 T.N. ARUN BALAJI (K.NARAYANASAMY)	TNSVC/1209 /05	3 / 149, KOTTAIYAN THOTTAM, PATCHUDAIYAM PATTY PUDUR (PO), SENDAMANGALAM (VIA), NAMAKKAL (DT) 637409	B.V.Sc/TNV&ASU /91	14-Apr-68
3970 T.N. PALANIVELU (S.M.P.NAGAPPA MUDALIAR)	TNSVC/777/ 05	7 / 738, SARASWATHI ILLAM, SAKTHI NAGAR, PONGALUR 641 667 COIMBATORE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/70	21-Apr-48

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3971 T.P.RAJENDRAN (A.PARASURAMAN)	TNSVC/1583 /05	1A / 3, LF ROAD, BURMA NAGAR, KARAI, RANIPET 632 402, VELLORE DIST., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	17-May-56
3972 T.R. MEHER VANI (J.GOVINDARAJAN)	TNSVC/1924 /05	#7, MUTHIAL CHETTY STREET, PURASAWALKKAM, CHENNAI - 600 007, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	18-Dec-70
3973 T.R. SIVASUBRAMANYAM (T.N.RANGASWAMI)	TNSVC/2838 /05	VALLUVAR STREET, THONDAMUTHUR SO, COIMBATORE 641 109, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	09-Nov-51
3974 T.R.DIYANESH BABU (T.M.RAMALINGAM)	TNSVC/3184 /05	374-B, SARVESWARAR KOIL STREET, ANNA NAGAR, MADURAI - 20TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/88	26-Mar-64
3975 T.RAVI (S.P.THANGAVEL)	TNSVC/1478 /05	15 / 9A, NEW SOURASHTRA STREET, RASIPURAM 637 408, NAMAKKAL DISTRICT	B.V.Sc/TNV&ASU /94	15-May-70
3976 T.SARKARAIAPPAN (P.THANGAMANI)	TNSVC/1838 /05	EZHIL NAGAR, K.ALAGAPURI, KARAIKUDI (TK), SIVAGANGAI (DT) PIN 630 106, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	03-Jun-57
3977 T.SURESH KUMAR (M.THANGAVELU)	TNSVC/2444 /05	DOOR NO.360, 4TH STREET, KOOTAPALLY COLDNY, THIRUCHENGODE T.K. NAMAKKAL DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	02-Jun-70
3978 T.V. MEENAMBIGAI (T.M.VARADARAJAN)	TNSVC/2906 /05	VICTORY FLATS, NEW NO.42, PANCHALI AMMAN KOIL STRET, ARUMBAKKAM, CHENNAI 600 106	B.V.Sc/TNV&ASU /93	09-Aug-69
3979 T.V. MURUGAVEL (T.VETRIVEL)	TNSVC/1714 /05	OLD NO.34 / A, NEW NO.41, KEELACHATRAM ROAD, TENNUR, TRICHY 620 017TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	25-Jul-68
3980 T.V. NITHYANANTHAN (T.R.VENKATESAN)	TNSVC/2117 /05	3/9, SRUTHI APTS, MOSQUE STREET, MYLAPORE - 4. TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/66	26-Aug-44
3981 T.V. SUSILA (M.SAKTHIVEL)	TNSVC/2480 /05	5/1200, CHELLAM KUDIYIRUPPU, GHANDHI NAGAR PO, UDUMALPET TK, COIMBATORE DT 642154. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	09-Jun-78

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
3982 T.V. TAMILAM S/OT. VEMBUVIZHIVENDAN	TNSVC/3548 /06	2/2, VEPPAMPOONDI PO, ARAGALUR (VIA) 636 101, GANGAVALLI TALUK SALEM DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	26-Mar-82
3983 T.V. SHIVASHANKAR S/o VEERASANGAIAH	KARNASVC/ 3788/	NO.118, VCH, HEBBAL, BANGALORE- 24, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	20-Jul-82
3984 T.VIJAYANAND (S.THAGARAJAN)	TNSVC/498/ 05	GURUVALA THOTTAM, NAMAGIRIPET, RASIPURAM, NAMAKKAL 637406, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	01-Jun-80
3985 TADEPALLI SAMBASIVA RAO S/o SRI RAMULU	APSVC/4426 /06	PLOT NO 17, HNO.16-11- 16/17, SRIPURAM COLONY, MALAKPET, H'BAD-500030, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/99	16-Jun-75
3986 TAJ MOHAMMAD KHAN S/o RASUL	RajSVC/3224 /06	KAYAMKHANI COLONY KUCHERA NAGOUR, RAJASTHAN	BVSC&AH/JNKVV /05	01-Jul-81
3987 TAJ MOHAMMED S/o SHRI RULDU KHAN	UVC/177/06	VETY OFFICER, GOVT.VETY HOSPITAL, ASKOT, DT- PITHORAGARH, UTTARANCHAL	BVSc&AH/PAU/97	07-Jan-69
3988 TALAVAR RAJENDRA KUMAR S/o RAJASHEKHARAPPA. T.	KARNASVC/ 3747/	DOOR. NO. 4/328, BANADAR ONI, R/O HIREHADAGALI, HADAGALI TALUK BELLARY - 583216, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	16-Apr-81
3989 TANMOY RANA S/O SUDARSAN RANA	WBSVC/315 3/05	VILL NONAKURI PO. NONAKURI BAZAR P.S.TAMLUK, DTP/MIDNAPUR, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	06-Feb-83
3990 TARAK NATH BHUNIA S/O SRI BISWANATH BHUNIA	WBSVC/318 0/05	VILL KAMARGERIA PO DINGAL- KAMARGERIA DT. MIDNAPUR- 721232, WEST BENGAL	BVSc&AH/WBUA &FS/05	07-Mar-83
3991 TARAKANTA BHAKTA S/OSRI BHASKARA CH. BHAKTA	ORISSASVC /1999/05	AT/PO: KOTHAPADA VIA-DARADA DIST: BALASORE, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	09-Sep-80
3992 TARUN KUMAR S/o SHRI HARISH CHANDRA	UVC/44/06	PO-HALDUCHAUR, VILL-BEMTA BANGAR, KHEMA, LALKUANM, UTTARA NCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/00	30-Mar-76

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
3993	TARUNA WAILÁ S/o SHRI LALIT MOHAN WAILA	UVC/141/06	BADYALI BHIKIYASEN, P.O. BHIKIYASEN DISTT ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/04	12-Apr-82
3994	TEENU JAIN D/o SHRI VIJAY KUMAR JAIN	MPSVC/2316 /06	C/O VIVEK KIRANA STORE CHHAPARA SEONI, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/IGKVV/06	21-Feb-79
3995	THAKKAR SUNILKUMAR G.	GUJSVC/268 3/06	SANDESARA NO MADH, CHACHARIYA PATAN 384265	BVSc&AH/SKDAU /06	01-Dec-83
3996	THANKUR KRISHNA SHANKAR RAO S/o SHREE RAJENDRA PRASAD	BiharSVC/24 46/04	VILL/MUHALLAH - CHAWDHARY BASANTPUR P.O. + THANA - PIRPAUTI SUB-DIV - KAHALGAON DIST - BHAGALPUR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 4	01-Mar-77
3997	THIRUNAVUKKARASU (MARUTHAMUTHU)	TNSVC/2713 /05	NAMSVAYAL (POST) PATTUKKOTTAI (TALUK) THANJAVUR DISTRICT PIN 614 615, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	15-Jan-70
3998	THOMAS V BABU	KERALA/309 4/05	VADAKKETHALAK KAL HOUSE, PUTHUSSERY, CHOONDAL Po. TRISSUR KERALA	BVSc&AH/KAU/05	14-May-82
3999	TILA KHAN D/o SHRI ABDUL QAYYUM KHAN	UVC/164/06	1/7, PANT NAGAR DISTT UDHAM SINGH NAGAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/05	06-Dec-81
4000	TIRTHIKAR MAHTO S/o SHREE ANIL BARAN MAHTO	BiharSVC/24 73/04	VILL/MUHALLAH - BENAGORIA P.O. - MOGMA THANA - CHIRKUNDA SUB-DIV - DHANBAD DIST - DHANBAD, BIHAR	BVSc&AH/BAU/04	10-Jun-80
4001	TRIBHUWAN PRASAD S/o SHRI MAHANGU RAM	UVC/43/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, PAAKHU, BERINAG, DT- PITHORAGARH, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/00	10-Apr-75
4002	TRIBHUWAN YADAV S/o SHRI RAM AVADH YADAV	UVC/58/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL NACHNI, DT- PITHORAGARH, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/98	07-Aug-72
4003	U. KALEESWARAN (V. URKALATHEVAR)	TNSVC/1069 /05	MUTHAPPAN PATTI, KENJEMPATTI POST, PERAIYUR TK, MADURAI DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	05-Jun-66

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4004 U. MOHANDASS S/OA. URUMATHAN	TNSVC/3540 /06	THAMARAKKI NORTH (PO), SIVAGANGAI TALUK, SIVAGANGAI DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	21-Apr-80
4005 U. RAVI (S.UMAPATHY)	TNSVC/1904 /05	5 / 1214, ADIYAMAN STREET, SENTHIL NAGAR, COLLECTORATE (PO), DHARMAPURI (DT) 636705	B.V.Sc/TNV&ASU /97	01-Jun-74
4006 U. SATHEESH KUMAR (K.UTHAMAN)	TNSVC/318/ 04	33/1, MELACHINNANAM PATTI POST THANICHIYAM VIA MADURAI 625 221 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	30-Jun-78
4007 U. SOMASUNDARAM (S.UTHIRAKSHAM)	TNSVC/1217 /05	576A, 8TH SOUTH STREET, THIYAGARAYANAGAR, TIRUNELVELI - 11 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	04-Jun-64
4008 U. VELMURUGAN (T.A.ULAGANATHAN)	TNSVC/413/ 04	33 / 17, JAGANATHAN STREET, SUDHANANTHAN NAGAR, ERODE PIN- 638011 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	13-Jun-80
4009 U.AMIRTHA (a.UDAYAKUMAR)	TNSVC/353/ 04	B12, MUNICIPAL COLONY, DOOR NO.13, MEDICAL COLLEGE ROAD, THANJAVUR - 613007, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	14-Sep-81
4010 U.LAKSHMIKANTAN (A.UTHANDARAMAN)	TNSVC/349/ 04	408, VEETHI KADU, PERUMANALLUR 641666 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	02-Jul-80
4011 U.N. SARAVANAN S/OU. NAGARAJAN	TNSVC/3542 /06	215, KONDAPANAYAKAN PALAYAM, PATTUKOTTAI 614 601 THANJAVUR DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	4-Jul-79
4012 UDAY SHANKAR GUPTA S/o LATE HIRA LAL GUPTA	UVC/175/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, NAUTI, DT- CHAMOLI, UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/98	31-Dec-71
4013 UDAY SHANKAR S/o DR. SN. N. CHAUDHARY	BiharSVC/25 42/04	VILL/MUHALLAH - SHASTRINGAR P.O. - MANGER THANA - KASIM BAZAR SUB-DIV - MUNGER DIST - MUNGER, BIHAR	BVSc&AH/ANGR AU/04	31-Jul-75
4014 UJJWAL KUMAR S/o SHREE JITENDRA BAHADUR SINGH	BiharSVC/25 21/04	VILL/MUHALLAH - AMWARI P.O. - NANDPUR AMWARI THANA - RAGHUNATHPUR SUB-DIV - SIWAN DIST-SIWAN, BIHAR	BVSc&AH/UAS,D HARWAD/04	15-Dec-80

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
4015	UMAKANTA DHRUPATI S/O SH DOLAGOBINDA DHRUPATI	ORISSASVC /1984/05	AT-SANANDAPUR DIST-BHADRAK, ORISSA	BVSc&AH/OUA&T /05	05-Jun-81
4016	UMESH CHANDRA BHATT S/o SHRI M.C. BHATT	UVC/11/06	VILL & P.O. ENCHOLI (CHANDRA BHAGA) DISTT PITHORAGARH, UTTARANCHAL	BVSc/TNV&ASU/ 05	09-Mar-80
4017	UMESH CHANDRA S/o SHRI DAYADHAR CHANDOLA	UVC/137/06	VILL JAWAHAR NR P.O DAIRY FARM NAGLA DT U.S NAGAR, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/98	10-Dec-65
4018	UMESH PRASAD S/o SRI SATYADEO PRASAD	BiharSVC/22 39/02	VILL-CHAKANDRA PO-CHAKANDRA THANA -CHEWARA SUB-DIV- SHEKHPURA DT-SHEKHPURA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	19-Dec-76
4019	UMESH SINGH RAGHUWANSHI S/o SHRI SURENDRA S	MPSVC/2285 /05	38-A, SAINATH COLONY, NEAR TILAK NAGAR INDORE, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /05	28-Dec-78
4020	V. AKILAN (R. VEDIAPPAN)	TNSVC/574/ 05	H. DODDAMPATTY POST, HARUR TK, DHARMAPURI DT 636 903. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	09-Feb-81
4021	V. ANUSUYA (K.VEERAPPAN)	TNSVC/2994 /05	4/301, THIRUMAL NAGAR, ERODE MAIN ROAD, ATHUR, P.O. KARUR 639 002, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-Feb-82
4022	V. ARASAUDAIYAN (VELAN)	TNSVC/2201 /05	NADUVIKKOTTAI POST, PATTUKKOTTAI TK, THANJAVUR DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	27-Oct-57
4023	V. ARUMUGA RAJU (P.VELUCHAMY)	TNSVC/1073 /05	PLOT NO.110, 'VELUMEENA' ILLAM, MAHA GANAPATHY NAGAR, POWER HOUSE OPPOSITE, SAMAYANALLUR, MADURAI DT.	B.V.Sc/TNV&ASU /92	23-Feb-69
4024	V. ARUN KUMAR S/OR.VENKATESAN	TNSVC/3436 /06	THIRUMANGALAM POST, THIRUKKUNAR, VILLUPURAM TK 605 501. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /99	2-May-72
4025	V. ARUNAGIRI NATHAN (P.VAITHIANATHAN)	TNSVC/2077 /05	48A/50, KEEZHAPUDHU STREET, CHIDAMBARAM 608 001, CUDDALORE DIST, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	01-Jun-66

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4026 V. BALAKRISHNAN (M.VAIYAPURI)	TNSVC/2885 /05	721, NPL PUSHPANJALI, NO.1, THIRUMANGALAM ROAD, VILLIWAKKAM, CHENNAI 600 049.	B.V.Sc/TNAU/80	22-Sep-48
4027 V. BALAKRISHNAN (M.VELLAIYAN)	TNSVC/1034 /05	8 / 55, AMMAPALAYAM, THEVUR (IPO), SANKARI (TK) SALEM DT 637 104 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	01-Jun-66
4028 V. BALASUBRAMANIAN S/OP.VENKATESAN	TNSVC/3534 /06	MAIN ROAD, OLAGADAM (PO), BHAVANI (TK) ERODE (DT) PIN 638 314, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	5-Jun-82
4029 V. BASKARAN (T.VARATHARAJAN)	TNSVC/501/ 05	4-3,/18, OOR GOUNDAR ILLAM, THARAMANGALAM, PIN - 636 502TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	28-Jun-81
4030 V. BHAKYALAKSHMI (G.VISWANATHAN)	TNSVC/686/ 05	9, IIND MAIN ROAD, JAYA NAGAR, T.B.M. SANA TORIUM, CHENNAI -47	B.V.Sc/TNV&ASU /97	15-Jun-69
4031 V. BHAVANI (W/O S.SARAVANAN)	TNSVC/2253 /05	43/4, SHREE APPARTMENTS, TNHB FLATS, 6TH BLOCK, J.J.NAGAR, MOGAPPAIR EAST, CHENNAI 600 037	B.V.Sc/TNV&ASU /96	03-Jul-72
4032 V. CHANDIRASEKARAN (K.K.VEEERAPPAN)	TNSVC/859/ 05	37 / A-7, PERIYAPATTI ROAD, S.P.PUDUR, NAMAKKAL 637 001, TN.	BVSc&AH/Dr PDKV/96	29-Jul-74
4033 V. CHELLADURAI (M.VELUSAMY)	TNSVC/2893 /05	46, GOVINDASAMY STREET, PADDY FIELD ROAD, PERAMBUR, CHENNAI - 11.	B.V.Sc/TNAU/84	10-Apr-59
4034 V. CHINNAPPA (M. VELU)	TNSVC/2811 /05	MALLIGHAI PUNCHAI, VADAKADU POST, ALANGUDI TK, PUDUKKOTTAI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	01-Jun-57
4035 V. DEEPA (K.SHENTHIL)	TNSVC/832/ 05	FLAT NO.2, GALAXY APARTMENTS, NO.4, SAYEE NAGAR ANNEXXE MAIN RD, CHINMAYA NAGAR, KOYAMBEDU, CHENNAI-92.	B.V.Sc/TNV&ASU /01	16-Jul-77
4036 V. DEVIHA (S.VENKATACHALAM)	TNSVC/2559 /05	NO.1A, GUNDOOR MOORTHY STREET, RAJAPALAYAM, VIRUDHUNAGAR DIST 626 117.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	16-Mar-74

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4037	V. DHANALAKSHMI S/OR. B. PRABU KUMAR	TNSVC/3544 /06	75/A, I, GANDHI ROAD, SOUTH UDAIYAR PALAYAM, ATTUR 636 102, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	6-May-74
4038	V. DURAISAMY (A. VELLAIYAN)	TNSVC/902/ 05	PERICHIPALAYAM & POST, PALANI T.K. DINDIGUL DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84 /92	29-Aug-57
4039	V. ESWARAMOORTHY (P. VIJAYAN)	TNSVC/3221 /05	26-A, KATTABOMMAN STREET, NARIMEDU, MADURAI 625 002 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	29-Feb-64
4040	V. G. ANBUMALAR(V. K. GANESWARAN)	TNSVC/565/ 05	24, BHARATHIDASAN STREET, PALIKADU, GOBICHETTIPALAYAM, ERODE DT. PIN - 638452 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	06-Oct-81
4041	V. GANAPATHY PRASAD (S. VENKATARAMAN)	TNSVC/1116 /05	188, LINCOLN STREET, K.K. NAGAR, TIRUCHIRAPALLI 620 021. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	21-Oct-66
4042	V. GEETHA W/o. (R. VELUMANI)	TNSVC/1343 /05	BALAJI SAGO FACTORY, THOTTAPADI POST, KOOGAIYUR ROAD, KALLAKURICHI TK, VILLUPURAM DISTR, PIN : 606 301.	B.V.Sc/TNV&ASU /96	30-May-72
4043	V. GIRIJA (W/o R. GOPINATH)	TNSVC/864/ 05	NO.5, V.O.C. STREET, K.K. NAGAR, MADURAI 625 020. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	15-Jun-67
4044	V. GNANASUNDRAM (K.A. VEERAPPACHTTIAR)	TNSVC/1516 /05	3-86, T.KAILASAMPALAYAM & P.O. THIRUCHENGODE (VIA) NAMAKKAL DT -637 209, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/67 /92	07-Aug-42
4045	V. GNANAVEL(N. VENKATESAN)	TNSVC/104/ 03	277, SENGUNTHAR STREET, KARUKKUPETTAI, KANCHIPURAM Tk & Dt. PIN: 631, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	03-Apr-80
4046	V. GNANOBAGARAM (K.P. VELMURUGAN)	TNSVC/1907 /05	HIG - 29, TNHB - PHASE IX, HOSUR DENKANIKOTTAH ROAD, OPP, HOSUR RAILWAY STATION, HOSUR - 635109	B.V.Sc/TNAU/79 /92	09-Apr-54
4047	V. GOPINATH (V. VALLIUDAYAR)	TNSVC/988/ 05	82 / 1, EAST STREET, KACHIRAYAPALAYAM, VADAKKANANDAL POST 606 207, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	16-May-77

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4048 V. GOWTHAMAN (K.VASUDEVAN)	TNSVC/538/ 05	1 / 154, KRISHNAPURAM, TUMMANKURURCHI, P.O. NAMAKKAL 637 003TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	16-Feb-81
4049 V. GURUSAMY (K.VANNAMUTHU KONAR)	TNSVC/3288 /05	PLOT NO.11, SENTHIL NAGAR, NANDHAVANAPATTI, DINDIGUL, PIN : 624 001TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/77	05-Jun-51
4050 V. HARIHARAN (K.VENKATTARAMANAN)	TNSVC/3262 /05	30, ARAVINDHA NAGAR, KNG PUDUR PIRIVU EDAYARPALAYAM, COIMBATORE641 025.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	16-Mar-69
4051 V. HEMALAKSHMI (V. VENUGOPAL)	TNSVC/198/ 03	No. 23/10, JAYARAM STREET, PALAVANTHANGAL, CHENNAI - 600 114TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	16-Sep-79
4052 V. JANAKI THAYAR (V.VENKIDASAMY)	TNSVC/801/ 05	2 / 2221, SASINAGAR NORTH, SIVAKASI 626 123, VIRUDHUNAGAR DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	20-Apr-73
4053 V. JAYAKODI (U.VEERAPPEN)	TNSVC/598/ 05	METTUPATTY, CHAMRAJPET POST, METTUR TK, SALEM DDT, PIN: 636 451.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	04-Mar-80
4054 V. JAYALALITHA (S.VEMBU IYER)	TNSVC/606/ 05	14.A, POLICE LINE STREET, ALANGUDY 622 301, PUDUKKOTTAI DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-Jan-82
4055 V. JAYANTHI(V.VETRAYAN)	TNSVC/137/ 03	PUDUR, MITAHALLI POST, KAVERIPATNAM VIA, DHARMAPURI DT 635 11TAMIL NADU.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	15-Jun-80
4056 V. JAYARAM (R.VELUCHAMY)	TNSVC/914/ 05	KARIYAMPATTI P.O. KALLIMANDAYAM VIA DINDIGUL DIST 624 616TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	10-May-68
4057 V. JEYA CHRISTY (W/o J.THAYA SINGH)	TNSVC/2192 /05	39-B, YESUDIAN STREET, NAGERCOIL, KANYAKUMARI DISTRICT 629 001.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	14-Feb-65
4058 V. JEYARAMAN (R.VEMBANAN)	TNSVC/25/0 2	PULIYURNATHAM POST, EDAYAKOTTAI (VIA), DINDIGUL DISTRICT,PIN:624 704 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	05-Jun-78

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
4059	V. JOTH VISWAGANTH (N. VISWANATHAN)	TNSVC/1185 /05	NAGUDI PO, ARANTHANGI TK, PUDUKKOTTAI DT 614 616. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	19-May-77
4060	V. JUSTIN (S. VEDHAMUTHU)	TNSVC/688/ 05	SOUTH STREET, PUNALVASAL POST, PATTUKKOTTAI TK, THANJAVUR DT, 614 803, TN	B.V.Sc/TNV&ASU /00	25-May-75
4061	V. KALAI SELVI (R. GUNASEKARAN)	TNSVC/1151 /05	PLOT NO.30, KONGU NAGAR, MOHANUR ROAD, NAMAKKAL POST & DIST, PIN : 637 001. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	19-Jan-73
4062	V. KAMALRAJ VENKATESAN(D. VENKATESAN)	TNSVC/6/02	156D/163B, Subasri Nagar, Extn.I, Porur, Chennai - 600 0116, TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	05-Aug-78
4063	V. KARIKALAN (VELAYUTHAN)	TNSVC/968/ 05	8, ARUNA NAGAR, NEAR PHILOMINA NAGAR, NANCHIKOTTAI ROAD, THANJAVUR 613 006. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	03-Jul-60
4064	V. KARMEGAN S/O T.M. VENKATESA PILLAI	TNSVC/3432 /06	THIRUMALPADI DESUR POST, WANDAWASI TK, T.V MALAI DIST, PIN : 604 501. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	26-May-65
4065	V. KARUNAKARAN (V. VADIVELU)	TNSVC/2782 /05	19 / 47, KAMARAJ NAGAR, ASHOK NAGAR EXTENSION, KANCHIPURAM 831 502. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	29-Apr-61
4066	V. KARUNAMOORTHY (M. VEERASAMY)	TNSVC/995/ 05	VATTAGUDI (NORTH), PATTUKKOTTAI TALUK, TANJORE DT. PIN - 614 613 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	29-Jan-61
4067	V. KAVITHA (K. VELUSAMY)	TNSVC/1606 /05	32, P. SIVANANDHA NAGAR, PANDIAN NAGAR EXTENSION, KARIAKUDI, SIVAGANGAI DT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	01-Jul-74
4068	V. KAVITHA (R. VEERASAMY)	TNSVC/122/ 03	529, KALAI VANI NAGAR, MOHANUR, NAMAKKAL DT 637 01 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	17-Jun-79
4069	V. KRUTHIKA (K. VASU)	TNSVC/622/ 05	MIG -65, I MAIN ROAD, NOLAMBUR HOUSING SCHEME, MOGAPPAIR WEST, CHENNAI -37. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	12-Sep-81

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4070	V. KOTHANDARAMAN (M.VADAMALAI)	TNSVC/2171 /05	NO.2, VAIDEESWARAN NAGAR, R.S.ROAD, GUDIYATTAM, VELLORE DIST, TAMIL NADU- 632 602.	B.V.Sc/TNV&ASU /87	27-Jan-63
4071	V. KUMAR S/OG.VELUCHAMY	TNSVC/3347 /06	NORTH STREET, GANDAMANUR (PO) ANDIPATTY (TK) THENI DISTRICT PIN 625 517, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /08	10-May-81
4072	V. KUMARAVEL(S.VARADHAR AJAN)	TNSVC/145/ 03	4.D / 1, V. NAGAR, 5TH STREET,RASIPURAM POST,NAMAKKAL DT 637 4TAMIL NADU08.	B.V.Sc/TNV&ASU /03	14-Jul-79
4073	V. LOKANADHA RAO S/o V.VENUGOPALA RAO	APSVC/4423 /06	2-1-339/A, VIJAYA APARTMENTS, NALLAKUNTA, HYDER ABAD 44, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc/SVU/81	15-Jul-34
4074	V. LYDIA ARULSEVI (ISAAC JEBASTINE)	TNSVC/1120 /05	92, SATHAPPA NAGAR II STREET, MACHUVADI, PUDUKKOTTAI, PUDUKKOTTAI DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /81	23-Jun-68
4075	V. MAHALINGAM (S. VEERAMALAI)	TNSVC/227/ 03	B.6, THAMARAI NAGAR, KAJAMALAI MAIN ROAD, TRICHIRAPPALLI 820 023.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/82	15-Jul-57
4076	V. MAHALINGAM (S.VEERAMALAI)	TNSVC/3212 /05	B6, THAMARAI NAGAR, KAJAMALAI MAIN ROAD, TRICHY - 23TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/82	15-Jul-57
4077	V. MAHENDIRAN (VENKETAPPAN)	TNSVC/2529 /05	PALEPALLY VILLAGE, KANDIKUPPAM POST, KRISHNAGIRI TK, KRISHNAGIRI DISTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/76	03-Dec-52
4078	V. MALAIYAPPAN S/O R.VEERAIYAN	TNSVC/3369 /06	PALACHERIKADU, KARAMBAKADU PDST, PERAVURANI TK, THANJAVUR DIST- 614 802.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /06	10-May-82
4079	V. MANICKAM (K.VELAPPA GOUNDER)	TNSVC/3179 /05	VEERAPPAM PALAYAM, VELLANDI VALASAI (PO) IDAPPADI (TK) SALEM DISTRICTTAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	10-Mar-70
4080	V. MANIKANDAN (M. VEERARAGAVAN	TNSVC/180/ 03	9A, NERMAI NAGAR, KOLATHUR, CHENNAI - 600 099TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	25-Mar-79

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
4081 V. MANIVANNAN (S.VELAYUTHAM)	TNSVC/2634 /05	210/1, LAKE AVENUE, TKM ROAD, CHINGLEPUT 603 002, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	17-Sep-54
4082 V. MANIVEL (S.VEERAPPA GOUNDER)	TNSVC/2580 /05	RETTARAVALASU PDST, KOLATHUPALAYAM VIA, DHARAPURAM TK, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /98	10-Aug-74
4083 V. MANOHARAN (K.VANMEEHANATHAN)	TNSVC/2896 /05	4, V.N.S. NAGAR, THENPATHI, SIRKALI 609 111. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/80	10-May-56
4084 V. MARIMUTHU (M.VEERASAMY)	TNSVC/2025 /05	PALAMUTHI, ALADIKKUMULAI (S.O.) PATTUKOTTAI TK, THANJAVUR DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	16-May-71
4085 V. MOHAN KUMAR S/O A.VENUGOPAL	TNSVC/3292 /05	NO.22.D, P.T.RAJAN SALAI, K.K. NAGAR, CHENNAI 600 078. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	10-Apr-68
4086 V. MURUGADAS S/O M.VAIYAPURI	TNSVC/3371 /06	63, NORTH ST, THANGAMURUGADAS ILLAM, POTHANUR PO, P.VELUR TK, NAMAKKAL DT 638 181. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	20-Mar-81
4087 V. MURUGAVEL (A.VEERASWAMY)	TNSVC/861/ 05	8 / 64, BAJANAI KOIL STREET, KANDACHIPURAM POST, VILLUPURAM DISTRICT, 605 701. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	13-May-75
4088 V. MURUGESAN (G.RVEERARAMASAMY)	TNSVC/2102 /05	2/375, KALAIMAGAL CDLONY, BYE - PASS RDAD, CHINNALAPATTI, GANDHIGRAM, CHETTIAPATTI POST, DINDIGUL DT 624 314.	B.V.Sc/TNV&ASU /92	05-May-69
4089 V. MUTHU GDPALA KRISHNAN (A.VENKIDUSAMY)	TNSVC/2581 /05	PERUMAL KOVIL THOTTAM, KUNDADAM 638 702, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	03-Jun-57
4090 V. MUTHUDURAI (M.VEERAN)	TNSVC/1186 /05	KUNNUR, THONDAIMANENTHAL POST, AVUDAYAR KOIL TK, PUDUKKOTTAI DT 614 616. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	07-May-77
4091 V. MUTHUSELVAN (P.VENGAN)	TNSVC/2060 /05	6/103B, OPPDSITE V.R.P. QUARTERS, PAPPIREDDIPATTY 636 905, DHARMAPURI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	16-Jul-71

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4092 V. NATARAJAN (A.VENKATACHALAM)	TNSVC/1509 /05	SADAYN PALAYAM, KONASAMUTHRAM P.O. KONGANAPURAM VIA SLAEM DT- 637102,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	14-May-74
4093 V. NATARAJAN (P.VEERUSIKKU)	TNSVC/1432 /05	SOWDAMMU KOIL STREET, GUDALUR (POST) THENI DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	15-Jan-50
4094 V. PALANI KUMAR (M. VENKATACHALAM)	TNSVC/221/ 03	32, THAYARKULAM STREET, KANCHIPURAM 631 502.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	25-May-77
4095 V. PANNEERSELVAM (S.VENKATACHALA MUDALIAR)	TNSVC/3039 /05	102A, OTTAKOOTHAN STREET, MAMALLAN NAGAR, KANCHEEPURAM 631 502,TAMIL NADU,	B.V.Sc/TNAU/80	20-Mar-58
4096 V. PARANTHAMAN (M.VARADARAJULU)	TNSVC/1942 /05	6 H 6, VIIIITH CROSS STREET, JAKKAPPAN NAGAR, KRISHNAGIRI - 635 001, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/64	01-Jul-40
4097 V. PRABHAKAR (V.V.NARASAREDDY)	TNSVC/1500 /05	3, (OLD NO.277), 13TH STREET, S.R.P.COLONY, JAWAHAR NAGAR, CHENNAI 600 082	B.V.Sc/TNAU/87	11-Oct-46
4098 V. PRABHAKARAN (K.V.VENGAREDDY)	TNSVC/1595 /05	15, BHARATHY NAGAR, RANIPET, VELLORE DIST 632 403.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83	12-May-62
4099 V. PRASAD (V.VENKATRAM)	TNSVC/546/ 05	NO.1 / 32, V.V.KOIL STREET, CHOOLOAI, CHENNAI 600 112.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	21-Jul-80
4100 V. PREMA (V.VENKATACHALAM)	TNSVC/1499 /05	189, THOMSENPET STREET, KAVERIPATTINAM, KRISHNAGIRI DISTRICT 635 112,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	01-Dec-76
4101 V. PRISCILLA MALINI NICHOLSON W/o. (K.VIJAYAKUMAR)	TNSVC/1577 /05	5 / 39, VALLIMALAI RDAD, KASAM, KATPADI, VELLORE 632 007., VELLORE DIST.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	19-Dec-65
4102 V. RAJAMANICKAM (E.VAIYANNAN)	TNSVC/2367 /05	147, PULIAKADU, THALKUNI POST 638 456 KOLAPPALUR VIA, GOBI TK, ERODE DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-Feb-76

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4103 V. RAJANGAM (K.VEERANAN)	TNSVC/3183 /05	14 / 1, LION CITY EXTN., THIRUNAGAR, MADURAI - 6 TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	02-Jul-65
4104 V. RAJENDRAN (M.VINAYAGAM PILLAI)	TNSVC/909/ 05	PLOT NO.5, GOKUL NAGAR, KRISHNA NAGAR, THIRUPPALAI, MADURAI 625 014TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/81	14-Jun-58
4105 V. RAJENDRAN (R.K.VEERARAJAN)	TNSVC/985/ 05	5 / 13, SELVAM NAGAR, MEDICAL COLLEGE ROAD, THANJAVUR 613 007. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	30-Jul-62
4106 V. RAJINKANTH (R.VASAGAR)	TNSVC/2476 /05	MUTHUSAMY KDNE STREET, GUDALUR, THENI DIST 625 518.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	07-Jul-76
4107 V. RAJU S/O VENKATACHALAM	TNSVC/3368 /06	ANAIGDUNDANOOR, P.K.PUDUR POST, BHAVANI TALUK, ERODE DIST, 638 504.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	30-Apr-80
4108 V. RAMAKRISHNAN (N.VIJAYARAGAVAN)	TNSVC/467/ 05	KIDARIPPATTI (PO), ALAGARKOVIL' (VIA) MELUR (TK) MADURAI (DT) 625301TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	03-Mar-82
4109 V. RAMALINGAM S/O A.VADIVEL	TNSVC/3403 /06	5/46, N.G.G.O'S COLONY, SALEM MAIN ROAD, NAMAKKAL TAMIL NADU	BVSc/MU/74	12-May-'3
4110 V. RAMAR (C.VEERAPUTHIRAN)	TNSVC/281/ 04	VANNIVELAMPATTI (EAST STREET), PERAIYUR TK, MADURAI DT.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	18-Jun-78
4111 V. RAMASUBBU (S.VENKATRAMANUJAM)	TNSVC/2815 /05	NORTH STREET, VADAMELAPURAM, THIRU THANGAL VIA, VIRUDHU NAGAR DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	29-Jul-68
4112 V. RAMESH SARAVANA KUMAR (K.VELUCHAMY)	TNSVC/1871 /05	NO.5, S.T.L. KAMATCHI CHETTIAR STREET, CHOCKALINGAPURAM, ARUPPUKOTTAI 626 101, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	08-Jan-65
4113 V. RAMPRASATH MANOHAR (S. VARATHARAJAN)	TNSVC/225/ 03	T.N.C. ALANGULAM P.O., VIRUDUNAGAR DIST., 626127TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	14-May-80

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
4114 V. REVATHI (VELUSAMY)	TNSVC/1623 /05	781-A, ANNA NAGAR, II EAST MAIN ROAD, MADURAI 625 020, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	20-Jun-76
4115 V. SADASIVAM (K.VARADAPPA GOUNDER)	TNSVC/1377 /05	4 / 69, PERIYAR SOUTH, PERIYERI P.O. ATTUR T.K. SALEM DISTRICT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	04-Jun-69
4116 V. SAMPATH KUMAR (M.VAIYAPURI)	TNSVC/2424 /05	9, WEST STREET, GANGAVALLI TALUK, SALEM DISTRICT 636 105 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	06-May-70
4117 V. SANKARA NARAYANAN (K.N.VARADARAJULU)	TNSVC/2105 /05	59, VASANDA NAGAR, BY PASS ROAD, KARIMANGALAM 635 111, DHARMAPURI DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /93	30-Jul-70
4118 V. SANKARANARAYANAN (V.VEERASAMY)	TNSVC/1231 /05	9C, G.K. NAGAR, IIND STREET, MANTHITHOPPU ROAD, KOVILPATTI - 628 501, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	20-Jun-66
4119 V. SARADHA (P.VADIVEL)	TNSVC/540/ 05	KADUAKKAPPATTI SELLIAMPATTI PDST, DHARMAPURI DT. 636 809 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	25-Jun-81
4120 V. SARAVAN KUMAR (C.VISWANATHAN)	TNSVC/903/ 05	3 / 612, N.S. NAGAR IST STREET, KARUR ROAD, DINDIGUL - 1 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	10-May-68
4121 V. SASIKALA S/O G.VENKATACHALAM	TNSVC/3334 /06	4/147, PULIAMPATTI (T.THOTAM) NADANTHI -PO, P.VELUR- T.K., NAMAKKAL DT. 637 206 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	4-May-83
4122 V. SELVAKUMAR S/O G.VELU	TNSVC/3297 /05	4/124, KEEL BATCHA PET, HARUR, DHARMAPURI DIST, 636 903. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	28-Mar-82
4123 V. SELVENDRAN (K.VALATHAIYAN)	TNSVC/585/ 05	M. KALLUPATTY, PERAIYUR TK, MADURAI DT. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-May-79
4124 V. SENNAKESAVAN (V.VENKATASAMY)	TNSVC/553/ 05	5-18-31, POSTAL COLONY, ARUPPUKOTTAI POST, VIRUDHUNAGAR DT, 626 101. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	05-Jun-77

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
4125 V. SENTHIL KUMAR (P.VENKATACHALAM)	TNSVC/3140 /05	13AI, NEW EDAPPADI ROAD, SANKARI DURG POST, SALEM DIST 637 301.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	26-Jan-77
4126 V. SENTHIL KUMAR S/O A.VARADARAJAN	TNSVC/3481 /06	75B/37, CHANKAR NAGAR, PASUPATHIPALAYAM POST, KARUR - 4.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	13-Jun-72
4127 V. SHANMUGAM (C.VEERAPPAN)	TNSVC/2027 /05	NR KARUPPANNA SWAMY KOIL ST, VELAPPAM PALAYAM, VELLOTTAM PARAPPU PO, ERODE DIST- 638 154, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	10-May-76
4128 V. SHARAVANAN (M.VELUSAMY)	TNSVC/984/ 05	53, RAILWAY STATION, MUTHUPET 614 704, THIRUVARUR DISTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	27-May-69
4129 V. SIVAKUMAR (P.VIJAYAN)	TNSVC/2916 /05	74, THINGALORE ROAD, KANJIKOVIL P.O. PERUNDURAI TALUK, ERODE DISTRICT 638 16TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	27-May-78
4130 V. SIVARADHIKA S/O S.VELDURAI	TNSVC/3362 /06	12/824, CHUNGAM MYSORE ROAD, GUDALUR, NILGIRIS 643 212, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	20-Jan-83
4131 V. SOMASEKARAN (B.VENKATESAN)	TNSVC/1480 /05	16, SAVADI PILLAIR KOVIL STREET, KARIMANGALAM P.O. 635 111 DHARMAPURI DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	15-Jun-75
4132 V. SUBBAIYAN (R.VENKATA CHALAM)	TNSVC/2810 /05	MUDALIAR STREET, ALANGUDI POST, VALANGAIMAN TK, THIRUVARURTAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	05-May-55
4133 V. SUBBURAJ (K.VENKATASAMY)	TNSVC/2076 /05	313, THAMIRABARANI SQUARE, PERIYAR NAGAR, VILLUPURAM., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	05-May-68
4134 V. SUBRAMANIAN (S.VEERABADRAN)	TNSVC/1229 /05	3A1, 3RD STREET, PASUVANDHANAI ROAD EAST, BHARATHI NAGAR, KOVILPATTI 628501, THOOTHUKUDI DT	B.V.Sc/TNV&ASU /89	28-Jun-67
4135 V. SUJATHA (L.VASUDEVAN)	TNSVC/3070 /05	NO.21, LAKSHMI NAGAR, GOWARTHANAGIRI (POST), AVADI, CHENNAI 600 071	B.V.Sc/TNV&ASU /05	27-Jan-83

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4136 V. SUNDARAPANDIAN (K. VAJRAVELU)	TNSVC/1594 /05	NO.87, DR. RADHAKRISHNAN STREET, BELLIAPPA NAGAR, WALAJAPET 632 513.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	31-May-61
4137 V. SURESH KUMAR (S. VEERAPANDIAN)	TNSVC/1610 /05	NEW NO.2 / 1, (OLD NO.2 / 3) PUNGAMPATTY POST, AMBASAMUTRAM - TK, TIRUNELVELI DISTRICT PIN 627 415	B.V.Sc/TNV&ASU /77	30-Jul-74
4138 V. SURESH(E.VAIYAPURI)	TNSVC/2553 /05	9/451, SENAPATHY NAGAR, OODAIAM ROAD, MUTHUR POST, KANGAYAM TK, ERODE DIST 638 105.	B.V.Sc/TNV&ASU /93	11-Feb-70
4139 V. THANGADURAI (K.S.VELAYUDHAM)	TNSVC/964/ 05	25, KANNUGAPURAM STREET, CHEYYAR 604 407, THIRUVANNAMALAI DISTRICTTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	01-Jun-72
4140 V. THANGAVELU (S.VEMBAN)	TNSVC/1025 /05	A-99, TAMILNADU HOUSING BOARD, IDAPPADI PO, SALEM DT.,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	25-May-53
4141 V. THANGAVELU (V.P.VELAISAMY)	TNSVC/3126 /05	124 / 5, AVINASHI ROAD, ANNUR, COIMBATORE DISTRICT PIN 641 653 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/81	07-Jun-58
4142 V. THANIKAIVEL (K.V.VADIVEL)	TNSVC/1288 /05	3 / 12, EAST STREET, GURUSAMIPALAYAM POST, RASIPURAM TK, NAMAKKAL DISTRICT - 637 403	B.V.Sc/TNV&ASU /01	24-Jul-76
4143 V. THAVASIAPPAN (T.VEERAN)	TNSVC/1286 /05	SOUTH STREET, NAGALUR POST, ATHANI VIA, ERODE DISTRICT 638 502,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	11-Mar-76
4144 V. THENDRAL (M.VISWANATHAN)	TNSVC/600/ 05	1/80A, MARUNGUR, THULAI P.O, SENDURAI T.K. PIN. 621719TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	10-May-81
4145 V. THIYAGARAJAN (C.VIJAYAN)	TNSVC/20/0 2	30, SUBRAMANIYER KOVIL STREET, VELANATHAM, ATTAYAMPATHY (PO) SALEM (DT), - 637 501TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	30-Jun-77
4146 V. UMAMAHESWARI (M.K.SHANKAR)	TNSVC/2844 /05	18, GOKHALA STREET, RAM NAGAR, COIMBATORE TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	13-May-69

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
4147 V. VAIDEESWARAN S/OVENKATACHALAM	TNSVC/3348 /06	5/314, KOMBAIKKADU, KATTUVALAVU, KARANANPATTY PO, EDAPPADI TALUK, SALEM DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	5-Jun-83
4148 V. VALLAIAPPAN (V.VELUSAMY)	TNSVC/1513 /05	28, VASANTHA NAGAR SECOND STREET, MADURAI 625 003, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	11-May-69
4149 V. VANITHA S/O R.VEERASAMY	TNSVC/3294 /05	523, KALAIVANI NAGAR, MOHANUR 637 015, NAMAKKAL DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	22-Aug-81
4150 V. VARADHARAJAN (E.VENGEDUSAMY)	TNSVC/2664 /05	ANUMANTHAMPATTI, ALLAMARATHUPPATTI (PO) ARAVAKURICHY (TK), KARUR DT 639207, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83 /05	03-Feb-59
4151 V. VASAVAN (N.VISWANATHAN)	TNSVC/2033 /05	BAIRNATHAM POST, PAPPIREDDIPATTI TK, DHARMAPURI DT, PIN : 636 905. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	07-Nov-73
4152 V. VELAN (G.VENKATESAN)	TNSVC/508/ 05	JAMATHOTTAM (VILL) MALLINAYANAPALLI (PO), KRISHNAGIRI PIN - 635 120 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	02-Feb-80
4153 V. VELAN (V.VAITHILINGAM)	TNSVC/2168 /05	A3/7, AISWARYAM PHASE II, DABC APARTMENT, NOLAM BUR, CHENNAI 600 095.	B.V.Sc/TNAU/78 /05	25-Aug-54
4154 V. VIJAYABALAJI (V.VENKATESAN)	TNSVC/2208 /05	87, PERUMAL KOIL STREET, MAZHAIYUR 604 502, TIRUVANNAMALAI DIST., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /02	27-Jul-79
4155 V. VIJAYAKUMAR (V.N.VENKATACHALAM PILLA)	TNSVC/905/ 05	4, KULATHUR (P.O.), DINDIGUL- 5 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /89	28-Jun-67
4156 V. VIJAYAKUMARAN (P.VENKATASAMY)	TNSVC/1443 /05	107 / 6, PERIYAKULAM ROAD, RATHINAM NAGAR EAST, THENI PIN 625 531, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/83 /05	02-May-60
4157 V. VINOTH (K.VANAPERUMAL)	TNSVC/1269 /05	7G / 5, V.O.C. NAGAR, PON ILLAM, CHINNAMANUR 625 515, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	01-Jun-77

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
4158 V.A. HEMAVATHY(K.V. ALAGARSAMY)	TNSVC/169/ 03	5/636A, PERIYARSTREET, NGO COLONY EAST, VIRUDUNAGAR, PIN - 626001TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /03	19-May-80
4159 V.A.ANAND (V.AGORAM)	TNSVC/2346 /05	NO.40, N.G.O. COLONY, TIRUVALLUR, TIRUVALLUR DISTRICT 602 001,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	09-Apr-74
4160 V.A.LAKSHMI NARASIMHAN S/OV.V. ANAND	TNSVC/3497 /06	33, NARAYANASAMI STREET, PUDUPET, ATTUR TOWN, SALEM DIST 636 141.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	9-Dec-59
4161 V.A.RAJENDRAN(V.ALAGU)	TNSVC/1797 /05	CHADURVEDAMANGALAM (PO) THIRUPPATTUR (TK) SIVAGANGAI DISTRICT,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/84	17-Apr-55
4162 V.B. SANKARA VINAYAGAM (S.BALASUBRAMANIAN)	TNSVC/913/ 05	118, WEST CAR STREET, VIRUDHUNAGARTAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /94	05-Jul-71
4163 V.C.PALANISAMY (K.CHINNASAMY)	TNSVC/3277 /05	2 / 85, SANARPALAYAM, VILLARASAMPATTI POST, ERODE 638 107.TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	22-Jun-67
4164 V.D. RAMACHANDRAIAH S/o V. DODDARANGAPPA	KARNASVC/ 3702/	VADDAGERE POST, KORATAGERE TALUK, TUMKUR DT, KARNATAKA	BVSc/UAS,B'lore/ 89	20-Apr-61
4165 V.DEEPAN CHAKRAVARTHY (P.VANANGAMUDI)	TNSVC/470/ 05	3 / 332, ANNA NAGAR EXTENSION, PIDAMANERI, DHARAMPUR DIST PIN - 636 703TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	12-Jun-81
4166 V.G. ATHIAPPAN (V.GANESAN)	TNSVC/1909 /05	KANMANI THOTTAM, KALKURICHI (PO), BELUKURICHI (VIA), NAMAKKAL 637 402,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /01	17-Mar-75
4167 V.K. KAVITHA (S.R.SURESH)	TNSVC/2026 /05	15/44, UPSTAIRS KARUR MAIN ROAD, KARUNANDAMPALAYAM, MALAYAMPALAYAM PO 638154, ERODE DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	29-Apr-76
4168 V.K. SASIKUMAR (V.KRISHNASAMY)	TNSVC/3236 /05	REDDIARUR, REDDIARUR(P.O.) POLLACHI (TK) COIMBATORE DISTRICT TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/84	04-Jun-58

79361/07-87

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4169	V.K.RAMASAMY (V.KATHIRVELPILLAI)	TNSVC/2338 /05	7, THIRUVASAGAMANI EXTN., K.K.NAGAR, TRICHY - 21, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/65	17-Oct-39
4170	V.KARUPPASAMY (T.VELU)	TNSVC/1831 /05	CHINNAATHIKULAM, ATHIKULAM P.O. SRIVILLIPUTHUR T.K. - 626 125, VIRUDHUNAGAR DT, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /91	06-May-65
4171	V.KAVIARASI (R.VETRAYAN)	TNSVC/420/ 05	2, T.V.K. TEACHER'S COLONY, PAUPARAPATTI PO, DHARMAPURI DT 636 809., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /04	01-Jun-79
4172	V.KOMATHI (S.BALAJI)	TNSVC/2654 /05	21, KAMARAJ NAGAR, RASIPURAM (P.O.) NAMAKKAL DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	30-Jun-73
4173	V.M. MURUGESAN (V.M.MUTHU)	TNSVC/2586 /05	520, AYYASAMY NAGAR, PK ROAD, KANGAYAM 638 701, ERODE DIST. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/85	03-Jul-62
4174	V.M. ULAGANATHAN (V.A.MARGABANDU)	TNSVC/2972 /05	132, IIND EAST CROSS STREET, NETHAJI NAGAR, SATHUVACHARI, VELLORE 632 009 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/86	01-Jun-63
4175	V.MATHIALAGAN (C.VELAYUTHAM)	TNSVC/2339 /05	POTHIRAMANGALAM POST, TITTAKUDI TALUK, CUDDALORE DISTRICT PIN 606 111, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /99	25-Mar-73
4176	V.N. RAJAGOPALAN (V.V.NANJAPPA CHETTIAR)	TNSVC/1349 /05	3 / 519, NALVAR NAGAR, K.VADAMATHURAI POST, COIMBATORE 641 017. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/75	28-Feb-50
4177	V.P. ANBAZHAGAN (V.PERIYASAMY)	TNSVC/3283 /05	NO.122.A1, SELVAM NAGAR, FOUR ROAD, THURAI MANGALAM, PERAMBALUR 621 220. TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /92	03-Jun-68
4178	V.P. ANUBAMA (S.PALAVESAPANDIAN)	TNSVC/3198 /05	4 / 323, II STREET, SHANTHI NAGAR, PALAYAMKOTTAI, TIRUNELVELI TAMILNADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	25-Jul-74
4179	V.P. PONNUVEL (S.PERUMAL)	TNSVC/1007 /05	NO.4, MARGABANDU STREET, SALEM - 7 TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	12-Jan-65

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4180 V.P. SUTHAKAR (T.V.PUSHPARAJ)	TNSVC/2969 /05	NO.7, HAJIYAR COLONY, SELVA NAGAR EXTENSION, KARUMANDABAM, TRICHY - 2TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	17-Jun-73
4181 V.PALANIVEL (C.VEERABADRAN)	TNSVC/1206 /05	121-1, KOKKARAYANPET ROAD, NAVIDHAN KADU, KOLLAPATTY, ANIMOOR (PO), THIRUCHENGDDDE (TK), NAMAKKAL (DT) - 637214	B.V.Sc/TNAU/88	14-May-66
4182 V.PARIVEL (V.VEERAMALAI)	TNSVC/1637 /05	237, MAIN ROAD, ARASALUR P.O. 621 203, THOTTIYAM T.K. TRICHY DISTRICT TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	15-Jul-66
4183 V.R.BASKAR (V.RANGANATHAN)	TNSVC/1801 /05	32 / B, AZEEZ NAGAR II STREET, KODAMBAKKAM, CHENNAI 600 024	B.V.Sc/TNV&ASU /91	14-Jun-68
4184 V.R.CHANDRA MOHAN S/OVG.RANGANATHAN	TNSVC/3439 /06	SBC APARTMENTS, FIRST FLOOR, NEW NO.22/C,(OLD NO.19/G) JAISHANKAR ST, WEST MAMBALAM- 600 033,TAMIL NADU	BVSc/MU/72	2-Jun-42
4185 V.RAJASEKAR (P.VANNIMUTHU)	TNSVC/1622 /05	112, THIRUMURUGAN NAGAR, BYE PAS ROAD JUNCTION, MUSIRI, TRICHY 621 211,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /96	01-Jul-73
4186 V.RAJKUMAR S.VINCENTRAJU)	TNSVC/670/ 05	10 / 210, VELLAI MANAL STREET, THONDI 623 409, RAMNAD DT., TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	15-Jun-74
4187 V.RAJYALAKSHMI D/o LAKSHMI PRASAD	APSVC/4318 /05	MIG - 178/4, PHASE I, HB COLONY, VIJAYAWADA -12., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	05-Apr-79
4188 V.S. DEVAENATHYPATHY (V.K. SUBRAMANIYAM)	TNSVC/83/0 3	M-61, VI CROSS NEW ASTC HUDCO, HOSUR PIN,635 109 PIN 635 109 TAMILNADU	B.V.Sc/TNAU/79	14-Apr-52
4189 V.S. GOVINDASAMY (V.G.SEETHARAMAN)	TNSVC/2323 /05	16/100, RATHANAM NAGAR, PALLADAM ROAD, POLLACHI 642 002,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/79	28-Aug-50
4190 V.S. MEIGNANA SUNDAR (V.SRIRANGARAJAN)	TNSVC/1586 /05	9 / 10F, BOSE ROAD, SIVAGANGA, SIVAGANGA DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /97	10-Apr-72

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
4191	V.S. NADANASIGAMANI (V.A. SUNDARAVELU)	TNSVC/2651 /05	27, J.P. BUILDER'S COLONY, THIRUNAGAR EXTENSION, VELLORE 632 006, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/69	01-Jun-42
4192	V.S. RAGHAVAN (S.VENKATA SUBRAMANIAM)	TNSVC/2041 /05	83, VAGEESA NAGAR, CHIDAMBARAM, CUDOALORE DT 608 00, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/88	16-Jun-64
4193	V.S. RAMACHANDRAN (V.V. SANKARAPPAN)	TNSVC/1938 /05	3, PAMBAL AMMAN KOIL NAIDU NORTH STREET, W.PUDUPATTI PO., SRIVILLIPUTHUR (TK), VIRUDHUNAGAR (OT)	B.V.Sc/TNAU/77	05-Apr-51
4194	V.S. VADIVOU (K.S. PALANISWAMI)	TNSVC/2236 /05	W-145, 4TH STREET, B-SECTOR, ANNA NAGAR WEST EXTENSION, CHENNAI 600 101.	B.V.Sc/TNV&ASU /94	07-Jul-70
4195	V.SANKARANARAYANAN (G.VEERABADRANTULU)	TNSVC/1616 /05	24B / C COLONY, PERUMALPURAM, TIRUNELVELI 627 007, TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/71	12-Jan-45
4196	V.SANTHI (W/O V.SENTHIL KUMAR)	TNSVC/2357 /05	1/3, NALLAMANAICKER PATTI (VILL&PO) RAJAPALAYAM TALUK, VIRUDHUNAGAR DT- 626 102, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /00	15-Apr-76
4197	V.SANTHOSH S/o NARASIMHA REDDY	APSVC/4298 /05	3-4-859, MOTHE APTS., FLAT NO.602, BARKATPURA, HYDERABAD- 27., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc/APAU/76	25-Nov-52
4198	V.SARAVANAN (M.VARUDHAPPAN)	TNSVC/1145 /05	5/56, KIZHAVIKAOU, THOPPAPATTI P.O., RASIPURAM TK NAMAKKAL DIST. 637 406. TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /95	25-May-70
4199	V.SUNOARARAJAN (R.VAITHILINGAM)	TNSVC/1756 /05	SERIALOOR (INAM), KEERAMANGALAM P.O. ALANGUDI T.K. PUDUKKOTTAI - 614 624, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/78	12-Mar-53
4200	V.V. RAMA RAO KASULA S/o K. NARASIMHA RAO	APSVC/4327 /05	MAIN RAOD, TRIPURANTHAKAM, PRAKASAM DT - 523 326., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	02-Apr-81
4201	V.VARAOHARAJAN (T.VENKATACHALAM)	TNSVC/1375 /05	4 / 22, ARUNA NAGAR 2ND STREET, SRIRANGAM, TIRUCHIRAPALLI 620 006, TAMIL NADU	B.V.Sc/TNAU/87	02-May-60

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4202 V.WINSTON ROY (D.VETHA ROY)	TNSVC/532/ 05	DANIEL VILLA, LAKSHMIPURAM & p.O (VIA) NEYYOOR, KANYAKUMARI DISTRICT 629 802,TAMIL NADU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	03-Dec-81
4203 VADAVIYA RAJESHKUMAR A.	GUJSVC/264 2/06	TO. KHEVARIYA, TA. MORBI DIST RAJKOT, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	01-Dec-83
4204 VAIDDYUTI SINGH S/o SHREE MANIK CHANDRA SINGH	BiharSVC/25 92/05	VILL/MUHALLAH - JARLAHI P.O. - GURMELA THANA - BARARI SUB- DIV - KATIHAR DIST - KATIHAR, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	20-Aug-81
4205 VAIJANATH S/o SIDDANNA MAMMANI	KARNASVC/ 3739/	C/O BASAVANAPPA, KALLAPPA MAMMANI, AT POST FHARAHATABAD, GULBARGA DT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	15-Jun-82
4206 VANEET MALHOTRA S/o SHRI JIWAN KUMAR MALHOTRA	UVC/22/06	VETY OFFICER,GOVT.VETY HOSPITAL,CHANDRAPUR,RUDRAPR AYAG,UTTARANCHAL	BVSc&AH/PAU/00	07-Mar-76
4207 VANITHA KAMMILI D/o SATYANARAYANA RAJU	APSVC/4341 /05	MIG 119, BHIMAVARAM HOUSING BOARD, NEAT ST.MARYS HIGH SCHOOL,BHIMAVARAM - 3. W.G.DT- 534203,ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	30-Aug-82
4208 VARDHAMAN PATIL S/o DHANAPAL	KARNASVC/ 3741/	MAIN BAZAR, NEHRU RD, NR GRAM CHAVADI, ILAKAL BAGALKOT DT- 587125, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	14-Sep-80
4209 VARIA RASESHKUMAR D.	GUJSVC/264 5/06	238 SHARDANAGAR SOC, NR.SAI TEMPLE, TARSADI VADODARA 390009, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	13-Nov-82
4210 VARINDER PAL SINGH PANNU S/o KASHMIR SINGH PANNU	PbSVC/2581/ 05	H.NO.7/16,IMPROVEMENT TRUST COLONY,GURDASPUR, PUNJAB	BVSc&AH/RAU/0 4	28-Jul-80
4211 VARUN SANKHYAN S/o SH. CHANDER GUPT SANKHYAN	HPSVC/713/ 05	HOUSE NO.-45,WARD NO.- 07,DEVNAGAR,HAMIRPUR,HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	17-Mar-82
4212 VASAVA JAGDISHBHAI V.	GUJSVC/264 3/06	AT KUNBAR, PO. JHARIAWADI,TA DEDIAPADA DIST NARMADA - 393040, GUJRAT	BVSc&AH/ANAN D AGRIL UNI/06	03-Jul-80

<i>SNUM NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4213 VASAVI AVUTHU D/o A. LAKSHMA REDDY	APSVC/4372 /05	C-26, D.NO. 8-3-222/8-19, MADHURA NAGAR, YOUSUFGUDA, HYDERABAD - 500 038., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	06-May-81
4214 VEENA M.P. S/o M.K.PRABHUSHANKAR	KARNASVC/ 3776/	1744,6TH CROSS, SIDDARTHANAGAR, MALAVALLI TALUK, MANDYA DT., KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	10-Feb-82
4215 VEERA NARAYANA REDDY S/o PEDDA BRAHMAIAH SURAM	APSVC/4310 /05	KHAZIPURAM, BESTAVARIPETA(M), PRAKASAM DT - 523 346., ANDHRA PRADESH	BVSc&A.H/ANGR AU/05	06-Jul-82
4216 VEERABHADRAPPA A.G S/o G. THIPPAIAH	APSVC/4430 /06	DR. NO. 13-1-171, 13TH WARD, URAVAKONDA, ANANTAPUR DT 515812, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc/APAU/73	01-Jul-48
4217 VELUGU BABU RAO S/o VELUGU GOPAIAH	APSVC/4361 /05	C/O D. SINGA REDDY, H.NO. 4/7/81, ANJANEYAPET, KORITAPADU, GUNUR , ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	01-Jul-70
4218 VENKATA AJAY KUMAR VATTURI S/o RAJA RAO. V	APSVC/4311 /05	KORUKOLLU(P.O), KAIKALUR(M), KALIDINDI(M), KIRSHNA DT - 521 343., ANDHRA PRADESH	BVSc&A.H/ANGR AU/05	20-Jun-81
4219 VENKATA SUSHAM DEVI REDDY S/o VENKATESWARA REDDY	APSVC/4377 /05	NEAR MNM COLLEGE, KANIGIRI PRAKASAM DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.H/ANG RAU/05	01-Aug-82
4220 VENKATESH S/o DHARMARAJ WALIKAR	KARNASVC/ 3716/	K.K.NAGAR POST, NO. 348, BIJAPUR, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	13-Feb-82
4221 VENKATESHA SANNABIDARI S/o BHARMARADDI	KARNASVC/ 3738/	MANAKUR POST, RANEBENNUR TALUK, HAVERI DIST., KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	15-Jul-81
4222 VENUGOPAL S.	KERALA/310 0/05	RAJEEVAM, MUTHUKULAM SOUTH P.O, ALLEOET 690506, KERALA	BVSc&AH/JNKVV /05	29-Oct-80
4223 VIHOL PRITIBEN D.	GUJSVC/268 4/06	134, AYODHYA NAGAR PALANPUR DIST BANASKANTHA, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	01-Feb-83

<i>SNUM</i>	<i>NAME</i>	<i>RNUM</i>	<i>ADD</i>	<i>QUALIF</i>	<i>DOB</i>
4224	VIJAY KUMAR S/O SH NAMAN SINGH	HARSVC/190 1	1707, SEC-12, PART-I, SAI DHAM, SONIPAT, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/HAU /81	13-Apr-80
4225	VIJAY KUMAR GOND S/o SHREE NANDJEE PRASAD	BiharSVC/23 64/03	VILL - GAJADHAR TOLA P.O - THAWAY THANA - THAWAY SUB- DIV - GOPALGANJ DIST - GOPALGANJ, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	24-May-80
4226	VIJAY KUMAR S/o SHREE AAYODHAYA GARAI	BiharSVC/23 57/03	VILL - DEKHPURA P.O. - MEERATALAU THANA - RAHUI SUB- DIV - BIHAR SAREIF DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/03	28-Oct-77
4227	VIJAY PAL PRAJAPATI S/o SHRI RAM UJAGIR PRAJAPATI	UVC/26/06	PRO.MANAGER,SAGHAN MINI DAIRY,PARIYOJANA,DT- CHAMPAWAT,UTTARANCHAL	BVSc&AH/CSAKE PVV/02	28-Jul-74
4228	VIJAY PAL SINGH JADON S/o SHRI CHHOTE SINGH	UVC/49/06	PRO MANAGER,SAGHAN MING DAIRY,PROJECT DUGDH,UTPADAK SAHKARI SANG LTD.,UTTARKASHI,UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /01	31-Oct-73
4229	VIJAY SINGHJORA S/o RAJENDER SING	RajSVC/3232 /06	64 H BLOCK SRI GANGANAGAR, RAJASTHAN	BVSC&AH/UNI OF UDAIPU/83	01-Jan-58
4230	VIJAYAKANTH REDDY.A S/o VENKATESWARLU	APSVC/4395 /05	HNO. 54-14/3-10 A, BANK COLONY, SRINIVASA NR VIJAYAWADA 8 KRISHNA DT, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A H/ANG RAU/06	06-Aug-82
4231	VIKAS NEHRA S/O SH BALWAN SINGH NEHRA	HARSVC/186 2	H.NO. 88, OLD H.B.C. BHIWANI, HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	19-Jun-80
4232	VIKASH CHANDRA MISHRA S/o SHREE TRILOKI MISHRA	BiharSVC/23 85/03	VILL - DHAKLIYA P.O. - YOGA - PATTI THANA - YOGA-PATTI SUB- DIV - BETIAH DIST - WEST CHAMPARAN, BIHAR	BVSc&AH/PAU/03	12-Dec-72
4233	VIKASH KUMAR S/o KRISHAN BALLAV PRASAD YADAV	BiharSVC/25 06/04	VILL/MUHALLAH - DHIMA P.O. - DHIMA THANA - BANMANKHI SUB- DIV- BANMANKHI DIST - PURNIA, BIHAR	BVSc&AH/GAU/0 3	21-Jan-79
4234	VIKASH SAXENA S/o SHREE BHUTO MAHTO	BiharSVC/25 95/05	VILL/MUHALLAH - TAL VANSHIPUR P.O. - DIGHARI THANA - SURYAGADHA SUB-DIV - LAKHISARARY DIST - LAKHISARARI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	05-Jul-80

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
4235	VIKRAM S/o SH. OM PARKASH	PbSVC/2587/ 05	H.NO. 924, ST. NO. 3, GEETA COLONY, MOGA 142001, PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	26-Oct-81
4236	VIKRANT GILL S/o SHRI BACHAN SINGH	UVC/46/06	H.NO.19,JAIN COLONY,RUDRAPUR,U.S.NAGAR,UT TARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/05	01-Jan-83
4237	VIMAL KUMAR S/o SRI RAJENDRA PASWAN	BiharSVC/25 77/05	VILL/MUHALLAH - JHAJHARA P.O. - JHAJHARA THANA - KUSHESHWAR ASTHAN, BIHAR	BVSc&AH/OUAT/ 04	12-Jun-78
4238	VINAYA TIKARE S/o SRI. PUNDALEEKA TIKARE	KARNASVC/ 3709/	ALAWANDI POST, KOPPAL TALUK, AND DT - 583226, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Jun-82
4239	VINDO KUMAR S/o SHREE JANKI PRASAD	BiharSVC/26 15/05	VILL/MUHALLAH - BARDIH P.O. - BARDIH THANA - ISLAMPUR SUB- DIV - HILSA DIST NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/BAU/05	21-Sep-80
4240	VINEEESH. N.	KERALA/308 2/05	SREEPADAM HOME, MAKKADA P.O. KAKKODI (VIA), KOZHIKOD 873817, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	15-Apr-81
4241	VINEET SAINI S/o SH. PIARA SINGH SAINI	PbSVC/2583/ 05	# 538, WARD NO 5, BASTI GOBINDGARH, MOGRA - 142001, PUNJAB	BVSc&H/PAU/98	28-Sep-72
4242	VINEETA KUMARI D/o SHREE BALMIKI PRASAD SINGH	BiharSVC/26 08/05	VILL/MUHALLAH - MARANCHI, BHAGAT THANA - MARANCHI, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 5	12-May-77
4243	VINI ANN VARGHESE	KERALA/305 0/05	VADAKKUMTHALA CHELAKEL VENNIKULAM. P.O. THIRUVALLA, PATHANAMTHITTA, KERALA	BVSc&AH/KAU/05	19-Aug-79
4244	VINIT KUMAR S/o SHREE ANIL KUMAR GUPTA	BiharSVC/25 32/04	VILL/MUHALLAH - BARUN P.O. - BARUN THANA - BARUN DIST - AURANGABAD, BIHAR	BVSc&AH/UAS,D HARWAD/04	17-Oct-80
4245	VINOD GUDAKETRA S/o SHANKAR RAO	KARNASVC/ 3737/	C/O R.S.GUDAKETRA, BEHIND BANASHANKARI TEMPLE,H.NO 2135, SOMAWAR PETH, GOKAK, BELAGAUM DT., KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	22-Jul-82

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
4246 VINOD KUMAR S/O SH MAHABIR SINGH	HARSVC/188 2	VILL. KANWAR PURA, PO. KASHUMBHI, DISTT. SIRSA., HARYANA	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	28-Oct-80
4247 VINOD KUMAR S/o SHRI SHIV SHANKAR SINGH	UVC/120/06	VETY OFFICER, GOVT. VETY HOSPITAL, SAMESHWAR, DIST-ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/00	09-Aug-75
4248 VINOD KUMAR SHARMA S/o SHRI MANOHAR LAL SHARMA	UVC/112/06	41, SUBHASH ROAD, DEHRADUN, UTTARANCHAL	BVSc&AH/AU/62	17-Aug-39
4249 VIPIN KUMAR S/o SH. NARINDER KUMAR	HPSVC/738/ 05	H.NO-88/2 WARD NO-2 SUNDER NAGAR DISTT. MANDI, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	17-Jan-80
4250 VIPIN KUMAR S/o SH. PREM CHAND	HPSVC/711/ 05	VILL-PANDHER, PO-THATWANI, THE&DIST-HAMIRPUR, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc& AH/CSKKVV/05	08-Apr-82
4251 VIPUL JAIN S/o BHRI SURESH CHANDRA JAIN	UVC/142/06	VILL NANDGAON, TEHSIL BARKOT, DISTT UTTARKASHI, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/03	01-Nov-79
4252 VIRENDRA KUMAR S/o SRI GAYA PRASAD	BiharSVC/22 37/02	VILLBARUNA P.O.-CHORWAR THANA -ARIYARI SUB-DIV-SHEKHPURA DT- SHEKHPURA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 2	05-Mar-72
4253 VISHAL CHANDER S/o SH. SOM NATH	HPSVC/714/ 05	SHILLY NIWAS HIMACHAL FLOWER MILL DYONGHAT, PO-SARPROON, DT-SOLAN, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	28-Jan-81
4254 VISHAL DOGRA S/o SH. RAVINDER NATH	HPSVC/725/ 05	M.V.SC. SCHOLAR, OEPTT. OF VETY. ANATOMY AGRI. UNI-HISSAR, HIMACHAL PRADESH	B.V.Sc & AH/CSKKVV/05	25-Aug-82
4255 VISHAL JIT SINGH S/o SH. BALOEV SINGH	PbSVC/2619/ 05	VPO FATEHPUR RAJPUTAN, TEHSIL & OISTT. AMRITSAR., PUNJAB	BVSc&AH/PAU/05	13-Sep-81
4256 VISHAL KUMAR S/O SH KRISHAN KUMAR	HARSVC/187 2	H.NO. 88, D.C. COLONY, SIRSA, HARYANA.	B.V.Sc.&A.H/CCS HAU/05	16-Sep-82

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
4257	VISHAL SINGH SHEKHAWAT S/o HARBAN	RajSVC/3200 /06	SSB ROAD ST NO.2 CHUCI PO NATHAWALI SRI GANGANAGAR, RAJASTHAN	BVSc&AH/RAU/0 5	23-Sep-78
4258	VISHVANATHA.H.R. S/o RAME GOWDA	KARNASVC/ 3811/	HULIKAL, TURVEKERE TALUK, TUMKUR DISTRICT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	01-Jun-82
1259	VIVEK AGRAWAL S/o SHRI JAGDISH CHANDRA AGRAWAL	UVC/130/06	PROJ MANAGER,C/OANCHAL DAIRY DUGDH UTPADK SAHKARI SANGH LTD.,ALMORA,UTTARANCHAL	BVSc&AH/JNKVV /02	07-Jun-76
4260	VIVEK NAYAK S/o SHRI BASANI KUMAR NAYAK	MPSVC/2280 /05	668, SARAFI WARD, MALDARPURA JABALPUR, MADHYA PRADESH	BVSc&AH/JNKVV /03-04	26-Sep-78
4261	VIVEK S.	KERALA/305 6/05	VIJAYA BHAVAN TC 36/1101,KATTACHAL RD, VETTAMUKKU,THIRUMALA PO TRIVANDRUM,KERALA	BVSc&AH/KAU/05	19-Feb-81
4262	VIVEK SINGH S/o RATAN SINGH	RajSVC/3233 /06	SODHANI FARM PIPRALI ROAD SIKAR 332001, RAJASTHAN	BVSc&AH/SKND AU/05	06-Nov-80
4263	VIVEKANAND S/o SHREE AYODHYA PRASAD GUPTA	BiharSVC/23 01/03	VILL - CHAURAHA P.O + THANA - PHULWARISHARIEF SUB-DIV - PATNA SADAR DIST - PATNA, BIHAR	BVSc&AH/WBUA &FS/02	26-Nov-78
4264	VIVEKANAND SATI S/o SHRI HEMCHANDRA SATI	UVC/45/06	VILL KALNOO, P.O. UPRARI DISTT ALMORA, UTTARANCHAL	BVSc&AH/GBPU A&T/93	04-Jul-71
4265	VIVEKPRABHU.B. S/o BALAPPA	KARNASVC/ 3791/	BEHIND MANJUNATHA FLOOR MILL, MUSHTOOR RD, PRASHANTHANAGAR,CHIKKABALLA PUR TALUK, KOLAR DT, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	27-Jul-82
4266	VRANDA R. S/o RAMACHANDRA GOURI	KARNASVC/ 3734/	C/O KRISHNA KR DINDA,MAHAKALI SAREF BAZAR,KHADI GRAMADYOGA SANGH SHOP NO 57/A, UDGIR ROAD, BIDAR 401, KARNATAKA	BVSc&AH/KV&FS U/05	24-Apr-82
4267	W. JEYAKUMAR SAMUEL (WILSON NAYAGAM)	TNSVC/2233 /05	182, JOSHNA STREET, NAGERCOIL, KANYAKUMARI DIST.TAMIL NADU	B.V.Sc/MU/70	17-Jun-48

SNUM NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
4268 W. MARTIN VASANTHKUMAR (WILLIAM MOSES)	TNSVC/1736 /05	41 / 19, 4TH AVENUE, ASHOK NAGAR, CHENNAI 600 083	B.V.Sc/TNAU/80	03-Mar-57
4269 WARIZ NAYAN S/o SHREE RAJENDRA PRASAO	BiharSVC/24 16/04	VILL - MAI P.O. - PARBALPUR THANA - PARBALPUR SUB-DIV - HILSA DIST - NALANDA, BIHAR	BVSc&AH/RAU/0 3	01-Mar-78
4270 Y. DHANARAJAM S/O K.R.YOGANATHAM	TNSVC/3434 /06	26 Q/8, VELU AGENCIES, VELUR ROAO, TIRUCHENGODU, NAMAKKAL DIST 637 211.TAMIL NAOU	B.V.Sc/TNV&ASU /05	11-Jan-81
4271 Y. PACKEER MOHAMEO (K.S.YOOSUF)	TNSVC/2143 /05	"NIWAZ MANZIL" 13-17-H, BALAMORE ROAD, THUVARANKADU, BOOTHAPANDY PO, KANYAKUMARI DIST.629 852.	B.V.Sc/TNAU/83	25-Jul-60
4272 Y. VALAVAN (M.YUVARAJ)	TNSVC/1387 /05	5-A, MARIAMMAN KOIL STREET, CHOCKALINGAPURAM, ARUPPUKOTTAI, VIRUDHUNAGAR DISTRICT.	B.V.Sc/TNV&ASU /91	06-May-66
4273 Y.BHANU S/o Y.KRISHNA MURTHY	APSVC/4408 /05	ASST.DIR(AGRL), DT WATER MANAGEMENT AGENCY,STATE GUEST HOUSE COMPOUND, GOVERNORPET, VIJAYAWADA, KRISHHNA DT., ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.Hi/ANG RAU/05	15-Aug-64
4274 YAKKANTI BHUPAL S/o SUBBARAYUOU	APSVC/4362 /05	MARRIKUNTAPALLI, P.CPALLI(M),KANIGIRI(TQ),PRAKASA M DT, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.Hi/ANG RAU/05	15-May-60
4275 YARAMA REDDY MADHAVILATHA D/o Y.RAMA KRISHNA REDDY	APSVC/4345 /05	MOTHER INDIA HIGH SCHOOL LANE, BESIDES CANARA BANK, NR BLIND SCHOOL, SANKARAPURAM, KADAPA, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.Hi/ANG RAU/05	14-Dec-81
4276 YARLAGAODA SRIVANI D/o Y.S.R.K. PRASAD	APSVC/4343 /05	D.NO. 24-502, OPP: DATHRAMAM, ALLURVARI STREET, BUTTAIPET, MACHILIPATNAM - 521 001, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.Hi/ANG RAU/05	01-Apr-82
4277 YATA RAMMOHAN REDDY S/o YADAVA REDDY	APSVC/4416 /05	RAJANNAGUDEM, KHAPRAIPALY, NALGONDA DT 508111, ANDHRA PRADESH	B.V.Sc&A.Hi/ANG RAU/05	30-Aug-78
4278 ZALA JAYDIPSINH RAJNIKANT	GUJSVC/268 5/06	23, A.K. NAGAR SOCIETY VISNAGAR LINK ROAD MEHSANA 384001, GUJRAT	BVSc&AH/SKDAU /06	19-Jun-81

Wednesday, February 28, 2007

Dr. ANUP BHAUMIK, Secy.
[ADVT.-III/IV/Exty/141/06]